

आर्य-साहित्य मण्डल लिमिटेड, अजमेर के लिये  
सर्वाधिकार सुरक्षित

---

मुद्रक—

बाबू मथुराप्रसाद शिवहरे  
दि फ़ाइन आर्ट प्रिन्टिंग प्रेस, अजमेर

\* ओ३म् \*

## प्रस्तावना

आयुर्वेद के जानने वाले विद्वानों और आयुर्वेद का अभ्यास करने वाले छात्रों को यह भली प्रकार विदित है कि आयुर्वेद के पढ़ने पढ़ाने में चरक-संहिता जैसा उत्तम ग्रन्थ दूसरा नहीं है। अनेक वैद्यक ग्रन्थों के होते हुए भी चरक ग्रन्थ ही अति प्राचीन है। प्राचीन होने पर भी इस गम्भीर शास्त्र की अनेक विलक्षण बातें पढ़ने और गम्भीर अनुशीलन करने वालों के लिये नवीन ही हैं। एक अमेरिकन विद्वान् का कथन है कि यदि केवल चरकोक्त चिकित्सा ही समुचित रीति से की जाय तो फिर अन्य चिकित्सा की आवश्यकता नहीं रह जाती। प्राचीन आयुर्वेद के विद्वानों का यह कथन सर्वथा सत्य है “चरकस्तु चिकिरिसते”। चिकित्सा में चरक तन्त्र ही विशेषता है।

चरक-संहिता में आयुर्वेद के उत्पत्ति प्रकरण में स्पष्ट लिखा है कि संसार में रोगों के फैल जाने से प्राणियों पर घोर संकट उपस्थित हुआ, मानव संसार में त्राहि २ मची थी उस समय करुणापूर्ण हृदय वाले ऋषि जनों ने एकत्र होकर इन्द्र से समस्त आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिये भरद्वाज ऋषि को प्रेरित किया। वे आयुर्वेद के प्रथम प्रवर्त्तक हुए। उनसे आत्रेय पुनर्वसु ने इस आयुर्वेद का ग्रहण किया। आत्रेय पुनर्वसु से श्री अग्निवेश ने इस शास्त्र का ग्रहण किया। अग्निवेश के सहाध्यायी भेड, जतुकर्ण, पराशर, हारीत, क्षारपाणि आदि भी अनेक थे। उन्होंने भी अपने २ तन्त्र अर्थात् भिन्न २ संहिताओं का निर्माण कर अपनी २ शिष्य-परम्परा

से प्रचारित किया, तो भी अभिवेश द्वारा प्रचारित चरक की महती प्रतिष्ठा हुई। परम्परा से प्राप्त गुरुपदेशों पर ऋषि आत्रेय पुनर्वसु के विशेष प्रवचन को सर्वत्र स्वीकार किया गया है।

इसी शास्त्र का प्रतिसंस्कार श्री महर्षि पतञ्जलि ने किया वे ही चरक नाम से विख्यात थे। इस में पञ्चनदपुर के निवासी आचार्य दृढबल ने अन्य अनेक शास्त्रों से सारोद्धार करके कई अध्यायों को जोड़ इस को पूर्णाङ्ग किया।

### चरक-संहिता की विशेषता

चरक-संहिता एक ऐसा आकर ग्रन्थ है जिसमें अनेक विशेषताएं हैं। सारा ग्रन्थ इस प्रकार संकलित हुआ है जैसे किसी अत्यन्त निर्भ्रान्त मस्तिष्क से छन कर आया है। भाषाशैली इतनी रोचक है कि वैद्यक का शास्त्र होकर भी स्थान २ पर उच्च कोटि के साहित्य की छटा दीखती है। चरक-संहिता के विमानस्थान ( अ० ८ सू० ३ ) में शास्त्र के जितने गुण लिखे हैं वे सब पूर्णांश में चरक-संहिता में घटते हैं। इस सर्वाङ्ग पूर्ण शास्त्र की महिमा को सभी ने अनुभव किया है। इसी से यह शास्त्र सर्वमान्य जगत्-भर में अद्वितीय है।

### चरक-संहिता पर भाष्य और टीकाएं

चरकाचार्य को हुए अब से दो सहस्र वर्षों से अधिक समय हुआ है। आचार्य दृढबल जिन्होंने चरक की पूति की है वे आज से १७०० वर्ष पूर्व हुए हैं और चरकचतुरानन चक्रपाणि ईसा की ११ वीं शताब्दी के मध्य में हुए हैं। आप वंगदेश के सुविख्यात राजवैद्य थे। पालवंशी राजा नयनपाल के आप राजकीय प्राणाचार्य थे। इनकी प्रसिद्ध टीका 'चरक-तात्पर्य-टीका' है जिसका दूसरा नाम आयुर्वेदटीपिका है।

( २ ) श्रीशिवदास की विरचित चरक की तात्पर्य टीका है।

( ३ ) श्रीकृष्ण भिषक् कृत श्रीकृष्णभाष्य है।

( ४ ) वैद्यवर कविराज गंगाधर सेन कृत टीका 'जल्पकल्पतरु' है ।

( ५ ) वैद्यरत्न कविराज श्रीयोगेन्द्रनाथ विरचित टीका 'चरकोपस्कार' है ।

इन में से श्री शिवदास कृत टीका बहुत प्रसिद्ध नहीं हैं । श्रीकृष्ण वैद्य गोदावरी षट्खेटक ग्राम के निवासी विद्वान् हैं । उनके श्रीकृष्ण भाष्य का उल्लेख लोलिम्बराज ने वैद्यजीवन नामक पुस्तक पर की हुई अपनी टीका में एक स्थान पर अपने वंश का परिचय देते हुए किया है । परन्तु देखने में नहीं आया । गंगाधर की टीका बंगला अक्षरों में छपी थी । इन सब में प्राचीन टीको 'चक्रपाणि' की ही है । इस और अन्यान्य टीकाओं के अतिरिक्त वैद्य शंकरदाजी यंदे ने चरक का मराठी अनुवाद किया है । यह भी एक विशद भाषान्तर है । हिन्दी में भी एक भाषान्तर बम्बई से प्रसिद्ध हुआ है ।

तो भी ऐसे भाषान्तर की अभी बड़ी आवश्यकता थी जो विद्यार्थी जनों के बड़े उपयोग का सिद्ध हो । उक्त प्रायः समस्त टीकाओं को समक्ष रख कर इस हिन्दी अनुवाद को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है । इस अनुवाद के कर्ता कविराज श्री अत्रिदेवजी गुप्त विद्यालङ्कार भिषगूरत्न हैं । आप एक अच्छे अनुभवी ही नहीं प्रत्युत योरोपीयन डाक्टरी-चिकित्सा के भी पर्याप्त अनुभवी हैं ।

### प्रस्तुत हिन्दी अनुवाद

चरक के अभी तक कई हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत हैं । परन्तु अभी तक भी ऐसा हिन्दी अनुवाद नहीं हुआ था जिसमें भाषा-दृष्टि से अनुवाद स्वतः स्वतन्त्र ग्रन्थ रूप से भी समझा जाता । इस प्रस्तुत अनुवाद में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है । भाषा ढीली, असंगत, अस्पष्ट नहीं रहने दी है । साथ ही अनुवाद इतना सरल तथा परिमित करने का यत्न किया गया है कि यदि स्वल्प संस्कृत जानने वाले, या न जानने वाले भी सामा-



न्यतः अनुवाद को मूल से तुलना करें तो सहज ही उनको यह चिदित हो जावेगा कि अमुक वाक्य का अनुवाद अमुक वाक्य है । यहां तक कि शब्द प्रतिशब्द अनुवाद भी सहज में समझ में आता है । मूल साथ न भी रहे तो भी ग्रन्थ के पाठ में कोई विच्छेद या अडचन अनुभव नहीं होती । भाषान्तर करते हुए चरक के मूल-संहिता के वाक्यों, खण्डों और प्रकरणों को ऐसी उत्तम रीति से पृथक् पृथक् किया है कि एक २ प्रकरण पृथक् २ हो गया है । जिससे विद्यार्थियों को पढ़ने में थोड़ी सी भी असुविधा न हो । जिस स्थान पर भाव कुछ अस्पष्ट है वहां ग्रन्थ के तात्पर्य को खोलकरके लिख दिया है । जहां आवश्यक प्रतीत हुआ है वहां अन्य शास्त्र के उद्धरण और मतों का उल्लेख भी टिप्पणी में कर दिया है, जिससे विद्यार्थियों के ज्ञान की वृद्धि हो । जो पद अस्पष्ट है उसका सरल अर्थ साथ ही कोष्ठ में दिया है । अनेक ओषधियों के नामों के साथ २ कोष्ठों में हिन्दी के प्रचलित नाम रख दिये हैं । हमने अपनी ओर से इस बात का भी ध्यान रखा है कि जहां विद्यार्थियों के हाथों में उपयोगी समस्त सामग्री प्राप्त हो वहां विद्यार्थी जनों के हाथों में ऐसा विशाल पोथा भी न हो, जिसे देख कर वे घबरा जावे और भय अनुभव करें, अध्ययन अध्यापन के अवसर में भी उनको ग्रन्थ का बड़ा परिमाण असुविधाजनक न हो ।

इस प्रथम भाग में केवल तीन ही स्थान आ सके हैं, सूत्रस्थान, निदानस्थान और विमानस्थान । अगले स्थानों को अगले खण्डों में प्रकाशित किया जावेगा ।

### विद्वान् और वैद्य महानुभावो से निवेदन

जो विद्वान्, गुणग्राही वैद्य, कविराज आदि ऐसे महानुभाव हैं जिनके पास नित्य विद्यार्थियों का अध्ययनाध्यापन चलता हो वे यदि प्रस्तुत हिन्दी अनुवाद को और भी अधिक उपयोगी बनाने के लिये कोई परामर्श देंगे वा स्थान २ पर विशेष विचार, विमर्श, टिप्पणी, परिष्कार आदि आवश्यक वा अपेक्षित जानें वे अवश्य मण्डल के कार्यालय में सूचित

करेंगे, जिसका सदुपयोग द्वितीय संस्करण में हो सकेगा। हम उन महानुभावों के अत्यन्त आभारी होंगे।

### आयुर्वेद के अन्य ग्रन्थ

आयुर्वेद के प्रेमी वैद्यों और वैद्यक के विद्यार्थियों ने चरक के इस अनुवाद को अपनाया तो मण्डल आयुर्वेद-ग्रन्थमाला में सुश्रुत, अष्टांग संग्रह, माधवनिदान, शार्ङ्गधर, भैषज्यरत्नावली आदि अनेक आयुर्वेद के ग्रन्थों को इसी प्रकार सुन्दर रूप और सुलभ दामों में प्रकाशित करेगा।

इस के अतिरिक्त चरक ग्रन्थ को अभी और अधिक उपयोगी बनाने के लिये एक ऐसे प्रवचन की आवश्यकता है जिसमें अभी तक प्रचलित चिकित्सा के सम्प्रदायों की भिन्न २ शैलियों की तुलना करते हुए आयुर्वेद का महत्त्व स्पष्ट किया जावे और योरोपीयन विद्वानों के अनेक अनुसन्धानों का वास्तविक मूल भी आर्ष-ग्रन्थों में दर्शाया जावे। हमें स्वयं खेद है कि ऐसा परिचय अभी तक अनुवादक महोदय लिख नहीं सके और १ म खण्ड के साथ उसे हम नहीं दे सके। तो भी ऐसा परिचय लिखा जा रहा है। जिसे भगले खण्डों के साथ दिया जावेगा।

प्राचीन आयुर्वेद का रोग-विज्ञान और चिकित्सा का आधार वात, पित्त, कफ इस त्रिदोष पर आश्रित है। इन दोषों का वास्तविक रूप क्या है? विकृत रूप क्या है? इन तीन वर्गों में देह के घटक अनेक रासायनिक तत्व किस प्रकार विभाजित होते हैं? उनकी शरीर में न्यून अधिकता किस प्रकार होती है? यह सब वाते अनुसन्धानपूर्वक तुलना करके लिखनी आवश्यक है। पाश्चात्य विज्ञान में कीटाणु-कल्पना (Germ Theory) और इन्जैक्शन ये दो बड़े तन्त्र हैं। इनका भी स्थान २ पर प्राचीन आर्ष ग्रन्थों में उल्लेख है और इस सम्बन्ध में सफलता प्राप्त हो चुकी थी, इस का विस्तृत विवेचन आवश्यक है।

शल्य-चिकित्सा (सर्जरी) का कार्य भी आर्ष काल में बड़ा उन्नत

था । इसका ज्ञान सुश्रुत ग्रन्थ से मालूम होता है । इस पर बहुत आश्चर्यजनक खोजें हैं । इन सब संकलन करने योग्य अंशों को लेकर विशेष परिचायक ग्रन्थों को कालान्तर में पाठकों को भेंट करेंगे ।

जो विद्वान् ऊपर लिखे प्रकार के खोजपूर्ण वैद्यक या डाक्टरी सम्बन्धी तुलनात्मक ग्रन्थ लिखने में समर्थ हों, या लिख चुके हों वे अवश्य उस को प्रकाशित करने के लिये हम से पत्रव्यवहार करेंगे ।

—प्रकाशक



# चरक-संहिता

## विषय-सूची

### सूत्रस्थानम्

प्रथमोऽध्यायः ( पृ० १-३६ )

दीर्घजीवितीयः—ऋषि भरद्वाज का इन्द्र के पास गमन ( १ )--  
रागों का प्रादुर्भाव ( २ )—ऋषियों की सभा ( ३ )—रोग शान्ति के  
उपाय पर विचार—इन्द्र के पास जाने के लिये भरद्वाज का निश्चय  
( ४ )—भरद्वाज का इन्द्र से त्रिस्कन्ध आयुर्वेद का ग्रहण ( ५ )—  
भरद्वाज से ऋषियों का आयुर्वेद-अध्ययन ( ६ )—आत्रेय पुनर्वसु का  
छः शिष्यों को उपदेश ( ७ )—प्रथम तन्त्रप्रणेता अश्विवेश ( ८ )—भेद  
आदि अन्य तन्त्रकार—आयुर्वेद का लक्षण—आयु का लक्षण ( ९ )—  
आयु के पर्यायवाची शब्द—सामान्य और विशेष ( ११ )—आयुर्वेद के  
प्रकाश करने का प्रयोजन ( ११ )—द्रव्य ( १२ )—गुण ( १३ )— इन्द्रियों  
के अर्थ ( १३ )—कर्म ( १४ )—समवाय । द्रव्य का लक्षण ( १४ )—गुणों  
का लक्षण—कर्म का लक्षण ( १५ )—सामान्य आदि छः कारण—उनके  
कार्य—धातुओं के विषम होने का कारण—सुख-दुःखों का आश्रय—  
आत्मा का स्वरूप ( १६ )—रोगप्रकृति—रोगों का प्रतीकार और उनके  
भेद ( १७ )—वायु का लक्षण—पित्त का लक्षण—कफ का लक्षण ( १८ )  
—साध्य रोगों की शान्ति—रसों की उत्पत्ति ( १९ )—रसों द्वारा दोषों  
की शान्ति—द्रव्य के भेद ( २० )—जंगम द्रव्य—भौम द्रव्य ( २१ )—  
औद्भिद् द्रव्य के चार भेद—उनके अंग ( २२ )—मूलिनी वनस्पतियां—  
उनकी गणना—इनके कर्म ( २३ )—फलिनी वनस्पतियां—इनके कर्म

( २४ )—चार प्रकार के स्नेह इनके कर्म—लवण ( २५ )—इनके कर्म—आठ प्रकार के मूत्र ( २६ )—मूत्रों के सामान्य गुण ( २७ )—आठ प्रकार के दूध—उनके सामान्य गुण ( २९ )—दूध के कर्म ( ३० )—दूध वाले वृक्ष—उनके गुण ( ३१ )—उपसंहार ( ३२ )—ओषधि ज्ञान का प्रयोजन—न जानी हुई औषधियों से हानियों ( ३३ )—वैद्य के कर्त्तव्य ( ३४ )—अध्याय संग्रह ( ३५ ) ।

### द्वितीयोऽध्यायः ( पृ० ३६-४७ )

अपामार्गतण्डुलीयः—शिरोंविरेचनोपयोगी द्रव्य ( ३७ )—चमनकारक द्रव्य—विरेचन द्रव्य ( ३८ )—आस्थापन और अनुवासन के द्रव्य ( ३९ )—मात्रा और काल के विचार की आवश्यकता ( ४० )—रोगियों के लिये विशेष आहार द्रव्य, यवागू और विलेपीपाक ( ४१ )—उपसंहार ( ४६ ) ।

### तृतीयोऽध्यायः ( पृ० ४७-५६ )

आरग्वर्धीयः—त्वक्-रोगों पर ३२ योगों का वर्णन ( पृ० ५७-५६ )

### चतुर्थोऽध्यायः ( पृ० ५७-८० )

पञ्चविरेचनशताध्रितीयः—विरेचन का शब्दार्थ—संशमन चिकित्सा ( ५७ )—विरेचन के छ सौ योग ( ५८ )—विरेचन ओषधियों के ६ आश्रय—कपाय की पांच योनियां ( ५९ )—कपाय कल्पना की ५ विधि ( ५९ )—कपायों के लक्षण ( ५९ )—५० महाकपाय ( ६० )—५०० कपायों की कल्पना ( ६०-८० )—उत्तम वैद्य ( ८० ) ।

### पञ्चमोऽध्यायः ( पृ० ८०-१०९ )

मात्राश्रितीयः—आहार की मात्रा—आहार के चार प्रकार ( ८१ )—मात्रा में खाने का फल ( ८४ )—त्वस्थवृत्त ( ८६ )—धूम्र प्रयोग की विधि ( ८८ )—स्नैहिक धूम—वैरेचनिक धूम—( ८९ )—धूम्रपान के गुण ( ८९ )—धूम्रपान के आठ काल ( ९१ )—ठीक प्रकार से पान किये धूमपान का लक्षण ( ९२ )—अधिक धूम्रपान से उत्पन्न

उपद्रव और उनकी चिकित्सा ( ९३ )—धूम्रपान के अयोग्य जन ( ९३ )  
 —धूम पीने की विधि ( ९४ )—धूमपान के आसन ( ९५ )—नलिका  
 की बनावट ( ९६ )—अयोग्य रूप में पिये धूम के लक्षण ( ९६ )—  
 अतियोग के रूप में धूमपान के लक्षण ( ९६ )—नस्य प्रयोग ( ९७ )—  
 अणु तैल की विधि ( ९८ )—दन्तधावन की विधि ( १०० )—दातुन  
 करने के लाभ ( १०० )—जीभ को साफ़ करने की विधि ( १०० )—  
 दातुन के लिये उत्तम वृक्ष ( १०१ )—स्नेहगण्डूष के गुण ( १०१ )—  
 शिर पर तैल लगाने के लाभ ( १०२ )—कान में तैल डालने के लाभ  
 ( १०३ )—शरीर पर तैल लगाने की विधि ( १०४ )—पांव में तैलमर्दन  
 के गुण ( १०४ )—उबटन लगाना ( १०५ )—स्नान का फल ( १०५ )  
 —स्वच्छ वस्त्र पहिनने के गुण ( १०५ )—गन्ध माला आदि धारण करने  
 के गुण ( १०६ )—रत्न, आभूषण आदि धारण करने के लाभ ( १०६ )  
 —दीर्घायु के लिये आवश्यक शुचिकर्म ( १०६ )—जूता पहिनने के  
 गुण ( १०७ )—दण्ड धारण के गुण ( १०७ )—संक्षेप से स्वस्थवृत्त ( १०८ )  
 —उपसंहार ( १०८-९ ) ।

### —षष्ठोऽध्यायः ( पृ० १०९-१२० )

तस्याशित्तीयः—भोजन पर आश्रित आदान और विसर्ग काल का  
 वर्णन ( ११० )—दो अयन ( १११ )—हेमन्तकाल की परिचर्या ( ११२ )  
 हेमन्त ऋतु में त्याज्य ( ११३ )—वसन्त की ऋतुचर्या ( ११४ )—ग्रीष्म-  
 चर्या—वर्षाकाल की ऋतुचर्या ( ११६ )—शरदृऋतु की परिचर्या ( ११७ )  
 —हंसोदक का लक्षण ( ११८ )—ओकः-सात्म्य ( ११९ )—उपसंहार  
 ( ११९-२० ) ।

### सप्तमोऽध्यायः ( पृ० १२०-१३५ )

न वेगान्धारणीयः—मल मूत्र आदि के न रोकने का उपदेश  
 ( १२० )—उनके रोकने से हानिये और चिकित्सा ( १२० )—मन के  
 निन्दित कार्य ( १२५ )—वाणी के निन्दित कर्म—शरीर के निन्दित

—सांख्यन्यायन कुश का मत ( १८६ )—कुमारगिरा भारद्वाज का मत ( १८९ )—क्रांकायन का मत ( १९० )—धामार्गव वडिश का मत ( १९० )—वायोंविट का मत ( १९१ )—मरीचि का मत ( १९२ )—वायोंविट-मरीचि-संवाद ( १९४-९५ )—मरीचि काप्य संवाद ( १९५ )—पुनर्वसु आत्रेय का मत । टपसंहार ( १९७ ) ।

त्रयोदशोऽध्यायः ( पृ० १९७-२१७ )

स्नेहाध्यायः—अग्निवेश का प्रश्न ( १९७ )—पुनर्वसु का प्रति-वचन ( १७८ )—स्नेहों के दो प्रकार के उत्पत्तिम्यान—न्यावर और जंगम ( १९९ )—सब तैलों में सर्वश्रेष्ठ तिल तैल और स्नेहों में घृत ( १९९ )—स्नेहों के गुण ( २०० )—स्नेहपान गुण—उससे हानियाँ ( २०१ )—स्नेह की २४ प्रकार की प्रविचारणाणुं ( २०१-२ )—स्नेह की तीन मात्रा प्रधान, मध्यम, द्रुम ( २०३-४ )—कौनसा स्नेह किसके लिये हितकारी ( २०५ )—स्नेह के अयोग्य व्यक्ति ( २०७ )—स्निग्ध, अस्निग्ध, अति स्निग्धके लक्षण ( २०८ )—स्नेहन कालमें हिताहित ( २०९ )—टपसंहार ( २१७ ) ।

चतुर्दशोऽध्यायः ( पृ० २१७-२३४ )

स्वेदाध्यायः—स्वेदविधि ( २१७ )—स्नेहन, स्वेदन के गुण—उपयोगिता—उसके परिणाम ( २१९ )—स्वेदन की अवधि—अतिस्वेदन के लक्षण और उपचार ( २२० )—स्वेद न देने योग्य व्यक्ति ( २२० )—स्वेद-योग्य व्यक्ति ( २२१ )—स्वेदन द्रव्य ( २२२ )—नाडीस्वेद ( २२३ )—उपनाहविधि ( २२४ )—संकरस्वेद ( २२५ )—प्रस्तरस्वेद ( २२७ )—नाडीस्वेद ( २२६ )—परिपेकस्वेद ( २२६ )—अवगाहस्वेद ( २२७ )—जेन्ताकस्वेद ( २२७-२८ )—अप्पवनस्वेदविधि ( २२९-३० )—कपूस्वेद ( २३० )—कुटीस्वेदविधि ( २३० )—भूस्वेदविधि ( २३१ )—कुम्भीस्वेदविधि ( २३१ )—कृपस्वेद ( २३२ )—होलाकस्वेद ( २३२ )—अभिरहित स्वेद

( २३३ )—स्वेद के दो प्रकार अग्निस्वेद, निरग्नि—इनके भेद ( २३३ )  
—उपसंहार ( २३४ ) ।

पञ्चदशोऽध्यायः ( पृ० २३४-२४७ )

उपकल्पनीयः—चिकित्सा के पूर्व उचित साधनों के संग्रह का प्रयोजन ( २३४-३५ )—आयुर्वेद के ज्ञान-अज्ञान की तुलना—अग्निवेश-आत्रेय संवाद ( २३५ )—संशोधन के उपयोगी नाना प्रकार के उपकरणों का संग्रह ( २३७ )—स्नेहन, स्वेदन की विधि ( २३१-२३२ )—वमन के अयोग, सम्यक्योग और अतियोग के विशेष लक्षण ( २४२ )—उत्तर उपचार ( २४३-२४७ )—उपसंहार ।

षोडशोऽध्यायः ( पृ० २४७-२५५ )

चिकित्साप्राभृतीयः—सद् वैद्य और असद् वैद्य के प्रयोगों में भेद ( २४८ )—सम्यग्विरेचन के लक्षण ( २४२ ) विरेचन के अतियोग के लक्षण ( २४९ )—संशोधन योग्य व्यक्ति ( २५० )—संशोधन का फल ( २५१ )—अतियोग होने पर क्या करना चाहिये ( २५१ )—धातुओं की समता और विषमता पर विचार ( २५२-५३ )—उपसंहार ( २५४-५५ ) ।

सप्तदशोऽध्यायः ( पृ० २५५-२७८ )

कियन्तःशिरसीयः—शिरोरोग, हृदयरोग, वात आदि दोषों के संसर्गों से उत्पन्न रोग क्षय और-पिडका और दोषों की गति के सम्बन्ध में अग्निवेश का प्रश्न ( २५५ )—गुरु आत्रेय पुनर्वसु का प्रतिवचन ( २५६ )—शिर में उत्पन्न होने वाले पांच प्रकार के शिरोरोग ( २५७ )—वात-जन्य शिरोरोग के लक्षण ( २५८ )—पित्तजन्य, कफजन्य और त्रिदोषजन्य शिरोरोग के लक्षण ( २५९ )—पांच प्रकार के हृदय रोग ( २६० )—वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, और त्रिदोषजन्य हृदयशूल के लक्षण ( २६१ )—कृमिजन्य हृदयरोग के लक्षण ( २६२ )—वात आदि दोषों के संसर्ग से उत्पन्न विकारों के ६२ भेद ( २६२-६३ )—दोषों के उपद्रव



( २६५-६६ )—अट्टारह प्रकार के क्षय ( २६९ )—ओज का स्वरूप ( २६९ )—क्षय के कारण ( २६९ )—मधुमेह के कारण ( २७० )—सात पिडकाएं ( २७१ )—विद्रधि, पिडका ( २७२ )—विद्रधि का निदान ( २७३ )—स्राव के लक्षण ( २७३ )—साध्य-असाध्य विद्रधि के लक्षण ( २७४ )—भेद के दोष से उत्पन्न पिडकाएं—शराविका, कच्छपिका, जालिनी, सर्पपी, अलजी, विनता आदि—इनके उपद्रव ( २७६ )—दोषों की तीन प्रकार की गति ( २७७ ) तीन प्रकार की और गति, संचय, प्रकोप और शमन—संचय के दो भेद—प्राकृत और वैकृत ( २७८ )—उपसंहार ( २७८ ) ।

अष्टादशोऽध्यायः ( पृ० २७८-२९० )

त्रिंशोऽध्यायः—तीन प्रकार का शोथ ( सूजन )—उसके पुनः दो प्रकार निज और आगन्तु । आगन्तु शोथ का निदान—चिकित्सा ( २७७ )—निज शोथ के कारण और सामान्य लक्षण ( २८० )—वातजन्य शोथ के लक्षण ( २८२ )—शोथ के दो, तीन, चार, और सात प्रकार ( २८२ )—वात, पित्त, कफ और सन्निपात आदि से उत्पन्न शोथों के लक्षण ( २८३ )—कष्टसाध्य शोथ ( २८४ )—शोथ के उपद्रव ( २८५ )—उपजिह्विका, गलगुण्डिका, गलगण्ड, गलग्रह, विसर्प, पिडका और शंखक के लक्षण ( २८५-८६ )—गुल्म, ब्रध्न, उदर, आनाह, का लक्षण ( २८७ )—रोहिणी रोग, ( २८७ )—मृदु, दारुण भेद से साध्य-असाध्य रोग के लक्षण ( २८८ )—पीड़ा, वर्ण, समुत्थान, कारण, स्थान, संस्थान नाम भेद आदि के कारण रोग के असंख्य भेद ( २८८ )—दोषों के प्रकृत और विकृत के लक्षण ( २८९-९० )—उपसंहार ( २९० ) ।

ऊनविंशोऽध्यायः ( पृ० २९१-२९९ )

अष्टोदरीयः—उदर रोग आदि ४८ प्रकार के रोगों की गणना और उनके भेदों के नाम से निर्देश ( २९२ )—आठ प्रकार के उदर रोग ( २९२ )—सात प्रकार के कुष्ठ ( २९३ )—छः प्रकार के अतीसार

( २९३ )—पांच प्रकार के गुल्म ( २९४ )—चार प्रकार का अपस्मार  
( २९४ )—तीन प्रकार का शोथ ( २९५ )—दो प्रकार का ज्वर ( २९५ )  
—दो प्रकार के व्रण—दो आयाम—दो प्रकार की गृधसी—दो प्रकार का  
कामला—दो प्रकार का आम—दो प्रकार का वातरक्त—एक प्रकार का  
उरुस्तम्भ—एक प्रकार का संन्यास—एक प्रकार का महागद ( २९५—  
६६ )—बीस प्रकार की क्रिमि जातियाँ—बीस प्रकार के प्रमेह—बीस  
प्रकार के योनिरोग ( २९७ )—उपसंहार ( २९८ ) ।

विशोऽध्यायः ( पृ० २९९—३१० )

महारोगाः—चार प्रकार के रोग ( २९९ )—इनकी समानता,  
लिंग और आयतन भेद से असंख्य रोग—उनका भेदक कारण ( ३०० )—  
दो प्रकार के विकार—सामान्य और नानात्मज ( ३०२ )—अस्ती प्रकार  
के वातविकार ( ३०३ )—चालीस पित्तविकार ( ३०६ )—उनके लक्षण  
( ३०७ )—बीस कफजन्य रोग ( ३०८ )—उनके लक्षण ( ३०९ )  
—उपसंहार ( ३१० ) ।

एकविंशोऽध्यायः ( पृ० ३११—३२२ )

अष्टौ निन्दितयः—आठ निन्दित पुरुष ( ३११ )—विशेष रूप  
से निन्दित दो, अतिस्थूल और अतिकृश ( ३१२ )—स्थूल पुरुष के दोष,  
कारण और लक्षण ( ३१३ )—अतिकृश के दोष, कारण और लक्षण ( ३१४ )  
—आदर्श पुरुष ( ३१५ )—स्थूल को कृश बनाने के लिये उपाय ( ३१६ )  
—कृश रोग की चिकित्सा ( ३१७ )—निद्रा के उचित सेवन के लाभ  
( ३१८ )—दिन में सोने के योग्य व्यक्ति, उन को दिन में सोने के लाभ  
( ३१८—१९ )—दिन में सोने का उचित काल—प्रीप्म ऋतु—अन्य ऋतुओं  
में दिन में सोने से हानियाँ ( ३२० )—रात्रिजागरण के दोष ( ३२० )  
—निद्रोत्पादक उपाय ( ३२१ )—अनुचित निद्रा को रोकने के उपाय  
( ३२२ )—उपसंहार ( ३२२ ) ।

### द्वाविंशतितमोऽध्यायः ( पृ० ३२२-३३० )

लंघनवृंहणीयः—वैद्य का लक्षण ( ३२२ )—लंघन वृंहण, स्नेहन, स्तंभन के सम्वन्ध में अग्निवेश का प्रश्न ( ३२३ )—आत्रेय पुनर्वसु का प्रतिवचन ( ३२४ )—लंघन, वृंहण, स्वेदन, स्तम्भन के लक्षण ( ३२४ )—लंघन, वृंहण आदि कारक द्रव्यों के लक्षण ( ३२५ )—लंघन के योग्य व्यक्ति ( ३२६ )—वृंहण के योग्य द्रव्य और व्यक्ति ( ३२७ )—विरुक्षण करने योग्य व्यक्ति और द्रव्य ( ३२७ )—स्तम्भन द्रव्य और स्तंभन योग्य व्यक्ति ( ३२८ )—सम्यक् लंघन और लंघन के अतियोग के लक्षण ( ३२८ )—सम्यक् वृंहण और वृंहण के अतियोग के लक्षण ( ३२९ )—रुक्षण के सम्यक्योग और अतियोग ( ३२९ )—स्तम्भन के सम्यक्योग और अतियोग के लक्षण ( ३२९ )—लंघन आदि छः क्रियाओं के अयोग, हीनयोग के दुष्परिणाम ( ३२९ ) ।

### त्रयोविंशतितमोऽध्यायः ( पृ० ३३०-३३६ )

सन्तर्पणीयः—सन्तर्पणजन्य रोग के कारण ( ३३० )—रोगों के लक्षण—उनकी चिकित्सा ( ३३१ )—अपतर्पण और तज्जन्य रोग—उनका उपशमन ( ३३५ ) ।

### चतुर्विंशतितमोऽध्यायः ( पृ० ३३६-३४६ )

विधिशोणितीयः—विशुद्ध रक्त का लाभ ( ३३६ )—रक्त दूषित होने के कारण और लक्षण ( ३३७-३८ )—चिकित्सा ( ३३९ )—विशुद्ध रक्त का लक्षण ( ३४० )—विशुद्ध रक्त वाले पुरुष का लक्षण ( ३४० )—मद के लक्षण ( ३४१ )—मूर्च्छा के लक्षण ( ३४२ )—अपस्मार और संन्यास के लक्षण ( ३४३-४४ )—हन के उपाय ( ३४५ )—उपसंहार ( ३४६ ) ।

### पञ्चविंशतितमोऽध्यायः ( पृ० ३४६-३६७ )

यत्नःपुरुषीयः—पुरुष और रोग की उत्पत्ति पर ऋषियों का

संवाद ( ३४७ )—पारीक्षि मौद्गल्य का मत—पुरुष और रोगों का उपादान कारण 'आत्मा है ( ३४७ )—शरलोमा का मत—पुरुष और रोगों का उत्पादक 'सत्त्व' है ( ६४७-४८ )—चार्योविद का मत—प्राणियों और रोगों का उत्पत्ति मूल 'रस' है ( ३४८ )—कुशिक हिरण्याक्ष का मत—पुरुष और रोग ६ धातुओं से उत्पन्न होते हैं ( ३४८ )—शौनक का मत—रोगों और पुरुष की उत्पत्ति माता पिता से हुई ( ३४९ )—भद्रकाप्य का मत—कर्म से पुरुष और रोग उत्पन्न होते हैं ( ३४९ )—भरद्वाज का मत—कर्त्ता से स्वभावतः पुरुष और रोग उत्पन्न होते हैं ( ३४९ )—कांकायन का मत—सुख दुःख, चेतन अचेतन का कर्त्ता प्रजापति है ( ३५० )—आत्रेय भिक्षु का मत—पुरुष और रोगादि काल से उत्पन्न होते हैं—पुनर्वसु आत्रेय का सिद्धान्त पञ्च महाभूतों से पुरुष और उनसे ही रोग उत्पन्न हुए ( ३५१ )—इस पर पुरुषों और रोगों की वृद्धि के कारण के विषय में काशिपति वामक का प्रश्न ( ३५१ )—भगवान् आत्रेय का प्रतिवचन—हिताहित सेवन ( ३५१ )—अग्निवेश आत्रेय संवाद—हित-अहित का लक्षण ( ३५२ )—आहार द्रव्य पर विचार ( ३५३ )—हित आहार ( ३५४ )—अहित आहार ( ३५५ )—हित और अहित उपयोगी द्रव्य—१४२ श्रेष्ठ द्रव्य ( ३५८ )—श्रेष्ठ का लक्षण ( ३६३ )—द्रव्यों के नौ उत्पत्ति स्थान ( ३६५ )—उपसंहार ( ३६७ ) ।

### षड्विंशोऽध्यायः ( पृ० ३६७-४०५ )

आत्रेयभद्रकाप्यीयः—ऋषि संवाद ( ३६७ )—रस के विषय में भद्रकाप्य का मत—रस एक है—ब्राह्मण शाकुन्तेय का मत—रस दो हैं—पूर्णाक्ष मौद्गल्य का मत—रस तीन है—हिरण्याक्ष कौशिक का मत—रस चार होते हैं—कुमारशिरा भरद्वाज का मत—रस पाच हैं ( ३६८ )—चार्योविद का मत—रस छ. हैं—वैदेह निमि का मत—रस सात है—धामार्गव बडिश का मत—रस आठ हैं—बाल्हीक भिषक्

कांकायन का मत—रस अगणित हैं ( ३६९ )—पुनर्वसु आत्रेय का मत—रस छः हैं—रसों की उत्पत्ति, कर्म, रुचि और प्रभाव ( ३६९ )—रस विवेचन ( ३७० )—द्रव्यों के भेद—उनके कर्म ( ३७० )—कर्म, वीर्य, काल, अधिकरण, उपाय तथा फल के लक्षण ( ३७२ )—द्रव्य, देश, काल, प्रभाव से द्रव्यों के ६३ भेद ( ३७३ )—रसों के भेद—दो दो रस के १५ भेद ( ३७३ )—तीन २ रसों के २० भेद ( ३७४ )—चार चार रसों के १५ भेद ( ३७५ )—पांच २ रसों के छः भेद ( ३७६ )—एक २ रस के छः भेद, सर्वयोग ६३ रस ( ३७६ )—वैद्यप्रशंसा ( ३७७ )—अनुरस ( ३७७ )—अतिरिक्त दश गुण । इनके लक्षण ( ३७८-७९ )—रसों की उत्पत्ति ( ३८० )—रसों के अनुसार द्रव्यों के गुण कर्म ( ३८२ )—मधुर रस ( ३८२ )—अम्ल रस ( ३८३ )—लवण रस ( ३८४-८५ )—बहुत उपयोग से हानियाँ ( ३८५ )—फट्ट रस के गुण—अति सेवन से हानियाँ ( ३८६ )—तिक्त रस के गुण—उसके अति सेवन से हानियाँ ( ३८७ )—कषाय रस के गुण—और उसके अति सेवन से हानियाँ ( ३८७ )—रसानुसारी द्रव्यों का वीर्य ( ३८८ )—रसों में तर-तमयोग ( ३९० )—विपाक ( ३९१ )—पदार्थों के वीर्य ८ प्रकार के ( ३९२ )—विपाक का लक्षण ( ३९३ )—प्रभाव ( ३९४ )—छः रसों के लक्षण ( ३९५ )—विरोधी आहारों के लक्षण—उनके गुण दोष ( ३९६-४०० )—हितकारी अन्न ( ४०२ )—कालविरुद्ध, देशविरुद्ध, अग्निविरोधी, परस्परविरोधी, सात्म्यविरोधी, दोषविरोधी, सस्कारविरुद्ध, वीर्यविरोधी, कोष्ठविरोधी, अवस्थाविरुद्ध, क्रमविरुद्ध, परिहारविरोधी, पाकविरोधी, सयोगविरोधी, सम्पद्द्विरुद्ध, और शास्त्रविरुद्ध आहारों का वर्णन ( ४०२-३ )—विरोधी अन्न सेवन से रोगों की उत्पत्ति ( ४०३-४ )—विरुद्ध अन्न सेवन से उत्पन्न रोगों का प्रतिकार ( ४०४ )—उपसंहार ( ४०५ ) ।

## सप्तविंशोऽध्यायः ( पृ० ४०५-४६८ )

अन्नपानविधिः—प्राणरूप अन्न का स्वरूप ( ४०६ )—प्राणों का मूल जाठराग्नि—अन्न इन्धन—अन्नपान विधि का विस्तार से वर्णन ( ४०६ )—जल, क्षार, घृत, दूध, मद्य, सिरका, फाणित, पिण्याक, दालें, मधु आदि के सामान्य गुण दोष ( ४०६-७ )—आहार पदार्थों के १२ वर्ग—शूकधान्यवर्ग ( ४०७-१० )—शमीधान्यवर्ग ( ४१०-१२ )—मांसवर्ग ( ४१२-२१ )—विलेशय—वारिशय—जलचर—जंगलीमृग—विकिर—प्रतुद—प्रसह और आनूप ये मांस के आठ उत्पत्ति स्थान ( ४१५-४१६ )—इन मांसों के गुण ( ४१८-२१ )—शाकवर्ग ( ४२१-२७ )—फलवर्ग ( ४२७-३३ )—हरितवर्ग ( ४३४-३६ )—मद्यवर्ग ( ४३६-३९ )—जलवर्ग ( ४३६-४३ )—दुग्धवर्ग ( ४४३-४६ )—द्वक्षुवर्ग ( ४४६-४९ )—कृतान्नवर्ग ( ४४९-५६ )—आहारयोगिवर्ग ( ४५६-६० )—प्रशस्त धान्य ( ४६०-६१ )—त्याज्य मांस ( ४६१ )—त्याज्य शाक ( ४६२ )—अनुपान ( ४६३ )—उनके गुण ( ४६३ )—जल के अनुपान के अयोग्य व्यक्ति ( ४६४ )—खाद्य पदार्थों में गुरु लघु विचार ( ४६५ )—उपसंहार ( ४६८ ) ।

## अष्टाविंशोऽध्यायः ( पृ० ४६९-४८१ )

विविधाशितपीतीयः—शरीर के सब धातुओं का अन्न से सम्बन्ध ( ४६७ )—आहार से उत्पन्न तीन पदार्थ—रस, किट्ट और मल—हितअहित आहार और रोग और आरोग्यविषयक अग्निवेश का प्रश्न—आत्रेय पुनर्वसु का समाधान ( ४७३ )—धातु रगत रोग—रसजन्य रोग ( ४७५ )—रक्तजन्य, मांसजन्य, मेदजन्य, मज्जाजन्य और शुक्रजन्य रोग ( ४७६ )—अपथ्याहार से मलों का प्रकोप ( ४७७ )—धातुजन्य विकारों की चिकित्साओं का निर्देश ( ४७८ )—उपसंहार ( ४८१ ) ।  
इत्यन्नपानचतुष्कम् ॥

## एकोनत्रिंशोऽध्यायः ( पृ० ४८२-४८९ )

दश प्राणायतनीयः—प्राण के दस स्थान ( ४९२ )—प्राणाभिसर वैद्य के लक्षण ( ४८४-८६ )—रोगाभिसर वैद्य के लक्षण ( ४८७ )—हृद्वावेपी वैद्यो का वर्णन ( ४८८ )—उपसंहार ( ४८८ ) ।

## त्रिंशत्तमोऽध्यायः ( पृ० ४८९-५०९ )

अर्थे दशमहामूलीयः—हृदय मे आश्रित दस धमनियों ( ४८९ )—हृदय के पर्याय ( ४८९ )—हृदय का महत्त्व ( ४९० )—दस महामूल धमनियों का प्रतान ( ४९१ )—धमनी के पर्याय ( ४९१ )—सेवन योग्य पदार्थ ( ४९२ )—आयुर्वेद के ज्ञाता के लक्षण ( ४९३ )—वाक्यार्थ—‘अर्थव्यवदा’ निरूपण ( ४९३ )—आयुर्वेद का मूल वेद अथर्व वेद ( ४९४ )—आयु के समानार्थक पर्याय ( ४९४ )—आयुर्वेद का लक्षण ( ४९४ )—आयु का लक्षण ( ४९५ )—आयुर्वेद की नित्यता आयुर्वेद के आठ अंग ( ४९८ )—आयुर्वेद के अधिकारी ( ४९६ )—वैद्य की परीक्षा ( ४९९ )—चरक तन्त्र के आठ स्थान—उनके अध्यायो की पृथक् २ गणना—और नाम से निर्देश ( ५०१-५ )—तन्त्रयुक्ति ( ५०५ )—ग्रन्थ संक्षेप ( ५०६ )—प्रतिवादी उत्पाती वैद्याभास को पराजय करने का प्रकार ( ५०७ )—तन्त्रविज्ञों और गर्वीले वैद्यो के स्वरूप ( ५०८ )—उपसंहार ( ५०९ ) । इति सूत्रस्थानम् ॥

## निदानस्थानम्

## प्रथमोऽध्यायः ( पृ० ५१०-५२६ )

ज्वरनिदानम्—निदान के पर्याय ( ५१० )—रोग के तीन प्रकार ( ५११-१४ )—आग्नेय, सौम्य और वायव्य ( ५११ )—निदान पञ्चक अर्थात् रोग के पर्याय ( ५११ )—पूर्वरूप—लिंग—उपशय, सम्प्राप्ति के लक्षण ( ५११-१४ )—सम्प्राप्ति के भेद ( ५१३-१४ )—ज्वर निदान

( ५१५ )—वातज्वर के लक्षण ( ५१६ )—पित्तज्वर सम्प्राप्ति और लक्षण ( ५१७ )—कफज्वर—सम्प्राप्ति और लक्षण ( ५१९ )—संसर्गज व सान्निपातिक ज्वर ( ५२० )—आगन्तु ज्वर सम्प्राप्ति—लक्षण ( ५२१—२२ )—ज्वर—ज्वर के भेद—ज्वर के पूर्वरूप—ज्वर की उत्पत्ति—ज्वर का परिणाम ( ५२३ )—ज्वर के चिकित्सासूत्र ( ५२४ )—जीर्ण ज्वर में घृतपान ( ५२५ )—संस्कार सिद्ध घृत—घृत की श्रेष्ठता ( ५२५ )—उपसंहार ( ५२६ ) ।

### द्वितीयोऽध्यायः ( पृ० ५२६-५३४ )

रक्तपित्तनिदानम्—रक्तपित्त का लक्षण ( ५२७ )—पित्त प्रकोप से रक्त का दोष ( ५२८ )—लोहित पित्त वा रक्तपित्त नाम पड़ने का हेतु ( ५२८ )—रक्तपित्त के पूर्वरूप ( ५२९ )—रक्तपित्त के उपद्रव ( ५२९ )—रक्तपित्त के दो मार्ग—साध्य असाध्य के विचार ( ५३० )—रक्तपित्त का इतिहास ( ५३१ )—उर्ध्वगामी रक्तपित्त साध्य ( ५३१ )—अधोगामी रक्तपित्त याप्य ( ५३२ )—उभयमार्गगामी असाध्य रक्तपित्त ( ५३२ )—द्विदोषज वा त्रिदोषज रक्तपित्त की चिकित्सा ( ५३३ )—साध्य रोग के असाध्य हो जाने के कारण ( ५३३ )—असाध्य रक्तपित्त के लक्षण ( ५३४ )—उपसंहार ( ५३४ ) ।

### तृतीयोऽध्यायः ( पृ० ५३५-५४५ )

गुल्मनिदानम्—गुल्म के पांच भेद—वातगुल्म, पित्तगुल्म, कफ-गुल्म, निचयगुल्म, रक्तगुल्म ( ५३५ )—हृन्के सम्बन्ध में अश्विवेश का प्रश्न ( ५३६ )—वातगुल्म ( ५३६ )—सम्प्राप्ति और लक्षण ( ५३७ )—वात के साथ पित्त प्रकोप के कारण ( ५३८ )—पित्तगुल्म की सम्प्राप्ति ( ५३९ )—वात के साथ कफ प्रकोप के कारण ( ५४० )—कफगुल्म की सम्प्राप्ति ( ५४० )—सान्निपातिक गुल्म ( ५४१ )—रक्तगुल्म ( ५४१ )—रक्तगुल्म की सम्प्राप्ति ( ५४२ )—गुल्म का पूर्वरूप ( ५४३ )—उपसंहार ( ५४५ ) ।



## चतुर्थोऽध्यायः ( पृ० ५४५-५५८ )

प्रमहनिदानम्—प्रमेहों की संख्या ( ५४५ )—रोगों के विघात भाव-अभाव ( ५४६ )—कफप्रमेह के कारण ( ५४६ )—कफप्रमेह के दूप्य ( ५४७ )—कफप्रमेह की सम्प्राप्ति ( ५४८ )—विकृत कफ के दश गुण ( ५४९ )—ऋफजन्य दश प्रमेह ( ५४९ )—जैसे—उदकमेह, इक्षुवालिकामेह, सान्द्रमेह, सान्द्रप्रसादमेह, शुक्रमेह, शुक्रमेह, शीतमेह, सिकतामेह, शनैर्मेह, आलालमेह ( ५५०-५५१ )—पित्तप्रमेहों के कारण और सम्प्राप्ति ( ५५० )—पित्तजन्य छः प्रमेह ( ५५२ )—क्षारमेह, कालमेह, नीलमेह, लोहितमेह, मंजिष्ठांमेह और हारिद्रमेह ( ५५२ )—पित्तप्रमेहों का विशेष विज्ञान ( ५५३ )—वातजमेह के कारण ( ५५४ )—उनके प्रकार—वसाप्रमेह, मज्जमेह, हस्तिमेह, मधुमेह ( ५५५ )—सब वातज मेह असाध्य ( ५५५ )—वातप्रमेहों का विशेष विज्ञान ( ५५६ )—प्रमेहों के पूर्वरूप ( ५५७ )—प्रमेह के उपद्रव—चिकित्सा ( ५५७ )—प्रमेह किन को होता है ( ५५८ )—उपसंहार ( ५५८ ) ।

## पञ्चमोऽध्यायः ( पृ० ५५९-५६७ )

कुष्ठनिदानम्—कुष्ठ रोग की उत्पत्ति ( ५५९ )—कुष्ठ के सात भेद ( ५६० )—तरतम भेद से कुष्ठों के असंख्य भेद ( ५६१ )—कुष्ठ रोग के कारण ( ५६१ )—कुष्ठ रोग के पूर्वरूप ( ५६२ )—कापाल कुष्ठ ( ५६३ )—उदुम्बर कुष्ठ ( ५६३ )—मण्डल कुष्ठ ( ५६४ )—ऋष्यजिह्व कुष्ठ ( ५६४ )—पुणरीक कुष्ठ ( ५६४ )—सिध्म ( ५६५ )—काकणक कुष्ठ ( ५६५ )—साध्य असाध्य भेद ( ५६५ )—उपद्रव ( ५६६ )—उपसंहार ( ५६७ ) ।

## षष्ठोऽध्यायः ( पृ० ५६८-५७८ )

शोषनिदानम्—शोष के चार कारण ( ५६८ )—शोष का कारण साहस, ( ५६८ )—शोष रोग का कारण वेग-संधारण, ( ५७१ )—

क्षय का विवरण ( ५७२ )—शुक्रक्षय ( ५७३ )—शोष का कारण  
विपमाशन ( ५७४ )—राजयक्ष्मा शब्द की निरुक्ति ( ५७५-७६ )—शोष  
के पूर्वरूप ( ५७६ )—राजयक्ष्मा के ११ रूप ( ५७७ )—राजयक्ष्मा के  
साध्य और असाध्य रूप ( ५७७ )—उपसंहार ( ५७८ ) ।

सप्तमोऽध्यायः ( पृ० ५७८-५८९ )

उन्मादनिदानम्—पांच प्रकार के उन्माद ( ५७८ )—उन्माद  
का लक्षण ( ५७९ )—उन्माद के पूर्वरूप ( ५८० )—वातोन्माद के  
लक्षण ( ५८१ )—पित्तजन्य उन्माद के लक्षण ( ५८२ )—सान्निपातिक  
उन्माद ( ५८२ )—उन्माद की चिकित्सा ( ५८३ )—आगन्तुज उन्माद  
( ५८३ )—उन्माद का प्रारम्भ ( ५८४ )—आगन्तुज के लक्षण  
( ५८५ )—आघात काल ( ५८५ )—उन्माद उत्पन्न करने का प्रयोजन  
( ५८६ )—उन्माद के भेद ( ५८७ )—उपसंहार ( ५८९ ) ।

अष्टमोऽध्यायः ( पृ० ५८९-५९९ )

अपस्मारनिदानम्—चार प्रकार का अपस्मार ( ५८९ )—  
निदान और सम्प्राप्ति ( ५९० )—अपस्मार का लक्षण ( ५९० )—  
अपस्मार के पूर्वरूप ( ५९१ )—वातजन्य अपस्मार के लक्षण ( ५९१ )  
—पित्तजन्य अपस्मार ( ५९२ )—कफजन्य अपस्मार ( ५९२ )—  
सान्निपातिक अपस्मार ( ५९२ )—चिकित्सा सूत्र ( ५९३ )—भिन्न २  
रोगों की उत्पत्ति ( ५९३ )—साध्य और असाध्य ( ५९४ )—रोग  
ज्ञान का फल ( ५९४ )—एक रोग के कारण दूसरा रोग ( ५९४ )—  
शुद्ध प्रयोग का लक्षण ( ५९५ )—कारण भेद ( ५९६ )—लक्षण भेद  
( ५९६ )—चिकित्सा विधान ( ५९७ )—सुखसाध्य और कृच्छ्रसाध्य  
( ५९७ )—साध्य और असाध्य ( ५९८ )—उपसंहार ( ५९९ ) ।  
इति निदानस्थानम् ॥

## विमानस्थानम्

प्रथमोऽध्यायः ( पृ० ६००-६१६ )

रसविमानम्—विमानस्थान का प्रयोजन ( ६०० )—छः रस, तीन दोष ( ६०१ )—रसों के प्रभाव ( ६०२ )—द्रव्य के प्रभाव ( ६०५ )—सात्म्य ( ६०८ )—सात्म्य के भेद ( ६०८ )—प्रवर मध्यम और अवर ( ६०९ )—आहार विधि—उसके आठ अंग ( ६०९ )—करण ( ६१० )—संयोग ( ६१० )—राशि ( ६१० )—देश ( ६११ )—काल ( ६११ )—उपयोग संस्था ( ६११ )—उपयोक्ता ( ६१२ )—आहार विधि ( ६१२ )—आहार के सद्गुणों का उपदेश ( ६१३-१६ )—उपसंहार ( ६१६ ) ।

द्वितीयोऽध्यायः ( पृ० ६१७-६२५ )

त्रिविधकुक्षीयं विमानम्—पेट में तीन भाग ( ६१७ )—आहार की अमात्रा, हीन मात्रा, अधिक मात्रा ( ६१८ )—उनके दोष—आहार की अति मात्रा से हानिये ( ६१९-२० )—आमप्रदोष के दो प्रकार—विपूचिका और अलसक ( ६२१ )—अलसक का स्वरूप ( ६२१ )—असाध्य अलसक ( ६२१ )—साध्य अलसक की चिकित्सा ( ६२२ )—विपूचिका का उपाय ( ६२२ )—आम प्रदोष में औषध का प्रयोग ( ६२२ )—अपतर्पण का प्रयोग ( ७२३ )—अन्न पाचन के सम्यन्ध में अग्निवेश का प्रश्न और आत्रेय पुनर्वसु का उत्तर ( ६३४ )—उपसंहार ( ६२५ ) ।

तृतीयोऽध्यायः ( ६२५-६४६ )

जनपदोद्ध्वंसनीय विमानम्—जनपदनाशक रोगों के प्रतीकार का उपदेश ( ६२६-२७ )—जनपदनाशक रोग के फैलने के कारण—प्रश्न और उत्तर ( ६२७-२८ )—आरोग्यनाशक वायु के लक्षण ( ६२८ )—रोगकारी जल के लक्षण ( ६२८ )—नाशकारी रोगों के पूर्व, देश में

उपस्थित लक्षण ( ६२९ )—विपरीत ऋतु के लक्षणों वाला काल ( ६२९ )  
 —आयु-रक्षक उपाय ( ६३१ )—वायु आदि में विगुणता उत्पन्न होने का  
 कारण, अधर्म ( ६३२ )—अधर्म की युगों के अनुसार उत्पत्ति और उसके  
 दुष्परिणाम ( ६३६ )—आयु के समय और परिमाण विषयक अग्निवेश  
 का प्रश्न तथा आत्रेय ऋषि का प्रतिवचन ( ६३७ )—द्वैव और पुरुषकार  
 का लक्षण—तीन प्रकार की आयु ( ६३८ )—आयु का काल ( ६३८ )  
 —अकाल-मरण पर विचार ( ६३९ )—काल मृत्यु और अकाल मृत्यु पर  
 विचार ( ६४१ )—ज्वर में उष्ण जल देने विषयक प्रश्न ( ६४३ )—  
 आत्रेय का उत्तर ( ६४३ )—ज्वर में उष्ण जल के गुण ( ६४२ )—  
 निदान से विपरीत चिकित्सा ( ६४३ )—अपतर्पण तीन प्रकार के—  
 उनके उपयोग के अवसर ( ६४४ )—त्याग्य रोगी ( ६४५ )—  
 उपसंहार ( ६४६ ) ।

### चतुर्थोऽध्यायः ( पृ० ६४६-६५३ )

त्रिविधरोगविशेषविज्ञानीयम्—तीन प्रकार के रोग विशेषों का  
 विज्ञान—आप्तोपदेश, अनुमान और प्रत्यक्ष ( ६४७ )—आप्तोपदेश का  
 निरूपण ( ६४७ )—प्रत्यक्ष और अनुमान के लक्षण ( ६४८ )—आप्तोपदेश  
 से क्या जाने ( ६४९ )—प्रत्यक्ष से क्या जानें ( ६४९ )—अनुमान से  
 क्या जानें ( ६५० )—उपसंहार ( ६५३ ) ।

### पञ्चमोऽध्यायः ( पृ० ६५३-६६३ )

स्रोतोविमानम्—शरीर गत अनेक धातुवाही स्रोतों का वर्णन  
 ( ६५५ )—प्राणवह स्रोतों के दुष्ट होने पर लक्षण ( ६५५ )—जलवह  
 स्रोत ( ६५६ )—अन्नवह स्रोत ( ६५६ )—रसवह स्रोत ( ६५७ )—  
 रक्तवह स्रोत ( ६५७ )—मांसवह स्रोत ( ६५७ )—मूत्रवह स्रोत  
 ( ६५७ )—पुरीषवह स्रोत ( ६५८ )—स्वेदवह स्रोत ( ६५८ )—  
 स्रोतों के पर्याय ( ६५८ )—स्रोतों के प्रकोप के कारण ( ६६० )—

स्त्रियों के दोष का लक्षण ( ६६१ )—स्त्रियों के प्रकृतिसिद्ध रूप ( ६६२ )  
—उपसंहार ( ६६३ ) ।

### षष्ठोऽध्यायः ( पृ० ६६३-६७५ )

रोगानीकं विमानम्—प्रभाव भेद से रोगों के प्रकार भेद ( ६६२ )  
—दस प्रकार के रोग ( ६६४ )—दो मानस दोष रजस् और तमस्  
( ६६६ )—इनके कुपित होने के तीन कारण—अनुबन्ध—अनुबन्ध भेद  
से रोगों में भेद ( ६६८ )—बल के भेदों से शरीरस्थ अग्नि के चार प्रकार  
( ६६८ )—अग्नि भेद से मनुष्यों के चार प्रकार—वात, पित्त, कफ  
प्रकृति के पुरुषों का विवेचन ( ६६९ )—आरोग्य प्रकृति ( ६७० )—  
सम प्रकृति ( ६७० )—वातल, पित्तल और श्लेष्मल तीन प्रकार के  
रोगी ( ६७१ )—वात, पित्त और श्लेष्म—प्रकृति के पुरुषों के लक्षण—  
इनके अनुकूल आहार विहार ( ६७२-७४ )—उपसंहार ( ६७५ ) ।

### सप्तमोऽध्यायः ( पृ० ६७५-६९३ )

व्याधिरूपीयं विमानम्—व्याधि के ज्ञान में भ्रम ( ६७५ )—  
चार प्रकार के कृमि ( ६७८ )—दो प्रकार का मल ( ६७८ )—उन में  
उत्पन्न कृमि ( ६७८ )—उनका प्रभाव और चिकित्सा ( ६७९ )—रक्त-  
जन्य कृमि ( ६७९ )—कफजन्य कृमि ( ६८० )—पुरीषजन्य कृमि  
( ६८१ )—उनका उपाय—अपकर्ष विधि, प्रकृति विधात ( ६८२ )—  
कृमि-कोष्ठ के रोगी का उपचार ( ६८३ )—आस्थापन वस्ति क्रिया की  
विधि ( ६८४ )—विवेचन ( ६८५ )—अनुवासन ( ६८६ )—शिरो  
विवेचन ( ६८६ )—कृमियों के प्रकृतिविधात की रीति ( ६८७ )—  
शिरोरोग पर चिकित्सा ( ६८८-९३ )—उपसंहार ( ६९३ ) ।

### अष्टमोऽध्यायः ( पृ० ६९३-७०२ )

रोगभिपग्जित्तीयम्—शास्त्रपरीक्षा ( ६९४ )—शास्त्र के गुण  
( ६९४ )—आचार्य का लक्षण ( ६९५ )—शास्त्र को दृढ़ करने के उपाय

- ( ६६६ )—शास्त्र के अध्ययन की विधि ( ६९६ )—अध्यापन-विधि  
 ( ६९७ )—गुरु शिष्य के परस्पर कर्तव्य ( ६९८ )—दीक्षा ( ६९९ )  
 —आचार्य का शिष्य को उपदेश ( ७०१ )—संभाषा विधि ( ७०४ )  
 —तद्विद्यसंभाषा ( ७०५ )—( संघाय ) अनुलोम संभाषण—विगृह्य  
 संभाषा ( ७०५-६ )—प्रतिवादी के तीन प्रकार ( ७०७ )—तीन प्रकार  
 की परिषत् ( ७०७ )—प्रतिवादी को निग्रह करने के उपाय ( ७०९ )  
 —प्रतिलोम संभाषण का प्रकार ( ७१० )—वाद की मर्यादा ( ७१७ )—  
 ४४ आवश्यकीय ज्ञातव्य ( ७११ )—वाद का लक्षण ( ७११ )—जल्प-  
 वितण्डा ( ७१२ )—प्रतिज्ञा—स्थापना, प्रतिष्ठापना, हेतु, उत्तर, दृष्टान्त  
 ( ७१४ )—सिद्धान्त ४ प्रकार के ( ७१५ )—शब्द—प्रत्यक्ष—  
 अनुमान—ऐतिह्य—औपम्य—संशय—प्रयोजन—सव्यभिचार ( ७१६ )  
 —जिज्ञासा—व्यवसाय ( ७१९ )—अर्थप्राप्ति, अनुयोज्य ( ७२० )  
 —अननुयोज्य—अनुयोग—प्रत्यनुयोग—वाक्यदोष—न्यून—अधिक—  
 अनर्थक—अपार्थक—विरुद्ध ( ७२२ )—वाक्यप्रशंसा ( ७२३ )—छल  
 —सामान्य छल—वाक्—छल—अहेतु तीन प्रकार के—प्रकरणसम—  
 संशयसम—वर्ण्यसम ( ७२६ )—अतीत काल—उपालम्भ—परिहार  
 ( ७२६ )—प्रतिज्ञाहानि—अभ्यनुज्ञा—हेत्वन्तर—अर्थान्तर ( ७२७ )  
 —निग्रहस्थान ( ७२७ )—कारण—करण—कार्ययोनि—कार्य—कार्य-  
 फल ( ७२९ )—अनुबन्ध, देश, काल, उपाय, प्रवृत्ति आदि के सम्बन्ध  
 में विशेष विज्ञान ( ७२९-३० )—इनकी परीक्षा ( ७३२ )—दश  
 विध परीक्षा ( ७३२ )—कारण-परीक्षा ( ७३३ )—करण-परीक्षा  
 ( ७३४ )—कार्ययोनि-परीक्षा—कार्य—कार्यफल-परीक्षा ( ७३६ )—  
 अनुबन्ध-देश—कार्य-देश आदि की व्याख्या ( ७३७ )—आतुर परीक्षा  
 ( ७३८ )—प्रकृति आदि भाव ( ७३९ )—श्लेष्मप्रकृति ( ७४० )—  
 पित्तप्रकृति ( ७४१ )—वातप्रकृति ( ७४२ )—समधातुप्रकृति ( ७४२ )  
 —विकृतियों से परीक्षा ( ७४३ )—सार से परीक्षा ( ७४३ )

—शरीररचना से परीक्षा ( ७४७ )—प्रमाण से परीक्षा ( ७४८ )—  
तीन प्रकार के प्रकरण ( ७४९ )—सात्म्य से परीक्षा ( ७५० )—बल  
से परीक्षा ( ७५० )—आहार से—व्यायाम शक्ति से परीक्षा ( ७५१ )  
—वयस् से परीक्षा ( ७५२ )—काल का विवेचन—संवत्सर ( ७५४ )  
—रोगी की दशा में कार्य—अकार्य की अपेक्षा से काल-अकाल ( ७५७ )  
—प्रवृत्ति ( ७५७ )—उपाय ( ७५८ )—परीक्षा का प्रयोजन ( ७५८ )  
—वमनोपयोगी द्रव्य ( ७५९ )—विरेचन द्रव्य ( ७६१ )—रसों की  
अपेक्षा से द्रव्यों का वर्गीकरण ( ७६३ )—मधुरस्कन्ध ( ७६३ )—अम्ल-  
स्कन्ध ( ७६५ )—लवणस्कन्ध ( ७६६ )—कटुकस्कन्ध ( ७६६ )—  
तिक्तस्कन्ध ( ७६७ )—कपायस्कन्ध ( ७६८ )—६ हों वर्गों के उपयोग  
में वैद्य का कर्त्तव्य ( ७७० )—अनुवासना द्रव्य—शिरोविरेचन द्रव्य  
( ७७१ )—उपसंहार ( ७७२ ) । इति विमानस्थानम् ॥



# शुद्धाशुद्ध-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
३३	१०	गुणसेका	गुण से न
३३	१६	ने जानी हुई	न जानी हुई
११६	२३	व्यक्ताम्ल वण	व्यक्ताम्ललवण
१४५	१४	नश्नीयात्	नश्नीयात्
१४८	३	विलम्बितं नातिक्लीबं	विलम्बितं नातिक्लीबं
५६८	२३	अपरिक्षित	अपरीक्षित
१७४	७	पुरुषों अपुन	पुरुषों का अपुन
१७४	१९	क्वचिकर्म	क्वचित्कर्म
२०७	१२	सं प्रवक्षते	सं प्रवक्षते
२१६	११	लवणोर्पाहिपाः	लवणोर्पाहिताः
२२४	८	चर्मभिश्चोप	चर्मभिश्चोप
२६२	१४	वृद्धैर्व्याधयः	वृद्धैर्व्याधयः
३०४	२६	संस्र	संस्र
३०६	२३	भवति । तं	भवति तं
३३१	१४	रग्वं ।	रग्वधं
३५१	२१	धामक	वामक
३८७	१८	माध्मापत्ति	माध्मापयति
४०४	२४	यद्गुणा	यद्गुणा
४०८	८	कृष्ण	कृष्ण
४१३	२२	कातुण्डकः	काकतुण्डकः
४२४	८	अतिपण्डा	तद्वत्पिण्डा
४३०	२	सर्वेष्वेतेषु	सर्वेष्वेतेषु
४३०	१६	चैप	चैत्र
४३४	१३	रूणाणि	रूक्षाणि
४३४	१४	वक्र	वक्त्र



४३४	१९	सुगन्धना.	सुगन्धा
४३७	२	विबन्धज्ञं	विबन्धघ्नं
३४४	३	कृच्छेद	कृच्छ्रोद
४४७	९	स्यात् छ्रेतं	स्याच्छ्रेतं
४४७	१०	तवण	घृतवर्ण
४४७	१४	रुक्षमपाय	रुक्षकपाय
४६१	१६	बुद्धे	बूद्धे
४५३	४	तर्तणा	तर्पणा
४८७	१	मनात्म	नात्म
४९१	२०	स्त्रवण	स्रवण
४९२	१	धमनीयां	धमनियां
४६४	१३	आथर्व	अथर्व
५०४	११	न्युक्ता	न्युक्ता
५०६	१३	तस्मत्तान्	तस्मात्तान्
५२१	११	भूत्वा	भूत्वा
६१३	९	युक्तमौद	भुक्तमौद
६१६	३	भिसमीक्ष्य	भिसमीक्ष्य
६२०	९	पानानामु	पानानामु
६४५	८	लिङ्गान्वितस्य	लिङ्गान्वितस्य
६५६	२०	शीतपीये	शितपीतीये
६७१	५	निमिता	निमित्ता
६६७	९	मव्यसनिनं शौ	मव्यसनिनमर्थतत्वावा
१०४	१२	यद्वाचार्यः	भावकमकोपनं शौ. पद्वाचार्यः

ओ३म्

# चरकसंहिता

सूत्रस्थानम्

प्रथमोध्यायः

अथातो दीर्घजीवित्तीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥

अब यहां से 'दीर्घ-जीवित्तीय' नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं ।

इति ह स्माह भगवान् आत्रेयः ॥ २ ॥

ऐसा ही भगवान् आत्रेय ने कहा था ।<sup>१</sup>

---

१. निष्प्रयोजन और अभिधेयरहित अर्थ में बुद्धिमानों की प्रवृत्ति नहीं होती । इसलिये सब से प्रथम शास्त्र का प्रयोजन और अभिधेय सम्बन्ध बतलाना चाहिये । कहा भी है—

अभिधेयफलज्ञानविरहस्तिमितोद्यमाः ।

श्रोतुमल्पमपि ग्रन्थं नाद्रियन्ते हि साधवः ॥

सिद्धार्थं सिद्धसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तन्ते ।

शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः ॥

इस शास्त्र का प्रयोजन 'धातुसाम्य' है । कहा भी है—'धातुसाम्य-क्रिया चोक्ता तंत्रस्यास्य प्रयोजनम्' । 'धातुसाम्य' का अर्थ विषम हुए धातुओं को समान करना और समान धातुओं का रक्षण करना है । अथवा

## ऋषि भरद्वाज का इन्द्र के पास गमन

दीर्घं जीवितमन्विच्छन् भरद्वाज उपागमत् ।

इन्द्रमुग्रतपा बुद्ध्वा शरण्यममरेश्वरम् ॥ ३ ॥

दीर्घ काल तक जीवन की इच्छा से उग्रतपस्वी भरद्वाज मुनि देवों के राजा इन्द्र को शरण योग्य जानकर उस के पास गये ।

ब्रह्मणा हि यथाप्रोक्तमायुर्वेदं प्रजापतिः ।

जग्राह निखिलेनादावश्विनौ तु पुनस्ततः ॥ ४ ॥

अश्विभ्यां भगवाञ्छक्रः प्रतिपेदे ह केवलम् ।

ऋषिप्रोक्तो भरद्वाजस्तस्माच्छक्रमुपागमत् ॥ ५ ॥

ब्रह्मा ने जिस आयुर्वेद का उपदेश किया उस को प्रजापति ( दक्ष ) ने पूर्ण रूप से ग्रहण किया । दक्ष से दोनों अश्वियों ने, अश्वियों से इन्द्र ने ग्रहण किया । इसी कारण ऋषियों ने प्रेरित होकर भरद्वाज मुनि इन्द्र के पास आये ।<sup>१</sup>

## विघ्नभूता यदा रोगाः प्रादुर्भूताः शरीरिणाम् ।

रोगी के रोग का निवारण करना और स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना है । जैसा कि सुश्रुत में कहा है—

“व्याभ्युपसृष्टानां व्याधिपरिमोक्षः स्वस्थस्य परिरक्षणञ्च” ।

अभिधेय-सम्बन्ध—हेतु, दोष और द्रव्य ये स्कन्धत्रय और रोगों के उत्पन्न न होने की विधि का बतलाना ।

शास्त्र और प्रयोजन का उपेय-उपाय सम्बन्ध है । शास्त्र और वक्ता का वाच्य वाचक सम्बन्ध है ।

भगवान् का लक्षण—“उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानामागतिं गतिम् ॥  
वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥”

१. सुश्रुत में—“ब्रह्मा प्रोवाच, तत् प्रजापतिरश्विजगे, तस्मादश्विनौ, अश्विभ्यामिन्द्र ।”

तपोपवासाध्ययनब्रह्मचर्य्यव्रतायुषाम् ॥ ६ ॥

तदा भूतेष्वनुक्रोशं पुरस्कृत्य महर्षयः ।

समेताः पुण्यकर्माणः पार्श्वे हिमवतः शुभे ॥ ७ ॥

जब तप, उपवास, ब्रह्मचर्य्य, अध्ययन, व्रत और आयु इन में विघ्न करने वाले रोग उत्पन्न हो गये तब प्राणियों पर दया कर के पुण्यात्मा महर्षिगण सिद्ध पुरुषों से सेवित पवित्र हिमालय के पार्श्वमें एकत्र हुए ।

अङ्गिरा जमदग्निश्च वसिष्ठः कश्यपो भृगुः ।

आत्रेयो गौतमः सांख्यः पुलस्त्यो नारदोऽसितः ॥ ८ ॥

अगस्त्यो वामदेवश्च मार्कण्डेयाश्चलायनौ ।

परीक्षिर्भिक्षुरात्रेयो भरद्वाजः कपिञ्जलः ॥ ९ ॥

विश्वामित्राश्वरथ्यौ च भार्गवश्च्यवनोऽभिजित् ।

गार्ग्यः शाण्डिल्यकौण्डिन्यौ वार्क्षिर्देवलगालवौ ॥ १० ॥

सांकृत्यो वैजवापिश्च कुशिको बादरायणः ।

बडिशः शरलोमा च काप्यकात्यायनावुभौ ॥ ११ ॥

कांकायनः कैकशेयो धौम्यो मारीचिकाश्यपौ ।

शर्कराक्षो हिरण्यक्षो लोगाक्षिः पैङ्गिरेव च ॥ १२ ॥

शौनकः शाकुनेयश्च मैत्रेयो मैमतायनिः ।

वैखानसा वालखिल्यास्तथा चान्ये महर्षयः ॥ १३ ॥

ब्रह्मज्ञानस्य निधयो दमस्य नियमस्य च ।

तपसस्तेजसा दीप्ता हूयमाना इवाग्नयः ॥ १४ ॥

सुखोपविष्टास्ते तत्र पुण्यां चक्रुः कथामिमाम् ।

अङ्गिरा, जमदग्नि, वसिष्ठ, कश्यप, भृगु, आत्रेय, गौतम, सांख्य, पुलस्त्य, नारद, असित, अगस्त्य, वामदेव, मार्कण्डेय, आश्वलायन, परिक्षि, भिक्षु आत्रेय, भरद्वाज, कपिञ्जल, विश्वामित्र, आश्वरथ्य, भार्गव, च्यवन, अभिजित्, गार्ग्य, शाण्डिल्य, कौण्डिन्य, वार्क्षि, देवल, गालव, सांकृत्य, वैजवापि, कुशिक, बादरायण, बडिश, शरलोमा, काप्य, कात्यायन, कांकायन,

कैकशेय, धौम्य, मरीचि, कश्यप, शर्कराक्ष, हिरण्याक्ष, लोगाक्षि, पैद्भि, शौनक, शाकुनेय, मैत्रेय, मैमतायनि, वैखानस वालखिल्य और अन्य ब्रह्मज्ञान तथा यम, नियम और तप के तेज से चमकते हुए, आहुति से उज्ज्वल अग्नि के समान तेजस्वी अंगिरा आदि महर्षि लोग वहां सुख से विराज कर, इस प्रकार कहने लगे ।<sup>१</sup>

धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम् ॥ १५ ॥

रोगास्तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च ।

प्रादुर्भूतो मनुष्याणामन्तरायो महानयम् ॥ १६ ॥

कः स्यात्तेषां शमोपाय इत्युक्त्वा ध्यानमास्थिताः ।

अथ ते शरणं शक्रं ददृशुर्ध्यानचक्षुषा ॥ १७ ॥

स वक्ष्यति शमोपायं यथावदमरप्रभुः ।

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का मूल कारण आरोग्य ही है ।<sup>२</sup> रोग इस आरोग्य, अभ्युदय तथा जीवन (आयु) को नाश करने वाले है । मनुष्यों के लिये यह रोग बड़े विघ्नरूप होगये है । इसलिये इन रोगों की शान्ति का उपाय क्या होना चाहिये ? ऐसा कहकर वे सब ऋषि ध्यान मग्न हो गये । उन्होंने अन्तःचक्षु से इन्द्र को अपने शरण रूप से देखा और जान लिया कि देवों का राजा इन्द्र ही शान्ति का उपाय कहेगा ।

कः सहस्राक्षभवनं गच्छेत्प्रष्टुं शचीपतिम् ॥ १८ ॥

अहमर्थे नियुज्येयमत्रेति प्रथमं वचः ।

भरद्वाजोऽब्रवीत्तस्मादृषिभिः स नियोजितः ॥ १९ ॥

प्रश्न टुपस्थित हुआ कि शचीपति इन्द्र से पूछने के लिये इन्द्र के भवन तक कौन जाय ? ऋषि भरद्वाज ने सबसे प्रथम कहा कि—इस

१. यम—अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यपरिग्रहा. यमा. ॥ यो० सू० ॥

नियम—शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमा ॥ यो० सू० ॥

२. कहा भी है—“आयतनं विद्वानां मूलं धर्मार्थकाममोक्षाणाम् ।

श्रेयः परं किमन्यत शरीरमजरामरं विहायैकम् ॥” हृदयतंत्र ॥

कार्य में मुझको नियुक्त किया जाय । इसलिये अंगिरा आदि ऋषियों ने भरद्वाज ऋषि को ही इस कार्य में नियुक्त कर दिया ।

स शक्रभवनं गत्वा सुरर्षिगणमध्यगम् ।

ददर्श वलहन्तारं दीप्यमानमिवानलम् ॥ २० ॥

इन्द्र के भवन में जाकर, उन्होंने देवर्षियों के मध्य में, प्रदीप्त अग्नि के समान तेजस्वी, वल नाम असुर को मारने वाले इन्द्र को देखा ।

सोऽभिगम्य जयाशीर्भिरभिनन्द्य सुरेश्वरम् ।

प्रोवाच भगवान्धीमानृषीणां वाक्यमुत्तमम् ॥ २१ ॥

बुद्धिमान् भरद्वाज ने इन्द्र के सन्मुख जाकर जयसूचक आशीर्वादों से इन्द्र का अभिनन्दन करके, ऋषियों का उत्तम वचन बड़ी उत्तम रीति से प्रस्तुत किया ।<sup>१</sup>

व्याधयो हि समुत्पन्नाः सर्वप्राणिभयंकराः ।

तद् ब्रूहि मे शमोपायं यथावदमरप्रभो ॥ २२ ॥

हे अमरप्रभो ! सब प्राणियों को भय देने वाली व्याधिया उत्पन्न हो गई हैं इस लिये आप इन की शान्ति का उपाय उपदेश करें ।

तस्मै प्रोवाच भगवानायुर्वेदं शतक्रतुः ।

पदैरल्पैर्मतिं बुद्ध्वा विपुलां परमर्षये ॥ २३ ॥

भगवान् इन्द्र ने महर्षि भरद्वाज को महामति जान कर थोड़े ही पदों में संक्षेप से आयुर्वेद का उपदेश किया ।

हेतुलिङ्गौषधज्ञानं स्वस्थानुरपरायणम् ।

त्रिसूत्रं शाश्वतं पुण्यं बुबुधे यं पितामहः ॥ २४ ॥

सोऽनन्तपारं त्रिस्कन्धमायुर्वेदं महामतिः ।

१ योग्य शिष्य ही विनयपूर्वक गुरु से शास्त्रों को सुनने का अधिकारी है । यथा:—तद् विद्धि प्रणिपातेन परिश्रमेन सेवया ।

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥ गीता ॥

यथावदचिरात् सर्वं बुबुधे तन्मना मुनिः ॥ २५ ॥

तेनायुरमितं लेभे भरद्वाजः सुखान्वितः ।

ऋषिभ्योऽनधिकं तच्च शशंसानवशेषयन् ॥ २६ ॥

ऋषयश्च भरद्वाजाज्जगृहस्तं प्रजाहितम् ।

दीर्घमायुश्चिकीर्षन्तो वेदं वर्धनमायुषः ॥ २७ ॥

हेतु ( रोगों का कारण ), लिंग ( रोगों के चिन्ह ), औषध ( संशो-  
धन और संशमन रूप चिकित्सा ), स्वस्थ एवं रोगी दोनों के लिये परम  
गति और जिस का पितामह (ब्रह्मा) ने प्रथम ज्ञान किया था, उस<sup>१</sup> तीन  
सूत्र वाले पुण्य, श्रेष्ठ और नित्य, सनातन<sup>२</sup> आयुर्वेद का इन्द्र ने उपदेश  
किया। महामति भरद्वाज मुनि ने एकाग्रचित्त होकर इस अनन्त और अपार<sup>३</sup>  
और तीन स्कन्धों वाले आयुर्वेद को यथावत् शीघ्र ही सम्पूर्ण जान लिया ।

१ त्रिःसूत्र—हेतु, दोष और द्रव्य संग्रह रूप,

हेतुसंग्रह—कालबुद्धिन्द्रियार्थानां योगो मिथ्या न चाति च ।

द्वयाश्रयाणा व्याधीनां त्रिविधो हेतुसंग्रहः ॥

दोषसंग्रह—वातः पित्तं कफश्चोक्तः शारीरो दोषसंग्रहः ।

मानसः पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एव च ॥

द्रव्यसंग्रह—किञ्चिद्विषयं प्रशमनं किञ्चिद् धातु-प्रदूषणम् ।

स्वस्थवृत्तौ मतं किञ्चित् त्रिविधं द्रव्यमुच्यते ॥

अथवा 'त्रिसूत्र' शब्द से वात, पित्त और कफ का ग्रहण करना  
चाहिये । क्योंकि सम्पूर्ण आयुर्वेद शास्त्र इन्हीं में ओत-प्रोत हैं । जैसा कि  
सुश्रुत में--“वातपित्तश्लेष्माण. एव देहसंभवहेतवः । तैरेवाव्यापन्नैरधो  
मध्योर्दकसन्निविष्टै. शरीरमिदं धार्यते । आगारमिव स्थूणाभि । अतः त्रि-  
स्थूणाभिरित्येके ।”

२. सोऽयमायुर्वेदः शाश्वतो निर्दिश्यते अनादित्वात् । चरक ॥

३. नास्ति आयुर्वेदस्य पारम्, तस्मादग्रमन्तः शश्वदभियोगमस्मिन्  
गच्छन् ॥ चरक ॥

भरद्वाज मुनि ने इस आयुर्वेद के द्वारा ही सुख से युक्त दीर्घ आयु प्राप्त की। और उसने ऋषियों को न अधिक और न कुछ कम, ज्यों का त्यों ही सम्पूर्ण शास्त्र का उपदेश किया। दीर्घ आयु करने की इच्छा वाले ऋषियों ने भी लोक की हितकामना से इस आयुवर्धक आयुर्वेद को भरद्वाज से ग्रहण किया।

महर्षयस्ते ददृशुर्यथावज्ज्ञानचक्षुषा ।

सामान्यं च विशेषं च गुणान् द्रव्याणि कर्म च ॥ २८ ॥

समवायं च, तज्ज्ञात्वा तन्त्रोक्तं विधिमास्थिताः ।

लेभिरे परमं शर्म जीवितं चाप्यनश्वरम् ॥ २९ ॥

ज्ञान की चक्षु से ऋषियो ने सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, सम-वाय का यथावत् पूर्णरूप से दर्शन किया।

इन को यथावत् जानकर आयुर्वेद विधि से हितकारक पदार्थों का सेवन और अहितकारी पदार्थों का त्याग कर परम सुख, आरोग्य और दीर्घ जीवन प्राप्त किया।<sup>१</sup>

अथ मैत्रीपरः पुण्यमायुर्वेदं पुनर्वसुः।

शिष्येभ्यो दत्तवान् षड्भ्यः सर्वभूतानुकम्पया ॥ ३० ॥

अग्निवेशश्च भेडश्च जतूकर्णः पराशरः ।

हारीतः चारपाणिश्च जगृहुस्तन्मुनेर्वचः ॥ ३१ ॥

सब प्राणियों में मैत्री ब्राह्मण रखने वाले पुनर्वसु आत्रेय ने सब प्राणियों पर दया अनुभव करके यह पवित्र आयुर्वेद छः शिष्यों को उपदेश किया।

अग्निवेश, भेड, जतूकर्ण, पराशर, हारीत और क्षारपाणि इन छः शिष्यों ने मुनि के उस उपदेशवचन को ग्रहण किया।

दुद्धेर्विशेषस्तत्रासीन्नोपदेशान्तरं मुनेः ।

१. धर्मविशेषप्रसूताद् द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसम् । वैशेषिक०



तन्त्रप्रणेता प्रथममग्निवेशो यतोऽभवत् ॥ ३२ ॥  
 अथ भेडादयश्चक्रुः स्वं स्वं तन्त्रं, कृतानि च ।  
 श्रावयामासुरात्रेयं सर्षिसंघं सुमेधसः ॥ ३३ ॥  
 श्रुत्वा सूत्रणमर्थानामृषयः पुण्यकर्मणाम् ।  
 यथावत्सूत्रितमिति प्रहृष्टास्तेऽनुमेनिरे ॥ ३४ ॥  
 सर्व एवास्तुर्वस्ताश्च सर्वभूतहितैषिणः ।  
 साधु भूतेष्वनुक्रोश इत्युच्चैरब्रुवन् समम् ॥ ३५ ॥  
 तं पुण्यं शुश्रुवुः शब्दं दिवि देवर्षयः स्थिताः ।  
 सामराः परमर्षीणां श्रुत्वा मुमुदिरे परम् ॥ ३६ ॥  
 अहो साध्विति घोषश्च लोकॉस्त्रीनन्वनादयत् ।  
 तमसि स्निग्धगम्भीरो हर्षाद् भूतैरुदीरितः ॥ ३७ ॥  
 शिवो वायुर्ववौ सर्वा भाभिरुन्मीलिता दिशः ।  
 निपेतुः सजलाश्चैव दिव्याः कुसुमवृष्टयः ॥ ३८ ॥  
 अथाग्निवेशप्रमुखान् विविशुर्ज्ञानदेवताः ।  
 बुद्धिः सिद्धिः स्मृतिर्मधा श्रुतिः कीर्तिः क्षमा दया ॥ ३९ ॥  
 तानि चानुमतान्येषां तन्त्राणि परमर्षिभिः ।  
 भवाय भूतसंघानां प्रतिष्ठां भुवि लेभिरे ॥ ४० ॥

अग्निवेश की बुद्धि विशेष थी, मुनि आत्रेय के उपदेश में कोई अन्तर न था । अग्निवेश ही सब से प्रथम आयुर्वेद-तंत्र का कर्ता हुआ । इसके पीछे भेड आदि बुद्धिमान् शिष्यों ने भी अपने अपने तंत्र बना कर बहुत से ऋषियों के साथ विराजमान आत्रेय मुनि को सुनाये । पुण्यकर्मा अग्निवेश आदि ऋषियों द्वारा भली प्रकार से सूत्र रूप से गुंथे हुए आयुर्वेद शास्त्र को सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका प्रसन्नता में अनुमोदन भी किया कि 'ठीक प्रकार से ग्रथित ( गंथा ) हुआ है । सब प्राणियों पर दयालु उन ऋषियों की सब ने ही प्रशंसा की । सब ने एक साथ उच्चस्वर से कहा कि आपने प्राणियों पर

बहुत उत्तम रूप से दया की है। स्वर्ग में स्थित देवों के सहित नारद आदि देव-ऋषियों ने भी उन परम ऋषियों के पुण्य शब्द को सुना। इस को सुनकर वे भी बहुत प्रसन्न हुए। समस्त प्राणियों ने हर्ष से अति स्नेह युक्त एवं गम्भीर शब्द से साधुवाद दिया। इस साधुवाद की ध्वनि ने तीनों लोकों को गुंजा दिया। सुखदायक वायु बहने लगा, सब दिशाओं प्रकाश से चमकने लगीं, जल से क्षीने दिव्य कुसुम बरसने लगे।

( बुद्धि ) उपलब्धि, ( सिद्धि ) साध्य-साधन, ( स्मृति ) पूर्व अनुभूत अर्थ का स्मरण, ( मेधा ) ग्रहण करने की शक्ति, ( धृति ) मन की संतुष्टि, ( कीर्त्ति ) यश, ( क्षमा ) अपकारी के प्रति अनपकार की इच्छा, ( दया ) प्राणियों के दुःख हटाने की इच्छा, ये ज्ञानमय देवता अग्निवेश आदि ऋषियों में प्रविष्ट हुए अर्थात् ये शुभ गुण इन में आये।

महर्षियों द्वारा अनुमोदित उक्त ऋषियों के शास्त्र लोगों के परम कल्याण के लिये पृथिवी पर प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए।

आयुर्वेद का लक्षण—

हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताहितम् ।

मानं च तच्च यत्रोक्तमायुर्वेदः स उच्यते ॥ ४१ ॥

हित, अहित, सुख और दुःख यह चार प्रकार की 'आयु' है। इस आयु का हित-अहित, पथ्यापथ्य, और इस आयु का मान परिमाण यह सब जिस शास्त्र में कहा हो, तथा आयु का लक्षण जिसमें हो, उसे 'आयुर्वेद' कहते हैं।<sup>१</sup>

आयु का लक्षण—

शरीरेन्द्रियसत्त्वात्मसंयोगो,

(शरीर) पच महाभूतों से बना, आत्मा का अधिष्ठान, (इन्द्रिय) भौतिक इन्द्रियां, (सत्त्व) मन, (आत्मा) द्रष्टा, भोक्ता, जीव और ईश्वर, इनके

१. "आयुरस्मिन्विन्दति वेत्ति वा आयुर्वेदः ।" सुश्रुत ॥

संयोग का नाम 'आयु' है। आयु निरन्तर चलने वाला होने से 'आयु' कहाना है [ एति गच्छतीति आयु । ]

धारि जीवितम् ।

नित्यगश्चानुबन्धश्च पर्यायैरायुरुच्यते ॥ ४२ ॥

आयु अर्थात् जीवन के पर्यायवाची शब्द—(धारि) शरीर को धारण करता है, (जीवित) प्राणों को धारण करता है, (नित्यग) निरन्तर चलता है, (अनुबन्ध) प्राणों के साथ सम्बन्धित है, और 'चेतनानुवृत्ति' इन पर्यायों से बतलाया जाता है ।<sup>१</sup>

तस्यायुषः पुण्यतमो वेदो वेदविदां मतः ।

वक्ष्यते यन्मनुष्याणां लोकयोरुभयोर्हितम् ॥ ४३ ॥

यह आयुर्वेद सब से अधिक श्रेष्ठ पुण्यजनक है [ क्योंकि अन्य ज्ञान पारलौकिक हित को ही बतलाते हैं, यह आयुर्वेद इहलोक और परलोक दोनों के हितों को कहता है ] ऐसा ज्ञानियों का मत है ।<sup>२</sup>

सामान्य और विशेष—

सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धिकारणम् ।

हासहेतुर्विशेषश्च, प्रवृत्तिरुभयस्य तु ॥ ४४ ॥

सामान्यमेकत्वकरं, विशेषस्तु पृथक्त्वकृत् ।

तुल्यार्थता हि सामान्यं, विशेषस्तु विपर्ययः ॥ ४५ ॥

सब पदार्थों का सब कालों में 'सामान्य'—समान [ गुण आदि ] धर्म ही वृद्धिका-कारण होता है, ओर 'विशेष'—अर्थात् विभेद या विपरीत होना ही हास का कारण होता है ।

सब कालों में शरीर के अन्दर दोनों ही धर्म रह सकते हैं । इस लिये शरीर में वृद्धि और क्षय शरीर का वनना ( Metabolism ) और शरीर का टूटना ( Ketabolism ) दोनों क्रियायें हर समय होती

१ तत्रायुश्चेतनानुवृत्तिः जीवितमनुबन्धो धारि चेत्येकोऽर्थः ॥ सु० ॥

२ अत्रायत्तमैहिकमासुम्भिकं च श्रेयः ॥ सुश्रुत० ॥

रहती है। एकत्व बतलाने वाला धर्म 'सामान्य' है। और 'पृथग्-भाव' बतलाने वाला धर्म 'विशेष' है।<sup>१</sup>

सत्त्वामात्मा शरीरं च त्रयमेतत्त्रिदण्डवत् ।

लोकस्तिष्ठति संयोगात्तत्र सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥ ४६ ॥

स्र पुमाँश्चेतनं तच्च तच्चाधिकरणं स्मृतम् ।

वेदस्यास्य, तदर्थं हि वेदोऽयं संप्रकाशितः ॥ ४७ ॥

(सत्त्व) मन, (आत्मा) चेतना और 'शरीर' इन तीनों से बने हुए को "लोक" कहते हैं।<sup>२</sup> यह तीनों मिलकर तिकन्टी, या तिपाई की तरह 'लोक' को धारण किये हुए है। इस संयोग से बने हुए पुरुष में जन्म-मरण आदि सब स्थित हैं।

१ समान गुण वाले—इसका अर्थ यह है कि द्रव्य, गुण, कर्म, इनमें सम्पूर्ण रूप से समान गुण वाले पदार्थ ही ग्रहण करने चाहियें।

जिस प्रकार खट्टा भाँवला भी खट्टे पित्त को नहीं बढ़ाता, अपितु शीतवीर्य होने से पित्त को शमन करता है, क्योंकि पित्त उष्ण है।

द्रव्यसमान से विपरीत प्रभाव—तैजस क्षार से श्लेष्मा का क्षय

गुण " " " " —द्रव कांजी से श्लेष्मा का लघु-रुक्ष गुण के कारण क्षय,

कर्म " " " " —नींद से वायु का नाश, भागने से कफ का क्षय होना,

सामान्य और विशेष का स्वरूप—तुल्यार्थता अर्थात् समानार्थक होने का नाम सामान्य और विपर्यय का अर्थ 'विशेष' है।

"सामान्यं विशेष इति बुद्ध्यपेक्षम्" । वैशेषिक द० ॥

कहा भी है—

सर्वेषां सर्वदा वृद्धिः तुल्यद्रव्यगुणक्रियैः ।

भावैर्भवति भावानां विपरीतैर्विपर्ययः ॥

२ "षड्धातुसमुदिता लोक इति शब्दं लभन्ते ॥"

यही प्रमाण, यही चेतना द्रव्य, यही अधिकरण और इसी को जानने के लिये यह आयुर्वेद प्रकाशित किया है।

खादीन्यात्मा मनः कालो दिशाश्च द्रव्यसंग्रहः । -

सेन्द्रियं चेतनं द्रव्यं, निरिन्द्रियमचेतनम् ॥ ४८ ॥

आकाश आदि ( आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी—ये पांच महाभूत ), आत्मा, मन, काल, और दिशा ये द्रव्य हैं। इन्द्रियों सहित द्रव्य चेतन है और इन्द्रियो से रहित अचेतन हैं।<sup>१</sup>

तिकन्दी—मैं एक बहली या स्तम्भ के निकाल लेने से वह खड़ी नहीं रह सकती, इसी प्रकार इन तीनों में मे एक के न होने से 'पुरुष' स्थिर नहीं रह सकता।

अत्र कर्मफलं चात्र ज्ञानं चात्र प्रतिष्ठितम् ।

अत्र मोदः सुखं दुःखं जीवितं मरणं स्वता ॥

पञ्चमहाभूतशरीरिसमवायः 'पुरुष' उच्यते । तस्मिन् क्रियाः । सोऽधिष्ठानम् ।

१ "पृथ्वापस्तेजोवायुराकाशं कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि । वैशेषिके

शरीरं हि गते तस्मिन् अन्यागारमचेतनम् ।

पंचभूतावशेषत्वात् पंचत्वंगतमुच्यते ॥ चरक ॥

"तत्र आकाशं शब्दगुणम्, शब्दस्पर्शगुणो वायुः शब्दस्पर्शरूपगुणो अग्निः । शब्दरूपरसगुणा आपः; शब्दस्पर्शरूपरसगन्धगुणा पृथिवी ।

तेषामेकगुणः पूर्वं, गुणवृद्धिः परे परे ।

पूर्वपूर्वो गुणश्चैव क्रमशो गुणिषु स्मृत ॥

आत्मा का रूप—

प्राणापानौ निमेषाद्या जीवनं मनसो गतिः ।

इन्द्रियान्तरसंचार प्रेरणं धारणं च यत् ॥

देशान्तरगतिस्त्रमे पञ्चत्वग्रहणं तथा ।

दृष्टस्य दक्षिणेनाक्षणा सव्येनावगमस्तथा ॥

गुण—

सार्था गुर्वादयो बुद्धिः प्रयत्नान्ताः परादयः ।

गुणाः प्रोक्ताः,

अर्थ ( इन्द्रिय और मन के ग्राह्य विषय ), गुरु आदि, बुद्धि, प्रयत्न तक और पर आदि गुण है ।

इन्द्रियों के अर्थ—शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—मन के अर्थ चिन्तन, विचार, द्रुहना, ध्यान, संकल्प, गुरुत्व, लघुत्व, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, मन्द, तीक्ष्ण, स्थिर, सर, मृदु, कठिन, विशद, पिच्छिल, श्लक्ष्ण, खर, स्थूल, सूक्ष्म, सान्द्र, द्रव, ये बीस, तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुःख और प्रयत्न; पर, अपर, युक्ति, संयोग, विभाग, पृथक्त्व, परिणाम, संस्कार और अभ्यास ये गुण है ।

“रूपरसगन्धस्पर्शाः संख्यापरिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौ परापरत्वे बुद्धयः सुखदुखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नाश्च गुणाः ॥” वै० द०

इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं प्रयत्नश्चेतना धृतिः ।

बुद्धिः स्मृतिरहंकारो लिगानि परमात्मनः ॥

मन का लक्षण—

आत्मैन्द्रियार्थसन्निकर्षे ज्ञानस्य । भावोऽभावो मनसो लिगामिति कणादः ।

लक्षणं मनसो ज्ञानस्याभावो भाव एव च ।

सति ह्यात्मेन्द्रियार्थानां सन्निकर्षेण वर्तते ।

वैधृत्यान्मनसो ज्ञानं सान्निध्याच्च वर्तते ॥ चरक ॥

काल का लक्षण—सूक्ष्ममपि कलां न लीयते, संकलयति वा भूतानि इति कालः । वैशे०

दिशा का लक्षण—अस्मादिदं पूर्वेण अस्मादिदं पश्चिमेन इत्यादयः प्रत्यया यतो भवन्ति सा दिक् । इत इदमिति यतस्तद्विशां लिङ्गम् । वैशे०

जिससे यह व्यवहार किया जाय कि यह इससे पूर्व या पश्चिम मे है, उस का नाम 'दिशा' है ।

कर्म—

प्रयत्नादि कर्म चेष्टितमुच्यते ॥ ४९ ॥

प्रयत्न आदि शरीर के व्यापार का नाम कर्म है ।

उत्क्षेपणमवक्षेपणमाकुञ्चनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि ॥ वैज०

भ्रमणं रेचनं स्यन्दनोर्ध्वज्वलनमेव च ।

तिर्यग्गमनमप्यत्र गमनादेव लभ्यते ॥

प्रयत्नपूर्वक अर्थात् चेष्टा पूर्वक क्रिया का नाम 'कर्म' है ।

“आत्मसंयोगप्रयत्नाभ्यां हस्ते कर्म” ॥ वै० ॥

समवाय का लक्षण—

समवायोऽपृथग्भावो भूम्यादीनां गुणैर्मतः ।

स नित्यो,

पृथिवी आदि द्रव्यों का (आत्रेयभद्रकाप्यीय २६ अध्याय में कहे हुए) गुणों के साथ अपृथग्भाव का नाम 'समवाय' है ।<sup>१</sup> अर्थात् द्रव्य गुणों के बिना नहीं रह सकते और गुण बिना द्रव्य के नहीं रह सकते ।

यह समवाय सम्यन्ध नित्य है, ऐसा नित्य सम्यन्ध समवाय कहाता है । (संयोग की तरह अनित्य नहीं) क्योंकि जहां पर द्रव्य है, वहां पर गुण का रहना अनिश्चित नहीं, अपितु निश्चित ही है । जहा द्रव्य है वहां गुण भी है । इस लिये द्रव्य और गुण का नियत सम्यन्ध होने से इनका सम्यन्ध भी नियत ही है ।

द्रव्य का लक्षण—

यत्र हि द्रव्यं न तत्रानियतो गुणः ॥ ५० ॥

यत्राश्रिता कर्मगुणाः कारणं समवायि यत् ।

तद् द्रव्यं,

१. समवाय का लक्षण—

अयुतसिद्धानां [ जो कभी भी पृथक् नहीं होते ] आधार्याधारभूतानां दृष्टेति प्रत्ययहेतु सम्यन्धः स समवायः ॥ वैज०

जैसे तन्तु और वस्त्र का या मिट्टी और घड़े का समवाय सम्यन्ध है ।

जिसमें कर्म और गुण आश्रित हैं, और जो समवायी कारण है, जिसका गुणों के साथ समवाय सम्बन्ध है, वह 'द्रव्य' है।

गुण का लक्षणः—

समवायी तु निश्चेष्टः कारणं गुणः ॥ ५१ ॥

समवायी-द्रव्य के साथ समवाय सम्बन्ध वाला, निश्चेष्ट (निष्क्रिय) एवं कारणवान् गुण है।

गुण-निर्गुण होते हैं, गुण में गुण नहीं होता, जैसा कि लिखा है—

“गुणा गुणाश्रया नोक्ताः” ॥ चरक

कर्म का लक्षण—

संयोगे च वियोगे च कारणं द्रव्यमाश्रितं ।

कर्त्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म नान्यदपेक्षते ॥ ५२ ॥

जो कि द्रव्य का आश्रय लेकर रहता है, तथा संयोग और विभाग में कारण है, उसका नाम 'कर्म' है। कर्म किसी अन्य की अपेक्षा नहीं करता [ द्रव्य और गुण परस्पर एक दूसरे के समवाय की अपेक्षा करके कारण बनते हैं ]

“एकं द्रव्यमगुणं संयोगविभागेष्वनपेक्षं कारणमिति कर्मलक्षणम्” वैशे०

क्रिये हुवे सद्वृत्त, ज्ञान्ति, संगल-पाठ आदि अनुष्ठान भी कर्म हैं [ ये अध्यात्म कर्म हैं ]।

इत्युक्तं कारणं, कार्यं धातुसाम्यमिहोच्यते ।

धातुसाम्यक्रिया चोक्ता तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम् ॥ ५३ ॥

अब तक सामान्य आदि छ. कारणों का वर्णन किया गया है। अब उनका कार्य कहा जाता है—इस शास्त्र में “धातुओं का साम्य करना” ही कार्य है [ घट-पट आदि कार्य नहीं है ]। इस शास्त्र का—प्रयोजन भी धातुओं को समान रखना ही है।

क्षीण हुए धातु बढ़ाने चाहिये, बढे हुए घटाने चाहिये और समान का रक्षण करना चाहिये। जैसा कि आगे कहेंगे—



“प्रयोजनं चास्य स्वस्थस्य स्वस्वरक्षणं, आतुरस्य विकारग्रशमनं च ॥”

धोतुओं के विषम होने का कारण—

कालबुद्धीन्द्रियार्थानां योगो मिथ्या न चाति च ।

द्वयाश्रयाणां व्याधीनां त्रिविधो हेतुसंग्रहः ॥ ५४ ॥

काल [ शीत-वर्षा-ग्रीष्म रूपी संवत्सर अथवा परिणाम ], बुद्धि, और इन्द्रियार्थ [ इन्द्रियों के विषय—शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ] इन तीन के अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग होने से दोनों प्रकार की शारीरिक और मानसिक व्याधियां उत्पन्न होती हैं ।<sup>१</sup>

शरीरं सत्त्वसङ्गं च व्याधीनामाश्रयो मतः ।

शरीर और सत्त्व ( मन ) ये दोनों ही [ पृथक् रूप से एवं सम्मिलित रूप में ] रोगों की अधिष्ठान भूमि हैं ।<sup>२</sup> और जिस प्रकार ये दोनों व्याधियों का आश्रय स्थान हैं, इसी प्रकार सुख का भी आश्रय स्थान यही है ।

तथा सुखानां, योगस्तु सुखानां कारणं समः ॥ ५५ ॥

सुख का कारण—काल, बुद्धि और इन्द्रियों के विषयों का, सम [ उचित रूप में ] योग होना ही आरोग्यता का कारण है । कहा भी है—

“सुखहेतुर्मतस्त्वेकः समयोगः सुदुर्लभः” ॥

आत्मा का स्वरूप कहते हैं—

निर्विकारः परस्त्वात्मा सत्त्वभूतगुणेन्द्रियैः ।

चैतन्ये कारणं नित्यो द्रष्टा पश्यति हि क्रियाः ॥ ५६ ॥

पर. ( श्रेष्ठ ) आत्मा निर्विकार [ विकाररहित ] है,<sup>३</sup> सत्त्व

१ त्रीण्यः कालस्य चातियोगायोगमिथ्यायोगाः ॥  
असात्म्येन्द्रियार्थसयोगः प्रज्ञापराध. परिणामश्चेति त्रयस्त्रिविधविकल्पा  
हेतवः विकारकारणम्” ॥ “समयोगयुक्तास्तु प्रकृतिहेतवो भवन्ति” ॥ च० ॥

२ वेदनानामधिष्ठान मनो देहश्च सेन्द्रियः ।  
केगलमनन्वाग्रान्तमलद्रवगुणैः विना ॥ “चरक”

३ स पर्यगाच्छुक्रमकायमवणमस्ताविरं शुद्धमपापविद्धम् ॥ श्रुतिः ।

( मन ), मूल गुण शब्द, स्पर्श आदि, इन्द्रिय श्रोत्र, त्वचा आदि के साथ मिलकर मन और शरीर की क्रियाओं को देखता है । क्योंकि वह द्रष्टा साक्षी मात्र है । अचेतन शरीर और मन के चैतन्य में यह आत्मा ही कारण है और वह नित्य है ।

रोग प्रकृति—

वायुः पित्तं कफश्चोक्तः शारीरो दोषसंग्रहः ।

मानसः पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एव च ॥ ५७ ॥

संक्षेप रूप में शारीरिक दोषों के कारण वात, पित्त और कफ हैं । और मानसिक दोषों के कारण रज और तम है ।<sup>१</sup> शारीरिक कोई भी रोग इन वात, पित्त, कफ के बिना नहीं हो सकता ।

इन का प्रतीकार—

प्रशाम्यत्यौषधैः पूर्वो दैवयुक्तिव्यपाश्रयैः ।

मानसो ज्ञानविज्ञानधैर्यस्मृतिसमाधिभिः ॥ ५८ ॥

शारीरिक दोष दैव-व्यपाश्रय और युक्ति-व्यपाश्रय ओषधियों से शान्त हो जाते हैं । मानसिक दोष ज्ञान ( आत्मा आदि के ), विज्ञान अर्थात् शास्त्र ज्ञान, ( धैर्य ) चित्त की स्थिरता, ( स्मृति ) अनुभूत पदार्थ का स्मरण, ( समाधि ) विषयों से मन को हटा कर आत्मा में लगाना इनसे शान्त हो जाते हैं ।

दैव-व्यपाश्रय—मणि, मन्त्र, ओषधि, बलि, उपहार, होम,

१ वायु को प्रथम लिखा है क्योंकि वात जन्य रोग ही सब से अधिक हैं, 'अशीतिर्वात-विकारा.' एवं 'वायु रेव भगवान्' वायु सब से प्रबल है ।

सर्वेषाञ्च व्याधीनां वातपित्तश्लेष्माणः एवं मूलं तल्लिङ्गत्वात् दृष्टफलत्वादागमाच्च । यथा हि कृत्स्नं विकारजातं विश्वरूपेणावस्थितं सत्त्वरजस्तमांसि न व्यतिरिच्यते । एवमेव कृत्स्नं विकारजातं विश्वरूपेणावस्थितमव्यतिरिच्यते ॥ सुश्रुत० ॥

नियम प्रायश्चित्त आदि कर्म जो कि देव को आश्रय कर किये जाते हैं ।

• युक्ति-व्यपाश्रय अर्थात् योजना, युक्ति को आश्रय करके किये गये संशोधन, संशमन आदि कर्म ।

वायु का लक्षण—

रूक्ष. शीतो लघुः सूक्ष्मश्चलोऽथ विशदः खरः ।

विपरीतगुणैर्द्रव्यमरुत संप्रशाम्यति ॥ ५९ ॥

वायु रूक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चले अर्थात् गतिशील, विशद अर्थात् अपिच्छिल और खर (कठोर) है । वह इन से विपरीत गुण वाले स्निग्ध, उष्ण गुरु, स्थूल, स्थिर, पिच्छिल और मृदु द्रव्यों से शान्त होता है ।

शीत से वायु बढ़ता है और उष्णता से कम होता है, इसलिये वायु को त्रैयक शास्त्र में शीत-प्रकृति माना है । वैशेषिक दर्शन में इस को अनुष्णाशीत कहा है—अनुष्णाशीत. स्पर्शस्तु पवने मतः । वै० ॥

पित्त का कक्षण—

सस्नेहमुष्णं तीक्ष्णं च द्रवमम्लं सरं कटु ।

विपरीतगुणैः पित्तं द्रव्यैराशु प्रशाभ्यति ॥ ६० ॥

स्नेहसहित अर्थात् थोड़ा स्निग्ध उष्ण (गरम), तीक्ष्ण, शीघ्र कार्य करने वाला, सूई की तरह तेज, द्रव, अम्ल (खट्टा), सर (गमनशील), और कटु रस है । पित्त विपरीत गुण वाले द्रव्यों से शीघ्र ही शान्त हो जाता है ।

कफ का लक्षण—

गुरुशीतमृदुस्निग्धमधुरस्थिरपिच्छिला ।

श्लेष्मण प्रशमं यान्ति विपरीतगुणैर्गुणाः ॥ ६१ ॥

गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, और पिच्छिल ये कफ के गुण हैं । इन से विपरीत गुण वाले पदार्थों से ये गुण शान्त होते हैं । [ इन गुणों के शान्त होने से गुणी कफ भी शान्त हो जाता है ] ।

साध्य रोगों की शान्ति—

विपरीतगुणैर्देशमात्राकालोपपादितैः ।

भेषजैर्विनिवर्तन्ते विकाराः साध्यसंमताः ॥ ६२ ॥

साधनं नत्वसाध्यानां व्याधीनामुपदिश्यते ।

विपरीत गुण वाले [हेतु-विपरीत, व्याधि-विपरीत और हेतु और व्याधि दोनों के विपरीत और हेतु-व्याधि दोनों के विपरीत कार्य करने वाले] द्रव्यों से, एवं देश-मात्रा, काल के अनुसार योजना करने से औषध से साध्य व्याधियां शान्त हो जाती हैं, असाध्य रोग अच्छे नहीं होते । १ । और जो रोग औषधियों से असाध्य हैं उन के लिये औषध का उपदेश नहीं किया जाता ।

भूयश्चातो यथाद्रव्यं गुणकर्म प्रवक्ष्यते ॥ ६३ ॥

इसके आगे द्रव्यों के गुण कर्म कहेंगे ।

रसों की उत्पत्ति—

रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्यमापः क्षितिस्तथा ।

निर्वृत्तौ च, विशेषे च प्रत्ययाः खादयस्त्रयः ॥ ६४ ॥

‘रस’ जिह्वा का विषय है । इस रस का आधार जल और पृथिवी हैं । इस रस के बनाने एवं भेद करने में आकाश, वायु और अग्नि ये तीनों कारण होते हैं ।

वास्तव में रस का उत्पत्ति स्थान जल है और पृथिवी इसका आधार है । क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से मिल जाता है । “विष्टं ह्यपरं परेण” न्याय० ।

जल और पृथिवी में आकाश, वायु और अग्नि का भी अंश समाविष्ट रहता है । कहा भी है—

तेषामेकगुणं पूर्वं गुणवृद्धिः परे परे ।

पूर्वं पूर्वो गुणश्चैत्र क्रमशो गुणिषु स्मृतः ॥

इसीलिये, इस एक रस के छः भेद हो जाते हैं। जैसे—पृथिवी और जल की अधिकता से मधुर, पृथ्वी और अग्नि की अधिकता से अम्ल, जल और अग्नि की अधिकता से लवण, वायु और अग्नि की अधिकता से कटु, वायु और आकाश की अधिकता से तिक्त और वायु और पृथिवी की अधिकता से कपाय रस बनता है।

स्वादुरम्लोऽथ लवणः कटुकस्तिक्त एव च ।

कपायश्चेति पट्कोऽयं रसानां संग्रहः स्मृतः ॥ ६५ ॥

स्वादु = मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कपाय ये छः संक्षेप से रस हैं। विस्तार से इन के परस्पर संयोग से ६३ भेद हो जाते हैं।

रसों के द्वारा दोषों की शान्ति—

स्वादुम्ललवणा वायुं, कपायस्वादुतिक्तका ।

जयन्ति पित्तं, श्लेष्माणं कपायकटुतिक्तकाः ॥ ६६ ॥

स्वादु, अम्ल, और लवण ये रस वायु को शमन करते हैं; कपाय मधुर और तिक्त रस पित्त को, कपाय, कटु और तिक्त रस कफ को शान्त करते हैं। कटु-अम्ल और लवण रस पित्त को कुपित अर्थात् उत्पन्न करते और बढ़ाते हैं, स्वादु मधुर, अम्ल, और लवण रस कफ को, कटु, तिक्त और कपाय रस वायु को बढ़ाते हैं। इन रसों में प्रत्येक रस के द्रव्य, गुण और कर्म आगे ( आत्रेय भद्रकाप्यीय नाम २६ वें अध्याय ) में विस्तार से कहेंगे।

द्रव्य के भेद—

किचिहोषप्रशमनं किचिद्धातुप्रदूषणम् ।

स्वस्थवृत्तौ हितं किञ्चित् त्रिविधं द्रव्यमुच्यते ॥ ६७ ॥

द्रव्य तीन प्रकार के हैं। (१) कुछ द्रव्य वात आदि दोषों का ( शमन ) शोधन एवं शमन करते हैं जैसे—तेल वायु का, घी पित्त का और मधु कफ का शमन करता है और (२) कुछ द्रव्य शरीर को धारण करने वाले वात आदि वा रस आदि को दूषित वा कुपित करते हैं।

और (३) कुछ द्रव्य स्वास्थ्य का रक्षण करते हैं, वे स्वस्थ अवस्था के लिये हितकारी हैं। जैसे-लाल चावल, सांठी के चावल, जौ, जीवन्ती शाक आदि ।

“शमनं कोपनं स्वस्थहितं द्रव्यमिति त्रिधा ॥ वाग्भटः ॥

तत्पुनस्त्रिविधं ज्ञेयं जाङ्गमौद्भिदपार्थिवम् ।

द्रव्य फिर तीन प्रकार के हैं (१) (जांगम) प्राणियों से उत्पन्न होनेवाले, और (२) (औद्भिद) भूमि को भेदन करके पृथिवी में से उत्पन्न होने वाले चनस्पति आदि, (३) (पार्थिव) भूमि से उत्पन्न होने वाले, खेनिज ।

जंगम द्रव्य—

मधूनि गोरसाः पित्तं वसा मज्जासृग्गामिषम् ॥ ६८ ॥

विण्मूत्रं चर्म रेतोऽस्थि स्नायु शृङ्गं खुरा नखाः ।

जङ्गमेभ्यः प्रयुज्यन्ते केशा लोमानि रोचनाः ॥ ६९ ॥

मधु (शहद) <sup>१</sup> गोरस, दूध घी आदि; पित्त, वसा (चर्बी), मज्जा, रक्त, मांस, विष्टा, मूत्र, चर्म, वीर्य, अस्थि, स्नायु, सींग, नख, खुर, (केश) शिर के बाल, ( रोम ) शरीर के बाल, रोचना अर्थात् गोरोचना, ये जंगम-प्राणियों से लेकर व्यवहार में लाये जाते हैं ।

भौम द्रव्य—

सुवर्णं समलाः पञ्च लोहाः ससिकताः सुधा ।

मनःशिलाले मणयो लवणं गैरिकाञ्जने ॥ ७० ॥

भौममौषधमुद्दिष्टम्,

स्वर्ण, और इसका मल (शिलाजीत) पांच प्रकार के लोह जैसे रांगा, सीसा, ताम्बा, चांदी और लोहा, (सिकता) बाल, (सुधा) चूना, पार्थिव विष, मनःशिला, (आल) हरताल, ( मणि ) स्फटिक आदि, लवण सैन्धव आदि, ( गैरिक ) गेरु, ( अंजन ) सुरमा, ये पार्थिव औषध कहे हैं ।

औद्भिदं तु चतुर्विधम् ।

वनस्पतिर्वीरुधश्च वानस्पत्यस्तथौपधिः ॥ ७१ ॥

फलैर्वानस्पतिः, पुष्पैर्वानस्पत्यः फलैरपि ।

ओषध्यः फलपाकान्ताः, प्रतानैर्वीरुधः स्मृताः ॥ ७२ ॥

औद्भिद् द्रव्य चार प्रकार के है । वनस्पति, वीरुध, वानस्पत्य और ओपधि ।

(१) जिनमें विना पुष्प के फल आता है, वे 'वनस्पति' है, जैसे गूलर, बट, पिलखन आदि । (२) जिनमें फल और पुष्प दोनों आते हैं उनको 'वानस्पत्य' अर्थात् वृक्ष कहते हैं, जैसे आम, जामुन आदि, (३) जो फल आने पर नष्ट हो जाते हैं, उनको 'ओपधि' कहते हैं जैसे धान, चावल, जौ, गेहु आदि और (४) जो लता के समान फैलने वाली है उनको 'वीरुध'—कहते हैं जैसे गिलोय आदि ।

औद्भिद् पदार्थों के काम में आने वाले अंग.—

मूलत्वक्सारनिर्यासनालखरसपल्लवाः ।

क्षारा क्षीरं फलं पुष्पं भस्म तैलानि कण्टकाः ॥ ७३ ॥

पत्राणि शुद्धा कन्दाश्च प्ररोहाश्चौद्भिदो गणः ।

मूल, त्वचा, (सार) अन्दर का स्थिर सार भाग, (निर्यास)गोद, (नाल) नाल, (म्बरस) पीडन करके द्रव्यसे निकाला हुआ रस, (पल्लव) पत्ते आम, जामुन आदि के, क्षार, (क्षीर) दूध, थोर आदि के फल, पुष्प, भस्म, तैल सिलावे आदि का, काटे, पत्ते, गुंग अर्थात् छोटे २ काटे जो कि वृक्ष पर होते हैं जैसे सिम्बल के, कन्द अर्थात् फलहीन औषधियों के मूल, (प्ररोह) अक्षुर यह 'औद्भिद् गण' है । वनस्पतियों के ये उपरोक्त अंग काम में आते हैं ।

मूलिन्यो पोडशैकांनाः फलिन्यो विंशतिः स्मृताः ॥ ७४ ॥

महाश्रेहाश्च चत्वारः पञ्चैव लवणानि च ।

अष्टौ मूत्राणि सङ्घ्रातान्यग्रावेव पयांसि च ॥ ७५ ॥

शोधनार्थाश्च पट्टवृजाः पुनर्वसुनिदर्शिताः ।

य एतान् वेत्ति संयोज्जुं विकारेषु स वेदविन् ॥ ७६ ॥

जिन वनस्पतियों का मूल प्रयोग करने योग्य है वे 'मूलिनी' है। ऐसी वनस्पतियां सोलह हैं, और जिन वनस्पतियों का फल उपयोगी है वे 'फलिनी' हैं, ऐसी वनस्पतियां उन्नीस हैं। चार महास्नेह हैं जैसे घी, तैल, वसा, और मज्जा; पांच प्रकार के नमक हैं, आठ प्रकार के मूत्र और आठ ही प्रकार के दूध हैं और संशोधन के लिये छः वृक्ष पुनर्वसु आत्रेय ने कहे हैं।

जो विद्वान् वैद्य रोगों में इन सब का प्रयोग करना जानता है वह आयुर्वेद को भली प्रकार से जानता है।

सोलह 'मूलिनी' ओषधियों की गणना—

हस्तिदन्ती हैमवती श्यामा त्रिवृद्धोगुडा ।

सप्तला श्वेतनामा च प्रत्यक्श्रेणी गवाक्ष्यपि ॥ ७७ ॥

ज्योतिष्मती च बिम्बी च शणपुष्पी विषाणिका ।

अजगन्धा द्रवन्ती च क्षीरिणी चात्र षोडशी ॥ ७८ ॥

१ हस्तिदन्ती ( नागदन्ती ), २ हैमवती ( श्वेत वच ), ३ श्यामा ( त्रिवृत् तीवी ), ४ त्रिवृत् ( लाल जड़ वाली निशोथ ), ५ अधोगुडा ( विधारा ), ६ सप्तला ( सांतल ), ७ श्वेतनाम ( श्वेत अपराजिता ), ८ प्रत्यक् श्रेणी ( दन्ती, जमालगोटा ), ९ गवाक्षी ( इन्द्रायण ), १० ज्योतिष्मती ( माल कंगनी ), ११ बिम्बी ( लाल फल ), १२ शणपुष्पी ( घण्टारव ), १३ विषाणिका ( मेघशृंगी, काकड़ासिंगी ], १४ अजगन्धा ( वन यवानी, अजमोड ) १५ द्रवन्ती ( चित्रक, चीता ), और १६ क्षीरिणी ( दूधी ) ये सोलह हैं ।

इनके कर्म -

शणपुष्पी च बिम्बी च छर्दने हैमवत्यपि ।

श्वेता ज्योतिष्मती चैव योज्या शीर्षविरेचने ॥ ७९ ॥

एकादशावशिष्टा याः प्रयोज्यास्ता विरेचने ।

इत्युक्ता नामकर्मभ्यां मूलिन्यः,

ऊपर कही हुई सोलह मूलिनी ओषधियों में, शणपुष्पी, बिम्बी, और



हैमवती ( श्वेतवचा ) ये तीन वमन कार्य में प्रयोग करनी चाहिये, श्वेत अपराजिता, ज्योतिष्मती ये दोनों शिरोविरेचन में, और शोष ग्यारह वनस्पतियां विरेचन कार्य में प्रयोग करनी चाहिये । सब कामों में इनके मूल ही काम में लाने चाहिये । इस प्रकार से ये सोलह 'मूलवाली, वनस्पतियां नाम और कर्म सहित कह दी हैं ।

फलिनीः शृणु ॥ ८० ॥

'फलिनी' वनस्पतियों के नाम सुनो—

शङ्खिन्यथ विडङ्गानि त्रपुपं मदनानि च ।

आनूपं स्थलजं चैव क्लोतकं द्विविधं स्मृतम् ॥ ८१ ॥

धामार्गवमथेक्ष्वाकु जीमूतं कृतवेधनम् ।

प्रकीर्या चादकीर्या च प्रत्यक्पुष्पा तथाऽभया ।

अन्तःकोटरपुष्पी च हस्तिपर्ण्याश्च शारदम् ॥ ८२ ॥

कम्पिल्लकारग्वधयोः फलं यत्कुटजस्य च ।

धामार्गवमथेक्ष्वाकु जीमूतं कृतवेधनम् ॥ ८३ ॥

शखिनी ( शंखपुष्पी ), विडङ्ग ( वायविडङ्ग ), त्रपुप ( खीरा, ककड़ी, कटु खीरा वर्तना चाहिये ), मदन ( मैनफल ), आनूप क्लोतक ( जल में पैदा होने वाली मुलहैठी ), स्थलज क्लोतक ( शुष्क भूमि में पैदा होने वाली मुलहैठी ), धामार्गव ( बड़ी तुरई ), इक्ष्वाकु ( कड़वी तुरई ), जीमूत ( जीयापोता ), केतवेधन ( तुरई ), प्रकीर्या और उदकीर्या ( दो प्रकार के करंज ), प्रत्यक्पुष्पा ( अपामार्ग ), अभया ( हरड़ ), अन्तःकोटरपुष्पी ( नीलवट्ट ), शारदा हस्तिपर्णी ( हस्तिपर्णी के शरत ऋतु में उत्पन्न फल ), कम्पिल्लक ( कमीला ), आरग्वध ( अमलतास ), कुटज ( कूटे का फल, इन्द्र जौ ), ये १६ 'फलिनी' वनस्पतियां हैं ।

इनके कर्म—

मदनं कुटजं चैव त्रपुप।हस्तिपर्णिनी ।

एतानि वमने चैव योज्यान्यास्यापनेपु च ॥ ८४ ॥

नस्तप्रच्छर्दने चैव प्रत्यक्पुष्पा विधीयते ।

दश यान्यवशिष्टानि तान्युक्तानि विरेचने ॥ ८५ ॥

नामकर्मभिरुक्तानि फलान्येकोनविंशतिः ।

धामार्गव, इक्ष्वाकु, जीमूत, अमलतास, मैनफल, कूड़े का फल, खीरा, और हस्तिपर्णी के शरद ऋतु मे उत्पन्न फल ये आठ वनस्पतियां वमन, आस्थापन और निरूह बस्ति कर्म में प्रयोग करनी चाहिये ।

अपामार्ग ( चिरचिटे ) का फल नस्य कर्म में प्रयोग करना चाहिये । और शेष दस वनस्पतियों का प्रयोग विरेचन कार्य में करना चाहिये । इस प्रकार से ये १९ 'फलिनी' वनस्पतियां नाम और कर्म द्वारा कह दी हैं ।

चार प्रकार के स्नेह—

सर्पिस्तैलं वसा मज्जा स्नेहो दृष्टश्चतुर्विधः ॥ ८६ ॥

सर्पि ( घी ) तैल, वसा ( चर्बी ) और मज्जा ( अस्थियों वा गुठलियों के भीतरी भाग का स्नेह, चिकनाई ) ये चार प्रकार के स्नेह कहे हैं ।

इनके कर्म कहते हैं:—

पानाभ्यञ्जनबस्त्यर्थं नस्यार्थं चैव योगतः ।

स्नेहना जीवना बल्या वर्णोपचयवर्धनाः ॥ ८७ ॥

स्नेहा ह्येते च विहिता वातपित्तकफापहाः ।

ये चारों स्नेह ( पान ) शरीर मे मुख मार्ग से देने, ( अभ्यंजन ) शरीर पर मालिश करने, ( बस्ति ) गुदा या उपस्थमार्ग से देने, और ( नस्य ) नाक से देने में प्रयुक्त होते हैं । ये स्नेह शरीर का स्नेहन करते हैं, शरीर को जीवन देते हैं, शरीर का तर्पण करते हैं, बल और शक्ति को बढ़ाते हैं । ये स्नेह वात, पित्त और कफ को नष्ट करते हैं ।

लवण—

सौवर्चलं सैन्धव च विडमौद्भिदमेव च ॥ ८८ ॥

सामुद्रेण सहैतानि पञ्च स्युर्लवणानि च ।

पांच प्रकार के नमक हैं । ( १ ) सैन्धव ( सेन्धा नमक ) सब नमकों मे

श्रेष्ठ है (२) सौवर्चल (सेचल), (३) (विड) काला नमक, (४) (औन्दिद्) काच नमक और (५) सामुद्र, समुद्र के पानी से तैय्यार किया हुआ। ये पांच प्रकार के लवण या नमक हैं ।

लवणों के कर्म—

स्निग्धान्युष्णानि तीक्ष्णानि दीपनीयतमानि च ॥ ८९ ॥

आलेपनार्थं युज्यन्ते स्नेहस्वेदविधौ तथा ।

अधोभागोर्ध्वभागेषु निरूहेष्वनुवासने ॥ ९० ॥

अभ्यञ्जने भोजनार्थं शिरसश्च विरेचने ।

शस्त्रकर्मणि वस्त्यर्थमञ्जनोत्सादनेषु च ॥ ९१ ॥

अजीर्णानाहयोर्वाते गुल्मं शूलं तथोदरे ।

उक्तानि लवणानि—

ये नमक स्निग्ध, उष्ण, तीक्ष्ण और दीपनीय अर्थात् विशेष रूप से अग्नि को बढ़ाने वाले हैं । ये नमक आलेपन में, स्नेहन में, और स्वेदन कार्य में, अधोभाग-विरेचन और ऊर्ध्व-विरेचन-द्वारा दोषों को बाहर निकालने में, निरूहण में, अनुवासन में, अभ्यञ्जन में, भोजन में, और शिर के विरेचन में, शस्त्र कर्म में, वर्त्ति अर्थात् फल वर्त्ति आदि में, अञ्जन में, (उत्सादन) उवटन में, अजीर्ण में, (आनाह) अफारे में, वायु रोग में, गुल्म में, शूल रोग में, और उदर रोगों में प्रयोग किये जाते हैं । ये पांचों प्रकार के नमक कह दिये ।

आठ मूत्र—

ऊर्ध्वं मूत्राण्यष्टौ निबोध मे ॥ ९२ ॥

मुख्यानि यानि ह्यष्टानि सर्वाण्यात्रेयशासने ।

अत्रिमूत्रमजामूत्रं गोमूत्रं माहिषं तथा ॥ ९३ ॥

हस्तिमूत्रमथोष्टस्य ह्यस्य च खरस्य च ।

अब जो मुख्य आठ मूत्र आत्रेय ऋषि ने कहे हैं वे सुनिये—

(१) भेड का मूत्र, (२) बकरी का मूत्र, (३) गाय का मूत्र,

(४) भैंस का मूत्र, (५) हाथी का मूत्र, (६) जंट का मूत्र, (७) घोड़े का मूत्र और (८) गधे का मूत्र ये आठ प्रकार के मूत्र हैं ।<sup>१</sup>

मूत्रो के सामान्य गुण—

उष्णं तीक्ष्णमथो रूक्षं कटुकं लवणान्वितम् ॥ ९४ ॥

मूत्रमुत्सादने युक्तं युक्तमालेपनेषु च ।

युक्तमास्थापने मूत्रं युक्तं चापि विरेचने ॥ ९५ ॥

स्वेदेष्वपि च तद्युक्तमानाहेष्वगदेषु च ।

उदरेष्वथ चार्शःसु गुल्मकुष्ठकिलासिषु ॥ ९६ ॥

तद्युक्तमुपनाहेषु परिषेके तथैव च ।

दीपनीयं विषघ्नं च क्रिमिघ्नं चोपदिश्यते ॥ ९७ ॥

पाण्डुरोगोपसृष्टानामुत्तमं सर्वथोच्यते ।

श्लेष्माणं शमयेत्पीतं मारुतं चानुलोमयेत् ॥ ९८ ॥

कर्षेत्पित्तमधोभागमित्यस्मिन् गुणसंग्रह ।

सामान्येन मयोक्तस्तु,

ये आठो प्रकार के मूत्र गरम, तीक्ष्ण, रुखे, कटु रस, और लवण रस से युक्त हैं । आठों प्रकार का मूत्र उत्सादन में, आलेपन में, प्रलेपन में, आस्थापन में निरुह में, विरेचन में, स्वेदन में, नाड़ीस्वेद में, आनाह अर्थात् अफारे में, अगद अर्थात् विषनाशक औषधियों में प्रयुक्त होते हैं ।

उदर रोगों में, अर्श रोग में, गुल्म, कुष्ठ (कोढ़) और किलास (कुष्ठ का भेद), उपनाह, पुलटिस आदि में, परिषेक अर्थात् सेचन कार्य में, प्रयुक्त होते हैं । ये मूत्र (दीपन) अग्निदीपक, (विषघ्न) विषनाशक, और (क्रिमिघ्न) कृमिनाशक कहे जाते हैं । ये पाण्डु-रोगियों के लिये पान, आहार और भोजन आदि कल्पना में उत्तम, हितकारी हैं । पिया हुआ मूत्र श्लेष्मा ( कफ ) को शमन करता

१ गोऽजाविमहिषीणां तु स्त्रीणां मूत्रं प्रशस्यते ।

खरोष्ट्रेभनराश्वानां पुंसां मूत्रं हितं स्मृतम् ॥” भावप्रकाश

है, वायु को अनुलोमन करता है, और पित्त को अधोमार्ग में खींचता है, पित्त का विरेचन करता है। ये आठों मूत्रों के सामान्य से गुण कह दिये हैं।

पृथक्त्वेन प्रवक्ष्यते ॥ ९९ ॥

आठों मूत्रों में से एक एक के जो पृथक् २ गुण हैं वह आगे कहे जाते हैं—

अविमूत्रं सतिक्तं स्यात्स्निग्धं पित्ताविरोधि च ।

आजं कपायमधुरं पथ्य दोषान्निहन्ति च ॥ १०० ॥

गव्यं समधुरं किचिहोपन्नं क्रिमिकुष्ठनुत् ।

कण्डूलं शमयेत्पीतं सम्यग्दोषोदरे हितम् ॥ १०१ ॥

अर्शोशोफोदरत्र तु सचारं माहिपं सरम् ।

हास्तिकं लवणं मूत्रं हितं तु क्रिमिकुष्ठिनाम् ॥ १०२ ॥

प्रशस्तं बद्धविण्मूत्रविपश्चेष्मामयार्शसाम् ।

सतिक्तं श्वासकासन्नमर्शोघ्नं चौष्ट्रमुच्यते ॥ १०३ ॥

वाजिनां तिक्तकटुक कुष्ठव्रणविषापहम् ।

खरमूत्रमपस्मारोन्मादग्रहविनाशनम् ॥ १०४ ॥

इतीहोक्तानि मूत्राणि यथासामर्थ्ययोगतः ।

१ भेड का मूत्र थोड़ा तिक्त, स्निग्ध एवं पित्त का अविरोधी है, वह न तो पित्त को बढ़ाता है, और न पित्त को शमन करता है।

२ बकरी का मूत्र कपाय और मधुर रस, स्रोतो के लिये हितकारी है और त्रिदोषनाशक है।

३ गाय का मूत्र कुछ मधुर, दोषनाशक, कृमि, और कुष्ठ का नाशक है। इसके पीने में ग्राज शमन होती है, एवं वान आदि से उत्पन्न पेट के रोगों में हितकारी है।

४ भैंस का मूत्र बवासीर, शोथ, और उदर रोगों को नाश करने वाला, थोड़ा गारा और मलभेदक है।

५ हाथी का मूत्र नमकीन, कृमि और कुष्ठ रोग वाले पुरुषों के

लिये हितकारी है । अवरुद्ध मल और मूत्र रोग अलसक रोग, विष रोग, श्लेष्म जन्य रोगो और (अर्श) बवासीर रोग मे श्रेष्ठ है ।

६. ऊंट का मूत्र थोड़ा तिक्त, श्वास, कास और अर्श रोग का नाशक है ।

७. घोड़ों का मूत्र तिक्त और कटु, कुष्ठ, विष, और व्रण का नाशक है ।

८. गधे का, मूत्र अपस्मार, ( मृगी, हिस्टीरिया ) उन्माद आदि (पागलपन) का नाशक है । इस प्रकार से इस शास्त्र मे सामान्य और विशेषदोनों प्रकार से यथासामार्थ्य अर्थात् मूत्रों की, जैसी जैसी शक्ति है, वैसेगुण कह दिये है ।

आठ प्रकार के दूध—

अतः क्षीराणि वक्ष्यन्ते कर्म चैषां गुणाश्च ये ॥ १०५ ॥

अ्रविक्षीरमजाक्षीरं गोक्षीरं माहिषं च यत् ।

उष्ट्रीणामथ नागीनां वडवायाः स्त्रियास्तथा ॥ १०६ ॥

अब आठ प्रकार के दूध, इन के कर्म और गुण भी कहे जाते हैं:—

१ भेड़ का, २ बकरी का, ३ गाय का, ४. भैंस का, ५. ऊंटनी का, ६ हथिनी का, ७. घोड़ी का और ८ स्त्रियो का दूध ।

सब दूधों के सामान्य गुण—

प्रायशो मधुरं स्निग्धं शीतं स्तन्यं पयः स्मृतम् ।

प्रीणनं बृंहणं वृष्यं मेध्यं बल्यं मनस्करम् ॥ १०७ ॥

जीवनीयं श्रमहरं श्वासकासनिवर्हणम् ।

हन्ति शोणितपित्तं च संधानं विहतस्य च ॥ १०८ ॥

सर्वप्राणभृतां सात्न्यं शमनं शोधनं तथा ।

तृष्णाघ्नं दीपनीयं च श्रेष्ठं क्षीणक्षतेषु च ॥ १०९ ॥

पाण्डुरोगेऽम्लपित्ते च शोषे गुल्मे तथोदरे ।

अतीसारं ज्वरं दाहे श्वयथौ च विधीयते ॥ ११० ॥

योनिशुक्रप्रदोषेषु मूत्रेषु प्रदरेषु च ।

पुरीषे ग्रथिते पथ्यं वातपित्तविकारिणाम् ॥ १११ ॥

सर्व दूध प्रायः<sup>१</sup> मधुर रस, स्निग्ध, शीत, ( स्तन्य ) दूध बढ़ाने वाले, ( प्रीणन ) पुष्ट देने वाले, ( वृंहण ) शरीर को बढ़ाने वाले, ( वृष्य ) वीर्यवर्धक, ( मेध्य ) बुद्धि के लिये हितकारी, ( बल्य ) शरीर को बल देने वाले, ( मनस्कर ) मन को प्रसन्न करने वाले, ( जीवनीय ) जीवन के लिये हितकारी, ( श्रमहर ) थकान को मिटाने वाले, श्वास और कास ( कफ, कास को छोड़कर शेष समस्त कासों को ) मिटाने वाले हैं । दूध रक्तपित्तको नाश करता और टूटे हुए को जोड़ने वाला है, सब प्राणियों के लिये सात्म्य-सुख करने वाला है, दोषों को शमन अर्थात् स्वस्थान में स्थित दोषों को शान्त करने वाला और ( शोधन ) दोषों को शरीर से बाहर निकाल कर शान्त करने वाला है, प्यास को नाश करने वाला, अग्नि वर्धक, क्षीण और क्षत रोगियों के लिये हितकारी, पाण्डु रोग वातपित्त, शोष, गुल्म, उदर, अतीसार, ज्वर ( जीर्ण ज्वर ), दाह, ( श्वयथु ) शोथ रोग में विशेष करके पथ्य है । योनि रोगों में, शुक्र रोगों में, सूत्रकृच्छ्र रोग में, मलावरोध में, पथ्य और हितकारी है । वह वात-पित्त रोगियों के लिये भी पथ्य है ।

दूध के कर्म कहते हैं —

नम्यालेपावगाहेषु वमनास्थापनेषु च ।

विरेचने स्नेहने च पय मर्वत्र युज्यते ॥ ११२ ॥

यथाक्रम चीरगुणानेकैकस्य पृथक्पृथक् ।

अन्नपानादिकेऽध्याये भूयो वक्ष्याम्यशेषतः ॥ ११३ ॥

यह दूध नम्य कर्म में, अवगाहन क्रिया में, आलेप में, वमन में, आस्थापन में, वस्ति में, विरेचन में, स्नेह कर्म में, सब स्थानों पर रसायन अर्थात् चार्जीकरण आदि में भी प्रयुक्त होता है । यहां पर आठों प्रकार के दूधों के गुण-कर्म सामान्य रूप में कह दिये हैं । आगे 'अन्न-पान'

१ प्राय शब्द में ऊटनी के दूध का निषेध है ।

‘विधि’ नामक अध्याय [सूत्रस्थान अ० २७] में क्रमानुसार प्रत्येक दूध के गुण-कर्म पृथक् पृथक् सम्पूर्ण रूप से कहेंगे ।

अथापरे त्रयो वृक्षाः पृथग्ये फलमूलिभिः ।

स्तुह्यर्कश्मन्तकास्तेषामिदं कर्म पृथक्पृथक् ॥ ११४ ॥

वमनेऽश्मन्तकं विद्यात्स्तुहीक्षीरं विरेचने ।

क्षीरमर्कस्य विज्ञेयं वमने सविरेचने ॥ ११५ ॥

अब शोधन के लिये कहे हुए छः वृक्षों में से तीन का दूध और तीन की त्वचा ग्रहण की जाती है । प्रथम दूध वाले तीन वृक्ष हैं । फलिनी और मूलिनी वनस्पतियों से पृथक् करके शोधन के लिये हैं उनके नाम १ स्नुही ( थोर ), २ अर्क ( आक ) और ३. अश्मन्तक ( पाषाण भेद ) हैं । अश्मन्तक ( पाषाण भेद ) का दूध वमन के लिये, स्नुही ( थोर ) का दूध विरेचन के लिये और आक का दूध वमन और विरेचन दोनों कार्यों के लिये जानना चाहिये ।

इमांस्त्रीनपरान् वृक्षानाहुर्येषां हितास्त्वचः ।

पूतिकः कृष्णगन्धा च तिल्वकश्च तथा तरुः ॥ ११६ ॥

विरेचने प्रयोक्तव्यः पूतिकस्तिल्वकस्तथा ।

कृष्णगन्धा परीसर्पे शोथेष्वर्शाःसु चोच्यते ॥ ११७ ॥

दद्दुविद्रधिगण्डेषु कुप्टेष्वप्यलजीषु च ।

पड्वृक्षाञ्छोधनानेतानपि विद्याद्विचक्षणः ॥ ११८ ॥

शेष तीन वृक्ष हैं—जिनकी त्वचा हितकारी हैं । उन वृक्षों के नाम—पूतिक ( करंज ), कृष्णगन्धा ( शोभाक्षन या सहंजना ); और तिल्वक ( लोध्र ) है । इन में करंज और लोध्र वृक्ष की छाल विरेचन कार्य में प्रयुक्त होती है । और सहंजना की छालपरिसर्प ( चीसर्प, एकजीमा, त्वक् रोग में ), शोथ, अर्श रोग, दद्दु ( दाद ), विद्रधि, गण्डमाला, कुष्ठ और अलजी नामक नाना रोगों में प्रयुक्त होती है, सहंजना की छाल पीसकर



बाहर लेप की जाती है। शिरोविरेचन में इसका प्रयोग भिषग्जितीय अध्याय [विमानस्थान अ० ८] में कहेंगे।

इन ऊपर कहे हुए छ. वृक्षों को शोधनकारक जाने।

उपसंहार—

इत्युक्ता फलमूलिन्य स्नेहाश्च लवणानि च ।

मूत्रं क्षीराणि वृक्षाश्च पड्ये दृष्टा. पयस्त्वचः ॥ ११९ ॥

फलिनो १९, मूलिनो १६, स्नेह ४, लवण ५, मूत्र ८, दूध ८, और शोधन वृक्ष ६, जिनके दूध और त्वचा काम में आते हैं वे कह दिये हैं।

ओपधीर्नामरूपाभ्यां जानते ह्यजपा वने ।

अविपाश्चैव गोपाश्च ये चान्ये वनवासिन ॥ १२० ॥

वकरियां चराने वाले, भेड़ें चराने वाले, गौत्रे चराने वाले, और अन्य तपस्वी या भील आदि जो कि जंगल में रहते हैं ये लोग औपधियों को नाम, रूप और आकृति से पहिचानते हैं।

न नामज्ञानमात्रेण रूपज्ञानेन वा पुनः ।

ओपधीनां परा प्राप्ति कश्चिद्वेदितुमर्हति ॥ १२१ ॥

योगविन्नामरूपज्ञस्तासां तत्त्वविदुच्यते ।

किं पुनर्यो विजानीयादोपधी. सर्वथा भिषक् ॥ १२२ ॥

योगमासां तु यो विद्यादेशकालोपपादितम् ।

पुरुषं पुरुषं वीक्ष्य स विज्ञेयो भिषक्तमः ॥ १२३ ॥

ओपधियों के नाम जान लेने मात्र से, अथवा रूप से पहिचान लेने से भी कोई ओपधि के सम्यक् प्रयोग को नहीं जान सकता। इसीलिये शास्त्र में इनका वर्णन किया जाता है।

जो व्यक्ति ओपधियों के रूप को नहीं पहिचानता, परन्तु उनके योग, प्रयोग को जानता है वह भी तत्त्ववित् है, और जो वैद्य ओपधियों को नाम, रूप, और उनके योग और प्रयोगों सहित जानता है, वह तो तत्त्ववित् है ही, और जो व्यक्ति प्रत्येक पुरुष के बल, शरीर, आहार, सार, सात्म्य, सत्व

प्रकृति और वयस का विचार करके देश, काल, मात्रा के अनुसार औषधि को जानता है वह वैद्यो में श्रेष्ठ है ।

न जानी हुई औषधियों से हानिये—

यथा विषं यथा शस्त्रं यथाग्निरशनिर्यथा ।

तथौषधमविज्ञातं विज्ञातममृतं यथा ॥ १२४ ॥

औषधं ह्यनभिज्ञातं नामरूपगुणैस्त्रिभिः ।

विज्ञातमपि दुर्युक्तमनर्थायोपपद्यते ॥ १२५ ॥

जिस प्रकार न जाना हुआ ( मूढ़ आदमी से प्रयुक्त किया हुआ ) विष, जिस प्रकार शस्त्र, जिस प्रकार अग्नि और जिस प्रकार अशनि (वज्र) (बिजली) मृत्यु का कारण बनते हैं, उसी प्रकार प्रकार नाम रूप गुणसेका जानी हुई औषध भी मृत्यु का कारण हो सकती है और नामरूप और गुण से जानी हुई औषध अमृत के समान आरोग्यदायक एवं आयुवर्धक होती है ।

योगादपि विषं तीक्ष्णमुत्तमं भेषजं भवेत् ।

भेषजं चापि दुर्युक्तं तीक्ष्णं संपद्यते विषम् ॥ १२६ ॥

तस्मान्न भिषजा युक्तं युक्तिब्राह्मेण भेषजम् ।

धीमता किञ्चिदादेयं जीवितारोग्यकाङ्क्षिणा ॥ १२७ ॥

नाम, रूप और गुण इन तीनों से पृथक् पृथक् अथवा समस्त रूप में न जानी हुई औषध अनर्थ का कारण बनती है । नाम, रूप एवं गुण से जानी हुई औषध भी देश-काल आदि का विचार करके न देने से अनिष्ट के लिये होती है, वह भारी अनर्थ—उत्पन्न करती है ।

तीक्ष्ण प्राणनाशक विष भी सम्यक् प्रकार से प्रयोग करने से उत्तम औषध का कार्य करता है । औषध भी अनुचित प्रकार से प्रयोग करने पर तीक्ष्ण-प्राण नाशक विष का काम करती है ।

इसलिये अनुचित रूप में प्रयोग की जाने वाली औषधि के विष के समान होने से आयु एवं आरोग्य को चाहने वाले बुद्धिमान् व्यक्ति को

चाहिये कि, देश-काल-मात्रा आदि का विचार न करके देने वाले मूढ़ वैद्य से दिये हुए औषध को कभी ग्रहण न करे ।

कुर्यान्नपितितो मूर्ध्नि सशेषं वासवाशनिः ।

सशेषमातुरं कुर्यान्न त्वज्ञमतमौषधम् ॥ १२८ ॥

इन्द्र के हाथ से दृष्टा हुआ वज्र यदि मनुष्य के सिर पर गिर पड़े तो उससे बचना सम्भव हो सकता है, परन्तु मूर्ख वैद्य से दी हुई औषधि रोगी को समाप्त ही कर डालती है, इससे बचना असम्भव है ।

दुःखिताय शयानाय श्रद्धघानाय रोगिणे ।

यो भैषजमविज्ञाय प्राज्ञमानी प्रयच्छति ॥ १२९ ॥

त्यक्तधर्मस्य पापस्य मृत्युभूतस्य दुर्मते ।

नरो नरकपाती स्यात्तस्य संभाषणादपि ॥ १३० ॥

जो प्राज्ञमानी-अपने को बुद्धिमान् गिनने वाला वैद्य, औषध को न जानकर दुःखी, अचेत पड़े, वैद्य में श्रद्धा करने वाले रोगी को औषध देता है, ऐसे धर्म को छोड़ देने वाले विश्वासघाती, मृत्यु के समान साक्षात् यम और दुर्मति, अज्ञ, मूढ़ वैद्य के साथ बोलने से भी मनुष्य नरकगामी होता है, फिर स्पर्श आदि से क्या नहीं होगा ?

वरमाशीविषविषं कथितं ताम्रमेव वा ।

पीतमत्यग्निसंतप्ता भक्षिता वाऽप्ययोगुडा ॥ १३१ ॥

न तु श्रुतवतां वेपं विभ्रता शरणागतात् ।

गृहीतमन्नं पानं वा वित्तं वा रोगपीडितात् ॥ १३२ ॥

साप का विष अथवा ताम्बे को उवाल कर पीना या आग में लाल किये हुए लोहे के गोले खा लेना, कहीं अधिक अच्छा है, परन्तु वैद्य का वेप पहिन कर उसका शरण में आये हुए रोगी से, अन्न, पान अथवा धन ग्रहण करना अच्छा नहीं ।

वैद्य को क्या करना चाहिये ?

भिषग्वुभूषुर्मतिमानत स्वगुणसंपदि ।

परं प्रयत्नमातिष्ठेत्प्राणदः स्याद्यथा नृणाम् ॥ १३३ ॥

वैद्य बनने की इच्छा वाले, बुद्धिमान् व्यक्ति को चाहिये कि, वैद्य के गुणों को प्राप्त करने में अति प्रयत्न करे जिससे कि वह मनुष्यों के रोगों को दूर करके प्राण देने वाला सिद्ध हो ।<sup>१</sup>

तदेव युक्तं भैषज्यं यदारोग्याय कल्पते ।

स चैव भिषजां श्रेष्ठो रोगेभ्यो यः प्रमोचयेत् ॥ १३४ ॥

जो औषध रोग को शान्त करने में समर्थ है वही ठीक प्रकार में प्रयुक्त की हुई औषध है और जो रोगों से रोगियों को मुक्त करे, वह ही चैद्यों में श्रेष्ठ वैद्य है ।

सम्यक्प्रयोग सर्वेषां सिद्धिराख्याति कर्मणाम् ।

सिद्धिराख्याति सर्वैश्च गुणैर्युक्तं भिषक्तमम् ॥ १३५ ॥

सब प्रकार के कर्मों की सिद्धि, सफलता, उन कर्मों के सम्यक् प्रयोग को बतलाती है । सफलता ही सब गुणों से युक्त वैद्य की श्रेष्ठता को भी बतलाती है सिद्धि अर्थात् सफलता से ही वैद्य का नाम चमकता है ।

अध्याय का संग्रह—

तत्र श्लोकाः ।

आयुर्वेदागमो हेतुरागमस्य प्रवर्तनम् ।

सूत्रणस्याभ्यनुज्ञानमायुर्वेदस्य निर्णय ॥ १३६ ॥

संपूर्ण कारणं कार्यमायुर्वेदप्रयोजनम् ।

हेतवश्चैव दोषाश्च भेषजं संग्रहेण च ॥ १३७ ॥

रसा. संप्रत्ययद्रव्यास्त्रिविधो द्रव्यसंग्रहः ।

मूलिन्यश्च फलिन्यश्च स्नेहाश्च लवणानि च ॥ १३८ ॥

मूत्रं क्षीराणि वृक्षाश्च षड्ये क्षीरत्वगाश्रयाः ।

कर्माणि चैषा सर्वेषां योगायोगगुणागुणाः ॥ १३९ ॥

१. वैद्यगुण-सम्पत्—श्रुतै पर्यवदातत्वं बहुशो दृष्टकर्मता ।

दाक्ष्यं शौचमिति ज्ञेयं वैद्ये गुणचतुष्टयम् ॥

वैद्यापवादो यत्रस्था. सर्वे च भिषजां गुणाः ।

सर्वमेतत्समाख्यातं पूर्वाध्याये महर्षिणा ॥ ३४० ॥

आयुर्वेद का मर्त्यलोक में आना, हेतु-रोगों का उत्पन्न होना, भरद्वाज मुनि द्वारा मर्त्यलोक में शास्त्रों का प्रचार, अग्निवेशादि का तन्त्र बनाना; अग्नि-वेशादि द्वारा बनाये हुए तन्त्रों के लिये ऋषियों से दी हुई आज्ञा, हिता-हित आदि लक्षण रूप सामान्यादि छ कारण, कार्य-धातुओं को समान करना आयुर्वेद का प्रयोजन है, संक्षेप से रोगों के कारण, काल, बुद्धि-इन्द्रियार्थ का अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग हो, दोष वात, पित्त, कफ, इन को औषध, आकाश आदि तीन, द्रव्य, जल और पृथिवी, इनके साथ, रस-मयुर आदि, द्रव्यसंग्रह, शसन आदि, एवं जंगम आदि के भेद से, मूलिनी-हस्तिदन्ती आदि सोलह, फलिनी-शंखिनी आदि उन्नीस, स्नेह र्वा आदि चार, महास्नेह, लवण-सौवर्चल आदि पांच, मूत्र आठ, क्षीर आठ, दूध वाले वृक्ष, छाल वाले स्नुही, पूतीक आदि छः वृक्ष, इन के वमन-विरेचन आदि सब कर्म, औषध के सम्यक् योग से जो गुण और असम्यक् योग से जो दुर्गुण हैं, मूढ वैद्य की निन्दा, और सब गुणों में युक्त वैद्य के लक्षण, यह सब इस प्रथम 'दीर्घजीवित्तीय' नामक अध्याय में महर्षि भगवान् आत्रेय ने सम्यक् प्रकार से कह दिया है !

श्याग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने समापाभाष्ये भेषजचतुष्के  
दीर्घजीवित्तीयो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

अथ द्वितीयोऽध्यायः ।

अथानोऽपामार्गतरुडुलोयमध्याय व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् आत्रेयः ॥ २ ॥

वमन आदि पात्र कर्म स्वस्थ एवं रोगी दोनों व्यक्तियों के लिये उपयोगी

हैं। इस लिये पूर्व अध्याय में कहे हुए वमन आदि के द्रव्यों को अन्य द्रव्यों के साथ मिला कर इस अध्याय का अवतरण करते हैं।

आपामार्ग ( चिरचिटा ) के बीजों को तुष रहित करके, तण्डुल बना कर के काम में लाना चाहिये, यह बताने के लिये 'अपामार्ग तण्डुलीय' अध्याय है।

अपामार्गस्य बीजानि पिप्पलीर्मरिचानि च ।

विडङ्गान्यथ शिशूणि सर्षपांस्तुम्बुरुणि च ॥ ३ ॥

अजाजी चाजगन्धां च पीलून्येलां हरेणुकाम् ।

पृथ्वीकां सुरसां श्वेतां कुठेरकफणिज्जकौ ॥ ४ ॥

शिरीषबीजं लशुनं हरिद्रे लवणद्वयम् ।

ज्योतिष्मतीं नागरं च दद्याच्छीर्षविरेचने ॥ ५ ॥

गौरवे शिरसः शूले पीनसेऽर्धावभेदके ।

क्रिमिव्याधावपस्मारे व्राणनाशे प्रमोहके ॥ ६ ॥

अपामार्ग ( चिरचिटे ) के तण्डुल, पिप्पली, मरिच, विडंग ( वायविडंग ), शिशू ( सहंजना के बीज ), सर्षप ( श्वेत सरसो ), तुम्बरू, अजाजी ( जीरा ), अजमोदा ( अजवायन ), पीलू, एला ( बडी इलायची ), हरेणु ( रेणुका, मेहदी के बीज ), पृथ्वीका ( काला जीरा ), सुरसा ( काली तुलसी ), श्वेता ( अपराजिता, श्वेत पुनर्नवा ), कुठरेक ( मरवा ), फणिज्जक ( तुलसी का भेद ), शिरीष बीज ( सिरस के बीज ), लशुन ( लहसन ), दोनों हरिद्रा ( हल्दी और दारु हल्दी ), दोनों लवण ( सैन्धव और सौवर्चल ), ज्योतिष्मती ( मालकंगनी ), और नागर ( सोठ ) ये शिरोविरेचन के लिये उपयोग में लानी चाहिये।

इन उपरोक्त औषधियों में 'श्वेता' और 'ज्योतिष्मती' ये दो द्रव्य 'मूलिनो' औषधियों में गिने हैं। इसलिये इनका मूल ग्रहण करना चाहिये, और अपामार्ग ( चिरचिटा ) के तण्डुल उपयोग में लाने चाहिये।

सब रोगों में इनका उपयोग शिरोविरेचन के लिये करना चाहिये, अथवा किन्हीं विशेष रोगों में ?

( गौरव ) शिर के भारीपन में, ( शिरःशूल ) शिर के दुखने में, ( पानस ) नाक से दुर्गन्ध युक्त स्राव, कफ आता हो, ( अर्द्धार्धभेदक ) आधा शिर दुःखता हो, ( कृमि-व्याधि ) कृमिजन्य शिरो रोग में, ( अपस्मार ) मृगी में, ( घ्राण नाश ) घ्राण शक्ति के नष्ट होने पर, और ( प्रमोहक ) मूर्च्छा इन रोगों में उपयोग करना चाहिये ।

वमनकारक द्रव्य—

मदन मधुकं निम्बं जीमूतं कृतवेधनम् ।

पिप्पलीकुटजेक्ष्वाकूण्येला धामार्गवाणि च ॥ ७ ॥

उपस्थिते श्लेष्मपित्ते व्याधावामाशयाश्रये ।

वमनार्थं प्रयुञ्जीत भिषग्दहमदूषयन् ॥ ८ ॥

मदन (मैनफल), मधुक (मुलहेठी), नीम (नीम की छाल), जीमूत (कड़ुवी तुरई), कृतवेधन (अमलतास), पिप्पली, कूटज (कुड़ा), ईश्वक (कड़ुवी घिया या आल), प्ला (बडी इलायची), धामार्गव (तुरई), ये उम वस्तुषुं श्लेष्म पित्त, कफपित्त जन्य व्याधि में, अथवा आमाशय में आश्रित व्याधि की अवस्था में, शरीर को बलपूर्वक कष्ट न पहुँचाते हुए वैय वमन के लिये देवे ।

इन में मदन, मधुक, जाम्बत, कृतवेधन, कूटज, ईश्वक और धामार्गव इनका फल लेना चाहिये, और पिप्पली, इलायची का भी फल तथा नाम की छाल लेनी चाहिये ।

त्रिरेचन द्रव्य—

त्रिवृतां त्रिफला दन्ती नीलिनी सप्तलां वचाम् ।

कम्पिलकं गवाक्षी च क्षीरिणीमुदकीर्यकाम् ॥ ९ ॥

पोलून्यारगवथ द्राक्षा द्रवन्ती निचुलानि च ।

पकाशयगतं दांपे विरेकार्थं प्रयोजयेत् ॥ १० ॥

त्रिवृत ( निशोथ ) त्रिफला ( हरड़, बहेड़ा, आंवला ), दन्ती ( नाग दन्ती ), नीलिनी ( नील का मूल ), सप्तला ( सतवन, शिकेकाई ), वच, कम्पिलक ( कमीला ), गवाक्षी ( इन्द्रायण ), क्षीरिणी ( दूधी घास ), उदकीर्या ( नाटा करञ्ज ), पीलू फल, आरग्वध ( अमलतास ), द्रवन्ती ( चीता मूल ), निचुल ( हिजल फल ), ये वस्तुएं दोष के पक्का-ग्रय में स्थित होने पर विरेचन के लिये देनी चाहिये ( 'शरीर में अन्यत्र स्थित होने पर नहीं' ) ।

इन में त्रिवृत, नागदन्ती, सप्तला, गवाक्षी, क्षीरिणी, और द्रवन्ती का मूल लेना चाहिये, और नीलिनी, तथा वच का भी मूल और शेषो का फल ग्रहण करना चाहिये ।

आस्थापन और अनुवासन के द्रव्य—

पाटलीं चाग्निमन्थं च विल्वं श्योनाकमेव च ।

काश्मये शालपर्णीं च पृश्निपर्णीं निदिग्धिकाम् ॥ ११ ॥

बलां श्वदंष्ट्रां बृहतीमेरण्डं सपुनर्नवम् ।

यवान् कुलत्थान् कोलानि गुडूची मदनानि च ॥ १२ ॥

पलाशं कत्तुणं चैव स्नेहांश्च लवणानि च ।

उदावर्ते विबन्धेषु युञ्ज्यादास्थापने सदा ॥ १३ ॥

अत एवौषधगणात्संकल्प्यमनुवासनम् ।

मारुतघ्नमिति प्रोक्तः संग्रहः पाञ्चकर्मिकः ॥ १४ ॥

पाटली ( पाठा ), अग्निमन्थ ( अरणी ), विल्व ( बेलगिरी ), श्यो-  
नाक ( टेडु, सोनापाठा ), काश्मरी ( गम्भारी ), शालपर्णी ( सलवन ),  
पृश्निपर्णी ( पीठापर्णी ), निदिग्धिका ( कटेरी, भटकटैया ), बला ( खरैटी ),  
श्वदंष्ट्रा ( गोखरु ), बृहती ( बड़ी कटेरी ), एरण्ड ( एरण्डमूल ), पुन-  
र्नवा ( सांघी घास ), यव ( जौ ), कुलत्थ ( कुलथी ), कोल  
( बेर ), गुडूची ( गिलोय ), मदन ( मैनफल ), पलाश ( ढाक ), कत्तुग  
( रोहिप तृण ), स्नेह ( चारो स्नेह घी आदि ), लवण ( पांचो नमक )



ये उनतीस द्रव्य (उदावर्त्त) अपान वायु की ऊर्ध्व गति होने पर, विवन्ध मल मूत्र आदि के अवरोध में और आस्थापन नामक वस्ति कर्म में प्रयोग करने चाहिये। इन्हीं औषधियों से अनुवासन तैल अर्थात् स्निग्ध वस्ति बना कर वायु को नष्ट करने के लिये प्रयोग करनी चाहिये। यह संक्षेप में पंच कर्म ( वमन, विरेचन, नस्य, आस्थापन और अनुवासन ) कह दिये हैं।

तान्युपस्थितदोषाणां स्नेहस्वेदोपपादनैः ।

पञ्च कर्माणि कुर्वीत मात्राकालौ विचारयन् ॥ १५ ॥

उपस्थित दोषों के उन २ कर्मों से साध्य दोषों के उपस्थित होने पर, स्नेहन और स्वेदन का उपाय करके, शरीर-बल की अपेक्षा से मात्रा और काल को विचार कर वैद्य पंच कर्मों को करे।

मात्रा और काल के विचार करने की आवश्यकता ?

मात्राकालाश्रया युक्तिः, सिद्धिर्युक्तौ प्रतिष्ठिता ।

तिष्ठत्युपरि युक्तिज्ञो द्रव्यज्ञानवता सदा ॥ १६ ॥

पदार्थों की योजना मात्रा और काल पर अवलम्बित है। शरीरबल, अग्निबल, आयु, व्याधिबल, दोषबल आदि के अनुकूल मात्रा और विशेष समय में प्रयुक्त हुआ द्रव्य भली प्रकार अपने कार्य को कर सकता है।<sup>१</sup> सिद्धि चिकित्सित क्रिया की सफलता युक्ति में आश्रित है। योजना को जानने वाला वैद्य द्रव्य-औषध को जानने वालों में से सदा श्रेष्ठ है। ऊपर स्वस्थ तथा आतुर पुरुषों के लिये पंच कर्मों का उपदेश कर चुके।

रोगियों के लिये आहार विशेष यवागू.—

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि यवागूर्विविधौषधाः ।

त्रिविधाना विकाराणां तत्साध्यानां निवृत्तये ॥ १७ ॥

इसके आगे यवागू से अच्छे होने वाले नाना प्रकार के रोगों के नाश के लिये नाना प्रकार की औषधियों से सिद्ध यवागू (लाप्सी) कहेंगे।

१ जिस प्रकार शृङ्गु-विरेचक औषधियां रात्रि को सोते समय लेने से उत्तम गुण करती हैं।

पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागरैः ।

यवागूर्दीपनीया स्याच्छूलघ्नी चोपसाधिता ॥ १८ ॥

चूंकि आरोग्यता का मूल साधन कोष्ठाग्नि है, इस लिये सब से मुख्य चस्तु कोष्ठाग्नि है । अतः अग्नि को सन्दीपन करने के लिये यवागू कहते हैं,

( १ ) पिप्पली, पिप्पली मूल ( पीपला मूल ), ( चव्य ) चांवका, (चित्रक ) चीता, सोंठ इन से बनाई हुई यवागू ( दीपनी ) अग्नि वर्धक और शूलनाशक होती है ।<sup>१</sup>

यवागू तीन प्रकार की है, १. यवागू जो छ. गुने जल में पकती है, २. मण्ड चौदह गुने जल में और ३ विलेपी चार गुणे जल में पकाई जाती है ।

दधित्थबिल्वचाङ्गेरीतक्रदाडिमसाधिता ।

पाचनी ग्राहिणी पेया,

( २ ) दधित्थ (कैथ), बिल्व (बेलगिरी-गूदा), चांगेरी (चौपतिया), तक्र ( छाछ ), दाडिम ( अनारदाना ) इन से बनाई हुई यवागू 'पाचनी' पाचन करने वाली 'ग्राहिणी' अर्थात् स्तम्भक वा मल को रोकने वाली है ।

सत्राते पाञ्चमूलिकी ॥ १९ ॥

( ३ ) पंच मूल गृहत्पञ्चमूल शालपर्णी, पृश्निपर्णी, कटेरी, बडी कटेरी और गोखरू यह पांच वातहर हैं इनसे साधित यवागू वातविकार के लिये उपयोगी है ।

शालिपर्णीबलाबिल्वैः पृश्निपर्ण्या च साधिता ।

दाडिमाम्बला हिता पेया पित्तश्लेष्मातिसारिणाम् ॥ २० ॥

( ४ ) 'शालपर्णी ( सालवन ), बला ( खरैटी ), बिल्व (बेलगिरी),

१. पिप्पली आदि सब साधन द्रव्य मिलकर एक कर्प अर्थात् चार मासे लेने चाहिये । इनको थोड़ा कूट लेना चाहिये, पकाने में आधा पानी जलाना चाहिये, पानी की मात्रा के भेद से नाना भेद हो जाते हैं ।

और 'पृश्निपर्णी' ( पीठापर्णी ) इन से बनाई तथा अनार के रस से खट्टी की हुई यवाग पित्त-श्लेष्म जन्य अतिसार रोग में हितकारी है ।

पयस्यर्धोदके छागे हीवेरोत्पलनागरै ।

पेया रक्तातिसारत्री पृश्निपर्ण्या च साधिता ॥ २१ ॥

( ५ ) बकरी का जितना दूध हो, उससे आधा पानी इस में मिला कर ( मिलित परिमाण छः गुणा ), ह्रावेर ( वाला, नेत्रवाला ), उत्पल ( कमलगट्टा ) और सोठ, अथवा पृष्ठपर्णी ( पिठवन ) ये एक कर्प मात्रा लेकर यवाग सिद्ध करना चाहिये । यह यवाग रक्तातिसार को नष्ट करती है ।

दद्यात्मातिविषां पेया सामे साम्लां सनागराम् ।

( ६ ) अतिविषा ( अतीस ), नागर ( सोठ ) इनके कषाय अथवा कल्क से छः गुणे जल में यवाग सिद्ध करे, इसे अनार के रस से खट्टी कर के आम्रातिसार ( रक्तातिसार ) में दे ।

श्वदंष्ट्राकण्टकारीभ्या मूत्रकृच्छ्रे सफाणिताम् ॥ २२ ॥

( ७ ) मूत्र कृच्छ्र रोग में श्वदंष्ट्रा ( गोखरू ) और कण्टकारी ( कटेरी ) इनके कषाय या कल्क से छः गुणे जल में यवाग सिद्ध करके इस में फाणित ( राव, आधा पका गुड ) डाल दे ।

विडङ्गपिप्पलीमूलशिश्रुभिर्मरिचेन च ।

तक्रसिद्धा यवागूः स्यात्किमित्री ससुवर्चिका ॥ २३ ॥

( ८ ) वायविडंग, पिप्पलीमूल, शिश्रु ( सहजना ) और मरिच इनके कल्क से छः गुणे तक्र में सिद्ध की हुई यवागू से सुवर्चिका ( सौवर्चल नमक ) डालकर रोगी को देने से कृमि नष्ट होते हैं । यहां पानी के स्थान पर तक्र का प्रयोग करे ।

मृद्धीकासारिवालाजापिप्पलीमधुनागरैः ।

पिषामात्री,

( ९ ) मृद्धीका ( द्राक्षा, दाख ) सारिवा ( अनन्तमूल ), लाजा

(खोले), पिप्पली, और सोंठ इन के कल्क या कषाय से यवागू को छः गुणे जल में सिद्ध करे । ठण्डा होने पर इस में शहद मिला कर पीने से प्यास शान्त होती है ।

विषघ्नी च सोमराजीविपाचिता ॥ २४ ॥

( १० ) सोमराजी ( बावची ) से सिद्ध की हुई यवागू 'विषघ्नी' अर्थात् खाये हुए विष को नष्ट करने वाली है ।

सिद्धा वराहनिर्यूहे यवागूर्बृहणी मता ।

( ११ ) सुअर के मास रस में सिद्ध की हुई यवागू पुष्टि कारक होती है ।

गवेधुकानां भृष्टानां कर्षणीया समाक्षिका ॥ २५ ॥

( १२ ) भूने हुए गेहूंओ के सत्तू से बनाई हुई यवागू में शहद मिला कर लेने से शरीर पतला होता है ।

सर्पिष्मतो बहुतिला स्नेहनी लवणान्विता ।

( १३ ) घी वाली, तिलयुक्त नमकीन यवागू स्नेहकारक है । वह शरीर को स्निग्ध करती है । तिलो के साथ कुछ चावल मिलाले । यवागू सिद्ध करके फिर इस में भी और नमक मिलावें ।

कुशामलकनिर्यूहे श्यामाकानां विरूक्षणी ॥ २६ ॥

( १४ ) कुश ( दाभ ) की जड़ और आमलक ( आंवले का फल ) इनको एक २ कर्ष लेकर छः गुणे जल में कषाय करे इस में श्यामाक तण्डूल पाक कर के सिद्ध करनी चाहिये । यह पान करने योग्य यवागू शरीर में रूक्षता उत्पन्न करती है ।

दशमूलीश्रृता कासहिक्काश्वासकफापहा ।

( १५ ) दशमूल ( शालपर्णी, पृश्निपर्णी, कटेरी, बृहती, गोखरू, विल्व, श्योनाक, अरणी, गम्भारी, पाठा ) से सिद्ध की हुई यवागू कास, हिक्का, श्वास और कफ को नष्ट करती है ।

यमके मदिरासिद्धा पक्काशयरुजापहा ॥ २७ ॥

( १६ ) यमक अर्थात् समान भाग घी और तैल लेकर इन में भ्रूनां हुई एवं पानी के स्थान पर मदिरा लेकर उनमें सिद्ध की हुई यवागू ( मदिरा मिलाकर देने में ) पक्कागय की पीड़ा को मिटाती है ।<sup>१</sup>

शाकैर्मासैस्तिलैर्मापैः सिद्धा वर्चो निरस्यति ।

( १७ ) 'शाक' ( हरी सब्जिया ) मांस, तिल, माप ( उडद ) इन के कल्क और कपाय से सिद्ध की हुई यवागू मल को बाहर निकालती है ।

जम्बवाम्रास्थिदधित्थाम्लवित्त्रैः सांग्राहिकी मता ॥ २८ ॥

( १८ ) जम्बु-अस्थि ( जामुन की गुठली ), आम्रास्थि ( आम की गुठली की गिरी ) दधित्थाम्ल ( कैथ कच्चा, खट्टी अवस्था में ), बिल्व ( बेलगिरी कच्चे हरे ), इन से सिद्ध की हुई यवागू 'स्तम्भक' है ।

क्षारचित्रकहिङ्गवस्त्ववेतसैर्भेदिनी मता ।

( १९ ) क्षार ( जवाग्यार ), चित्रक ( चीनामूल ), हींग, अम्लवेतस ( अमलवेत ), इन से सिद्ध की हुई यवागू मल को भेदन करके बाहर निकालती है ।

अभयापिप्पलीमूलविश्वैर्वातानुलोमनी ॥ २९ ॥

( २० ) अभया ( जर्गा हरद ), पीपला मूल और विश्वा ( सांठ ), इनमें सिद्ध की हुई यवागू वात का अनुलोमन अर्थात् कफ वातादि, दोषों का पगियाक करके मल को अच्छी प्रकार से बाहर करती है ।

१ 'यमक' एक भाग घी और एक भाग तैल परस्पर समान और एक भाग मदिरा लेनी चाहिये । अथवा मुंग की ढाल और सांठी के चावल परस्पर समान भाग मिलाकर मदिरा में यवागू सिद्ध करनी चाहिये । ( जल्य कृत्य-तरु )

२ जवाग्यार बनाने के लिये हरे जों को आग में स्वच्छ स्थान में जल लेना चाहिये । फिर इस को पानी में धोकर बस्त्र में से छान लेना चाहिये । छाने हुए पदार्थ को आग पर गरम करके शुष्क कर लेना चाहिये ।

तक्रसिद्धा यवागूः स्याद्द्रुतव्यापत्तिनाशिनी ।

( २१ ) छाछ में सिद्ध की हुई यवागू घी के अधिक खाने से उत्पन्न विकार को नष्ट करती है ।

तैलव्यापदि शस्ता तु तक्रपिण्याकसाधिता ॥ ३० ॥

( २२ ) छाछ और पिण्याक ( खल ) के कल्क से सिद्ध की हुई यवागू ( तैल के अधिक खाने से उत्पन्न व्याधि में देने योग्य है ।

गव्यमांसरसैः साम्ला विषमज्वरनाशिनी ।

( २३ ) गाय के दूध अथवा मांस के रस में सिद्ध की हुई यवागू को अनार, आंवला आदि ज्वर नाशक खटाई से खटा करके देने पर विषम ज्वर नष्ट होता है ।

कण्ठ्या यवानां यमके पिप्पल्यामलकैः शृता ॥ ३१ ॥

( २४ ) जौ को समान भाग घी और तैल में भूनकर पिप्पली और आंवले इन के कपाय या कल्क से सिद्ध की हुई यवागू स्वर-कण्ठ के रोगों के लिये हितकर है ।

ताम्रचूडरसे सिद्धा रेतोमार्गरुजापहा ।

( २५ ) 'ताम्रचूड़', अर्थात् कुकट के मांस के रस में सिद्ध की हुई यवागू शुक्र मार्ग ( Vasa-Defrence ) की पीड़ा को मिटाती है ।

समाषविदला वृष्या घृतक्षीरोपसाधिता ॥ ३२ ॥

( २६ ) जल के स्थान पर दूध और घृत यथापरिमाण में लेकर इनमें उड़द की दाल या इसकी पिसी हुई पिट्टी को पहिले घी में भूनकर दूध में यवागू सिद्ध करनी चाहिये । यह शुक्रवर्धक है ।

उपोदिकादधिभ्यां तु सिद्धा मद्विनाशिनी ॥

( २७ ) उपोदिका अर्थात् पोदीने को कटक रूप में तथा दही को पानी के स्थान में लेकर यवागू सिद्ध करनी चाहिये । यह यवागू धतूरे आदि के विष को नष्ट करती है ।

क्षुधं हन्यादपामार्गक्षीरगोधारसे शृता ॥ ३३ ॥

( २८ ) चिरचिते के चावलों को दूध और गोह के मांस रस में पका कर यवागू सिद्ध करे । इस से भूख का नाश होता है । यहां पर जल वा साटे चावल नहीं प्रयुक्त होते ।

उपसहार—

तत्र श्लोकाः ।

अष्टाविंशतिरित्येता यवागवः परिकीर्तिताः ।

पञ्चकर्माणि चाश्रित्य प्रोक्तो भैषज्यसंग्रहः ॥ ३४ ॥

पूर्वं मूलफलज्ञानहेतोरुक्तं यदौषधम् ।

पञ्चकर्माश्रयज्ञानहेतोस्तत्कीर्तितं पुनः ॥ ३५ ॥

इस अध्याय में अट्ठाईस प्रकार की यवागू (लाप्सी) कह दी हैं । और पंच कर्म ( वमन, विरेचन, नस्य, आस्थापन और अनुवासन ) इन के योग्य औषधियां भी कह दी हैं ।

मूलिनी, फलिनी आदि का ज्ञान कराने के लिये जो औषधियां प्रथम अध्याय में कहीं हैं, ये औषधियां पंच कर्मों से साध्य व्याधियों में उपयुक्त हैं इसलिये यहां पर फिर लिखी हैं ।

स्मृतिमान् युक्तिहेतुज्ञो जितात्मा प्रतिपत्तिमान् ।

भिषगौषधसंयोगैश्चिकित्सां कर्तुमर्हति ॥ ३६ ॥

( स्मृतिमान् ) स्मरण शक्ति वाला, ( हेतुज्ञ ) रोग के कारण को जानने वाला, ( युक्तिज्ञ ) योजना, व्याधि के साधन रूप भैषज्य की रूपना को जानने वाला, अथवा मात्रा की भांति द्रव्य, व्याधि बल, और व्याधित रूप को जानने वाला, 'जितात्मा' भ्रम-प्रमाद रहित, ( प्रतिपत्तिमान् ) उत्तम सूझ वाला, वैद्य औषधियों के योग से ( उपचार करने में समर्थ हो सकता है ) ।

इत्याश्वेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृत मूत्रस्थाने सभाषामाष्ये

भेषजचतुष्केऽपामार्णतण्डुलायो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

## अथ तृतीयोऽध्यायः ।

अथात आरग्वधीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

रोगी की हितकामना से यगागू कृहकर उसी प्रसंग में प्रदेह चूर्ण आदि कहते हैं । इसके लिये 'आरग्वधीय' नामक तीसरे अध्याय का व्याख्यान करते हैं ऐसा भगवान आत्रेय कहते हैं । इस अध्याय का आरम्भ 'आरग्वध' से हुआ है, इसलिये इस अध्याय का नाम आरग्वधीय है ।

आरग्वध सैडगजः करञ्जो वासा गुडूची मदनं हरिद्रे ।

श्याह्वः सुराह्व खदिगो धवश्च निम्बो विडङ्गं करवीरकत्वक् ॥ ३ ॥

ग्रन्थिश्च भौर्जो लशुनः शिरीषः सलोमशो गुग्गुलुकृष्णगन्धे ।

फण्णिको वत्सकसप्तपर्णो पीलूनि कुष्ठं सुमनःप्रवालाः ॥ ४ ॥

वचा हरेणुस्त्रिवृता निकुम्भो भल्लातकं गैरिकमञ्जनं च ।

मनःशिलाले गृहधूम एला कासीसमुस्तार्जुनरोध्रसर्जाः ॥ ५ ॥

इत्यर्धरूपैर्विहिताः षडेते गोपित्तपीताः पुनरेव पिष्ट्वा ।

सिद्धाः परं सर्षपतैलयुक्ताश्चूर्णप्रदेहा भिषजा प्रयोज्याः ॥ ६ ॥

कुष्ठानि कृच्छ्राणि नवं किलासं सुरेन्द्रलुप्तं किटिभं सदद्रु ।

भगन्दरार्शास्यपची सपामां हन्युः प्रयुक्तास्त्वचिरान्नराणाम् ॥ ७ ॥

'आरग्वध' से लेकर 'सर्ज' इस शब्द तक तीन श्लोकों में कहे हुए छ. योग हैं, इनको गाय के पित्त में पीस कर काम मे लाना चाहिये । यथा— ( १ ) आरग्वध (अमलतास), ऐडगज (पनवाड़), करञ्ज (नाटा करंज के बीज) वासा (वासे के पत्ते), गुडूची (गिलोय), मदन (मैनफल), दो हरिद्रा (हल्दी और दारु हल्दी) । ( २ ) श्याह्व (नवनीत खोटी-Gum olibanum गन्दा विरोजा), सुरा ( देवदार ), खदि (खैर), ओर धव (धाय), खैर और धाय का सार, निम्ब ( नीम के पत्ते ), विडंग ( वायविडंग ),



करवीर त्वक् (कनेर की छाल) यह दूसरा । ( ३ ) भोजपत्र की गांठें, लशुन ( लहसन ), शिरीष ( सिरस की छाल ), लोमशा ( जटामांसी ), गूगल, कृष्णगन्धा (सहजना) यह तीसरा । ( ४ ) फणिञ्जक ( मरवा ) वल्सक ( इन्द्र जौ ), सप्तपर्ण ( सातवन ), पीलू कुष्ठ ( कूठ ), मुमन. प्रवाल (चमेली के फूल या कोमल पत्ते) यह चौथा । ( ५ ) वचा (वच), हरेणु ( रेणुका बीज, मेहदी के बीज) त्रिवृत् (निशोथ), निकुम्भ (दन्ती, जमाल गोटा की जड़), भल्लातक (भिलावा), गैरिक (गेरू), अंजन (रसाञ्जन, अथवा Sulphide of lead सीसक का गन्धित) यह पाचवां, ६ मन.शिला (मैनसिल), आल ( हरिताल ), गृहधूम (घर का धुंआसा), गुला (बड़ी इलायची), कासीस (पुष्प कासीस), लोघ्र (पठानी लोघ), अर्जुन (अर्जुन वृक्ष की छाल), मुस्ता (नागरमोथा), सर्ज (राल) यह छठा योग हुआ ।

इनमें से किसी एक योग को चूर्ण के रूप में तैयार करके गाय के पित्त के साथ फिर पीसे । फिर इनको सरसों के तेल में मिला कर द्रव रूप बनाकर लगाने से कृच्छ ( कष्टसाध्य ) कुष्ठरोग, ( नया किलास एक प्रकार के कुष्ठ भेद ), (इन्द्रलुप्त, वालों का गिरना), किटिभ ( कुष्ठभेद ) वट्टु ( वाट Ring worm), भगन्दर, ( बवासीर), चर्मक्रील (मस्से), अपची न पकने वाली गांठें और पामा ( खाज ) शीघ्र ही मनुष्यों के नष्ट होते हैं ।

अथ सातवा योग कहते हैं—

कुष्ठं हरिद्रे सुरसं पटोलं निम्बाश्वगन्धे सुरदारु शिघ्रु ।  
सप्तपर्पं तुम्बुरुधान्यवन्य चण्डां च चूर्णानि समानि कुर्यात् ॥ ८ ॥  
तैन्तक्रयुक्तै प्रथमं शरीरं तैलाक्तमुद्धर्तयितुं यत्तत ।  
तेनाम्य कण्डू पिडका सकोठा कुष्ठानि शोफाश्च शमं व्रजन्ति ॥९॥

कुष्ठ (कूठ), दोना हल्दी (दारु हल्दी) और हल्दी), सुरसा (तुलसी), पटोल (परवल) निम्ब (नीम के पत्ते) अश्वगन्धा (असगन्ध) सुरदारु

( देवदार ), शिग्रु ( सहजना ), सर्षप ( श्वेत सरसों ), तुम्बुरु, धान्य ( धनिया ), वन्य ( कैवर्त्त मुस्ता, जलमोथा ), चण्डा ( शंख पुष्पी ) इन पन्द्रह औषधियों को परस्पर समान भाग लेकर चूर्ण कर लेना चाहिये । इस चूर्ण को छाल में पीसकर शरीर पर लगाना चाहिये । शरीर पर लगाने से पूर्व तैल का उबटन लगा लेना चाहिये । इस लेप के लगाने से कण्डू ( खाज़ ), पिडिका ( छोटी २ फुन्सियां ), कोठ ( न दबने वाली फुन्सियां ) कुष्ठ ( कोढ ) और शोफ ( सूजन ) नष्ट होते हैं ।

आठवां योग—

कुष्ठामृतासङ्गकटङ्कटेरीकाशीसकम्पिलकरोध्रमुस्ताः ।

सौगन्धिकं सर्जरसो विडङ्गं मनःशिलाते करवीरकत्वक् ॥ १० ॥

तैलाक्तगात्रस्य कृतानि चूर्णान्येतानि दद्याद्वचूर्णानार्थम् ।

दद्रु. सकण्डूः किटिभानि पामा विचर्चिका चैव तथैति शान्तिम् ॥११॥

कुष्ठ ( कूठ ), अमृता ( गिलोय ), संग ( नीला तुस्थ ), कटंकटेरी ( दाह हल्दी ), काशीस ( हीरा कसीस ), कम्पिलक ( कमीला ), मुस्ता ( नागर मोथा ), लोध्र ( पठानी लोध्र ), सौगन्धिक ( कह्लार पुष्प, सुगन्धि ), सर्जरस ( राल ), मनःशिला ( मैनसिल ), आल ( हरताल ), करवीर त्वक् ( कनेर की छाल ) इन चौदह औषधियों का चूर्ण करके अब चूर्ण ( अर्थात् मलने ) के लिये देना चाहिये । प्रथम शरीर पर तैल की मालिश कर लेनी चाहिये । इस से दाद, कण्डू, खाज़, ( किटिभ ) कुष्ठ, ( पामा ) विसर्प ( Eczema ), ( विचर्चिका ) स्राव युक्त फुन्सियां, नष्ट होती हैं ।

नवा योग—

मनःशिलाते मरिचानि तैलमार्कं पयः कुष्ठहरः प्रदेहः ।

मनःशिला ( मनसिल ), आल ( हरताल ), मरिच, तैल ( सरसों का तेल कुष्ठ हर होने से ), 'आर्कं पयस्' ( आक का दूध ) इन को परस्पर मिला कर लेप बना कर लगाने से कुष्ठ अच्छा होता है ।

इस योग में पानी का मेल नहीं करना चाहिये, अपितु आक के दूध में ही सब बनाना चाहिये ।

दसवां योग—

तुत्थं विडङ्गं मरिचानि कुष्ठं लोध्रं च तद्वत् समनःशिलं स्यात् ॥ १२ ॥

तुत्थ ( नीला थोथा ), विडंग ( वायुविडंग ), मरिचा ( मरिच ), कुष्ठ ( कूठ ), लोध्र ( पठानी लोध्र ), मनःशिला ( मैनसिल ) इन के चूर्ण को पूर्व की भांति आक के दूध में मिलाकर लगाना चाहिये ।

ग्यारहवां लेप—

रसाञ्जनं सप्रपुन्नाडवीजं युक्तं कपित्थस्य रसेन लेपः ।

रसाञ्जनं ( रसौत या Sulphide of lead अथवा Crude Antimony ), प्रपुन्नाड वीज ( पनवाड़ के वीज ), इन को कपित्थ ( कैथ ) के पत्तों के रस में मिलाकर लगाने से कुष्ठ रोग नष्ट होता है । पानी का उपयोग नहीं करना चाहिये ।

बारहवां योग—

करञ्जवीजैडगजं सकुष्ठं गोमूत्रपिष्टं च परः प्रदेहः ॥ १३ ॥

करंज ( नाटा करंज वीज ), षैडगज ( चक्रमर्द ) और कुष्ठ ( कूठ ), इन को गोमूत्र में पीस कर लेप करने से कुष्ठ नष्ट होता है ।

तेरहवां योग—

उभे हरिद्रे कुट्टजस्य वीजं करञ्जवीजं सुमनःप्रवालान् ।

त्वचं समध्यां ह्यमारकस्य लेपं तिलक्षारयुतं विदध्यात् ॥ १४ ॥

दोनों प्रकार की हल्दी ( साधारण हल्दी और दारु हल्दी ), कुट्टज वीज ( इन्द्रजौ ), करंज वीज ( करञ्जु का वीज ), सुमनःप्रवाल ( चमेली के कोमल नये पत्ते ), ह्यमारक ( कनेर ) की अन्तर की रूखा, भज्जा एवं अस्थि, और तिलक्षार ( तिल की नाल का क्षार भस्म ) इनका लेप बना कर लगाने से कुष्ठ रोग मिटता है ।

## चौदहवां योग—

मनःशिला त्वक्कटजात्सकुष्ठात् सलोमशः सैडगजः करञ्जः ।  
 ग्रन्थिश्च भौर्जः करवीरमूलं चूर्णानि साध्यानि तुषोदकेन ॥ १५ ॥  
 पलाशनिर्दाहरसेन चापि कर्षोद्धृतान्याढकसंमितेन ।  
 दूर्वाप्रलेपं प्रवदन्ति लेपमेतत्परं कुष्ठनिषूदनाय ॥ १६ ॥

मनःसिल, कुटज त्वक् ( कूड़े की छाल ); कुष्ठ ( कूठ ) लोमश,  
 ( जटामांसी ), सैडगज ( चक्रमर्द ), करंज ( करंजुआ ), भौर्ज  
 ( भोज पत्र की गांठे ), करवीर ( कनेर की जड़ ), ये आठों द्रव्य  
 प्रत्येक एक एक कर्ष (दो २ तोला) तुषोदक ( यव काञ्जिक ) एक आढ़क  
 ( ८ सेर ) तथा 'पलाश-निर्दाह रस' अर्थात् ढाक के वृक्ष को जलाने से उत्पन्न  
 रस ' एक आढ़क परिमाण ( ८ सेर ) लेकर पाक करना चाहिये । पाक इतना  
 करना चाहिये कि वह कड़छी पर चिपटने लगे । यह प्रलेप कुष्ठ रोग  
 को नष्ट करने के लिये श्रेष्ठ है ।

## पन्द्रहवां योग—

पर्णानि पिष्ट्वा चतुरङ्गुलस्य तक्रेण पर्णान्यथ काकमाच्याः ।  
 तैलाक्तगात्रस्य नरस्य कुष्ठान्युद्धृतयेदश्वहनच्छदैश्च ॥ १७ ॥

अमलतास के पत्तों, मकोय के पत्तों को और अश्वहनच्छद ( कनेर )  
 के पत्तों को ( छाछ के साथ पीसकर ), शरीर पर तैल की मालिश करके )  
 कुष्ठ रोग में मले ।

कई विद्वान् 'काकमाच्या. पर्णानि' शब्द से एक अन्य योग की कल्पना  
 करते हैं । इसी प्रकार "अश्वहनच्छदैश्च" इस से तीसरा योग मानते हैं ।

१. ढाक के वृक्ष की प्रधान मुख्य जड़ को काट कर इस के नीचे एक  
 मिट्टी का घड़ा रख देना चाहिये । और ऊपर के भाग को जलाना चाहिये ।  
 जलाने पर जो रस निकलता है, उस रस को लेना चाहिये । आज कल  
 खैर या शीशम का तैल पाताल यन्त्र से निकलते हैं ।

## सौलहवां योग—

कोलं कुलत्था. सुरदारु रास्ना मापातसीतैलफलानि कुष्ठम् ।

वचा शताह्वा यवचूर्णमम्लमुष्णानि वातामयिनां प्रदेहः ॥ १८ ॥

कोल ( झाड़ी के बेर ), कुलत्थ ( कुलत्थी ), सुरदारु ( देवदारु ), रास्ना ( शयसन ), माप ( उड़द ), अतसी ( अलसी ), तैलफल ( एरण्ड के बीज ), कुष्ठ ( कूठ ), वचा ( वच ), शताह्वा ( सौंफ ), और यवचूर्ण ( यवक्षार ) इनको 'अम्ल' ( कांजी ) के साथ पीसकर प्रलेप बनाकर गरम करके वातरोगी के लिये प्रयुक्त करें। इस से वातरोग नष्ट होते हैं ।

## सत्रहवां योग—

आनूपमत्स्यामिपवेसवारैरुष्णौ. प्रदेह. पवनापह. स्यात् ।

स्नेहैश्चतुर्भिर्दशमूलमिश्रैर्गन्धौषधैश्चानिलजित्प्रदेहः ॥ १९ ॥

आनूपामिप ( जलप्राय देश में चरने वाले पशुओं का मांस ), मत्स्यामिप ( मच्छलियों का मांस ) इन से बनाये हुए वेसवार ( अस्थिरहित मांस को भाप से स्विन्न करके शिला पर पीस लेना चाहिये, फिर इस में गुड, घी, पिप्पली, मरिच मिलाने से वेसवार बनता है )। इस को गरम करके लेप करने से वायु का नाश होता है ।

## अठारहवां योग—

घी, तैल, वसा और मज्जा इन चार स्नेहों को दशमूल के साथ मिला कर अथवा चारों स्नेहों को ज्वर अधिकार में कही चन्दन आदि सुगन्धित ओषधियों के साथ मिलाकर लेप करने से वातविकार नष्ट होते हैं ।

यहां पर न कहने पर भी पानी मिलाना चाहिये ।

## उन्नीसवा योग—

तक्रेण युक्त यवचूर्णमुष्णं सक्षारमार्तिं जठरं निहन्यात् ।

जौ के चून को यवक्षार के साथ छाल में पीसकर पेट पर लगाने से पीडा को नष्ट करता है ।

## बीसवां योग—

कुष्ठं शताह्वां सत्रचां यवानां चूर्णं सतैलाम्लमुशान्ति वाते ॥ २० ॥

कुष्ठ (कूठ), शताह्वा (सौफ), वचा (वच), जौ के आटे को तिल के तैल और अम्ल (कांजी) में मिलाकर लगाने से वातविकार नष्ट होते हैं ।

## इक्कीसवां योग—

उभे शताह्वां मधुकं मधूकं बलां पियालं च कशेरुकं च ।

घृतं विदारी च सितोपलां च कुर्यात्प्रदेहं पवने सरक्ते ॥ २१ ॥

सौफ और सोया, मधुक (मुलहठी), मधूक (महुवा) बला (खरैटी), पियाल (प्याल, पकने पर यह काला फल होता है, जिसमें से चिरौंजी निकलती है), कशेरू, घृत (गाय का) विदारी कन्द, सितोपला (मिश्री, खड़ी शकर), इनका पानी के साथ लेप वातरक्त रोग में लाभदायक है ।

## बाईसवां योग—

रास्नां गुडूची मधुक बले द्वे सजीवकं सर्पभकं पयश्च ।

घृतं च सिद्धं मधुशेषयुक्तं रक्तानिलार्त्तिं प्रणुदेत्प्रदेहः ॥ २२ ॥

रास्ना, गुडूची (गिलोय), मधुक (मुलहठी), दोनो प्रकार की बलाएं (खरैटी और अतिबला—सफेद और पीले फूल की खरैटी), जीवक, ऋपभक, गाय का दूध, गाय का घी, मधुशेष (मोम) इनसे सिद्ध घी रूप लेप वातरक्त रोग को नष्ट करता है । इस योग से घृत सिद्ध किया जाता है ।<sup>१</sup>

१. रास्ना से लेकर ऋपभक तक सब ओषधियों का कल्क बनाना चाहिये । यह कल्क घी, स्नेह से चतुर्थांश होना चाहिये । और दूध घी स्नेह से दूना होना चाहिये । इससे घी सिद्ध करना चाहिये । घी सिद्ध होने पर वस्त्र में से छान कर उष्णावस्था में ही इसमें मोम मिला देनी चाहिये । मोम की मात्रा स्नेह से चतुर्थांश अर्थात् कल्क के बराबर होनी चाहिये ।

तेईसवां योग —

वाते सरक्ते सघृतः प्रदेहो गोधूमचूर्णं छगलीपयश्च ।

गोधूम (गेहू) के चूर्ण और बकरी के दूध और घी के साथ मिलाकर लगाने से वातरक्त रोग मिटता है । यहां भी दूध में गेहू के चूर्ण के साथ घी सिद्ध कर लेना चाहिये ।

चौबीसवां योग—

नतोत्पलं चन्दनकुष्ठयुक्तं शिरोरुजायां सघृत. प्रदेहः ॥ २३ ॥

‘नत’ ( तगर ), उत्पल ( नीला कमल ), चन्दन, कुष्ठ ( कूठ ) इनके चूर्ण को घी में मिलाकर शिर पर, माथे पर लगाने से शिर की पीड़ा मिटती है ।

पच्चीसवां योग—

प्रपौण्डरीकं सुरदारु कुष्ठं यष्ट्याह्वमेला कमलोत्पले च ।

शिरोरुजायां सघृतः प्रदेहो, लोहैरकापद्मचोरकैश्च ॥ २४ ॥

प्रपौण्डरीकं ( पुण्डरीक काष्ठ ), सुरदारु ( देवदारु ), कुष्ठ ( कूठ ), यष्ट्याह्व ( मुलहठी ), एला ( बड़ी इलायची ), कमल ( श्वेत कमल, कमल गट्टा ), उत्पल ( नीला कमल ), लोह ( अगर ), ऐरक ( तृण विशेष (Typha angustifolia) टायफा अंगस्टिफोलिया ), पद्मक ( पद्माख ) और चोरक ( चोरपुष्पी, सुगन्धित द्रव्य है, पर्वतीय लोग ढाल आदि में गेरते हैं ), इनको घी में मिलाकर शिर दुखने पर माथे में लगाने से आराम मिलता है ।

यहां पर पीसने के लिये पानी मिला लेना चाहिये ।

छत्तीसवां योगः —

रास्त्रा हरिद्रे नलदं शताह्वे द्वे देवदारुणि सितोपलां च ।

जीवन्तिमूलं सघृतं सतैलमालेपनं पार्श्वरुजासु कोष्णम् ॥ २५ ॥

राम्ना, दोनों हरिद्रा ( हल्दी और ठारु हल्दी ), नलद ( जटामासी ), दोनों शताह्व ( सौंफ और सोया ), देवदारु, सितोपला ( मिश्री ), जीवन्ती

का मूल, इनके चूर्ण को घृत और तैल ( तिल का तैल ) मे ( ये घी तैल दोनों परस्पर समान भाग हो ) मिलाकर गरम करके ( पार्श्व शूल Pleurisy ) में लेप करना चाहिये ।

सत्ताईसवां योग—

शैवालपद्मोत्पलवेत्रतुङ्गं प्रपौण्डरीकाण्यमृणाललोध्रम् ।

प्रियङ्गुकालीयकचन्दनानि निर्वापणः स्यात्सघृतः प्रदेहः ॥ २६ ॥

शैवाल ( सरवाल ), पद्म ( पद्माक्ष ), उत्पल ( नील कमल ), वेत्र ( श्रेष्ठ वेत, लोटी वेत ), तुंग ( कमल का केशर ), प्रपौण्डरीक ( पुण्डरीक ), अण्य ( जीवन्ती ), मृणाल ( कमल नाल, भिस तन्तु ), लोध्र ( पठानी ) प्रियंगू ( फूल प्रियंगु ), कालीयक (चन्दन भेद, हरि चन्दन), और चन्दन इनको ( पानी में पीस कर ) सब द्रव्यों के समान घी मिलाकर लेप करने से त्वचा का दाह, आग से जले की जलन शान्त होती है ।

अट्ठाईसवां योग—

सितालतावेतसपद्मकानि यष्ट्याह्वमैन्द्री नलिनानि दूर्वा ।

यवासमूलं कुशकाशयोश्च निर्वापणः स्याज्जलमेरका च ॥ २७ ॥

सिता ( श्वेत दूब ), लता ( प्रियंगू या सारिवा ), वेतस ( जल वेतस ), यष्टि ( मुलहठी ), ऐन्द्री ( इन्द्रायण ), 'नलिन' ( नीला कमल ), दूर्वा ( दूब ), यवासमूल ( धमासे की जड़ ), कुश ( दाभ ), काश की जड़, जल ( बालक ), ऐरक ( होगला अथवा मर्जीठ ) इन को जल के साथ पीसकर लेप करने से त्वचा की जलन शान्त होती है ।

उनतीसवां योग—

शैलेयमेलाऽगुरु चाथ कुष्ठं चण्डा नतं त्वक्सुरदारु रास्ता ।

शीतं निहन्यादचिरात् प्रदेहां,

शैलेय ( शिलाह्वा ), एला ( बड़ी इलायची ) अगर, कुष्ठ ( कूठ ), चण्डा ( चोर पुष्पी या दूब ), नत ( तगर ), त्वक् ( दाल-



चीनी ), सुरदार ( देवदार ), रायसन, इनको पानी में पीस कर लेप करने से शीत, ठण्डक नष्ट होती है ।

तीसवां योग—

विषं शिरीषस्तु ससिन्धुवारः ॥ २८ ॥

‘शिरीष’ ( सिरस ) को सिन्धुवार ( सम्भालु के पत्ते ) के साथ पीसकर मलाने से विष दोष नष्ट होता है ।

इकतीसवां योग—

शिरीषलामज्जकहेमलोध्रैस्त्वग्दोषसंस्वेदहरः प्रघर्षः ।

शिरीष ( सिरस ), लामज्जक ( उशीर, खस ), हेम ( नागकेसर ), लोध्र ( पठानी लोध्र ), इन को चूर्ण बनाकर शरीर पर रगड़ने मलने से त्वचा के रोग एवं पसीने का अधिक आना नष्ट होता है ।

बत्तीसवां योग—

पत्राम्बुलोध्राभयचन्दनानि शरीरदौर्गन्ध्यहर. प्रदेहः ॥ २९ ॥

पत्र ( तेजपात ), अम्बु ( नेत्रवाला ), लोध्र ( पठानी लोध्र ), अभय ( उशीर, खस ), और श्वेत चन्दन इनको पानी में पीसकर लेप करने से शरीर की दुर्गन्ध मिटती है ।

तत्र श्लोकः ।

इहात्रिजः सिद्धतमानुवाच द्वात्रिंशत्तं सिद्धमहर्षिपूज्यः ।

चूर्णप्रदेहान्विविधामयत्रानारवधीये जगतो हितार्थम् ॥ ३० ॥

सिद्ध एव ऋषियों से पूजित प्रशंसित कृष्णात्रेय पुनर्वसु ने ३२ प्रकार के, न कम और न अधिक, सिद्ध योगों के नाना प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाले प्रलेप जगत् के लाभ के लिये कहे हैं ।

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिभस्करे सूत्रस्थाने भेषजचतुष्के

आरवधीयो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

## अथ चतुर्थाध्यायः

अथातः षड्विरेचनशताश्रितियमध्यायं व्याख्यास्याम. ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

इसके आगे 'षड्विरेचन' से आरम्भ किये जाने वाले अध्याय का अवतरण करते हैं। भगवान् आत्रेय ने कहा है।

शरीर के लिये अन्तः परिमार्जन और बहिःपरिमार्जन की औषधियों को पूर्व अध्यायों में कहकर अवशिष्ट परिमार्जन की औषधियों को कहते हैं।

इह खलु षड्विरेचनशतानि भवन्ति, षड्विरेचनाश्रया,

इस तंत्र में छः सौ विरेचन योग हैं। न अधिक और न कम।

'विरेचन' शब्द उभयार्थ वाचक है। अर्थात् शरीर के अधोभाग से मल निःसारण का नाम भी विरेचन है और शरीर के ऊर्ध्व भाग से वमन के रूप में किये जाने वाले संशोधन रूप कर्म को भी 'विरेचन' कहते हैं। विरेचन द्रव्यों के छः आश्रय हैं यथा—दूध, मूल, त्वचा, पत्र, पुष्प और फल। विरेचन द्रव्य छः प्रकार से क्रिया करने में समर्थ है।

सशमन चिकित्सा—

कषायशतानि, पञ्च कषाययोनयः, पञ्चविधं कषायकल्पनं, पञ्चाशन्महाकषाया इति संग्रहः ॥ ३ ॥

पांच सौ कषाय हैं कषायों की पांच जाति है। कषायों की कल्पना पांच प्रकार की है। पचास महाकषाय हैं, यह संक्षेप में कह दिया है।

षड्विरेचनशतानीति यदुक्तं तदिह संग्रहेणोदाहृत्य विस्तरेण कल्पोपनिषदनुव्याख्यास्याम. ॥ ४ ॥

'छः सौ विरेचन योग हैं' यह जो कहा है उसे यहां पर संक्षेप में कहेंगे। विस्तार से कल्प-उपनिषद् अर्थात् 'कल्प-स्थान' में व्याख्या करेंगे।

त्रयस्त्रिंशद्योगशतं प्रणीतं फलेषु, एकोनचत्वारिंशज्जीमूतकेषु  
 योगाः, पञ्चचत्वारिंशदिक्ष्वाकुषु, धामार्गवः पष्टिधा भवति योगयुक्तः,  
 कुटजस्त्वष्टादशधा योगमेति, कृतवेधनं पष्टिधा भवति योगयुक्तं,  
 श्यामात्रिवृद्योगशतं प्रणीतं दशापरे चात्र भवन्ति योगाः, चतुरङ्गुलो  
 द्वादशधा योगमेति, लोध्रं विधौ षोडशयोगयुक्तं, महावृक्षो भवति  
 विशतियोगयुक्तः, एकोनचत्वारिंशत्सप्तलाशद्विन्योर्योगाः, अष्टच-  
 त्वारिंशदन्तीद्रवन्त्योरिति षड्विरेचनशतानि ॥ ५ ॥

मदन फल के कल्प में १३३ विरेचन योग, 'जीमूतक' ( देवदाली )  
 फल के कल्प में ३९, ईक्ष्वाकु ( कडवी तुरई ) कल्प में ४०,  
 धामार्गव ( बड़ी तुरई पीले फूल की, राज कोपातकी ) कल्प में ६०,  
 कुटज ( कूडे ) के फल कल्प में १८ प्रकार के, कृतवेधन ( कोपातकी )  
 के उपयोग में विरेचन योग ५०, इस प्रकार से ये व्रमन रूप विरेचन योग  
 हैं । अब अधोगामी विरेचन योग कहते हैं—

श्यामा ( अरुणमूल ) की निशोथ और त्रिवृत् ( सफेद निशोथ )  
 कल्प के ११० योग, चतुरङ्गुल ( अमलतास ) कल्प के १२  
 प्रकार के योग, लोध्र विधि ( लोध्र कल्पों में विरेचन विधि ) के अन्दर  
 १६ योग, महावृक्ष ( स्नुही, सुधा वृक्ष ) कल्प में २०, सप्तला ( सातल )  
 और शंखिनी ( शरपुष्पी, यत्रतिका ) के कल्प में ३९ और दन्ती ( जमा-  
 लगोटा ), द्रवन्ती ( आखुकर्णा ) के ४८ प्रकार के योग हैं । इस प्रकार  
 से ६०० विरेचन योग बन जाते हैं ।

षड्विरेचनाश्रया इति क्षीरमूलत्वक्पत्रपुष्पफलानीति ॥ ६ ॥

विरेचन क्रिया औषधियों के छः ( अंगों में ) आश्रय है । यथा—  
 क्षीर ( दूध ), मूल, त्वक्-त्वचा, पत्र, पुष्प और फल ।

पञ्च कपाययोनय इति मधुरकपायोऽम्लकपाय. कटुकषायस्ति-  
 क्तकपाय कपायकपायश्चेति तन्त्रे संज्ञा ॥ ७ ॥

'कपाय' की पांच योनि ( जातियां ) हैं । यथा—मधुरकपाय

( मधुर रस वाले पदार्थों से बनाया हुआ कषाय ), अम्लकषाय ( खट्टे रस वाले पदार्थों से बनाया हुआ कषाय ), कटुकषाय ( कडुवे रस वाले पदार्थों से तैय्यार किया कषाय ), तिक्तकषाय ( तीखे पदार्थों से तैय्यार किया हुआ कषाय ), कषायकषाय ( कसैले पदार्थों से तैय्यार किया हुआ कषाय ) इस शास्त्र में 'कषाय' संज्ञा है, रस वाचक नहीं है ।

‘लवण कषाय’ नहीं है लवण रस से कषाय तैयार नहीं होता है ।

पञ्चविधं कषायकल्पनमिति तद्यथा स्वरसः कल्क शृतः शीतः फाण्ट. कषाय इति ॥ ८ ॥

कषाय कल्पन अर्थात् कषाय तैयार करने की विधि पांच प्रकार से है । यथा—स्वरस, कल्क, शृत, शीत और फाण्ट । कषाय शब्द सब के साथ संयुक्त है । इन में स्वरस में कल्क की अपेक्षा, कल्क में शृत की अपेक्षा से, शृत में शीत की अपेक्षा से, और शीत में फाण्ट की अपेक्षा से अधिक बल, सामर्थ्य और शक्ति है । इसलिये 'कषाय कल्पना' अर्थात् रोगी के लिये कषाय का विचार व्याधिबल, आतुरबल अर्थात् रोगी के सामर्थ्य को देखकर करना चाहिये । ये सब कषाय सब अवस्थाओं में उपयोगी नहीं होते अर्थात् बलवान् व्याधि या बलवान् रोगी में अल्प बल वाले या मध्यम वाले कषाय कार्य करने में समर्थ नहीं होते । इसी प्रकार अल्प बल की अवस्था में अधिक बल वाले कषाय कार्य करने में असमर्थ होते हैं ।

कषायो के लक्षण —

( यन्त्रप्रपीडनाद्रव्यद्रस स्वरस उच्यते ।

यत्पिण्डं रसपिष्टानां तत्कल्कं परिकीर्तितम् ॥ ९ ॥

वह्नौ तु कथितं द्रव्यं शृतमाहुश्चिकित्सका ।

द्रव्यादापोथितात्तोये प्रतप्ते निशि संस्थितात् ॥ १० ॥

कषायो योऽभिनिर्याति स शीतः समुदाहृतः ।

क्षिप्रोष्णतोये मृदितं तत्फाण्टं परिकीर्तितम् ॥ ११ ॥ )

तेषां यथापूर्वं वलाधिक्यं, अतः कषायकल्पना व्याध्यातुरवला  
पेक्षिणी । नत्वेवं खलु सर्वाणि सर्वत्रोपयोगीनि भवन्ति ॥ १२ ॥

स्वरस कषाय—द्रव्य को कूट कर यंत्र प्रपीड़न अर्थात् यंत्र से वा  
हाथ धादि से दबा कर<sup>१</sup> जो रस निकलता है उसे 'स्वरस' कहते हैं  
कल्क कषाय—द्रव्य को शिला आदि पर पीस कर ( जो गोला बना  
लिया जाता है ) उसे 'कल्क' कहते हैं । शृत कषाय—द्रव्य को कूट कर  
यथा विधि द्रव मिला कर आग पर पकाने से जो किट्ट रहित सार भाग  
निकलता है उसे चिकित्सक 'शृत' कहते हैं । शीत कषाय—द्रव्य  
को कूट कर पानी से रात भर भिगो कर रखने से ) जो सार भाग (किट्ट  
भाग को छोड़कर) निकलता है उस द्रव भाग को 'शीत' कहते हैं ।  
फाण्ट कषाय—द्रव्य को कूटकर गरम पानी में रखकर कुछ काल पीछे मलकर  
जो किट्ट रहित सार भाग निकलता है, उसे 'फाण्ट' कहते हैं ।

पञ्चाशन्महाकषाया इति यदुक्तं तदनुव्याख्यास्यामः; तद्यथा—  
पहिले जो यह कहा है कि पचास महाकषाय है, उसकी अब व्या-  
ख्या करते हैं जैसे—

जीवनीयो बृंहणीयो लेखनीयो भेदनीयः संधानीयो दीपनीय इति  
पट्क. कषायवर्ग ,

( जीवनीय ) जीवन के लिये हितकारी, आयुष्यवर्धक, ( बृंहणीय )  
शरीर के बृंहण के लिये हितकारी, ( लेखनीय ) देह के घर्षण के लिये  
Liquefacient स्थूलता नाशक, ( भेदनीय ) भेदन शरीर से मल निका-  
लने के लिये Purgative, ( संधानीय ) टूटे हुए को जोड़ने के लिये,  
( दीपनीय ) अग्नि को बढ़ाने वाला (Stomachic) यह छः कषायों  
का एक वर्ग हुआ ।

१ यहाँ पर 'पुन' शब्द के स्थान पर 'प्रतप्ते' पाठ 'जल्पकल्पतर्ह'  
में टाँस माना है । अर्थात् प्रातःकाल गरम कर लेना चाहिये ।

बल्यो वर्यः कण्ठ्यो हृद्य इति चतुष्कः कषायवर्गः,

‘बल्य’ ( बल कारक Tonic ), वर्य ( शरीर की कान्ति बढ़ाने वाला Cosmetic ), ‘कण्ठ्य’ ( कण्ठ या गले के स्वर के लिये हितकारी ), ‘हृद्य’ ( हृदय के—मन के लिये हितकारी ), यह दूसरा चार कषायों का वर्ग है ।

तृप्तिघ्नोऽशोऽन्नः कुष्ठघ्नः कण्ठघ्नः कृमिघ्नो विपघ्न इति षट्कः कषायवर्गः,

‘तृप्तिघ्न’ ( तृप्ति अर्थात् श्लेष्म जनित विकार को नष्ट करने वाला ), ‘अशोऽन्न’ ( अर्श रोग के लिये हितकारी Haemostotic ), कुष्ठघ्न ( कुष्ठ रोगनाशक Antiscorbutic ), कण्ठघ्न ( खाज नाशक Antipsoric ), ‘कृमिघ्न’ ( उदर के कृमि नाशक Anthelmintic ), विपघ्न ( विपनाशक Antitoxic ), यह तीसरा छः कषायों का एक वर्ग हुआ ।

स्तन्यजननः स्तन्यशोधनः शुक्रजननः शुक्रशोधन इति चतुष्कः कषायवर्गः ।

स्तन्य जनन ( दूध बढ़ाने वाला Galactagogue ), स्तन्यशोधन ( दूध का शोधन करने वाला Milk Improver ), शुक्रजनन ( धातुवर्धक Spermatopoietic ), शुक्रशोधन ( धातु शोधक Semen Improver ), यह चौथा चार कषायों का एक वर्ग हुआ ।

स्नेहोपगः स्वेदोपगो वमनोपगो विरेचनोपगः आस्थापनोपगोऽनुवासनोपगः शिरोविरेचनोपग इति सप्तकः कषायवर्गः ।

स्नेहोपग ( मार्दव कर Demulcent ), स्वेदोपग ( पसीना लाने वाला Diaphoretic ), वमनोपग ( वान्ति कारक Emetic ), विरेचनोपग ( मलनिःसारक Purgative ), ‘आस्थापनोपग’ ( रुद्ध वस्ति के लिये उपयोगी Enemata ), ‘अनुवासनोपग’ ( स्नेह-वस्ति

के लिये उपयोगी ), 'शिरोविरोचनोपग' ( नस्य के लिये उपयोगी Sternutatory ), यह पांचवां सात कषायों का एक वर्ग हुआ ।

छर्दिनिग्रहणस्तृष्णानिग्रहणो हिक्कानिग्रहण इति त्रिकः कषायवर्गः,

'छर्दि-निग्रहण' ( वमननाशक Anti Emetic ), तृष्णा-निग्रहण ( प्यास को नष्ट करने वाला Frigorific ), हिक्कानिग्रहण ( हिचकी नाशक Antisugultus ), यह तीन कषायों का एक वर्ग हुआ ।

पुरीपसंग्रहणीयः पुरीषविरजनीयो मूत्रसंग्रहणीयो मूत्रविरजनीयो मूत्रविरेचनीय इति पञ्चकः कषायवर्गः ।

'पुरीपसंग्रहणीय' ( मल को घट्ट या स्तम्भ करने के लिये हितकारी Astringent ), 'पुरीषविरजनीय' ( दोष के कारण जब मल में उचित रंग नहीं आता इस के लिये हितकारी जैसे—कामला रोग में मल श्वेत रंग का आता है, पीलापन नहीं आता ), 'मूत्र संग्रहणीय' ( मूत्र को कम करने वाला Anti uretic ), 'मूत्रविरजनीय' ( मूत्र के रंग को ठीक करने वाला मूत्रशोधक ), 'मूत्रविरेचनीय' ( मूत्रवर्धक Diuretic), यह पांच कषायों का एक वर्ग हुआ ।

कासहरः श्वासहरः शोधहरो ज्वरहरः श्रमहर इति पञ्चकः कषायवर्गः ।

'कासहर' ( खासी के लिये हितकारी ), श्वासहर ( दमे के लिये हितकारी Antiasthmatic), शोधहर ( सूजन के लिये हितकारी ), ज्वरहर ( ज्वरनाशक Anti Pyretic ), श्रमहर ( थकावट को मिटाने वाला Refrigerant ), यह पांच कषायों का एक वर्ग हुआ ।

दाहप्रशमन शीतप्रशमन उर्द्धप्रशमनो ऽङ्गमर्दप्रशमनः शूल-प्रशमन इति पञ्चकः कषायवर्गः ।

'दाहप्रशमन' (जलन को शान्त करने वाला), 'शीतप्रशमन' (उडक

को दूर करनेवाला Antialgide), 'उदरदं प्रशमन' (कोठ, छपाकी, त्वचा पर उठने वाले मोटे २ चकत्तों को शान्त करने वाला Curing Urticaria), 'अंगमर्द प्रशमन' ( अंगों की ऐंठन को दूर करने वाला Antispasmodic ), यह पांच कषायों का एक वर्ग हुआ ।

शोणितस्थापनो वेदनास्थापनः संज्ञास्थापनः प्रजास्थापनो वयः  
स्थापन इति पञ्चकः कषायवर्गः,

'शोणित-स्थापन' (रक्त रोधक Styptic), 'वेदना स्थापन' (पीड़ा नाशक Anodyne), 'संज्ञास्थापन' (चेतन करने वाला Restorative), 'प्रजास्थापन' (संततिजनक An-Ecbohic), 'वयःस्थापन' (आयु को टिकाने वाला) यह पांच कषायों का एक वर्ग ।

इति पञ्चाशन्महाकषायाः, महतां च कषायाणां लक्षणोदाहरणार्थं व्याख्याता भवन्ति । तेषामेकैकस्मिन्महाकषाये दशदशावयविकान्कषायाननुव्याख्यास्यामः । तान्येव पञ्च कषायशतानि भवन्ति ॥ १३ ॥

इस प्रकार से पचास महाकषाय बनते हैं । महाकषाय के लक्षण और उदाहरण के लिये संक्षेप में कह दिये गये हैं । इन एक-एक महाकषायों में दस-दस अवयवों वाले कषायों की व्याख्या आगे कहेंगे । इस प्रकार से पांच सौ कषाय बनते हैं । अर्थात् 'जीवनीय' आदि संज्ञा वाले पचास महाकषायों में से प्रत्येक 'जीवनीय' आदि संज्ञा वाले कषाय में दस-दस अवयव हैं । जैसे—

तद्यथा—जीवकर्षभकौ मेदा महमेदा काकोली क्षीरकाकोली मुद्गमाषपर्ण्यौ जीवन्ती मधुकमिति दशेमानि जीवनीयानि भवन्ति ॥ ( १ ) ॥

जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, मुद्गपर्णी ( मूंग पर्णी ) माष पर्णी, जीवन्ती ( स्वर्णवला ) और मधुक ( मुल्हठी ) ये दस जीवनीय (जीवनवर्धक) हैं ।



क्षीरिणी राजक्षवकं बला काकोली क्षीरकाकोली वाय्यायनी भद्रौदनी भारद्वाजी पयस्यर्ष्यगन्धा इति दशेमानि बृंहणीयानि भवन्ति ॥ ( २ ) ॥

क्षीरिणी ( दूधी ), राजक्षवक ( राई या दुग्धिया ), बला ( खरैटी ) काकोली, क्षीरकाकोली, वाय्यायनी ( श्वेतबला-महाबला ) भद्रौदनी ( नागबला, पीतबला ), भारद्वाजा ( वनकपासी ), पयस्या ( विदारीकन्द ), ऋष्यगन्धा ( वृद्धदारक, विधारा ) ये दस बृंहणीय अर्थात् शरीर में वृद्धि करने वाले हैं ।

मुस्तकुष्ठहरिद्रादारुहरिद्रावचातिविषाकटुरोहिणीचित्रकचिरविल्वहैमवत्य इति दशेमानि लेखनीयानि भवन्ति ॥ ( ३ ) ॥

मुस्त ( नागर मोथा ), कुष्ठ ( कूठ ), हरिद्रा ( हल्दी ), वच ( घोडा वच ), अतिविषा ( अतीस ), कटु रोहिणी ( कुटकी ), चित्रक ( चीता मूल ), चिरविल्व ( करंज ), हैमवती ( श्वेत वच ), ये दस लेखनीय हैं, इन के घर्षण से त्वचा कुछ विदार्ण होती है ।

सुवहार्कौरुचूकाभिमुखीचित्राचित्रकचिरविल्वशङ्खिनीसकुलादनीस्वर्णक्षीरिण्य इति दशेमानि भेदनीयानि भवन्ति ॥ ( ४ ) ॥

सुवहा ( त्रिवृत, निशोथ ), अर्क ( आक दो प्रकार का है श्वेत और अरुण ), ऊरुचूक ( एरण्ड ), अभिमुखी ( भिलावा ), चित्रा ( जमाल गोटे की जड़ ), चित्रक ( चीतामूल ), चिरविल्व ( करंज ), शंखिनी ( चौरपुष्पी ), सकुलादनी ( कटुकी ), और स्वर्णक्षीरी ( सत्यानासी ), ये दस भेदनीय अर्थात् मलोत्सर्जक हैं ।

मधुकमधुपर्णीपृश्निपर्यम्बुकीसमझामोचरसधातकीलोध्रप्रियङ्गुकट्फलानीति दशेमानि संधानीयानि भवन्ति ॥ ( ५ ) ॥

मधुक ( मुलहठी ), मधुपर्णी ( गिलोय ), पृश्निपर्णी ( पिठवन ), अम्बुकी ( पाठा ), समगा ( वराहक्रान्ता या बला अथवा मजीठ ), मोचरस ( सिन्धुल का गोंड ), धातकी ( धाय ), लोध्र ( पठानी लोध्र ),

प्रियंगु ( फूल प्रियंगु ), और कट्फल ( कायफल ) ये दस 'संधानीय' अर्थात् टूटी हुई अस्थि को जोड़ने वाले हैं ।

पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकशृङ्गवेराम्लवेतसमरिचाजमोदा-  
भल्लातकास्थिहिङ्गुनिर्यासा इति दशेमानि दीपनीयानि भवन्ति॥(६)॥  
इति षट्कः कषायवर्गः ॥ [ १ ] ॥

पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य ( चविका ), चीतामूल, शृङ्ग-  
वेर ( सोंठ या अदरख ), अम्लवेतस, मरिच ( काली मिरच ), अज-  
मोदा ( अजवायन ), भल्लातकास्थि ( भिलावे के बीज संशोधित ), हिङ्गु  
निर्यास (हींग), ये दस 'दीपनीय' अर्थात् भूख लगाने वाले अग्नि सन्दीपक हैं ।  
यह छः कषायो का एक वर्ग हुआ ।

ऐन्द्रशृषभ्यतिरसष्यप्रोक्तापयस्याश्वगन्धास्थिरारोहिणीबलाति-  
बला इति दशेमानि बल्यानि भवन्ति ॥ ( ७ ) ॥

ऐन्द्री ( इन्द्रायण ), ऋषभी ( शूकशिम्बी, कौंच ), अतिरसा  
( शतावरी ), ऋष्यप्रोक्ता ( माषपर्णी ), अश्वगन्धा ( असगन्ध ),  
स्थिरा ( शालपर्णी ), बला ( खरैटी ), अतिबला ( पीतबला ), ये  
दस 'बल्या' अर्थात् बलकारक हैं ।

चन्दनतुङ्गपद्मकोशीरमधुकमञ्जिष्ठासाग्वापयस्यासितालता इति  
दशेमानि वर्णानि भवन्ति ॥ ( ८ ) ॥

चन्दन ( लाल चन्दन ), तुंग ( पतंग, कुचन्दन अथवा कमल का  
केशर ), पद्मक ( पद्माख ), उशीर ( खस ), मधुक ( मुलहठी ), मञ्जिष्ठा  
( मजीठ ), सारिवा ( अनन्तमूल ), पयस्या ( विदारी कन्द ), सिता  
( मिश्री ) और लता ( दूब ) ये दस 'वर्ण्य' अर्थात् वर्णकारक, वर्ण बढ़ाने  
वाले हैं । १

१ जल्पकल्पतरु में 'लता' का अर्थ मंजीठ किया है । परन्तु मजीठ  
का कथन भी इस में है, अतः दूब अर्थ ही उचित है ।

सारिवेक्षुमूलमधुकपिप्पलीद्राक्षाविदारीकैडर्यहंसपदीवृहतीकण्ट-  
कारिका इति दशेमानि कण्ठ्यानि भवन्ति ॥ ( ९ ) ॥

सारिवा ( अनन्तमूल ), इक्षुमूल ( ईख की जड़ ), मधुक ( मुल-  
हठी ), पिप्पली, द्राक्षा ( किशमिश ), विदारी ( कन्द ), कैडर्य ( कायफल ),  
हंसपदी ( मण्डूकपर्णी या ब्राह्मी ), वृहती ( बड़ी कटेरी ), कण्टकारिका  
( छोटी कटेरी ) ये दस ओषधियां 'कण्ठ' स्वर के लिये हितकारी है ।

आम्रात्रातकनिकुचकरमर्दवृक्षाम्लाम्लवेतसकुवलवदः दाडिम-  
मातुलुङ्गानीति दशेमानि हृद्यानि भवन्ति ॥ ( १० ) ॥

इति चतुष्कः कपायवर्गः ॥ [ २ ] ॥

आम्र ( आम ), आम्रातक ( अम्बाड़ा, कपिप्रिया ), निकुच ( लकुच,  
टहु, चटहल ), करमर्द ( करञ्ज ), वृक्षाम्ल ( इमली ), अम्लवेतस,  
कुवल ( बड़ वेर ), वदर, ( झाड़ी का वेर ), दाडिम ( अनार ), मातु  
लुंग ( त्रिजौरा ) ये दस 'हृद्य' अर्थात् हृदय के लिये हितकारी हैं ।

यह चार कपायों का एक वर्ग समाप्त हुआ ।

नागरचित्रकचव्यविडङ्गमूर्वागुहूचीवचामुस्तपिप्पलीपटोलानीति  
दशेमानि तृप्तिन्नानि भवन्ति ॥ ( ११ ) ॥

नागर ( साँठ ), चित्रक ( चीतामूल ), चव्य ( चविका ), विडंग  
( वायविडंग ), मूर्वा ( मोरवेल ), गुहूची ( गिलोय ), वचा ( वच ),  
मुन्न ( नागर मोथा ), पिप्पली, पटोल ( परवल ) ये दस 'तृप्तिन्न' अर्थात्  
श्लेष्मा जनित तृप्ति को नाश करने वाली है ।

कुटजविल्वचित्रकनागरातिविपाभयाधन्वयासकदारुहरिद्रावचा-  
चव्यानीति दशेमान्यशोन्नानि भवन्ति ॥ ( १२ ) ॥

कुटज ( कुड़ा ), विल्व ( वेलगिरी ), चित्रक ( चीतामूल ), नागर  
( साँठ ), अतिविपा ( अतीस ), अभया ( बड़ी हरड़ ), धन्वयासक  
( धमासा ), दारु हरिद्रा ( दारुहल्ली ) वच, और चव्य ( चविका )  
ये दस ओषधियां 'अशोन्न' अर्थात् बवासीर रोग के नाशक हैं ।

खदिराभयामलकहरिद्रारुष्करसप्तपर्णारग्वधकरवीरविडङ्गजा-  
तिप्रवाला इति दशेमानि कुष्ठन्नानि भवन्ति ॥ ( १३ ) ॥

खदिर ( खैर ), अभया ( जंगी हरड़ ), आमलक ( आवला ),  
हरिद्रा ( हल्दी ), अरुष्कर ( भिलावा ), सप्तपर्ण ( सातवन ), आरग्वध  
( अमलतास ), करवीर ( कनेर ), विडंग ( वायविडंग ) और जाति  
प्रवाल ( चमेली के नवीन कोमल पत्ते ) ये दस 'कुष्ठन्न' अर्थात् कोढ़  
रोग के नाशक हैं ।

चन्दननलदकृतमालनक्तमालनिम्बकुटजसर्पपमधुकदारुहरिद्रा-  
मुस्तानीति दशेमानि कण्डून्नानि भवन्ति ॥ ( १४ ) ॥

चन्दन ( लाल चन्दन ), नलद ( जटामांसी ), कृतमाल ( कणिं-  
कार, अमलतास ), नक्तमाल ( करंज ), निम्ब ( नीम के पत्ते ), कुटज  
( कूडे की छाल ), सर्पप ( सरसो ), मधुक ( मुलहठी ), दारु हरिद्रा  
( दारु हल्दी ), और मुस्ता ( नागर मोथा ) ये दस औषधियां 'कण्डून्न'  
अर्थात् खाज नाशक हैं ।

अक्षीवमरिचगण्डीरकेवुकविडङ्गनिर्गुण्डीकिणिहीश्वदंप्रावृष-  
पर्णिकाखुपर्णिका इति दशेमानि क्रिमिन्नानि भवन्ति ॥ ( १५ ) ॥

अक्षीव ( सहजन ), काली मरिच, गण्डीर ( थोर या जिमीकन्द ),  
केवुक ( गोखरू ), किणिही ( अपामार्ग या कटभी ) विडंग ( वाय  
विडंग ), निर्गुण्डी ( सम्भालु ), वृषपर्णी ( आखुपर्णी का भेद, कोई  
तुलसी का भेद मानते हैं ) आखुपर्णिका ( मूसाकानी ) ये दस क्रिमिन्न  
अर्थात् कृमिनाशक हैं ।

हरिद्रामञ्जिष्ठासुवहासूक्ष्मैलापालिन्दीचन्दनकतकशिरीपसिन्धु-  
चारश्लेष्मातका इति दशेमानि विपन्नानि भवन्ति ॥ ( १६ ) ॥

इति षट्कः कपायवर्ग ॥ [ ३ ] ॥

हरिद्रा ( हल्दी ), मञ्जिष्ठा ( मजीठ ), सुवहा ( रास्ना ), सूक्ष्मैला  
( छोटी इलायची ), पालिन्दी ( काली सारिवा ), चन्दन ( लाल चन्दन ),

कतक (निर्मली का जल को शोधन करने वाला फल), गिरीप (सिरस), सिन्धुवार ( सम्भालु, निर्गुण्डी ), श्लेष्मातक (लिसोड़ा), ये दस 'विपन्न' अर्थात् विपनाशक हैं ।

यह छः का एक 'कपाय वर्ग' हो गया ।

वीरणशालिपष्टिकेक्षुवालिकादर्भकुशकाशगुन्द्रेत्कटकतृणमूला-  
नीति दशेमानि स्तन्यजननानि भवन्ति ॥ ( १७ ) ॥

वीरण (खस), शालि (हेमन्त ऋतु में पकने वाले धान्य का चावल), पष्टिक ( साठी चावल ), ईक्षुवालिका ( ईख ), दर्भ ( दाभ ), कुश ( कुशा ), काश ( सरकन्डा ), गुन्द्रा (गिलोय), इत्कट (बोरू, ईकड़ी), कग ( रोहिप वृण ) ये दस 'स्तन्य-जनन' अर्थात् दूध बढ़ाने वाले हैं ।

पाठामहौपधसुरदारुमुस्तमूर्वागुडूचीवत्सकफलकिराततिक्तकटु-  
रोहिणीसारिवा इति दशेमानि स्तन्यशोधनानि भवन्ति ॥ ( १८ ) ॥

इन में गिलोय को छोड़कर सब के मूल काम में लाने चाहिये । पाठा ( पाड़ल ), महौपध ( सोठ ), सुरदारु ( देवदारु ), मुस्त ( नागर मोथा ), मूर्वा ( मोर बेल, मोरट ), गुडूची ( गिलोय ), वत्सक फल ( इन्द्र जौ ), किराततिक्तक ( चिरायता ), कटुरोहिणी ( कुटुकी ), सारिवा ( अनन्त मूल ) ये दस 'स्तन्यशोधन' अर्थात् माता के दूध को शुद्ध करने वाले हैं ।

जीवकपर्पभककाकोलीक्षीरकाकोलीमुद्गपर्णीमाषपर्णीमेदावृद्धरुहा-  
जटिलाकुलिङ्गा इति दशेमानि शुक्रजननानि भवन्ति ॥ ( १९ ) ॥

जीवक, ऋपभक, काकोली, क्षीर काकोली, मुद्गपर्णी ( मूंगपर्णी ), माषपर्णी ( उडडपर्णी ), मेदा. वृद्धरुहा ( शतावरी या विधारा ), जटिला ( जटामासी ), कुलिङ्ग ( कुलिङ्ग पक्षी का मांस या दूब ), ये दस 'शुक्रजनन' अर्थात् वीर्य धातु के वर्धक होते हैं । १

१ ( १ ) जीवक, ऋपभक, मेदा-महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, ऋद्धि वृद्धि इन के स्थान पर परिभाषा आदेश से, शतावरी, विद्वारीकन्द,

कुष्ठैलवालुककट्फलसमुद्रफेनकदम्बनिर्यासेत्तृकाण्डेक्ष्वक्षुरकव-  
सुकोशीराणीति दशेमानि शुक्रशोधनानि भवन्ति ॥ ( २० ) ॥

इति चतुष्क. कषायवर्गः ॥ [ ४ ] ॥

कुष्ठ ( कूड ), एलवालुक ( ऐलेय, एलावालुक, तेजबल ), कट्फल  
( कायफल ), समुद्रफेन ( समुद्र क्षाग ), कदम्ब ईक्षु ( गन्ना ), काण्डेक्षु  
( काश की जड़ ), ईक्षुरक ( ताल मखाना ); वसुक ( वकुल पुष्प,  
शिवमल्लिका ), और उशीर ( खस की जड़ ) ये दस 'शुक्रशोधन'  
अर्थात् वीर्य धातु को शुद्ध करने वाले हैं ।

यह चार का एक कषाय वर्ग होता है ।

मृद्धीकामधुकमधुपर्णीमेदाविदारीकाकोलीक्षीरकाकोलीजीवक-  
जीवन्तीशालपर्ण्ये इति दशेमानि स्नेहोपगानि भवन्ति ॥ ( २१ ) ॥

मृद्धीका ( बड़ी दाख ), मधुक ( मुलहठी ), मधुपर्णी ( गिलोय ),  
मेदा, विदारी ( विदारी कन्द ), काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, जीवन्ती  
( स्वर्ण बला ), शालपर्णी ये दस 'स्नेहोपग' अर्थात् शरीर में कोमलता  
और चिकनाई उत्पन्न करती हैं ।

शोभाजनकैरगुडार्कवृश्चौरपुनर्नवायवतिलकुलत्थमाषवदराणीति  
दशेमानि स्वेदोपगानि भवन्ति ॥ ( २२ ) ॥

शोभाजन ( सहजन ), एरण्ड, अर्क ( आक ), वृश्चौर ( श्वेत  
पुनर्नवा ), पुनर्नवा ( रक्त पुनर्नवा ), यव ( जौ ), तिल, कुलत्थ  
( कुलत्थी ), माष ( उड़द ), वदर ( झाड़ी के बेर ) ये दस ओषधियां  
'स्वेदोपग' अर्थात् शरीर में पसीना लाने वाली हैं ।

मधुमधुककोविदारकबुंदारनीपविदुलविम्बीशणपुष्पीसदापुष्पी-  
प्रत्यक्पुष्पा इति दशेमानि वमनोपगानि भवन्ति ॥ ( २३ ) ॥

अश्वगन्धा और वाराही कन्द प्रयोग करने चाहियें । ( २ ) कुलिग शब्द  
धन्वन्तरि निघण्टु में, 'त्रिफ्लि' पक्षियों के लिये और सप्तार्थको में दूर्वा  
के लिये आया है ।

मष्ट ( गह्वर ), मथुक ( मुलहरी ), कौविदार ( लाल कचनार ), कुर्बुदार ( श्वेत कचनार ), नीप ( कदम्ब ), विदुल ( जल वेतस ), विन्वी ( विन्व फल ), गणपुष्पी ( बृहत्पुष्पी ), सदापुष्पी ( आक ), प्रत्यक्पुष्पी ( अपामार्ग, चिरञ्जिटा ) ये दस 'वमनोपग' अर्थात् वमनकारक हैं ।

द्राक्षाकाश्मर्यपरूपकाभयामलकविभीतककुवलयद्वर्ककर्मन्धूपील्ल-  
नीति दशमानि विरेचनोपगानि भवन्ति ॥ ( २४ ) ॥

द्राक्षा ( किशमिद्र ), काश्मरी ( गम्भारी ), परपक ( फालसा ), अभया ( जंगी हरड ), आमलक ( आंवला ), विभीतक ( बहंडा ), कुवलय ( बटा बर ), बडर ( बृश्न का बर ), कर्मन्धू ( झाडी का बर ), पील्ल ( गुड़फल विरेचन फल ) ये दस 'विरेचनोपग' अर्थात् विरेचक हैं ।

त्रिवृद्विल्वपिप्पलीकुप्रसर्पवचावत्सकफलशतपुष्पामथुकमदन-  
फलानीति दशमान्यास्थापनोपगानि भवन्ति ॥ ( २५ ) ॥

त्रिवृत ( निशोध ), विल्व ( बेलगिरी ), पिप्पली, कुष्ठ ( कूठ ), सर्प ( सर्प ), वच, वत्सक फल ( इन्द्र जौ ), शतपुष्पा ( सौंफ ), मथुक ( मुलहरी ) मदनफल ( मैनफल ) ये दस 'आस्थापनोपग' अर्थात् स्त्र वस्त्र के लिये उपयोगी हैं ।

गन्नासुरदारुविल्वमदनशतपुष्पावृश्चीरपुनर्नवाश्वदंष्ट्राग्निमन्थ-  
श्यानाका इति दशमान्यनुवासनोपगानि भवन्ति ॥ ( २६ ) ॥

गन्ना, सुरदार ( देवदारु ), विल्व ( बेलगिरी ), मदन ( मैनफल ), शतपुष्पा ( सौंफ ), वृश्चीर ( श्वेत पुनर्नवा ), पुनर्नवा ( रक्त पुनर्नवा ), श्वदंष्ट्रा ( गोग्परु ), अग्निमन्थ ( अरणी की छाल ), श्यानाक ( टेटू की छाल ) ये दस 'अनुवासनोपग' अर्थात् स्नेह वस्त्र के लिये उपयोगी हैं ।

ज्योतिष्मिनि तत्रवकमरिचपिप्पलीविडङ्गशिग्रुसर्पपामार्गतण्डुल-  
श्वेतामहाश्वेता इति दशमानि शिरोविरेचनोपगानि भवन्ति ॥ ( २७ ) ॥

इति सप्तक कपायवर्ग ॥ [ ५ ] ॥

ज्योतिष्मिनि ( माल कंगनी ), श्वक ( नकाटिकनी ), मृतकेशी

Myriagyne Lomeginosus), मरिच, पिप्पली, विडंग ( वाय-  
विडंग ), शिशु ( सहजन ), सर्पय ( सरसों ) अपामार्ग तण्डुल  
( चिरचिटे के चावल ), श्वेता ( अपराजिता या शरपुंख ), और महा  
श्वेता ( श्वेता का भेद ) ये दस 'शिरो-विरेचनोपग' अर्थात् शिरोविरेचन  
के लिये उपयोगी है ।

यह सात का एक 'कषायवर्ग' हुआ ।

जम्ब्वाम्रपल्लवमातुलुङ्गाम्लबदरदाडिमयवयष्टिकोशीरमृत्लाजा  
इति दशेमानि छर्दिनिग्रहणानि भवन्ति ॥ ( २८ ) ॥

जम्बु ( जामुन ), और आम्र ( आम ), इनके पल्लव ( पत्ते ), मातु-  
लुंग ( बिजोरिया नीबू ), अम्ल बदर ( खट्टे बेर, मीठे नहीं ), दाडिम  
( अनार ), यव ( जौ ), यष्टिका ( मुलहठी ), उशीर ( खस ) मृत्  
( सौराष्ट्र देश की मिट्टी ), और लाजा ( खीले ) ये दस 'छर्दि निग्रहण'  
वमन को रोकती हैं ।

नागरधन्वयासकमुस्तपर्पटकचन्दनकिराततिक्तकगुडूचीहोवेर-  
धान्यकपटोलानीति दशेमानि तृष्णानिग्रहणानि भवन्ति ॥ ( २९ ) ॥

नागर ( सोंठ ), धन्वयासक ( धमासा ), मुस्त ( नागरमोथा ),  
पर्पटक ( पित्तपापड़ा, शाहतरा ), चन्दन ( लाल चन्दन ), किरात तिक्तक  
( चिरायता ), गुडूची ( गिलोय ), ह्रीवेर ( नेत्रवाला ), धान्यक  
( धनिया ), पटोल ( परबल ) ये दस ओषधियां 'तृष्णानिग्रहण' अर्थात्  
प्यास को रोकने वाली हैं ।

शठीपुष्करमूलबदरवीजकण्टकारिकावृहतीवृक्षरुहाभयापिप्पली-  
दुरालभाकुलीरशृङ्गय इति दशेमानि हिक्कानिग्रहणानि भवन्ति ( ३० )

इति त्रिकः कषायवर्गः ॥ [ ६ ] ॥

शठी ( कचूर ), पुष्करमूल ( पोहकरमूल ), बदरी बीज ( बेर के  
बीज, गुठली ), कण्टकारिका ( छोटी कंटेरी ), वृहती ( बड़ी कंटेरी ),  
वृक्षरुहा ( बन्दा, यह एक पेड़ पर ही पौधा उत्पन्न हो जाता है ), अभया



( जंगी हरड़ ), पिप्पली, दुवालभा ( धमासा ), कुलीरशृंगी ( काकड़ा सींगी ) ये दस 'हिक्रानिग्रहण' अर्थात् हिचकी को शमन करती हैं ।

यह तीन का एक 'कपाय वर्ग' हुआ ।

प्रियङ्ग्वनन्ताम्रास्थिकट्वङ्गलोध्रमोचरससमङ्गाधातकीपुष्पप-  
च्चापञ्चकेशराणीति दशेमानि पुरीपसंग्रहणीयानि भवन्ति ॥ ( ३१ ) ॥

प्रियंगु ( फूल प्रियंगु ), अनन्त ( अनन्तमूल ), आम्रास्थि ( आम की गुठली ), कट्वंग ( श्योनाक, टेढ़ की छाल ), लोध्र ( पठानी लोध्र ), मोचरस ( सिम्बल का गोंद ), समंगा ( मंजीठ ), धातकी पुष्प ( धाय के फूल ), पञ्चा ( भार्गी ), पञ्च केशर ( कमल का केशर ), यह दस 'पुरीप संग्रहण' अर्थात् मल को रोकने वाले हैं ।

जम्बुशालकीत्वक्कच्छुरामधुकशाल्मलीश्रीवेष्टकभृष्टमृतपयस्योत्प-  
लतिलकणा इति दशेमानि पुरीपविरजनीयानि भवन्ति ॥ ( ३२ ) ॥

जम्बु ( जामुन ), शलकी ( शिहक, सल की छाल ), कच्छुरा ( कौंच या धमासा ), मधूक ( महुवे की छाल ), शाल्मली ( सिम्बल का गोंद ), श्रीवेष्टक ( धूप ), भृष्टमृत ( अग्नि के जलाने से जली हुई मिट्टी, चूल्हे की मिट्टी ), पयस्या ( विदारी कन्द ), उत्पल ( नील कमल ), तिल कण ( तिल चावल, कूटे हुए तिल ) ये दस 'पुरीप विरजनीय' अर्थात् मल के दूषित रंग को बदलने वाले हैं ।

जम्ब्वाम्रपृक्षवटकपीतनोडुम्ब्वराश्वत्थभल्लातकाशमन्तकसोमवल्का  
इति दशेमानि मूत्रसंग्रहणीयानि भवन्ति ॥ ( ३३ ) ॥

जम्बु ( जामुन ), आम्र ( आम ), पृक्ष ( पिलखन ), वट ( वड़ ), कपीतन ( पारस पीपल ), उडुम्बर ( गूलर ), अश्वत्थ ( पीपल ), भल्ला-  
तक ( भिलावा ), अशमन्तक ( आम्ल लोटक, शैलिय ), सोमवल्क ( खैर ), ये दस 'मूत्र-संग्रहण' अर्थात् मूत्र को कम करते हैं ।

पद्मोत्पलनलिनकुमुदसौगन्धिकपुरण्डरीकशतपत्रमधुकप्रियङ्गुधा-  
तकीपुष्पाणीति दशेमानि मूत्रविरजनीयानि भवन्ति ॥ ( ३४ ) ॥

पद्म ( कमल ), उत्पल ( नीला कमल ), नलिन ( लाल कमल ), कुमुद (बेला), सौगन्धिक (कमल का एक भेद), पुण्डरीक ( श्वेत कमल ), शतपत्र ( कमल या गुलाब ), मधुक ( मुलहठी ), प्रियंगु ( फूल प्रियंगु), धातकी पुष्प ( धाय के फूल ) ये दस 'मूत्र विरजनीय' अर्थात् मूत्र में रंग लाते हैं, और दूषित रंग को प्रकृत रूप में लाते हैं ।

वृक्षादनीश्वदंष्ट्रावसुकवशिरपाषाणभेददर्भकुशकाशगुन्द्रेत्कट-  
मूलानीति दशेमानि मूत्रविरेचनीयानि भवन्ति ॥ ( ३५ ) ॥

इति पञ्चक. कषायवर्गः ॥ [ ७ ] ॥

वृक्षादनी ( बन्दाक ), श्वदंष्ट्रा ( गोखरू ), वसुक (वकुल का पुष्प), वशिर ( हुलहुल, सूर्यावर्त्त ), पाषाणभेद ( पाखान भेद), दर्भ (दाभ), कुश ( कुशा ), काश ( सरकन्डा ), गुन्द्रा ( गिलोय ), इत्कट (ईकड़ी), इन के मूल 'मूत्र विरेचनीय' अर्थात् मूत्र बढ़ाने वाले हैं ।

इन पांच का एक 'कषायवर्ग' है ।

द्राक्षाभयामलकपिप्पलीदुरालभाशृङ्गीकण्टकारिकावृश्चीरपुनर्न-  
वातामलक्य इति दशेमानि कासहराणि भवन्ति ॥ ( ३६ ) ॥

द्राक्षा ( किशमिश ), अभया ( जंगी हरड़ ), आमलक ( आंवला ), पिप्पली, दुरालभा ( धमासा ), शृंगी ( काकड़ासिंगी ), कण्टकारी ( छोटी कंठरी ), वृश्चीक ( श्वेत पुनर्नवा ), पुनर्नवा ( रक्त पुनर्नवा ), तामलकी ( भूम्यामलकी, भूई उगंवता ) ये दस 'कासहर' अर्थात् खांसी को शान्त करते हैं ।

शठीपुष्करमूलाम्लवेतसैलाहिङ्ग्वगुरुसुरसातामलकीजीवन्ती-  
चण्डा इति दशेमानि श्वासहराणि भवन्ति ॥ ( ३७ ) ॥

शठी ( कचूर ), पुष्करमूल ( पोहकरमूल ), अम्लवेतस, ऐला ( बड़ी इलायची ), हिगु ( हीग ), अगरु ( अगर ), सुरसा ( तुलसी ), तामलकी ( भूम्यामलकी ), जीवन्ती, चण्डा ( चोरपुष्पी ये दस 'श्वास हर' अर्थात् श्वास रोग, दमा के नाशक हैं ।

पाटलाग्निमन्थविल्वशयोनाककाशमर्यकएटकारिकावृहतीशाल-  
पर्णीपृश्निपर्णीगोक्षरका इति दशेमानि शोथहराणि भवन्ति ॥ (३८) ॥

पाटला ( पाटल ), अग्निमन्थ ( अरणी ), शयोनाक ( टेदु ), विल्व  
( वेलगिरी ), काशमरी ( गम्भारी ), कण्टकारिका ( छोटी कटेरी ), वृहती  
( बड़ी कटेरी ), शालपर्णी, पृश्नपर्णी, गोक्षुरक ( गोखरू छोटे ), ये दस  
'शोथहर' अर्थात् सूजन कम करते हैं ।

सारिवाशर्करापाठामञ्जिष्ठाद्राक्षीपीलुपरूपकाभयामलकविभी-  
तकानीति दशेमानि ज्वरहराणि भवन्ति ॥ ( ३९ ) ॥

सारिवा ( अनन्तमूल ), शर्करा ( मिथ्री ), पाठा ( पाटल ),  
मञ्जिष्ठा ( मजीठ ), द्राक्षा ( किशमिश्र ), पीलु, परूपक ( फालसा ),  
अभया ( बड़ी हरड़ ), आमलकी ( आंवला ), विभीतक ( बहेडा ), ये  
दस 'ज्वरहर' अर्थात् ज्वर नाशक हैं ।

द्राक्षाखर्जूरपियालवदरदाडिमफल्गुपरूपकेशुयवयष्टिका इति  
दशेमानि श्रमहराणि भवन्ति ॥ ( ४० ) ॥

इति पञ्चक. कपायवर्ग. ॥ [ ८ ] ॥

द्राक्षा ( किशमिस ), खर्जूर ( पिण्डखजूर ), पियाल ( प्याल  
चिरौजी फल ), वदर ( वेर ), दाडिम ( अनार ), फल्गु ( अंजीर काप्टो-  
डुम्बरिका ), परूपक ( फालसा ), ईक्षु ( ईख ), यव ( जौ ), यष्टिक  
( साठी चावल ) ये दस 'श्रमहर' अर्थात् थकावट को मिटाते हैं ।

यह पांच का एक 'कपायवर्ग' हो गया ।

लाजाचन्दनकाशमर्यफलमधुकशर्करानीलोत्पलोशीरसारिवागुड-  
चीहीवेरगणीति दशेमानि दाहप्रशमनानि भवन्ति ॥ ( ४१ ) ॥

लाजा ( खाल ), चन्दन ( श्वेत चन्दन ), काशमरी फल ( गम्भारी  
फल ), मधु ( मुलहठी ), शर्करा ( मिथ्री ), नीलोत्पल ( नीला कमल ),  
उशीर ( रस ), सारिवा ( अनन्तमूल ), गुडची ( गिलोय ), हीवेर  
( नेत्रवाला ), ये दस 'दाह प्रशमन' अर्थात् जलन कम करते हैं ।

तगरागुरुधान्यकशृङ्गवेरभूतीकवचाकण्टकारिकाग्निमन्थश्योना-  
कपिप्पल्य इति दशोमानि शीतप्रशमनानि भवन्ति ॥ ( ४२ ) ॥

तगर, अगरु ( अगर ), धान्यक ( धनिया ), शृंगवेर ( सोठ ),  
भूतीक ( अजवायन, कईयों के मत में कायफल भी ), वच, कन्टकारी  
( छोटी कटेरी ), अग्निमन्थ ( अरणी ), श्योनाक ( सोनापाठा, टेदु ),  
और, पिप्पली, ये दस 'शीत-प्रशमन' अर्थात् शीतनाशक हैं ।

तिन्दुकपियालबदरखदिरकदरसप्तपर्णाश्वकर्णार्जुनासनारिमेदा-  
इति दशोमान्युद्वेदप्रशमनानि भवन्ति ॥ ( ४३ ) ॥

तिन्दुक ( कपीलु ), पियाल ( चिरौजी का फल ), बदर ( बेर ),  
खदिर ( खैर ), कदर ( रीठा <sup>१</sup> ), सप्तपर्ण ( सातवन ), अश्वकर्ण  
( साल ), असन ( पीतसाल ), अरिमद ( बिल्व या इरिमेद ), विद्  
खदिर ये दस 'उद्वेद' अर्थात् शीतपित्त रोग को शान्त करते हैं ।

विदारोगन्धापृश्निपर्णावृहतीकण्टकारिकैरण्डकाकोलीचन्दनोशी-  
रैलामधुकानीति दशोमान्यङ्गमर्दप्रशमनानि भवन्ति ॥ ( ४४ ) ॥

विदारी, गन्धा ( शालपर्णी ), पृश्निपर्णी ( पिठवन ), वृहती ( बडी  
कटेरी ), कन्टकारिका ( छोटी कटेरी ), एरण्ड, काकोली, चन्दन ( लाल  
चन्दन ), उशीर ( खस ), एला ( बड़ी इलायची ), मधुक ( मुलहठी ),  
ये दस 'अंगमर्द-प्रशमन' अर्थात् अंगों के टूटने की बेचैनी को मिटाते हैं ।

पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकशृङ्गवेरमरिचाजमोदाजगन्धाजा-  
जोगण्डीगणीति दशोमानि शूलप्रशमनानि भवन्ति ॥ ( ४५ ) ॥

इति पञ्चकः कपायवर्गः ॥ [ ९ ] ॥

पिप्पली, पिप्पली मूल, चव्य ( चविका ), चित्रक ( चीतामूल ),  
शृंगवेर ( सोठ ), मरिच, अजमोदा ( अजवायन ), अजगन्धा ( वन  
जवानी ), अजाजी ( जीरा ), गंडीर ( पलाण्डु, लहसुन ) ये दस 'शूल-  
प्रशमन' अर्थात् तीव्र पीडा के नाशक हैं ।

१ कदर—'सामवत्कस्तु रीठाया कदरे कृष्णगर्भके' । ध० निवन्दु

यह पाच का एक 'कपाय वर्ग' होता है ।

मधुमधुकरुधिरमोचरसमृतालकलोध्रगैरिकप्रियङ्गुशर्करालाजा  
इति दशेमानि शोणितस्थापनानि भवन्ति ॥ ( ४६ ) ॥

मधु ( शहद ), मधुक ( मुलहठी ), रुधिर ( केशर ), मोचरस  
( सिम्बल का गोंद ), मृतालक ( सौराष्ट्री मिट्टी या फिटकरी )<sup>२</sup> लोध्र  
( पठानी लोध ), गैरिक ( गेरू ), प्रियंगु ( फूल प्रियंगु ), शर्करा ( मिश्री ),  
लाजा ( खीले ) ये दस 'शोणित-स्थापन' अर्थात् रक्तरोधक वा बहते खून  
को रोकने वाले हैं ।

शालकट्फलकदम्बपद्मकतुङ्गमोचरसशिरीषवञ्जुलैलवालुका-  
शोका इति दशेमानि वेदनास्थापनानि भवन्ति ॥ ( ४७ ) ॥

शाल ( साल ), कट्फल ( कायफल ), कदम्ब ( कदम्ब की गोंद ),  
पद्मक ( पद्माख ), तुंग ( कमल का केशर या वंशलोचन ), मोचरस  
( सिम्बल का गोंद ), शिरीष ( सिरस ), वंजुल ( जलवेतस ), एल-  
वालुक ( पेलेय ), अशोक ये दस 'वेदनास्थापन' अर्थात् तीव्र वेदना को  
कम करते हैं ।

हिङ्गुकैडर्यारिमेदवचाचोरकवयस्थागोलोभीजटिलापलङ्कषाशो-  
करोहिण्य इति दशेमानि संज्ञास्थापनानि भवन्ति ॥ ( ४८ ) ॥

हांगु ( हाँग ), कैडर्य ( कायफल ), अरिमेद ( विट् खदिर ), वच,  
चोरक ( चोरपुष्पी ), वयस्था ( आंवला या द्राह्मी या हरड ), गोलोभी  
( वच या दूर्वा ), जटिला ( जटामांसी ) पलङ्कषा ( गुग्गुलु या गोखरू ),  
अशोकरोहिणी ( कुटकी ) ये दस 'संज्ञा-स्थापन' अर्थात् संज्ञा या चेतना  
उत्पन्न करते हैं ।

<sup>२</sup> किन्हीं पुस्तकों में 'मृतालक' के स्थान पर 'मृत्कपाल'  
पाठ है । इसका अर्थ—कपाल की राख या भस्म अर्थ हैं । यह भी रक्त  
रोधक है ।

ऐन्द्रीब्राह्मीशतवीर्यासहस्रवीर्यामोघाव्यथाशिवारिष्टावाद्यपुष्पी-  
विष्वक्सेनकान्ता इति दशेमानि प्रजास्थापनानि भवन्ति ॥ ( ४९ ) ॥

ऐन्द्री ( दिव्य औषधि या छोटी इलायची ),<sup>३</sup> ब्राह्मी, शतवीर्या  
( शतावरी ), सहस्रवीर्या, ( महाशतावरी ), अमोघा ( पाठल ),  
अव्यथा ( आंवला ), शिवा ( हरीतकी ), अरिष्टा ( कुटकी ), वाद्य-  
पुष्पी ( खरैटी ), विष्वक्सेनकान्ता' ( प्रियंगु ) ये दस 'प्रजास्थापन'  
अर्थात् संततिजनक हैं ।

अमृताभयाधात्रीमुक्ताश्वेताजीवन्यतिरसामण्डूकपर्णीस्थिरापुन-  
र्नवा इति दशेमानि वयःस्थापनानि भवन्ति ॥ ( ५० ) ॥

इति पञ्चकः कषायवर्गः ॥ [ १० ] ॥

अमृता ( गिलोय ), अभया ( हरड़ ), धात्री ( आंवला ), मुक्ता  
( रास्ना ), श्वेता ( अपराजिता ), जीवन्ती, अतिरसा ( शतावरी ),  
मण्डूकपर्णी, स्थिरा ( शालपर्णी ), और पुनर्नवा ये दस औषधि 'वयः-  
स्थापन' अर्थात् विशेषतः यौवन स्थिर रखती हैं ।

यह पांच का एक 'कषाय वर्ग' है ।

इति पञ्चकषायशतान्यभिसमस्य पञ्चाशन्महाकषायाः, महतां  
च कषायाणां लक्षणोदाहरणार्थं व्याख्याता भवन्ति ॥ १४ ॥

इस प्रकार से ( प्रत्येक द्रव्य के गिनने से ) पांच सौ ( ५०० )  
कषाय पूर्ण हो जाते हैं, एवं पचास ( ५० ) 'महाकषाय' भी हो जाते  
हैं । इन कषायों के लक्षण उदाहरण भी कह दिये गये हैं ।

न हि विस्तरस्य प्रमाणमस्ति, न चाप्यतिसंक्षेपोऽल्पबुद्धीनां  
सामर्थ्यायोपकल्पते, तस्मादनतिसंक्षेपेणानतिविस्तरेण चोपदिष्टाः ।  
एतावन्तो ह्यलमल्पबुद्धीना व्यवहाराय बुद्धिमतां च स्वालक्षण्या-  
नुमानयुक्तिकुशलानामनुक्तार्थज्ञानायेति ॥ १५ ॥

३. ऐन्द्री—इस का अर्थ 'इन्द्रायणः भसद्भ्रुव्या' भी किया है । परन्तु  
यह तो गर्भपातक है ।

फैलाव की सीमा नहीं है और बहुत थोड़े में कहे हुए अर्थ को थोड़ी बुद्धि वाले नहीं समझ सकते। इसलिये न तो बहुत संक्षेप में और न बहुत विस्तार में यहां कहा है। यहां पर जितना भी कहा है वह थोड़ी बुद्धि वालों के व्यवहार चलाने के लिये है और जो लक्षण, अनुमान, युक्ति में निपुण हैं, उन बुद्धिमानों के लिये न कहे हुए अर्थ को जानने के लिये महायक द्रोगा।

एवंवादिनं भगवन्तमात्रेयमग्निवेश उवाच—नैतानि भगवन् पञ्चकपायशतानि पूर्यन्ते, तानि तानि ह्येवाङ्गानि संप्लवन्ते तेषु तेषु महाकपायत्विति ॥ १६ ॥

इस प्रकार में कहते हुए 'भगवान् आत्रेय' के प्रति अग्निवेश बोले— हे भगवान् ! ये ५०० ( पांच सौ ) कपाय पूरे नहीं होते। क्योंकि वे ही द्रव्य उन उन महा कपायों में आते हैं। अर्थात् एक द्रव्य भिन्न २ कपायों में बार बार आता है। इस प्रकार से ५०० कपाय पूरे नहीं हो सकते।

तमुवाच भगवान् आत्रेय.—नैतदेवं बुद्धिमता द्रष्टव्यमग्निवेश। एकोऽपि ह्यनेकां संज्ञां लभते कार्यान्तराणि कुर्वन्। तद्यथा—पुरुषो बहूनां कर्मणां करणे समर्थो भवति। स यद्यत्कर्म करोति तस्य तस्य कर्मण कर्तृकरणकार्यसंप्रयुक्तं तत्तद्गौराणं नामविशेषं प्राप्नोति तद्दौषधद्रव्यमपि द्रष्टव्यम्। यदि चैकमेव किञ्चिद्रव्यमासादयामस्तथागुणयुक्तं यत्सर्वकर्मणां करणे समर्थं स्यात् कस्ततोऽन्यदिच्छेदुपधारयितुमुपदेष्टुं वा शिष्येभ्य इति ॥ १७ ॥

अग्निवेश के प्रति भगवान् आत्रेय बोले हे अग्निवेश ! बुद्धिमान् व्यक्ति को इस प्रकार में नहीं देखना चाहिये। एक द्रव्य भी दूसरे २ काम करता हुआ भिन्न भिन्न संज्ञा वाला हो जाता है। जिस प्रकार एक पुरुष बहुत से काम करने में समर्थ होता है। वह जो जो भी काम करता है, उस कर्म के वह कर्ता, करण ( साधन ) और कार्य की दृष्टि से वह साधारण विद्येय नाना नामों वाला हो जाता है। इस प्रकार में औषध द्रव्य

को भी कार्य साधन और कर्त्ता आदि दृष्टि से देखना चाहिये । और यदि किसी ऐसे एक ही द्रव्य को प्राप्त करले, जो द्रव्य ऐसे गुण वाला हो, कि सब काम करने में समर्थ हो, तो फिर कौन दूसरी औषध को पास में रखने अथवा शिष्यों को उपदेश करने के लिये झंझट करे इस लिये काम करने में समर्थ शक्ति' वाला ऐसा कोई एक द्रव्य नहीं है ।

तत्र श्लोकाः ।

यतो यावन्ति यैर्द्रव्यैर्विरेचनशतानि षट् ।

उक्तानि संग्रहेणेह तथैवैषां षडाश्रयाः ॥ १८ ॥

रसा लवणवज्र्याश्च कषाय इति संज्ञिताः ।

तस्मात्पञ्चविधा योनि कषायाणामुदाहृता ॥ १९ ॥

तथा कल्पनमप्येषामुक्तं पञ्चविधं पुनः ।

महतां च कषायाणां पञ्चाशपरिकीर्तिताः ॥ २० ॥

पञ्च चापि कषायाणां शतान्युक्तानि भागशः ।

लक्षणार्थं, प्रमाणं हि विस्तरस्य न विद्यते ॥ २१ ॥

न चालमतिसंक्षेपः सामर्थ्यायोपकल्पते ।

अल्पबुद्धेरयं तस्मान्नातिसंक्षेपविस्तरः ॥ २२ ॥

मन्दाना व्यवहाराय बुधानां बुद्धिवृद्धये ।

पञ्चाशत्को ह्ययं वर्गः कषायाणामुदाहृतः ॥ २३ ॥

तेषां कर्मसु बाह्येषु योगमाभ्यन्तरेषु च ।

संयोगं च प्रयोगं च यो-वेद स भिषग्वरः ॥ २४ ॥

जिन द्रव्यों मे से ६०० (छः सौ) विरेचन योग होते हैं वे एवं विरेचन योगों के छः आश्रय भी संक्षेप से कह दिये हैं ।

लवण ( नमक ) को छोड़कर शेष पांच रसों की 'कषाय' संज्ञा है । इसलिये कषायों की पांच प्रकार की योनि कही है । एवं इन पांच कषायों की पांच प्रकार की कल्पना ( वनावट ) भी कह दी है । और पचास



( ५० ) प्रकार के 'महाकपाय' कहे हैं। कपायों के ५०० ( पांच सौ ) प्रकार भी दिग्दर्शन के लिये, न तो बहुत विस्तार से और न बहुत संक्षेप में कहे हैं। वे थोड़ी बुद्धि वाले को काम देने के लिये पर्याप्त हैं। इसलिये न विस्तार किया है और न बहुत संक्षेप। मन्द बुद्धि वाले व्यवहार काम चला सकें, और बुद्धिमान् की प्रतिभा बढ़ाने के लिये पांच सौ कपायों का वर्ग कह दिया।

इन कपायों का बाह्य कर्मों तथा आभ्यन्तर प्रयोगों में संयोग, और प्रयोग ( योजना ) को जो जानता है वह उत्तम वैद्य है।<sup>१</sup>

इत्याग्निवशकृतं तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने भेषजचतुष्के

षट्त्रिंशत्तन्त्राश्रितौ नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

इति भेषजचतुष्कः ॥ १ ॥

### अथ पञ्चमोऽध्यायः ।

अथातो मात्राश्रितौ तृतीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

भेषज्य चतुष्क कहने के अनन्तर 'मात्राश्रितौ' अध्याय की व्याख्या करेंगे। इस प्रकार भगवानात्रेय ने कहा है।

मात्राशी स्यात् । आहारमात्रा पुनरग्निबलापेक्षिणी । यावद्धृत्थ-

१ बाह्य प्रयोग प्रलेप आदि में, अन्त प्रयोग वसन आदि कार्यों में मन्थ एवं आनुर दोनों व्यक्तियों के लिये करने में समर्थ एवं संयोग मिश्रण अयोगिक, हानिकारक अनुचित औषधियों को योग में से निकाल देना एवं उचित को न कहने पर भी मिश्रण करना, प्रयोग देश, काल, प्रकृति, व्याधि, गेनी बल आदि को देख कर योजना करना जो जानता है, वही उत्तम वैद्य है।

स्याशनमशितमनुपहत्य प्रकृति यथाकालं जरां गच्छति तावदस्य मात्राप्रमाणं वेदितव्यं भवति ॥ ३ ॥

मात्रा में आहार करने वाला होना चाहिये । आहार की मात्रा जाठर अग्नि के बल की अपेक्षा करती है । <sup>१</sup>

जितना खाया हुआ भोजन मनुष्य की प्रकृति, स्वास्थ्य को नुकसान न पहुँचा कर ठीक समय में जीर्ण हो जाता है भोजन की उतनी मात्रा जाननी चाहिये । <sup>२</sup>

१. आहार चार प्रकार का है । यथा—भक्ष्य, चोष्य, लेह्य और पेय । भक्ष्य रोटी आदि, चोष्य चूसने योग्य, लेह्य चाटने योग्य, और पेय पानी आदि द्रव ।

एक ही मनुष्य की शक्ति सदा एक समान नहीं रहती । यौवनावस्था में जितनी जठराग्नि समर्थ होती है, उतनी बाल्यावस्था या वृद्धावस्था में नहीं होती । इसी प्रकार हेमन्त ऋतु में जितनी अग्नि प्रबल रहती है उतनी वर्षा में नहीं रहती । इस लिये प्रत्येक समय के लिये एक मात्रा एक व्यक्ति के लिये भी निश्चित करना असम्भव है, फिर सब के लिये सामान्य रूप से मात्रा निश्चित करना तो और भी असम्भव है । इसलिये 'मात्रा' का निर्णय प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर ही छोड़ दिया है ।

२. १—'यथाकालं'—प्रातः का भोजन सायंकाल तक और सायंकाल का भोजन प्रातः काल तक जीर्ण हो जाये । क्योंकि हमारे यहां दो ही समय भोजन का विधान है । यथा—

• "सायं प्रातर्मनुष्याणां भोजनं विधिनिर्मितम् ।

नान्तरे भोजनं कुर्याद् अग्निहोत्रसमो विधिः" ॥ सर्वांगसुन्दरी टीका ॥

२—मनुष्य की प्रकृति के ऊपर मात्रा का निर्णय रखने से, विषम और तीक्ष्ण अग्नि वाले व्यक्ति भी अपनी भोजन की मात्रा स्वयं निश्चय कर सकते हैं । तीक्ष्ण अग्नि वाले को इतना भोजन करना चाहिये, जो कि

तत्र शालिपट्टिकमुद्गलावकपिञ्जलैणशशशरभशम्बरादीन्याहार-  
द्रव्याणि प्रकृतिलघून्यपि मात्रापेनीणि भवन्ति, तथा पिष्टेक्षुक्षीर-  
विकृतिमापानूगौदकपिशितादीन्याहारद्रव्याणि प्रकृतिगुरूग्यपि मा-  
त्रामेवापेक्षन्ते ॥ ४ ॥

क्योंकि ( शालि ), हैमन्तिक दान्य, (पट्टिक) साठी चावल, (मुद्ग),  
मूंग, ( लाव ) बटेर, ( कपिञ्जल ) तीतर, ( पेण ) काला चूना, ( शश )  
चरगोश, ( शरभ ) बड़े सोंगों वाला पाड़ा हरिग, ( शरभ ) हरिग  
सावर आदि आहार द्रव्य ( दूसरे खाद्य पदार्थ ) स्वभाव से लघु सुपच  
होने पर भी मात्रा की अपेक्षा करते हैं ।<sup>१</sup>

इसी प्रकार ( पिष्ट ) पिटी से बनी हुई वस्तुएं ( ईक्षु ) गुड़  
खाड़ आदि से बनी, ( क्षीर ), दूध मावे आदि से बनी, ( माप ) उड़द  
आनुपौदक पिशित अर्थात् जल प्रदेश में या जल के अन्दर रहने वाले  
प्राणियों का मांस आदि आहार द्रव्य स्वभाव से ही भारी हैं । ये सब भी  
मात्रा की ही अपेक्षा करते हैं ।<sup>२</sup>

न चैवमुक्ते द्रव्ये गुरुलाववमकारणं मन्येत । लघूनि हि

ठीक समय में जीर्ण हो जाये, इसी प्रकार विपम अक्षि वाले भी ठीक  
समय में जीर्ण हो सके ऐसा भोजन करें, यही उनकी मात्रा है ।

३-‘प्रकृतिमनुपहत्य’—भोजन में कुक्षि का पीड़न न होना, हृदय  
का न रुकना, पार्श्वों का न फूलना, पेट का न तनना या भारी न होना,  
श्वास में कठिनाई का न होना, भूख, प्यास की शान्ति, उठने बैठने,  
चलने फिगने, लेटने या वात चीत में हल्का पन अथवा सुख की प्रतीति होना ही  
प्रकृति है ।

१ एक पदार्थ लघु होता हुआ भी अधिक मात्रा में खाने से गुरु हो जाता  
है । इसी प्रकार गुरु पदार्थ थोड़ा खाने से ‘लघु’ हो जाता है ।

२. मात्रा के साथ ‘संस्कार’ रांघने की विधि में भी लघु पदार्थ गुरु  
और गुरु पदार्थ लघु बन जाते हैं ।

द्रव्याणि वाय्वग्निगुणबहुलानि भवन्ति, पृथिवीसोमगुणबहुलानी-  
तराणि; तस्मात्स्वगुणादपि लघून्यग्निसंधुक्षणस्वभावान्यल्पदोषाणि  
चोच्यन्तेऽपि सौहित्योपयुक्तानि, गुरुणि पुनर्नाग्निसंधुक्षणस्वभावा-  
न्यसामान्यादतश्चातिमात्रं दोषवन्ति सौहित्योपयुक्तान्यन्यत्र व्याया-  
माग्निबलात्; सैषा भवत्यग्निबलापेक्षिणी मात्रा ॥ ५ ॥

शालि, सांठी आदि पदार्थ विना मात्रा में खाने से अहितकर है, और  
पीट्टी गुड़ आदि से बने पदार्थ मात्रा में खाने से हितकर होते हैं, यदि  
मात्रा की ही अपेक्षा से ये हितकर या अहितकर होते हैं, तो द्रव्यों का  
गुरु एवं लघु गुण सम्बन्धी ज्ञान करना व्यर्थ है ऐसा न जाने। क्योंकि द्रव्यों  
का गुरु या लघु होना भी अकारण या निष्प्रयोजन नहीं होता।

वायु और अग्नि के गुणों की अधिकता वाले पदार्थ लघुगुण वाले  
होते हैं [ आकाश गुण वाले बहुतसे द्रव्य लघु होते हुए भी अग्नि को बढ़ाने  
वाले नहीं होते, इसलिये इनका ग्रहण नहीं किया ]। पृथ्वी, सोम (जल)  
गुणों की अधिकता वाले, पदार्थ गुरु होते हैं।

इसलिये लघु पदार्थ वायु एवं अग्नि से बने होने और अपने  
गुणों के कारण भी—जैसे वायु रूक्ष, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद, खर  
गुण वाला है, इससे भी लघु पदार्थ जाठराग्नि को संदीपन करने वाले एवं  
तृप्ति पूर्वक मात्रा का व्यतिक्रम करके खाने पर भी थोड़े द्रोप वाले होते  
हैं, ये अधिक द्रोप नहीं करते।<sup>३</sup>

गुरु द्रव्य अग्नि को सन्दीपन करने वाले नहीं होते। क्योंकि असमान  
होने से अग्नि से विपरीत गुण वाले पृथ्वी और जल के गुण वाले होते हैं।  
अतः तृप्तिपूर्वक पेट भर के खाने से बहुत अधिक द्रोप-विकारकारक होते हैं।

३ अग्नि भी रूक्ष, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद, खर है, इसलिये इत्  
गुण वाले पदार्थ अग्नि को बढ़ायेंगे। समान गुण वाले समान गुणों को  
बढ़ाते हैं। अतः अधिक मात्रा में खाने पर भी लघु पदार्थ अग्नि को बढ़ा-  
येंगे ही।

व्यायाम और अग्निबल, हेमन्त ऋतु आदि में स्वभावतः अग्नि वृद्धि होने के कारण, इसे छोड़कर अन्यत्र विकार उत्पन्न करते हैं ।<sup>१</sup>

इसलिये 'मात्रा' अग्नि बल की अपेक्षा करती है, गुरु लघु द्रव्य की अपेक्षा नहीं करती ।

न च नापेक्षते द्रव्यम् । द्रव्यापेक्षया च त्रिभागसौहित्यमर्धसौहित्यं वा गुरुणामुपदिश्यते, लघूनामपि च नातिसौहित्यमग्नेर्युक्त्यथम् ।

मात्रा द्रव्य की अपेक्षा नहीं करती, ऐसा भी नहीं क्योंकि मात्रा की अपेक्षा से गुरु द्रव्यों का तीन हिस्सा या आधे पेट, जिससे कि कुक्षि में प्रपीडन, भारीपन प्रतीत न हो, इतना खाना बताया है । परिमाण या मात्रा से नहीं बताया । इसी प्रकार ( लघु गुण वाले पदार्थों ) का भी पेट भर के खाने का आदेश नहीं दिया । इतना खाना चाहिये जिस से कि अग्नि समान रूप से स्थिर रह सके । जीवन के लिये खाना, खाने के लिये जीना नहीं ।<sup>२</sup>

मात्रा में खाने का फल—

मात्रावद्धश्चानमशितमनुपहत्य प्रकृति बलवर्णसुखायुषा योजयत्युप-  
योक्तारमवश्यमिति ॥ ६ ॥

क्योंकि मात्रा में खाया हुआ आहार प्रकृति और स्वास्थ्य को न बिगाड़ कर उपयोग करने वाले मनुष्य को बल, वर्ण ( कान्ति ), सुख, आयुष्य निश्चय से प्राप्त कराता है इसलिये मात्रानुसार भोजन करना चाहिये ।

१ व्यायाम करने वाले मनुष्य को विरुद्ध वा अविरुद्ध सब प्रकार का भोजन पच जाता है । क्योंकि व्यायाम से अग्नि बढ़ती है । हेमन्त में अग्नि स्वभावतः प्रबल होती है अतः गुरु पदार्थ खाने का आदेश दिया है ।

२ लघु भोजन अधिक मात्रा में खाने से अग्नि को सन्दीपन करने का गुण रखते हुए भी शरीर के लिये हानिकारक होगा, क्योंकि शस्त्र पत्थर पर ही तेज होता है, और पत्थर पर अधिक पैनाने से वह खुन्डा बन जाता है । आस्र तेजोमय है, वही आस्र तेज की अधिकता से विगड भी जाती है ।

भवन्ति चात्र—

गुरु पिष्टमयं तस्मात्तण्डुलान् पृथुकानपि ।

न जातु भुक्तवान् खादेन्मात्रां खादेद्भुक्षितः ॥ ७ ॥

वल्लूरं शुष्कशाकानि शालूकानि बिसानि च ।

नाभ्यसेद्दौरवान्मांसं कृशं नैवोपयोजयेत् ॥ ८ ॥

कूर्चिकांश्च किलाटांश्च शौकरं गव्यमाहिपे ।

मत्स्यान्दधि च माषांश्च यवकांश्च न शीलयेत् ॥ ९ ॥

इसलिये भोजन कर चुकने पर भारी पिट्टी से बने चावल, चिवड़ा इन को कभी भी नहीं खाये । मात्रा में भी भोजन करने के बाद इनको नहीं खाना चाहिये । भूखे होने पर इन पदार्थों को मात्रा में ही खाना चाहिये, अधिक नहीं ।

वल्लूर ( सूखा हुआ मांस ), सूखे हुए शाक कचरी आदि, शालूक ( कमल का कन्द ) और भिस, मृणाल इनको निरन्तर उपयोग नहीं करना चाहिये । क्योंकि ये पदार्थ गुरु हैं । इसी प्रकार दुर्बल, रुग्ण पशु का मांस भी नहीं खाना चाहिये । (कूर्चिक) छाछ के साथ पकाया हुआ दूध, ( किलाट ) छाछ के साथ पकाये हुए दूध का घन ठोस भाग, सुअर का मांस और गाय का मांस मच्छलियों का मांस, दही, उडद और शक धान्य, जई, इन को निरन्तर लगातार नहीं खाना चाहिये ।

षष्टिकाञ्छालिमुद्गांश्च सैन्धवामलके यवान् ।

५

आन्तरीक्षं पयः सर्पिर्जाङ्गलं मधु चाभ्यसेत् ॥ १० ॥

पण्डिक (सांठी चावल ), शालि ( हेमन्त ऋतु में पकने वाले धान्य ), मुद्ग ( मूंग ), सैन्धव ( सेंधा नमक ), आमलक ( आंवले ), यव ( जौ ), आन्तरिक्ष अर्थात् बरसात का जल, दूध, घी, जंगल में होने वाले मृग आदि का मांस और शहद इन का निरन्तर अग्नि बल को देखते हुए उचित मात्रा में उपयोग करना चाहिये ।

तच्च नित्यं प्रयुञ्जीत स्वास्थ्यं येनानुवर्तते ।

अजातानां विकाराणामनुत्पत्तिकरं च यत् ॥ ११ ॥

जो विशुद्ध, क्षीण होते हुए शरीर को पोषण दे और जो न उत्पन्न हुए विकारों वा रोगों को न उत्पन्न करे ऐसे आहार को स्वास्थ्य के लिये नित्य प्रति उपयोग करे ।

रोगों की उत्पत्ति में 'प्रज्ञापराध', 'परिणाम' और 'असात्म्येन्द्रियार्थ संयोग' ये तीन ही कारण हैं । अतः इन को छोड़कर और सब करना चाहिये, इन का सेवन नहीं करना चाहिये, इन से बचना चाहिये । ऐसा करने से भावी में रोग उत्पन्न नहीं होंगे ।

स्वस्थवृत्त —

अत ऊर्ध्व शरीरस्य कार्यमभ्यञ्जनादिकम् ।

स्वस्थवृत्तमभिप्रेत्य गुणतः संप्रवक्ष्यते ॥ १२ ॥

स्वास्थ्य के लिये आहार विधि को कह कर इस के आगे शारीरिक कार्यों का उपदेश करते हैं ।

'स्वस्थवृत्त' अर्थात् स्वास्थ्य की दृष्टि से अञ्जन आदि एवं शारीरिक कार्य उन के गुणों सहित कहते हैं ।

सौवीरमञ्जनं हितमक्षणोः प्रयोजयेत् ।

पञ्चरात्रेऽष्टरात्रे वा स्नावणार्थं रसाञ्जनम् ॥ १३ ॥

सौवीर अञ्जन अर्थात् सुवीरा नदी में उत्पन्न अञ्जन 'सौवीराञ्जन सुरमा' है । इस को प्रतिदिन आँखों में लगाना चाहिये, क्योंकि यह आँखों के लिये हितकारी है । इससे आँख के तेज की रक्षा होती है, इससे आँखों के दोष दूर नहीं होते । आँखों के दोष दूर करने और आँखों में पानी का दोष निकालने के लिये पाँचवें या आठवें दिन दोष के बलाबल की अपेक्षा में रसाञ्जन को रात्रि में प्रयोग करना चाहिये ।

चक्षुस्तेजोमयं तस्य विशेषाच्छ्लेष्मता भयम् ।

दिवा तत्र प्रयोक्तव्यं नेत्रयोस्तीक्ष्णमञ्जनम् ॥ १४ ॥

विरंकदुर्बला दृष्टिरादित्यं प्राप्य सीदति ।

तस्मात्स्त्राव्यं निशायां तु ध्रुवमञ्जनमिष्यते ॥ १५ ॥

ततः श्लेष्महरं कर्म हितं दृष्टे. प्रमादनम् ।

यथा हि कनकादीनां मणीनां विविधात्मनाम् ॥ १६ ॥

धौतानां निर्मला शुद्धिस्तैलचेलकचादिभिः ।

एव नेत्रेषु मर्त्यानामञ्जनाश्रयोतनादिभिः ॥ १७ ॥

दृष्टिर्निराकुला भाति निर्मले नभसीन्दुवत् ।

आंख तेजोमय (अग्नि रूप है) इसलिये आंख को शरीर के दोष वात, पित्त और कफ इनसे भय बना रहता है । इनसे भी विशेष कर कफ से । इसलिये श्लेष्मा के जय के लिये पांचवें, छठे दिन तीक्ष्ण अंजन (रसांजन) रात्रि में लगाना चाहिये ।

आंख तेजोमय है, और दिन मे सूर्य भी अग्नि रूप है, इसलिये विशेषतः दिन में अंजन करने से कफ का जय सुगमता से होना सम्भव है ।

परन्तु दृष्टि तीक्ष्णांजन के लगाने से एवं दोष के कारण निर्बल होती है । इसलिये सूर्य को नहीं सहती, और यदि सूर्य के सामने अञ्जन दिन में लगाया जाये तो आंख पीड़ित होती है । इसलिये स्वावण अञ्जन को रात्रि में ही लगाना चाहिये ।<sup>१</sup>

श्लेष्मा के निकलने के बाद श्लेष्मा को घटाने वाला और आंख को स्वच्छ करने वाला प्रयोग करना चाहिये । जिस प्रकार की धूल आदि से मैले हुए नाना प्रकार के स्वर्णादि तैजस पदार्थों की तैल, चैल ( वस्त्र ), बाल आदि से घिसने पर स्वच्छता होती है इसी

१ कुछ विद्वान् 'सीदति' का अर्थ 'अवजयति' करते हैं । इस प्रकार अर्थ करने से दिन मे तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग नहीं करना चाहिये । क्योंकि आंख तेजोमय है इसलिये विरेचन ( रात्रि मे स्वावण अंजन लगाने ) से निर्बल हुआ व कफ के निकलने से कमजोर पडा हुआ दोष श्लेष्मा, प्रातः सूर्य की किरणों में बाकी बचा निकल जाता है । इसलिये वमन की भाति पूर्वाह्न मे सूर्य की किरणों मे आंखो का स्वावण करना चाहिये और अंजन रात्रि में ही ।



प्रकार मनुष्यों की आंखों में खोताजन; ( आश्रयोत्तन ) द्रव औषध प्रयोग और पुटपाक आदि विधि से चक्षु निर्मल, वातादि दोषों से रहित होकर स्वच्छ आकाश में चन्द्रमा के समान चमकती है ।

अञ्जन के पीछे दृष्टि के प्रसादन के लिये श्लेष्महर कर्म करने का विधान है । इसलिये अञ्जन के पीछे धूम्रपान कहते हैं ।

धूम्रप्रयोग की विधि—

हरेणुकां प्रियङ्गुं च पृथ्वीका केशरं नखम् ॥ १८ ॥

हीवेर चन्दनं पत्रं त्वगेलोशीरपद्मकम् ।

ध्यामकं मधुकं मांसीं गुग्गुल्वगुरुशर्करम् ॥ १९ ॥

न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थप्लक्षलोध्रत्वचः शुभा ।

वन्यं स्वर्जरसं मुस्तं शैलेयं कमलोत्पले ॥ २० ॥

श्रीवेष्टकं शङ्खकीं च शुकवर्हमथापि च ।

पिष्ट्वा लिम्पेच्छरेषीकां तां वर्तिं यवसन्निभाम् ॥ २१ ॥

अङ्गुष्ठसंमितां कुर्यादष्टाङ्गुलसमां भिषक् ।

शुष्कां निगर्भां तां वर्तिं धूमनेत्रार्पितां नरः ॥ २२ ॥

स्रोहाक्तामग्निसंप्लुष्टां पिवेत्प्रायोगिकीं सुखाम् ।

• हरेणुका ( रेणुका मेहन्दी के बीज ), प्रियंगु, ( फूल प्रियंगु ), पृथ्वीका ( काला जीरा ), केशर ( नाग केशर ), नख ( नखी, एक सुगन्धित द्रव्य है ), 'हीवेर' ( नेत्रवाला ), चन्दन ( श्वेतचन्दन ), पत्र ( तेज पात ), त्वग् ( टालचीनी ), उशीर ( खस ), पद्माक ( पद्माख ), ध्यामक ( गन्धनृण, सुगन्धित नृण ) प्ला ( बड़ी इलायची ), मधुक ( मुल-हठी ), मांसी ( जटामांसी ), गुग्गुलु ( गूगल ) भगरु ( अगर ), शर्करा ( शर्करा ), न्यग्रोध ( बड़ की छाल ), उदुम्बर ( गूलर की उत्तम छाल ), अश्वत्थ ( पीपल की उत्तम छाल ), प्लक्ष ( पिलखन की छाल ) और लोध्र ( लोध्र वृक्ष की उत्तम छाल ), वन्य ( कैवर्त्त मुस्तक, जल मुस्त ) सर्जरस ( राल ), मुस्त ( नागर मोथा ) शैलेय ( शिलाह्वा ), कमल-

उत्पल ( कमल और नील कमल इनका केशर ), श्रीवेष्टक ( धूपविशेष ) शलकी ( कुन्दरू धूप विशेष, अथवा शिलारस ), और शुकवर्ह ( स्थौण्यक ) इन सब को जल के साथ पीसकर 'शरेपिका' (सरकन्डा) के ऊपर, जौ के समान बीच में से मोटी और पासों पर पतली एवं अंगूठे के बराबर मोटी, आठ अंगुल लम्बी बत्ती बना लेनी चाहिये, उसे सूख जाने पर सरकन्डे पर से बीच से खोखली खींच कर उतारनी चाहिये, बत्ती को घी से स्निग्ध करके, घी लगाकर आग से संदीप्त, सुखदायक और नित्य प्रति पीने योग्य धूम का पान करे ।

स्नैहिक धूम—

वसाघृतमधूच्छिष्टैर्युक्तैर्वरौषधैः ॥ २३ ॥

वर्ति मधुरकैः कृत्वा स्नैहिकीं धूममाचरेत् ।

वसा (चर्बी), घृत (घी), मधूच्छिष्ट (मोम), इनको बत्ती बनने योग्य उचित मात्रा में मिलाकर जीवनोप गण के साथ पीसकर वर्ती बनाले । रूक्ष व्यक्ति स्नेहन करने वाले इस स्नैहिक धूम का पान करे; इस धूम का नित्य व्यवहार नहीं करना चाहिये ।

शिर में अवरुद्ध कफ को निकालने के लिये स्वस्थ पुरुष के लिये वैरेचनिक धूम—

श्वेता ज्योतिष्मती चैव हरितालं मनःशिला ॥ २४ ॥

गन्धाश्चागुरुपत्राद्या धूमः शीर्षविरेचनम् ।

श्वेता ( अपराजिता, वच ), ज्योतिष्मती ( माल कंगनी ), हरिताल ( हरताल ), मनःशिला ( मैनसिल ), 'गन्ध अगुरु पत्रादि' ( ज्वर चिकित्सा में 'अगरुआदि तेल' में कहे हुए अगरु, कुष्ठ, तगर, पत्रज आदि ) इनमें कुष्ठ और तगर को छोड़कर अन्य द्रव्य लेकर पीसकर पूर्व की भांति बत्ती बनाकर पीना चाहिये । यह धूम शिरोविरेचन के लिये वैरेचनिक धूम है ।

धूमपान के गुण—

गौरवं शिरसः शूलं पीनसार्धावभेदकौ ॥ २५ ॥  
 कर्णाक्षिशूलं कासश्च हिकाश्वासौ गलग्रहः ।  
 दन्तदौर्बल्यमास्त्रावः स्रोतोव्राणाक्षिदोषजः ॥ २६ ॥  
 पूतिघ्राणास्यगन्धश्च दन्तशूलमरोचकः ।  
 हनुमन्याग्रहः कण्डूः क्रिमयः पाण्डुता मुखे ॥ २७ ॥  
 श्लेष्मप्रसेको वैस्वर्यं गलगुण्ड्युपजिह्विका ।  
 खालित्यं पिञ्जरत्वं च केशानां पतनं तथा ॥ २८ ॥  
 क्ष्वथुश्चातितन्द्रा च बुद्धेर्मोहोऽतिनिद्रता ।  
 धूमपानात्प्रशाम्यन्ति बलं भवति चाधिकम् ॥ २९ ॥  
 शिरोरूहकपालानामिन्द्रियाणां स्वरस्य च ।  
 न च वातकफात्मानो बलिनोऽप्यूर्ध्वजत्रुजाः ॥ ३० ॥  
 धूमवक्रकपानस्य व्याधयः स्युः शिरोगताः ।

( गौरव ) शिर का भारीपन, शिर का दुखना, शिरोवेदना (पीनस) नाक की इलेप्टिक कला का सूजन ( अर्द्धावभेदक ) आधासीसी (Hemicrania), (कर्णशूल) कान की पीड़ा, (Otalgia) (अक्षिशूल) आंख का दुखना, (कास) खांसी, (हिका) हिचकी, (श्वास) दमा (गलग्रह) स्वर भंग (Hoarseness of voice) (दन्तदौर्बल्य) दान्तों की निर्बलता, (आस्त्राव) कान का वहना, (घ्राण-आस्त्राव) नाक का वहना और दोष जन्य आंख का वहना, (पूतिघ्राण) नाक से दुर्गन्ध आना Ozonea, (आस्यगन्ध) मुख की बदबू, (दन्तशूल) दांत की पीड़ा, (अरोचक) भोजन में अरुचि, अनिच्छा, (हनुग्रह) जवाड़ी भिन्नना Lock Jaw, (मन्याग्रह) गर्दन का लकड़ जाना, इधर उधर न हिलना Stiff neck, (कण्डू) खाज, कृमि Worms, (मुखणण्डुता) चेहरे का पीलापन, (श्लेष्मप्रसेक) मुख से पानी का वहना, अर्थात् लाला स्राव, (वैस्वर्य) स्वरभंग, (गलगुण्डी) ग्रल ग्रन्थि शोथ Tonsillites, (उपजिह्विका) जीभ के साथ दूसरी जीभ

Tongue Tie, ( खालित्य ) बालों का गिरना, (पिंजरत्व) बालों का धूसर रंग होना, ( केशपतन ) बालों का झड़ जाना, ( क्षवथु ) छीक आना, ( अति तन्द्रा ) आलस्य की अधिकता, ( बुद्धिमोह ) मन का मोह, मूर्च्छा, ( अतिनिद्रता ) नींद का अधिक आना ये रोग धूम्र पीने से अच्छे होते हैं और बाल, शिर की अस्थि, आंख, कान आदि इन्द्रियो, स्वर, और गले का बल अधिक होता है ।

बलवान् कारण से भी वात कफ से उत्पन्न गले से ऊपर होने वाले आंख, कान, नाक, मुख, गले के रोग खास कर शिर सम्बन्धी रोग मुख से धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को नहो होते । मुख से धुंआ लेकर नाक से निकाल देना चाहिये ।

धूम्रपान के आठ काल—

प्रयोगपाने तस्याष्टौ कालाः संपरिकीर्तिताः ॥ ३१ ॥

वातश्लेष्मसमुत्केशः कालेष्वेपु हि लक्ष्यते ।

स्नात्वा भुक्त्वा समुल्लिख्य क्षुत्त्वा दन्तान्निघृष्य च ॥ ३२ ॥

नावनाञ्जननिद्रान्ते चात्मवान् धूमपो भवेत् ।

तथा वातकफात्मानो न भवन्त्यूर्ध्वजत्रुजाः ॥ ३३ ॥

रोगास्तस्य तु पेयाः स्युरापानास्त्रिस्त्रयस्त्रयः ।

प्रायोगिक धूम्र के मुख से पीने के आठ समय ब्रह्मा आदि न के कहे हैं क्योंकि इन आठ समयों में वात और कफ का प्रकोप देखा जाता है अन्य समयों में इतना कोप नहीं दिखाई देता ।

स्नान करके, भोजन करके, वमन करके, छीके लेकर, दांत जीभ साफ़ करके, नाक से नस्य लेकर, आंख में अंजन करके, सो के उठकर, प्रसन्न मन हो तब धूम्र को पीना चाहिये । इसी प्रकार से वातजन्य और कफजन्य, ग्रीवा से ऊपर के रोग नहीं होते हैं ।

शीत गुण के कारण यदि वायु प्रकुपित हुई है, तो वातजन्य रोग होते हैं । ऐसी अवस्था में स्नेहिक धूम्र लेना चाहिये । जब पुरप रूक्ष हो,

हृत्प्र हर 'स्नैहिक धूम' पीना चाहिये । कफ जन्य रोग तब होते हैं, जब कि पुरुष में स्निग्धता ( रुक्षता का अभाव ) होता है । इसलिये कफ के नाश के लिये 'वैरेचनिक धूम' लेना चाहिये । तीन प्रकार के धूम पान की थूंटों की सीमा ९ नव है । अर्थात् धूम पीने के समय में किसी भी प्रकार का धूम ९ थूंट से अधिक नहीं पीना चाहिये ।

परं द्विकालपायी स्यादह्न. कालेषु बुद्धिमान् ॥ ३४ ॥

प्रयोगे, स्नैहिके त्वेक, वैरेच्यं त्रिश्चतु' पिवेत् ।

यद्यपि धूमपान के आठ समय बताये हैं, तथापि बुद्धिमान् को अपने शरीर के दोष वृद्धि, क्षय आदि का विचार करके दिन में आठ समयों में से दो समय 'प्रायोगिक धूम' का पान करना चाहिये । स्नैहिक धूम का दिनभर में एक बार, और 'वैरेचनिक' धूम तीन चार बार पीना चाहिये, इसमें अधिक नहीं ।

ठीक प्रकार से पीये हुए धूमपान के लक्षण—

हृत्कण्ठेन्द्रियसञ्जुद्धिर्लघुत्वं शिरसः शमः ॥ ३५ ॥

यथेक्षितानां दोषाणां सम्यक्पीतस्य लक्षणम् ।

हृदय ( छाती, उरःस्थल ), गला, उरःस्थल का ऊर्ध्वभाग, इन्द्रियें—आंख कान, नासिका आदि, इनकी स्वच्छता का प्रतीत होना, शिर का हल्कापन दोष—वात, पित्त, कफ, दोषों की शान्ति ये सम्यक् प्रकार से पीये हुए धूम के लक्षण है ।

अधिक धूमपान के लक्षण—

वाधिर्यमान्ध्यं मूकत्वं रक्तपित्तं शिरोभ्रमम् ॥ ३६ ॥

अकाले चातिपीतश्च धूमः कुर्यादुपद्रवान् ।

( वाधिर्य ), बहरापन, ( आन्ध्य ), आंखों से कम या सर्वथा न देखना, ( मूकत्व ), गगापन, जीभ से बोला न जाना ( रक्तपित्त ) पित्त प्रकोप से रक्त विकार होना Haemorrhage, ( शिरोभ्रम ) सिर में

चक्र आना ये रोग अकाल अर्थात् ठीक समय पर न पीने से अथवा अधिक पीने से होते हैं ।

अधिक धूम्रपान से उत्पन्न उपद्रवों की चिकित्सा—

तत्रेष्टं सर्पिषः पानं नावनाञ्जनतर्पणम् ॥ ३७ ॥

स्नैहिकं धूमजे दोषे वायुः पित्तानुगो यदि ।

शीतं तु रक्तपित्तो स्याच्छ्लेष्मपित्ते विरूक्षणम् ॥ ३८ ॥

अधिक धूम्रपान करने पर घी का पिलाना अच्छा है । नस्य, शलाका आंख में आंजना, और संतर्पण करने वाले स्निग्ध कर्म करने चाहिये ।

पित्त के कारण जहां रक्त दूषित हो वहां पर शीतल चिकित्सा, शीतस्पर्श शीत वीर्य वाले द्रव्यों से बनी औषध नस्य, अंजन आदि कार्य में बरतनी चाहिये, श्लेष्मप्रधान पित्त की अवस्था में 'विरूक्षण' अर्थात् रूक्ष गुण वाले द्रव्यों से नावन, अंजन कर्म करने चाहियें ।

परं त्वत् प्रवक्ष्यामि धूमो येषां विगर्हितः ।

न विरिक्तः पिवेद्धूमं न कृते वस्तिकर्मणि ॥ ३९ ॥

न रक्ती न विषेणार्तो न शोची न च गर्भिणी ।

न श्रमे न मदे नामे न पित्ते न प्रजागरे ॥ ४० ॥

न मूर्च्छाभ्रमवृष्णासु न क्षीणे नापि च क्षते ।

न मद्यदुग्धे पीत्वा च न स्नेहं न च मात्तिकम् ॥ ४१ ॥

धूमं न भुक्त्वा दध्ना च न रूक्षः क्रुद्ध एव च ।

न तालुशोषे तिमिरे शिरस्यभिहते न च ॥ ४२ ॥

न शङ्खके न रोहिण्यां न मेहे न मदात्यये ।

एषु धूममकालेषु मोहात्पिबति यो नरः ॥ ४३ ॥

रोगास्तस्य प्रवर्धन्ते दारुणा धूमविभ्रमात् ।

इसके आगे कहेंगे कि किन २ पुरुषों के लिये धूम्र पान निन्दित है ।

'विरिक्त' विरेचन जिसने लिया हो, वस्ति कर्म ( रूक्ष या स्नेहन

वस्ति जिसने ली हों), रक्ती (रक्त दोष वाला), विपात्त (विष से पीड़ित), शोच्ची (शोकातुर मनुष्य), गर्भिणी (गर्भवती), भ्रम (थकान चढ़ा होने पर), मद् (नशा किया हुआ होने पर) आम (अजीर्णावस्था में), प्रजागर (रात्रि में जागने पर), मूर्च्छा (वेहोशी), भ्रम (चक्कर आना), तृष्णा (प्यास लगी होने पर), क्षीण (धातु क्षय होने पर), क्षत (उर. क्षत रोग में), मद्य (शराब पीकर), दुग्ध (दूध पीकर), स्नेह (घी तैल आदि पीकर), माक्षिक (शहद खाकर), दही के साथ चावल आदि खाकर रूक्ष (रूक्ष शरीर में रूखापन होने पर स्नेहिक धूम के अतिरिक्त धूम), क्रुद्ध (कोप की अवस्था में), तालु शोष (गला सूख जाने पर), तिमिर (तिमिर नामक अक्षि रोग में), शिर पर चोट लगने पर, शंखक (शंखक नामक शिरो रोग में), रोहिणी रोग (Diaphthiria डिप्थीरिया, गलरोग में), मेह (प्रमेह रोग में), मदात्यय (मद्यपान करने पर शराब का नशा चढा होने पर) इन अवस्थाओं में धूमपान नहीं करना चाहिये। इन कुसमयों में जो मनुष्य अज्ञान से धूम पान करता है, उसके धूम पान से कुपित वातादि दोष और रोग बढ़ते हैं। जो ऊपर गिनाये जिन २ रोगों में मनुष्य धूम पीता है, उसके वे रोग बढ़ जाते हैं और निरोगी व्यक्ति के अकाल में पीने से कठिन रोग हो जाते हैं।

धूम किस प्रकार पीना चाहिये—

धूमयोग्यः पिवेद्दोषे शिरोव्राणाक्षिसंश्रये ॥ ४४ ॥

व्राणेनास्येन कण्ठस्थे, मुखेन व्राणपो वमेत् ।

आस्येन धूमकवलान् पिवन् व्राणेन नोद्धमेत् ॥ ४५ ॥

प्रतिलोमं गतो ह्याशु धुमो हिंस्याद्धि चक्षुषी ।

विरक्तादि से भिन्न, बारह वर्ष से ऊपर, स्नानादि काल में, धूम पीने के योग्य मनुष्य, दोष के नासिका, आंख में आश्रित होने पर नाक से धूम पान करे और कण्ठ (गले या छाती में) दोष स्थित होने पर मुख से धूम पान करना चाहिये। जो धूम नासिका से पिया है, उसको मुख मार्ग से

निकालना चाहिये । अर्थात् धूम्र नासिका से पीकर मुख से निकालना चाहिये, नासिका से नहीं ।

परन्तु मुख से धूम्र पान करते हुए नासिका से धुंआ नहीं निकालना चाहिये, बल्कि मुख से पीकर मुख से ही बाहर करना चाहिये क्योंकि धुंआ विपरीत मार्ग से निकल कर जल्दी ही आंखों को हानि पहुंचाता है ।

धूम्र पान के आसन—

ऋज्वङ्गचक्षुस्तच्चेताः सूणविष्टस्त्रिपर्ययम् ॥ ४६ ॥

पिवेच्छिद्रं पिधायकं नासया धूममात्मवान् ।

अकटिल, सीधा अंग, चक्षु, हाथ, पांव, शिर, पीठ, ग्रीवा सीधे रख कर धूम्रपान में मनोयोग करके, अच्छी प्रकार शान्ति से बैठे हुए तीन-तीन दम एक साथ, कुल नौ बार पीना चाहिये और पीते समय नासिका का एक छेद बन्द कर लेना चाहिये । इसी प्रकार क्रम से दोनों नासिकाओं से पीना चाहिये ।

चतुर्विंशतिकं नेत्रं स्वाङ्गुलीभिविरेचने ॥ ४७ ॥

द्वात्रिंशद्ङ्गुलं स्नेहे प्रयोगेऽध्यर्धमिष्यते ।

ऋजुत्रिकोषाफलितं कोलास्थ्यग्रप्रमाणितम् ॥ ४८ ॥

वस्तिनेत्रसमद्रव्यं धूमनेत्रं प्रशस्यते ।

वैरेचनिक धूम्र में पीने वाले की अपनी अंगुलियों से २४ अंगुल नेत्र नलिका होनी चाहिये, स्नेहिक धूम्र प्रयोग में बत्तीस अंगुल परिमित हो । प्रायोगिक धूम्र प्रयोग में ३६ छत्तीस अंगुल होनी चाहिये ।

नलिका की बनावट—

पर्व गांठ गिरह सीधे तीन सीधी गिरह वाली गिरहों पर ठीक प्रकार से मिली हुई, एवं आगे से मुख पर वेर के समान नलिका होगी चाहिये नलिका की बनाने के द्रव्य पदार्थ वस्ति की नलिका के समान धूम्र नलिका में होने चाहिये ।

दूराद्विनिर्गत. पर्वच्छिद्रो नाडीतनूकृत. ॥ ४९ ॥



नेन्द्रियं बाधते धूमो मात्राकालनिषेवितः ।

यदा चोरश्च कण्ठश्च शिरश्च लघुतां व्रजेत् ॥ ५० ॥

कफश्च तनुतां प्राप्तः सुपीतं धूममादिशेत् ।

चौर्ध्वास या छर्त्तस अंगुल लम्बी नलिका मे दूर से आने के कारण तीन गिरह गांठों के होने से तीक्ष्णता का घट जाना, वेर के समान छेद होने से एक डम जोर में नहीं आ सकता, और मात्रा तथा उचित समय में सेवन किया हुआ धूम इन्द्रियों को पीड़ा नहीं पहुंचाता ।

उत्तम प्रकार से किये हुए धूमपान के लक्षण—

जब डर. ( वक्षःस्थल ), कण्ठ ( गला ), शिर का हल्के होना और कफ पतला हो जाये या घट जाये तब धूम अच्छी प्रकार से पीया हुआ समझना चाहिये ।

अयोग्य रूप में पिये हुए धूम के लक्षण—

अविशुद्धः स्वरो यस्य कण्ठश्च सकफो भवेत् ॥ ५१ ॥

स्तिमितो मस्तकश्चैवमपीतं धूममादिशेत् ।

जिस पुरुष का स्वर, अविशुद्ध मृष्ट साक न हुआ हो कफ-युक्त हां एवं जिसका गला कफयुक्त हो, और मस्तिष्क स्तिमित अर्थात् जकड़ा हुआ भारी प्रतीत होता है उस ने ठीक प्रकार से धूम नहीं पिया ऐसा समझना चाहिये ।

अतियोग के रूप में धूमपान के लक्षण—

तालुर्मूर्धा च कण्ठश्च शुष्यते परितप्यते ॥ ५२ ॥

तृप्यते मुह्यते जन्तू रक्तं च स्रवतेऽधिकम् ।

शिरश्च भ्रमतेऽत्यर्थं मूर्च्छा चास्योपजायते ॥ ५३ ॥

इन्द्रियाण्युपतप्यन्ते धूमेऽत्यर्थं निषेविते ।

तालु, मूर्धा (शिर) और कण्ठ (गला) सुखक होजाते हैं और जलते हैं, इनमें जलन होती है । जन्तु (पुरुष) को प्यास लगती है, मूर्च्छा आजाती है

विशेष रूप से रक्तस्त्राव होता है, शिर धूमता है, मूर्च्छा बेहोशी आ जाती है, और इन्द्रियो मे दाह, जलन होती है, ये अति धूम्रपान के लक्षण है ।

नस्य प्रयोग—

वर्षे वर्षेऽणुतैलं च कालेषु त्रिषु नाचरेत् ॥ ५४ ॥

प्रावृट्शरद्वसन्तेषु गतमेघे नभस्तले ।

नस्यकर्म यथाकालं यो यथोक्तं निपेवते ॥ ५५ ॥

न तस्य चक्षुर्न घ्राणं न श्रोत्रमुपहन्यते ।

न स्युः श्वेता न कपिलाः केशाः श्मश्रूणि वा पुनः ॥ ५६ ॥

न च केशाः प्रलुप्यन्ते वर्धन्ते च विशेषतः ।

मन्यास्तम्भः शिरःशूलमर्दितं हनुसंग्रहः ॥ ५७ ॥

पीनसार्धावभेदौ च शिरःकम्पश्च शाम्यति ।

शिराः शिरःकपालानां सन्धयः स्नायुकरण्डराः ॥ ५८ ॥

नावनप्रीणिताश्चास्य लभन्तेऽभ्यधिकं बलम् ।

मुखं प्रसन्नोपचितं स्वरः स्निग्धः स्थिरो महान् ॥ ५९ ॥

सर्वेन्द्रियाणां वैमल्यं बलं भवति चाधिकम् ।

न चास्य रोगाः सहसा प्रभवन्त्यूर्ध्वजत्रुजाः ॥ ६० ॥

जीर्यतश्चोत्तमाङ्गे च जरा न लभते बलम् ।

आंख अथवा ग्रीवा से ऊपर के अंग कान, नाक, आंख, शिर के स्त्रावण अर्थात् धोने के लिये और अणु स्रोतस् इनके लिये हितकारी अणु तैल को पुरुष वर्षा ऋतु (श्रावण भाद्रपद), अथवा वर्षा का पूर्व भाग (आषाढ श्रावण), शरद् (आश्विन और कार्तिक), वसन्त (माघ फाल्गुन), इन तीनों कालों में जब आकाश वादलो से रहित एक दम निर्मल हो उस समय नस्य कर्म करे । जो पुरुष नस्य कर्म को ठीक प्रकार से उचित समय पर करता है उसके न तो आंख, न कान और न नासिका पीडित होती है । उसके शिर के बाल न तो श्वेत होते हैं न भूरे (धूसर रंग के) होते हैं और न टाढ़ी मूँछ ही श्वेत होती है । बाल भी गिरते उड़ते

नहीं, अपितु विशेष रूप से बढ़ते हैं। नस्य लेने से ( मन्थास्तम्भ ) त्रीवा का अकडना, ( शिरःशूल ) शिरोवेदना ( आर्दित ) मुख का लकवा, मुख का एक पार्श्व में मुड़ जाना, ( हनुसंग्रह ) जवाबों का जकड़ जाना, बन्द हो जाना, ( पीनस ) नासा रोग, ( अर्द्धावभेदक ) आघा सीसी और ( शिरकम्प ) शिर का हिलना ये रोग शान्त हो जाते हैं।

धमनियां, रक्तवाहिनी नाडियां और शिर की अस्थियां, शिर की सन्धियां, ( स्नायु ) सूक्ष्म सिराये, अथवा Ligaments, बन्धन-कण्डरा दृढ बन्धन रज्जु रूप शिर के बन्धन, नस्य प्रयोग से अधिक बलवान् हो जाते हैं। मुख प्रसन्न और तेजस्वी हो जाता है, स्वर ( आवाज़ ) श्लिग्ध, स्थिर, महान्, गम्भीर, मीठी होजाती है और सब इन्द्रियां ( आंख, कान, नाक आदि ) निर्मल स्वच्छ एवं अधिक बलवान् बन जाते हैं। नस्य कर्म करने वाले मनुष्य को गले से ऊपर के रोग अचानक उत्पन्न नहीं होते। क्षीण होते हुए उत्तमाग में नाक, आंख, शिर, गले के ऊपर के अंगों में बुढ़ापे की झुर्रियां आदि नहीं होते।

अणु तैल की विधि—

चन्दनागरुणी पत्रं दावात्वड्मधुकं वलाम् ॥ ६१ ॥

प्रपौण्डरीकं सूक्ष्मैलां विडङ्गं बिल्वमुत्पलम् ।

होवेरमभय वन्यं त्वड्मुस्तं सारिवां स्थिराम् ॥ ६२ ॥

सुराहं पृश्निपर्णी च जीवन्ती च शतावरीम् ।

हरेणुं बृहतीं व्याघ्रीं सुरभां पद्मकेशरम् ॥ ६३ ॥

विपाचयेच्छतगुणे माहेन्द्रे विमलेऽम्भसि ।

तैलादशगुणं शेषं कषायमवतारयेत् ॥ ६४ ॥

नेन तैलं कषायेण दशकृत्वो विपाचयेत् ।

अथ्रास्य दशमे पाके समांशं छागलं पयः ॥ ६५ ॥

दद्यादपोऽणुतैलस्य नावनीयस्य संविधिः ।

चन्दन, अगर, तेजपत्र, वायबिडग, बेल वृक्ष की जड़, नील कमल,

पुण्डरीक, श्वेत कमल, छोटी इलायची, दारुहल्दी की छाल, मुलहठी, बला खरौटी, नेत्रवाला, जंगी, हरड़, वन्य (कैवर्त्तमुस्ता या मुद्गपर्णी), त्वक् (दालचीनी), नागर माथा, अनन्तमूल, शालपर्णी, जीवन्ती, पिठवन, देवदारु, शतावर, रेणुकाबीज, बड़ी कंटेरी, छोटी कंटेरी, सल्लकी, पद्मकेशर, (कमल का केशर), इन को निर्मल, आकाश से बरसे सौ गुने वृष्टि जल में पकाना चाहिये और तैल से दस गुना दशांश भाग रहने पर कषाय को उतार कर छान ले। इस कषाय के दस भाग करके प्रत्येक में उस तैल को पका के अर्थात् प्रथम एक भाग के साथ तैल सिद्ध करे, फिर उसी तैल को दूसरे भाग के साथ, इसी प्रकार दसों भागों के साथ तैल सिद्ध कर लेने पर दसवें भाग में समांश तैल के बराबर बकरी का दूध कषाय में मिला दे। यह नस्य कर्म के योग्य अणु तैल बनाने की विधि है।<sup>१</sup>

अस्य मात्रां प्रयुञ्जीत तैलस्यार्धपलोन्मिताम् ॥ ६६ ॥

स्निग्धस्विन्नोत्तमाङ्गस्य पिचुना नावनैस्त्रिभिः ।

त्र्यहात्त्र्यहाच्च सप्ताहमेतत्कर्म समाचरेत् ॥ ६७ ॥

निवातोष्णसमाचारो हिताशी नियतेन्द्रियः ।

तैलमेतत्त्रिदोषघ्नमिन्द्रियाणां बलप्रदम् ॥ ६८ ॥

प्रयुञ्जानो यथाकालं यथोक्तानश्रुते गुणान् ।

इस तैल की अर्धपल अर्थात् (दो तोला) मात्रा को ले शिर के तैल

१. अकल्को ऽपि भवेत्त्नेहो षः साध्यः केवले द्रवे ॥

इस परिभाषा के अनुसार चन्दन आदि पदार्थों को ऊखल में कूट कर ५० तोले परिमित लेकर ४०० तोले पानी में काथ करना चाहिये। ४० तोले रहने पर छानकर दस भाग कर लेने चाहियें। और एक भाग के बराबर अर्थात् ४ तोले तिल तैल मिला कर पाक पूर्व विधि में करना चाहिये। इस प्रकार ९ बार करके दसवीं बार बकरी का दूध ४ तोले मिला कर तैल पाक कर लेना चाहिये। यह अणु तैल विधि है।

अणु तैल का नस्य सप्ताह में लगभग दो बार लेना चाहिये।

लगाकर, चिकना कर के एवं पसीना लेकर तब रुई के फोये से तीन बार नस्य देना चाहिये ।

यह ( दो तोला तैल ) तीन तीन दिन के पीछे नस्य करे । अर्थात् यदि आज नस्य लिया है, तो तीन दिन छोड़कर पांचवे दिन नस्य ले । इस प्रकार से प्रत्येक ऋतु में कुल सात दिन तक लेना चाहिये । सप्ताह में लगभग दो बार नस्य ले ।

इस तैल का नस्य लेने वाला व्यक्ति वायु के झोंके में, खुली वायु में न रहे, शरीर को गरम बनाये रखवे, पथ्याशी, जितेन्द्रिय, ब्रह्मचारी, सयमी रहे । यह तैल वात, पित्त, कफ तीनों दोषों का नाश करने वाला और आंख कान नाक आदि इन्द्रियो को बल देने वाला है । जो व्यक्ति इस अणु तैल को समय २ पर विधिपूर्वक प्रयोग करता है उसे ऊपर लिखे हुए गुण मिलते हैं ।

दन्तधावन की विधि—

आपोथिताग्रं द्वौ कालौ वषायकटुतिक्तकम् ॥ ६९ ॥

भक्षयेदन्तपवनं दन्तमांसान्यवाधयन् ।

कसैले, कटु ( कडुवे ) नीम आदि, तिक्त ( तीखे ) तेजबल, जीयापोता आदि, रसयुक्त दातुन को आगे से चबाकर कूट कर अर्थात् नरम बनाकर, मसूड़ों को नुक्सान न पहुँचाते हुए, प्रातःकाल विस्तर से उठ कर और सांयकाल सोने के समय दांत साफ़ करे ।

दातुन करने के लाभ—

निहन्ति गन्धवैरस्य, जिह्वादन्तास्यजं मलम् ॥ ७० ॥

निष्कृष्य रुचिमाधत्ते सद्यो दन्तविशोधनम् ।

दातुन दुर्गन्ध को, मुख के बुरे स्वाद को, जीभ दांत और मुख के मल, और मुख के दुर्गन्ध को नष्ट करती है । दांतों को साफ़ करने से मुख में रुचि, प्रसन्नता अथवा भोजन में रुचि उत्पन्न होती है ।

जीभ को साफ़ करने की विधि—

मुवर्णरूप्यताम्राणि त्रपुरीतिमयानि च ॥ ७१ ॥

जिह्वानिलेखनानि स्युरतीक्ष्णान्यनृजूनि च ।

जिह्वामूलगतं यच्च मलमुच्छ्वासरोधि च ॥ ७२ ॥

दौर्गन्ध्यं भजते तेन तस्माज्जिह्वां विनिर्लिखेत् ।

जीभ को निलेखन अर्थात् खुरेचकर के साफ़ करने के लिये सोना, चांदी, ताम्बा, रांगा, जस्त, पीतल और लोह इनकी बनी जीभी अतीक्ष्ण, जो तेज धार चाली न हो, टेडी मुड़ी हुई जो मल जिह्वा के पिछले भाग में लगा हुआ हो और जो मल श्वास को रोक वा दूषित कर रहा हो उसको इस जीभी से खुरेचकर निकाल देना चाहिये ।

दातुन के लिये उत्तम वृक्ष—

करञ्जकरवीरार्कमालतीककुभासनाः ॥ ७३ ॥

शस्यन्ते दन्तपवने ये चाप्येवंविधा द्रुमाः ।

धार्याण्यास्येन वैशद्यरुचिसौगन्ध्यमिच्छता ॥ ७४ ॥

जातीकटुककपूगानां लवङ्गस्य फलानि च ।

कङ्कोलकफलं पत्रं ताम्बूलस्य शुभं तथा ॥ ७५ ॥

तथा कर्पूरनिर्यासः सूक्ष्मैलायाः फलानि च ।

करंज ( नाटा करंज ), करवीर ( कनेर ), अर्क ( आक ), मालती ( जुही ), ककुभ ( अर्जुन ), असन ( आसन ), ये वृक्ष, अथवा इन के समान इस गुण वाले वृक्ष दातुन के लिये उत्तम हैं ।

मुख की निर्मलता स्वच्छता, भोजन में रुचि, एवं मुख की सुगन्धि चाहने वाले पुरुष को चाहिये कि जातिफल ( जायफल ), कटुकफल ( लता कस्तूरी ), पूग ( सुपारी ), लवंग ( लौंग ), कंकोल ( शीतल चीनी ), उत्तम पान, कपूर ( कपूर वृक्ष का गोंद ) और छोटी इलायची इन वस्तुओं को मुख में धारण करे ।

स्नेह-गण्डूप के गुण—

ह्रन्वोर्बलं स्वरत्रल वदनोपचयः परः ॥ ७६ ॥

स्थाल्परं च रसज्ञानमत्रे च रुचिरुत्तमा ।

न चास्यकण्ठशोप स्यान्नौष्ठयोः स्फुटनाद्भयम् ॥ ५७ ॥

न च दन्ताः क्षयं यान्ति दृढमूला भवन्ति च ।

न शूल्यन्ते न चास्त्वेन हृष्यन्ते भक्षयन्ति च ॥ ७८ ॥

परानपि खरान् भक्ष्यान् तैलगण्डूषसेवनात् ।

जवाडो को बल मिलता है, वाणी, स्वर, आवाज़ को बल प्राप्त होता है, मुख, गाल आदि की वृद्धि, उन्नति, रसो का ज्ञान भली प्रकार से होता है और अन्न में भली प्रकार से भोजन के लिये रुचि होती है ।

स्नेह गण्डूष अर्थात् तैल के गरारे करने वाले को गले में खुश्की, रक्षता नहीं होती और न आंठों के फटने की आशंका होती है । दांत जल्दी गिरते भी नहीं, अपितु और भी अधिक जड़ें मजबूत बन जाती हैं । और न दांतों में दर्द होती है, और न खटाई से खटे होते हैं, कठोर खाने की जीज को भी खा सकते हैं ।

शिर पर तैल लगाने के लाभ—

नित्यं स्नेहार्द्रशिरसः शिरःशूलं न जायते ॥ ७९ ॥

न खालित्यं न पालित्यं न केशाः प्रपतन्ति च ।

बलं शिर कपालानां विशेषेणाभिवर्धते ॥ ८० ॥

दृढमूलाश्च दीर्घाश्च कृष्णाः केशा भवन्ति च ।

इन्द्रियाणि प्रसीदन्ति सुत्वग्भवति चामलम् ॥ ८१ ॥

निद्रालाभं सुखं च स्यान्मूर्ध्नि तैलनिपेवणात् ।

नित्य प्रति शिर पर तेल की मालिश करने से शिरःशूल ( शिर का दुखना ) नहीं होता, न बाल उडते हैं न गंजापन आता, न पालित्य अर्थात् बाल जल्दी खेत नहीं होते और बाल नहीं गिरते । शिर की अस्थियों का बल विशेष रूप से बढ़ता है और बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, बाल लम्बे और काले हो जाते हैं । आंख कान आदि इन्द्रियें स्वच्छ, प्रसन्न हो जाती हैं, त्वचा स्वच्छ, निर्मल हो जाती है

और सुख पूर्वक नीद आती है वह शान्ति से सोता है । शिर पर तैल लगाने के ये लाभ हैं ।

कान में तैल डालने के लाभ—

न कर्णरोगा वातोत्था न मन्याहनुसंग्रहः ॥ ८२ ॥

नोच्चैःश्रुतिर्न वाधिर्यं स्यान्नित्यं कर्णतर्पणात् ।

नित्य प्रति कान मे तेल डालने से वात जन्य कान के रोग, एवं 'मन्याग्रह' ( ग्रीवा का जकड़ना ) और 'हनुग्रह' ( जवाड़ों का भिंचना ), उच्चैः श्रुति ( ऊंचा सुनना ), वाधिर्यं ( बधिरता, बहरापन ) नहीं होता ।

शरीर पर तैल लगाने की विधि—

स्नेहाभ्यङ्गाद्यथा कुम्भश्चर्म स्नेहविमर्दनात् ॥ ८३ ॥

भवत्युपाङ्गादक्षश्च दृढः क्लेशसहो यथा ।

तथा शरीरमभ्यङ्गाद्दृढं सुत्वक्प्रजायते ॥ ८४ ॥

प्रशान्तमारुताबाधं क्लेशव्यायामसंसहम् ।

स्पर्शने चाधिको वायुः स्पर्शनं च त्वगाश्रितम् ॥ ८५ ॥

त्वच्यश्च परमोऽभ्यङ्गस्तस्मात्तं शीलयेन्नरः ।

न चाभिघाताभिहतं गात्रमभ्यङ्गसेविनः ॥ ८६ ॥

विकारं भजतेऽत्यर्थं बलकर्मणि वा क्वचित् ।

सुस्पर्शोपचिताङ्गश्च बलवान् प्रियदर्शनः ॥ ८७ ॥

भवत्यभ्यङ्गनित्यत्वान्नरोऽल्पजर एव च ।

जिस प्रकार स्नेह, चिकनाई को मालिश से घडा और जिस प्रकार स्नेह के मर्दन से चमड़ा, और जिस प्रकार स्नेह के चुपडने से गाड़ी का धुरा, दृढ (मजबूत) और क्लेशसह अर्थात् (दुःख कष्ट सहने योग्य हो जाता है ) उसी प्रकार शरीर पर तेल मलने से शरीर भी दृढ, मजबूत हो जाता है, त्वक् ( त्वचा, चमड़ी ) अच्छी कोमल हो जाती है । वायु के रोग शान्त हो जाते हैं, और शरीर क्लेश कष्ट दुःख आदि, व्यायाम, परिश्रम सहन करने योग्य बन जाता है ।



अन्य श्रोत्रादि इन्द्रियों की अपेक्षा त्वचा में वायु का आधिक्य रहता है और स्पर्श ज्ञान भी त्वचा में ही आश्रित है इसलिये अभ्यंग ( तैल का मलना ) त्वचा के लिये अति उपकारी है । इस लिये मनुष्य को चाहिये कि उसे करता रहे ।

तैल मर्दन करने वाले व्यक्ति के शरीर पर अभिघात ( चोट ) लगने पर भी विशेष कोई हानि नहीं आती क्योंकि वायु शान्त हुई होती है, आघात जो कि वायु को कुपित करने वाला है वह भी वायु को कुपित नहीं कर सकता । इसी प्रकार कभी अचानक श्रम या मेहनत का काम करने से भी शरीर में विकार उत्पन्न नहीं होता ।

नित्य प्रति अभ्यंग ( शरीर पर तैल मर्दन करने से ) मनुष्य की त्वचा कोमल, उत्तम स्पर्शज्ञान वाली, तथा पुरुष भरे हुए सुघटित अंगों वाला, बलवान् एवं सुन्दर शरीर वाला हो जाता है । ऐसे मनुष्य को बुढ़ापा भी जल्दी नहीं आता ।

पांव में तैलमर्दन के गुण—

खरत्वं शुष्कता रौक्ष्यं श्रमः सुप्तिश्च पादयोः ॥ ८८ ॥

सद्य एवोपशाम्यन्ति पादाभ्यङ्गनिषेवणात् ।

जायते सौकुमार्यं च बलं स्थैर्यं च पादयोः ॥ ८९ ॥

दृष्टिः प्रसादं लभते मारुतश्चोपशाम्यति ।

न च स्युर्गृध्रसीवाताः पादयोः स्फुटनं न च ॥ ९० ॥

न शिरास्तायुसंकोचः पादाभ्यङ्गेन पादयोः ।

पांव में ( पांव के तलुओं पर ) तैल लगाने से खरत्व ( खुर्खुरा पन ), शुष्कता ( सूखापन, फटना ), रौक्ष्य ( रूक्षता, रुखाई ), श्रम ( थकान ) और पाव की सुप्ति ( सो जाना, स्तब्ध, जड़ सा हो जाना ), शीघ्र ही अच्छे हो जाते हैं । पांवों में तैल मर्दन करने से पांव में कोमलता, सुकुमारता आ जाती है, पाव बलवान्, स्थिर ( न कांपने वाले ) हो जाते हैं । इसके सिवाय आंख स्वच्छ, निर्मल हो जाती है, और

वायु भी पांव की शान्त हो जाती है । पांव में तैल मालिश करने वाले व्यक्ति को न तो गृध्रसी रोग ( Sciatica ) न पांव का फटना ( पाददारी, विवाई आदि रोग ), और न शिरा या स्नायुओं का संकुचित होना ( पांव के ज्ञान तन्तुओं या मांस पेशियों का संकुचित होना Atrophy of the Nerves or muscles ) होते हैं ।

उबटन लगाना—

दौर्गन्ध्यं गौरवं तन्द्रां कण्डूं मलमरोचकम् ॥ ९१ ॥

स्वेद बीभत्सतां हन्ति शरीरपरिमार्जनम् ।

शरीर पर उबटन बेसन आदि मलने से शरीर का दुर्गन्ध, भारीपन, तन्द्रा ( काम में आलस्य ), खाज़, मल, अरुचि ( भोजन में अनिच्छा ), स्वेद, बीभत्सा ( पसीने की बढ़वृ ) नष्ट हो जाते हैं ।

स्नान का फल—

पवित्रं वृष्यमायुष्यं श्रमस्वेदमलोपहम् ॥ ९२ ॥

शरीरबलसंधानं स्नानमोजस्करं परम् ।

नित्य प्रति स्नान करने से मनुष्य को पवित्रता, वृष्यता ( पुरुषत्व ), दीर्घायु मिलती है । स्नान से थकावट, पसीना, और मल का दुर्गन्ध दूर हो जाते हैं । स्नान करने से शरीर का बल और ओज (तेज, कान्ति, दीप्ति) विशेष रूप में बढ़ती है ।

‘ओज’ आठवीं धातु है । ‘मज्जा’ के सूक्ष्म भाग का शुक्राग्नि से पाक होने पर जो सूक्ष्मतम भाग बनता है, वही ‘ओज’ है । वृषणों का अन्तःस्राव ( Internal secretion ) का नाम ‘ओज’ है, जिसके कम होने से मनुष्य का तेज कम हो जाता है और जिसके नाश होने पर मनुष्य भी मर जाता है ।

स्वच्छ वस्त्र पहिने के गुण—

काम्यं यशस्यमायुष्यमलक्ष्मीत्रं प्रहर्षणम् ॥ ९३ ॥

श्रीमत्पारिषदं शस्तं निर्मलाम्बरधारणम् ।

निर्मल, स्वच्छ साफ वस्त्र पहिनने से मनुष्य को कमनीयता, सुन्दरता, यश, कीर्ति, दीर्घायु मिलती है। स्वच्छ वस्त्र अलक्ष्मीघ्न अर्थात् दरिद्रता को दूर करता है, और प्रहर्षण अर्थात् (चित्त को खुश करता है)। स्वच्छ वस्त्र राजाओं की सभा में भी प्रशंसित होता है।

गन्धमाला आदि के धारण करने के गुण—

वृष्यं सौगन्ध्यमायुष्यं काम्यं पुष्टिवलप्रदम् ॥ ९४ ॥

सौमनस्यमलक्ष्मीघ्नं गन्धमाल्यनिषेवणम् ।

सुगन्धित पदार्थ, इत्र आदि और पुष्प-माला आदि को धारण करने से मनुष्य को पुरुषत्व, सुगन्धि, दीर्घायु मिलती है। इनके धारण करने से शरीर में कमनीयता, पुष्टि, और बल आता है। माला के धारण करने से मन प्रसन्न रहता है और दरिद्रता का नाश होता है।

रत्न आभूषण आदि धारण करने के लाभ—

धन्यं सङ्गल्यमायुष्यं श्रीमद्व्यसनसूदनम् ॥ ९५ ॥

हर्षणं काम्यमांजस्यं रत्नाभरणधारणम् ।

रत्न हीरे आदि, आभरण इनसे या स्वर्ण आदि से बने आभूषण धारण करना धन्य अर्थात् भाग्यवान्, धनी होने का चिन्ह है। इनका धारण करना मंगलकारी, दीर्घायु देने वाला एवं शोभा बढ़ाता है। इनके धारण करने से सब व्यसन, सर्प कीटादि की विपत्ति नष्ट हो जाती है। आभूषण इत्यादि को धारण करने से मन प्रसन्न होता है, सुन्दरता आती है और ओज, तेज, कान्ति बढ़ती है।

दीर्घायु के लिये आवश्यक शुचि कर्म—

मेध्यं पवित्रमायुष्यमलक्ष्मीकविनाशनम् ॥ ९६ ॥

पादयोर्मलमार्गाणां शौचाधानमभीक्ष्णशः ।

बार-बार मल त्याग आदि के पीछे शुद्धि करने से अर्थात् पवित्र रहने से मेधा बुद्धि बढ़ती है, पवित्रता, दीर्घायु मिलती है, और दरिद्रता एवं कलि (पाप या दुःख) का नाश होता है। इसलिये पां

और मल मार्ग गुदा और उपस्थ, और शिर के सात छिद्र दो नाक, दो कान, दो आंख और एक मुख इन सातों छेदों को वार-वार साफ़ करना चाहिये ।

पौष्टिकं वृष्यमायुष्यं शुचि रूपविराजनम् ॥ ९७ ॥

केशश्मश्रुनखादीनां कल्पनं संप्रसाधनम् ।

केश ( शिर के बाल ), श्मश्रू ( दाढ़ी मूँछ ) और नख आदि का काटना और इनका प्रसादन, श्रृंगार करने से पुष्टि, पुरुषत्व, दीर्घायु मिलती है एवं रूप भी सुन्दर, पवित्र बन जाता है ।

जूता पहिने का गुण—

चक्षुष्यं स्पर्शनहितं पादयोर्व्यसनापहम् ॥ ९८ ॥

बल्यं पराक्रमसुखं वृष्य पादत्रधारणम् ।

जूता पहिनना आंखों के लिये हितकारी, त्वचा के लिये लाभकारी, एवं कीड़े आदि से बचाता है और बल पराक्रम, सुख और पुरुषत्व को देता है ।

छत्र धारण का गुण—

ईतेः प्रशमनं बल्यं गुप्त्यावरणसंकरम् ॥ ९९ ॥

घर्मानिलरजोम्बुत्रं छत्रधारणमुच्यते ।

छत्र धारण करना भारी दुःख को शान्त करने वाला, बलकारक, बुरे प्रभावों से भली प्रकार रक्षा करता है । छाता धारण करने से धूप, वायु, धूल बरसात से बचाता है ।

दण्ड धारण के गुण—

स्खलतः संप्रतिष्ठानं शत्रूणां च निपूदनम् ॥ १०० ॥

अवष्टम्भनमायुष्यं भयघ्नं दण्डधारणम् ।

दण्ड गिरते हुए को भली प्रकार से रोकता है, शत्रुओं का नाश करता है, बल में सहायता देता है, दीर्घायुष्य कारक और सांप आदि के भय को मिटाता है ।

संक्षेप से स्वस्थवृत्त—

नगरी नगरस्येव रथस्येव रथी सदा ॥ १०१ ॥

स्वशरीरस्य मेधावी कृत्येष्ववहितो भवेत् ।

जिस प्रकार नगराधिपति राजा नगर की और रथी अपने रथ की रक्षा करता है उसी प्रकार मेधावी, बुद्धिमान् मनुष्य अपने शरीर के कर्तव्यों में सावधान रहे ।

भवति चात्र—वृत्त्युपायान्निषेवेत ये स्युर्धर्माविरोधिनः ।

शममध्ययनं चैव सुखमेवं समश्नुते ॥ १०२ ॥

जो धर्म के अविरोधी कार्य्य हों उन उपायों वा जीविका के साधनों का पालन करना चाहिये । शम (शान्त वृत्ति) और अध्ययन (वेदादि सद्ग्रन्थों का पठन), करने से मनुष्य को सुख मिलता है ।

तत्र श्लोकाः—मात्रा द्रव्याणि मात्रां च संश्रित्य गुरुलाघवम् ।

द्रव्याणां गर्हितोऽभ्यासो येषां येषां च शस्यते ॥ १०३ ॥

इस अध्याय में मात्रा को लक्ष्य करके द्रव्य, मात्रा, गुरु लघु का ज्ञान, निन्दित द्रव्य पदार्थ, और जिन जिन पदार्थों का अभ्यास करना चाहिये वे कह दिये हैं ।

अञ्जनं धूमवर्तिश्च त्रिविधा वर्तिकल्पना ।

धूमपानगुणाः कालाः पानमानं च यस्य यत् ॥ १०४ ॥

व्यापत्तिचिह्नं भैषज्यं धूमो येषां विगर्हितः ।

पेयो यथा यन्मयं च नेत्रं यस्य च यद्विधम् ॥ १०५ ॥

नस्यकर्मगुणा नस्तः कार्यं यच्च यथा यदा ।

भक्षयेदन्तपवनं यथा यद्यद्गुणं च यत् ॥ १०६ ॥

यदर्थं यानि चास्येन धार्याणि कवलप्रहे ।

तैलस्य ये गुणा दृष्टाः शिरस्तैलगुणाश्च ये ॥ १०७ ॥

कर्णतैले तथाऽभ्यङ्गे पादाभ्यङ्गे च मार्जने ।

स्नाने वाससि शुद्धे च सौगन्ध्ये रत्नधारणे ॥ १०८ ॥

शौचे संहरणे लोम्नां पादत्रच्छत्रधारणे ।

गुणा मात्राशितीयेऽस्मिन् तथोक्ता दण्डधारणे ॥ १०९ ॥

अंजन, धूम वृत्ति के तीन प्रकार, प्रायोगिक, वैरेचिक और स्नैहिक धूम की कल्पना, धूम पान के गुण, धूम पान के समय, धूमपान का परिमाण, धूमपान से होने वाली हानियां और इन हानियों की 'भैषज्य' (औषध), जिन पुरुषों के लिये धूम निन्दित है, वह जिस प्रकार से पीना चाहिये, नलिका जिस वस्तु और जिस प्रकार की बनी होनी चाहिये वह भी कह दिया है। नस्य कर्म के लाभ, उसके बनाने की विधि, नस्य लेने का समय एवं विधि, दन्त धावन के गुण, मुख में धारण करने योग्य वस्तुएं, तैल-गण्डूष के गुण, शिर पर तेल लगाने के लाभ, कान में तेल डालने के गुण, पांव में और शरीर में तेल लगाने के लाभ, उबटन, स्नान करने के लाभ, शुद्ध वस्त्र माला आदि सुगन्धि, रत्न धारण करने के गुण, शुचि कर्म के, बालों के काटने, जूता छाता और दण्ड को धारण करने के गुण, लाभ यह सब इस 'मात्राशितीय' अध्याय में कह दिये हैं।

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रं चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने भेषजचतुष्के

आरग्वर्धायो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

## षष्ठोऽध्यायः ।

अथातस्तस्याशितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

इस के आगे 'तस्याशितीय' नाम अध्याय की व्याख्या करते हैं, ऐसा भगवान् आत्रेय ने कहा है।

तस्याशिताद्यादाहाराद् वलं वर्णश्च वर्धते ।

तस्यर्तुसात्म्यं विदितं चेष्टाहारव्यपाश्रयम् ॥ ३ ॥

परिमित मात्रा में भोजन करने वाले पुरुष के मात्रा में खाने पीने से बल, वर्ण, कान्ति, सुख और आयुष्य बढ़ता है। मात्राशी पुरुष का सात्म्य ऋतु के गुण के विपरीत चेष्टा, व्यायाम, अभ्यंग आदि, आहार खाना पीना, चाटना आदि के आश्रय पर ही ऋतुओं का सात्म्य भी जाना जाता है,

इह खलु संवत्सरं षडङ्गमृतुविभागेन विद्यात् । तत्रादित्यस्यो-  
दगयनमादानं च त्रोनृतून् शिशिरादीन् ग्रीष्मान्तान् व्यवस्येत्,  
वर्षादीन् पुनर्हेमन्तान्तान् दक्षिणायन विसर्गं च ॥ ४ ॥

इस संसार में संवत्सर ( वर्ष ) रूपी काल को छः ऋतुओं के विभाग से जानना चाहिये। जब भगवान् सूर्य उत्तरायण होते हैं, तब 'आदान' ( ग्रहण ) काल होता है। इस से शिशिर, वसन्त और ग्रीष्म तीन ऋतुएँ बनती हैं। और जब सूर्य दक्षिणायन हो तब 'विसर्ग' अर्थात् छोड़ने का काल होता है। इस से वर्षा, शरद् और हेमन्त ये तीन ऋतुएँ बनती हैं।

विसर्गं च पुनर्वायत्रो नातिरूक्षा. प्रवान्तीतरे पुनरादाने, सोम-  
श्चाव्याहतबल. शिशिराभिर्भाभिरापूरयञ्जगदाप्याययति शश्वदतो  
विसर्गं सौम्य । आदानं पुनराग्नेयं, तावेतावर्कवायू सोमश्च काल-  
स्वभावमार्गपरिगृहीता कालर्तुरसदोषदेहवलनिर्वृत्तिप्रत्ययभूताः  
समुपदिश्यन्ते ॥ ५ ॥

'विसर्ग' काल में वायु बहुत अधिक रूखी नहीं बहती और आदान काल में वायु बहुत रूक्ष, खुश्क बहती है। क्योंकि विसर्गकाल में सोम का बल परिपूर्ण होता है। इसलिये शीत कान्ति से परिपूर्ण करता हुआ सोम जगत् का पोषण करता है, जगत् को नित्य बलवान् करता है। इसलिये विसर्ग काल में सौम्य अर्थात् सोम के गुण बहुत होते हैं।

तत्र रविर्भाभिराददानो जगतः स्नेहं वायवस्तोत्ररूक्षाश्चोपशोप-  
यन्त. शिशिरवसन्तग्रीष्मेष्टृतुषु यथाक्रमं रौक्ष्यमुत्पादयन्तो रूक्षान्  
रसान् तिक्तरूपायकट्टुकाश्चाभिवर्धयन्तो नृणां दौर्बल्यमावहन्ति ॥६॥  
'आदान' काल आग्नेय ( अग्नि तत्र प्रधान ) है। इसलिये

सूर्य, वायु और चन्द्रमा समय के स्वभाविक मार्ग से चलते हुए काल, ऋतु, रस, दोष, और शारीरिक बल के बनाने में कारण होते हैं ।

आदान काल में सूर्य अपनी किरणों से संसार की स्निग्धता को ले लेता है, इसलिये वायु तीव्र, तीक्ष्ण, रूखी, सुखाती हुई बहती है । इससे शिशिर, वसन्त और ग्रीष्म में क्रमशः ( शिशिर से अधिक वसन्त में, और वसन्त से अधिक ग्रीष्म में ) रूक्षता उत्पन्न हो जाती है । इस रूक्षता के उत्पन्न होने से रूक्ष रस, यथा—तिक्त ( तीखा ), कषाय ( कसैला ) और कटु ( कड़वा ) रस बढ़ जाते हैं । इन रसों की वृद्धि से मनुष्यों के शरीर में निर्बलता आ जाती है ।

वर्षाशरद्धेमन्तेष्वृतुषु तु दक्षिणाभिमुखेऽर्के कालमार्गमेघवातवर्षा-  
भिहतप्रतापे, शशिनि चाव्याहतबले माहेन्द्रसलिलप्रशान्तसंतापे  
जगत्यरूक्षा रसा. प्रवर्धन्तेऽस्तलवणमधुरा., यथाक्रमं तत्र बलमुप-  
चीयते नृणामिति ॥ ७ ॥

वर्षा शरद् और हेमन्त ऋतु में जब सूर्य दक्षिणायन हो रहा होता है, काल के स्वभाविक मार्ग के कारण, बादल, वायु, वर्षा के कारण सूर्य का तेज घट जाने से और सोम का बल कम न होने से, वर्षा जल के कारण गरमी के शान्त हो जाने से संसार में अरूक्ष, स्निग्ध रस बढ़ते हैं । इस से अम्ल, लवण और मधुर क्रमशः वर्षा, शरद् और हेमन्त में बढ़ते हैं । इन रसों के बढ़ने से मनुष्यों का बल भी बढ़ जाता है ।

भवन्ति चात्र—आदावन्ते च दौर्वल्यं विसर्गादानयोर्नृणाम् ।

मध्ये मध्यबलं त्वन्ते श्रेष्ठमग्रे च निर्दिशेत् ॥ ८ ॥

शीते शीतानिलस्पर्शसंरुद्धो वलिनां वली ।

विसर्ग और आदान काल के आदि और अन्त में पुरुषों के शरीर में दुर्बलता आती है । यथा—विसर्ग के आदि काल वर्षा में और आदान के अन्त समय ग्रीष्म ऋतु में मनुष्यों में निर्बलता रहती है । दोनों कालों के मध्य में ( अर्थात् शरद् और वसन्त में मध्यम बल रहता है । विसर्ग के



अन्त समय ( हेमन्त, मे और आदान काल के ) पहिले ( शिशिर ) काल मे मनुष्यों का बल श्रेष्ठ अर्थात् बढ़ा रहता है ।

पक्ता भवति हेमन्ते मात्राद्रव्यगुरुक्षमः ॥ ९ ॥  
 स यदा नेन्धनं युक्तं लभते देहजं तदा ।  
 रसं हिनस्त्यतो वायुः शीत शीते प्रकुप्यति ॥ १० ॥  
 तस्मात्तुपारसमये स्निग्धान्मल्लवणान् रसान् ।  
 औदकानूपमांसानां मेघ्यानामुपयोजयेत् ॥ ११ ॥  
 विलेशयाना मांसानि प्रसहानां भृतानि च ।  
 भक्षयेन्मदिरां सीधुं मधु चानुपिवेत्रन् ॥ १२ ॥  
 गोरसानिक्षुविकृतीर्वसां तैलं नवौदनम् ।  
 हेमन्तेऽभ्यस्यतस्तोयमुष्णं चायुर्न हीयते ॥ १३ ॥  
 अभ्यङ्गोत्सादनं मूर्ध्नि तैलं जेन्ताकमातपम् ।  
 भजेद् भूमिगृह चोष्णमुष्णं गर्भगृहं तथा ॥ १४ ॥  
 शीतेषु संवृतं सेव्यं यानं शयनभासनम् ।

हेमन्त काल की परिचर्या—हेमन्त रूपी शीत काल में ठण्डी वायु के स्वर्ग में जाठराग्नि, शरीर से बाहर न निकल कर अन्दर ही रुक कर ( जिस प्रकार कि कुम्हार वर्तन पकाते समय या इटो के भट्टे में आग को अन्दर ही बन्द कर देते हैं, और वहां पर अग्नि तीव्र हो जाती है, उसी प्रकार ) प्रबल हो उठती है। इसलिये मनुष्यों की जाठराग्नि काल स्व-भाद्र से ही हेमन्त में भारी और अधिक मात्रा में भोजन को पचाने में समर्थ होती है। इस समय यदि जाठराग्नि को अग्नि बल के अनुसार अन्न रूपी आहार न मिले, तो शरीर के सौम्य ( द्रव ) भाग को नष्ट करने लगती है। इसलिये शीत काल में शीत गुण के बढ़ने से वायु भी घटती है।

इस वायु की वृद्धि को रोकने के लिये स्निग्ध ( मधुर ), अम्ल और नमकीन पदार्थ खाने चाहिये। चर्मी वाले जलचर प्राणियों का मांस रस

बिल मे रहने वाले ( नकुल आदि ) पशुओं का मांस, प्रसह ( कुकुट आदि ) पक्षियों का मांस खाना चाहिये, मांस खा कर ऊपर से मदिरा सीधु ( गुड़ की शराब ) और मधु पीना चाहिये । दूध, दही, मावा आदि एवं गन्ने के रस से बनी खीर, राव, शर्करा आदि से बनी वस्तुएं, वसा, तैल ( घी ) और नये चावल खाने चाहियें । हेमन्त काल मे स्नान आदि में गरम पानी का व्यवहार करने वाले की आयु कम नहीं होती । तैल-मर्दन, उबटन, शिर पर तैल लगाना, जेन्ताक स्वेद, धूप का सेवन, भूमि के नीचे बने तहखानों मे रहना, घर के अन्दर घर बना उसे गरम करके रहना चाहिये, भली प्रकार घिरा हुआ घर हो, आसन या सवारी आदि करते समय खूब लिपट कर बैठे जिससे शीत न लगे ।

प्रावाराजिनकौशेयप्रवेणीकुथकास्तृतम् ॥ १५ ॥

गुरुष्णवासा दिग्धाज्ञो गुरुणाऽगुरुणा सदा ।

शयने प्रमदां पीनां विशालोपचितस्तनीम् ॥ १६ ॥

आलिङ्गन्थाऽगुरुदिग्धाङ्गीं सुप्यात्समदमन्मथः ।

प्रकामं च निषेवेत मैथुनं शिशिरागमे ॥ १७ ॥

वर्जयेदन्नपानानि लघूनि वातलानि च ।

प्रवातं प्रमिताहारमुदमन्थं हिमागमे ॥ १८ ॥

भारी कम्बल, मृग छाल ( कौशेय ) रेशम, ( प्रवेणी ) कम्बल, गद्दे इनको फैला कर भारी और गरम कपड़ों को पहिनकर मनुष्य अंगों पर अगर का गाढ़ा लेप सदा करे । भरे शरीर वाले ( दुबली पतली नहीं ), कामवती एवं उन्नत स्तनों वाली, अंगो पर अगर का लेप की हुई स्त्री का आलिगन करके हर्ष और कामेच्छा के साथ सोये । शिशिर ऋतु मे मैथुन यथेच्छ सेवन करे ।

हेमन्त ऋतु में त्याज्य—लघु गुण वाले एवं वायुप्रकोपक आहार विहार हेमन्त ऋतु मे छोड़ देने चाहिये । एवं सामने की वायु, थोडा खाना और पानी मे घोल कर सत्तू खाना छोड देना चाहिये ।

हेमन्तशिशिरे तुल्ये शिशिरेऽल्पं विशेषणम् ।  
 रौक्ष्यमादानजं शीत मेघमारुतवर्षजम् ॥ १९ ॥  
 तस्माद्धैमन्तिकं सर्वं शिशिरे विधिरिष्यते ।  
 निवातमुष्णमधिकं शिशिरे गृहमाश्रयेत् ॥ २० ॥  
 कटुतिक्तकपायाणि वातलानि लघूनि च ।  
 वर्जयेदन्नपानानि शिशिरे शीतलानि च ॥ २१ ॥

हेमन्त और शिशिर ऋतुओं प्रायः शीत की दृष्टि से समान हैं । परन्तु शिशिर काल में हेमन्त से इतना भेद है कि शिशिर का आदान काल होने से वायु रुद्ध होती है एवं (मेघ) बादल, वायु और बरसान शिशिर में अधिक होने से इस ऋतु में शीत अधिक होता है । इसलिये शिशिर ऋतु में हेमन्त की सम्पूर्ण विधि पालन करनी चाहिये । परन्तु शिशिर में हेमन्त से अधिक गरम एवं वायु रहित घरों में ( खुली वायु जहाँ न आये ) रहे । शिशिर काल में कड़ुवे, तिक्त, कसैले, वायुकारक, और लघु तथा ठण्डे खान पान को छोड़ दे ।

वसन्त की ऋतुचर्या—

हेमन्ते निचितः श्लेष्मा दिनकृद्भाभिरीरितः ।  
 कायाम्नि वाधते रोगास्ततः प्रकुरुते बहून् ॥ २२ ॥  
 तस्माद्धसन्ते कर्माणि वमनादीनि कारयेत् ।  
 गुर्वस्तस्त्रिगधमधुरं दिवास्वप्नं च वर्जयेत् ॥ २३ ॥  
 व्यायामोद्धर्तनं धूमं कवलग्रहमञ्जनम् ।  
 सुखाम्बुना शौचविधिं शीलयेत्कुसुमागमे ॥ २४ ॥  
 चन्दनागुरुदिग्धाङ्गो यवगोधूमभोजनः ।  
 शारभं शाशमैण्यं मांसं लावकपिञ्जलम् ॥ २५ ॥  
 भक्षयेन्निगदं सीधुं पिवेन्माध्वीकमेव वा ।  
 वसन्तंऽनुभवेत्स्त्रीणां काननाना च यौवनम् ॥ २६ ॥  
 हेमन्त काल में संचित हुआ कफ सूर्य की किरणों से ( घी के

समान ) पिघल कर द्रव बनकर शरीर की अग्नि को ( धातुओं की अग्नि को नहीं ) कम करके कफजन्य बहुत से रोगों को उत्पन्न करता है । इसलिये कफ को निकालने के लिये वसन्त ऋतु में वमन, शिरोविरेचन कार्य करने चाहियें । व्यायाम, उबटन, धूमपान, कवल ( गरारे करना ), और अञ्जन लगाना चाहिये । स्नान एवं शौच कार्य में गरम पानी का व्यवहार करना चाहिये ( पीने में नहीं ) । शरीर पर चन्दन और अगर का लेप करना चाहिये, जौ, और गेहूं, शरभ चारहसीगे, खरगोश, हरिण, बटेर, कपिञ्जल ( कट फोड़ा ), इनका मास खाना चाहिये । कफ दोष नाशक सीधु या अंगूरी की बनी शराब पीनी चाहिये । वसन्त काल में युवति स्त्रियो और जंगलों में मनोरंजन करे । युवति स्त्रियों के साथ वार्त्तालाप से कफ के नाश के लिये अल्पमैथुन का विधान है ।

ग्रीष्मचर्या—

मयूखैर्जगतः सारं ग्रीष्मे पेपीयते रविः ।

स्वादु शीतं द्रवं स्निग्धमन्नपानं तदा हितम् ॥ २७ ॥

शीतं सशर्करं मन्थ जाङ्गलान्मृगपक्षिणः ।

घृतं पयः सशाल्यन्नं भजन् ग्रीष्मं न सीदात् ॥ २८ ॥

मद्यमल्पं न वा पेयमथवा सुवहूदकम् ।

लवणाम्लकटूष्णानि व्यायामं चात्र वर्जयेत् ॥ २९ ॥

दिवा शीतगृहे निद्रा निशि चन्द्रांशुशीतले ।

भजेच्चन्दनदिग्धाङ्गः प्रवाते हर्म्यमस्तके ॥ ३० ॥

व्यजनैः पाणिसंस्पर्शैश्चन्दनोदकशीतलैः ।

सेव्यमानो भजेदास्यां मुक्तामणिविभूषितः ॥ ३१ ॥

काननानि च शीतानि जलानि कुसुमानि च ।

ग्रीष्मकाले निपेवेत मैथुनाद्विरतो नरः ॥ ३२ ॥

ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अपनी किरणों द्वारा संसार का सार

खांच रहा होता है । इसलिये इस समय मीठा, ठण्डा द्रव पदार्थ पीना, चिकने ( घी आदि ) खान पान हितकारी हैं । ठण्डे और शर्करामिश्रित सत्तू खाने से, जंगली पशु पक्षियों का मांस खाने से, घी और दूध के साथ चावल खाने से ग्रीष्म ऋतु में कष्ट नहीं होता । इस ऋतु में मद्य नहीं पीना चाहिये और यदि पीना ही हो तो बहुत पानी मिलाकर पीना चाहिये । नमकीन, खट्टे, कड़ुवे और गरम रस पदार्थ तथा व्यायाम इस ऋतु में छोड़ देने चाहिये । दिन के समय ठण्डे मकानों में सोना चाहिये, और रात में चन्द्रमा की किरणों से ठण्डी की हुई मकान की छत पर खुली वायु में शरीर पर चन्दन मलकर सोना चाहिये । चन्दन और ठण्डे पानी से ठण्डे किये हुए पंखों से, या हाथ के स्पर्श से, मोती और मणिओं से शोभित पलंग पर सोये । जंगलों को, ठण्डे पानी ( झरने आदि ) को, और फूलों को ग्रीष्म काल में सेवन करे । ग्रीष्म ऋतु में मैथुन से अलग रहे ।

वर्षा काल की ऋतुचर्या—

आदानदुर्वले देहे पक्ता भवति दुर्बलः ।

स वर्षास्वनिलादीनां दूषणैर्वाध्यते पुनः ॥ ३३ ॥

भूवाष्पान्मेघनिस्यन्दात्पाकादम्लाज्जलस्य च ।

वर्षास्वप्निवले क्षीणे कुप्यन्ति पवनादयः ॥ ३४ ॥

तस्मात्साधारणं सर्वो विधिर्वर्षासु शस्यते ।

उदमन्थं दिवास्वप्नमवश्यायं नदीजलम् ॥ ३५ ॥

व्यायाममातपं चैव व्यवायं चात्र वर्जयेत् ।

पानभोजनसंस्कारान् प्रायः क्षौद्रान्वितान् भजेत् ॥ ३६ ॥

व्यक्ताम्ल वणस्नेहं वातवर्षाकुलेऽहनि ।

विशेषशीते भोक्तव्यं वर्षास्वनिलशान्तये ॥ ३७ ॥

अग्निं संरक्षणवता यवगोधूमशालयः ।

पुराणा जाङ्गलैर्मासैर्भोज्या यूषैश्च संस्कृतैः ॥ ३८ ॥

पिबेत्क्षौद्रान्त्रितं चाल्पं माध्वीकारिष्टमम्बु वा ।

माहेन्द्रं तप्तशीतं वा कौपं सारसमेव वा ।

प्रघर्षोद्धर्तनस्नानगन्धमाल्यपरो भवेत् ।

लघुशुद्धाम्बरः स्थानं भजेदक्लेदि वार्षिकम् ॥ ४० ॥

आदान काल में शरीर के निर्बल होने से अग्नि भी निर्बल हो जाती है । यह अग्नि वर्षा ऋतु में वायु, पित्त, कफ तीनों के दूषणों से दूषित हो जाती है । ग्रीष्म ऋतु में प्रचण्ड सूर्य की गरमी से भूमि के तप जाने से, वर्षा में बरसात पड़ने से, पानी के स्पर्श से, भूमि में से गरम भाप के निकलने से तीनों दोष कुपित हो जाते हैं, इसी प्रकार वादलों के बरसने से वात, कफ कुपित होते हैं, जल के अम्लपाक होने से पित्त कुपित होता है । वर्षा ऋतु में अग्नि-बल के क्षीण होने से वात, पित्त, कफ तीनों कुपित हो जाते हैं । इसलिये वर्षा में साधारण विधि का पालन करना चाहिये । पानी में घुला सत्तू, दिन में सोना, ओस, नदी का पानी, सम्भोग मैथुन, धूप और व्यायाम इस ऋतु में नहीं सेवन करने चाहियें । वर्षा काल में खान पान के अन्दर प्रायः करके शहद का उपयोग करना चाहिये । बरसात के दिनों में जिस दिन वायु और बरसात जोर का पड़ रहा हो और सर्दी बहुत हो, उस दिन वायु को शान्त करने के लिये अम्ल, लवण रस तथा स्नेह घी जिस अन्न में स्पष्ट दीखता हो, उसे विशेष करके खाना चाहिये । अग्नि की रक्षा करने के लिये जौ, गेहूँ, चावल (पुराने), जंगली वन के पशुओं का मांस एवं घी आदि से संस्कृत यूप खाने चाहियें । पित्त को शान्त करने के लिये थोड़ा शहद मिला माध्वीकारिष्ट (द्राक्षासव), अथवा पानी में शहद (थोड़ा) मिलाकर पीना चाहिये । वर्षा ऋतु में या तो आकाश से गिरा स्वच्छ पानी पीना चाहिये अथवा कूप या तालाब के पानी को गरम करके ठण्डा करके पीना चाहिये । तैल का मर्दन, उबटन लगाना, स्नान करना, सुगन्ध धारण करना, माला पहिनना, हलका और साफ़ वस्त्र पहिनना, तथा मूत्रे न्यान

पर रहना चलना आदि कार्य वर्षा ऋतु में करने चाहिये ।

शरद् ऋतु की परिचर्या—

वर्षाशीतोचिताङ्गाना सहसैवार्करश्मिभिः ।

तप्तानामाचितं पित्तंप्रायः शरदि कुप्यति ॥ ४१ ॥

तत्रान्नपानं मधुरं लघु शीतं सत्तक्तकम् ।

पित्तप्रशमनं सेव्यं मात्रया सुप्रकाङ्क्षितैः ॥ ४२ ॥

लावान् कपिशूलान् हरिणानुरभ्राञ्छरभाञ्छशान् ।

शालीन् सयवगोधूमान् सेव्यानाहुर्घनात्यये ॥ ४३ ॥

तित्तस्य सर्पिपः पानं विरेको रक्तमोक्षणम् ।

धाराधरात्यये कार्यमातपस्य च वर्जनम् ॥ ४४ ॥

वसां तैलमवश्यायमौदकानूपमामिपम् ।

चारं दधि दिवास्वप्नं प्राग्वातं चात्रवर्जयेत् ॥ ४५ ॥

वर्षा ऋतु में काल स्वभाव से संचित हुआ पित्त शरद् काल में वादलों के हट जाने से, सूर्य के किरणों के ताप से सहसा कृपित होता है । इसलिये इस ऋतु में मधुर, लघु, शीत और तित्त, पित्तशामक खान पान परिमाण में खाना चाहिये । वटेर, कट-फोडा ( गन्जन ), हरिण, मेढा, वारहसीगा और खरगोश इनका नास, चावल, जौ, गेहू इनको शरद् काल में खाना चाहिये । तित्त औषधियों में संस्कृत घृत ( पचतित्त घृत ), विरेचन, रक्तमोक्षण, शिरावेध, जौक आदि में रक्त का निकलवाना और धूप का सेवन न करना ये काम वादलों के चले जाने पर शरद् ऋतु में करने चाहिये । इस ऋतु में चर्वी, तेल, ओस, जलचर प्राणियों का मांस, क्षार, दही, दूध में सोना सामने में आती हुई वा पुरवा वायु का त्याग करना चाहिये ।

हंसोदक का लक्षण—

दिवा सूर्याशुसन्तप्र निशि चन्द्रांशुशीतलम् ।

कालेन पक्वं निर्दोषमगस्त्यनाविपीकृतम् ॥ ४६ ॥

हंसोदकमिति ख्यातं शारदं विमलं शुचि ।

स्नानपानावगाहेषु हितमम्बु यथाऽमृतम् ॥ ४७ ॥

दिन मे सूर्य की किरणों से गरम और रात्रि मे चन्द्रमा की शीतल किरणों से ठण्डा होने वाला कालस्वभाव से पका हुआ अर्थात् वर्षा का जल जिसमे न रहा हो । इससे दोष रहित, अगस्त्य नक्षत्र के उदय होने के प्रभाव से निर्मल, ( विष रहित ) पानी को हंसोदक ( चन्द्रार्क ) कहते हैं । यह हंसोदक शरद् ऋतु में निर्मल और पवित्र है । इसलिये स्नान कार्य मे, पीने में, अवगाहन, पानी में बैठने आदि कार्यों मे उत्तम और अमृत के समान है । शरत्काल में रात्रि के प्रथम प्रहर मे चन्द्रमा की किरणों का सेवन करना भी उत्तम है ।

शारदानि च माल्यानि वासांसि विमलानि च ।

शरत्काले प्रशस्यन्ते प्रदोषे चेन्दुरश्मयः ॥ ४८ ॥

इत्युक्तमृतुसात्म्यं यच्चेष्टाहारव्यपाश्रयम् ।

उपशेते यदौचित्यादोकःसात्म्यं तदुच्यते ॥ ४९ ॥

देशनामामयानां च विपरीतगुणं गुणैः ।

सात्म्यमिच्छन्ति सात्म्यज्ञाश्चेष्टितं चाद्यमेव च ।

( चेष्टा ) क्रिया और आहार, खान विहार के आश्रित अर्थात् ऋतुओं के अनुकूल जो कर्म है, वे कह दिये । पुरुष की प्रकृति के अनुसार जो उचित अनुकूल पड़ता है, उसे 'ओक-सात्म्य' कहते हैं ।

जो आहार या विहार देश ( जांगल, आनूप और साधारण ) एवं रोग इनके गुणों के विपरीत, अपने गुण, वीर्य, विपाक से होते हैं, उन आहार विहार को 'सात्म्य' को जानने वाले विद्वान् 'सात्म्य' कहते हैं ।

तत्र श्लोकाः—

ऋतावृतौ नृभिः सेव्यमसेव्यं यच्च किञ्चन ।

तस्याशितीये निर्दिष्टं हेतुमत्सात्म्यमेव च ॥ ५१ ॥

प्रत्येक ऋतु में मनुष्यों को क्या २ सेवन करना चाहिये और क्या २



नहीं सेवन करना चाहिये, और कारण के असात्म्य को भी इस तस्याशित्तीय अध्याय में कह दिया ।

इत्यासिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने त्वस्थवृत्तचतुष्के  
तस्याशित्तीयो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

### अथ सप्तमोऽध्यायः ।

अथातो न वेगान्धारणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

मल सूत्रादि के उपस्थित वेगों को रोकने का प्रतिषेध करने के लिये 'न वेगान् धारणीय' नामक अध्याय कहते हैं । भगवानात्रेय ने इसका उपदेश किया है ।

- न वेगान् धारयेद्धीमाञ्जातान्मूत्रपुरीषयोः ।  
न रेतसो न वातस्य न वम्याः क्ष्वथोर्न च ॥ ३ ॥
- नोद्गारस्य न जम्भाया न वेगान् क्षुत्पिपासयोः ।  
न वाष्पस्य न निद्राया निःश्वासस्य श्रमेण च ॥ ४ ॥
- एतान् धारयतो जातान् वेगान् रोगा भवन्ति ये ।  
पृथक्पृथक् चिकित्मार्थं तन्मे निगदत शृणु ॥ ५ ॥

बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिये कि उपस्थित हुए मूत्र मल के वेगों को नहीं रोके । इसी प्रकार शुक, अपान आदि वायु, वमन, छींक, त्कार, जम्भाई, भ्रूख और प्यास, हर्ष या शोक के कारण उत्पन्न आंसू, आँसू और श्रमजनित तीव्र प्रश्वास के वेगों को भी नहीं रोकना चाहिये । इन उपस्थित वेगों को रोकने से जो जो रोग होते हैं, उनकी चिकित्सा के लिये पृथक् पृथक् उपदेश करते हैं, सुनो ।

वस्तिमेहनयोः शूलं मूत्रकृच्छ्रं शिरोरुजा ।

विनामो वंचणानाहः स्याल्लिङ्गं मूत्रनिग्रहै ॥ ६ ॥

मूत्र के उपस्थित वेगको रोकने से 'वस्ति' (मूत्राशय Bladder), और लिंग में दर्द होती है, मूत्र त्याग में कष्ट होता है, मूत्र थोडा २ आता है, शिर में दर्द, मूत्र वेग के कारण खींच होने से शरीर मुड़ झुक जाता है वंचण प्रदेश (पेट) जकड़ा हुआ प्रतीत होता है, अथवा उस प्रदेश में फुलाव प्रतीत होता है ये लक्षण मूत्र के उपस्थित वेग को रोकने से होते हैं । इस की चिकित्सा—

स्वेदावगाहनाभ्यङ्गान् सर्पिषश्चावपीडकम् ।

मूत्रे प्रतिहते कुर्यात्त्रिविधं वस्तिकर्म च ॥ ७ ॥

(स्वेद) पसीना देना, (अवगाहन) गरम पानी को नांद में भरकर उस में बैठना, (अभ्यंग) तैल आदि मर्दन और घी का नस्य देना ये तीन प्रकार का वस्ति कर्म, निरूहण, अनुवासन और उत्तर वस्ति मूत्र के उपस्थित वेग को रोकने के प्रतिकार हैं ।

पक्काशयशिरःशूलं वातवर्चोनिरोधनम् ।

पिण्डिकोद्वेष्टनाध्मानं पुरीषे स्याद्विधारिते ॥ ८ ॥

मल के उपस्थित वेग को रोकने से पक्काशय अर्थात् नाभि के नीचे का भाग और शिर में वेदना होती है, अपान वायु, मल बन्द हो जाने है, पिण्डलियों में ऐठन होने लगती है, पेट से अफरा चढ़ जाता है ।

चिकित्सा—

स्वेदाभ्यङ्गावगाहाश्च वर्तयो वस्तिकर्म च ।

हितं प्रतिहते वर्चस्यन्नपानं प्रमाथि च ॥ ९ ॥

स्वेद पसीना देना अभ्यंग मर्दन अवगाहन नांद या टव आदि में स्नान ( Tub-bath ), फलवर्त्ति, 'सपोजीटरी' एवं अन्न पान खान-पान, विरेचन द्रव्यों का घी और तैल आदि द्वारा चूर्ण, काथ, कल्कादि

के रूप में बनाकर देना और वात को अनुलोमन करने वाली औषध मल के रोकने में हितकारी है ।

मेढे वृषणयोः शूलमङ्गमदो हृदि व्यथा ।

भवेत्प्रतिहते शुक्रे विवद्वं मूत्रमेव च ॥ १० ॥

वीर्य के उपस्थित वेग को रोकने से लिंग और अण्डकोषों में वेदना होनी है, अंग टूटते हुए प्रतीत होते हैं चेतना के स्थान हृदय में वेदना अनुभव होती है और मूत्र भी बन्द हो जाता है । चिकित्सा—

तत्राभ्यङ्गावगाहाश्च मदिरा चरणायुधा ।

शालिः पयो निरूहाश्च शस्तं मैथुनमेव च ॥ ११ ॥

तैलमर्दन, अवगाहन स्नान ( द्रोणीस्नान ), मद्य, कुक्कट जाति के मांस, हेमन्तिक धान्य, दूध, वस्तिकर्म और मैथुन कर्म ये शुक्र वेग के निराध में उत्पन्न रोगों की चिकित्सा है ।

वातमूत्रपुरीपाणां सङ्गो ध्मानं कुमो रुजा ।

जठरे वातजाश्चान्ये रोगाः स्युर्वातनिग्रहात् ॥ १२ ॥

अपान वायु के रोकने से, वात अपान वायु, मूत्र, और पुरीप रुक जाते हैं । अफारा हो जाता है थकान की अंगों में प्रतीति होना, पेट में पीडा और अन्य वात जन्य रोग भी हो जाते हैं । चिकित्सा—

स्नेहस्वेदविधिस्तत्र वर्तयो भोजनानि च ।

पानानि वस्तयश्चैव शस्तं वातानुलोमनम् ॥ १३ ॥

स्नेह ( तैल या घृत ) एवं स्वेद या पसीना देना चाहिये, फलवर्तिया, भोजन-पान निरूह या अनुवासन, वातनाशक खान पान, और वस्तिकर्म उत्तम हैं ।

कण्डूकोठरुचिव्यङ्गशोथपाण्ड्वामयज्वराः ।

कुष्ठहृल्लासवोसर्पाश्च्यर्दिनिग्रहजा गदाः ॥ १४ ॥

वमन के रोकने में खाज, कौड, उदर्द ( Urticaria ) भोजन में अनिच्छा, झाँड, मुख पर काले २ दाग आना, सूजन, पाण्डु रोग,

ज्वर, कोढ़, उच्छ्वेश, वमन की रुचि, जी चलाना, वीसर्प ( एकज्जीमा ) ये रोग उत्पन्न होते हैं । चिकित्सा—

भुक्त्वा प्रच्छर्दनं धूमो लङ्घनं रक्तमोक्षणम् ।

रूक्षान्नपानं व्यायामो विरेकश्चात्र शस्यते ॥ १५ ॥

भोजन खिलाकर वमन कराना चाहिये, धूम, धूम्रपान, उपवास शिराव्यधन करके रक्त का निकालना, रूखे अन्न और पान ( खान पान ), व्यायाम और विरेचन ये उपाय उत्तम हैं ।

मन्यास्तम्भः शिरः शूलमर्दितार्धावभेदकौ ।

इन्द्रियाणां च दौर्बल्यं क्षवथोः स्याद्विधारणात् ॥ १६ ॥

छोंक के रोकने से ग्रीवा का जकड़ जाना, शिरोवेदना, चेहरे का लकवा, आधासीसी आंख आदि इन्द्रियो की निर्बलता आदि रोग हो जाते हैं ।

तत्रोर्ध्वजत्रुकेऽभ्यङ्गः स्वेदो धूमः सनावन ।

हितं वातघ्नमाद्यं च घृतं चोत्तरभक्तिकम् ॥ १७ ॥

चिकित्सा—ग्रीवा से ऊपर के भागों में मालिश, पसीना देना, धूम्रपान नस्य, वातनाशक भोजन और खाना खाने के पीछे घृत पान करना हितकारी है ।

हिक्का कासोऽरुचिः कम्पो विबन्धो हृदयोरसोः ।

उद्गारनिग्रहात्तत्र हिक्कायास्तुल्यमौषधम् ॥ १८ ॥

डकार को रोकने पर हिचकी का आना, श्वास, दम चढना, भोजन में अनिच्छा, सिर छाती का कांपना, छाती और हृदय का रुक जाना या अवरोध ये रोग हो जाते हैं । चिकित्सा—डकार के रोकने से उत्पन्न विकार की शान्ति के लिये हिचकी के समान औषध करनी चाहिये ।

विनामाक्षेपसंकोचाः सुप्तिः कम्पः प्रवेपनम् ।

जम्भाया निग्रहात्तत्र सर्वं वातघ्नमौषधम् ॥ १९ ॥

जम्भाई के रोकने से चेहरे का विकृत होजाना, आक्षेप अर्थात् हाथ पांव का जोर से कम्पन, चालन, पर्वसन्धियों का आकुञ्चन, अंगों का सो जाना

स्पर्श ज्ञान का अभाव, कांपना-हिलना आदि होता है । चिकित्सा के लिये वान नाशक उपचार करना चाहिये ।

कार्श्यदौर्बल्यवैवर्यमङ्गमर्दोऽरुचिर्भ्रमः ।

श्रुद्वेगनिग्रहात्तत्र स्निग्धोष्णं लघु भोजनम् ॥ २० ॥

भ्रुव रोकने से कृग्रता, दुर्बलता, रंग का बदल जाना, अंग प्रत्यगों में वेदना, उनका टूटते हुए प्रतीत होना, अनिच्छा, चक्कर आना, ये लक्षण होते हैं । चिकित्सा—स्निग्ध, चिकना, गरम और हल्का भोजन देना चाहिये ।

कण्ठास्यशोपो वाधिर्यं श्रमः श्वासो हृदि व्यथा ।

पिपामानिग्रहात्तत्र शीतं तर्पणमिष्यते ॥ २१ ॥

श्वास के रोकने से गले और मुख का खुश्क हो जाना, बहरापन थकान, श्वास, दम का चढ़ना, आमाशय प्रदेश में दर्द ये कष्ट होते हैं । चिकित्सा—शीतल, नृसि करने वाले खान पान देने चाहिये ।

प्रतिश्यायोऽक्षिरोगश्च हृद्रोगश्चारुचिर्भ्रमः ।

वाष्पनिग्रहणात्तत्र स्वप्नो मद्यं प्रियाः कथाः ॥ २२ ॥

आसुओं के रोकने से नाक से पानी क्षरना, कफ का स्राव होना, आंखों के रोग हृदय रोग, अनिच्छा और भ्रम, सिर में चक्कर आदि कष्ट होते हैं । चिकित्सा—नाद मदिग का पान, आनन्ददायक प्रिय वातचीत करनी चाहिये ।

जृम्भाऽङ्गमर्दस्तन्द्रा च शिरोरोगान्निगौरवम् ।

निद्राविधारणात्तत्र स्वप्नः संवाहनानि च ॥ २३ ॥

नाद रोकने से जृम्भाई, अंगों का टूटना ( शरीर में भारीपन ), शिर की वेदना, और आंख या पलके भारी हो जाती हैं ।

चिकित्सा—नाद लाना, अंगों का संवाहन अर्थात् हाथों से अंगों को मसूना कल्याणकारी है ।

गुल्महृद्रोगममोहाः श्रमनिश्वासधारणान् ।

जायन्ते, तत्र विश्रामो वातत्राश्च क्रिया हिता ॥ २४ ॥

थकान से उत्पन्न निःश्वास को रोकने से गुल्मरोग, हृद-रोग,

संमोह ( मूर्च्छा ) उत्पन्न होती है । इस के लिये विश्राम, आराम एवं वातनाशक उपचार करने चाहियें ।

वेगनिग्रहजा रोगा य एते परिकीर्तिताः ।

इच्छंस्तेषामनुत्पत्ति वेगानेतान्न धारयेत् ॥ २५ ॥

उपस्थित वेगो को रोकने से उत्पन्न होने वाले रोग कह दिये । इन रोगो की उत्पत्ति को न चाहने वाले व्यक्ति को चाहिये कि वह इन वेगो को न रोका करे ।

इमास्तु धारयेद्वेगान् हितैषी प्रेत्य चेह च ।

साहसानामशस्तानां मनोवाक्कायकर्मणाम् ॥ २६ ॥

लोभशोकभयक्रोधमानवेगान् विधारयेत् ।

नैर्लब्ध्येष्यातिरागाणामभिध्यायाश्च बुद्धिमान् ॥ २७ ॥

परुषस्यातिमात्रस्य सूचकस्यानृतस्य च ।

वाक्यस्याकालयुक्तस्य धारयेद्वेगमुत्थितम् ॥ २८ ॥

देहप्रवृत्तिर्या काचिद्वर्तते परपीडया ।

स्त्रीभोगस्तेयहिसाद्या तस्या वेगान्विधारयेत् ॥ २९ ॥

पुण्यशब्दो विपापत्वान्मनोवाक्कायकर्मणाम् ।

धर्मार्थकामान् पुरुषः सुखी भुङ्क्ते चिनोति च ॥ ३० ॥

इहलोक और परलोक की हित कामना करने वाले मनुष्य को चाहिये कि इन आगे कहे वेगो को धारण करे जैसे—अयोग्य अनुचित साहस और मन वाणी और शरीर के निन्दित कर्मों के उपस्थित वेगो को रोके ।

मन के निन्दित कार्य जैसे—लोभ, अनुचित विषय में मन की प्रवृत्ति ( शोक ) धन वान्धव आदि के कारण दुःख में मन की प्रवृत्ति, भय, क्रोध जिसके कारण मनुष्य अपने को जलता हुआ प्रतीत करता है, ( द्वेष ) वैर, दूसरे के अपकार करने में मन की प्रवृत्ति, ( मान ) महत्त्व, अभिमान में मन की प्रवृत्ति, ( जुगुप्सित ) दूसरे की निन्दा, ( निर्लज्जा ) लज्जा का अभाव

(ईर्ष्या) फुड़ना, (अभिध्या) दूसरे के द्रव्य को लेने की लालसा, बुद्धि इन मन के निन्दित कार्यों को रोकना चाहिये ।

चाणी के निन्दित कर्म—कर्कश, कठोर विशेषतः दूसरे की निन्दा या अनिष्ट करने की इच्छा से झूठी और अप्रसंगिक चाणी के वचन को रोकना चाहिये ।

शरीर के निन्दित कर्म—दूसरे को दुःख देने की जो कोई शरीर की चेष्टा हो उसे, स्रो-भोग पर-स्त्रीसम्भोग, स्तेय (चोरी), हिंसा (दुःख कष्ट देना, मारना) आदि शरीर कार्यों के उपस्थित वेगों को रोकना चाहिये ।

अपनी आत्मा के प्रतिकूल जो कार्य हों वे कार्य दूसरे के लिये भी नहीं करने चाहिये । मनुष्य मन वचन और शरीर से पापरहित होकर ही 'पुण्य', शब्द का भागी होता है । उसमें 'पुण्य' शब्द तभी सार्थक होता है और तभी वह धर्म, अर्थ, और काम इनको प्राप्त करता है, और सुख का भी भोग कर सकता है ।

व्यायाम—

शरीरचेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धिनी ।

देहव्यायामसंख्याता मात्रया तां समाचरेत् ॥ ३१ ॥

लाघवं कर्मसामर्थ्यं स्थैर्यं क्लेशसहिष्णुता ।

दोषक्षयोऽग्निवृद्धिश्च व्यायामादुपजायते ॥ ३२ ॥

जो शारीरिक चेष्टायें शरीर की स्थिरता, दृढ़ता के लिये शरीर के बल को बढ़ाने की इच्छा से की जाती हैं, उनको 'व्यायाम' कहते हैं । इस व्यायाम को 'मात्रा' में मेवन करना चाहिये । व्यायाम के गुण—

व्यायाम करने से शरीर में हल्कापन काम करने की शक्ति शरीर एवं याँवन का टिकाऊपन, दुःख को सहन करने की शक्ति, वात आदि दोषों का शमन जठराग्नि की प्रदीप्ति होती है । अधिक व्यायाम से हानियाँ—

श्रमः क्लमः क्षयस्तृष्णा रक्तपित्तं प्रतामकः ।

अतिव्यायामतः कासो ज्वरश्छर्दिश्च जायते ॥ ३३ ॥

शरीर का थकान, मन और इन्द्रियो का थकान धातुओ का क्षय, रक्तपित्त रोग, प्रतमक संज्ञक श्वास खांसी, और वमन अधिक व्यायाम से उत्पन्न होते हैं ।

व्यायामहास्यभाष्याध्वग्राम्यधर्मप्रजागरान् ।

नोचितानपि सेवेत बुद्धिमानतिमात्रया ॥ ३४ ॥

एतानेवविधांश्चान्यान् योऽतिमात्रं निषेवते ।

गजः सिंहमिवाकर्षन् सहसा स विनश्यति ॥ ३५ ॥

उचितादहिताद्धीमान् क्रमशो विरमेन्नरः ।

शरीर को परिश्रम, हंसना, ऊंचा या अधिक बोलना, ( मार्ग चलना सफ़र करना), ग्राम्य धर्म, मैथुन, प्रजागर (रात को जागना), इन उचित कार्यों को भी बुद्धिमान् मनुष्य अधिक मात्रा में सेवन न करे ।

इन ऊपर लिखे हुए या अन्य इसी प्रकार के कार्यों को जो मनुष्य अधिक परिमाण में सेवनकरता है, जिस प्रकार कि सिंह, हाथी को खींचता हुआ स्वयं मर जाता है, उसी प्रकार वह मनुष्य भी नष्ट हो जाता है । इसलिये बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिये कि छोड़ने योग्य उन दुःखदायी क्रमों से क्रमशः हट जावे ।

हितं क्रमेण सेवेत, क्रमश्चात्रोपदिश्यते ॥ ३६ ॥

प्रक्षेपापचये ताभ्यां क्रमः पादाशिको भवेत् ।

एकान्तरं ततश्चोर्ध्वं व्यान्तरं त्र्यन्तरं तथा ॥ ३७ ॥

क्रमेणापचिता दोषाः क्रमेणोपचिता गुणाः ।

सन्तो यान्त्यपुनर्भावमप्रकम्प्या भवन्ति च ॥ ३८ ॥

हितकारी कार्यों को ( क्रमशः ) सेवन करना चाहिये । यहां अब क्रम का उपदेश करते हैं । छोड़ने लायक ( संवय करने योग्य ) कार्य को चौथाई २ भाग करके क्रम से सेवन करना चाहिये । फिर दो और फिर तीन भाग छोड़ कर ग्रहण करना चाहिये । अर्थात् छोड़ने योग्य



एवं ग्रहण करने योग्य कार्य दोनो के चार चार भाग करने चाहिये । छोड़ने योग्य कर्म का एक भाग छोड़कर ग्रहण करने योग्य कर्म का एक भाग उसके स्थान पर ग्रहण करना चाहिये । फिर दो भाग छोड़ कर दो भाग ग्रहण करने चाहिये और फिर तीन भाग छोड़कर तीन भाग ग्रहण करने चाहिये और पुनः सारा छोड़कर सारा ग्रहण करलेना चाहिये । ग्रहण करते समय एक दो तीन चार दिन का अन्तर क्रम से देना चाहिये । ऊपर बताये हुए क्रम पूर्वक छोड़े हुए दोष फिर पैदा नहीं होते और क्रम से ग्रहण किये हुए गुण नष्ट नहीं होते, चिरकाल तक स्थिर रहते हैं । हितकारी पदार्थ भी सहसा उपयोग करने से अग्निनाश अरुचि आदि करते है, इसलिये इनको भी क्रम से ही ग्रहण करना चाहिये । इन सब कार्यों मे मनुष्य की प्रकृति का ज्ञान अपेक्षित है, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे है जो कि एक के लिये अहितकारी हों, परन्तु दूसरे के लिये हितकारी ।

समपित्तानिलकफाः केचिद्गर्भादिमानवाः ।

दृश्यन्ते वातलाः केचित्पित्तलाः श्लेष्मलास्तथा ॥ ३९ ॥

तेषामनातुराः पूर्वे, वातलाद्या सदाऽऽतुराः ।

दोषानुशयिता ह्येषां देहप्रकृतिरुच्यते ॥ ४० ॥

विपरीतगुणस्तेषां स्वस्थवृत्तेर्विधिहितः ।

समसर्वरसं सात्म्यं समधातोः प्रशस्यते ॥ ४१ ॥

कुछ मनुष्य जन्म या गर्भकाल से ही पित्त, वायु, कफ की असमानावस्था वाले होते है और कुछ मनुष्य गर्भाधान काल से ही वात प्रकृति वाले, पित्त प्रकृति वाले और कफ प्रकृति वाले होते हैं । इन मे पित्त वायु और कफ की साम्यावस्था वाले मनुष्य प्रायः नीरोग रहते है, और वात प्रकृति या पित्त प्रकृति अधवा कफ प्रकृति के मनुष्य सदा रोगी रहते है । इन में वातादि दोषों का श्लात्भ्य अर्थात् अनुकूल हो जाना ही शरीर की 'प्रकृति' कही जाती है ।

अर्थात् वात प्रकृति वाले मनुष्य में वात दोष उस के शरीर के अनुकूल हो जाता है । इसलिये वहाँ उसकी प्रकृति है, प्रकृति होने से वात उस में दोष नहीं, परन्तु जब स्वस्थावस्था में वात बढ़ेगा तभी दोष होगा । जिस प्रकार कि विषकीट अपने विष से नहीं मरता, उसी प्रकार प्रकृतिस्थ वात से भी वात प्रकृति का मनुष्य पीड़ित नहीं होता । इन वात आदि की अधिकता में वात आदि के विपरीत विरुद्ध गुणों का इनके कारणों के विपरीत गुण भी सेवन करना स्वास्थ्य के लिये कल्याणकारी उपाय है । और पित्त, वायु और कफ की समानता वाली प्रकृति के मनुष्यों के लिये सब (मधुर अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, और कषाय) रसों का समानावस्था में अभ्यास करना उत्तम है ।

द्वे अधः सप्त शिरसि खानि स्वेदमुखानि च ।

मलायनानि बाध्यन्ते दुष्टैर्मात्राधिकैर्मलैः ॥ ४२ ॥

मलवृद्धिं गुरुत्वेन लाघवान्मलसंक्षयम् ।

मलायनानां बुद्धयेत सङ्गोत्सर्गादतीव च ॥ ४३ ॥

तान्दोषलिङ्गैरादिश्य व्याधीन् साध्यानुपाचरेत् ।

व्याधिहेतुप्रतिद्वन्द्वैर्मात्राकालौ विचारयन् ॥ ४४ ॥

विषमस्वस्थवृत्तानामेते रोगास्तथाऽपरे ।

जायन्तेऽनातुरस्तस्मात्स्वस्थवृत्तपरो भवेत् ॥ ४५ ॥

जब मल परिमाण से अधिक हो जाते हैं, तब वे विकृत हो कर मल के स्थानों को पीड़ित करते हैं, मल के स्थान नीचे के दो गुदा और उपस्थ (छ्रियो में योनि भी), शिर में सात—दो नाक, दो कान, दो आँखें और एक मुख, पसीना निकलने के सब छिद्र ये मल के स्थान हैं, मल इनको पीड़ित करते हैं । शरीर में भारीपन होने से मल की वृद्धि समझना चाहिये और शरीर में हल्कापन होने से मल का क्षय समझना चाहिये । और मल के स्थानों से मल का न निकलना अथवा मल स्थानों से मल का बार बार अधिक बाहर निकलना वृद्धि को बताता है । मलों

की वृद्धि और क्षय दूसरों के कारण हुए हैं, यह समझकर उनके चिन्हों से पहिचानकर उन से उत्पन्न साध्य रोगों को रोग, और व्याधि के हेतु इन दोनों के विपरीत गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव से विरुद्ध औषध, आहार और विहार द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये । चिकित्सा करते समय वैद्य मात्राऔषध, आहार और विहार का परिमाण काल, द्रोप, व्याधि के प्रकोप, ऋतु, रात, दिन आदि समयों का विचार करले । ये विषम धातु वाले रोगी, और निरोगी इन दोनों के लिये हितकारी हैं, धातु की विषमता से उत्पन्न होने वाले रोग और मानस या आगन्तुज रोग नहीं उत्पन्न होते । इसलिये मनुष्य रोगी नहीं होता, रोगी न हो अतः रोगी होने से पूर्व ही स्वस्थवृत्त का मेवन करना चाहिये ।

कारण से उत्पन्न होने वाले रोगों से बचने के लिये उपाय—

माधवप्रथमे मासि नभस्यप्रथमे पुनः ।

सहस्यप्रथमे चैत्र हारयेद्रोपसंचयम् ॥ ४६ ॥

स्निग्धस्निग्धशरीराणामूर्ध्वं चाधश्च बुद्धिमान् ।

वस्तिकर्म ततः कुर्यान्नस्त.कर्म च बुद्धिमान् ॥ ४७ ॥

यथाक्रमं यथायोगमत ऊर्ध्वं प्रयोजयेत् ।

रसायनानि सिद्धानि वृष्ययोगांश्च कालवित् ॥ ४८ ॥

रोगास्तथा न जायन्ते प्रकृतिस्थेषु धातुषु ।

धातवश्चाभिद्वर्धन्ते जरामान्द्यमुपैति च ॥ ४९ ॥

त्रिधिरेप विकाराणामनुत्पत्तौ निदर्शितः ।

निजानामितरेषां तु पृथगंवापदिश्यते ॥ ५० ॥

वैशाख और इस से पूर्व के मास अर्थात् चैत्र में, और भाद्रपद, इससे पूर्व के मास अर्थात् श्रावण में तथा पौष इससे मास पूर्व के मार्गशीर्ष में एकत्रित द्रोषों को वमन विरेचन आदि से निकाल देना चाहिये । हेमन्त ऋतु में सञ्चित कफ को चैत्र मास में ग्रीष्म में सञ्चित वायु को श्रावण मास में, वर्षा में सञ्चित पित्त को मार्गशीर्ष में निकाल देना

चाहिये । इन मासों में दोषों के प्रकोप होने का भय रहता है, इसलिये प्रकोप होने से पूर्व ही दोषों को निकाल देना चाहिये । पहिले शरीर को स्निग्ध तैल आदि से चिकना करके पसीना देना चाहिये जिससे कि शरीर के स्रोत खुल जायें । स्नेहन और स्वेदन के पीछे वमन कार्य और विरेचन कराना चाहिये । इन के पीछे वस्ति कर्म और अन्त में नस्य कर्म अर्थात् शिरोविरेचन देना चाहिये । स्निग्ध और स्विन्न शरीर वाले पुरुषों के लिये वमन कफ नाशक होने से चैत्र में, अनुवासन, वस्तिकर्म वात हर होने में श्रावण मास में एवं पित्तनाशक होने से विरेचन मार्गशीर्ष मास में लेना चाहिये । अथवा चैत्र मास में वमन के पीछे विरेचन, मार्गशीर्ष में विरेचन से पूर्व वमन, और फिर चैत्र और मार्गशीर्ष दोनों में वस्तिकर्म एवं नस्य कर्म करना चाहिये । चैत्र में यदि वमनादि कार्य कर लिए हो तो श्रावण मास में अनुवासन और आस्थापन करना चाहिये । और यदि चैत्र में वमनादि न किये हों तो वमन विरेचन करके फिर वस्तिकर्म और नस्य कर्म करना चाहिये । स्नेह के पीछे स्वेद, स्वेद के पीछे वमन, वमन के पीछे विरेचन, विरेचन के पीछे वस्तिकर्म और वस्तिकर्म के पीछे नस्य देना चाहिये । प्रथम स्वेदन, वमन, विरेचन, वस्ति और नस्य कर्म ये क्रमशः तथा जिस पुरुष के लिये जो २ कर्म योग्य हो उन्हें करने के पीछे जरा और रोग को दूर करने वाली औषध का उपयोग करना चाहिये । रसायन सेवन के पीछे सिद्ध एवं वृष्य पौष्टिक प्रयोगों का सेवन समय को जानने वाला वैद्य करावे । रस रक्तादि धातुओं के प्रकृतिस्थ होने से शरीर में दोषजन्य रोग नहीं होते । वृष्य आदि क्रिया करने से रस रक्तादि बढ़ते हैं, और बुढ़ापे का अन्त हो जाता है, बुढ़ापा नहीं आता । यह उपरोक्त विधि शरीर-दोषजन्य रोगों की अनुत्पत्ति के लिये कहा है । आगन्तुक रोगों के लिये भिन्न विधि कहते हैं ।

ये भूतविषवाय्वग्निसंप्रहारादिसंभवाः ।

नृणामागन्तवो रोगाः प्रज्ञा तेष्वपराध्यति ॥ ५१ ॥

ईर्ष्याशोकभयक्रोधमानद्वेषाद्यश्च ये ।

मनोविकारास्तेऽप्युक्ताः सर्वे प्रज्ञापराधजाः ॥ ५२ ॥

जो कि ( भूत ) नाना सूक्ष्म प्राणां ग्रह आदि, ( विष ) स्थावर या जंगम विष, ( वायु ) झंझावात ( अग्नि ) ज्वालामुखी, ढावानल आदि ( सप्रहार ) चोट आदि ये मनुष्यों के 'आगन्तुज' अर्थात् बाहर से होने वाले रोग होते हैं। उन में बुद्धि का अपराध मिथ्या या अन्यथा रूप में प्रयोग हुआ होता है। ईर्ष्या ( मत्सर ), शोक, भय, क्रोध, अभिमान, द्वेष आदि मन के विकार अर्थात् रोग हैं ये वात आदि दोषजन्य नहीं प्रत्युत ये सब बुद्धि के दोष से ही उत्पन्न होते हैं।

आगन्तुज रोगों के प्रतिकार—

त्यागः प्रज्ञापराधानामिन्द्रियोपशमः स्मृतिः ।

देशकालात्मविज्ञानं सद्बृत्तस्यानुवर्त्तनम् ॥ ५३ ॥

आगन्तूनामनुत्पत्तावेप मार्गो निदर्शितः ।

प्राज्ञः प्रागेव तत्कुर्याद्धितं विद्याद्यदात्मनः ॥ ५४ ॥

आप्तोपदेशप्रज्ञानं प्रतिपत्तिश्च कारणम् ।

विकाराणामनुत्पत्तावुत्पन्नानां च शान्तये ॥ ५५ ॥

आगन्तुज एवं मानसिक रोग बुद्धि के दोष से उत्पन्न होते हैं, इस लिये इस प्रज्ञापराध को छोड़ना चाहिये। इन्द्रियों को विषयो से रोकना बुद्धि, स्मृति, भगवान् का स्मरण, देश काल और आत्मा का चिन्तन, (सद् बृत्त) सच्चे, कल्याणकारी मार्ग का अनुसरण करना, यह विधि आगन्तुज रोगों की उत्पत्ति से बचने का मार्ग है। इस प्रकार बरतने से आगन्तुज रोग उत्पन्न नहीं होते। बुद्धिमान् व्यक्ति को चाहिये कि अपने लिये जो हितकारी काम हों उनको रोगोत्पत्ति में पूर्व ही करे।

(आप्तोपदेश) ग्जस् और तमस् में मुक्त निर्भ्रान्त विद्वानों के उपदेश और (प्रज्ञान) बुद्धि में सिद्ध, प्रमाण द्वारा सिद्ध किये, बुद्धि से स्वीकार

किये ये दोनो मानसिक विकारो की अनुत्पत्ति में तथा उत्पन्न विकारो की शान्ति मे कारण हैं ।

वर्जने योग्य मनुष्य—

पापवृत्तवचःसत्त्वाः सूचकाः कलहप्रियाः ।

मर्मोपहासिनो लुब्धाः परवृद्धिद्विषः शठाः ॥ ५६ ॥

परापवादरतयश्चपला रिपुसेविनः ।

निर्घृणास्त्यक्तधर्माणः परिवर्ज्या नराधमाः ॥ ५७ ॥

जिनकी वाणी और मन पापमय हों, चुगलखोर, झगड़ाळू, कमजोरी या छिद्र को हूँदकर उसपर हंसनेवाले, लालची, जो दूसरी की उन्नति मे द्वेष भाव रखते हैं, दूसरो की निन्दा ही करना जिनका काम है, चंचल प्रकृति, अस्थिर मन, दुश्मन से मिले हुए, या काम क्रोधादि के वशीभूत, दयारहित, निर्दयी, धर्म से न डरने वाले, ऐसे नीच पुरुषों को छोड़ देना चाहिये ।

सेवन करने योग्य मनुष्य—

बुद्धिविद्यावयःशीलधैर्यस्मृतिसमाधिभिः ।

वृद्धोपसेविनो वृद्धाः स्वभावज्ञा गतव्यथाः ॥ ५८ ॥

सुमुखाः सर्वभूतानां प्रशान्ताः शंसितत्रताः ।

सेव्याः सन्मार्गवक्ताः पुण्यश्रवणदर्शनाः ॥ ५९ ॥

जो बुद्धि, विद्या, आयु, शील, स्वभाव, धैर्य साहस, स्मरण शक्ति, ( समाधि ) मन का सयम आदि में अपने से बड़े हों, जो वृद्धो की सेवा करते हों, स्वभाव को जानने वाले, अनुभवी, गतव्यथ जिनको कि किसी प्रकार की चिन्ता नहीं, सुमुख सब प्राणियों के लिये प्रसन्नमुख, ( प्रशान्त ) इन्द्रियों के विषयो से निवृत्त, ब्रह्मचारी, सच्चे मार्ग का उपदेश करने वाले, पुण्य शब्दों को सुनाने वाले एवं पुण्य दर्शनशील, जिनका शब्द और दर्शन पवित्र करता है इस प्रकार के आप्त पुरुषों का सेवन करना चाहिये, उनको गुरु मानना

चाहिये, ये ज्ञान, विज्ञान, धैर्य्य स्मृति आदि की शिक्षा देकर मानस रोगों को नष्ट कर सकते हैं ।

आहाराचारचेष्टासु सुखार्थी प्रेत्य चेह च ।  
 परं प्रयत्नमातिष्टेद् बुद्धिमान् हितसेवने ॥ ६० ॥  
 न नक्तं दधि भुञ्जीत न चाप्यघृतशर्करम् ।  
 नामुद्गसूपं नाक्षौद्रं नोष्णं नामलकैर्विना ॥ ६१ ॥  
 (अलक्ष्मीदोषयुक्तत्राणक्तं तु दधि वर्जितम् ।  
 श्लेष्मलं स्यात्ससर्पिष्कं दधि मारुतसूदनम् ॥ ६२ ॥  
 न च संधुक्षयेत्पित्तमाहारं च विपाचयेत् ।  
 शर्करासंयुतं दद्यात्तृष्णादाहनिवारणम् ॥ ६३ ॥  
 मुद्गसूपेन संयुक्तं दद्यात्तृक्तानिलापहम् ।  
 सुरसं चाल्पदोषं च क्षौद्रयुक्तं भवेद्दधि ।  
 उष्णं पित्तास्रकृदोषान् धात्रीयुक्तं तु निर्हरेत् ॥ ६४ ॥  
 ज्वरासृक्पित्तवीसर्पकुष्ठपाण्ड्वामयभ्रमान् ।  
 प्राप्नुयात्कामलां चोग्रा विधिं हित्वा दधिप्रियः) ॥ ६५ ॥

इहलोक और परलोक में मुख चाहने वाले बुद्धिमान् व्यक्तिको चाहिये कि हितकारी आहार, खान पान, आचार वर्तन और चेष्टा क्रियाओं इन में विशेष रूप से यत्नवान् रहे ।

रात्रि में दही नहीं खानी चाहिये, और रात के सिवाय अन्य समय में जब खानी हो तब भी घी या शर्करा के बिना, मूंग की दाल के बिना, गहक के बिना, गरम किये बिना, अथवा आवले के बिना नहीं खानी चाहिये । जब खानी हो तो घी, मूंग, गहक, आवला, इन के साथ या गरम करके खानी चाहिये । रात को तो किसी भी प्रकार से नहीं खानी चाहिये । रात्रि में दही खाने से शरीर की श्लेष्मा और स्वास्थ्य नष्ट हो जाते हैं और शरीर के दोष कुपित होते हैं । दही में घी मिलाने से दही कफकारक हो जाती है । परन्तु वायु का नाश करती है । शर्करा युक्त दही

‘पित्त’ ( जठराग्नि या पित्त को ) नहीं बढ़ाती, परन्तु आहार भोजन को पचा देती है । इसलिये तृष्णा, प्यास और कलेजे की जलन को मिटाती है । मूंग के साथ मिलाकर दही खाने से ‘वातरक्त’ रोग में लाभ होता है । शहद के मिलाने से दही सुस्वादु और थोड़े द्रोप वाली हो जाती है । दही को गरम करके खाने से रक्तपित्त जन्य विकार नष्ट होते हैं, आंवले के साथ खाने से भी रक्त पित्त रोग शान्त होता है । बहुत दही खाने वाला मनुष्य जो इस उपरोक्त विधि को छोड़ कर दही खाता है, उसको ज्वर, रक्तपित्त, वीसर्प, कुष्ठ, पाण्डुरोग, भ्रम, और तीव्र कामला रोग हो जाते हैं ।

तत्र श्लोकाः ।

वेगा वेगसमुत्थाश्च रोगास्तेषां च भेषजम् ।  
 येषां वेगा विधार्याश्च यदर्थं यद्धिताहितम् ॥ ६६ ॥  
 उचिते चाहिते वर्ज्ये सेव्ये चानुचिते क्रमः ।  
 यथाप्रकृति चाहारो मलायनगदौषधम् ॥ ६७ ॥  
 भविष्यतामनुत्पत्तौ रोगाणामौषधं च यत् ।  
 वर्ज्याः सेव्याश्च पुरुषा धीमताऽऽत्मसुखार्थिना ॥ ६८ ॥  
 विधिना दधि सेव्यं च येन यस्मात्तदत्रिजः ।  
 न वेगान्धारणेऽध्याये सर्वमेवावदन्मुनिः ॥ ६९ ॥

मनुष्यो में उत्पन्न होने वाले स्वाभाविक वेग, वेगो को रोकने से उत्पन्न होने वाले रोग, इन रोगो की औषध, जिन के उपस्थित वेग धारण करने चाहियें, जिस के लिये जो लाभकारी है, उचित एवं अहितकारी, छोड़ने योग्य और सेवनीय क्रम, प्रकृति के अनुसार आहार, मलस्थान, मल की वृद्धि, क्षय, औषध, भविष्य में न होने वाले रोगो की औषध, सुख चाहने वाले बुद्धिमान् मनुष्य को जिन पुरुषो को छोड़ना या जिनका सेवन करना उचित है, और दही को सेवन करने की विधि यह



सब आत्रेय मुनि ने 'न वेगान्धारणीय' नामक अध्याय में सम्पूर्ण रूप से उपदेश किया है।

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्याने स्वस्थवृत्तचतुष्के

न वेगान्धारणीयो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

## अष्टमोऽध्यायः ।

अथात इन्द्रियोपक्रमणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

आहार एवं 'स्वस्थ-चतुष्क' कहने के अनन्तर 'इन्द्रियोपक्रमणीय' नामक आठवां अध्याय कहते हैं, ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है।

इह खलु पञ्चेन्द्रियाणि पञ्चेन्द्रियद्रव्याणि पञ्चेन्द्रियाधिष्ठा-  
नानि पञ्चेन्द्रियार्थाः पञ्चेन्द्रियबुद्धयो भवन्तीत्युक्तमिन्द्रिया-  
धिकारे ॥ ३ ॥

इस संसार में निश्चय से पांच ही इन्द्रिय है। पांच ही इन्द्रियों के द्वारा द्रव्य है जिनमें गुण कर्म के आश्रय एव समवायी कारण वाले पांच ही द्रव्य है। पांच ही इन्द्रियों के अधिकरण हैं। पांच ही इन्द्रियों के अर्थ, पांच ही प्रकार का इन्द्रिय ज्ञान है ऐसा पूर्वाचार्यों ने इन्द्रियों के विषय में कहा है।

अतीन्द्रियं पुनर्मनः सत्त्वसंज्ञकं चेत इत्याहुरेके, तदर्थात्मसंप-  
त्तदायत्तचेष्टं चेष्टाप्रत्ययभूतमिन्द्रियाणाम् ॥ ४ ॥

'मन' अतीन्द्रिय अर्थात् इन्द्रियों का अतिक्रमण करके रहता है वह इन्द्रियों का विषय नहीं है, इसी मन को 'सत्त्व' कहते हैं। चित्त जिसके द्वारा चिन्तन होता है, सुख दुःख आदि का चिन्तन, आत्मा मन के द्वारा ही करता है इसलिये आत्म-सम्पन्न अर्थात् आत्मा के गुण इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख

प्रयत्न आदि उस मन के ही अधीन हैं । एवं 'इन्द्रियो की, चेष्टाओं, व्यापार वा प्रतीति का कारण मन ही है ।

स्वार्थेन्द्रियार्थसंकल्पव्यभिचरणाच्चानेकमेकस्मिन् पुरुषे सत्त्वं, रजस्तमःसत्त्वगुणयोगाच्च; न चानेकत्वं, नह्येकं ह्येककालमनेकेषु प्रवर्तते, तस्मान्नैककाला सर्वेन्द्रियप्रवृत्तिः ॥ ५ ॥

वास्तव में 'मन' एक ही है, परन्तु इन्द्रियों के अपने २ द्रव्य में विषय की संकल्पना एवं व्यभिचार से एक पुरुष में अनेक मन एवं मन के सत्त्व गुण होने पर, सत्त्व, रजस्, तमस् इन गुणों के न्यूनाधिक होने से अनेक मन एकही मनुष्य में प्रतीत होते हैं । वास्तव में मन एक ही है अनेक नहीं है । क्योंकि एक ही समय में एक मन अनेको इन्द्रियों में प्रवृत्त नहीं होसकता इसलिये एक ही समय में सब इन्द्रियों की प्रवृत्तियाँ चेष्टा नहीं होती ।

यद्गुणं चाभीक्षणं पुरुषमनुवर्तते सत्त्वं, तत्सत्त्वमेवोपदिशन्ति ऋषयो बाहुल्यानुशयात् ॥ ६ ॥

पुरुष में जो गुण ( सत्त्व, रजस् या तमस् ) बार बार विकसित होता है, मन को उसी ही गुण वाला मुनि लोग कहते हैं । क्योंकि जिस गुण की अधिकता होगी उसी गुण वाला मन होगा ।

मनःपुरःसराणीन्द्रियाण्यर्थग्रहणसमर्थानि भवन्ति ॥ ७ ॥

इन्द्रियां मन को आगे करके ही विषय के ग्रहण करने में समर्थ होती हैं । विना मन के इन्द्रियां विषय को ग्रहण नहीं कर सकती ।

तत्र चक्षुः, श्रोत्रं घ्राणं, रसनं, स्पर्शनमिति पञ्चेन्द्रियाणि ॥८॥

पञ्चेन्द्रियद्रव्याणि—ख वायुज्योतिरापो भूरिति ॥ ९ ॥

पञ्चेन्द्रियाधिष्ठानानि अक्षिणी कर्णाँ नासिके जिह्वा त्वक् चेति ॥ १० ॥

पञ्चेन्द्रियार्याः—शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः ॥ ११ ॥

आख, श्रोत्र, नासिका, जिह्वा और त्वचा ये पांच इन्द्रियां हैं । पांच इन्द्रियों के पांच ग्राह्य पदार्थ हैं, यथा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथिवी ।

इन्द्रियोंके पांच अधिकरण है, तथा चक्षु गोलक दो, दोनो बाह्य कान, जीभ, दोनों नासिकायें और त्वचा । इन्द्रियों के पांच विषय हैं—शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध । इन्द्रिय-ज्ञान भी पांच प्रकार का है—चक्षुर्ज्ञान, श्रोत्र-ज्ञान, गन्ध-ज्ञान, रस ज्ञान और स्पर्श ज्ञान ।

पञ्चेन्द्रियबुद्धयश्चक्षुर्वुद्ध्यादिकाः, ताः पुनरिन्द्रियेन्द्रियार्थसत्त्वात्मसंनिकर्षजाः क्षणिका निश्चयात्मिकाश्च, इत्येतत्पञ्चपञ्चकम् ॥ १२ ॥

ये पांचो इन्द्रियोंके अर्थ विषय, सत्व मन, आत्मा इनके सन्निकर्ष अर्थात् संयोग होने से ही क्षणिक या निश्चयात्मक स्थायी ज्ञान प्राप्त करते हैं । इस प्रकार से ये पांच-पांच अर्थात् २५ ( पचीस ) हैं ।

मनो मनोर्थो बुद्धिरात्मा चेत्यध्यात्मद्रव्यगुणसंग्रहः शुभाशुभप्रवृत्तिनिवृत्तिहेतुश्च, द्रव्याश्रितं च कर्म, यदुच्यते क्रियेति ॥ १३ ॥

मन, मन के अर्थ ( व्यापार ), बुद्धि और आत्मा ये चारों का समुदाय संश्लेष को ही 'अध्यात्म' गुण कहते हैं । 'शुभ' दोनो लोको में कल्याणकारी, अशुभ ( लोको में निन्दित ), प्रवृत्ति ( धर्म अर्थ काम में प्रेरणा ), निवृत्ति ( अधर्म, अनर्थ और अकाम में निवर्तन, ) ये द्रव्य के अश्रित कर्म हैं, जिनको 'क्रिया' कहते हैं ।

तत्रानुमानगम्यानां पञ्चमहाभूतविकारसमुदायात्मकानामपि मनामिन्द्रियाणां तेजश्चक्षुषि, खं श्रोत्रे, घ्राणे क्षिति, आपो रसने, स्पर्शनेऽनिलो विशेषेणोपदिश्यते ॥ १४ ॥

यद्यपि प्रत्येक इन्द्रिय पांचो महाभूतों के समुदाय से उत्पन्न हुई है, यह बात भी अनुमान से पता चलती है तो भी, तेज आंखों में; आकाश श्रोत्रों में, पृथिवी नासिका में, जल रसना में और वायु त्वचा में विशेष रूप में रहते हैं ।

तत्र यद्यदात्मकमिन्द्रियं विशेषात्तदात्मकमेवार्थमनुधावति, तत्स्वभावाद्बिभृत्वाच ॥ १५ ॥

इनमें जो जो इन्द्रिये, जिस जिस भूत में वर्त्ता है । वे विशेष रूप से

उसी उसी ( भूत ) से बने अर्थ ( विषय ) को ग्रहण करती है । ये अपने स्वभाव और विभु होने से अपने विषय की ओर दौड़ती हैं । यथा आंख तैजस है, इसलिये वह तेज की ओर दौड़ती है, कान अन्तरिक्ष जन्य है इस लिये शब्द की ओर दौड़ते हैं । स्पर्श वायव्य होने से वायु की ओर, जिह्वा आप्य है इसलिये रस की ओर और घ्राण पार्थिव होने से पृथिवी की ओर दौड़ती है ।

यदर्थ्यातियोगायोगमिध्यायोगात्समनस्कमिन्द्रियं विकृतिमापद्य-  
मानं यथास्वं बुद्ध्युपघाताय संपद्यते, समयोगात्पुनः प्रकृतिमापद्य-  
मानं यथास्वं बुद्धिमाप्याययति ॥ १६ ॥

इनमें मन के साथ इन्द्रिय का विषय में अतियोग, अयोग, या मिध्या-  
योग होने से 'विकृति' अर्थात् रोग उत्पन्न होकर बुद्धि के नाश के  
लिये हो जाता है । समयोग से इन्द्रियां पुनः प्रकृतिको प्राप्त करके बुद्धि  
की वृद्धि करती हैं । समान अर्थात् उचित योग से वृद्धि होती है ।

मनसस्तु चिन्त्यमर्थः, तत्र मनसो बुद्धेश्च त एव समानाति  
हीनमिध्यायोगाः प्रकृतिविकृतिहेतवो भवन्ति ॥ १७ ॥

— मन का विषय है चिन्तन (सुख, दुःख, प्रयत्न आदि चिन्तनीय होने  
से मन के विषय हैं । इसलिये मन और बुद्धि का समान योग स्वस्थता का  
कारण है और मन एवं बुद्धि का अतियोग या हीन योग अथवा मिध्या  
योग विकृति अर्थात् 'विकार' या रोग का कारण है ।

तत्रेन्द्रियाणां समनस्कानामनुपतप्तानामनुपतापाय प्रकृतिभावे  
प्रयतितव्यमेभिर्हेतुभिः । तद्यथा—सात्म्येन्द्रियार्थसंयोगेन, बुद्ध्या  
सम्यगवेक्ष्यावेक्ष्य कर्मणां सम्यक्प्रतिपादनेन, देशकालात्मगुणविप-  
रीतोपसेवनेन चेति । तस्मादात्महितं चिकीर्षता सर्वेण सर्वं सर्वदा  
स्मृतिमास्थाय सद्बृत्तमनुष्ठेयम् । तद्धथनुतिष्ठन् युगपत्संपादयत्यर्थ-  
द्वयमारोग्यमिन्द्रियविजयं चेति ॥ १८ ॥

इसलिये उपरोक्त कारणों से मनसहित स्वस्थ इन्द्रियों के अनुपताप

के लिये स्वस्थावस्था में रहने का प्रयत्न करना चाहिये । उचित अनुकूल रूप में इन्द्रिय और विषय के संयोग न अति, न हीन और न मिथ्यासंयोग ) से, एव बुद्धि द्वारा भली प्रकार देखकर कर्मों को उचित रूप में करने से और देश, काल, आत्मा के गुण के अविपरीत, हितकारी वस्तुओं के सेवन करने से इन्द्रियां उपतप्त न होकर प्रकृति अवस्था में रहती हैं । इसलिये अपना या अपने शरीर का और आत्मा का कल्याण चाहने वाले सब पुरुषों को सदा स्मरण रखकर सद्वृत्त का (पांचों इन्द्रियों को मन के साथ संयुक्त करके ) मन, वचन और कर्म से पालन करना चाहिये ।

इस सद्वृत्त के पालन करने से आरोग्यता एवं 'इन्द्रियविजय दोनों कार्य एक साथ ही सिद्ध हो जाते हैं ।

तत्सद्वृत्तमखिलेनोपदेक्ष्यामः । तद्यथा—देवगोब्राह्मणगुरुवृद्ध-  
सिद्धाचार्यानर्चयेत्, अग्निमुपाचरेत्, ओषधीः प्रशस्ता धारयेत्,  
द्वौ कालावुपस्पृशेत्, मलायनेष्वभीक्ष्णं पादयोश्च वैमल्यमादध्यात्,  
त्रिं पक्षस्य केशशमश्रुलोमनखान् संहारयेत्, नित्यमनुपहतवासाः  
सुमनाः सुगन्धिः स्यात् ॥ १९ ॥

इस सद्वृत्त को सम्पूर्ण रूप में कहते हैं ।

परमात्मा, गौ ब्राह्मण, गुरु ( माता पिता अभ्यागत अतिथि )  
वृद्ध ( विद्यावृद्ध, धनवृद्ध, आयुवृद्ध, शौर्यवृद्ध ), सिद्ध ( तापस,  
भिक्षुक ), आचार्य ( उपनयन संस्कार करने वाले गुरु ), इनकी पूजा सेवा  
करनी चाहिये । अग्निहोत्र प्रातः सायं दोनों समय करना चाहिये, अनिन्दित,  
दोषों को नष्ट करने वाली ओषधियां, वनस्पतियां, धारण करना  
चाहिये । दोनों समय प्रातः सायं स्नान करना चाहिये । मूल के म्यानों  
को चार चार एवं पांच को सदा पवित्र रखे । बाल, दाढ़ी मूछ  
नाखून, कक्ष के एवं गुप्त्र म्यानों के बालों को पन्द्रह दिन में

तान वार, पांच पांच दिन के पीछे कटवाना चाहिये । नित्य प्रति शुद्ध वस्त्र धारण करे, प्रसन्न मन रहे, सुगन्ध धारण करे ।

साधुवेशः, प्रसाधितकेशो, मूर्धश्रोत्रघ्राणपादतैलनित्यो, धूमप, पूर्वाभिभाषी, सुमुखो, दुर्गेष्वभ्युपपत्ता, होता, यष्टा, दाता, 'चतुष्पथानां नमस्कृता, बलीनामुपहृता, अतिथीनां पूजकः, पितृभ्यः पिण्डदः, काले हितमितमधुरार्थवादी, वश्यात्मा, धर्मात्मा, हेता-वीर्षुः, फले नेर्षुः, निश्चिन्तो, निर्भीको, धीमान्, हीमान्, महोत्साही, दक्षः, क्षमावान्, धार्मिकः, आस्तिको, विनयबुद्धिविद्या-भिजनवयोवृद्धसिद्धाचार्याणामुपासिता, छत्री, दण्डी, मौली, सोपान्तको, युगमात्रदृग्विचरेत्, मङ्गलाचारशीलः, कुचेलास्थिकण्टकामेध्यकेशतुषोत्करभस्मकपालस्नानबलिभूमीनां परिहृता, प्राक् श्रमा-द्व्यायामवर्जा स्यात्, सर्वप्राणिषु बन्धुभूतः स्यात्, क्रुद्धानामनुनेता, भीतानामाश्वासयिता, दीनानामभ्युपपत्ता, सत्यसंधः, सामप्रधानः, परपरुषवचनसहिष्णुः, अमर्षन्नः, प्रशमगुणदर्शी, रागद्वेषहेतूनां हन्ता ॥ २० ॥

वेश भला, उच्छृङ्खल नहीं होना चाहिये । शिर के बाल संवार कर कंधी कर रखे, शिर, कान त्वचा पर तैल का मर्दन करे, नित्य प्रति प्रायोगिक धूमपान करे, घर आये हुए कां या मिलने पर पहिले कुशल क्षेम पूछे, सुमुख, सुन्दर, प्रसन्न चेहरे वाला कठिन अवसरों पर भी सोचकर काम करने वाला, होम करने वाला, यज्ञ—देवयज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्म-यज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ और नृत्यज्ञ करने वाला, दान देनेवाला, चौराहो को नमस्कार करने वाला, देवता के लिये उपहार भेंट देने वाला, अभ्यागतों की पूजा करने वाला, पिता, पितामह आदि को श्रद्धापूर्वक अन्न वस्त्र देने वाला हो, समय पर हित, परिमित और मधुर अर्थ से युक्त वाणी बोले । जितेन्द्रिय संयमी, धर्मात्मा हो, दूसरे की उन्नति को देखकर उन्नति करने में ईर्ष्या भाव रखे कि मैं भी ऐसा करूं जिससे मेरी भी उन्नति हो, परन्तु फल में

ईर्ष्या न करे । चिन्ता रहित, न डरने वाला, साहसी आहार और व्यवहार को छोड़कर अन्यत्र लज्जाशील, महत्त्वाकांक्षी, उत्साही कामो में निपुण, प्राणियों पर क्षमा करनेवाला, अपकारीको भी क्षमा देनेवाला, धर्म में चित्त रखने वाला, आस्तिक (वेदादि सत् शास्त्रों को मानने वाला), विनय बुद्धि, विद्या, अभिजन (पवित्र कुलोत्पत्ति से), और आयु मे जो बड़े हों, सिद्ध, तप से जो बड़े हों ऐसे तपस्वी, और आचार्य्य सावित्री का उपदेश देने वाले गुरु इनकी सेवा करे । छत्र और दण्ड धारण करे, व्यर्थ या अकाल में न बोले, जूता पहिने, अपने चारों ओर कुछ दूर ( चार हाथ ) तक देखता हुआ चले । मंगलजनक क्रियाशील रहे, कुचैले मैले वस्त्र, हाड़-मांस, कांटे युक्त, अमेध्य, अपवित्र श्मशान आदि, बाल, धान्यों के तुप, रोड़े-कंकड़ आदि, राख, घडे आदि के ठीकरे, नहाने के स्थान, पूजा स्थान, इन स्थानो को छोड़ने वाला हो । श्रम से पूर्व ही आधी ( शक्ति से ) व्यायाम को छोड़ दे, सब प्राणियों में बन्धुभाव, भ्रातृ भाव रखने वाला, क्रोधी पुरुषों को मनालेने वाला, डरे हुए पुरुषों के लिये आश्वासन, सांत्वना देने वाला, दीन गरीबों के लिये उपकार करने वाला, सत्य प्रतिज्ञा वाला, शान्ति को मुख्य गिनने वाला, दूसरे के कठोर वचनों को सहन करने वाला, अक्रोधी, क्रोधियों को शान्त करने वाला, शान्तिवान्, लड़ाई झगड़े के कारणों को नष्ट करने वाला हो ।

नानृतं ब्रूयात्, नान्यस्त्रमादद्यात्, नान्यस्त्रियमभिलषेन्नान्यश्रियं, न वैरं रोचयेत्, न कुर्यात्पापं, न पापेऽपि पापी स्यात्, नान्य-  
दोषान् ब्रूयात्, नान्यरहस्यमागमयेत्, नाधार्मिकैर्न नरेन्द्रद्विष्टैः  
सहासीत्, नोन्मत्तैर्न पतितैर्न भ्रूणहन्तृभिर्न क्षुद्रैर्न दुष्टैः, न दुष्ट्या-  
नान्यारोहेत्, न जानुसमं कठिनमासनमध्यासीत्, नानास्तीर्णमनु-  
पहितमविशालमसम वा शयनं प्रपद्येत्, न गिरिविषममस्तकेष्वनु-  
चरेत्, न द्रुममारोहेत्, न जलोप्रवेगमवगाहेत्, कूलच्छायां नोपा-  
सीत्, नाग्न्युत्पातमभितश्चरेत्, नाचैर्हसेत्, न शब्दवन्तं मारुतं

मुञ्चेत्, नासंवृतमुखो जृम्भां क्षवथुं हास्यं वा प्रवर्तयेत्, न नासिकां कुष्णीयात्, न दन्तान् विघट्टयेत्, न नखान् वादयेत्, नास्थीन्यभिहन्यात्, न भूमि विलिखेत्, न छिन्द्यात्क्षणं, न लोष्टं मृद्नीयात्, न विगुणमङ्गैश्चेत्, ज्योतीष्यग्निममेध्यमशस्तं च नाभिर्वीक्षेत्, न हुंकुर्याच्छवं, न चैत्यध्वजगुरुपूज्याशस्तच्छायामाक्रामेत्, न क्षपास्वमरसदनचैत्यचत्वरचतुष्पथोपवनश्मशानाघातनान्यासेवेत्, नैकः शून्यगृहं न चाटवीमनुप्रविशेत्, न पापवृत्तान् स्त्रीमित्रभृत्यान् भजेत्, नोत्तमैर्विरुध्येत्, नावरानुपासीत्, न जिह्वं रोचयेत्, नानार्यमाश्रयेत्, न भयमुत्पादयेत्, न साहसातिस्वप्रप्रजागरस्नानपानाशनान्यासेवेत्, नोर्ध्वजानुश्चिरं तिष्ठेत्, न व्यालानुपसर्पेन्न दंष्ट्रिणो न विषाणिनः, पुरोवातातपावश्यायातिप्रवातान् जह्यात्, कलि नारभेत्, नासुनिभृतोऽग्निमुपासीत्, नोच्छिष्टो नाधःकृत्वा प्रतापयेत्, नाविगतक्लमो नाप्लुतवदनो न नग्न उपस्पृशेत्, न स्नानशाट्या स्पृशेदुत्तमाङ्गं, न केशाग्राण्यभिहन्यात्, नोपस्पृश्य त एव वाससी विभृयात्, नास्पृष्टा रत्नाज्यपूज्यमङ्गलसुमनसोऽभिनिष्क्रामेत्, न पूज्यमङ्गलान्यपसव्यं गच्छेत्नेतराण्यनुदक्षिणम् ॥ २१ ॥

झूठ न बोले, दूसरे के धन को न लेवे, दूसरे की स्त्री को न चाहे, दूसरे की सम्पत्ति की चाहना न करे वैर, न करे, पाप न करे, पाप करने को मन हो अथवा पापी पुरुष पर भी पाप न करे, दूसरों के दोषों को न कहे, दूसरों की गुप्त बातों को न जाने, अधार्मिक, एवं राजा से द्वेष करने वाले ( राजशत्रुओं ) के साथ न बैठे, पागल, पतित, नीच कर्म करने वाले, चाण्डाल आदि, श्रृणधाती, गर्भपात करने वाले, क्षुद्र, छोटे पुरुष, दुष्ट, चोर डाकू आदि के साथ न बैठे । दुष्टयान ( अनभ्यस्त घोड़े आदि ) पर न बैठे, घुटने उठाकर उत्कट आसन से भी देर तक न बैठे, बिना नीचे विछाये, तक्तिं सिरहाने रखे बिना, संकुचित स्थान पर, ऊंची नीची जगह पर न सोये,



न लेटे । पहाडों के ऊंचे नीचे प्रदेशों में या चोटियों पर न घूमे फिरे, वृक्ष पर न चढ़े, पानी के तेज़ प्रवाह में स्नान न करे । नदी के किनारे स्थिर वृक्ष की छाया में ( अथवा किनारे की छाया में ) नहीं बैठे, उल्का या अग्नि की लपट के चारों ओर न फिरे । ऊंचे से जोर से न हंसे । शब्द के साथ अधोवायु, अपान वायु न छोड़े, मुख को बिना ढाँपे जम्भाई, छीक अथवा हास्य हंसी न करे, नाक को न कुरेदे, दांतों को न किटकिटाये । नखों को न रगड़े, अस्थियों को न बजाये, भूमि को न कुरेदे, भूमि पर न लिखे, तिनके न तोड़े, मिट्टी के ढेले को न फोड़े, अंगों को व्यर्थ में टेंडा मेडा न करे, न हिलाये । ज्योति, तैजस पदार्थ, सूर्य, अग्नि, तीव्रान्नि, अपवित्र चित्ता आदि निन्दित वस्तुओं को न देखे । शव को देख कर हुकार न छोड़े, चैत्य गांव के देवता, ध्वजा, पताका, गुरु माता पिता, आचार्य, पूज्य आदरणीय, प्रशस्त कल्याणकारी वस्तुओं की छाया को न लावे, रात्रि में देवालय, मन्दिर, चैत्य ग्रन्थ देवता, गृह, आंगन, चौराहा, बाग, धर्मशाला, आयतन, वध्य स्थान में न रहे । अकेला एकान्त गृह में, शून्य घर में या जंगल में प्रवेश न करे । पापवृत्ति वाले स्त्री, मित्र अथवा नौकर का साथ न दे, अपने से श्रेष्ठों के साथ विरोध न करे, अपने से नीचे हीन की सेवा न करे । कुटिल की चाहना न करे, अनार्य दुष्ट का आश्रय न ले, किसी के लिये भय उत्पन्न न करे, अति साहस, अति सोना, बहुत जागना, बहुत स्नान, बहुत पीना, बहुत खाना नहीं करे । घुटने उठा कर ढेर तक न बैठे । साँप, दाढ़ वाले सिंह आदि, साँग वाले भैंस, बैल आदि जन्तुओं के पास न जाये । सामने की वायु, धूप, ओस, तेज वायु को छोड़ दे, झगड़ा आरम्भ न करे । बिना सावधानी के अग्नि की उपासना पूजा न करे, जूठे भोजन को पुनः आग पर गरम न करे (जूठा भोजन आग में नहीं डालना चाहिये) । थकान मिटे बिना मुख और शिर को जल में गीला किये बिना, वा नंगा होकर स्नान न करे । नहाने की धोती ( कटि वस्त्र से ) से शिर का स्पर्श न करे, बालों के अग्रभागों

को ताड़न न करे, स्नान करके जिन कपड़ों से स्नान किया है, उन्हीं को निचोड़कर फिर धारण नहीं करे । रत्न, मणि आदि, पूज्य भगवान् आदि का नाम, मंगल कल्याणकारी वस्तुएं फूल आदि को विना स्पर्श किये घर से बाहर न निकले । पूज्य एवं मंगलकारी वस्तुओं के वाम पार्श्व से न जाये, अपूज्य, अमंगल वस्तुओं के दक्षिण पार्श्व से न जाये ।

नारत्नपाणिर्नास्नातो नोपहतवासा नाजपित्वा नाहुत्वा देवता-  
भ्यो नानिरूप्य पितृभ्यो नादत्वा गुरुभ्यो नातिथिभ्यो नोपा-  
श्रितेभ्यो नापुरण्यगन्धो नामाली नाप्रक्षालितपाणिपादवदन्तो  
नाशुद्धमुखो नोदङ्मुखो न विमना नाभक्ताशिष्टाशुचिक्षुधितपरि-  
चरो नापात्रीष्वमेध्यासु नादेशे नाकाले नाकीर्णो नादत्त्वाऽग्रमग्नये  
नाप्रोक्षितं प्रोक्षणोदकैर्न मन्त्रैरनभिमन्त्रितं न कुत्सयन् न कुत्सितं  
न प्रतिकूलोपहितमन्नमाददीत न पर्युषितमन्यत्र मांसहरितशुष्कशा-  
कफलभक्ष्येभ्यः । नाशेषभुक्स्यादन्यत्र दधिमधुलवणसक्तसर्पिर्भ्यः ।  
न नक्तं दधि भुञ्जीत, न सक्तनेकानेकानभनीयात्, न निशि न  
भुक्त्वा न बहून् न द्विर्नोदकान्तरितान् न छित्त्वा द्विजैर्भक्षयेत् ॥२२॥

द्विज इन अवस्थाओं में भोजन न करे ? रत्न को हाथ में लिये विना, स्नान किये विना, वस्त्र पहिने विना, गायत्री जप किये विना, हवन किये विना, देवताओं के लिये अग्नि का प्रतिष्ठापन किये विना, पिता माता को खिलाये विना, आचार्य एवं बड़े पुरुषों को, अतिथियों को, आश्रितों को खिलाये विना, अशुभ गन्धवाला, पुष्पमाला धारण किये विना, हाथ पाँव मुख धोये विना, मलिन मुख से, उत्तर दिशा की ओर मुख करके, अन्य मन से, विना भक्ति के दिया, ठीक प्रकार से या पवित्रता से न दिया, भूखे के हाथ से परसा, विना पात्रों के, मैले पात्रों में, अदेश में, मैले वा अनुचित स्थान पर, कुसमय में, संकुचित स्थान में, अग्नि को दिये विना (वैश्वदेव यज्ञ किये विना), प्रोक्षणोदक से विधिपूर्वक प्रोक्षित किये विना, वेदमन्त्रों से अभिमन्त्रित किये विना, निन्दा करते हुए, निन्दित और प्रतिकूल

अन्न को और अपने मन के विरुद्ध मनुष्यों के पास में भोजन नहीं करना चाहिये । पर्युपित जिसे एक रात बीत गई है ऐसे वासे भोजन को नहीं खाना चाहिये । मांस, हरड़, सूखे हुए आक, फल इनको वासा अर्थात् एक रात बीतने पर भी खा सकते हैं । सम्पूर्ण न खावे, पात्र में थोड़ा छोड़ देना चाहिये । परन्तु ढही, गहद, लवण, सत्तू और घी इनको सम्पूर्ण खा लेना चाहिये, पवित्र होने से इन को झूठा न छोड़े । रात में ढही नहीं खाये, अकेले सत्तूओं को न खाये अर्थात् केवल सत्तू न खाये । रात में सत्तू न खाये, भोजन खाकर सत्तू न खाये, बहुत अधिक मात्रा में सत्तू न खाये, एक दिन में दो बार सत्तू न खाये, पानी में भीगे हुए सत्तू या जौ का सत्तू बनाकर नहीं खाना चाहिये । दांतों से काटकर (बिना चबाये ) न खाये ।

नानृजुः क्षुयान्नाद्यान्न शयीत । न वेगितोऽन्यकार्यं स्यात् । न वाय्वग्निमालिलसोमार्कद्विजगुरुप्रतिमुखं निष्ठीविकावातवर्चोमूत्राण्युत्सृजेत्, न पन्थानमवमूत्रयेन् । न जनवति नात्रकाले न जपहोमाध्ययनवलिमङ्गलक्रियासु श्लैष्मसिङ्घाणकं मुञ्चेत् ॥ २३ ॥

बिना झुके न छींक ले, न खाये, न सोये । मल-मूत्र आदि के वेग उपस्थित होने पर दूसरा काम न करे, पहला वेग का निराकरण करे । वायु, अग्नि, जल, चन्द्रमा, सूर्य, ब्राह्मण, गुरु, पिता, माता, इनकी ओर मुख करके न थूके, न अपान वायु और मल, मूत्र का त्याग करे । रास्ते में, मनुष्यों के बैठने के स्थान में, भोजन के समय मूत्र त्याग न करे । जप, हवन, पठन, बलि, पवित्र क्रियाओं के स्थान पर नाक का मल (सिंघाणक) नहीं फेंके ।

न हि, यमवजानीत, नातिविश्रम्भयेन्न गुह्यमनुश्रावयेन्नाधि कुर्यात् । न रजस्वलां नातुरां नामेध्यां नाशस्तां नानिष्टरूपाचारोपचारां नादृक्षां नादक्षिणां नाकामां नान्यकामां नान्यस्त्रियं नान्ययोनिं

नायोनी न चैत्यचत्वरचतुष्पथोपवनश्मशानघातनसलिलौषधिद्विज-  
गुरुसुरालयेषु न सन्ध्योर्नातिथिषु नाशुचिर्नाजग्धभेषजो नाप्र-  
णीतसंकरूपो नानुपस्थितप्रहर्षो नाभुक्तवान् नात्यशितो न विषमस्थो  
न मूत्रोच्चारपीडितो न श्रमव्यायामोपवासकुम्भाभिहतो नारहसि व्यवयं  
गच्छेत् ॥ २४ ॥

स्त्री का तिरस्कार न करे । स्त्री का अधिक विश्वास न करे । स्त्री को  
गुप्त बात न कहे । स्त्री को अधिकारी न करे, अधिकार न देवे । रजस्वला,  
रोगिणी, अपवित्र, चण्डाल आदि, कुष्ठ आदि निन्दित रोग से पीडित,  
इच्छित रूप आचार-उपचार से रहित, अचतुर, जो स्वयं नहीं चाहती हो,  
दूसरे पुरुष को चाहने वाली, परस्त्री, असमानजातीय, कामनारहित  
इन स्त्रियों के साथ, वा योनि को छोड़कर अन्यत्र गुदा या मुख में, मैथुन  
नहीं करना चाहिये । चैत्य ( देवता का मन्दिर ), चौराहा, आंगन,  
उपवन, बाग, श्मशान, वध्य-भूमि में, पानी, ओषधि, ब्राह्मण, गुरु, माता  
पिता और मन्दिर के पास, प्रातः सायं दोनों सन्ध्याकालों में, अति अधिक  
मात्रा में, निषिद्ध तिथियों में ( पूर्णिमा, अष्टमी, चतुर्दशी, सक्रान्ति, श्राद्ध  
दिनों में, अमावस्या में, प्रतिपदा में ), अपवित्र अवस्था में, वाजीकरण  
औषध खाये बिना, मन में मैथुनेच्छा किये बिना, शिक्ष में उत्तेजना हुए  
बिना, खाये बिना, खाली पेट, अधिक खाये, पेट भर के और विषम स्थान  
पर स्थित होकर, मूत्र वेग से पीडित, खुले, अनावृत स्थान में स्त्री के साथ  
मैथुन न करे ।

न सतो न गुरून् परिवदेत्, नाशुचिरभिचारकर्मचैत्यपूज्यपूजा  
ध्ययनमभिनिर्वर्तयेत् ॥ २५ ॥

सज्जन या गुरु जनों की निन्दा न करे । अपवित्र अवस्था में, अभि-  
चार अर्थात् परहिंसा का प्रयोग, श्येनादि उपचार ) करके चैत्य पूजा एवं  
देवता, भगवान् की पूजा, अध्ययन, पठन आदि नहीं करे ।

न विद्युत्स्वनार्तवीषु नाभ्युदितासु दिक्षु नाग्निसंभवे न भूमि-

कम्पे न महोत्सवे नोल्कापाते न महाप्रहोपगमने न नष्टचन्द्रायं  
तिथौ न सन्ध्योर्नामुखाद्गुरोर्नावपतितं नातिमात्रं न तान्तं न  
विस्तरं नानवस्थितपदं नातिद्रुतं न विलम्बितं नातिक्रौवं नात्युच्चैर्ना-  
तिनीचैः स्वरैरध्ययनमभ्यसेत् ॥ २६ ॥

निम्न अवस्थाओं में अध्ययन-पठन नहीं करना चाहिये—ऋतु के  
विना विजली चक्रने पर, दिशाओं के जलने पर, ग्राम नगर आदि में  
आग लगने पर, भूकम्प आने पर, विवाहादि बड़े उत्सवों में, विजया-  
दशमी, दीपमालिका होली आदि में, उल्कापात होने पर, चन्द्रग्रहण,  
या सूर्यग्रहण होने पर, कृष्णपक्ष की चतुर्दशी, अमावस्या और प्रति-  
पदा को जिन तिथियों में चन्द्रमा नहीं दीखता, सन्ध्या कालों में, गुरु के  
मुग्ध से विना पढ़े, अक्षर को छोड़ते हुए, खाते हुए, अधिक मात्रा में, रुद्ध,  
स्वर के विना, विना पदों की व्यवस्था के, विना विराम आदि चिन्हों का ध्यान  
रक्ते रूक रूक कर, अति निर्बल (बलहीन), बहुत ऊंची आवाज़ से बहुत  
जोर से, बहुत धीमी आवाज़ से भी नहीं पढ़ना चाहिये ।

नातिसमयं जह्यात् । न नियमं भिन्द्यात् । न नक्तं नादेशे चरेत् ।  
न सन्ध्यास्वभ्यवहाराध्ययनस्त्रीस्वप्नसेवी स्यात् । न बालवृद्धलुब्ध-  
मूर्खद्विष्टक्रीवैः सह सख्यं कुर्यात् । न मद्यद्युतवेश्याप्रसङ्गरुचिः स्यात्,  
न गुह्यं विवृणुयात् । न कश्चिदवजानीयान् । नाहंमानी स्यान्नादहो  
नादक्षिणो नासूयकः । न ब्राह्मणान् परिवदेत् । न गवां दण्डमुद्यच्छेत्,  
न वृद्धान् न गुरून् न गणान् न नृपान् वाऽविच्छिपेत् । न चातिब्रूयात् ।  
न वान्धवानुरक्तकृच्छ्रद्वितीयगुह्यज्ञान् वहिः कुर्यात् ॥ २७ ॥

समय को विना प्रयोजन न खोये । नियम का उल्लंघन न करे । रात्रि में  
न घृमे । जंगल आदि वीयावान् स्थानों में न घृमे । सन्ध्या समयों में भोजन,  
अध्ययन, मैथुन, नाट नहीं करनी चाहिये । बालक, वृद्ध, लालची, मूर्ख,  
कुष्टरोगी, नपुंसक अनुत्सर्ही अत्यसत्त्व के साथ मित्रता न करे । मद्य  
शराब, जुआ, वेद्व्या इनमें मन नहीं लगाये । गुप्त रहस्य को न कहे ।

किसी का भी अपमान न करे । अहंकार या घमण्ड न करे । कार्यों में मूढ़ न रहे । गुणों में दोषों को न देखे । निन्दक, जुगलखोर न बने । ब्राह्मणों की निन्दा न करे । गाय के प्रति दण्ड न उठाये । जो अपने अनुकूल हों उनकी निन्दा न करे । गुरु, माता, पिता, आचार्य, सभा, वयोवृद्ध, जनसमूह, समाज, और राजा की निन्दा न करे । बन्धु, भाई आदि, अनुरक्त, स्नेही, मित्र आदि, आपत्ति में सहायक इनको कभी बाहर न निकाले, कष्ट न दे ।

नाधीरो नात्युच्छ्रितसत्वः स्यात् । नाभृतभृत्यो, नाविश्रब्धस्वजनो, नैकः सुखी, न दुःखशीलाचारोपचारो, न सर्वविश्रम्भी, न सर्वाभिशङ्की, न सर्वकालविचारी । न कार्यकालमतिपातयेत् । नापरीक्षितमभिनिविशेत् । नेन्द्रियवशगः स्यात् । न चञ्चलं मनोऽनुभ्रामयेत् । न बुद्धीन्द्रियाणामतिभारमादध्यात् । न चातिदीर्घसूत्री स्यात् । न क्रोधहर्षावनुविदध्यात् । न शोकमनुवसेत् । सिद्धावौत्सुक्यं गच्छेत्रासिद्धौ दैन्यम् । प्रकृतिमभीक्षणं स्मरेत् हेतुप्रभावनिश्चितः स्यात् हेत्वारम्भनित्यश्च । न कृतमित्याश्वसेत्, न वीर्यं जह्यात् । नापवादमनुस्मरेत् ॥ २८ ॥

बहुत अधीर, उतावला, जल्दबाज़ न हो, बहुत उच्छृङ्खल, उद्धत न बने । भृत्यों वा नौकरों का पोषण अवश्य करे । अपने मनुष्यों से, घर के आदमियों में अविश्वास न करे । अकेला सुख का अनुभव न करे । अकेला मधुर पदार्थ न खाये । शील, स्वाभाविक व्यवहार, आचार, शास्त्रानुकूल व्यवहार, उपचार, वस्त्र धारण करने और रहन सहन में दुःखी व्यक्तियों की भांति गरीबों की तरह न रहे, सम्यक् बनकर रहे । सब जगह सब का विश्वास न करे । सब स्थानों पर सब का अविश्वास भी न करे, सन्देह भी न करे । सब समय सोचता विचारता भी न रहे । काम काज के समय को व्यर्थ नहीं खोवे । अपरीक्षित अज्ञात स्थान आदि पर न बैठे, न जाये । इन्द्रियों के वश में न हो । चंचल मन को इधर उधर न घुमावे । बुद्धि, और ज्ञानेन्द्रियों का अति-

योग न करे, उनपर अधिक बोझ न डाले, अधिक विषय सेवन न करे। दीर्घ-सूत्री अर्थात् विलम्ब से काम करने वाला न बनें। जितनी क्रोध आये उतना उग्र कर्म न करे और जितनी खुशी हो उतनी अधिक खुशी न मनाये। शोक चिन्ता के वश में न हो। कार्य में सफलता मिलने पर बहुत प्रसन्न न हो और कार्य में असफलता मिलने पर डीन, उदास चेहरा न बनाये, मुंह न लटकाये। बार बार प्रकृति अर्थात् जन्म मरण के स्वभाव को वा द्रव्य गुण कर्म को ध्यान में रखे। शुभ कारण से कार्य का आरम्भ करे। ऐसा किया इस प्रकार का विचार मन में न लाये-। वीर्य (पराक्रम) का त्याग न करे। निन्दा का स्मरण न करे।

नाशुचिरुत्तमाज्याक्षततिलकुशसर्षपैरग्नि जुहुयादात्मानमाशीभि-  
राशासानः, अग्निर्मे नापगच्छेच्छरीराद् वायुर्मे प्राणानादधातु  
विष्णुर्मे बलमादधातु इन्द्रो मे वीर्यं शिवा मा प्रविशन्त्वाप आपो-  
हिष्ट्रेत्यपः स्पृशेत्, द्विः परिमृज्यौष्ठौ पादौ चाभ्युक्ष्य मूर्धनि खानि  
चोपस्पृशेद्द्विरात्मानं हृदयं शिरश्च, ब्रह्मचर्यज्ञानदानमैत्रीकारुण्यह-  
र्षोपेक्षाप्रशमपरश्च स्यादिति ॥ २९ ॥

अपवित्र अवस्था में उत्तम गौ का घी, अक्षत, तिल, कुशा और सरसों द्वारा अग्नि में वेदमन्त्रों से हवन न करे और प्रार्थना करे कि अग्नि मेरे शरीर में बाहर न जाये। वायु मेरे अन्दर प्राणों को धारण करे। विष्णु मेरे अन्दर बल का संचार करे। इन्द्र मेरे में बल बढ़ावे। कल्याणकारी जल मेरे में प्रविष्ट हो। 'आपो हिष्ठा मयो भुवस्ता न ऊर्जे दधातन०' इस मन्त्र से जल का स्पर्श, स्नान आचमन करना चाहिये। दोनों समय भोजन करने के उपरान्त ओष्ठ और पांव को धोकर शुष्क कर लेना चाहिये शिर और आंख, कान, नाक इन्द्रियों को जल से स्पर्श करे। फिर अपने हृदय, शिर को जल में स्पर्श करे। ब्रह्मचर्य (काय, मन और वाणि से मैथुन का छोटना, ब्रह्मचर्याश्रम में, गृहस्थाश्रम में अपनी पत्नी में ऋतुकाल को छोड़ कर तथा अन्यों को ज्ञान-दान और 'मैत्री' सब प्राणियों में आत्मवत्

प्रवृत्ति, सब प्राणियों में दयाभाव, हर्ष, प्रसन्नता सब प्राणियों में, उपेक्षा अर्थात् अप्रतिग्रह बुद्धि, प्रशम अर्थात् शान्त इन्द्रिय एवं चित्त वाला बने ।

तत्र श्लोकाः ।

पञ्चपञ्चकमुद्दिष्टं मनो हेतुचतुष्टयम् ।

इन्द्रियोपक्रमेऽध्याये सद्बृत्तमखिलेन च ॥ ३० ॥

स्वस्थवृत्तं यथोद्दिष्टं यः सम्यगनुतिष्ठति ।

स समाः शतमव्याधिरायुषा न वियुज्यते ॥ ३१ ॥

नृलोकमापूरयते यशसा साधुसंमतः ।

धर्मार्थावेति भूतानां बन्धुतामुपगच्छति ॥ ३२ ॥

परान् सुकृतिनो लोकान् पुण्यकर्मा प्रपद्यते ।

तस्माद्बृत्तमनुष्ठेयमिदं सर्वेण सर्वदा ॥ ३३ ॥

यच्चान्यदपि किञ्चित्स्यादनुक्तमिह पूजितम् ।

वृत्तं तदपि चात्रेयः सदैवाभ्यनुमन्यते ॥ ३४ ॥

पंचेन्द्रिय और इनके पांच प्रकार, मन एवं चार कारण ( समयोग, मिथ्यायोग, हीनयोग, और अतियोग ) और सम्पूर्ण सद्बृत्त को 'इन्द्रियोपक्रमणीय' अध्याय में कह दिया है । जो मनुष्य कहे हुए स्वस्थवृत्त का ठीक उचित रूप से पालन करता है वह सौ वर्षों तक निरोग रहता और बीच में उसकी आयु का भंग नहीं होता, वह सौ वर्षों तक जीता है । साधुओं से पूजित होकर मनुष्यलोक को अपने यश से भर देता है, यशस्वी बनता है । धर्म और अर्थ को प्राप्त करता है । सब प्राणियों के प्रति बन्धुभाव उत्पन्न करलेता है । पुण्य कर्मों वाला मनुष्य अति उत्कृष्ट लोकों को प्राप्त करता है । इसलिये सब पुरुषों को चाहिये कि सदा इस 'सद्बृत्त' का पालन करें । इस 'सद्बृत्त' के अतिरिक्त और जो कुछ उत्तम कर्म हों जो कि यहां पर नहीं भी कहे हैं, उनको भी स्वीकार करके पालन करना चाहिये ऐसा भगवान् आत्रेय का अभिप्राय है ।

इत्याश्विनेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने स्वस्थवृत्तचतुष्के

इन्द्रियोपक्रमणीयो नामाऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ इति स्वस्थवृत्तः ॥



## नवमोऽध्यायः ।



अथातः खुड्ढाकचतुष्पादमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अत्र 'खुड्ढाक चतुष्पाद' (चिकित्सा के छुट्ट चार चरण) नामक अध्याय का वर्णन करते हैं यह भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

भिषग् द्रव्याण्युपस्थाता रोगी पादचतुष्टयम् ।

गुणवत्कारणं ज्ञेयं विकारव्युपशान्तये ॥ ३ ॥

वैद्य, औषध, परिचारक और रोगी ये चार पाद अर्थात् चिकित्सा के चार अंग हैं । ये चारों ही विकार अर्थात् रोग की शान्ति में गुणवान् कारण हैं ।

• विकारो धातुवैषम्यं, साम्यं प्रकृतिरुच्यते ।

सुखसंज्ञकमारोग्यं, विकारो दुःखमेव च ॥ ४ ॥

शरीर के धातु वात, पित्त और कफ की विषमता का नाम ही 'विकार' अर्थात् रोग है और धातुओं का 'साम्य' अर्थात् अनुकूलता रहने का नाम 'प्रकृति' है । आरोग्यता ही सुख है, रोग का होना दुःख है ।

चिकित्सा का लक्षण—

चतुर्णां भिषगादीनां शस्तानां धातुवैकृते ।

प्रवृत्तिर्धातुसाम्यार्था चिकित्सेत्यभिधीयते ॥ ५ ॥

धातुओं के विषम होने पर भिषक्, रोगी, औषध और परिचारक ये चारों प्रशस्त गुण वाले मिलकर धातुओं को साम्य अर्थात् अनुकूल करने के लिये जो यत्न करते हैं, उसी को चिकित्सा कहते हैं ।

वैद्य के गुण—

• श्रुते पर्यवदातत्वं बहुशो दृष्टकर्मता ।

दाक्ष्यं शौचमिति ज्ञेयं वैद्ये गुणचतुष्टयम् ॥ ६ ॥

मद्-गुरु के उपदेश से पूर्ण रूप से शास्त्र का ठीक २ ज्ञान, चिकित्सा-

कर्म का बहुत वार दर्शन, चिकित्सा कार्य में कुशलता, चिकित्सा कर्म की सिद्धहस्तता, पवित्रता, स्वच्छता ये वैद्य के गुण हैं ।

द्रव्य के गुण—

बहुता तत्र योग्यत्वमनेकविधकल्पना ।

संपचेति चतुष्कोऽयं द्रव्याणां गुण उच्यते ॥ ७ ॥

(बहुता) द्रव्य की प्रचुरता (योग्यता) रोगियों के दिये जाने वाले द्रव्य में रोग को दूर करने का सामर्थ्य और जिसके अनेक प्रकार के कल्प, स्वरस, कल्क, चूर्ण, कषाय आदि बनाये जा सकें, 'संपत्' अर्थात् रस, वीर्य, प्रभाव, गुण सम्पूर्ण हों, ठीक २ ऋतु में एकत्र की गई हो, ये चार गुण औषध में होने चाहियें ।

परिचारक के गुण—

उपचारज्ञता दाक्ष्यमनुरागश्च भर्तारि ।

शौचं चेति चतुष्कोऽयं गुणः परिचरे जने ॥ ८ ॥

सेवा कर्म को जानने वाला, कर्मकुशल, रोगी में प्रीति रखने वाला शौच, अर्थात् शुद्धि, स्वच्छता ये चार गुण परिचारक के हैं ।

रोगी के गुण—

स्मृतिर्निर्देशकारित्वमभीरुत्वमथापि च ।

ज्ञापकत्वं च रोगाणामातुरस्य गुणाः स्मृताः ॥ ९ ॥

(स्मृति) स्मरण शक्ति, वैद्य के आदेश के अनुसार करने वाला, डरपोक न हो, रोग या चिकित्सा कर्म से न घबराने वाला, अपनी शिकायत को भली प्रकार बता सके, ये चार गुण रोगी के हैं ।

कारणं षोडशगुणं सिद्धौ पादचतुष्टयम् ।

विज्ञाता शासिता योक्ता प्रधानं भिषगत्र तु ॥ १० ॥

पक्तौ हि कारणं पक्तुर्यथा पात्रेन्धनानला ।

विजेतुर्विजये भूमिश्चमूः प्रहरणानि च ॥ ११ ॥

आतुराद्यास्तथा सिद्धौ पादा. कारणसंज्ञिताः ।

वैद्यस्यातश्चिकित्सायां प्रधानं कारणं भिषक् ॥ १२ ॥

सोलह गुण युक्त चारों पाद मिलकर ही चिकित्सा में कारण हैं । इन सब में प्रधान कारण 'भिषक्' अर्थात् वैद्य ही है । क्योंकि वही विशेष रूप से जानने वाला, परिचारक आदि को आदेश देने वाला, दवाईयों का प्रयोग करने वाला होता है । तीनों पाद वैद्य के अधीन हैं और वैद्य स्वतन्त्र है, इसलिये प्रधान है । खाना पकाने में जिस प्रकार पाचक कारण है, और पात्र, ईंधन और आग ये उसके अधीन रहते हैं, और जिस प्रकार विजेता की विजय में भूमि, स्थान, सेना, प्रहरण, शस्त्र आदि कारण निमित्त बनते हैं, उसी प्रकार सिद्धि अर्थात् चिकित्सा की सफलता में रोगी, औषध और परिचारक ये तीन कारण निमित्त होते हैं । चिकित्सा में मुख्य कारण वैद्य ही होता है ।

मृदण्डचक्रसूत्राद्याः कुम्भकारादृते यथा ।

न वहन्ति गुणं वैद्यादृते पादत्रयं तथा ॥ १३ ॥

गन्धर्वपुरवज्राशं यद्विकाराः सुदारुणाः ।

यान्ति यच्चेतरे वृद्धिमाशूपायप्रतीक्षिणः ॥ १४ ॥

सति पादत्रये ज्ञाज्ञौ भिषजावत्र कारणम् ।

जिस प्रकार कुम्हार के बिना मिट्टी, ढण्ड, चक्र (चाक) सूत्र आदि मिलकर भी घड़े को नहीं बना सकते उसी प्रकार वैद्य के बिना रोगी, द्रव्य और परिचारक मिलकर भी चिकित्सा कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते । उपायों से साध्य रोग, रोगी, परिचारक और द्रव्य इन तीन चरणों के होने पर भी यदि वैद्य विद्वान् होगा तो तीव्र रोग भी मकड़ी के जाले के भांति शीघ्र नष्ट होजाते हैं । और मूर्ख वैद्य तीन चरणों के उत्तम होने पर भी वारुण रोगों की वृद्धि में कारण बनता है ।

वरमात्मा हतोऽज्ञेन न चिकित्सा प्रवर्तिता ॥ १५ ॥

पाणिचाराद्यथाऽचक्षुरज्ञानाद्गीतभीतवत् ।

नौर्मारुतवशेवाज्ञो भिषक्चरति कर्मसु ॥ १६ ॥

यदृच्छया समापन्नमुत्तार्य नियतायुषम् ।

भिषङ्भानी निहन्त्याशु शतान्यनियतायुषाम् ॥ १७ ॥

तस्माच्छास्त्रेऽर्थविज्ञाने प्रवृत्तौ कर्मदर्शने ।

भिषक् चतुष्टये युक्तः प्राणाभिसर उच्यते ॥ १८ ॥

एक मूढ़ वैद्य से इलाज कराने की अपेक्षा मरना अच्छा है । हाथ के स्पर्श से जिस प्रकार आंख डरती है इसी प्रकार रोगी को अज्ञानी वैद्य से भी डरना चाहिये । वायु के वश में पड़ी हुई नाव का जिस प्रकार पता नहीं होता कि क्या होगा, उसी प्रकार मूढ़ वैद्य का भी चिकित्सा कर्म में पता नहीं चलता कि वह क्या करेगा । वैद्य के गुणों से रहित, अपने रोगियों को अपनी चिकित्सा से बिना समय के ही शीघ्र मार देता है । मूढ़ वैद्य बिना मृत्यु के आये ही मार डालता है । इसलिये शास्त्र के तत्त्वार्थ के ज्ञान, क्रिया, कर्म और कुशलता इन चार गुणों से युक्त वैद्य ही 'प्राणाभिसर' अर्थात् रोगी के जाते प्राणों को भी लौटा लाने वाला कहलाता है ।

हेतौ लिङ्गे प्रशमने रोगाणामपुनर्भवे ।

ज्ञानं चतुर्विधं यस्य स राजार्हो भिषक्तमः ॥ १९ ॥

जिस वैद्य को रोगोत्पत्ति के कारण, लक्षण, प्रशमन, रोगों की शान्ति और पुनः आक्रमण न होना इन चार बातों का ज्ञान है, वही 'राजवैद्य' होने योग्य है ।

शस्त्रं शास्त्राणि सलिलं गुणदोषप्रवृत्तये ।

पात्रापेक्षीयतः प्रज्ञां चिकित्सार्थं विशोधयेत् ॥ २० ॥

शस्त्र, शास्त्र, और पानी ये तीनों गुण और दोष को उत्पन्न करने में पात्र की अपेक्षा करते हैं । जैसे निर्मल पानी मैले पात्र में रखने में मैला हो जाता है और स्वच्छ पात्र में साफ़ दीखता है, तलवार से जहाँ दुष्ट, चोर आदि का वध हो सकता है, वहाँ सज्जन का भी गला काटा जा

सकता है, शास्त्र द्वारा जहां रोगी को बचाया जा सकता है, वहां मूढ़ वैद्य मार भी सकता है। इसलिये चिकित्सा के लिये वैद्य को अपनी बुद्धि को सदा स्वच्छ रखना चाहिये।

विद्या वितर्को विज्ञानं स्मृतिस्तत्परता क्रिया ।

यस्यैते षट्गुणास्तस्य न साध्यमतिवर्तते ॥ २१ ॥

विद्या मतिः कर्मदृष्टिरभ्यासः सिद्धिराश्रयः ।

वैद्यशब्दाभिनिष्पत्तावलमेकैकमप्यदः ॥ २२ ॥

यस्य त्वेते गुणाः सर्वे सन्ति विद्यादयः शुभाः ।

स वैद्यशब्दं सद्भूतमहंन् प्राणिसुखप्रदः ॥ २३ ॥

( विद्या ) आयुर्वेद विद्या, ( वितर्कः ) शास्त्रार्थ मूलक ऊहापोह (विज्ञान) बहुत शास्त्र के ज्ञान से विज्ञत्व ( तत्परता ) लग्न, ( क्रिया ) चिकि साकुशलता जिस वैद्य में ये उपरोक्त छः गुण हैं उसके लिये कोई भी व्याधि असाध्य नहीं है। आयुर्वेद विद्या स्वाभाविक, विशुद्ध बुद्धि, दृष्ट चिकित्सा, चिकित्साकार्य में अभ्यास, अनेक रोगियों को आरोग्य करने में सफलता, सद्गुरु का आश्रय, इनमें से एक एक भी गुण वैद्य पद प्राप्त कराने में समर्थ है परन्तु जिस पुरुष में ये विद्या आदि सब गुण होते हैं, वही सचे अर्थों में 'वैद्य' कहला सकता है। वही प्राणियों के लिये सुख देने वाला होता है।

शास्त्रं ज्योतिः प्रकाशार्थं दर्शनं बुद्धिरात्मनः ।

ताभ्यां भिषक्सुयुक्ताभ्यां चिकित्सन्नापराध्यति ॥ २४ ॥

चिकित्सिते त्रयः पादा यस्माद्वैद्यव्यपाश्रयाः ।

तस्मात्प्रयत्नमातिष्ठेद्विपक् स्वगुणसंपदि ॥ २५ ॥

मैत्री कारुण्यमार्त्तपु, शक्ये प्रीतिरुपेक्षणम् ।

प्रकृतिस्थेषु भूतेषु, वैद्यवृत्तिश्चतुर्विधेति ॥ २६ ॥

आयुर्वेद शास्त्र तो प्रकाश करने के लिये ज्योति है और अपनी बुद्धि भांग है। इन दोनों को मिलाकर ठीक तरह से प्रयोग करके चिकित्सक

भूल नहीं करता । चिकित्सा के तीन चरण रोगी, परिचारक और द्रव्य वैद्य पर ही आश्रित हैं । इसलिये अपने गुणों को विशेष रूप से प्राप्त करने में वैद्य को प्रयत्नवान् रहना चाहिये । वैद्य का व्यवहार चार प्रकार का है । रोग से पीडित पुरुष में मित्रता और उन पर दया का भाव; साध्य रोगी में स्नेहभाव, मरणासन्न रोगी या उसके समीपस्थ बन्धु, भृत्य आदि में उपेक्षा बुद्धि रखना ।

तत्र श्लोकौ ॥

भिषग्जितं चतुष्पादं पादः पादश्चतुर्गुणः ।

भिषक् प्रधानं पादेभ्यो यस्माद्द्वैद्यस्तु यद्गुणः ॥ २७ ॥

ज्ञानानि बुद्धिर्ब्राह्मी च भिषजां या चतुर्विधा ।


सर्वमेतच्चतुष्पादे खुड्ढाके संप्रकाशितम् ॥ २८ ॥

चिकित्सा के चार चरण प्रत्येक चरण के चार-चार गुण, सब चरणों में प्रधान 'भिषक्' है, क्यों प्रधान है ? वैद्य के गुण, वैद्यों की चार प्रकार की बुद्धि और ब्राह्मी बुद्धि यह सब 'खुड्ढाक चतुष्पाद' अध्याय में कह दिया है ।

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने निर्देशचतुष्के

खुड्ढाकचतुष्पादो नाम नवमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ६ ॥

## दशमोऽध्यायः ।



अथातो महाचतुष्पादमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

इस के अबन्तर 'महाचतुष्पाद' नामक अध्याय की व्याख्या करते हैं, ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

चतुष्पादं षोडशकलं भेषजमिति भिषजो भाषन्ते, यदुक्तं पूर्वा-

ध्याये षोडशगुणमिति, तद्भेषजं युक्तियुक्तमलमारोग्यायेति भगवान् पुनर्वसुरात्रेयः ॥ ३ ॥

चार चरण और सोलह कलायुक्त चिकित्सा होती है ऐसा वैद्य कहते हैं। पूर्व के (खुड्वाक-चतुष्पादे) अध्याय में जो सोलह गुणों से युक्त चिकित्सा का उपदेश किया है उसी चिकित्सा को युक्तियुक्त प्रयोग से आरोग्यता के लिये समर्थ बतलाया है ऐसा पुनर्वसु आत्रेय ने कहा है।

नेति मैत्रेयः । किं कारणं, दृश्यन्ते ह्यातुराः केचिदुपकरणवन्तश्च परिचारकसंपन्नाश्चात्मवन्तश्च कुशलैश्च भिषग्भिरनुष्ठिताः समुत्तिष्ठमानास्तथायुक्ताश्चापरे म्रियमाणास्तस्माद्भेषजमकिंचित्करं भवति। तद्यथा श्वश्रे सरसि च प्रसिक्तमल्पमुदक नद्या वा स्यन्दमानाणां पांसुधाने वा पासुमुष्टिः प्रकीर्ण इति । तथाऽपरे दृश्यन्तेऽनुपकरणाश्चापरिचारकाश्चानात्मवन्तश्चाकुशलैश्च भिषग्भिरनुष्ठिताः समुत्तिष्ठमानाः, तथायुक्ता म्रियमाणाश्चापरे । यतश्च प्रतिकुर्वन् सिद्ध्यति प्रतिकुर्वन् म्रियते, अप्रतिकुर्वन् सिध्यत्यप्रतिकुर्वन् म्रियते । ततश्चिन्त्यतं भेषजमभेषजेनाविशिष्टमिति ॥ ४ ॥

‘मैत्रेय’ के विचार में यह ठीक नहीं, क्योंकि कुछ रोगी जिन को सब प्रकार के साधन प्राप्त हैं, जिनके सेवक भी हैं, जो संयमी, जितेन्द्रिय भी हैं, और चतुर वैद्य उनकी चिकित्सा करते हैं, वे अच्छे (स्वस्थ) होते देखे जाते हैं। इस के सिवाय उपरोक्त सब कुछ होते हुए भी कुछ रोगी मरते हुए भी देखे जाते हैं। इसलिये कहते हैं कि सोलह गुणों से युक्त चिकित्सा कुछ फलदायक नहीं। जिस प्रकार एक बड़े भारी गढ़े या तालाब में थोड़ा सा पानी डालने पर कुछ लाभ नहीं होता और जिस प्रकार बहती हुई नदी में फेंकी हुई धूलि की मुट्टी निरर्थक होती है, वह पानी में बह जाती है और जिस प्रकार रेत के बहुत बड़े ढेर में डाली हुई रेत को एक मुट्टी का कुछ लाभ नहीं, इसी प्रकार शुभ कर्म वाले रोगी में चिकित्सा का कोई लाभ नहीं। कुछ रोगी साधनों के बिना ही, सेवकों से रहित,

अजितेन्द्रिय, अपथ्यसेवी, और मूढ़ वैद्यों से चिकित्सा कराने पर भी स्वस्थ होते हुए देखे जाते हैं, एवं कुछ ( इस उपरोक्त अवस्था में ) मरते हुए भी देखे जाते हैं और (सोलह गुणों से युक्त) चिकित्सा करने पर आरोग्य स्वस्थ हो जाते हैं, और बहुत से चिकित्सा करने पर भी मर जाते हैं, बहुत चिकित्सा न करने पर भी स्वस्थ होजाते हैं, और न करने पर भी मर जाते हैं, अतः सन्देह होता है कि चिकित्सा करना और न करना दोनों बराबर है ।

मैत्रेय । मिथ्या चिन्त्यत इत्यात्रेयः । कि कारणं ? ये ह्यातुराः षोडशगुणसमुदितेनानेन भेषजेनोपपद्यमाना म्रियन्ते इत्युक्तं तदनुपपन्नम् न हि भेषजसाध्यानां व्याधीनां भेषजमकारणं भवति । ये पुनरातुराः केवलाद्भेषजादृते समुत्तिष्ठन्ते न तेषां संपूर्णभेषजोपपादनाय समुत्थानविशेषो नास्ति । यथा हि पतितं पुरुष समर्थमुत्थानायोत्थापयन् पुरुषो बलमस्योपादध्यात्, स क्षिप्रतरमपरिक्षिष्ट एवोत्तिष्ठेत्तद्वत्संपूर्णभेषजोपलम्भादातुराः । ये चातुराः केवलाद्भेषजादपि म्रियन्ते, न च सर्व एव ते भेषजोपपन्नाः समुत्तिष्ठेरन्, न हि सर्वे व्याधयो भवन्त्युपायसाध्याः, न चोपायसाध्यानां व्याधीनामनुपायेन सिद्धिरस्ति, न चासाध्यानां व्याधीनां भेषजसमुदायोऽयमस्ति । न ह्यलं ज्ञानवान् भिषडमुमूर्षुमातुरमुत्थापयितुम् । परीक्ष्यकारिणो हि कुशला भवन्ति । यथा हि योगज्ञोऽभ्यासन्त्य इष्वासो धनुरादायेपुमपास्यन्नातिविप्रकृष्टे महति काये नापराधवान् भवति संपादयति चेष्टकार्यं, तथा भिषक् स्वगुणसंपन्न उपकरणवान् वीक्ष्य कर्मारभमाणः साध्यरोगमनपराधः संपादयत्येवातुरमारोग्येण, तस्मान्न भेषजमभेषजेनाविशिष्टं भवति ॥ ५ ॥

आत्रेय भगवान् इसका उत्तर देते हैं कि हे मैत्रेय ! तुम्हारा ऐसा विचार करना ठीक नहीं है । क्योंकि, रोगी सोलह गुणों से युक्त चिकित्सा करने पर भी स्वस्थ नहीं होते, मर जाते हैं, यह कथन ठीक नहीं है । क्योंकि चिकित्सा से अच्छे होने वाले रोगों में चिकित्सा निष्फल नहीं होती, और



जो रोगी औषध-चिकित्सा के बिना भी स्वस्थ हो जाते हैं, उन में चिकित्सा के पूर्ण कारणों के होने की आवश्यकता भी नहीं होती । जैसे गिरे हुए मनुष्य को जो कि अपने आप उठने में समर्थ है, उठाने के लिये दूसरा पुरुष सहायता देता है, तब वह जल्दी, बिना कष्ट के ही खड़ा हो जाता है । इस प्रकार सम्पूर्ण ( सोलह गुणों से युक्त ) चिकित्सा प्राप्त होने से रोगी स्वस्थ हो जाते हैं । जो रोगी सम्पूर्ण चिकित्सा के मिलने पर भी मर जाते हैं वे सब रोगी भी सोलह गुण युक्त चिकित्सा से स्वस्थ नहीं हो सकते । क्योंकि सब रोग उपाय से साध्य नहीं हैं ( बहुत से रोग असाध्य भी हैं ) । और जो रोग उपाय से अच्छे होने वाले हैं वे बिना उपाय के अच्छे भी नहीं होते । इसी प्रकार जो रोगी असाध्य हैं उन को सारा औषध-समुदाय भी ठीक नहीं कर सकता । ज्ञानवान् वैद्य भी मरणासन्न रोगी को स्वस्थ करने में समर्थ नहीं होता । जो वैद्य साध्य-असाध्य का विचार करके चिकित्सा का प्रारम्भ करते हैं वे कुशल चिकित्साकार्य में सफल, यशस्वी होते हैं । जिस प्रकार कि प्रयोग विधि को जानने वाला, अभ्यासी धनुर्धारी धनुष को लेकर बहुत दूर के नहीं, प्रत्युत समीपवर्ती, स्थूल लक्ष्य पर वाण फेंकता हुआ नहीं चूकता और लक्ष्य वेध कर ही लेता है । इसी प्रकार वैद्य अपने गुणों से युक्त, उपकरणवान्, साधनवान्, साध्य-असाध्य का विचार करके काम आरम्भ करके, रोगी के साध्य रोग को स्वस्थ कर देता है, इस में भूल नहीं करता, इसलिये कहते हैं कि चिकित्सा करना और न करना दोनों समान नहीं हैं ।

इदं चेदं च नः प्रत्यक्षं यदनातुरेण भेषजेनातुरं चिकित्सामः  
 चाममचामेण, कृश च दुर्वलमाप्याययामः, स्थूलं मेदस्विनमपतर्प-  
 यामः, शीतेनोष्णाभिभूतमुपचराम शीताभिभूतमुष्णेन, न्यूनान्  
 धातून् पूरयामो व्यतिरिक्तान् हासयामः, व्याधीन् मूलविपर्ययेणो-  
 पचरन्तः सम्यक् प्रकृतौ स्थापयामः, तेषां नस्तथा कुर्वतामयं भेषज-  
 समुदायः कान्ततमो भवति ॥ ६ ॥

और यह हमारा प्रत्यक्ष भी है कि रोगी की हम रोगों की प्रकृति से विपरीत गुण वाली औषध से चिकित्सा करते हैं, क्षीणधातु वाले व्यक्ति की पौष्टिक औषधियों से चिकित्सा करते हैं, (कृश) पतले-दुबले को मोटा बनाते हैं, स्थूल, चर्बी वाले पुरुष को पतला (कृश) करते हैं, गरमी से पीड़ित व्यक्ति की शीतल चिकित्सा करते हैं, शीत से पीड़ित व्यक्ति की उष्ण पदार्थों से चिकित्सा करते हैं, कम हुए धातुओं का पूर्ण करते हैं, परिमाण से अधिक बढ़े हुए धातुओं को कम करते हैं, रोगों की कारण के विपरीत विरुद्ध चिकित्सा करते हुए दोषों को प्रकृति में भली प्रकार से स्थित करते हैं। रोगी पुरुषों के लिये ऐसा करते हुए ये भेषज्य-समुदाय अर्थात् सोलह गुणयुक्त चिकित्सा व्याधिनाशक और सुखकारी होती है ॥

### भवन्ति चात्र

साध्यासाध्यविभागज्ञो ज्ञानपूर्व चिकित्सकः ।

काले चारभते कर्म यत्तत् साधयति ध्रुवम् ॥ ७ ॥

अर्थविद्यायशोहानिमुपक्रोशमसंग्रहम् ।

प्राप्तयान्नियतं वैद्यो योऽसाध्यं समुपाचरेत् ॥ ८ ॥

रोग के साध्य और असाध्य रूप को एवं साध्य असाध्य के विभागों को जानकर विचारपूर्वक समय पर जो चिकित्सक कार्य का आरम्भ करता है वह उस कर्म को अवश्य पूर्ण करता है और जो चिकित्सक असाध्य व्याधि की चिकित्सा करता है, वह धन, विद्या और यश की हानि उठाता है। उस की निन्दा होती है और लोग उस से चिकित्सा नहीं करवाते, उस का धन्धा नहीं चलता ।

सुखसाध्यं मतं साध्यं कुच्छ्रसाध्यमथापि च ।

द्विविधं चाप्यसाध्यं स्याद्याप्यं यच्चानुपक्रमम् ॥ ९ ॥

साध्यानां त्रिविधश्चाल्पमध्यमोत्कृष्टां प्रति ।

विकल्पो न त्वसाध्यानां नियतानां विकल्पना ॥ १० ॥

साध्य व्याधियां दो प्रकार की हैं, एक (सुखसाध्य) सरलता से

अच्छी होने वाली और दूसरी ( कृच्छ्र-साध्य ) कठिनाई से अच्छी होने वाली । असाध्य व्याधियां भी दो प्रकार की हैं, एक ( याप्य ) जो कि चिकित्सा से कुछ समय के लिये शान्त की जा सकती हैं और चिकित्सा के छोड़ने पर फिर खड़ी हो जाती हैं । दूसरी ( अनुपक्रम ) सर्वथा असाध्य जो कभी अच्छी नहीं होती । साध्य व्याधियों के पुनः तीन भेद हैं, ( १ ) अल्पसाध्य, ( २ ) मध्यमसाध्य, और ( ३ ) उत्कृष्ट साध्य और जो निश्चित रूप से 'असाध्य' हैं, उनका कोई नियत भेद नहीं है, याप्य, असाध्य रोगों के तीन भेद हैं । यथा अल्प याप्य, मध्यम याप्य, और उत्कृष्ट याप्य ।

सुखसाध्य व्याधि के लक्षण—

—हेतवः पूर्वरूपाणि रूपाण्यल्पानि यस्य च ।

न च तुल्यगुणो दूष्यो, न दोषः प्रकृतिर्भवेत् ॥ ११ ॥

न च कालगुणस्तुल्यो, न देशो दुरुपक्रमः ।

गतिरेका नवत्वं च रोगस्योपद्रवो न च ॥ १२ ॥

दोषश्चैकः समुत्पत्तौ देहः सर्वोपधत्तमः ।

चतुष्पादोपपत्तिश्च सुखसाध्यस्य लक्षणम् ॥ १३ ॥

रोगोत्पत्ति के कारण थोड़े हों, बहुत अधिक या तीव्र कारण न हो, (पूर्वरूप) अर्थात् रोग के प्राथमिक लक्षण भी हल्के हों, और 'रूप' अर्थात् स्पष्ट लक्षण रोग के थोड़े और हल्के हों । (दूष्य रक्त, मांसादि धातु) दोष वातादि कारण के समान न हों, पित्त के कारण से रक्त कुपित न हो, रोगोत्पादक दोष वात आदि रोगी की प्रकृति न हो, वातजन्य व्याधि में रोगी को प्रकृति 'वात' न हो । समय भी समान न हो, हेमन्त में कफ संचय होता है, इस समय कफ का रोग न हो तो देश, शरीर का अवयव या अनूप अर्थात् जलबहुल प्रदेश अर्थात् कष्टसाध्य स्थान पर रोग न हुआ हो, अथवा जहां पर कठिनता से चिकित्सा की जाये ऐसे स्थान पर रोग न हुआ हो, दोष की गति एक मार्ग में हो, दो मार्ग में न हो, रोग

नवीन हो, रोग के साथ कोई उपद्रव ( पीछे उत्पन्न हुई व्याधि या उप-सर्ग (Complication) न हो, और चिकित्सा के चारों चरण प्राप्त हों, रोगोत्पत्ति में कारण एक दोष हो तथा शरीर सम्पूर्ण प्रकार की औषध का सहन कर सके तो ये सुखसाध्य अर्थात्सुगमता से अच्छे होने वाले रोग के लक्षण हैं । कृच्छ्रसाध्य रोग के लक्षण—

निमित्तपूर्वरूपाणां रूपाणां मध्यमे बले ।

कालप्रकृतिदूष्याणां सामान्येऽन्यतमस्य च ॥ १४ ॥

गर्भिणीवृद्धबालानां नात्युपद्रवपीडितम् ।

शस्त्रचाराग्निकृत्यानामनवं कृच्छ्रदेशजम् ॥ १५ ॥

विद्यादेकपथं रोग नातिपूर्णचतुष्पदम् ।

द्विपथं नातिकालं वा कृच्छ्रसाध्यं द्विदोषजम् ॥ १६ ॥

रोग का कारण, रोग का पूर्वरूप और रोग का रूप, स्पष्ट चिन्ह, मध्यम बल, संख्या में मध्यम हो अर्थात् जिस रोग को उत्पन्न करने वाले दोष-प्रकोप के कारण न तो कम और न अधिक हों, काल प्रकृति और दूष्य इनमें से कोई एक रोगोत्पादक दोष के समान साधारण हो, अधिक उपद्रवों से पीड़ित न हो, तो वह रोग कृच्छ्रसाध्य है ।

गर्भवती, वृद्ध और बालक, इनकी सब व्याधियां कष्टसाध्य हैं । शस्त्र, क्षार और अग्नि इनसे चिकित्सा करते समय जो व्याधि उत्पन्न हो जाये, नवीन न हो, जो रोग पुराना हो, मर्म स्थान, सन्धिस्थान आदि में जो रोग हो, एक मार्गागाभी हो, चिकित्सा के चारों अंग पूर्ण न हों दोष दो मार्गानुसारी हो, बहुत समय का न हो, और दो दोषों से उत्पन्न हुआ हो वह रोग भी कष्टसाध्य है ।

याप्य व्याधि का लक्षण—

शेषत्वादायुषो याप्यमसाध्यं पथ्यसेवया ।

लब्ध्वाऽल्पसुखमल्पेन हेतुनाऽऽशुप्रवर्तकम् ॥ १७ ॥

असाध्य व्याधि, पथ्य, आहार विहार के पालन करने से आयु के शेष

होने के कारण 'याप्य' होती है। कुछ काल तक आराममिलता है परन्तु थोड़े से भी कारण से पुनः शीघ्र उत्पन्न हो जाती है, इस प्रकार की व्याधि को 'याप्य' कहते हैं। असाध्य व्याधि का लक्षण—

गम्भीरं बहुधातुस्थं मर्मसंधिसमाश्रितम् ।

नित्यानुशायिनं रोगं दीर्घकालमवस्थितम् ॥ १८ ॥

विद्याद्द्विदोषजं, तद्वत्प्रत्याख्येयं त्रिदोषजम् ।

क्रियापथमतिक्रान्तं सर्वमार्गानुसारिणम् ॥ १९ ॥

औत्सुक्यारतिसंमोहकरमिन्द्रियनाशनम् ।

दुर्वलस्य सुसंवृद्धं व्याधिं सारिष्टमेव च ॥ २० ॥

मेद आदि गम्भीर धातु में स्थित, रस रक्तादि बहुत धातुओं में स्थित, मर्म सन्धि में आश्रित हो, लग्यतार रात दिन रहता हो २४ घण्टे बारह महीने बना रहे, देर तक दो चार साल का होगया हो, दो दोषों से उत्पन्न हो ऐसे रोग को याप्य, और इस प्रकार के (गम्भीर बहु धातुस्थ आदि) तीनों दोषों से उत्पन्न रोग 'असाध्य' समझने चाहियें। जो रोग चिकित्सा से बाहर चला गया हो, बहुत बढ गया हो, सब मार्ग ( ऊर्ध्व, अधः और तिर्यग् ) तीनों मार्गों में पहुंच गया हो, अत्यन्त प्रसन्नता, अति बेचैनी, एवं मूर्च्छा ( गम्भीर निद्रा ) को उत्पन्न करे, जिस रोग से इन्द्रिय, आंख का देखना, या कान का सुनना आदि नष्ट हो जाये, निर्बल पुरुष में जो रोग बहुत बढा हुआ हो, जिस रोग के लक्षण निश्चित मृत्यु को बताने वाले स्पष्ट हो वह रोग 'असाध्य' है, ऐसा रोगी भी असाध्य है।

भिषजा प्राक् परीक्ष्यैवं विकाराणां स्वलक्षणम् ।

पश्चात्कार्यसमारम्भ कार्यः साध्येषु धीमता ॥ २१ ॥

साध्यासाध्यविभागज्ञो य सम्यक् प्रतिपत्तिमान् ।

न स मैत्रेयतुल्यानां मिथ्याबुद्धिं प्रकल्पयेत् ॥ २२ ॥

बैद्य को चाहिये कि चिकित्सा करने से पूर्व रोगी की उनके लक्षणों से परीक्षा, जांच करले कि यह साध्य है या असाध्य है। पीछे साध्य

रोगों में कार्य आरम्भ करना चाहिये असाध्यों में हाथ न लगाये । जो वैद्य साध्य और असाध्य के भेदों को भली प्रकार जानता है, वह ज्ञानी बुद्धिमान् वैद्य, मैत्रेय के समान लोगों की मिथ्या बुद्धि को नहीं बढ़ाता ।

तत्र श्लोकौ ।

इहौषधं पादगुणाः प्रभावो भेषजाश्रयः ।

आत्रेयमैत्रेयमती मतिद्वैविध्यनिश्चयः ॥ २३ ॥

चतुर्विधविकल्पाश्च व्याधयः स्वस्वलक्षणाः ।

उक्ता महाचतुष्पादे येष्वायत्तं भिषगिजितम् ॥ २४ ॥ इति ॥

इस महाचतुष्पाद नामक अध्याय में औषध, चतुष्पाद, गुण, भेषज के आश्रित प्रभाव, आत्रेय एवं मैत्रेय की दो प्रकार की बुद्धि, चार प्रकार के भेद से रोग एवं उनके लक्षण कह दिये हैं, और उन कारणों का भी वर्णन कर दिया है जिन से वैद्य यशस्वी होता है ।

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने निर्देशचतुष्के

महाचतुष्पादो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

## एकादशोऽध्यायः ।

— ३ — १ — १ — ३ —

अथातस्तिस्त्रैषणीयमध्यायं व्याख्यास्याम ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब 'तिस्त्रैषणीय' नामक अध्याय की व्याख्या करते हैं, ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

इह खलु पुरुषेणानुपहतसत्त्वबुद्धिपौरुषपराक्रमेण हितमिह चांभुष्मिश्च लोके समनुपश्यता तिम्र एपणा पर्येष्टव्या भवन्ति । तद्यथा प्राणैपणा, धनैपणा, परलोकैपणेति ॥ ३ ॥

इस जगत् में जिस पुरुष का मन, ज्ञान, पौरुष, और पराक्रम मान-

सिक बल नष्ट नहीं हुआ, जो इहलोक में और परलोक में हित चाहता है। उस को तीन एषणायें, ( इच्छायें ) रखनी चाहियें, ( १ ) प्राणैषणा (प्राण या जीवन की इच्छा), ( २ ) धनैषणा (धन की इच्छा), ( ३ ) परलोकैषणा ।

आसां तु खल्वेषणानां प्राणैषणां तावत्पूर्वतरमापद्येत । कस्मात्, प्राणपरित्यागे हि सर्वत्यागः । तस्यानुपालनं-स्वस्थस्य स्वस्थवृत्तिरातुरस्य विकारप्रशमनेऽप्रमादः, तदुभयमेतदुक्तं वक्ष्यते च, तद्यथोक्तमनुवर्त्तमानः प्राणानुपालनादीर्घमायुरवाप्नोतीति प्रथमैषणा व्याख्याता भवति ॥ ४ ॥

इन तीनों एषणाओं में से 'प्राणैषणा' को सब से प्रथम करे, क्योंकि प्राणों के छूट जाने पर सब कुछ छूट जाता है। प्राणैषणा के लिए स्वस्थ पुरुष को चाहिये कि स्वस्थवृत्त का पालन करे, जिस से कि वह रोगी न हो और रोगी रोग शान्त करने में प्रभादी न हो। स्वस्थवृत्त और रोगशान्ति के उपाय ये दोनों बातें पूर्व कह दी गई हैं आगे विस्तार से भी कहेंगे। उनका ठीक २ प्रकार से पालन करने से मनुष्य प्राणों की रक्षा कर के दीर्घायु प्राप्त कर्ता है। इस प्रकार से प्रथमैषणा का उपदेश कर दिया।

अथ द्वितीयां धनैषणामापद्येत, प्राणैभ्यो ह्यनन्तरं धनमेव पर्येष्टव्यं भवति, न ह्यतः पापात्पापीयोऽस्ति यदनुपकरणस्य दीर्घमायुः, तस्मादुपकरणानि पर्येष्टुं यतेत । तत्रोपकरणोपायाननुव्याख्यास्याम, तद्यथा कृषिपाशुपाल्यवाणिज्यराजोपसेवादीनि, यानि चान्यान्यपि सतामविगर्हितानि कर्माणि वृत्तिपुष्टिकराणि विद्यात्तान्यारभेत कर्तुं, तथा कुर्वन् दीर्घजीवितं जीवत्यनवमतः पुरुषो भवतीति द्वितीया धनैषणा व्याख्याता भवति ॥ ५ ॥

अब दूसरी 'धनैषणा' को भी करे। प्राणों से उतरकर धन ही आवश्यक होता है। क्योंकि इससे बढ़कर और कोई पाप संसार में नहीं है कि बिना साधनों के दीर्घ जीवन व्यतीत करना, इसलिये उपकरणों अर्थात्

धन कमाने के साधनों को प्राप्त करने का यत्न करना चाहिये । धन कमाने के साधनों का भी उपदेश करते हैं, जैसे खेती, पशुओं का पालन, वाणिज्य व्यापार, राजा की सेवा आदि । इन के सिवाय अन्य और भी जो २ कार्य सज्जन पुरुषों से अनिन्दित, जीविका को देने वाले हो, उन को करे इस प्रकार करने से दीर्घायु प्राप्त करता है और तिरस्काररहित जीवन व्यतीत करता है । इस प्रकार से दूसरी 'धनैपणा' की भी व्याख्या कर दी ।

अथ तृतीयां परलोकैषणामापद्येत । संशयश्चात्र—कथं ? भविष्याम इतश्च्युता नवेति । कुतः संशयः पुनः इति ? उच्यते—सन्ति ह्येके प्रत्यक्षपराः परोक्षत्वात् पुनर्भवस्य नास्तिक्यमाश्रिताः । सन्ति चापरे ये त्वागमप्रत्ययादेव पुनर्भवमिच्छन्ति । श्रुतिभेदाच्च ।—

‘मातरं पितरं चैके मन्यन्ते जन्मकारणम् ।

स्वभावं परनिर्माणं यदृच्छां चापरे जनाः ॥’

इत्यतः संशयः—किं नु खल्वस्ति पुनर्भवो न वेति ॥ ६ ॥

अब तीसरी 'परलोकैषणा' को भी प्राप्त करो । इस 'परलोकैषणा' के विषय में सन्देह है कि यहां से मरने के पीछे फिर जन्म होगा वा नहीं । संशय क्यों है ? कहते हैं—कुछ मनुष्य ऐसे हैं, जो कि प्रत्यक्ष से जानने योग्य वस्तु को ही मानते हैं और परोक्ष को नहीं मानते । परोक्ष आंख से दिखाई नहीं देता, इस लिये ये नास्तिक मत को स्वीकार करते हैं, पुनर्जन्म को नहीं मानते । और दूसरे वेदोपदेश को प्रमाण मानकर ही पुनर्जन्म को मानते हैं । तीसरे श्रुति अर्थात् प्रतिवाट वचन की भिन्नता के कारण पुनर्जन्म को नहीं मानते । कुछ मनुष्य जन्म का कारण माता पिता को मानते हैं, और कोई स्वभाव को ही जन्म का कारण मानते हैं । तीसरे 'पर' पुरुष का बनाया, समस्त जगत् मानते हैं । चौथे लोग 'यदृच्छा' को ही जन्म का कारण मानते हैं, अर्थात् अपने आप बिना कारण के ही जन्म हो गया है । इसलिये सन्देह होता है कि पुनर्जन्म है, वा नहीं ।

तत्र बुद्धिमान्नास्तिक्यबुद्धिं जह्याद्विचिकित्सां च । कस्मान् ?



प्रत्यक्षं ह्यल्पं, अनल्पमप्रत्यक्षमस्ति यदागमानुमानयुक्तिभिरुपलभ्यते । यैरेव तावदिन्द्रियैः प्रत्यक्षमुपलभ्यते । तान्येव सन्ति चाप्रत्यक्षाणि ॥ ७ ॥

इस अवस्था में बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिये कि 'नास्तिक्य बुद्धि अर्थात् परलोक नहीं है इस विचार को और संशय को छोड़ दे । क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान बहुत थोड़ा है और अप्रत्यक्ष ज्ञान बहुत है जिस को आगम शास्त्र, अनुमान और युक्ति से जाना जाता है । जिन ज्ञानेन्द्रियों से प्रत्यक्ष ज्ञान किया जाता है वे इन्द्रियां स्वयं अप्रत्यक्ष हैं, आंख आंख को नहीं देख सकती, नाक नाक को नहीं सूंघ सकती, कान कान को नहीं सुन सकते ।

सतां च रूपाणामतिसंनिकर्षादतिविप्रकर्षादावरणात्करणदौर्बल्यान्मनोनवस्थानात्समानाभिहारादभिभवादतिसौक्ष्म्याच्च प्रत्यक्षानुपलब्धिस्तस्मादपरीक्षितमेतदुच्यते—प्रत्यक्षमेवास्ति, नान्यदस्तीति ॥ ८ ॥

और रूप आदि के बहुत समीप होने से जैसे परुकों में लगा हुआ काजल, अति विप्रकर्ष अर्थात् बहुत दूर होने से जैसे बहुत दूर उड़ता हुआ पक्षी, बीच में व्यवधान आने से जैसे दीवार के पीछे रक्खीवस्तु, इन्द्रिय के निर्बल होने से, मन स्थिर न होने से, एक साथ दो या अधिक भिन्न विषयों में इच्छा करने से, तिरस्कृत होने से यथा—मध्यान्ह में सूर्य की किरणों द्वारा तिरस्कृत नक्षत्रादि, अतिसूक्ष्म होने से, जैसे कृमि या द्वयणुकादि, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता । इसलिये जो चार्वाक आदि नास्तिक का यह कहना कि 'प्रत्यक्ष' इन्द्रियों से जिसका ज्ञान होता है वही हैं, उसके अतिरिक्त और नहीं है वह अपरिक्षित अर्थात् बिना सोचे विचारे कहा गया है ।

श्रुतयश्चैता न कारणं, युक्तिविरोधात् ॥ ९ ॥

नाना वादिजनो के वचन भी परलोक के न होने में प्रमाण नहीं हैं क्योंकि वे युक्ति ( तर्क ) से विरुद्ध हैं । युक्ति—

आत्मा मातुः पितुर्वा यः सोऽपत्यं यदि संचरेत् ।

द्विविधं संचरेदात्मा सर्वो वाऽवयवेन वा ॥ १० ॥

सर्वश्चेत्संचरेन्मातुः पितुर्वा मरणं भवेत् ।

निरन्तरं, नावयवः कश्चित्सूक्ष्मस्य चात्मनः ॥ ११ ॥

जो लोग कहते हैं कि माता पिता की आत्मा पुत्र रूप में उत्पन्न होती है । इस अवस्था में आत्मा की गति दो प्रकार से हो सकती है । एक, आत्मा सम्पूर्ण पुत्र रूप में आये, दूसरे, आत्मा का कोई अवयव पुत्र रूप में आये । यदि सम्पूर्ण आत्मा पुत्र रूप में आता है तो माता या पिता किसी एक की मृत्यु हो जानी चाहिये और दूसरे, सूक्ष्म आत्मा का कोई अवयव हो ही नहीं सकता । परमाणुओं के संयोग से बनी वस्तु का भाग हो सकता है, परमाणु का नहीं ।

बुद्धिर्मनश्च निर्णीति यथैवात्मा तथैव ते ।

येषां चैषा मतिस्तेषां योनिर्नास्ति चतुर्विधा ॥ १२ ॥

विद्यास्त्राभाविकं षण्णां धातूनां यत्स्वलक्षणम् ।

संयोगे च वियोगे च तेषां कर्मैव कारणम् ॥ १३ ॥

जिस प्रकार माता पिता की आत्मा उत्पत्ति का कारण नहीं बन सकती उसी प्रकार ये बुद्धि और मन भी उत्पत्ति का हेतु नहीं बन सकते क्योंकि मन और बुद्धि दोनों सूक्ष्म हैं, इसलिये इनका भी विभाग नहीं बन सकता । और यदि सम्पूर्ण अवतरण मानो तो माता पिता में से एक मन और बुद्धि से रहित अर्थात् ज्ञान, चिन्तन, बोध से शून्य होना चाहिये । इसलिये यह भी ठीक नहीं । एक और भी दोष है । योनि चार प्रकार की है स्वेदज, अण्डज, उद्भिज्ज और जरायुज । वह माता और पिता को मानने से नहीं होती । क्योंकि उद्भिज्ज योनि वनस्पति आदि में माता और पिता नहीं है । प्राणियों की उत्पत्ति में छ. धातु (पंच महाभूत, पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश एवं छठी चेतना, आत्मा) अपने लक्षणों से युक्त स्वभाव से ही कारण बनते हैं । अर्थात् पांचभौतिक शुक्र, शोणित, आहारजन्य रस के संयोग होने पर पंचमहाभूत उत्पन्न होकर मनुष्य आदि चेतन रूप

में, एवं घर आदि अचेतन रूप में स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं । यह कथन ठीक नहीं क्योंकि पदार्थों का संयोग और वियोग ( मिलना और टूटना ) स्वभाव से नहीं होता, प्रत्युत 'कर्म' कारण की अपेक्षा करता है ।

धनादेश्चेतनाधातोर्नेष्यते परनिर्मितिः ।

पर आत्मा स चेद्धेतुरिष्टोऽस्तु परनिर्मितिः ॥ १४ ॥

ईश्वर का ही बनाया जगत् मानकर जो लोग आत्मा का अस्तित्व नहीं मानते उनका कथन भी ठीक नहीं है । क्योंकि अनादि ( जिसका आदि नहीं ) और चेतना धातु ( आत्मा ) का दूसरे से बनाया जाना भी सम्भव नहीं । यदि पूर्ण प्रसिद्ध आत्मा नहीं है तो दूसरा पुरुष भी किस उपादान को लेकर दूसरे को बनावेगा । क्योंकि अचेतन वस्तु चेतन को उत्पन्न नहीं कर सकता । यदि परमात्मा के केवल शरीर का बनाने वाला मानते हो तो तुम्हारे और हमारे सिद्धान्त में कोई भेद नहीं । इसलिये आत्मा नित्य है, वह समय २ पर स्थूल शरीर को छोड़कर परलोक में कर्मों का भोग करके भोग की समाप्ति पर और भोग्य कर्म फलों के भोग के लिये पुनः उत्पन्न होता है ।

न परीक्षा न परीक्ष्यं न कर्ता कारणं न च ।

न देवा नर्पयः सिद्धाः कर्म कर्मफलं न च ॥ १५ ॥

नास्तिकस्यास्ति नैवात्मा यदृच्छोपहृतात्मन ।

पातकेभ्यः परं चैतत्पातकं नास्तिकग्रह ॥ १६ ॥

यदृच्छा भी जन्म का कारण नहीं है, क्योंकि यदृच्छावादी के मत में न कोई परीक्षा ( प्रमाण ) है, और न कोई परीक्ष्य अर्थात् प्रमेय वस्तु है । इसलिये माता, पिता, कन्या, बहिन, पत्नी, गुरु, वृद्ध, तपस्वी इत्यादि परीक्षणार्थ वस्तु के अभाव में मनमाना आचार होना सम्भव है और कर्म भी नहीं है, जिसका कि अच्छा या बुरा फल मिलेगा इसलिये कर्म फल भी

नहीं है। न कर्म का कोई कर्त्ता है, जो कर्म करे। यह सब यदृच्छा से ही, विना कारण होता है, कारण के न होने से मनचाहा आचरण करने में कोई दोष नहीं होगा, इससे गुरु, सिद्ध पुरुषों में पूज्यापूज्य भाव भी नहीं रहेगा। वह माता, कन्या आदि में दारवत् बुद्धि कर सकेगा, इसलिये जिसका आत्मा यदृच्छावाद से नष्ट हो जाता है ऐसे नास्तिक का आत्मा नहीं रहता। अतः नास्तिक होना सब पातकों से बड़ा पातक है।

तस्मान्मति विमुच्यैताममार्गप्रसृतां बुधः।

सतां बुद्धिप्रदीपेन पश्येत्सर्वं यथातथम् इति ॥ १७ ॥

इसलिये बुद्धिमान् को चाहिये कि उल्टे मार्ग में जाने वाली इस विपरीत बुद्धि को छोड़ दे और सज्जन (आप्त विद्वान्) पुरुषों की बुद्धि रूप दीपक से सब वस्तुओं को ठीक २ रूप में देखे।

द्विविधमेव खलु सर्वं—सच्चासच्च, तस्य चतुर्विधा परीक्षा  
आप्तोपदेशः, प्रत्यक्षमनुमानं, युक्तिश्चेति ॥ १८ ॥

संसार में जो कुछ दीख पड़ता है, वह सब दो प्रकार का है, एक सत् और दूसरा असत्। इस की परीक्षा चार प्रकार से होती है, १ आप्तोपदेश २. प्रत्यक्ष ३. अनुमान और ४. युक्ति।

आप्तास्तावत् -

रजस्तमोभ्यां निर्मुक्तास्तपोज्ञानवलेन ये।

येषां त्रैकालममलं ज्ञानमव्याहृतं सदा ॥ १९ ॥

आप्ताः शिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यमसंशयम्।

सत्यं, वक्ष्यन्ति ते कस्मादसत्यं नीरजस्तमाः ॥ २० ॥

जो पुरुष तप और ज्ञान के बल से रजोगुण और तमोगुण में मुक्त हो चुके हैं, केवल सत्व गुण ही जिन में रह गया है, उनका ज्ञान भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में विशुद्ध और कभी भी बाधित नहीं होता। ऐसे पुरुष 'आप्त', 'शिष्ट' और 'विबुद्ध' होते हैं, इन के वाक्य विना सन्देह के होते हैं। ये पुरुष सदा सत्य ही कहेंगे, जो पुरुष रजस् और तमस् में रहित हैं वे असत्य कैसे बोल सकते हैं? प्रत्यक्ष का लक्षण—

आत्मेन्द्रियमनोर्थानां संनिकर्षात्प्रवर्तते ।

व्यक्ता तदात्वे या बुद्धिः प्रत्यक्षं सा निरुच्यते ॥ २१ ॥

आत्मा, इन्द्रिय, मन और अर्थ ( पदार्थ ) इन चारों का एक साथ संयोग होने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उस को 'प्रत्यक्ष' कहते हैं ।

अनुमान —

प्रत्यक्षपूर्वं त्रिविधं त्रिकालं चानुमीयते ।

वह्निर्निगूढो धूमेन मैथुन गर्भदर्शनात् ॥ २२ ॥

एवं व्यवस्यन्त्यतीतं, वीजात्फलमनागतम् ।

दृष्ट्वा वीजात्फलं जातमिहैव सदृशं बुधाः ॥ २३ ॥

प्रथम प्रत्यक्ष प्रमाण से देखकर तीन प्रकार से कार्य—लिङ्गानुमान, कारण लिङ्गानुमान और कार्य-कारण लिङ्गानुमान होता है, भूत, भविष्यत्, और वर्तमान इन तीनों समय में परोक्ष का अनुमान किया जाता है । जैसे कि छिपे अग्नि को धुंआ देखकर जानते हैं और गर्भ को देखकर मैथुन कर्म का ज्ञान कर लेते हैं । इसी प्रकार से अतीत काल का ज्ञान अनुमान से कर लेते हैं और जिस प्रकार बीज को देखकर अनागत फल का अनुमान हो जाता है । जैसा बीज होता है, वैसा ही फल लगता है । इसी प्रकार भविष्य काल का भी अनुमान से ज्ञान करते हैं । युक्ति—

जलकर्पणवीजर्तुसंयोगात्सस्यसंभवः ।

युक्तिः पट्वातुसंयोगाद्गर्भाणां संभवस्तथा ॥ २४ ॥

मध्यमन्थनमन्थानसंयोगाद्ग्निसंभवः ।

युक्तियुक्ता चतुष्पादसंपन्ध्याधिनिर्हृणी ॥ २५ ॥

पानी, कर्पण ( हल चलाया हुआ खेत ), बीज और ऋतु इन चारों के संयोग में अन्न उत्पन्न होता है । उत्तम क्षेत्र में समय पर उत्तम बीज पानी में मींचकर बोने से अनाज होता है । इसलिये पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश एवं चेतना इन छः के संयोग से गर्भ का होना सम्भव है । यह युक्ति है, इन्दीमकार 'मध्य' अरणी का अधःकाष्ठ (नीचे की लकड़ी)

मन्थन (मथने का ढण्डा) और (मन्थान) मथना चलाने वाला कर्त्ता, इन तीनों के संयोग से अग्नि उत्पन्न होना सम्भव है । इसी प्रकार चतुष्पाद् चिकित्सा के चारो अंग की युक्ति से युक्त सम्पत् रोग को नाश करने वाली है । यदि चिकित्सा के चारों अंग ठीक तरह से प्रयुक्त किये जाये, तो रोग मिटना सम्भव है ।

बुद्धिः पश्यति या भावान् बहुकारणयोगजान् ।

युक्तिस्त्रिकाला सा ज्ञेया त्रिवर्गः साध्यते यया ॥ २६ ॥

एषा परीक्षा नास्त्यन्या यया सर्वं परीक्ष्यते ।

परीक्ष्यं सदसच्चैव तथा चास्ति पुनर्भवः ॥ २७ ॥

जो बुद्धि बहुत प्रकार के कारणों से उत्पन्न, पदार्थों को ज्ञान के लिए देखती है उस बुद्धि को 'युक्ति' कहते हैं । यह बुद्धि तीनों कालों के विषय को देखती है, इस युक्ति से त्रिवर्ग अर्थात् धर्म, अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं । यह चार प्रकार की ( आसोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति ) परीक्षा है, इससे भिन्न और परीक्षा नहीं है । इस चार प्रकार की परीक्षा से सब कुछ सत्, असत्, भाव, अभाव जो कुछ ज्ञेय है, वह सब जाना जाता है । सत्-असत् की परीक्षा करके ही जाना गया है कि पुनर्जन्म होता है ।

तत्राप्तागमस्तावद्वेदः, यश्चान्योऽपि कश्चिद्वेदार्थादविपरीतः परी-  
क्षकैः प्रणीतः शिष्टानुमतो लोकानुग्रहप्रवृत्तः शास्त्रवादः स चाप्ता-  
गमः । आप्तागमादुपलभ्यते—दानतपोयज्ञसत्याहिसात्रह्यचयाण्य-  
भ्युदयनिःश्रेयसकराणीति । न चानतिवृत्तसत्त्वदोषाणामदोषैरपुन-  
र्भवो धर्मद्वारेषूपदिश्यते । धर्मद्वारावहितैश्च व्यपगतभयरागद्वेषलोभ-  
मोहमानैर्ब्रह्मपरैराप्तैः कर्मविद्धिरनुपहतसत्त्वबुद्धिप्रचारैः पूर्वं पूर्वतरै-  
र्महर्षिभिर्दिव्यचक्षुर्भिर्दृष्ट्वोपदिष्टः पुनर्भव इति व्यवस्येदेवम् ॥२८॥

आप्त पुरुषो का आगम वेद ( ऋग, यजुः, अथर्व और साम ) है । इन वेदों के सिवाय और भी कोई अन्य जो कि वेद के अर्थ के अनुकूल.

परीक्षकों से बनाया हुआ शिष्ट पुरुषों से अनुमत, जनसमाज के कल्याण के लिये प्रवृत्त, जो अन्य ज्योतिष, व्याकरण, आयुर्वेद स्मृति आदि है, वे भी आसागम अर्थात् शब्द प्रमाण है। आसागम से भी जाना जाता है कि ज्ञान, तप ( द्वन्द्व-सहिष्णुता ), यज्ञ ( अग्निहोत्रादि ), सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि कर्म अम्युदय ( इस लोक में कल्याण ) और निःश्रेयस ( परलोक में संगल ) करने वाले हैं। मनोदोष, रजस् और तमस् जिन के ज्ञान्त नहीं हो गये उन रजोगुणी या तमोगुणी पुरुषों अपुनर्भव नहीं कहा गया, अर्थात् रजोगुणी और तमोगुणी पुरुषों का पुनर्जन्म होता है। ऐसा धर्म शास्त्रों में उपदेश किया गया है। धर्मशास्त्रों में सावधान, राग, मोह, द्वेष, भय, लोभ, मोह, मान से रहित, ब्रह्मचारी, आप्त विद्वान्, कर्म योग को जानने वाले, जिन के मन, बुद्धि एवं प्रचार ( व्यवहार ) ठीक बने हुए हैं, ऐसे अति प्राचीन महार्पियों ने दिव्य चक्षुओं से देखकर निश्चयपूर्वक पुनर्जन्म का उपदेश किया है, इसलिये उनका निश्चय सत्य करके जाने।

प्रत्यक्षमपि चोपलभ्यते-मातापित्रोर्विसदृशान्यपत्यानि, तुल्यसंभवानां वर्णस्वराकृतिसत्त्वबुद्धिभाग्यविशेषाः, प्रवरावरकुलजन्म, दास्यैश्वर्यं, सुखासुखमायुः, आयुषो वैषम्यं, इहाकृतस्यावाप्ति, अशिक्षितानां च रुदितस्तनपानहासत्रासादीनां च प्रवृत्तिः, लक्षणोत्पत्तिः, कर्मसामान्ये फलविशेषः, मेधा क्वचित्क्वचिकर्मण्यमेधा, जातिस्मरणं, इहागमनमितश्च्युतानां च भूतानां समदर्शने प्रिया-प्रियत्वम् ॥ २९ ॥

प्रत्यक्ष से भी जाना जाता है कि पुनर्जन्म है, माता पिता से विभिन्न प्रकृति के पुत्र ( रूपवान् माता पिता का काला पुत्र ) होते हैं। एक ही माता पिता के दो पुत्रों में सगे भाइयों में रंग, स्वर, आकृति, चेहरा, मन, ज्ञान और भाग्य, प्रारब्ध भिन्न होते हैं, श्रेष्ठ और नीच कुल में जन्म होते हैं। किसी की दासता और किसी की ऐश्वर्य-सम्पत्ति होती है, कोई सुख

पूर्वक जिन्दगी बसर करता है, कोई दुःख से जीवन व्यतीत करता है, आयु की विषमता, थोड़ा जीना या अधिक देर जीना, यहां किये कर्म का फल न मिलना, पढ़े सीखे विना ही रोने, दुग्ध पान ( स्तन्य पान ), हंसने डरने आदि कार्यों में प्रवृत्ति का होना, शरीर पर राज्यचिन्ह या दारिद्र्यसूचक चिन्हों का होना, एक सदृश काम करने पर भी फल में भिन्नता का रहना, कहीं पर बुद्धि का होना और कहीं पर बुद्धि का न होना, जाति, पूर्व जन्म वृत्तान्त का स्मरण करना, यहां से मरने पर फिर यहां आना, एक समान एक दृष्टि से देखने पर प्रिय एवं अप्रिय, राग-द्वेष बुद्धि का उत्पन्न होना ये सब बातें पुनर्जन्म को सिद्ध करती हैं ।

अत एवानुमीयते—यत्स्त्रकृतमपरिहार्यमविनाशि पौर्वदेहिकं दैवसंज्ञकमानुबन्धिकं कर्म, तस्यैतत्फलं, इतश्चान्यद्भविष्यतीति । फलाद्वीजमनुमीयते, फलं च बीजात् ॥ ३० ॥

उपरोक्त बातों को देखकर ही अनुमान भी किया जाता है कि अपना किया हुआ कर्म नहीं छोड़ा जा सकता, उस का विनाश नहीं हो सकता, पूर्व जन्म में किया हुआ 'भाग्य' नाम आनुबन्धिक अर्थात् आत्मा के साथ परलोक में भी निश्चित रूप में बंधा हुआ है । उसी का यह फल है जो कि माता पिता से पुत्र भिन्न प्रकृति के उत्पन्न होते हैं इत्यादि । यहां किये कर्म से दूसरा जन्म होगा, बीज से फल का और फल से बीज का अनुमान होता है, कर्म से पुनर्जन्म का और पुनर्जन्म से कर्म का अनुमान होता है ।

युक्तिश्चैषा—पङ्धातुसमुदायाद् गर्भजन्म, कर्तृकरणसंयोगात् क्रिया, कृतस्य कर्मणः फलं नाकृतस्य, नाङ्कुरोत्पत्तिरत्रीजात्, कर्म-सदृशं फलं नान्यस्माद्वीजादन्यस्योत्पत्तिरिति युक्तिः ॥ ३१ ॥

युक्ति भी है कि—पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश और चेतना इन छः धातुओं के समुदाय मिलने से गर्भ उत्पन्न होता है और कर्ता और करण ( साधन ) के मिलने से क्रिया उत्पन्न होती है, कर्ता आत्मा, करण स्त्री



पुरुष उनके संयोग से गर्भाशय रूप क्षेत्र में जन्म होता है । किये हुए ही कर्म का फल होता है, न किये हुए कर्म का फल नहीं होता । जिस प्रकार बिना बीज के अंकुर उत्पन्न नहीं होता वैसे कर्म के अनुसार समान ही फल मिलता है यथा—एक जाति के बीज से दूसरी जाति का फल उत्पन्न नहीं होता ।

एवं प्रमाणैश्चतुर्भिरुपदिष्टे पुनर्भवे धर्मद्वारेष्ववधीयेत, तद्यथा—  
गुरुशुश्रूषायामध्ययने व्रतचर्यायां दारक्रियायामपत्योत्पादने भृत्य-  
भरणेऽतिथिपूजायां दानेऽन्नभिध्यायां तपस्यनसूयायां देहवाङ्मा-  
नसे कर्मण्यङ्घ्रिष्टे देहेन्द्रियमनोर्थबुद्ध्यात्मणरीचायां मनःसमाधा-  
विति, यानि चान्यान्यथेवंविधानि कर्माणि सतामविगर्हितानि  
स्वर्गाणि वृत्तिपुष्टिकराणि विद्यात्तान्यारभेत कर्तुं, तथा हि कुर्व-  
न्निह चैव यशो लभते प्रेत्य च स्वर्गमिति तृतीया परलोकैषणा  
व्याख्याता भवति ॥ ३२ ॥

इस प्रकार आसोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति चारों प्रमाणों द्वारा पुनर्जन्म के सिद्ध होने पर धर्म-साधन के मार्गों में चित्त लगावे । यथा—गुरु, माता, पिता, आचार्य की सेवा, अध्ययन-पठन में, ब्रह्मचर्य काय, मन, वाणी से मैथुन त्याग, ब्रह्मचर्यपालन, विवाह कर्म में, सन्तानोत्पत्ति, आश्रित जनों के पोषण में, अतिथि सत्कार में, यथाशक्ति दान देने में, दूसरे के धन को न चाहने में, द्वन्द्व सुख-दुःख सहने में, दूसरे के गुणों में दोष न देखने, में शरीर को बिना कष्ट पहुंचाये शरीर, वाणी और मन से कर्म करने में, देह-परीक्षा में, इन्द्रिय परीक्षा, मन परीक्षा विषय की परीक्षा, ज्ञान की परीक्षा, आत्म परीक्षा और मन की समाधि ( चित्तवृत्ति-निरोध ) में मन का लगाना ही धर्म-मार्ग है । और श्री दूसरे इसी प्रकार के कर्म, सज्जनों से अनिन्दित, पूजित, स्वर्ग सुख को देने वाले, जीवन पालन करने वाले हो, उन को करने का उद्योग करे, ऐसा करने पर इहलोक में यश मिलता है और मरने पर स्वर्ग अर्थात्

पुनर्जन्म मे सुख मिलेगा, इस प्रकार से तीसरी परलोकैपणा भी कह दी ।

अथ खलु त्रय उपस्तम्भाः, त्रिविधं बलं, त्रीण्यायतनानि, त्रयो रोगाः, त्रयो रोगमार्गाः, त्रिविधा भिषजः, त्रिविधमौषध-मिति ॥ ३३ ॥

तीन प्रकार के उपस्तम्भ अर्थात् शरीर को धारण करने वाले तत्त्व हैं, तीन प्रकार के बल है, तीन कारण है । तीन प्रकार के रोग हैं, तीन रोग-मार्ग है, तीन प्रकार के चिकित्सक है, तीन प्रकार की औषध है ।

त्रय उपस्तम्भा इत्याहारः, स्वप्नो, ब्रह्मचर्यमिति । एभिस्त्रिभिर्यु-क्तियुक्तैरुपस्तम्भमुपस्तम्भै शरीरं बलवर्णोपचयोपचितमनुवर्तते यावदायुः संस्कारात् । संस्कारमहितमनुपसेवमानस्य, य इहैवोप-देक्ष्यते ॥ ३४ ॥

तीन उपस्तम्भ तत्त्व जो शरीर को धारण करते हैं, आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य्य है । ये तीनों समान मात्रा में प्रयुक्त होने पर शरीर को दृढ़, मजबूत करके बल, वर्ण, कान्ति, संघटित करते हैं, जब तक शरीर में आयु रहती है, तब तक बनाये रखते हैं । इन तीनों उपस्तम्भों का उचित मात्रा में सेवन करना ही आयु का कारण है, जो अहित वस्तुएं यहां कहेंगे उनका सेवन न करना ही गुणों का आधान करना है ।

त्रिविधं बलमिति सहजं, कालजं युक्तिकृतं च । तत्र सहजं यच्छरीरसत्त्वयोः प्राकृतं, कालकृतमृतुविभागजं वयःकृतं च, युक्ति-कृतं पुनस्तद्यदाहारचेष्टायोगजम् ॥ ३५ ॥

तीन प्रकार का बल है—सहज, कालजन्य और युक्तिजन्य, इन में उत्पत्ति के समय ही शरीर और मन को गर्भाशय में मिलता है जो बल उसे सहज या प्राकृतिक बल कहते हैं । कालजन्य ऋतुओं के विभागानु-सार आहार-विहार के द्वारा और बाल्य, यौवन और वृद्धावस्था में उत्पन्न बल । यौवनावस्था में बलाधिक्य रहता है । बलकारक आहार या चेष्टा विहार से जो बल उत्पन्न किया जाता है वह युक्तिकृत है ।

त्रीण्यायतनानीति अर्थानां कर्मणः कालस्य चातियोगायोग-  
मिथ्यायोगः । तत्रातिप्रभावतां दृश्यानामतिमात्रं दर्शनमतियोगः,  
सर्वशोऽदर्शनमयोग, अतिसूक्ष्मातिश्लिष्टातिविप्रकृष्टरौद्रभैरवाद्भुत-  
द्विष्टवीभत्सविकृतादिरूपदर्शनं मिथ्यायोगः । तथाऽतिमात्रस्तनितपट-  
होत्कृष्टादीनां शब्दानामतिमात्रं श्रवणमतियोगः, सर्वशोऽश्रवणम-  
योग, परूपेष्टविनाशोपघातप्रघर्षणभीषणादिशब्दश्रवणं मिथ्यायोगः ।  
तथाऽतितीक्ष्णोष्णभिष्यन्दिनां गन्धानामतिमात्रं घ्राणमतियोगः,  
सर्वशोऽघ्राणमयोगः । पूतिद्विष्टामेध्यक्लिन्नविषपवनकुणपगन्धादिघ्राणं  
मिथ्यायोग, तथा रसानामत्यादानमतियोगः, अनादानमयोगः, मिथ्या-  
योगो राशिवर्ज्येष्व्राहारविधिविशेषायतनेषूपदेक्ष्यते; तथाऽतिशीतो-  
ष्णानां स्पृश्यानां स्नानाभ्यङ्गोत्सादनादीनां चात्युपसेवनमतियोगः,  
सर्वशोऽनुपसेवनमयोग, स्नानादीनां शीतोष्णादीनां च स्पृश्याना-  
मननुपूर्व्योपसेवनं विषमस्थानाभिघाताशुचिभूतसंस्पर्शादयश्चेति  
मिथ्यायोगः ॥ ३६ ॥

रोग के आयतन अर्थात् कारण तीन हैं, (१) अर्थ अर्थात् इन्द्रियों के विषय  
कर्म और काल इन तीनों का अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग ये तीन  
रोगों के 'आयतन' हैं । बहुत चमकने वाले पदार्थ सूर्य आदि का देर तक  
देखना चक्षु इन्द्रिय का 'अतियोग' है, सर्वथा ही न देखना 'अयोग' है ।  
बहुत क्लेशदायक पदार्थ का देखना, बहुत दूर की वस्तु को देखना, रौद्र,  
भयानक, डरचानी, अद्भुत, अप्रिय, वीभत्स और विकृत रूपों को देखना,  
आंख का 'मिथ्यायोग' है । इसी प्रकार बादल की घर्घराहटको अधिक  
सुनना, ढोल या नगाडे की आवाज़ को बहुत सुनना, तोप आदि के बहुत  
ऊंचे शब्द को अधिक सुनना, कान का 'अतियोग' है । सर्वथा न सुनना  
'अयोग' है । कठोर, पुत्र धन आदि इष्ट वस्तुओं के नाश को सुनना, इष्ट  
वस्तु के मरण को सुनना, दुर्वचन, तिरस्कार सुनना, भयोत्पादक भयानक  
शब्दों का सुनना, श्रोत्रेन्द्रिय का 'मिथ्यायोग' है । अति तीव्र ( मरिच

आदि) गन्ध का सूंघना, उग्र, चमेली आदि गन्ध का अधिक सूंघना, माल कंगनी आदि गन्ध का अधिक मात्रा में सूंघना, नासा का 'अतियोग' है। सर्वथा न सूंघना नाक का 'अयोग' है, सड़ी, दुर्गन्धयुक्त, गली की अपवित्र ज़हरीली वायु, मुर्दे की गन्ध जैसी वस्तुओं को सूंघना नाक का 'मिथ्यायोग' है। इसी प्रकार मधुर आदि रसों का अधिक मात्रा में उपयोग रसनेन्द्रिय का 'अतियोग' है, सर्वथा रसों का न खाना अयोग है। आगे विमान स्थान (अ० १) में कहे हुए प्रकृति, करण, संयोग, देश, काल, उपयोग, संस्थोपयोक्तृ और राशि इन आठ में से राशि को छोड़कर शेष सात के विरुद्ध आहार करने का नाम रसनेन्द्रिय का 'मिथ्यायोग' है। बहुत ठण्डे, बहुत गरम, स्पर्श, बहुत अधिक स्नान, बहुत मालिश, बहुत उबटन लगाना, त्वक् इन्द्रिय का 'अतियोग' है। इनके विल्कुल सेवनन करना 'अयोग' है, ऊंचे नीचे स्थान का, चोट घाव आदि और शव आदि अपवित्र वस्तुओं का स्पर्श करना 'मिथ्यायोग' है।

तत्रैकं स्पर्शनेन्द्रियमिन्द्रियाणामिन्द्रियव्यापकं चेतः, समवायि स्पर्शनव्याप्तेर्व्यापकमपि च चेतः, तस्मात्सर्वेन्द्रियाणां व्यापकस्पर्शकृतो यो भावविशेषः सोऽयमनुपशयात्पञ्चविधस्त्रिविधविकल्पो भवत्यसात्म्येन्द्रियार्थसंयोगः; सात्म्यार्थो ह्युपशयार्थः ॥ ३७ ॥

इन पांच ज्ञानेन्द्रियों में से एक स्पर्शन (त्वचा) इन्द्रिय शेष घ्राण, रसना, चक्षु और कर्ण इन चार इन्द्रियों में और गुदा, लिंग, हाथ, पैर और वाणी में भी व्यापक हैं और यह त्वग्-इन्द्रिय मन के साथ समवाय सम्वन्ध से संयुक्त है, इसलिये त्वग् इन्द्रिय सब इन्द्रियों में फैली होने से और चित्त का इस त्वगेन्द्रिय के साथ समवाय सम्वन्ध होने से मन भी व्यापक हो जाता है। इसलिये सब इन्द्रियों में व्यापक स्पर्शेन्द्रिय के साथ समवाय सम्वन्ध से जुड़ा हुआ मन, आत्मा के अर्भीप्सित विषय को ग्रहण करने के लिये स्पर्शेन्द्रिय द्वारा प्राप्त मार्ग में, उस विषय को ग्रहण करने वाली इन्द्रिय तक पहुँच जाता है। इस में सब इन्द्रियों

मे व्यापक त्वग् के स्पर्श से उत्पन्न जो अपने अपने विषय के ज्ञान विशेष उत्पन्न होते है, वे शरीर के अनुकूल न होने पर, पांच प्रकार के होने पर भी तीन प्रकार होते हैं। यथा ( १ ) 'असात्म्येन्द्रियार्थसंयोग' अर्थात् इन्द्रियों का विषय के साथ अनुचित रूप से संयोग होना अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग इन तीन प्रकार का हो जाता है। सात्म्य का अर्थ उपशम है, शरीर के जो अनुकूल पड़े वह 'सात्म्य' है।

कर्म वाङ्मनःशरीरप्रवृत्तिः। तत्र वाङ्मनःशरीरातिप्रवृत्तिरतियोगः, सर्वशोऽप्रवृत्तिरयोगः, वेगधारणोदीरणविषमस्खलनगमनपतनाङ्गप्रणिधानाङ्गप्रदूषणप्रहारमर्दनप्राणोपरोधसंक्लेशनादि शारीरो मिथ्यायोगः। सूचकानृताकालकलहाप्रियावद्धानुपचारपरुषवचनादि-वाङ्मिथ्यायोगः। भयशोकक्रोधलोभमोहमानेष्यामिथ्यादर्शनादिर्मानसो मिथ्यायोगः ॥ ३८ ॥

मन और शरीर इन की चेष्टा का नाम 'कर्म' है, इन में वाणी, मन और शरीर की अतिप्रवृत्ति का नाम 'अतियोग' है। इन की सर्वथा प्रवृत्ति न होना 'अयोग' है। वाणी, मल-मूत्रादि के उपस्थित वेगों को रोकना, अनुपस्थित वेगों को बलपूर्वक बाहर निकालना, सम स्थान पर विषम ( टेड़ा मेड़ा ) गिरना, अनुचित रूप से चलना, ऊंचे स्थान से कूटना, अंगों को टेड़ा मेड़ा करना, अंगों को पीड़ित करना, खुजाना, दवाना आदि, अंगों पर टण्ड आदि से प्रहार करना, अंगों को मर्दन करना, धाम घोटना, श्वास बन्द करना, संक्लेश व्रत, उपवास आदि, विषम नृत्य आदि कर्म भी शरीर के 'मिथ्यायोग' है। निन्दा, चुगली, मिथ्या बोलना, बिना समय के बात करना, झगडा करना, जी को दुखाने वाला अप्रिय, असम्बद्ध, प्रतिकूल और कर्कश बोलना, वाणी का 'मिथ्यायोग' है। भय, शोक, चिन्ता, क्रोध, लोभ, मोह, अज्ञान, मान, अहंकार, ईर्ष्या, मिथ्यादर्शन, नास्तिक्य बुद्धि ये मन के 'मिथ्यायोग' हैं।

संग्रहेण चातियोगायोगवर्जं कर्म वाङ्मनःशरीरजमहितमनुप-

दिष्टं यत् तच्च मिथ्यायोगं विद्यात् ॥ ३९ ॥ इति त्रिविधविकल्पं  
त्रिविधमेव कर्म प्रज्ञापराध इति व्यवस्येत् ॥ ४० ॥

संक्षेप में—वाणी, मन और शरीर के जो अहितकारी और नहीं कहे  
हुए कर्म हैं, जिन का अतियोग या अयोग में समावेश नहीं होता, वे  
सब 'मिथ्यायोग' जानने चाहियें। वाणी, मन और शरीर इनके अतियोग,  
अयोग और मिथ्यायोग को 'प्रज्ञापराध' कहते हैं।

शीतोष्णवर्षलक्षणः पुनर्हेमन्तग्रीष्मवर्षाः संवत्सरः स कालः ।  
तत्रातिमात्रस्वलक्षणः कालः कालातियोगः, हीनस्वलक्षणः कालः  
कालायोगः, यथास्वलक्षणविपरीतलक्षणस्तु कालः कालमिथ्या-  
योगः । कालः पुनः परिणाम उच्यते ॥ ४१ ॥

हेमन्त और शिशिर शीत काल, वसन्त और ग्रीष्म उष्ण काल, वर्षा  
और शरद् वर्षा काल। इस प्रकार से हेमन्त, शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म,  
वर्षा और शरद् इन छ. ऋतुओं वाला सम्बत्सर रूप काल, शीत, उष्ण  
और वर्षा के रूप में तीन प्रकार का है। इन में अपने लक्षणों से अधिक  
हेमन्त आदि का होना काल का 'अतियोग' है, शीतकाल में बहुत अधिक  
शीत, ग्रीष्म में बहुत अधिक गरमी, वर्षा काल में बहुत अधिक बरसात  
पड़ना ये काल के 'अतियोग' हैं और हेमन्त आदि काल में अपने लक्षणों  
से कम शीत आदि का होना 'अयोग' है। हेमन्त आदि काल में अपने  
लक्षणों से विपरीत लक्षणों का होना अर्थात् शीत काल में वर्षा या गरमी  
पड़ना, गरमियों में शीत या वर्षा होना, वर्षा काल में शीत या गरमी  
पड़ना, काल का 'मिथ्यायोग' है। काल का ही दूसरा नाम 'परिणाम' है।

इत्यसात्स्येन्द्रियार्थसंयोगः प्रज्ञापराधः परिणामश्चेति त्रयन्त्रि-  
विधविकल्पाः कारणं विकाराणाम्, समयोगयुक्तास्तु प्रकृतिहेतवो  
भवन्ति ॥ ४२ ॥

सर्वेषामेव भावानां भावाभावौ नान्तरेण योगायोगानियोग-

मिथ्यायोगान् समुपलभ्येते । यथास्वयुक्त्यपेक्षिणौ हि भावा-  
भावौ ॥ ४३ ॥

ये ऊपर कहे 'असात्म्येन्द्रियार्थ' 'प्रज्ञापराध' और 'परिणाम' ये तीनों अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग के द्वारा सब रोगों के कारण बनते हैं । इन्द्रियार्थ-संयोग, बुद्धि-संयोग और काल-संयोग ये तीनों स्वास्थ्य के कारण बनते हैं । क्योंकि सृष्टि के आरम्भ में जितने भी पदार्थ हैं, उन के दो ही स्वरूप हैं, एक भाव और दूसरा अभाव । अपने स्वरूप में रहने का नाम 'भाव' और अपने स्वरूप से भिन्न दूसरे स्वरूप से रहना 'अभाव' है । ये दोनों ( भाव और अभाव ) काल, बुद्धि और इन्द्रियार्थ संयोग के समययोग, अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग के बिना नहीं होते ।

त्रयो रोगा इति-निजागन्तुमानसाः । तत्र निजः शरीरदोष-  
समुत्थः, आगन्तुभूतविषवाय्वग्निसंप्रहारादिसमुत्थः, मानसः पुनरि-  
ष्टस्यालाभालाभाच्चानिष्टस्योपजायते ॥ ४४ ॥

रोग तीन प्रकार के हैं, ( १ ) निज जो अपने शरीर में उत्पन्न हैं, ( २ ) आगन्तुज और ( ३ ) मानस । इनमें ( १ ) निज जो शरीर के दोष वात, पित्त, कफ के कारण उत्पन्न होने वाले हैं । ( २ ) आगन्तुज भूत, विष, म्हावर, जंगम, विष से जन्य, दुष्ट वायु से, आग से, चोट आदि से उत्पन्न होने वाले । ( ३ ) इष्ट वस्तु के न मिलने और अनिष्ट वस्तु के मिल जाने से मानस रोग उत्पन्न होते हैं ।

तत्र बुद्धिमता मानसव्याधिपरीतेनापि सता बुद्ध्या हिताहि-  
तमवेक्ष्यावेक्ष्य धर्मार्थकामानामहितानामनुपसेवने हितानां चोप-  
सेवने प्रयतितव्यं, न ह्यन्तरेण लोके त्रयमेतन्मानसं किञ्चिन्निष्प-  
द्यते-सुखं वा दुःखं वा, तस्मादेतच्चानुष्ठेयं, तद्विद्यवृद्धानां चोपसेवने  
प्रयतितव्यं, आत्मदेशकालबलशक्तिज्ञाने यथावचेति ॥ ४५ ॥

बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिये कि मानस व्याधि के रहते हुए भी लोभ, काम, क्रोध, मोह के विपरित, उत्तम बुद्धि से हित और अहित कार्यों

का विचार करते हुए, धर्म, अर्थ और काम इनके अहितकारक कार्यों को छोड़ने में, तत्पर, एवं धर्म, अर्थ और काम के लिये हितकारी कार्यों को सेवन करने में प्रयत्नवान् रहना चाहिये । क्योंकि संसार में धर्म अर्थ और काम तीनों के विना मनोजन्य सुख वा दुःख कुछ भी नहीं होता । इसलिये इन ( धर्म, अर्थ और काम ) के हितकारी कार्यों का ग्रहण और अहितकारी कार्यों का त्याग करने में प्रयत्नशील रहना चाहिये, इस के लिये विद्यावृद्ध पुरुषो का सेवन करना चाहिये । आत्मज्ञान, देश-ज्ञान, काल-ज्ञान, बल-ज्ञान और शक्ति-ज्ञान के लिये उचित रीति से प्रयत्न करना चाहिये और इस प्रसङ्ग में एक श्लोक है ।

भवति चात्र ।

मानसं प्रति भौषज्यं त्रिवर्गस्यान्ववेक्षणम् ।

तद्विद्यसेवा विज्ञानमात्मादीनां च सर्वशः ॥ ४६ ॥ इति

औषध धर्म, अर्थ, काम ( त्रिवर्ग ) का सेवन करना, धर्म, अर्थ काम इन को उपदेश करने वाले विद्या वृद्ध पुरुष की सेवा करना, आत्मज्ञान, देश, काल, बल आदि का ज्ञान करना मानस रोगों की औषध है ।

त्रयो रोगमार्गा इति-शाखा, मर्मास्थिसंधयः, कोष्ठश्च । तत्र शाखा रक्तादयो धातवस्त्वक् च, स बाह्यो रोगमार्ग । मर्माणि पुनर्वस्तिहृदयमूर्धादीनि, अस्थिसंधयोऽस्थिसंयोगाः तत्रोपनिबद्धाश्च स्नायुकण्डराः, स मध्यमो रोगमार्गः । कोष्ठः पुनरुच्यते महास्रोतः शरीरमध्यं महानिम्नमामपकाशयश्चेति पर्यायशब्दैस्तन्त्रे, स रोगमार्ग आभ्यन्तरः ॥ ४७ ॥

रोगों के तीन मार्ग हैं, जैसे—( १ ) शाखा, ( २ ) मर्म, अन्ध, सन्धियाँ और ( ३ ) कोष्ठ । इन में शाखा रक्त आदि छः धातु और त्वचा ये मात बाह्य रोगमार्ग हैं, वस्ति ( मूत्राशय ), हृदय ( दिल ) और शिर, मस्तिष्क एक साथ तात मर्म और अस्थि ( हड्डियाँ ),



सन्धियां (अस्थियों के जोड़), तथा इन में बंधी हुई स्नायु (Ligaments) और कण्डरायें ये 'मध्यम रोगमार्ग' हैं, यह दूसरा रोगमार्ग है। शरीर के बीच में, बड़ा भारी स्रोत, बड़े भारी गढ़े के तुल्य है, इस को अमाशय या पक्काशय के नाम से कहते हैं, यह तीसरा 'आभ्यन्तर रोगमार्ग' है।

तत्र गण्डपिडकालज्यपचीचर्मकीलाधिमांसमशककुष्ठव्यङ्गादयो विकारा वहिर्मार्गजाश्च वीसर्पश्वयथुगुल्मार्शोविद्रध्यादयः शाखानुसारिणो भवन्ति रोगाः ॥ ४८ ॥

पञ्चवधग्रहापतानकार्दितशोषराजयक्ष्मास्थिसंधिशूलगुदभ्रंशादयः शिरोहृद्द्वस्तिरोगादयश्च मध्यममार्गानुसारिणो भवन्ति रोगाः ॥ ४९ ॥

ज्वरातीसारच्छर्द्यलसकविसूचिकाकासश्वासहिक्कानाहोदरप्लीहादयोऽन्तर्मार्गजाश्च वीसर्पश्वयथुगुल्मार्शोविद्रध्यादयः कोष्ठमार्गानुसारिणो भवन्ति रोगाः ॥ ५० ॥

इन में गण्ड (श्लेष्म, गलगण्ड रोग नहीं), फुन्सी, अलजी, अपची, चर्म, कील, अधिमांस, मशक (मस्से), कुष्ठ, व्यंग, और अजगल्लिका आदि रोग 'वहिर्मार्ग' में होते हैं। वीसर्प, सूजन, गुल्म, अर्श, विद्रधि आदि रोग शाखानुसारी अर्थात् रक्तानुसारिणों के अनुसार होते हैं। पक्षाघात, मन्याग्रह, अपतानक, अर्दित, शोष, राजयक्ष्मा, अस्थिशूल, सन्धिशूल, गुदभ्रंग आदि, हिक्का आदि एवं शिरो रोग, हृदय रोग तथा वस्ति रोग और अण्ड-वृद्धि भी ये 'मध्यम मार्गानुसारी' रोग हैं। ज्वर, अतीसार, छर्दि, अलसक, विसूचिका, (हैजा) कास, श्वास, हिक्का, आनाह, उदर, प्लीहा, आदि रोग 'अन्तर्मार्ग' से उत्पन्न होते हैं। विसर्प, सूजन, गुल्म, अर्श, और विद्रधि जो शाखानुसारी रोग हैं, वे कोष्ठानुसारी होते हैं, (रक्तानुसारी रोग कोष्ठानुसारी नहीं होते और कोष्ठानुसारी रोग शाखानुसारी रोग नहीं होते)।

त्रिविधा भिषज इति—

भिषक्छद्मचराः सन्ति सन्त्येके सिद्धसाधिताः ।

सन्ति वैद्यगुणैर्युक्तास्त्रिविधा भिषजो भुवि ॥ ५१ ॥

भिषक् अर्थात् वैद्य या चिकित्सक भी तीन प्रकार के होते हैं, १ छद्मचर, २ सिद्धसाधित और ३ वैद्य गुणों से युक्त ये तीन प्रकार के चिकित्सक इस पृथ्वी पर मिलते हैं ।

( वैद्यभाण्डौषधैः पुस्तैः पल्लवैरवलोकनैः ।

लभन्ते ये भिषक्शब्दमज्ञास्ते प्रतिरूपकाः ॥ ५२ ॥

छद्मचर वैद्यों का लक्षण—वैद्यों या औषधियों के वर्तन, पुस्त अर्थात् मिट्टी या लोहे के बने मनुष्य के ढांचे अथवा पुस्तकों, पत्तों को देखने से जो मनुष्य 'भिषक्' शब्द प्राप्त करते हैं, वे वैद्यों के नकलची टोंगी, मूर्ख हैं, वे त्याज्य हैं ।

( श्रीयशोज्ञानसिद्धानां व्यपदेशादतद्विधा ।

वैद्यशब्दं लभन्ते ये ज्ञेयास्ते सिद्धसाधिताः ॥ ५३ ॥

सिद्धसाधित वैद्य—अन्य स्थान पर चिकित्सा कर्म में हम को यश, ज्ञान, और सफलता मिली है इस प्रकार का बहाना, धोखा करके वैद्य बन जाते हैं, उनको 'सिद्ध-साधित' वैद्य समझना । इनको भी छोड़ देना चाहिये ।

प्रयोगज्ञानविज्ञानसिद्धिसिद्धाः सुखप्रदा ।

जीविताभिसरा ये स्युर्वैद्यत्वं तेष्ववस्थितम् ॥ ५४ ॥

सद् वैद्य का लक्षण—औषध का, प्रयोग और शास्त्र का ज्ञान, लोक व्यवहार के जानने, प्रख्यात एवं रोगियों को सुखी करने वाले 'प्राणाभिसर' कहाते हैं । इन्हो पुरुषों में वैद्य का लक्षण विद्यमान है । उन्हीं को वैद्य कहना चाहिये ।

त्रिविधमौषधमिति दैवव्यपाश्रयं, युक्तिव्यपाश्रयं, सत्त्वावज-  
यश्च । तत्र दैवव्यपाश्रयं मन्त्रौषधिमणिमङ्गलवस्त्युपहारहोमनियम-

प्रायश्चित्तोपवासस्वन्त्ययनप्रणिपातनीर्थरामनादि युक्तिव्यपाश्रयं  
पुनराहारौषधद्रव्याणां योजना । सत्त्वावजयः पुनरहितेभ्योऽर्थेभ्यो  
मनोविनिग्रहः ॥ ५५ ॥

औषध तीन प्रकार की है दैव-व्यपाश्रय, युक्तिव्यपाश्रय और सत्त्वाव-  
जय । इनमें दैव-व्यपाश्रय देव अर्थात् ईश्वर पर आश्रित औषध, मन्त्र,  
ओषधि, मणि, मंगल, शुभ कर्म, नियम, प्रायश्चित्त, उपवास, स्वस्तिपाठ,  
नमस्कार तीर्थाटन आदि हैं । युक्ति अर्थात् योग पर आश्रित औषध  
आहार एवं औषध द्रव्यों, दोष नाशक पदार्थों की योजना (३) सत्त्वावजय-  
मन, को अहितकारक विषयो से रोकना तीसरी प्रकार की औषध है ।

शारीरदोषप्रकोपे तु खलु शरीरमेवाश्रित्य प्रायशस्त्रिविधमौषध-  
मिच्छन्ति-अन्तःपरिमार्जनं, वहिःपरिमार्जनं, शस्त्रप्रणिधानं चेति ।  
तत्रान्त परिमार्जनं यदन्तःशरीरमनुप्रविश्यौषधमाहारजातव्याधीन्  
प्रमार्ष्टि । यत्पुनवहिःस्पर्शमाश्रित्याभ्यङ्गस्वेदप्रदेहपरिषेकोन्मर्दनाद्यै-  
रामयान् प्रमार्ष्टि तद्वहिःपरिमार्जनं । शस्त्रप्रणिधानं पुनश्छेदनभेदन-  
व्यधनदारणलेखनोत्पाटनप्रच्छन्नसीवनैषणचारजलौकसश्चेति ॥५६॥

शरीर के वात, पित्त, कफ इन दोषों के कुपित होने पर शरीर का  
ही आश्रय करके तीन प्रकार की औषधों का विशेष रूप से व्यवहार करते  
हैं । जैसे अन्तःपरिमार्जनं, वहिःपरिमार्जनं और शस्त्र-प्रणिधान । इनमें  
( १ ) जो औषध या आहार शरीर के अन्दर घुसकर उत्पन्न हुए रोगों  
को शान्त करता है वह 'अन्तःपरिमार्जनं' है और जो शरीर के बाहर  
ही त्वचा पर अभ्यंग, स्वेद, प्रलेप, परिषेक, उन्मर्दन ( मालिश )  
आदि द्वारा रोगों को शान्त करता है, उसे 'वहिःपरिमार्जनं' कहते हैं ।  
छेदन ( दो करना ) भेदन ( आशय के अन्दर घुसना ), व्यधन ( आशयों  
में भिन्न स्थान में भेदन करना ), दारण ( चीरना ), लेखन ( खनन,  
सुगेचना ), उत्पाटन ( उखाड़ना ), प्रच्छन्न ( शस्त्र आदि से फाटना ),  
सावन ( सीना ), षण ( नाड़ी या गति व्रग को डूँडना ), क्षार ( द्रव्यों

को भस्मकर क्षरण होने वाला सार भाग ), जलौका ( जोक ) इनके-  
उपयोग को शस्त्र-प्रणिधान कहते हैं ।

प्राज्ञो रोगे समुत्पन्ने बाह्येनाभ्यन्तरेण वा ।  
कर्मणा लभते शर्म शस्त्रोपक्रमणेन वा ॥ ५७ ॥  
बालस्तु खलु मोहाद्वा प्रमादाद्वा न बुध्यते ।  
उत्पद्यमानं प्रथमम् रोगम् शत्रुमिवाबुधः ॥ ५८ ॥  
अणुर्हि प्रथमं भूत्वा रोगः पश्चाद्विवर्धते ।  
स जातमूलो मुष्णाति बलमायुश्च दुर्मते ॥ ५९ ॥  
न मूढो लभते संज्ञां तावद्यावन्न पीड्यते ।  
पीडितस्तु मति पश्चात्कुरुते व्याधिनिग्रहे ॥ ६० ॥  
अथ पुत्राश्च दारांश्च ज्ञातींश्चाहूय भाषते ।  
सर्वस्वेनापि मे कश्चिद्विपगानीयतामिति ॥ ६१ ॥  
तथाविधं च कः शक्तो दुर्बलं व्याधिपीडितम् ।  
कृशं क्षीणेन्द्रियं दीनं परित्रातुं गतायुषम् ॥ ६२ ॥  
स त्रातारमनासाद्य बालस्त्यजति जीवितम् ।  
गोधा लाङ्गलवद्धेवाकृष्यमाणा बलीयसा ॥ ६३ ॥  
तस्मात्प्रागेव रोगेभ्यो रोगेषु तरुणेषु वा ।  
भेषजैः प्रतिकुर्वीत य इच्छेत्सुखमात्मनः ॥ ६४ ॥

बुद्धिमान् रोग के होने पर बहिःपरिमार्जन अथवा 'अन्तःपरिमार्जन'  
या शस्त्र-क्रिया से शान्ति प्राप्त करता है । परन्तु बाल, अनभिज्ञ पुरुष मोह  
वश अथवा प्रमाद से उत्पन्न होते हुए रोग को पहिले से उसी प्रकार नहीं  
जानता, जिस प्रकार मूर्ख अपने उत्पन्न होते हुए शत्रु को नहीं पहिचानता ।  
रोग प्रथम सूक्ष्म रूप में होता है, और पीछे बढ जाता है । बढने पर इस  
रोग की जड़ जम जाती है, जट पकड लेने पर रोग मूड व्यक्ति की  
आयु और बल दोनों को हर लेता है । जब तक मनुष्य रोग से पीडित  
नहीं होता, तब तक प्रतीकार का विचार नहीं करता । और जब दुःखित

हो जाता है, तब रोग के निराकरण सोचा करता है । सब पुत्रों, स्त्रियों और जाति सम्बन्धियों को बुला कर कहता है, कि 'मेरा सर्वस्व ढेकर भी किसी वैद्य को लाओ, इस प्रकार के रोगग्रस्त, निर्बल, क्षीणेन्द्रिय, दीन, मरणासन्न व्यक्ति की कौन वैद्य रक्षा कर सकता है ? वह मूढ़ रक्षा करने वाले को न पाकर प्राण त्याग देता है, जिस प्रकार पूंछ से बंधी हुई गौह को कोई बलवान् व्यक्ति जोर से खेंचे, तो वह मर जाती है, ऐसे ही वह भी मर जाता है । इसलिये जो व्यक्ति सुख चाहे वह रोगों के उत्पन्न होने से पूर्व, संचयावस्था में, रोगों की तरुणदशा में ही दोषों का औषधियों से प्रतीकार करे ।

तत्र श्लोकौ ।

एषणाश्चाप्युपस्तम्भा बलं कारणमामयाः ।

तिस्त्रैपणीये मार्गाश्च भिषजो भैषजानि च ॥ ६५ ॥

त्रित्वेनाष्टौ समुद्दिष्टाः कृष्णात्रेयेण धीमता ।

भावा, भावेष्वसक्तेन येषु सर्वं प्रतिष्ठितमिति ॥ ६६ ॥

निस्त्रैपणीय अध्याय में बुद्धिमान् ऋषि कृष्णात्रेयने तीन एषणायें, उपस्तम्भ, बल, रोगों के कारण, रोगमार्ग, वैद्य, भैषज्य, औषध, इन आठों के तीन तीन भेद कर कल्पना सहित उपदेश किये हैं ।

श्याश्रिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसरकृते सूत्रस्थाने निर्देशचतुष्टे

तिस्त्रैपणीयो नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

## द्वादशोऽध्यायः ।

अथातो वातकलाकलीयमन्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

इस के आगे 'वातकलाकलीय' नामक अध्याय की व्याख्या करते हैं ।

यह भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

वातकलाकलज्ञानमधिकृत्य परस्परमतानि जिज्ञासमानाः समु-  
पविश्य महर्षयः पप्रच्छुरन्योन्यं किं गुणो वायुः, किमस्य प्रकोपनं,  
उपशमनानि वाऽस्य कानि, कथं चैनमसंवातवन्तमनवस्थितम-  
नासाद्य प्रकोपनप्रशमनानि प्रकोपयन्ति प्रशमयन्ति वा, कानि  
चास्य कुपिताकुपितस्य शरीराशरीरचरस्य शरीरेषु चरतः कर्माणि  
वहिःशरीरेभ्यो वेति ॥ ३ ॥

वायु के अशांश विकल्पना के सम्बन्ध में महर्षि लोग एकत्र होकर  
परस्पर एक दूसरे के मत जानने के लिये पूछने लगे कि—वायु के  
क्या गुण हैं ? वायु को प्रकुपित करने वाले कौन से कारण हैं ? कुपित  
वायु को शान्त करने वाली कौन सी वस्तुएं हैं ? और किस प्रकार से इस  
अमूर्त्त, अदृश्य एवं निरन्तर गतिशील, चंचलस्वभाव वायु को विना प्राप्त  
किये कुपित करने वाली वस्तुएं इसे कैसे कुपित करती हैं, अथवा शान्त  
करने वाली वस्तुएं किस प्रकार से इस को शान्त करती हैं ? और  
शरीर के अन्दर गति करने वाले एवं लोक में चलने वाले, कुपित एवं  
अकुपित वायु के शरीर के अन्दर गति करते हुए कौन २ से कर्म हैं, और  
शरीर के बाहर लोक में गति करते हुए इस के कौन से कर्म होते हैं ?

अत्रोवाच कुशः साङ्कृत्यायनः—रुक्षलघुशीतदारुणखरविशदाः  
षड्भिरे वातगुणा भवन्ति ॥ ४ ॥

इस प्रसङ्ग में ऋषि साङ्कृत्यायन कुश बोले—वायु के रुक्ष, लघु,  
शीत, दारुण, खर, विशद ये छ गुण होते हैं ।

तच्छ्रुत्वा वाक्यं कुमारशिरा भरद्वाज उवाच—एवमेतद्यथा  
भगवानाह, एत एव वातगुणा भवन्ति, स त्वेवंगुणैर्द्रव्यैरेवं-  
प्रभावैश्च कर्मभिरभ्यस्यमानैर्वायुः प्रकोपमापद्यते, समानगुणा-  
भ्यासो हि धातूनां वृद्धिकारणमिति ॥ ५ ॥

इस को सुनकर ऋषि कुमारशिराभरद्वाज बोले—“जिस प्रकार  
आपने कहा, ठीक इसी प्रकार है । ये रुक्ष आदि छ गुण ही वायु के हैं ।

इसलिये इन गुणों वाले पदार्थों इन गुण वाले प्रभावों और इन गुण वाले कर्मों के पुनः २ सेवन करने से वायु का प्रकोप होता है । क्योंकि धातुओं के समान गुण वाले पदार्थों वा कर्मों के पुनः २ सेवन करने से धातुओं की वृद्धि होती है ।”

तद्ध्रुत्वा वाक्यं काङ्कायनो बाह्ली कभिषगुवाच—एवमेतद्यथा भगवानाह, एतान्येव वातप्रकोपनानि भवन्ति, अतो विपरीतानि खल्वस्य प्रशमनानि भवन्ति, प्रकोपनविपर्ययो हि धातूनां प्रशमकारणमिति ॥ ६ ॥

इस बात को सुनकर काङ्कायन नाम बाह्लीक ( बल्ल ) देश के वैद्य बोले—‘जिस प्रकार आपने कहा ठीक ऐसा ही है । ये ही कारण वात को कुपित करते हैं । इनके विपरीत स्निग्ध, गुरु, उष्ण, मृदु, पिच्छिल, श्लक्ष्ण, स्थूल, स्थिर, गुण वाले द्रव्य या इस प्रकार के कर्म इस कुपित वायु को प्रशमन करते हैं । क्योंकि कोपक वस्तुओं के कारणों के विपरीत गुण वाले द्रव्य धातुओं को शान्त करते हैं ।

तद्ध्रुत्वा वाक्यं वडिशो धामार्गव उवाच—एवमेतद्यथा भगवानाह, एतान्येव वातप्रकोपप्रशमनानि भवन्ति, यथा ह्येनमसंघातमनवस्थितमनासाद्य प्रकोपप्रशमनानि प्रकोपयन्ति प्रशमयन्ति वा, तथाऽनुव्याख्यास्यामः । वातप्रकोपनानि खलु रूक्षलघुशीतदारुणखरविशदशुपिरकराणि शरीराणां, तथाविधेषु शरीरेषु वायुराश्रयं गत्वाऽऽप्याय्यमानः प्रकोपमापद्यते, वातप्रशमनानि पुनः स्निग्धगुरुष्णश्लक्ष्णमृदुपिच्छिलघनकराणि शरीराणां, तथाविधेषु शरीरेषु वायुरासज्यमानश्चरन् प्रशान्तिमापद्यते ॥ ७ ॥

काङ्कायन ऋषि के वचन सुनकर वडिश धामार्गव बोले—आपने जो कहा सो ठीक ही कहा है । ये ही आपके कहे हुए कारण वायु को कुपित और शान्त करने वाले होते हैं । जिस प्रकार कि इस सूक्ष्म एवं निरन्तर गतिशील वायु को प्राप्त करके ये रूक्ष आदि गुण इस वायु को कुपित

करते हैं, अथवा स्निग्ध आदि गुण इस को शान्त करते हैं, उसे विस्तार से कहते हैं । वात को प्रकुपित करने वाले रूक्ष, लघु, शीत, दारुण, खर, विशद और शुपिर अर्थात् विरल गुण करने वाले तत्र शरीर के वायु को कुपित करने वाले हैं । रूक्ष आदि गुणों वाले शरीरो में (जब मनुष्य रूक्ष आदि पदार्थों का सेवन करता है ) तब वायु के स्थान में वे पदार्थ पहुंच कर वायु को बढ़ाते हैं, बढ़ने के साथ ही वायु कुपित हो जाता है । वायु को शान्त करने वाले, स्निग्ध, गुरु, उष्ण, श्लक्ष्ण, मद्गु, पिच्छिल, घन ( ठोस ) करने वाले पदार्थों को सेवन करते हुए पुरुषों के रूक्ष आदि गुणों से युक्त शरीरो में जब स्निग्धादि गुण घुस जाते हैं, तब स्थान के न मिलने से वायु स्थिर हो २ कर गति करता और शान्त हो जाता है ।

तच्छ्रुत्वा वडिशवचनमवितथमृषिगणैरनुमतमुवाच वायोर्विदो राजर्षिः—एवमेतत्सर्वमनपवादं यथा भगवानाह, यानि तु खलु वायोः कुपिताकुपितस्य शरीराशरीरचरस्य शरीरेषु चरतः कर्माणि बहि-शरीरेभ्यो वा भवन्ति, तेषामवयवान् प्रत्यक्षानुमानोपमानैः साधयित्वा नमस्कृत्य वायवे यथाशक्ति प्रवक्ष्यामः ।

वडिश धामार्गव ऋषि के ऋषियों से अनुमोदित, वचन को सुनकर राजर्षि वायोर्विद बोले । आपने जो कुछ कहा है, वह सब अपवादरहित, सत्य है । कुपित और अकुपित, शरीर के अन्दर बाहर और गति करते हुए वायु के शरीर में तथा शरीर के बाहर जो कर्म होते हैं कुछ उनके अंशों को प्रत्यक्ष अनुमान उपमान प्रमाणों से सिद्ध करके वायु को नमस्कार करके, यथा शक्ति कहेंगे ।

वायुस्तन्त्रयन्त्रधरः, प्राणोदानसमानव्यानापानात्मा, प्रवर्तकश्चेष्टानामुच्चावचानां, नियन्ता प्रणेता च मनसः, सर्वेन्द्रियाणामुद्योजकः, सर्वेन्द्रियार्थानामभिवोढा, सर्वशरीरधातुव्यूहकर, संधानकरः शरीरस्य, प्रवर्तको वाचः, प्रकृतिः स्पर्शशब्दयोः, श्रोत्रस्पर्शनयोर्मूलं, हर्षोत्साहयोर्योनिः, समीरणोऽग्नेः, द्रोपसंशोषणः, क्षेप्ता बहिर्मलानां



स्थूलाणुस्रोतसां भेत्ता, कर्त्ता गर्भाकृतीनां, आयुषोऽनुवृत्तिप्रत्ययभूतो भवत्यकुपितः ।

शरीर के समस्त तन्त्र अर्थात् व्यवस्था को वायु ही धारण करता है । यह प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान भेद से पांच प्रकार का है । सब प्रकार की ऊंची या नीची नानाविध चेष्टाओं, क्रियाओं का प्रवर्त्तक है । मन को चलाने वाला और नियम में रखने वाला है, सब इन्द्रियों को प्रेरणा करने वाला है, सब इन्द्रियों तक विषयों को पहुंचाता है । शरीर के सब धातुओं का एक व्यूह बनाता है, शरीर के अवयवों को मिलता है, शरीर को चलाता गति देता है वाणी को प्रवृत्त करता है, शरीर में स्थित शब्द और स्पर्श को वायु ही ज्ञान कराता है ( आकाश नहीं ), इसलिये श्रोत्र और इन्द्रिय का कारण है । हर्ष और उत्साह को उत्पन्न करता है । अग्नि को दीप्त करता जाठराग्नि को बढ़ाता है । शरीर में क्लेद बढ़ने पर दोषों को सुखाता है । मल-मूत्र आदि मलों को शरीर से बाहर फेकता है । स्थूल और सूक्ष्म स्रोतों गला—नासिका आदि छिद्रों—का विभाग करता है । गर्भ की आकृति ( रचना ) को बनाता है । शरीर में गति से ही वायु जीवन को बराबर बनाये रखता है । इस प्रकार अकुपित हुआ वायु शरीर के अन्दर गति करता है ।

कुपितस्तु खलु शरीरे शरीरं नानाविधैर्विकारैरुपतपति बलवर्ण-सुखायुषामुपघाताय, मनो व्याहर्षयति, सर्वेन्द्रियाण्युपहन्ति, विनिहन्ति गर्भान् विकृतिमापादयत्यतिकालं धारयति, भयशोकमोहदैन्या-तिप्रलापाञ्जनयति, प्राणांश्चोपरुणद्धि ।

शरीर में कुपित होने पर वायु शरीर को नाना प्रकार के विकार-दुःखों से पीड़ित करता है । बल, वर्ण (कान्ति), सुख और आयु का नाशकारक होता है । मन को वैचैन करता है । इन्द्रियों को नष्ट करता है । गर्भों को नष्ट करता है, गर्भों में अंगों के विकार ( कुचढ़ापन, युगल-प्रसव आदि ) विगुणता उत्पन्न करता, गर्भों के नियत प्रसव काल के उपरान्त भी

वालक को गर्भाशय में रोके रहता है । भय, शोक, मोह, दीनता, प्रलाप, वकवाद उत्पन्न करता है और प्राणों को नष्ट करता है ।

प्रकृतिभूतस्य खल्वस्य लोकेषु चरतः कर्माणीमानि भवन्ति, तद्यथा—धरणीधारणं, ज्वलनोज्ज्वालनं, आदित्यचन्द्रनक्षत्रग्रहगणानां संतानगतिविधानं, सृष्टिश्च मेघानां, अपां च विसर्गः, प्रवर्तनं स्रोतसां, पुष्पफलानां चाभिनिर्वर्तनं, उद्भेदनं चौद्धिदानां, ऋतूनां प्रविभागः, विभागो धातूनां, धातुमानसंस्थानव्यक्तिः, बीजाभिसंस्कारः, शस्याभिवर्धनमविक्लेदोपशोषणे, अवैकारिकविकाराश्चेति । प्रकुपितस्य खल्वस्य लोकेषु चरतः कर्माणीमानि भवन्ति, तद्यथा—उत्पीडनं सागराणां, उद्वर्तनं सरसां, प्रतिसरणमापगानां, आकम्पनं च भूमेः, आधमनमम्बुदानां, शिखरिशिखरावमथनं, उन्मथनमनोकहानां, नीहारनिर्हादपांसुसिकतामत्स्यभेकोरगक्षाररुधिराश्माशनिविसर्गः, व्यापादनं च षण्णामृतूनां, शम्यानामसंघातः, भूतानां चोपसर्गः, भावानां चाभावकरणं, चतुर्युगान्तकराणां मेघसूर्यानलानिलानां विसर्गः ।

अकुपित अवस्था में इस वायु के लोक में चलते हुए ये कर्म होते हैं, जैसे पृथ्वी का धारण करना । अग्नि का जलाना, सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र और ग्रह इनकी धारावाहिक गति करना । बादलों को बनाना, उत्पन्न करना । पानी बरसाना । स्रोतों का नदियों में प्रेरित करना । फूलों और फलों को खिलाना, गर्भित करना और बनाना । भूमि से उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों को भूमि से अंकुरित करना, ऋतुओं का विभाग करना । धातुओं का विभाग करना । धातुओं में भार एवं आकार का बनाना, पैदा करना बीज को अंकुर रूप में बढ़ाना । सस्य-नृणों को बढ़ाना । गीलेपन ( आर्द्रता को ) को शुष्क करना और मूल प्रकृति विकार में उत्पन्न करना ।

कुपित वायु के संसार में जो कर्म होते हैं वे ये हैं, यथा पर्वत के शिखरों, चोटियों का मथना, वृक्षों को उखाड़ कर फेंक देना, समुद्रों को क्षुब्ध करना, तालाबों में जल वृद्धि, नदियों का प्रवाह उल्टा करना ।

भूकम्प पैदा करना वादलो मे घर्घराहट पैदा करना, तुपार (वर्फ), बादलों का गवद, रेता, धूल. मछलियां, मेडक, सांप, क्षार, रक्त, ओले, हिमशिला और विजली का आकाश से वरसाना, छ. ऋतुओ के मिथ्यायोग, अतियोग, अयोग करना, अनाज को निर्बल रखना ( पौपण न देना ), प्राणियों का विकास करना सब पदार्थों का अभाव उत्पन्न करना, चारों युगों की समाप्ति करने वाले वादल, सूर्य, वायु और आग इनको प्रेरित करना,

स हि भगवान् प्रभवश्चाव्ययश्च, भूतानां, भावाभावकरः, सुखासुखयोर्विधाता, मृत्यु, यमो, नियन्ता, प्रजापतिः, अदितिः, विश्वकर्मा, विश्वरूपः, सर्वगः, सर्वतन्त्राणां विधाता, भावानामणुर्विभुर्विष्णु, क्रान्ता लोकानां, वायुरेव भगवानिति ॥ ८ ॥

यह भगवान् वायु सब प्राणियों का उत्पत्ति कारण, विलय स्थान है, वह सब को उत्पन्न और विनाश करता, सुख दुःखों का कर्ता, मृत्यु, यम, नियन्ता, प्रजापति, अदिति, विश्वकर्मा, विश्वरूप, सर्वत्र व्यापक सब शरीरों को धारण करने वाला, सब पदार्थों में अति सूक्ष्म, सब पदार्थों में चढ़ा, विष्णु, सब लोकों में व्यापक भगवान् वायु ही है ।

तच्छ्रुत्वा वायोर्विद्वचो मारीचिरुवाच—यद्यप्येवमेतत्किमर्थस्यास्य वचने विज्ञाने वा सामर्थ्यमस्ति भिपग्विद्यायां, भिपग्विद्यां चाधिकृत्येयं कथा प्रवृत्तेति ॥ ९ ॥

वायोर्विद के वचन को सुनकर मारीचि बोले—यद्यपि यह सब बातें ठीक हैं, तथापि चिकित्सा की विद्या में इनका कहने और इनको जानने का क्या प्रयोजन है ? यह तो चिकित्सा-विषयक कथा-प्रसंग है ।

वायोर्विद उवाच—भिपक्, पवनमतिवलमतिपरुपमतिशीघ्रकारिणामात्ययिकं चेन्नानुनिशम्येत्, सहसा प्रकुपितमतिप्रयतः कथमग्नेऽभिरक्षितुमभिधास्यति प्रागेवैनमत्ययभयादिति । वायोर्यथार्थास्तुतिरपि भवत्यारोग्याय बलवर्णवृद्धये वर्चस्वित्वायोपचयाय ज्ञानोपपत्तये परमायुःप्रकर्षाय चेति ॥ १० ॥

वायांविद् बोले—चिकित्सा शास्त्र में वायु बहुत बलवान्, बहुत कठोर, अति शीघ्रकारि-अतिचपल, अति दुःखदायक है, यदि ऐसा ज्ञान न हो तो, सहसा वायु के कुपित होने पर, वैद्य किस प्रकार से उसको विना जाने पहिले ही इससे बचने को कहेगा। वायु के विषय में यथार्थ रूप में कहना, जानना, स्तुति करना भी आरोग्यलाभ, बल, कान्ति, तेज, शक्ति को बढ़ाने, ज्ञान वृद्धि करने और दीर्घतम आयु को प्राप्त करने और बढ़ाने के लिये है।

मारीचिरुवाच—अग्निरेव शरीरे पित्तान्तर्गतः कुपिताकुपितः शुभाशुभानि करोति, तद्यथा—पक्तिमपक्ति दर्शनमदर्शनं मात्रामा-  
त्रत्वमूष्मणः प्रकृतिविकृतिवर्णं शौर्यं भयं क्रोधं हर्षं मोहं प्रसादमित्ये-  
वमादीनि चापराणि द्वन्द्वानीति ॥ ११ ॥

मारीचि बोले—शरीर में स्थित पित्त के अन्दर पहुँची हुई अग्नि ही कुपित और अकुपित अवस्था में शुभ एवं अशुभ कर्मों को ( क्रमशः ) करती है। यथा—कुपित न होने पर पचन क्रिया को ( आजक पित्त ), स्वाभाविक रंग को ( रजक पित्त ), शौर्य, हर्ष, प्रसाद-प्रसन्नता को ( साधक अग्नि ) उत्पन्न करता है। कुपित होने पर, पचन क्रिया की जडता, मन्द दृष्टि, उष्णता को अयोग्य प्रमाण में, विकृत वर्ण, भय, क्रोध, मूर्च्छा उत्पन्न करता है। इसी प्रकार कुपित और अकुपित अवस्थाओं में पित्त अन्य द्वन्द्वों को भी उत्पन्न करता है।

तच्छ्रुत्वा मारीचिवचः काप्य उवाच—सोम एव शरीरे श्लेष्मा-  
न्तर्गतः शुभाशुभानि करोति, तद्यथा—दाह्यं शैथिल्यमुपचयं कार्श्य-  
मुत्साहमालस्यं वृषतां क्लीवतां ज्ञानमज्ञानं बुद्धिं मोहमेवमादीनि  
चापराणि द्वन्द्वानीति ॥ १२ ॥

मारीचि ऋषि के बचन सुनकर काप्य बोले—शरीरन्ध कफ में सोम ( जल तत्त्व ) पहुँच कर कुपित और अकुपित अवस्था में शुभ एवं अशुभ कर्मों को करता है। अकुपित अवस्था में—शरीर की दृढ़ता, वृद्धि, तापों

में उत्साह, पुरुषत्व, ज्ञान, बुद्धि आदि को उत्पन्न करता है। कुपित होने पर शरीर का ढीलापन, निर्बलता, आलस्य, नपुंसकता, मूढता, मूर्च्छा आदि उत्पन्न करता है। इस प्रकार कुपित और अकुपित अवस्था में दूसरे द्रव्यों को भी उत्पन्न करता है।

तच्छ्रुत्वा काप्यवचो भगवान् पुनर्वसुरात्रेय उवाच—सर्व एव भवन्त सम्यागाहुरन्यत्रैकान्तिकवचनात्, सर्व एव खलु वातपित्त-श्लेष्माणः प्रकृतिभूताः पुरुषमव्यापन्नेन्द्रियं बलवर्णसुखोपपन्नमायुषा महतोपपादयन्ति सम्यगेवाचरिता धर्मार्थकामा इव निःश्रेयसेन महतोपपादयन्ति पुरुषमिह चामुष्मिश्च लोके, विकृतास्त्वेन महता विपर्ययेणोपपादयन्ति ऋतवस्त्रय इव विकृतिमापन्ना लोकमशुभेनोपघातकाले इति॥ १३ ॥

काप्य ऋषि के वचनो को सुनकर पुनर्वसु आत्रेय बोले—आप सबने जो कुछ कहा वह सब ठीक है। परन्तु आपने जो यह कहा कि अकेला वायु या अकेला पित्त अथवा अकेला कफ ही कुपित और अकुपित अवस्था में सब शुभ-अशुभ कर्म करते हैं—यह वचन व्यभिचरित होने से ठीक नहीं है। सब ही वात 'पित्त'कफ (तीनों) अकुपित अर्थात् स्वस्थावस्था में प्रकृतियुक्त स्वस्थ इन्द्रिययुक्त पुरुष को, बल, वर्ण, सुख और दीर्घायुष्य प्रदान करते हैं। जिस प्रकार कि उचित रूप में सेवन किये हुए धर्म, अर्थ और काम पुरुष को इस लोक में और परलोक में बड़े भारी कल्याण से युक्त करते हैं, जिस प्रकार की विकृत हुई तीनों ऋतुएं (शीत, ग्रीष्म और वर्षा) संसार को प्रलयकाल में कष्टों से पीड़ित करते हैं इसी प्रकार कुपित हुए वात पित्त और कफ पुरुष को बड़े भारी विपरीत बल, वर्ण, सुख से हीन तथा अत्यायु बनाते हैं।

तदत्रयः सर्व एवानुमेनिरे वचनमात्रेयस्य भवगतोऽभिननन्दु-  
श्चेति ॥ १४ ॥

भवति चात्र ।

तदात्रेयवचः श्रुत्वा सर्व एवानुमेनिरे ।

ऋपयोऽभिनन्दुश्च यथेन्द्रवचनं सुराः ॥ १५ ॥

भगवान् आत्रेय के कथन को सब ऋषियों ने अनुमोदन किया । जिस प्रकार कि देवता इन्द्र के वचनों को सराहते हैं, इस प्रकार ऋषियों ने आत्रेय के वचनों की प्रशंसा की ।

-तत्र श्लोकौ-गुणाः षड् द्विविधो हेतुर्विविधं कर्म यत्पुनः ।

वायोश्चतुर्विधं कर्म पृथक्च कफपित्तयोः ॥ १६ ॥

महर्षीणां मतिर्या या पुनर्वसुमतिश्च या ।

कलाकलीये चातस्य तत्सर्वं संप्रकाशितमिति ॥ १७ ॥

वायु के छः गुण, दो प्रकार के कारण कुपित और अकुपित, वायु के नाना प्रकार के कर्म, कफ और पित्त के चार कर्म, महर्षियों पुनर्वसु आत्रेय की संमति, ये सब इस 'वात-कलाकलीय' अध्याय में सम्पूर्ण रूप में कह दिया ।

इत्यभिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने स्वस्थवृत्तचतुष्के

वातकलाकलीयो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

इति निर्देशचतुष्कस्तृतीयः ॥ ३ ॥

## त्रयोदशोऽध्यायः ।

अथात. स्नेहाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

इसके आगे स्नेह-अध्याय की व्याख्या करते हैं, ऐसा भगवानात्रेय ने उपदेश किया है ।

सांख्यैः संख्यातसंख्येयै सहासीनं पुनर्वसुम् ।

जगद्वित्तार्थं पप्रच्छ वहिवेश. स्वमंशयम् ॥ ३ ॥

जिन तत्त्वज्ञानी लोगों ने जानने योग्य ज्ञानों को भगी प्रयाग जान

लिया था ऐसे मुनियों के साथ बैठे हुए पुनर्वसु आत्रेय से, ऋषि अभिवेश ने अपने सन्देश को जगत् के कल्याण के लिये पूछा ।

कि योनयः, कति स्नेहाः, के च स्नेहगुणाः पृथक् ।

कालानुपाने के, कस्य, कति, काश्च विचारणाः ॥ ४ ॥

कति मात्राः, कथंमाना, का च केपूपदिश्यते ।

कश्च केभ्यो हितः स्नेहः, प्रकर्षः स्नेहने च कः ॥ ५ ॥

स्नेहाः के, के न च स्निग्धाः, स्निग्धातिस्निग्धलक्षणम् ।

कि पानात्प्रथमं, पीते जीर्णे कि च हिताहितम् ॥ ६ ॥

के मृदुक्रकोष्ठा, का व्यापदः, सिद्धयश्च काः ।

अच्छे संशोधने चैव स्नेहे का वृत्तिरिष्यते ॥ ७ ॥

विचारणाः केपु योज्या विधिना केन तत् प्रभो । ।

स्नेहस्यामितविज्ञान ! शास्त्रमिच्छामि वेदितुम् ॥ ८ ॥

स्नेहो का उत्पत्ति स्थान कौन से है ? स्नेह कितने हैं ? पृथक् पृथक् प्रत्येक स्नेह के गुण क्या है ? प्रत्येक स्नेह का समय, अनुपान क्या है ? विचारणां कितने प्रकार की हैं ? मात्राये कितनी है ? उनका परिमाण क्या है ? और कौन सा परिमाण किसके लिये कहा गया है ? कौनसा स्नेह किस के लिये हितकारी है ? स्नेहन में कौन से स्नेह उत्तम हैं ? स्नेह के योग्य कौन हैं ? स्नेह के अयोग्य कौन है ? अस्निग्ध और अतिस्निग्ध के लक्षण क्या है ? स्नेहपान से पूर्व क्या पीना और क्या नहीं पीना चाहिये ? स्नेह के जीर्ण होने पर क्या पीना हितकारी और क्या अहितकारी है ? मृदु, क्रूर, के आले कौन है ? स्नेह से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं ? उनका उपचार क्या है ? संशामन, संशोधन और स्नेहन में कैसे वर्ताव से रहे ? किन २ पुं नो में मेल और विचारणा और किन विधि से प्रयोग करनी चाहिये ? हे प्रभो ! स्नेह सम्यग्धी अनन्त ज्ञान को जानने की मेरी इच्छा है ।

अथ तत्संशयच्छ्रेत्ता प्रत्युवाच पुनर्वसुः ।

स्नेहानां द्विविधा साम्य ! यानि. स्थावरजङ्गमा ॥ ९ ॥

तिलः पियालाभिषुकौ विभीतकश्चित्राभयैरण्डमधूकसर्पपाः ।

कुसुम्भविल्वारुकमूलकातसीनिकोटकाक्षोडकरञ्जशिमुकाः ॥ १० ॥

स्नेहाश्रया. स्थावरसंज्ञितास्तथा स्युर्जङ्गमा मत्स्यमृगाः सपक्षिणः ।

तेषां दधिक्षीरघृतामिषं वसा स्नेहेषु मज्जा च तथोपदिश्यते ॥ ११ ॥

अग्निवेश के सन्देह को दूर करने वाले भगवान् पुनर्वसु ने उत्तर दिया—स्नेहो के उत्पत्ति स्थान दो प्रकार के हैं, स्थावर और जंगम । इनमें—तिल, पियाल, ( चिरोजी फल ), अभिषुक ( औत्तरपथिक अथवा जमालगोटे का बीज ), बहेडा, चीता, हरड़ बडी, ऐरण्ड. महुवा, सरसों, कुसुम्भ, ( धनिया ), बेलगिरी, भिलावा, मूलक, ( कोन फल ), अलसी, निकोटक ( अंकोल, देवदार ), अखरोट, नाटा करंजुआ, सोहांजन ये स्नेह के स्थावर उत्पत्ति स्थान हैं । मछलियाँ, मृग ( पशु ), पक्षी एवं उनका दूध, दही, घृत, माँस, वसा और मज्जा ये स्नेह के जंगम उत्पत्ति स्थान कहे हैं ।

सर्वेषां तैलजातानां तिलतैलं प्रशस्यते ।

वलार्थे स्नेहने चाग्र्यमैरण्डं तु विरेचने ॥ १२ ॥

सर्पिस्तैलं वसा मज्जा सर्वस्नेहोत्तमा मताः ।

एभ्यश्चैवोत्तमं सर्पिः संस्कारस्यानुवर्तनात् ॥ १३ ॥

सब प्रकार के तैलो में तिल का तैल श्रेष्ठ है । वल और मृदुता लाने के लिये तिल का तैल सब में श्रेष्ठ है और विरेचन के लिये ऐरण्ड का तैल सर्वश्रेष्ठ है । सब प्रकार के स्नेहो में घी, तैल, वसा और मज्जा ये चार श्रेष्ठ है । इन चारों में भी घी सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि यह अन्य पदार्थों का गुण अपने में ले लेता है ।

घृतं पित्तानिलहरं रसशुक्रौजसां हितम् ।

निर्वापणं मृदुकरं स्वरवर्णप्रमादनम् ॥ १४ ॥

घी वात और पित्त का नाशक है, रस, शुक्र और ओज को यतना



है, बढी हुई उष्णिमा को शान्त करता है, शरीर में कोमलता पैदा करता है, स्वर और कान्ति को बढाता है ।

मारुतघ्नं न च श्लेष्मवर्धनं बलवर्धनम् ।

त्वच्यमुष्णं स्थिरकरं तैलं योनिविशोधनम् ॥ १५ ॥

तैल वायु नाशक, परन्तु कफ को नहीं बढाता, बलवर्धक, त्वचा के लिये हितकारी, उष्णवीर्य, उष्णगुण, शरीर को स्थिर, टिकाऊ बनाने वाला एवं स्त्री-जननेन्द्रिय ( गर्भाशय ) का शोधन करने वाला है, ( तिल तैल में ये गुण विशेष रूप में हैं ) ।

विद्वभग्राहृतभ्रष्ट्रयोनिकर्णशिरोरुजि ।

पौरुपोपचये स्नेहे व्यायामे चेप्यते वसा ॥ १६ ॥

भाले आदि से विधने चोट लगकर अस्थि आदि के टूटने चोट लगने, योनि की भ्रंशना ( गर्भाशय आदि अंगों की स्थान च्युति ), कर्ण रोग, शिरो रोग, पुरुषत्व बढाने, शरीर को चिकना करने और व्यायाम अर्थात् शारीरिक श्रम में वसा ( चर्बी ) हितकारी है ।

बलशुक्ररसश्लेष्ममेदोमज्जविवर्धनः ।

मज्जा विशेषतोऽस्थनां च बलकृत्स्नेहने हितः ॥ १७ ॥

मज्जा बल, शुक्र, रस, कफ, मेद और मज्जा को बढाती है । विशेषकर अस्थियों की शक्ति बढाती एवं शरीर को चिकना बनाने में विशेष रूप से हितकारी है ।

सर्पिः शरदि पातव्यं, वसा मज्जा च माधवे ।

तैलं प्रावृषि, नात्युष्णशीते स्नेहं पिवेन्नरः ॥ १८ ॥

वातपित्ताधिके रात्रावुष्णे चापि पिवेन्नरः ।

श्लेष्माधिके दिवा शीते पिवेन्नामंलभास्करे ॥ १९ ॥

घी तरद क्रतु ( आग्निव न कान्तिक ) में, चर्बी और मज्जा वसन्त क्रतु ( श्लाग्न न चैत्र ) में और तैल वर्षाकाल ( श्रावण-भाद्रपद ) में सेवन करना चाहिये । अति उष्ण काल ( ग्रीष्म ) अथवा अति शीतकाल

( हेमन्त ) में घी आदि नहीं पीना चाहिये । तीव्र व्याधि में, ग्रीष्म ऋतु में, रात्रि के समय, वात और पित्त की अधिकता होने पर स्नेह पी लेना चाहिये । कफप्रधान व्याधि में शीतकाल के अन्दर ( हेमन्त-शिशिर ऋतु में ) मध्याह्न समय में दिन के समय स्नेहपान करना चाहिये ।

अत्युष्णो वा दिवा पीतो वातपित्ताधिकेन वा ।

मूर्च्छां पिपासामुन्मादं कामलां वा समीरयेत् ॥ २० ॥

शीते रात्रौ पिवेत्स्नेहं नरः श्लेष्माधिकोऽपि वा ।

आनाहमरुचि शूलं पाण्डुतां वा समृच्छति ॥ २१ ॥

जलमुष्णं घृते पेयं, यूषस्तैलेऽनुशस्यते ।

वसामञ्जोस्तु मण्डः स्यात्सर्वेषूपणांमथाम्बु वा ॥ २२ ॥

वातप्रधान या पित्तप्रधान रोगी ग्रीष्म ऋतु में दिन के समय यदि स्नेहपान करता है तो मूर्च्छा, प्यास, उन्माद अथवा कामला रोग उत्पन्न हो जाते हैं । कफप्रधान रोगी यदि शीत ऋतु में रात्रि के समय स्नेहपान करता है तो उसे अफरा, अरुचि, शूल-पीड़ा या पाण्डुरोग उत्पन्न हो जाता है । घी पीने के उपरान्त गरम जल, तैल के उपरान्त यूष और वसा एवं मज्जा के उपरान्त मण्ड ( मांड ) पीना उत्तम है । अथवा सब ( घी, तैल, वसा और मज्जा ) के पीछे गरम पानी पीना श्रेयम्कर है ।

स्नेह की विचारणां—

ओदनश्च विलेपी च रसो मांसं पयो दधि ।

यवागूः सूपशाकौ च यूषः काम्बलिकः खडः ॥ २३ ॥

सक्तवस्तिपिष्टं च मद्यं लेहास्तथैव च ।

भक्ष्यमभ्यञ्जनं वस्तिस्तथा चोत्तरवस्तय ॥ २४ ॥

गण्डूपः कर्णतैलं च नस्यं कर्णाक्षितर्पणम् ।

चतुर्विंशतिरित्येताः स्नेहस्य प्रविचारणा ॥ २५ ॥

स्नेह की विचारणा ( उपयोग-प्रयोग विधि ) २४ चर्चनीय प्रकार की है । जैसे—( १ ) ओदन—चावल पांच गुणे जल में पकाओ, ( २ )

विलेपी अर्थात् दरकच किये चावलों को चार गुणे जल में पकाने से बहुत माडयुक्त यवागू बनता है, ( ३ ) रस ( मांस रस ) ठीक तरह से पका मांस दूध दही, ( ४ ) यवागू ( दरकच किये चावलों को छ. गुणे जल में पकाने से मांड युक्त द्रव हो । ( ५ ) सूप—दाल को १६ या १४ या १८ गुणे जल में पका कर चतुर्थांश शेष रखे, ( ६ ) शाक, ( ७ ) यूप—अन्न को दल कर १४ या १८ गुणे जल में पकावे आधा पानी शेष रखे । काम्ब्रलिक और खड, सत्तू और तिलपिष्टं ( तिलकुट्ट या खल ) मदिरा ( चादन ), भक्ष्य ( मालपूआ, पूरणपोली आदि ). अभ्यंजन मालिश, वस्ति और उत्तर वस्ति, गण्डूप (गराले) अर्थात् मुख में तैल का रखना, कान में तैल डालना, नस्य कर्म, नेत्र के अन्दर स्नेह प्रदान करके आंख की तृप्ति करना, यह स्नेह की चौबीस प्रकार की प्रविचारणा अर्थात् सेवन विधि है ।

अच्छपेयस्तु यः स्नेहो न तामाहुर्विचारणाम् ।

स्नेहस्य स भिषगृष्ट. कल्प. प्राथमकल्पिकः ॥ २६ ॥

शुद्ध स्नेहपीने को 'विचारणा' नहीं कहते । यह तो स्नेह का सर्व प्रथम श्रेष्ठ रूप है । इसके पीछे प्रकृति, देह, दोष आदि देखकर पाचन शक्ति की विवेचना करके ओदन आदि सेवन विधि करनी चाहिये ।

रसैश्चोपहितः स्नेहः समासव्यासयोगिभिः ।

पङ्क्तिपट्टिधा संख्या प्राप्तोत्येकश्च केवलः ॥ २७ ॥

एवमेपा चतुःपट्टिः स्नेहाना प्रविचारणा ।

ओकर्तुव्याधिपुरुषान् प्रयोज्या जानता भवेत् ॥ २८ ॥

छ. रसों ( मधुर अम्ल, लवण, तिक्त, कटु और कषाय ) के परस्पर मिलने से ६३ ( त्रेसठ ) प्रकार के भेद हो जाते हैं । इन त्रेसठ भेदों के साथ जब स्नेह मिलता है, तो वह भी ६३ प्रकार का हो जाता है और जब किसी भी रस के साथ न मिलकर शुद्ध स्नेह रूप में ही रहता है, तब एक ( १ ) भेद होता है । इस एक प्रकार को भी मिलाकर स्नेह के

६४ प्रकार हो जाते हैं। इस प्रकार से स्नेह की विचारणा अर्थात् सेवन विधि ६४ (चौंसठ) प्रकार की है। (ओक) सात्म्य, ऋतु और रोग-चल आदि का विचार करके सेवन विधि का प्रयोग करना चाहिये। स्नेह की मात्रा—

अहोरात्रमहः कृत्स्नमर्धाहं च प्रतीक्षते ।

प्रधाना मध्यमा ह्रस्वा स्नेहमात्रा जरां प्रति ॥ २९ ॥

इति तिस्रः समुद्दिष्टा मात्रा स्नेहस्य मानतः ।

तासां प्रयोगान्वक्ष्यामि पुरुषं पुरुषं प्रति ॥ ३० ॥

स्नेह की मात्रा तीन प्रकार की है। प्रधान, मध्यम और ह्रस्व। इनमें जो स्नेह की मात्रा रात और दिन (२४ घण्टे) में जीर्ण होती है, वह स्नेह की प्रधान मात्रा है और जो सारे दिन भर (१२ घण्टे) में जीर्ण होती है वह मध्यम, और जो आधे दिन (६ घण्टे) में जीर्ण होती है वह स्नेह की ह्रस्व मात्रा है। ये मात्राएं स्नेह के जीर्ण होने के समय के अनुसार है। इस प्रकार से स्नेह की मात्रा और मान कह दिया है। अब प्रत्येक पुरुष के लिये स्नेह के प्रयोगों को कहते हैं—

प्रभूतस्नेहनित्या ये क्षुत्पिपासासहा नराः ।

पावकश्चोत्तमबलो येषां ये चोत्तमा बले ॥ ३१ ॥

गुल्मिनः सर्पदष्टाश्च विसर्पोपहताश्च ये ।

उन्मत्ताः कृच्छ्रमूत्राश्च गाढवर्चस एव च ॥ ३२ ॥

पिवेयुरुत्तमां मात्रां, तस्याः पाने गुणान् शृणु ।

विकारान् शमयत्येपा शीघ्रं सम्यक्प्रयोजिता ॥ ३३ ॥

दोषानुकर्षिणी मात्रा सर्वमार्गानुसारिणी ।

बल्या पुनर्नवकरी शरीरेन्द्रियचेतसाम् ॥ ३४ ॥

जो मनुष्य नित्य प्रति विशेष रूप में स्नेह ( चिकनाई ) का व्यवहार करते हैं, भूख और प्यास को न सहन कर सकने वाले, उत्तम बलवान् जठराग्नि वाले, श्रेष्ठ शारीरिक बल वाले, गुन्मरोगी, सर्पविपाकान्त रोगी, विसर्प रोगी, पागल, मूत्रकृच्छ्र रोगी और जिनका मल मृगा रहना है।

वे स्नेह की उत्तम मात्रा का पान करें । स्नेह की प्रधान मात्रा के पीने का गुण सुनो—यदि मात्रा को भली प्रकार से प्रयोग किया जाय तो उपरोक्त समस्त रोग मिट जाते हैं । वह शरीर के दोषों को खींच कर बाहर कर देती है, शरीर के सब भागों में ऊपर, नीचे, तिरछे सब जगह फैल जाती है । वह बलवर्द्धक एवं शरीर, इन्द्रिय और चित्त को फिर से हरा भरा बना देती है । मध्यम मात्रा—

अरुष्कास्फोटपीडकाकण्डूपामाभिरर्दिता ।

कुष्ठिनश्च प्रसीढाश्च वातशोणिकिकाश्च ये ॥ ३५ ॥

नातिवह्वाशिनश्चैव मृदुकोष्ठास्तथैव च ।

पिवेयुर्मध्यमां मात्रा मध्यमाश्चापि ये वले ॥ ३६ ॥

मात्रेपा मन्दविभ्रंशा न चातिवलहारिणी ।

सुखेन च स्नेहयति शोधनार्थं च युज्यते ॥ ३७ ॥

गांठे, फोड़े, फुन्सियां, खाज, पामा ( खर्जूं वा फूलने वाली बिना त्वाव की खाज ), कुष्ठरोगी, प्रमेही, अतिमूत्ररोगी, वातरुक्तरोगी, अधिक न खाने वाले, न कम खाने वाले मृदुकोष्ठ वाले, ( जिनको दूध में भी विरेचन हो जाता है ), और मध्यम बल वाले व्यक्ति स्नेह की मध्यम मात्रा का पान करें । यह मध्यम मात्रा मृदु, विरेचक, थोड़ा कष्ट करने वाली, एवं बल को बहुत नहीं घटाती, सुखपूर्वक सरलता से शरीर को कोमल कर देती है, इसीलिये शरीर को शोधन करने के लिये हितकारी है । सूत्र मात्रा—

ये तु वृद्धाश्च बालाश्च सुकुमारा सुलोचिताः ।

रिक्तकोष्ठत्वमहितं येषां मन्दाग्रयश्च ये ॥ ३८ ॥

ज्वरगतीसारकासाश्च येषां चिरसमुत्थिताः ।

स्नेहमात्रां पिवेयुस्ते ह्रस्वां ये चावग वले ॥ ३९ ॥

परिहारं सुखा चैपा मात्रा स्नेहनवृंहणी ।

वृष्या बल्या निगवाया चिरं चाप्यनुवर्तते ॥ ४० ॥

बृद्ध, बालक, कोमल, नाजुक प्रकृति के, ऐश की जिन्दगी बसर करने वाले, खाली पेट रहने से जिनके पेट में दर्द होने लगता है, मन्दाग्नि, निर्बल जाठराग्नि वाले, जिनका ज्वर, अतोसार, कास पुराना, बहुत दिनों का हो, और निर्बल, अल्प शारीरिक बल वाले व्यक्ति स्नेह की द्रव्य मात्रा लेवे। यह मात्रा जीर्ण होने में सरल है, सुखपूर्वक पच जाती है। शरीर को चिकना करती एवं बल बढ़ाती है। पुरुषत्वकारक, बलकारक, निरापद, एवंद्वेरे तक सेवन व्यवहार में लाई जा सकती है।

कौनसा स्नेह किस के लिये हितकारी है—

वातपित्तप्रकृतयो वातपित्तविकारिणः ।

चक्षुष्कामाः क्षताः क्षीणा बृद्धा बालास्तथाऽबलाः ॥ ४१ ॥

आयुःप्रकर्षकामाश्च बलवर्णस्वरार्थिनः ।

पुष्टिकामाः प्रजाकामाः सौकुमार्यार्थिनश्च ये ॥ ४२ ॥

दीप्तयोजःस्मृतिमेधाग्निवुद्धीन्द्रियबलार्थिनः ।

पिवेयुः सर्पिरार्ताश्च दाहशस्त्रविषाग्निभिः ॥ ४३ ॥

जिनकी प्रकृति वात-पित्त हो, वात-पित्त के रोगी, उत्तम दृष्टि चाहने वाले, उरक्षत रोग से क्षीण, निर्बल, बृद्ध, बालक, निर्बल मनुष्य, आयु की वृद्धि की कामना करने वाले, बल, वर्ण, कान्ति, स्वर को चाहने वाले, शरीर पुष्टि के इच्छुक, संतति को चाह वाले, सुकुमारता, कोमलता के इच्छुक, तेज, ओज, स्मृति, बुद्धि, अग्नि, धारण करने की शक्ति और इन्द्रिय, बल को चाहने वाले और आग से जल, शस्त्र, विष से आक्रान्त रोगी घी का सेवन करे ।

प्रवृद्धश्लेष्ममेदस्काश्चलस्थूलगलोदराः ।

वातव्याधिभिराविष्टा वातप्रकृतयश्च ये ॥ ४४ ॥

बलं तनुत्वं लघुतां दृढतां स्थिरगात्रताम् ।

स्निग्धश्मण्णतनुत्वक्तां ये च काङ्क्षन्ति देहिनः ॥ ४५ ॥

कृमिकोष्ठाः क्रूरकोष्ठास्तथा नाडीभिरर्द्रिताः ।

पिवेयुः शीतले काले तैलं तैलोचिताश्च ये ॥ ४६ ॥

जिनमें कफ को या चर्बी की अधिकता हो, जिनका पेट या गर्दन मोटी और ढीली हो, वात रोगों से पीड़ित, वात प्रकृति के, जो बल, पतलापन, हल्कापन, मजबूती, शरीर का स्थिरता (संघटन), चिकनापन, कोमलता और त्वचा की कोमलता चाहते हैं, कृमिरोग से आक्रान्त, क्रूर कोष्ठ वाले (जिनको तीव्र विरेचन से प्रभाव होता है), नाड़ी-त्रण से आक्रान्त और जिनको तैल मेवन करने का अभ्यास है वे शीतकाल (हेमन्त शिशिर) में दिन के समय तैल का पान करें ।

वातातपसहा ये च रूक्षा भाराध्वकर्शिताः ।

संशुकरेतोरुधिरा निष्पीतकफमेदसः ॥ ४७ ॥

अस्थिसन्धिशिरास्नायुर्मर्मकोष्ठमहारुजः ।

बलवान्मारुतो येषां खानि चावृत्य तिष्ठति ॥ ४८ ॥

महञ्चाग्निवर्लं येषां वसासात्म्याश्च ये नराः ।

तेषां स्नेहयितव्यानां वसापानं विधीयते ॥ ४९ ॥

दीप्ताग्रयः क्लेशसहा वस्मराः स्नेहसेविनः ।

वातार्ताः क्रूरकोष्ठाश्च स्नेह्या मज्जानमाप्नुयुः ॥ ५० ॥

वायु और धूप को सहन करने वाले, रुक्ष प्रकृति, भार के उठाने या मार्ग चलने वाले, परिश्रम के कारण जो निर्बल हो गये, जिनका वीर्य या रक्त सूख गया है, कफ क्षीण हो, मेद क्षीण हो, जिनको अस्थिसन्धि, शिरा, स्नायु मर्मकोष्ठ के भयानक रोग हों, जिनकी इन्द्रियों को बलवान् तायु धरे रहता है, जिनका अग्निवर्ल-जाठराग्नि बलवान् हो, और जो वसा मेवन करने के अभ्यासी हों, ऐसे पुरुष स्नेहन करने के लिये वसा (चर्बी) का पान करें । जिनकी जाठराग्नि तीस है, जो क्लेश को सहन कर सकते हों, सूत्र गाने वाले, स्नेहमेवन के अभ्यासी, वात रोगी और क्रूर-कोष्ठ वाले व्यक्तियों को मज्जा द्वारा स्नेहन करना चाहिये ।

येभ्यो येभ्यो हितो यो यः स्नेहः स परिकीर्तितः ।

स्नेहनस्य प्रकर्षो तु सप्तरात्रत्रिरात्रकौ ॥ ५१ ॥

जिन जिन पुरुषों के लिये जो जो स्नेह हितकारी है, उनके लिये उसी स्नेह का उपदेश किया है। स्नेह की सेवन विधि दो प्रकार का है। एक सात रात की और दूसरी तीन रात की। इनमें क्रूरकोष्ठ व्यक्तियों के लिये सात रात, और मृदुकोष्ठ व्यक्ति के लिये तीन रात है।

स्वेद्याः शोधयितव्याश्च रूक्षा वातविकारिणः ।

व्यायाममद्यस्त्रीनित्याः स्नेह्याः स्युर्ये च चिन्तकाः ॥ ५२ ॥

स्नेहन के योग्य व्यक्ति—जो व्यक्ति स्वेद देने या संगोधन के योग्य है; रूक्षप्रकृति, वातरोगी, नित्य व्यायामसेवी, नित्य मद्यसेवी, नित्य स्त्रीसेवी, और जो चिन्ता ( शोक ) करते रहते हैं, वे व्यक्ति स्नेहन के योग्य है।

स्नेह के अयोग्य व्यक्ति—

संशोधनाहते येषां रूक्षणां संप्रवक्षते ।

न तेषां स्नेहनं शस्तमुत्सन्नकफमेदसाम् ॥ ५३ ॥

अभिष्यणाननगुदा नित्यं मन्दाग्रयश्च ये ।

वृष्णामूर्च्छांपरीताश्च गर्भिण्यस्तालुशोषिणः ॥ ५४ ॥

अन्नद्विषश्छर्दयन्तो जठरामगरादिताः ।

दुर्बलाश्च प्रतान्ताश्च स्नेह्मलाना मदातुराः ॥ ५५ ॥

न स्नेह्या वर्तमानेषु न नस्तोवस्तिकर्मसु ।

स्नेहपानात्प्रजायन्ते तेषां रोगाः सुदारुणाः ॥ ५६ ॥

जिनका संशोधन किये वाना रूक्षण करना हो उनका स्नेहन नहीं करना चाहिये। जिनका संशोधन कार्य के पीछे रूक्षण कार्य करना हो, उनका स्नेहन किया जा सकता है। जिनका कफ और मेद बढ़ा हो, जिनके नाक, मुख और गुदा से स्राव होता हो, जिनको सदा मन्दाग्रि रहती हो, प्यास और मूर्च्छा से आक्रान्त, गर्भवती, तालु कण्ठ जिनका सूखता हो, भोजन से अरुचि करने वाले, वमन करते हुए, उठर रोगी या विष से आक्रान्त, दुर्बल, ग्लानि करने वाले ( कचं डिल के, घृणा करने की



प्रकृति के), स्नेह के पीने में जो प्रसन्न नहीं होते, घृणा करते हैं और मद् ( नशे ) से ग्रस्त व्यक्तियों को नस्य कर्म में एवं अनुवासन वस्ति में स्नेहन नहीं देना चाहिये । यदि इनको स्नेह पिलाया जायगा तो भयानक रोग उत्पन्न हो जायेंगे । अस्निग्ध, स्निग्ध और अतिस्निग्ध के लक्षण—

पुरीषं ग्रथितं रुक्षं, वायुरप्रगुणो, मृदुः ।

पक्ता, खरत्वं रौक्ष्यं च गात्रस्यास्निग्धलक्षणम् ॥ ५७ ॥

जिसका मल तथा हुआ, वायु अपनी प्रकृति में न हो, जाठराग्नि मन्द हो, शरीर में रूखापन हो, तो समझे कि स्नेहन क्रिया ठीक नहीं हुई ।

वातानुलोम्यं दीप्तोऽग्निर्वर्चः स्निग्धमसंहतम् ।

मादेवं स्निग्धता चाङ्गे स्निग्धानामुपजायते ॥ ५८ ॥

वायु की अनुकूलता, जाठराग्नि को बढ़ना ( भूख का लगना ), मल चिकना और पतला, अंगो में कोमलता और चिकनापन हो, तो समझना चाहिये कि उचित रूप में स्नेहन हुआ है ।

पाण्डुता गौरवं जाड्यं पुरीपस्याविपक्वता ।

तन्द्रिररुचिरुत्क्लेशः स्यादतिस्निग्धलक्षणम् ॥ ५९ ॥

पाण्डुता ( पीलापन, निस्तेज वर्ण ), शरीर में भारीपन, आलस्य, मल का भली प्रकार पाक न होना, अरुची, सुस्ती, वमन की इच्छा ये अतिस्निग्ध के लक्षण हैं ।

द्रवोष्णामनभिष्यन्दि भोज्यमन्न प्रमाणतः ।

नानि स्निग्धमसंकीर्णं श्वः स्नेहं पातुमिच्छता ॥ ६० ॥

पित्तसंशमनं स्नेहमन्नकाले प्रकाञ्चितः ।

स्नेह से पूर्व लेने योग्य हितकारी पदार्थ—स्नेह पान करने की इच्छा वाले व्यक्ति को चाहिये कि स्नेह पीने से पहले दिन, द्रव, और गरम, जो कफकारक न हो, अतिस्निग्ध, अति विकार युक्त, असंकीर्ण ऐसे भोजन को मात्रा में खावे, जिसमें दो तीन वस्तुओं को मिलाकर

न बनाया गया हो और अगले दिन जब भोजन के समय आकांक्षा हो तब संशमन अर्थात् भूख को शान्त करने की इच्छा से स्नेह का ही पान करे ।

शुद्धचर्थ पुनराहारे नैशे जीर्णे पिबेन्नरः ॥ ६१ ॥

संशोधन के उद्देश्य से स्नेह पान करने के लिये रात्रि का भोजन जीर्ण होने पर प्रातःकाल स्नेहपान करे ।

उष्णोदकोपचारी स्याद् ब्रह्मचारी क्षपाशयः ।

शकृन्मूत्रानिलोद्गारानुदीर्णाश्च न धारयेत् ॥ ६२ ॥

व्यायाममुच्चैर्वचनं क्रोधशोकौ हिमातपौ ।

वर्जयेदप्रवातं च सेवेत शयनासनम् ॥ ६३ ॥

स्नेहं पीत्वा नरः स्नेहं प्रतिभुञ्जान एव च ।

स्नेहमिथ्योपचाराद्धिजायन्ते दारुणा गदाः ॥ ६४ ॥

स्नेहकाल मे-हित, अहित-पीने, स्नान, शौच आदि कार्यों में गरम पानी का व्यवहार करे, मैथुन को छोड़ दे । रात्रि में सोये, दिन में न सोये रात में न जागे; उपस्थित हुए मल, मूत्र, वायु और डकार के वेगों को न धरोके । व्यायाम-श्रम, और जोर से या अधिक भाषण क्रोध, शोक, सरदीया गरमी न सहे । खुली-वायु में वायु के सामने न बैठे और न सोये । स्नेह को पीने के पीछे इन कार्यों का प्रालन करे । स्नेह पीने के पीछे पुनः स्नेह पान करने पर, स्नेह पीकर, भोजन आदि में दूसरी बार स्नेह युक्त पदार्थ खाने से, स्नेह के मिथ्यायोग से भयानक रोग उत्पन्न हो जाते हैं ।

मृदुकोष्ठस्त्रिरात्रेण स्निह्यत्यच्छ्रोपसेवया ।

स्निह्यति क्रूरकोष्ठस्तु सप्तरात्रेण मानवः ॥ ६५ ॥

मृदु कोष्ठ वाला व्यक्ति स्नेह का सेवन तीन रात्रि करे । क्रूर कोष्ठ वाला व्यक्ति स्नेह का सात दिन तक सेवन करे ।

गुडमिक्षुरसं मस्तु क्षीरमुल्लोडितं दधि ।

पायसं कृसरं सर्पिः काश्मर्यत्रिफलारसम् ॥ ६६ ॥

द्राक्षारसं पीलुरसं जलमुष्णमथापि वा ।

मद्यं वा तरुणं पीत्वा मृदुकोष्ठो विरिच्यते ॥ ६७ ॥

गुड़, गन्ने का रस, मस्तु ( दही का द्रव्य भाग ), दूध, बिलोई हुई दही ( मट्टा ), खीर, खिचड़ी, घी, गम्भारी का रस, त्रिफला ( हरड़, बहेड़े, आंवले का रस ), अंगूर का रस, पीलू का रस, गरम जल, नवीन मदिरा ( पुरानी नहीं ), इनको पीने से मृदुकोष्ठ व्यक्तियों को विरेचन हो जाता है । अर्थात् जिनको इन वस्तुओं के सेवन से विरेचन हो जाय, वह मृदुकोष्ठ होता है ।

विरिचयन्ति नैतानि क्रूरकोष्ठं कदाचन ।

भवति क्रूरकोष्ठस्य ग्रहण्यत्युल्वणानिला ॥ ६८ ॥

इन पदार्थों से 'क्रूरकोष्ठ' वाले व्यक्ति को कभी विरेचन नहीं होता । क्योंकि 'क्रूरकोष्ठ' व्यक्ति की ग्रहणी ( नाड़ी ) अति प्रबल वायु वाली होती है ।

उदीर्णपित्ताऽल्पकफा ग्रहणी मन्दमारुता ।

मृदुकोष्ठस्य तस्मात्सुविरेच्यो नरः स्मृतः ॥ ६९ ॥

मृदुकोष्ठ की ग्रहणी और पित्त प्रबल एवं मन्द कफ तथा अल्प वायु युक्त है । इसलिये गुड़ आदि से उसे विरेचन हो जाता है ।

स्नेह की व्यापत्तियां—

उदीर्णपित्ता ग्रहणी यस्य चाग्निबलं महत् ।

भग्मी भवति तस्याशु स्नेहपीतोऽग्नि तेजसा ॥ ७० ॥

स जग्ध्वा स्नेहमात्रां तामोजः प्रक्षारयन् वली ।

स्नेहाग्निरुत्तमां वृष्णां सोपसर्गामुदीरयेत् ॥ ७१ ॥

नालं स्नेहसमृद्धस्य शमायात्रं सुगुर्वपि ।

स चेत्सुशीतं मलिलं नासादयति दहते ॥ ७२ ॥

यथेवाशीविपः कन्नमध्यग स्वविपाग्निना ।

जन्तुं ग्रहणं ( अग्नि की अधिष्ठान-भूमि ) प्रबल पित्त वाली हो

( कफ और वायु से युक्त न हा ), और जिसका अग्नि बल बड़ा होता है, उस पुरुष का पिया हुआ स्नेह अग्नि के तेज से शीघ्र भस्म हो जाता है । यह महा बलवान् जाठराग्नि पीये हुए स्नेह को जीर्ण करके फिर बलवान् बनकर ओज को घटाती हुई, उपद्रवों से युक्त प्रबल प्यास को पैदा कर देती है । ऐसी अवस्था में स्नेह के कारण बहुत बड़ी हुई जाठराग्नि को शान्त करने के लिये गुरु भोजन भी समर्थ नहीं होता । इसलिये स्नेहपान से प्रबल अग्नि वाले पुरुष को यदि शीतल जल पीने के लिये नहीं दिया जाय तो वह इसी अग्नि से जलने लगता है । जिस प्रकार कि घास फूस या कांटों के बीच में फंसा हुआ सांप अपनी विष रूप अग्नि से स्वयं जलने लगता है और दुगुने क्रोध से फुंकारें मारता है ।

व्यापत्तियों के उपाय कहते हैं—

अजीर्णं यदि तु स्नेहे तृष्णा स्याच्छर्दयेद्विपक् ॥ ७३ ॥

शीतोदकं पुनः पीत्वा भुक्त्वा रुक्षान्नमुल्लिखेत् ।

न सर्पिः केवलं पित्ते पेयं सामे विशेषतः ॥ ७४ ॥

सर्वं ह्यनुरजेद्देहं हत्वा संज्ञां च मारयेत् ।

यदि स्नेह के पान में अजीर्णवस्था अर्थात् स्नेह के जीर्ण न हुए बिना ही प्यास लगने लगे तब वैद्य स्नेह को वमन से बाहर करा देवे । इसके पीछे शीतल जल देकर और रुक्ष भोजन कराके फिर वमन करा देवे । इसलिये केवल पित्त की प्रधानता में, विशेष कर आम सहित पित्त विकार में घी नहीं पीना चाहिये । क्योंकि पित्त के तीक्ष्ण गुण वाला होने से सम्पूर्ण देह में व्याप्त होने वाला घी रूप स्नेह सारे शरीर में फैल जायेगा । शरीर में फैलकर उसको पीला कर देता चेतना नाश करके प्राण नाश कर देता है ।

तन्द्रा सोत्केश आनाहो ज्वर. स्तम्भो विसंज्ञता ॥ ७५ ॥

कुष्ठानि कण्डू पाण्डुत्वं शोफाशांस्यरुचिस्तृपा ।

जठरं ग्रहणीदोष स्तमित्य वाक्यनिग्रहः ॥ ७६ ॥

शूलमामप्रदोषाश्च जायन्ते स्नेहविभ्रमान् ।

तत्राप्युल्लेखनं शस्तं स्वेदः कालप्रतीक्षणम् ॥ ७७ ॥

प्रति प्रति व्याधिवलं बुद्ध्वा संसनमेव च ।

तक्रारिष्टप्रयोगश्च रुक्षपानान्नसेवनम् ॥ ७८ ॥

मूत्राणां त्रिफलायाश्च स्नेहव्यापत्तिभेषजम् ।

तन्द्रा (आलस्य), उत्क्लेश ( वमन की इच्छा ), आनाह ( अरुचि )  
ज्वर, स्तम्भ ( शरीर की जडता ), सज्ञा नाश, कुण्ठ, खाज, पाण्डुता,  
शोथ, अर्ग, अरुचि, प्यास, मरोडा, ग्रहणी रोग, स्तैमित्य (अंगों का गीले  
कपडे में लिपटने का सा भान होना, वा ऐंठन), वाणी का बन्द होजाना, उदर-  
शूल, आमदोष, स्नेह के मिथ्यायोग के ये लक्षण है । इन लक्षणों के होने  
पर भी वमन कराना चाहिये, स्वेद देना चाहिये, समग्र की प्रतीक्षा करनी  
(स्नेह दोष के क्षय होने तक भोजन नहीं करना) चाहिये, प्रत्येक व्याधि का  
बल विचार करके जो व्याधि संसन योग्य हो उसका संसन करना  
चाहिये । इसी प्रकार 'तक्रारिष्ट' का प्रयोग, रुक्ष ( सूखा ), खान-पान  
देना आठों प्रकार के मूत्रों और त्रिफला का सेवन करना स्नेह जन्य रोगों  
की चिकित्सा है । रोग होने के कारण— :

अकाले चाहितश्चेव मात्रया न च योजितः ॥ ७९ ॥

स्नेहो मिथ्योपचाराच्च व्यापद्येतातिसेवितः ।

स्नेह लेने के ठीक समय पर स्नेह न लेने से, जो स्नेह जिस पुरुष  
के लिये हितकारी नहीं है उसके सेवन से, उचित मात्रा में न लेने से,  
स्नेह के मिथ्या, अनुचित उपयोग से, और स्नेह के अति सेवन से स्नेह  
जन्य विकार उत्पन्न होते हैं ।

स्नेहात्प्रस्कन्दनं जन्तुस्त्रिरात्रोपरतः पिवेत् ॥ ८० ॥

स्नेहवद्द्रवमुष्णं च त्र्यहं भुक्त्वा रसौदनम् ।

एकाहोपरतस्तद्वद्भुक्त्वा प्रच्छर्दनं पिवेत् ॥ ८१ ॥

स्नेह पान करने के पीछे जब विरेचन लेने की इच्छा हो तो तीन  
दिन छोड़कर पतला एवं गरम रस-चावल खाकर तीन रात्रि के उपरान्त

फिर स्नेहपान करे और फिर यदि वमन की इच्छा हो तो रस और चावल खाकर एक दिन का आराम लेकर पीछे वमन-औषध पान करे । इसके पीछे फिर विरेचन लेना हो तो तीन दिन के पीछे रस और चावल खाकर तीन रात पीछे स्नेहपान करे ।

स्यात्त्वसंशोधनार्थीये वृत्तिः स्नेहे विरिक्तवत् ।

संशोधन के उद्देश्य से केवल स्वच्छ स्नेहपान करने में 'विरिक्त' के समान व्यवहार करना चाहिये । विरिक्त का व्यवहार आगे कहेंगे ।  
विचारणा का प्रयोग—

स्नेहद्विष स्नेहनित्या मृदुकोष्ठाश्च ये नराः ॥ ८२ ॥

क्लेशासहा मद्यनित्यास्तेपामिष्टा विचारणा ।

लावतैत्तिरमायूरहांसवाराहकौकुटाः ॥ ८३ ॥

गव्याजौरभ्रमात्स्याश्च रसाः स्युः स्नेहने हिताः ।

जो मनुष्य स्नेह से द्वेष करते हो, जो नित्य प्रति स्नेह का व्यवहार करते हों, मृदुकोष्ठ वाले, कष्ट को सहन न करने वाले, जो नित्य मदिग-सेवी हों, उनमें विचारणा का प्रयोग करना चाहिये । प्रयोग करने की विधि कहते हैं—बटेर, मोर, हंस, सुअर, मुर्गा, हाथी, बकरा, मेढा और मछली इनके मांसों का रस स्नेहन क्रिया में हितकारी है । इन मांस-रसों का संस्कार करने के लिये जौ, बेर, कुलथी, घी या तेल, गुड़, जङ्गर अनारदाना, दही, सोठ, काली मिर्च, पिप्पली, ये यथायोग्य मिलाने चाहिये ।

यवकोलकुलत्थाश्च स्नेहाः सगुडशर्कराः ॥ ८४ ॥

दाडिमं दधि सव्योषं रससंयोगसंग्रहः ।

स्नेहयन्ति तिलाः पूर्वं जग्धाः सस्नेहफाणिताः ॥ ८५ ॥

कृशराश्च बहुस्नेहास्तिलकाम्वलिकास्तथा ।

वी मे ( स्नेह मे ) भून कर बनाये हुए तिलमुट को भोजन से पूर्व खाने से शरीर का स्नेहन करते हैं । इसी प्रकार बहुत स्नेह वाली पिचडी तथा तिल युक्त 'काम्वलिक अर्थात् यूप'—भोजन से पूर्व खाने से शरीर का स्नेहन करते हैं ।

फाणितं शृङ्गवेरं च तैलं च सुरया सह ॥ ८६ ॥

पिवेद्रक्षो भृतैर्मासैर्जीर्णोऽश्रीयाच्च भोजनम् ।

फाणित ( आधा पका गन्ने का रस, राव ), अदरख, और तैल इन तीनों को एक करके, शराव में मिलाकर रूक्ष व्यक्ति पिये । इसके जीर्ण होने पर मुने हुए मांस और भोजन खाये ।

तैल सुराया मण्डेन वसां मज्जानमेव वा ॥ ८७ ॥

पिवेत्सफाणितं क्षीरं नरः स्निह्यति वातिकः ।

वातप्रकृति का मनुष्य मद्य के तलछटके साथ तैल, वसा या मज्जा को मिलाकर पीये तो स्नेहन होता है । वात प्रकृति का आदमी राव के साथ दूध को पीये तो भी स्नेहन होता है ।

धारोष्णं स्नेहसयुक्तं पीत्वा सशर्करं पयः ॥ ८८ ॥

नरः स्निह्यति पीत्वा वा सरं दध्नः सफाणितम् ।

धारोष्ण, तात्रे दुहे हुए दूध को शर्करा एवं घी आदि बहुत स्नेह के साथ पीने से शरीर का स्नेहन होता है । अथवा राव के साथ दही की मलाई खाने में भी स्नेहन होता है ।

पाञ्चप्रसृतिकी पेया पायसो माषमिश्रकः ॥ ८९ ॥

क्षीरसिद्धो बहुस्नेहः स्नेहयेदक्षिरान्नम् ।

सर्पिस्तैलवसामज्जातण्डुलप्रसृतैः शृता ॥ ९० ॥

पाञ्चप्रसृतिकी पेया पेया स्नेहनमिच्छता ।

आगे कही जाने वाली 'पांच प्रसृतिकी पेया' को पीकर मनुष्य शीघ्र ही स्निग्ध बन जाता है । उड़दों को चावलों में मिलाकर घी आदि स्नेह में मूव भून कर दूध में पकाई ( घी से युक्त ) खीर जल्दी ही स्निग्ध कर देती है । पांच प्रसृति पेष.—मी, तैल, वसा, मज्जा और चावल प्रत्येक आठ आठ नौले लेकर छः गुने जल में पकावे । इसका नाम 'पाञ्चप्रसृतिकी पेया' है । स्नेहन की इच्छा करने वाले व्यक्ति को इसका सेवन करना चाहिये ।

ग्राम्यान्पौदक मांसं गुड दधि पयस्तिलान् ।

कुष्ठी शोथी प्रमेही च स्नेहने न प्रयोजयेत् ॥ ९१ ॥

स्नेहैर्यथास्वं तान् सिद्धैः स्नेहयेद्विकारिभिः ।

पिप्पलीभिर्हरीतक्या सिद्धैस्त्रिफलयाऽपि वा ॥ ९२ ॥

कुष्ठ रोगी, शोथ ( सोज ) रोगी, प्रमेह रोगी—इनके स्नेहन के लिए ग्राम्य निन्दित मांस, जलीय मांस, गुड, दही, दूध और तिल इनका प्रयोग नहीं करना चाहिये । क्योंकि ये वस्तुयें इनको बढ़ाती हैं । इन रोगियों के लिये, इन रोगों को नाश करने वाली औषधियों से सिद्ध किये हुए घृत आदि स्नेह, एवं इन रोगियों के लिये विकार न करने वाले स्नेहों से इन पुरुषों की चिकित्सा करनी चाहिये । अथवा पिप्पली के कल्क या हरीतकी (हरड़) के कल्क अथवा त्रिफला के कल्क द्वारा सिद्ध घृतादि स्नेह द्वारा कुष्ठ रोगी, शोथ रोगी, प्रमेह रोगी का स्नेहन करना चाहिये ।

द्राक्षा मलकयूषाभ्यां दध्ना चाम्लेन साधयेत् ।

व्योषगर्भं भिषक् स्नेहं पीत्वा स्निह्यति तन्नरः ॥ ९३ ॥

द्राक्षायूप, आंवले का यूप, और खट्टी दही (ये मिलित चार भाग) सोंठ, मरिच और पिप्पली ( मिलित एक भाग ) इनका कल्क डाल कर उचित मात्रा से घृत सिद्ध करना चाहिये । इस घृत के पान करने से मनुष्य का स्नेहन होता है ।

यवकोलकुलत्थानां रसाः क्षीरं सुरा दधि ।

क्षीरसर्पिश्च तत्सिद्धं स्नेहनीयं घृतोत्तमम् ॥ ९४ ॥

जौ, बेर, कुलथी, प्रत्येक का काथ (रस), दूध, दही और मद्य, क्षार और घी, इनको मिला कर घी सिद्ध करना चाहिये । यह स्नेहन के लिये श्रेष्ठ है ।

तैलमज्जवसासर्पिर्वदरत्रिफलारसैः ।

घोनिशुकप्रदोपेषु साधयित्वा प्रयोजयेत् ॥ ९५ ॥

तैल, वसा, मज्जा, घी, बेर और त्रिफला ( हरड़, यष्टा, आंवला )



इनका रस ( काव ) में ( पृथक् २ या मिलित चौरों स्नेह सिद्ध करने चाहिये । यह स्नेह योनि रोग, और वीर्य रोगों में स्नेहन कार्य के लिये उपयोगी हैं ।

गृहात्यम्बु यथा वस्त्रं प्रस्रवत्यधिकं यथा ।

तथाऽग्निर्जीर्यति स्नेहं तथा स्रवति चाधिकम् ॥ ९६ ॥

जिस प्रकार वस्त्र पानी की उचित मात्रा का ही ग्रहण करता है और अधिक पानी निकल जाता है, इसी प्रकार अग्नि स्नेह की समान मात्रा को ही जीर्ण करती है, अधिक मात्रा निकल जाती है ।

यथा वाऽक्लेद्य मृत्पिण्डमासिक्तं त्वरया जलम् ।

स्रवति म्रंसते स्नेहस्तथा त्वरितसेवितः ॥ ९७ ॥

लवणोपहिपाः स्नेहाः स्नेहयन्त्यचिरान्नरन् ।

तद्धृथभिप्यन्द्यरूक्षं च सूक्ष्ममुष्णं व्यवायि च ॥ ९८ ॥

स्नेहमग्रे प्रयुञ्जीत ततः स्वेदमनन्तरम् ।

स्नेहस्वेदोपपन्नस्य संशोधनमथेतरत् ॥ ९९ ॥

जिस प्रकार मिट्टी के ढेले पर जल्दी से गिरा हुआ बहुतसा पानी, ढेले को गीला करके बह जाता है, और ढेला गलने लगता है, उसी प्रकार जल्दी से अधिक मात्रा में पिया स्नेह जल्दी से गुदा मार्ग से बाहर बह जाता है । जितने भी स्नेह कहे हैं, वे सब सैन्धव लवण के साथ सेवन करने से मनुष्य को शीघ्र ही स्निग्ध कर देते हैं । क्योंकि नमक अभिप्यन्दि, ( द्रवकारक ) अरूक्ष, सूक्ष्म, उष्ण और व्यवायी गुण वाला है ।\* संशोधन करने से पूर्व स्नेहन करना चाहिये । इसके पीछे स्वेदन

\* अभिप्यन्दि होने से दोषसमूह को तोड़ता है । रूक्ष न होने से स्नेहन करता है । सूक्ष्म होने से शरीर के सूक्ष्म भागों में घुस जाता है । गरम होने से पिये हुए स्नेह को शीघ्र जीर्ण करता है । व्यवायी होने से स्नेह के साथ नारे शरीर में फैल जाता है ।

करना चाहिये । स्नेह और स्वेदन कर चुकने पर पीछे संशोधन अथवा संशमन चिकित्सा करनी चाहिये ।

तत्र श्लोकाः ।

स्नेहाः स्नेहविधिः कृत्स्नो व्यापत् सिद्धिः समेपजा ।

यथाप्रश्नं भगवता व्याहृतं चान्द्रभागिना ॥ १०० ॥

स्नेहों के प्रकार, सम्पूर्ण स्नेहन विधि, स्नेह की व्यापत्तियाँ और उनकी भेषज औषध समेत सिद्धि भगवान् पुनर्वसु आत्रेय ने अग्निवेश के प्रश्नानुसार सब कह दी ।

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने कल्पनाचतुष्के

स्नेहाध्यायो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

## चतुर्दशोऽध्यायः ।

अथातः स्वेदाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब (स्नेह कर्म के उपरान्त) स्वेद सम्बन्धी अध्याय की व्याख्या करते हैं, ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

अतः स्वेदा प्रवक्ष्यन्ते यैर्यथावत्प्रयोजितैः ।

स्वेदस्माध्याः प्रशाम्यन्ति गदा वातकफात्मकाः ॥ ३ ॥

अब स्वेद विधियों का उपदेश करेंगे । जिनको उचित प्रकार से करने से स्वेदन से शान्त होने वाले, वात-कफ जन्य रोग शान्त हो जाते हैं ।

स्नेहपूर्व प्रयुक्तेन स्वेदेनावर्जितेऽनिले ।

पुरीषमूत्ररेतासि न सज्जन्ति कथंचन ॥ ४ ॥

पहले स्नेहन कार्य करके वायु को शमन कर लेने पर शरीर में मल, मूत्र और वीर्य ये किसी भी प्रकार रुके नहीं रहते ।

शुष्काण्यपि हि काष्ठानि स्नेहस्वेदोपपादनैः ।

नमयन्ति यथान्यायं किं पुनर्जावतो नरान् ॥ ५ ॥

मूत्रे हुणु काठ ( वांस आदि लकड़ियां ) भी स्नेहन और स्वेदन द्वारा मन के अनुसार मोड़ी या सीबी की जा सकती हैं, फिर जीवित ( रसयुक्त और कोमल ) मनुष्यों को वैद्य क्या स्नेहन और स्वेदन द्वारा इच्छानुसार परिवर्तित नहीं कर सकेगा ?

रोगार्तुव्याधितापेक्षो नात्युष्णोऽतिमृदुर्न च ।

द्रव्यवान् कल्पितौ देशे स्वेदः कार्यकरो मतः ॥ ६ ॥

व्याधि, काल, रोगी पुरुष, इच्छा इनके अनुसार न बहुत गरम, न बहुत कोमल, उस-उस रोग को नाश करने वाले द्रव्यों द्वारा, स्वेदन करने योग्य स्थानों से दिया गया स्वेद कार्य करने में समर्थ होता है ।

व्याधौ शीते शरीरे च महान् स्वेदो महाबले ।

दुर्बले दुर्बलः स्वेदो मध्यमे मध्यमो हितः ॥ ७ ॥

वातश्लेष्मणि वाते वा कफे वा स्वेद इष्यते ।

स्निग्धरूक्षस्तथा स्निग्धो रूक्षश्चाप्युपकल्पितः ॥ ८ ॥

शीत रोग में और शीत शरीर में महा बलवान् पुरुष के लिये महा-स्वेद जिसे शरीर सहन कर सके उतना ही देना चाहिये । शीत रोग और शीत शरीर वाले निर्बल पुरुष में दुर्बल स्वेद देना चाहिये । 'मध्यम बल' पुरुष में शीत व्याधि और शीत शरीर-में 'मध्यम स्वेद' देना चाहिये । वात-कफ-जनिन व्याधि में स्निग्ध और रूक्ष द्रव्यों से बनाया स्निग्ध-रूक्ष स्वेद देना चाहिये । केवल वातजन्य व्याधियों में स्निग्ध पदार्थों से स्निग्ध स्वेद देना चाहिये । केवल कफजन्य व्याधि में रूक्ष पदार्थों से रूक्ष स्वेद देना चाहिये ।

आमाशयगते वाते कफे पक्काशयाश्रिते ।

रूक्षपूर्वो हितः स्वेदः स्नेहपूर्वस्तथैव च ॥ ९ ॥

वृषणौ हृदयं दृष्टौ स्वेदयेन्मृदुनैव वा ।

मध्यमं वद्ध्वा शेषमङ्गात्रयवमिष्टतः ॥ १० ॥

वायु यदि आमाशय ( कफस्थान ) में पहुंची हो तो प्रथम स्नेह-कर्म न करके रुक्ष कर्म करे जिससे कफ-निकल जाये । फिर वायु को शान्त करने के लिए स्नेहन कार्य करे । इसी प्रकार जब कफ पक्काशय ( वात स्थान ) में पहुंचा हो तब पहिले रुक्ष कार्य न करके स्नेहन कार्य करे ( जिससे कि वायु की शान्ति हो फिर कफ की शान्ति के लिये रुक्ष कार्य करे । हृदय, आंख, इनका सृदु स्वेद द्वारा स्वेदन करना चाहिये । यदि दूसरी चिकित्सा से कार्य चल जाये, तो स्वेद बिलकुल न करे । वंक्षण स्थित रोग में वंक्षणों में मध्यम स्वेद देना चाहिये । शेष अंगों को ( रोगी की ) इच्छानुसार स्वेदन करे ।

सुशुद्धैर्लक्तकैः पिण्ड्या गोधूमानामथापि वा ।

पद्मोत्पलपलाशैर्वा स्वेद्यः संवृत्य चक्षुषी ॥ ११ ॥

मुक्तावलीभिः शीताभिः शीतलैर्भाजनैरपि ।

जलाद्रैर्जलजैर्हस्तैः स्विद्यतो हृदयं स्पृशेत् ॥ १२ ॥

धूल आदि दूषक पदार्थों से रहित, रुई से, रुई के बखो से अथवा गेहूं की पाटली बांध कर आंख पर स्वेद देना चाहिये । स्वेद देने से पूर्व आंख को कमल, नीला कमल अथवा ढाक इनके पत्तों से ढांप लेना चाहिये । हृदय को स्वेदन करने के लिये, मोतियों की माला को शीतल करके हृदय का स्वेदन करे । अथवा स्वेदन देते हुए, मोती की मालाओं से हृदय का स्पर्श करता रहे । शीतल पात्र ( कांसी आदि के बर्तनों ) से हृदय का स्वेदन करना चाहिये । पानी से गीले कमल के पत्तों से अथवा गीले हाथों से स्वेदन करते हुए हृदय का स्पर्श करते जाना चाहिये । हृदय की भांति वृषणों पर स्वेद करना चाहिये ।

शीतशूलव्युपरमे स्तम्भगौरवनिग्रहे ।

संजाते मार्दवे स्वेदे स्वेदनाद्विरतिर्मता ॥ १३ ॥

सरदी और वेदना हट जाने पर, शरीर में जडता तथा भारीपन

प्रतीत न होने पर और शरीर में कोमलता उत्पन्न होने से, तथा शरीर पर पर्साना आजाने पर स्वेद देना बन्द कर दे ।

पित्तप्रकोपो मूर्च्छा च शरीरसदनं तृषा ।

द्राह स्वेदाद्गदौर्वल्यमतिखिन्नस्य लक्षणम् ॥ १४ ॥

उक्तस्तस्याशित्तीये यो ग्रैष्मिकः सर्वशो विधिः ।

सोऽतिखिन्नस्य कर्तव्यो मधुरः स्निग्धशीतलः ॥ १५ ॥

अतिस्वेदन के लक्षण और उपचार—अति स्वेद देने से पित्त का प्रकोप, मूर्च्छा, शरीर में सुस्ती, प्यास का लगना, जलन, पसीने का बहना आना, अंगों में निर्वलता आ जाती है। अतिस्वेद के लिये 'तस्याशित्तीये' (अध्याय ६ में) कही हुई ग्राम्प ऋतु की मधुर, स्निग्ध, शीतर गुण वाली सम्पूर्ण परिचर्या (मद्य विधि को छोड़ कर) करे। यह अतिस्वेद की चिकित्सा है।

कपायमद्यनित्यानां गर्भिण्या रक्तपित्तिनाम् ।

पित्तिनां सातिसाराणां रूक्षाणां मधुमेहिनाम् ॥ १६ ॥

विदग्धभ्रष्ट्रघ्नानां विपमद्यविकारिणाम् ।

श्रान्तानां नष्टसंज्ञानां स्थूलानां पित्तमेहिनाम् ॥ १७ ॥

तृप्यतां क्षुधितानां च क्रुद्धानां शोचतामपि ।

कामल्युदरिणा चैव क्षतानामाह्यरोगिणाम् ॥ १८ ॥

दुर्बलातिविशुष्काणामुपक्षीणोजसा तथा ।

भिषक् तैमिरिकाणां च न स्वेदमवतारयेत् ॥ १९ ॥

स्वेद न देने योग्य व्यक्ति—जो वात-कफ प्रकृति के मनुष्य नित्य प्रति पाचनादि कपायों और मद्य का सेवन करते हों, गर्भवती, रक्त-पित्त रोगी, पित्त प्रकृति या पित्त जन्य रोग वाले व्यक्ति, अतिसार रोगी रुक्ष प्रकृति, मधुमेही, सब प्रकार के प्रमेहरोगी, इनमें भी खास कर मधुमेहके रोगी, जिनका गुदा पक गई हो, या गुदा बाहर आगई हो, विप रोगी, या नशे में नस्त अवशा शराव से उत्पन्न रोग वाला, परिश्रम करने

से थके, मूर्च्छित, बेहोश रोगी, स्थूल-चर्बी वाले पुरुष, पित्तजन्य प्रमेही, प्यासे पुरुष, भूखे, क्रोधी, शोक-चिन्ता-ग्रस्त, कामला, उदर रोगी, कुष्ठ रोगी, वात रक्त रोगी, निर्बल, बहुत रूक्ष शरीर वाले, जिनका ओज क्षीण हो गया हो उनको, तथा तिमिर रोगियों को स्वेद नहीं देना चाहिये । ( परन्तु तीव्र व्याधि में अल्पस्वेद दिया जा सकता है ) ।

प्रतिश्याये च कासे च हिक्काश्वासेष्वलाघवे ।

कर्णमन्याशिरःशूलं स्वरभेदे गलग्रहे ॥ २० ॥

अर्दितैकाङ्गसर्वाङ्गपक्षाघाते विनामके ।

कोष्ठानाहविवन्धेषु शुक्राघाते विजृम्भके ॥ २१ ॥

पार्श्वपृष्ठकटीकुक्षिसग्रहे गृध्रसीपु च ।

मूत्रकृच्छ्रे महत्त्वे च मुक्तयोरङ्गमर्दके ॥ २२ ॥

पादोरुजानुजंघातिसंग्रहे श्वयथावपि ।

खल्लोष्वासेषु शीते च वेपथौ वातकण्ठके ॥ २३ ॥

संकोचायामशूलेषु स्तम्भगौरवसुप्तिषु ।

सर्वाङ्गेषु विकारेषु स्वेदनं हितमुच्यते ॥ २४ ॥

स्वेद योग्य व्यक्ति—जुकाम, खासो, हिक्का, दमा, शरीर का भारीपन, कान की दर्द, मन्या-शूल, शिरोवेदना, स्वरभेद, गलग्रह, अर्दित ( चेहरे का लकवा ), एकांग-वात, सर्वाङ्ग वात, पक्षाघात रोग, विनामक ( दण्डापतानक आदि ) में, पेट का अफरा, मल-मूत्र के अवरोध में ( कब्ज ), शुक्र के अवरोध, जम्भाई का अधिक आना, पार्श्वशूल, पृष्ठ-वेदना, कटि शूल, कुक्षि शूल, गृध्रसी रोग, मूत्र कृच्छ्र रोग, अण्ड वृद्धि, सारे शरीर में वेदना, पांशु-वेदना या ऐठन, घुटना अथवा जघा की पीड़ा अथवा ऐठन, खल्लि अर्थात् हाथ-पांशु के ऐठन में, आम रोग, शीता-वस्था, कंपकपी, वातकण्ठक, गुल्फाश्रित वात रोग, शरीर को संकुचित करने वाले वात रोग, आयाम अन्तरायाम वात रोग, शूल-वेदना, स्तम्भ ( शरीर की जड़ता ), भारीपन, अंग का सो जाना या स्पर्श ज्ञान का

अभाव, शून्यता, ज्वरादि और वात श्लेष्मा आदि रोगों का दशाओं में स्वेद देना हितकारां है । स्वेदन द्रव्य—

तिलमापकुलस्थांश्लघृततैलामिपौदनैः ।

पायसैः कृशरंमसैः पिण्डस्वेदं प्रयोजयेत् ॥ २५ ॥

गोखरोप्रावराहाश्वशकृद्भिः सतुपैर्यवैः ।

सिकतापांशुपापाणकरोपायसपुटकैः ॥ २६ ॥

श्लेष्मिकान् स्वेदयेत् पूर्वैर्वातिकान् समुपाचरेत् ।

द्रव्याण्यंतानि शम्यन्ते यथास्वं प्रस्तरेष्वपि ॥ २७ ॥

भृगृहेषु च जेन्ताकेपूष्णागर्भगृहेषु च ।

विधूमाङ्गारतप्रेष्वभ्यक्तः स्विद्यति ना सुखम् ॥ २८ ॥

तिल, उड़द, कुलथी, अम्ल ( चांगीरी—चौपतिया ), घृत, तैल, आंडन—पके हुए चावल, खीर ( मावा—दूध का खोया ), ( तिल और मांस की खिचड़ी ), मांस, इन पदार्थों को गोलाकार बना कर 'पिण्ड स्वेद' का प्रयोग करना चाहिये । रुक्ष स्वेद के द्रव्य—गाय का गोबर, गधे का मल, ऊँट का मल, सुभर का मल और घोड़े की लीद, छिलकों वाले जौं, रेता, पांशु ( धूली-वारीक रेत ), पत्थर ( ईंट का ) चूरा, छाना (अरना) का चूर, आषस—लोहे का चूरा, इनकी पीटली बनाकर कफ रोगियों को स्वेद देना चाहिये और तिल, उड़द आदि से वातरोगियों को स्वेद देना चाहिये । पिण्ड स्वेद को 'संकर स्वेद' कहते हैं । ये तिल आदि पदार्थ प्रस्तर स्वेद में भी प्रशस्त हैं । नाड़ी स्वेद—भूमि को गोंद कर बनाया हुआ घर, जेन्ताक अर्थात् कृत्रिम विधि से गरम किया हुआ घर, ऊग गर्म अर्थात् हमाम—घिना खिड़की के घर, इनमें, वात हर, या कफ हर लकड़ियों को जलाकर, धुवें रहित अंगारों से इन घरों को गरम करके, शरीर का स्नेहन करने के पीछे मनुष्य सुष्प-पूर्वक स्वेद ले सकता है ।

ग्राम्यान्पौटकं मांसं पयो वस्तशिरस्तथा ।

वर।हमध्यपित्तासृक् स्नेहवत्तिलतण्डुलाः । २९ ॥

इत्येतानि समुत्काथ्य नाडीस्वेदं प्रयोजयेत् ।

देशकालविभागज्ञो युक्त्यपेक्षो भिषक्तमः ॥ ३० ॥

वारुणामृतकैरण्डशिग्रुमूलकसर्षपैः ।

वासावंशकरञ्जार्कपत्रैरश्मन्तकस्य च ॥ ३१ ॥

शोभाञ्जनकशैरेयमालतीसुरसार्जकैः ।

पत्रैरुत्काथ्य सलिलं नाडीस्वेदं प्रयोजयेत् ॥ ३२ ॥

भूतीकपञ्चमूलाभ्यां सुरया दधिमस्तुना ।

मूत्रैरम्लैश्च सस्नेहैर्नाडीस्वेदं प्रयोजयेत् ॥ ३३ ॥

एत एव च निर्यूहाः प्रयोज्या जलकोष्ठके ।

स्वेदनार्थं घृतक्षीरतैलकोष्ठांश्च कारयेत् ॥ ३४ ॥

नाडी स्वेद के लिये—ग्राम्य ( पालतू ) पशु और जलीय जन्तुओ का मांस, दूध, बकरी का शिर, सुअर का मध्य भाग, पित्त ( Bile ) रक्त, एरण्ड के बीज, तिल ( तुष रहित ) इन सबको यथायोग्य उबालकर नलिका द्वारा स्वेद देवे । देश, काल के विभाग को समझने वाला और युक्ति-प्रयोग विधि जानने वाला वैद्य स्वेद देवे । यह स्वेद वात रोग में हितकारी है । वरना, गिलोय एरण्ड, सहजन, मूली के बीज, बांसा, रेणु करञ्ज, आक, पापाणभेद, और चांगेरी ( जंगली कपास ) के पत्ते लाल सहजन, शिलाह्वा ( तुलसी ), अजक ( तुलसी भेद ) इनके पत्तों को और छालों को भी काथ करके देश, काल के विभाग को जानने वाला, युक्ति को समझने वाला वैद्य नाडीस्वेद देवे यह स्वेद कफ जन्य रोगों में हितकारी है । भूतीक ( बड़ी अजवायन ), पञ्चमूल ( बृहत्पञ्चमूल वात-कफ हर होने से ), सैरेय ( झन्डी-जिंगण ), दही का पानी ( मस्तु ), आठों प्रकार के मूत्र, अम्लवर्ग से, स्नेह, घृत तैल आदि के साथ काथ करके वात-कफ में नाडी स्वेद देना चाहिये । ये ग्राम्य मांस आदि तीनों निर्यूह ( काथ ) क्रम से, वातजन्य, कफजन्य, और वात-कफजन्य रोगों में



‘जन्तु कोष्ठक’ अर्थात् इनके कायों से भरे द्रोणीपात्र में खड़ा करके आदमी को स्वेद देवे । स्वेदन के लिये घी का कोठा, ( कोष्ठ ) दूध का कोठा, या तैल का कोठा भी बना लेना चाहिये ।

गोधूमशकलैश्चूर्णैर्यवानामम्लसंयुतैः ।

सस्नेहक्रिएवलवणैरुपनाहः प्रशस्यते ॥ ३५ ॥

गन्धैः सुरायाः क्रिएवेन जीवन्त्या शतपुष्पया ।

उमया कुष्ठतैलाभ्यां युक्तया चोपनाहयेत् ॥ ३६ ॥

चर्मभिश्च पनद्रव्यः सलोमभिरपूतिभिः ।

उष्णवीर्यैरलाभे तु कौशेयाविकशाटकैः ॥ ३७ ॥

रात्रौ वट्टं दिवा मुञ्चेन्मुञ्चेद्रात्रौ दिवाकृतम् ।

विदाहपरिहारार्थं, स्यात्प्रकर्षस्तु-शीतले ॥ ३८ ॥

उपनाह विधि-गेहू का ढर कच, जौ का चूर्ण, कांजी, तैल, मद्यकिट्ट के साथ मिलाकर गरम करके उपनाह ( पुलटिस ) बांधना वातजन्य रोगों में उपकारी है । चन्दन अगरू आदि सुगन्धित पदार्थ मद्य पात्र में घेठे तलछट-प्रक्षेप, जीवन्ती ( स्वर्ण पुष्पी ), सौंफ, कफजन्य रोगों में इनकी पुलटिस लगावे । अलसी, कूठ और तैल से पुलटिस तैय्यार करे, इसके वात-कफ रोगियों में प्रयोग करे दुर्गन्ध-रहित, वालोंवाली एवं उष्ण वीर्य वाली खालों से लेप को बांध देना चाहिये । और जब ऐसे चमड़े न मिले तो रेशमी वस्त्रों से या ऊन से बने कम्बल से बांधना चाहिये रात्रि में प्रलेप लगाकर बांधे हुए बन्धन को रात में खोल देना चाहिये । जिससे कि जलन उत्पन्न न हो । शीत ( हेमन्त और शिशिर ) काल में बंधी रहने में कोई ढर नहीं, दिन में बंधी पट्टी रात भी रह जाये, तो कोई ढर नहीं, प्रत्युत लाभ ही है ।

संकरः प्रस्तरौ नाडी परिपेकोऽवगाहनम् ।

जेन्ताकोऽश्मघन कर्पुः कुटी भूः कुम्भिकैव च ॥ ३९ ॥

कृपो होलाक इत्येते स्वेदयन्ति त्रयोदश ।

तान् यथावत्प्रवक्ष्यामि सर्वानेवानुपूर्वशः इति ॥ ४० ॥

स्वेद कर्म के तेरह प्रकार हैं १. संकर, २ प्रस्तर, ३ नाड़ी; ४. परिपेक, ५ अवगाहन, ६. जेन्ताक, ७. अश्मघन, ८. कर्पु, ९. कुटो, १० भू ११ कुम्भिक, १२. कूप, १३ होलाक, ये तेरह प्रकार के स्वेद हैं । इन तेरह स्वेदों को क्रमशः कहते हैं ।

तत्र वृक्षान्तरितैरवृक्षान्तरितैर्वा पिण्डैर्यथोक्तैरुपस्वेदनं संकर-स्वेद इति विद्यात् ॥ ४१ ॥

( १ ) संकरस्वेद—तिल, माप आदि पदार्थों का पिण्ड बनाकर वस्त्र में लपेट कर अथवा विना वस्त्र में लपेटे ही गरम करके स्वेदन कार्य करने का नाम 'संकर-स्वेद' है ।

शूकशमीधान्यपुलाकानां वेसवारायसकृशरोत्कारिकादीनां वा प्रस्तरे कौशेयाविकोत्तरप्रच्छदे पञ्चाङ्गुलोरुवकार्कपत्रप्रच्छदे वा स्वभ्यक्तसर्वगात्रस्य शयानस्योपरि स्वेदनं प्रस्तरस्वेद इति विद्यात् ॥ ४२ ॥

( २ ) प्रस्तर स्वेद—शूक धान्य ( चावल गेहूँ आदि ), शमी धान्य ( मूंग, उड़द, चना आदि ) पुलाक (चावल रहित धान्य, पटास), वेसवार, पायस ( मावा, खोया ), कृशरा, तिल, उड़द की बनी यवागू उत्कारिका ( उड़द की बनी पूरी या पूवा ), आदि वस्तुओं को गरम करके, पत्थर ( अथवा काष्ठ आदि कड़ी वस्तु पर फैलाये हुए ) रेशम, कम्बल (ऊनी वस्त्र) को फैलाकर, अथवा ऐरण्ड, उरुबक (छोटा एरण्ड), या आक के पत्ते को फैलाकर इन पर औषध लगा देवे । फिर सारे शरीर पर स्नेह लगा कर इन पत्तों या वस्त्र पर लेट कर स्वेद लेने का नाम 'प्रस्तरस्वेद' है ।

स्वेदनद्रव्याणां पुनर्मूलफलपत्रशुङ्गादीनां मृगशकुनिपिशितशिरः-पदादीनामुष्णस्वभावानां वा यथार्हमम्ललवणस्नेहोपसंहितानां मूत्रक्षीरादीनां वा कुम्भ्यां वाष्पमनुद्धमन्त्यामुत्कथितानां नाड्या शरैषीकावंशदलकरञ्जार्कपत्रान्यतमकृतया गजाग्रहस्तसंस्थानया

व्यामदीर्घया व्यामार्धदीर्घया वा व्यामचतुर्भागाष्टभागमूलाग्रपरि-  
णाहस्रोतसा सर्वतो वातहरपत्रसंवृतच्छिद्रया द्विस्त्रिर्वा विनामितया  
वातहरसिद्धस्नेहाभ्यक्तगात्रो वाष्पमुपहरेत्, वाष्पो ह्यनूर्ध्वगामी  
विहतचण्डवेगस्त्वचमविदहन् सुखं स्वेदयतीति नाडीस्वेदः ॥ ४३ ॥

( ३ ) नाडीस्वेद—पहिले कहे हुए स्वेदन द्रव्यों के मूल, फल, पत्र  
और कोपल और पशु, पक्षी इनका मांस, शिर, पांव आदि उष्ण स्वभावयुक्त  
अथवा यथायोग्य अम्ल, लवण, एवं स्नेह युक्त, आठों प्रकार के मूत्र, गौ  
आदि के दूध और मस्तु को घड़े में बन्द करके इसके मुख को ढक्कन से  
बन्द कर दे फिर इस को गरम करे। इस घड़े में शर, ईपीक  
आदि से बनी नलिका ( नली ) को लगाकर इसके द्वारा वातहर तैल से  
म्निग्ध पुरुष को स्वेद देना चाहिये। नलिका का स्वरूप सरकण्डा का  
अगला भाग, पत्ता, वांस का पत्ता, करंज का पत्ता, आक का पत्ता इन में  
से किसी की नलिका बनाले। नली हाथी की सूंड के समान ऊपर से मोटी  
नीचे पतली मुख पर से गोल हो, तथा व्याम अर्थात् पुरुष के दोनों हाथ  
फैला लेने पर इस लम्बाई के बराबर लम्बी, अथवा आधे व्याम लम्बी,  
और जड़ से अग्र तक व्याम के चौथाई भाग घेर में, वा व्याम का  
आठवां भाग होनी चाहिये। और नाडी के चारों ओर जितने भी  
छेद हों, उन सब को वातनाशक गुरण्ड आदि के पत्तों से बन्द करके दो  
या तीन बार टेढ़ी घुमा कर पात्र के मुख में लगी हुई नलिका से वाष्प  
रोगी को देने चाहिये। दो तीन बार टेढ़ी-मेढ़ी घुमाने से वाष्प ऊपर की  
दोड़ न जाकर, प्रबल वेग से त्वचा को न जलाता हुआ सुखपूर्वक स्वेदन  
करना है।

वातिकोत्तरवातिकानां पुनर्मूलादीनामुत्कायैः सुखोष्णैः कुम्भी-  
र्वापुलिकाः प्रनाडीर्वा पूरयित्वा यथार्हसिद्धस्नेहाभ्यक्तगात्रं वस्त्रा-  
वच्छ्रन्नं परिपेचयेदिति परिपेकः ॥ ४४ ॥

( ४ ) परिपेक स्वेद—वातनाशक एवं विशेष रूप से त्रिदोषनाशक

द्रव्यों के मूल, फल, पत्र, शृंग आदि को सुखदायक काथ—जिसे शरीर सहन कर सके इतने गरम काथ को सच्छिद्र वर्तन के ढक्कन में छेद रखकर जिससे वाष्प निकल सके, अथवा वर्तन में नाली लगाकर यथा योग्य स्नेह से स्निग्ध शरीर वाले मनुष्य को कपडों से सम्पूर्ण रूप में ढांप कर स्वेद देना चाहिये ।

वातहरोत्काथक्षीरतैलघृतपिशितरसोष्णसलिलकोष्ठकावगाहस्तु यथोक्त एवावगाहः ॥ ४५ ॥

( ५ ) अवगाह स्वेद—वात नाशक द्रव्यों से काथ, घी, तैल, मांस रस गरम पानी बनाकर 'कोठी' लकड़ी का बना हुआ बड़ा पात्र जिसमें मनुष्य बैठ सके उसमें बैठकर स्नान करना अवगाहन है ।

अथ जेन्ताकं चिकीर्षुभूमि परीक्षेत—तत्र पूर्वास्यां दिश्युत्तर-स्यां वा गुणवति प्रशस्ते भूमिभागे कृष्णमृत्तिके सुवर्णमृत्तिके वा परीवापपुष्करियादीनां जलाशयानामन्यतमस्य कूले दक्षिणे पश्चिमे वा सूपतीर्थे समसुविभक्तभूमिभागे सप्ताष्टौ वाऽरत्नीरुपक्रम्योदका-त्प्राङ्मुखमुदङ्मुखं वाऽभिमुखतीर्थं कूटागारं कारयेत्, उत्सेधवि-स्तरत परमरत्नी षोडश, समन्तात्सुवृत्तं मृत्कर्मसंपन्नमनेकवातायनम् । अस्य कूटागारस्यान्तः समन्ततो भित्तिमरत्निविस्तारोत्सेधां पिण्डिकां कारयेदाकपाटात्, मध्ये चास्य कूटागारस्य चतुष्किष्कुमात्रपुरुष-प्रमाणं मृगमयं कुन्दसंस्थानं बहुसूक्ष्मच्छिद्रमङ्गारकोष्ठकस्तम्भं सपि-धानं कारयेत्, तं च खादिराणामाश्वकर्णादीनां वा काष्ठानां पूर-यित्वा प्रदीपयेत्, स यदा जानीयात्साधुदग्धानि काष्ठानि विगत-धूसान्यवतप्तं च केवलसग्निना तदग्निगृहं स्वेदयोग्येन चोष्मणा युक्तमिति, तत्रैनं पुरुषं वातहराभ्यक्तगात्रं वस्त्रावच्छत्रं प्रवेशयेत्, प्रवेशयञ्चैनमनुशिष्यात्—“सौम्य ! प्रविश कल्याणायारोग्याय चेति, प्रविश्य चैनां पिण्डिकामधिरुह्य पार्श्वपरपार्श्वार्थाभ्यां यथासुखं शयीथाः, न च त्वया स्वेदमूर्च्छांपरीतेनापि सता पिण्डिकैषा विमो-

क्तव्याऽऽप्राणोच्छ्वासात्, भ्रश्यमानो ह्यतः पिण्डिकावकाशाद्द्वार-  
मनधिगच्छन् स्वेदमूर्च्छांपरीततया सद्यः प्राणान् जह्याः, तस्मात्पि-  
ण्डिकामेनां न कथंचन मुञ्चेथा, त्वं यदा जानीया विगताभिष्यन्द-  
मात्मान सम्यक् प्रस्रुतस्वेदपिच्छ सर्वस्रोतोविमुक्तं लघुभूतमपगत-  
विवन्धस्तम्भसुप्तिवेदनागौरवमिति, ततस्ता पिण्डिकामनुसरन् द्वारं  
प्रपद्येथा., निष्क्रम्य च न सहसा चक्षुषोः परिपालनार्थं शीतोदक-  
मुपस्पृशेथाः, अपगतसंतापकृमस्तु मुहूर्तात्सुखोष्णेन वारिणा यथा-  
न्यायं परिपिक्तोऽश्रोया इति जेन्ताकं स्वेद. ॥ ४६ ॥

( ६ ) जेन्ताक स्वेद—जेन्ताक स्वेद करने की इच्छा वाला वैद्य  
सब से प्रथम भूमि की परीक्षा करे। इसके लिये मनुष्य के निवास  
स्थान से पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जो भूमि-प्रदेश (वृक्ष आदि  
के उत्पन्न होने से) प्रशस्त एवं गुणवान् तथा सुन्दर हो, काली मिट्टी  
वाला या स्वर्ण (पीली मिट्टी) मिट्टी का हो, तालाब, पुष्करिणी, बावड़ी  
अथवा बड़े तालाब के दक्षिण या पश्चिम किनारे पर, जहां पर किनारे का  
पानी (घाट का पानी) बहुत साफ़ हो, जहां भूमि ऊंची नीची न  
हो, बिल्कुल समान हो। ( २ ) कूटागार निर्माण—वहां पर पानी से सात  
या आठ बालिष्ठ पीछे हटकर जलाशय के पश्चिम किनारे पर पूर्व की ओर  
मुख रखकर अथवा जलाशय के दक्षिण किनारे पर उत्तर की ओर मुख  
वाला, या घाट की ओर मुख वाला कूटागार बनाना चाहिये।  
ऊंचाई में १६ बालिष्ठ और चौड़ाई में १६ बालिष्ठ, चारों ओर से गोला-  
कार बहुत २ रोशनदानों वाला मिट्टी से लिपा पुता कर तैय्यार करना  
चाहिये। इस घर के अन्दर दिवार के चारों ओर किवाड तक एक बालिष्ठ  
ऊंची चवुतरा बनानी चाहिये। मध्य में चारों ओर सोलह अंगुलों  
तक पुरुष के परिमित मिट्टी से बनी, भट्टी के आकार की जिस पर कि  
लोग नाने भूनते हैं भाड़ के आकार में बहुत सूक्ष्म, छोटे २ छिटों  
वाली भट्टी बनाये, और इस का डकन भी बनाये। ( ३ ) स्वेदन विधि—

इस भाड़ को खैर, अश्वकर्ण ( बड़े पत्तों वाला ढाक ) की लकड़ियों से भरकर जला देवे । जिस समय यह मालूम हो जाए कि लकड़ियां भली प्रकार जल चुकी, धुंआ नहीं रहा, और घर भर आग से गरम हो गया है । तथा पसीना देने की योग्यता वाली गरमी से युक्त है, तब वातहर तैल से स्निग्ध एवं वस्त्र से ढंके हुए पुरुष को इस घर में प्रवेश करावे । प्रवेश कराने से पूर्व उस को समझा दे कि—हे सौम्य ! कल्याण, मंगल और आरोग्यता के लिये इस घर में प्रवेश करो । इस घर में प्रविष्ट होकर इस चवूतरे के ऊपर दक्षिण पार्श्व से, या वाम पार्श्व से, जिससे चाहो उस पार्श्व से ( जैसे आराम मिले, वैसे ) सुखपूर्वक लेटो । परन्तु पसीने आने से उत्पन्न मूर्च्छा के कारण व्याकुल होने पर भी इस चवूतरे को प्राणों के रहने तक बिल्कुल मत छोड़े । क्योंकि इस चवूतरे पर से फिसल कर दर्वाजे को न पाकर मूर्च्छा की व्याकुलता के कारण प्राण निकल जायंगे । इसलिए चवूतरे को बिल्कुल न छोड़ना । जिस समय कफ का जोर घट जाय, पसीना भी सब स्रोतों से भली प्रकार निकल जाय, सारे छिद्र खुल जायें । शरीर हल्का हो जाय, मल बन्ध, जड़ता, स्पर्श ज्ञान का अभाव, पीडा और भारीपन शरीर में नहीं रहे, उस समय चवूतरे के साथ साथ चलकर दर्वाजे के पास पहुंच जाये और बाहर निकल कर आंखों की रक्षा के लिये सहसा शीतल जल का प्रयोग नहीं करे । कुछ देर ठहर कर जब थकान और गरमी, शिथिलता दूर हो जाय तब कुछ गरम पानी से इच्छानुसार स्नान करके भोजन करे ।

शयानस्य प्रमाणेन घनामश्ममर्यां शिलांम् ।  
 तापयित्वा मारुतघ्नैर्दारुभिः संप्रदीपितैः ॥ ४७ ॥  
 व्यपोज्जभ्य सर्वानङ्गारान् प्रोक्ष्य चैवोष्णवारिणा ।  
 तां शिलांमथ कुर्वीत कौपेयाविकसंस्तराम् ॥ ४८ ॥  
 तस्यां स्वभ्यक्तसर्वाङ्गं स्वपन् स्विद्यति ना सुखम् ।  
 कौरवाजिनकौपेयप्रावाराद्यैः सुसंवृतः ॥ ४९ ॥

इत्युक्तोऽश्मघनस्वेदः,

( ७ ) अश्मघन स्वेद विधि—पुरुष लेट सके, इतनी बड़ी लम्बी, चौड़ी मजबूत पत्थर की बनी शिला को, वातनाशक ( देवदारु या अगर आदि ) लकड़ीयां जलाकर शिला को गरम करे । गरम होने पर सब अंगारों में दूर हटा दे, शिला को गरम पानी से धो कर इस पर (जिस से कि ऊपर की गरमी बाहर हो जाये ) रेशम वस्त्र अथवा कम्बल बिछा कर, स्नेह से न्निग्ध पुरुष, मृग चर्म वा कम्बल या रेशम को लपेट कर शिला पर सुख से लेट जाये, इस प्रकार से सुखपूर्वक स्वेदन हो जाता है ।

कपूर्स्वेदः प्रवक्ष्यते ।

खानयेच्छयनस्याधः कपूर्, स्थानविभागवित् ॥ ५० ॥

दीप्तैरधूमैरङ्गारैस्तां कपूर् प्रयेत्ततः ।

तस्यामुपरि शय्यायां स्वपन् स्विद्यति ना सुखम् ॥ ५१ ॥

( ८ ) कपूर् स्वेद विधि—शय्या के नीचे हाण्डी के आकार का एक गोल गट्टा बनाये । इस गट्टे को जलते हुए परन्तु धूमरहित अंगारों से भर दे । इस गट्टे के ऊपर खाट बिछाकर लेटने से सुख पूर्वक पसीना आता है ।

अनल्युत्सेधविस्तारां वृत्ताकागमलोचनाम् ।

घनभित्तिं कुटीं कृत्वा कुप्रायैः संप्रलेपयेत् ॥ ५२ ॥

कुटीमव्ये भिषक्शय्या स्वास्तीर्णा चोपकल्पयेत् ।

प्रावारजिनकौप्यकुथकम्बलगोलकैः ॥ ५३ ॥

हसन्तिकाभिरङ्गारपुर्णाभिस्तां च सर्वशः ।

परिवायान्तगरोहेदभ्यन्तः स्विद्यते सुखम् ॥ ५४ ॥

( ९ ) कुटी स्वेद विधि—न बहुत ऊंची और न बहुत चौड़ी, गोलाकार, गंजनदान रहित (जिनमें वायु के लिये छेद न हो) तथा तग दिवारों वाली गट्टी वाला मृग्य गट्टा बनाये । इस घर में अन्दर से कुप्रा आदि द्रव्य उष्ण-

वीर्यं द्रव्यों से लेप देना चाहिये । इस लिपी कुटी के बीच में वैद्य लम्बी, चौड़ी शय्या बनाये । इस शय्या के चारों ओर अंगारों से भरी अंगीठीयां रख देवे । फिर व्याघ्रचर्म, मृगचर्म, रेशम, कम्बल, चित्र विचित्र गरम वस्त्र शय्या पर बिछाकर, लपेट लेने चाहिये । शरीर पर स्नेह लगाकर स्वेद लेना चाहिये । इस प्रकार सुखपूर्वक स्वेदन हो जाता है ।

य एवाश्मघनस्वेदविधिर्भूमौ स एव तु ।

प्रशस्तायां निवातायां समायामुपदिश्यते ॥ ५५ ॥

( १० ) भू-स्वेद विधि—जो विधि अश्मघन स्वेद की है, वही भू-स्वेद की है । इस स्वेद के लिये भूमि उत्तम, वायु रहित तथा समान हो ऊंची नीची नहीं होनी चाहिये ।

कुम्भी वातहरकाथपूर्णां भूमौ निखानयेत् ।

अर्धभागं त्रिभागं वा शयनं तत्र चोपरि ॥ ५६ ॥

स्थापयेदासनं वाऽपि नातिसान्द्रपरिच्छदम् ।

अथ कुम्भ्यां सुसंतप्तान् प्रक्षिपेदयसो गुडान् ॥ ५७ ॥

पाषाणांश्चोष्मणा तेन तस्थः स्विद्यति ना सुखम् ।

( ११ ) कुम्भी-स्वेदविधि—घड़े को वातहर देवदारु आदि के काथ से भरकर भूमि में आधा या तिहाई भाग गाड़ देना चाहिये । इसके ऊपर एक खाट बिछा दे । खाट के ऊपर बहुत गहरा मोटा कपड़ा न बिछाना चाहिये । फिर लोहे के गोले, पत्थरो को खूब गरम गरम करके भूमि में गड़ी और वात हर काथ से भरी कुम्भी (घड़े) में गिरा दे । इनकी गरमी से, शय्या के ऊपर लेटे हुए, शरीर पर स्नेह मर्दन किये हुए पुरुष को सुखपूर्वक स्वेदन होता है ।

सुसंवृताङ्गः स्वभ्यक्तः स्नेहैरनिलनाशनैः ॥ ५८ ॥

कूपं शयनविस्तारं द्विगुणं चापि वेध्यतः ।

देशे निवाते शस्ते च कुर्यादन्तः सुमार्जितम् ॥ ५९ ॥

हस्त्यश्वगोखरोप्राणां करीपैर्दग्धपूरिते ।



किस प्रकार से स्वेद कार्य कर सकता है, किनके लिये उपकारी है, किस प्रकार, किस स्थान पर, कैसा स्थान, किस प्रकार रक्षा करनी, सम्यक् न्विज्ञ, अतिस्वेद के लक्षण, अतिस्वेद की चिकित्सा, स्वेद के अयोग्य और स्वेद के योग्य, स्वेदन द्रव्य, तेरह प्रकार का स्वेद और बिना अग्नि के दस प्रकार का स्वेद, संक्षेप रूप में छः स्वेद—ये सब स्वेदाध्याय में कह दिया। स्वेद अधिकार में जो कुछ कहना चाहिये था वह सब महर्षि ने कह दिया है। शिष्यों को ठीक २ प्रकार समझना चाहिये, इसके उपदेश करने वाले पुनर्वसु आत्रेय हैं।

श्याशिवेशकृते तन्वे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने कल्पनाचतुष्टे  
स्वेदाध्यायो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

## पञ्चदशोऽध्यायः ।

अथात उपकल्पनीयमध्याय व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेय. ॥ २ ॥

अब उपकल्पनीय अध्याय की व्याख्या करेंगे। ऐसा भगवान् आत्रेय ने कहा है।

इह खलु राजानं राजमात्रं वाऽन्यं विपुलद्रव्यं संभृतसंभारं वमनं विरेचनं वा पाययितुकामेन भिषजा प्रागेवौषधपानात्संभारा उपकल्पनीया भवन्ति, सम्यक्चैव हि गच्छत्यौषधे प्रतिभोगार्थाः, व्यापत्रे तौषधे व्यापदः परिसंख्याय प्रतीकारार्थाः । न हि संनि-  
कृष्टे काले प्रादुर्भूतायामापदि सत्यपि क्रयाक्रये सुकरमाशु संभर-  
णमौषधाना यथावदिति ॥ ३ ॥

इस लोक में राजा अथवा राजा के समान टाट वाले पुरुष को या बहुत धन और नौकर चाकरो वाले किसी रईस को वमन, विरेचन देने

की इच्छा करने वाले वैद्य को चाहिये, कि, औषध पिलाने से पूर्व ही सब आवश्यक वस्तुएं अपने पास एकत्र कर ले । क्योंकि यदि औषध ठीक प्रकार से काम कर गई तो ये वस्तुवे फिर काम में आ जायेगी और यदि प्रयोग से कुछ तकलीफ़ हो गई, तो इनको जानकर इनका प्रतिकार किया जा सकेगा । और यदि सब आवश्यक उपकरणों को समीप में न रक्खा जाय तो उपद्रव हो जाने पर, तुरन्त बाज़ार से खरीद कर सब वस्तुओं को लाना भी उतना सरल नहीं होता जितना कि प्रथम से ही सब वस्तुओं का संग्रह करना सरल है ।

एवंवादिनं भगवन्तमात्रेयमग्निवेश उवाच—ननु, भगवन्नादा-  
वेव ज्ञानवता तथा प्रतिविधातव्यं यथा प्रतिविहिते सिध्येदेवौ-  
षधमेकान्तेन, सम्यक्प्रयोगनिमित्ता हि सर्वकर्मणां सिद्धिरिष्टा,  
व्यापञ्चासम्यक्प्रयोगनिमित्ता । अथ सम्यगसम्यक् च समारव्यं  
कर्म सिध्यति व्यापद्यते वाऽनियमेन, तुल्यं भवति ज्ञानमज्ञा-  
नेनेति ॥ ४ ॥

ऐसा कहते हुए भगवान् आत्रेय को अग्निवेश बोले—भगवन् ! ज्ञानवान् वैद्य को पहिले से ही चाहिये कि वह संशोधन देने से पूर्व रोगी के बल, आयु, क्रिया, सहन शक्ति, सत्त्व, देश, काल, दोष का बलावल, प्रकृति आदि बातों का विचार करके योग्य मात्रा में औषध पिलावे । जिससे कि औषध देने पर वह औषध निश्चय से ही गुणकारी सफल हो । क्योंकि सब कार्यों को भली प्रकार उचित रीति से करने पर सफलता अवश्य होती है । अनुचित रीति से करने पर आपत्तियों का होना भी निश्चित है । और यदि ज्ञानपूर्वक किया हुआ कर्म उचित या अनुचित रूप से करने पर कभी सिद्ध हो जाता है, और कभी सिद्ध नहीं होता, तो ज्ञान अज्ञान के समान ही है, पढ़ना न पढ़ना बराबर हो जाता है ।

तमुवाच भगवान् आत्रेयः—शक्यं तथा प्रतिविधातुमस्माभिरस्म-  
द्विधैर्वाऽयग्निवेश । यथा प्रतिविहिते सिध्येदेवौषधमेकान्तेन, तच्च

प्रयोगमौष्टवमुपदेष्टुं यथावत् न हि कश्चिदस्ति य एतदेवमुपदिष्ट-  
मुपधारयितुमुत्सहेत, उपधार्य वा तथा प्रतिपत्तुं प्रयोक्तुं वा;  
सूक्ष्माणि हि दोषभेजदेशकालवलशरीराहारसात्म्यसत्त्वप्रकृतिव-  
यसामवस्थान्तराणि यान्यनुचिन्त्यमानानि विमलविपुलबुद्धेरपि  
बुद्धिमाकुलीकुर्युः किं पुनरल्पबुद्धेः । तस्मादुभयमेतद्यथावदुपदे-  
क्ष्यामः सम्यक्प्रयोग चौपधानां व्यापन्नानां च व्यापत्साधनानि  
सिद्धिपूर्त्तरकालम् ॥ ५ ॥

अग्निवेश को भगवान् आत्रेय ने कहा हे अग्निवेश ! औषध देने पर  
निश्चय रूप से सफल हो, ऐसा औषधोपचार करना हम वा हम जैसे तपो-  
बल द्वारा रजस, तमस से निर्मुक्त हुए पुरुषों से ही सम्भव है और इस  
प्रयोग की सफलता को पूरे पूरे रूप से उपदेश करने के लिये कोई तैय्यार  
नहीं । इसी प्रकार ऐसा भी कोई क्षिप्य नहीं है जो कि इस प्रयोग को  
यथावन रूप में जान सके और जानकर प्रयोग ठीक २ प्रकार से कर सके,  
ऐसा भी कोई आठमी नहीं है क्योंकि प्रत्येक पुरुष में दोष, औषध, देश  
समय, बल, शरीर, भोजन, सात्म्य, सत्त्व, प्रकृति, और आयु इनकी  
स्थिति प्रतिक्षण बदलती रहती है । इन दोष आदि की सूक्ष्म विवेचना  
निर्मल एवं विशाल बुद्धि वाले पुरुष की भी बुद्धि को चकरा देते हैं, फिर  
अल्पबुद्धि वाले मनुष्य का तो कहना ही क्या ? इसलिये थोड़ी बुद्धि वाले  
मनुष्य की बुद्धि को व्याकुल करने के कारण दोनों बातें अर्थात् औषधियों का  
उचित प्रयोग और औषध प्रयोग के मिथ्यायोग से उत्पन्न आपत्तियों को  
निवृत्ति च्यान में कहेंगे ।

उदानीं तावत्सभारान्विविधानपि समासेनोपदेक्ष्यामः, तद्यथा-  
दृष्टं निवातं प्रवातैकदेशं सुखप्रविचारमनुपत्यकं धूमातपजलरज-  
सः । मनीयमनिष्टानां च शब्दस्पर्शरूपगन्धानां सोढ-  
यान् । तालमुमलवर्चःस्थानस्तानभूमिमहानसोपेतं वास्तुविद्याकुशलः  
प्रशः । धृष्टमेव तावन पूर्वमुपकल्पयेत् ॥ ६ ॥

इस अध्याय में संशोधन के उपयोगी नाना प्रकार के उपकारणों का संक्षेप से उपदेश करेंगे । सबसे पहिले मकान बनाने की विद्या ( स्थापत्य कर्म या वास्तुविद्या ) को जानने वाला चतुर शिल्पी ऐसा गृह बनाये जो मज़बूत हो, जिसमें खुली वायु सामने से न आकर एक पार्श्व से पर्याप्त मात्रा में आ सके । जिसमें रोगी आराम से घूम फिर सके, पहाड़ की तराई या पहाड़ पर न बना हो, धुंवा, गरमी, धूप और धूल जिसमें न आ सके, मन को अच्छे न लगाने वाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध जहां पर न जा सकें, पानी का घड़ा, ऊखल, मूसल, मलत्याग का स्थान, स्नानघर, रसोई, पाकशाला साथ हों ।

ततः शीलशौचाचारानुरागदाक्ष्यप्रादक्षिण्योपपन्नानुपचारकुशलान् सर्वकर्मसु पर्यवदातान् सूपौदनपाचकस्नापकसंवाहकोत्थापकसंवेशकौषधपेषकांश्च परिचारकान् सर्वकर्मस्वप्रतिकूलान् , तथा गीतवादित्रोल्लापकश्लोकगाथाख्यायिकेतिहासपुराणकुशलानभिप्रायज्ञाननुमतांश्च देशकालविद् पारिषद्यांश्च, तथा लावकपिञ्जलशशहरिणैकालपुच्छकमृगमातृकोरभ्रान् , गां दोग्ध्री शीलवतीमनातुरां जीवद्वत्सां सुप्रतिविहिततृणशरणपानीयां, जलपात्र्याचमनीयोदकोष्ठमणिकघटपिठरपर्योगकुम्भीकुम्भकुण्डशरावदर्वीकटोदञ्चनपरिपचनमन्थानचर्मचेलसूत्रकार्पासोर्णादीनि च, शयनासनादीनि चोपन्यस्तभृङ्गारप्रतिग्रहाणि सुप्रयुक्तास्तरणोत्तरप्रच्छदोपधानानि स्वापाश्रयाणि संवेशनोपवेशनस्नेहस्वेदाभ्यङ्गप्रदेहपरिषेकानुलेपनवमनविरेचनास्थापनानुवासनशिरोविरेचनमूत्रोच्चारकर्मणामुपचारसुखानि, सुप्रक्षालितोपधानाश्च सुश्लक्ष्णखरमध्यमा दृषद, शस्त्राणि चोपकरणार्थानि, धूमनेत्र च, वस्तिनेत्र चोत्तरवस्तिकं च, कुशहस्तकं च, तुलां च, मानभाण्डं च, घृततैलवसामज्जक्षौद्रफाणितलवणेन्धनोदकमधुसीधुसुरासौवीरकतुषादकमैरेयमेदकदधिमण्डोदध्विद्धान्याम्लमूत्राणि च, तथा शालिपष्टिकमुद्गमाषयवतिलकुलतथवदर-

मृद्धीकाकाशमर्यपरूपकाभयामलकविभीतकानि, नानाविधानि च  
 न्नेहस्वेनोपकरणानि द्रव्याणि, तथैवोर्ध्वहरानुलोमिकोभयभाञ्जि-  
 संग्रहणीयदीपनीयपाचनीयोपशमनीयवातहराणि समाख्यातानि  
 चौपधानि, यच्चान्यदपि किञ्चिद्द्रव्यापदः परिसंख्यायोपकरणं विद्यात्,  
 यच्च प्रतिभोगार्थं, तत्तदुपकल्पयेत् ॥ ७ ॥

इस के उपरान्त पवित्र शुद्ध स्वभाव, निर्मल आचरण के, रोगी से  
 प्रेम रखने वाले, कर्मकुशल, सेवाकर्म में दक्ष, अपने २ कर्म में कुशल  
 ( शिक्षित ) रसोई बनाने में होशियार रसोइये, स्नान कराने वाले, हाथ  
 पाव मलने वाले, विस्तर आदि से शरीर को पकड़ थाम कर खड़ा करने  
 वाले, विद्यानेवाले, औषध डवाई पीसनेवाले सब कार्यों में अनुकूल, नौकर,  
 गाने बजाने में चतुर, स्तुतिपाठ करने वाले, श्लोक, गाथा, कहानी,  
 आत्म्यायिका, वातचीत, इतिहास, पुराण आदि सुनने वाले, अभिप्रायो,  
 इच्छाओं को उसके इशारों से पहिचाननेवाले, मालिक के मन के अनुकूल,  
 देश, काल को समझने वाले थार दोस्त, सोसायटी के आदमी वहां रहने  
 चाहियें। इसी प्रकार बटेर, कपिञ्जल ( कवड़ा ), खरगोश, हरिण,  
 काला हरिण, कालपुच्छ ( हरिण का मेढ ), मृगमातृका ( बड़े पेट वाला  
 हरिण, बारहसींगा ), और मेढा इन को भी एकत्र करना चाहिये। दूध  
 देने वाली, अच्छे शान्त स्वभाव की, रोगरहित, जिसका बछड़ा जीता  
 हों, ऐसी गाय रखें। इस गाय के लिये रहने, घास और पानी का  
 अच्छों बन्दोबस्त करे, छोटा पात्र, आचमन का पात्र, पानी रखने का बड़ा  
 पात्र, मणिक ( मटका ), घड़ा, थाली, कड़ाही, बड़ा घड़ा, मजबूत  
 छोटा करसा, गहरा बर्तन, सकोरा, डकन, कडछी, चटाई, ढांकने  
 का उपकरण, तेल पकाने की कड़ाही, रई ( मथानी ), मृगछाल,  
 पुष्प ( परन्तु साफ धुले ) बस्त्र, मूत, कपास, रुई, ऊन तथा लेटने या  
 बैठने के साधनों ( खाद, तकिया, आसन ) के पास में पानी बरतने  
 का गंगानगर, पीपल, और सुन्दर सफ़ेद चांडनी की भांति श्वेत चादर

और तकिया लगा पलंग, सुखपूर्वक बैठने के लिये गादी, तकिया या आरामकुर्सी, एवं स्नेहन, स्वेदन, अभ्यंग, प्रलेप, स्नान, अनुलेपन, वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, शिरोविरेचन, मूत्रत्याग ( पेशाब वर ) का स्थान, मलत्याग का स्थान ( संडास ) उत्तम एवं सुखकारक तथा साधनयुक्त वनावे । स्वच्छ धुली, चिकनी, खुरदरी, मध्यम रूप की पत्थर की शिला (सिल दवाई आदि पीसने के लिये ) एवं कैची, फांवड़ा गण्डासा, दरांती आदि शस्त्र ये सब पदार्थ एकत्र करे । धूमनेत्र-धूमनलिका, और उत्तर वस्ति की नलिका, कुशहस्त ( रन्धनी ), तराजू, द्रव मापने के लिये पात्र, घी, तैल, वसा, मज्जा, मधु, राव (आधा पका गुड़), नमक, ईंधन, पानी, मधु, सीधु, सुरा, कांजी, तुषोदक, मैरेय, भेदक, दहि, दही का पानी, छाछ, धान्य, कांजी, आठों प्रकार के मूत्र, शालि हेमन्त धान्य), साठी चावल, मूंग, उड़द, जौ, तिल, कुलथी, वेर, किशमिस, फालसा, हरड़, आंवला, बहेड़ा और नाना प्रकार के स्नेह एवं स्वेदन के साधन, वमन, विरेचन के पदार्थ, संग्रहणीय, दीपनीय, पाचनीय, शामक, दातनाशक गण की ओषधियां, तथा इनके अतिरिक्त और भी जो साधन या द्रव्य आपत्तियों को दूर करने वाले हों, उनको और जो उपयोग के लिये आवश्यक प्रतीत हों, उन सबको एकत्र करना चाहिये ।

ततस्तं पुरुषं यथोक्ताभ्यां स्नेहस्वेदाभ्यां यथार्हमुपपादयेत् । तं चेदस्मिन्नन्तरे मानसः शारीरो वा व्याधिः कश्चित्तीव्रतरः सहसाऽभ्यागच्छेत्तमेव तावदस्योपावर्तयितुं यतेत । ततस्तमुपावर्त्य तावन्तमेवैनं कालं तथाविधेनैव कर्मणोपाचरेत् ॥ ८ ॥

साधन द्रव्य एकत्र करने के उपरान्त पुरुष को पहिले कही हुई विधि से स्नेह एवं स्वेदन क्रिया करनी चाहिये । स्नेहन और स्वेदन क्रिया करते हुए बीच में यदि सहसा कोई भयानक तीव्र, शारीरिक या मानसिक व्याधि उत्पन्न हो जाय तो स्नेहन और स्वेदन बन्द करके प्रथम उत्पन्न व्याधि का प्रतीकार करना चाहिये । इस उपस्थित रोग के प्रतीकार में

जितने दिन लगे, उतने दिनों तक रोग को शान्त करने का प्रयत्न करना चाहिये ।

ततस्तं पुरुषं स्नेहस्वेदोपपन्नमनुपहतमनसमभिसमीक्ष्य सुखो-  
पितं प्रजीर्णभक्तं शिरःस्नातमनुलिप्तगात्रं स्रग्विणमनुपहतवस्त्र-  
संबीतं देवताग्निद्विजगुरुवृद्धवैद्यानर्चितवन्तं, इष्टे नक्षत्रतिथि-  
करणमुहूर्ते कारयित्वा ब्राह्मणान् स्वस्तिवाचनं प्रयुक्ताभिराशीर्भि-  
रभिमन्त्रितां मधुमधुकसैन्धवफाणितोपहितां मदनफलकपायमात्रां  
पाययेत् ॥ ९ ॥

रोग निवृत्त होने के पीछे रुग्ण मनुष्य को फिर से स्नेह एवं स्वेदन क्रिया द्वारा स्वस्थ कर, सुखपूर्वक विठाकर, पहिले दिन का खाया भोजन जीर्ण होने पर, सम्पूर्ण अंगों का स्नान कराके, शरीर पर चन्दन-अगरु आदि द्रव्य लगाकर, माला पहिना कर, उत्तम-स्वच्छ वस्त्र पहिने हुए, देवता, ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध और वैद्य की पूजा कराकर, पुण्य नक्षत्र, तिथि मुहूर्त में, ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवा कर, प्रशस्त मंगल क्रिया-आशीर्वाद मन्त्रों से अभिमन्त्रित शहद, मुलहठी, सैन्धव नमक, गुड़ से युक्त मदनफल के कपाय को उचित मात्रा में पिलावे ।

मदनफलकपायमात्राप्रमाणं तु खलु सर्वसंशोधनमात्राप्रमा-  
णानि च प्रतिपुरुषमपेक्षितव्यानि भवन्ति; यावद्धि यस्य संशोधनं  
पीतं वैकारिकदोषहरणायोपद्यते न चातियोगायोगाय, तावदस्य  
मात्राप्रमाणं वेदितव्यं भवति ॥ १० ॥

मदनफल के कपाय की मात्रा, तथा सम्पूर्ण संशोधनों की मात्रा प्रत्येक पुरुष को देखकर निश्चित की जाती है । जितनी मात्रा पान करने पर शरीर के विकार जन्य दोषों को बाहर निकाल सके और अतियोग आदि विकार उत्पन्न न करे, उतनी इस संशोधन औषध की मात्रा वैद्य को समझनी चाहिये ।

पीतवन्तं तु रस्वेनं मुहूर्तमनुकाक्षेत् । तस्य यद्वा जानीयात्स्वेद-

प्रादुर्भावेण दोषं प्रविलयनमापद्यमानं, लोमहर्षेण च स्थानेभ्यः प्रच-  
लितं, कुक्षिसमाध्मापनेन च कुक्षिमनुगतं, हृल्लासास्यस्रवणाभ्याम-  
पिचोर्ध्वमुखीभूतमथास्मै जानुसममसंब्राधं सुप्रयुक्तास्तरणोत्तरप्रच्छ-  
दोपधानं स्वापाश्रयमासनमुपवेष्टुं प्रयच्छेत् ॥ ११ ॥

प्रतिग्रहांश्चोपचारयेत्—ललाटप्रतिग्रहे पार्श्वोपग्रहणे नाभिप्र-  
पीडने पृष्ठोन्मर्दने चानपत्रपनीयाः सुहृदोऽनुमताः प्रयतेरन् ॥१२॥

उचित मात्रा मे वमन औषध पिलाकर कुछ काल तक एकाग्र चित्त  
से ध्यानावस्थित होकर प्रतीक्षा करे और जब पसीना उत्पन्न होकर  
दोप निकल जावे, शरीर में रोमांच हो तब दोप को अपने स्थान से  
चलायमान समझे । जब उदर में अफ़ारा प्रतीत हो, उस समय दोप को  
पेट में आया समझे । जब वमन की इच्छा, और मुख से थूक गिरने  
लगे उस समय दोप को एकत्र होकर ऊपर की ओर आता हुआ  
जानना चाहिये । इसके पीछे रोगी मनुष्य को घुटने उठाकर मिलाकर,  
बैठने को उत्तम गद्दे और चद्दर तथा तकिये से युक्त खाट देवे । वमन  
करते हुए रोगी को पकड़ कर सहारा देना चाहिये । इसके लिये कोई  
माथे को, कोई पसलियों को पकड़े, कोई पेट को दबाये, और कोई पीठ  
को मले । इस कार्य में जिनके सामने लज्जा अनुभव न हो ऐसे मनोनुकूल  
मित्र सहायता करें ।

अथैनमनुशिष्यात्—विवृतौष्ठतालुकण्ठो नातिमहता व्यायामेन  
वेगानुदीर्णानुदीरयन् किञ्चिद्वनम्य ग्रीवामूर्ध्वशरीरमुपवेगमप्रवृ-  
त्तान् प्रवर्तयन् सुपरिलिखितनखाभ्यामङ्गुलीभ्यामुत्पलकुमुदसौग-  
न्धिकनालैर्वा कण्ठमनभिस्पृशन् सुखं प्रवर्तयस्वेति ॥ १३ ॥

स तथाविधं कुर्यात् । ततोऽस्य वेगान् प्रतिग्रहगतानवेक्षेताव-  
हितः । वेगविशेषदर्शनाद्धि कुशलो योगायोगातियोगविशेषानु-  
पलभेत, वेगविशेषदर्शी पुनः कृत्यं यथार्हमवबुध्येत लक्षणैः,  
तस्माद्देगानवेक्षेतावहितः ॥ १४ ॥



इसके अनन्तर वैद्य रोगी को उपदेश दे कि तालु और गला खोल कर बहुत अधिक बल से नहीं, प्रव्युत साधारण शक्ति से बाहर आते हुए वेग को बाहर करे । इसके लिये गर्दन, तथा मुख को आगे की ओर झुका दे तथा अनुपस्थित वेग को बाहर निकालने के लिये खूब अच्छी प्रकार से नखों से रहित दो अंगुलियों, अथवा कमल, कुमुद या सुगन्धित कमल की डण्डी से धीरे २ गले के भीतर स्पर्श करे और वेग को बाहर कर देवे । रोगी वैद्य के कहे अनुसार करे । वैद्य रोगी के वमन किये पदार्थ को सावधानी से देखे । कुशल, चतुर वैद्य वेग को देख कर ही सम्यक् योग, अयोग और अतियोग का अनुमान कर सकता है । वेग को समझने में चतुर वैद्य वेग देखकर लक्षणों से अतियोग आदि के प्रतिकार को ठीक प्रकार से समझ लेता है । इसलिये वैद्य सावधानी से वेगों को देखे ।

तत्रामून्ययोगयोगातियोगविशेषज्ञानानि भवन्ति, तद्यथा—  
अप्रवृत्तिः कुतश्चित् केवलस्य वाऽप्यौषधस्य विभ्रंशो विवन्धो  
वेगानामयोगलक्षणानि भवन्ति । काले प्रवृत्तिरतिमहती व्यथा  
यथाक्रमं दोषहरणं स्वयं चावस्थानमिति योगलक्षणानि भवन्ति ।  
योगेन तु दोषप्रमाणविशेषेण तीक्ष्णमृदुमध्यविभागो ज्ञेयः, योगा-  
धिक्येन तु फेनिलरक्तचन्द्रिकोपगमनमित्यतियोगलक्षणानि भव-  
न्ति । तत्रातियोगायोगनिमित्तानिमानुपद्रवान् विद्यात्—आध्मानं  
परिकर्तिका परिस्त्रावो हृदयोपसरणमङ्गग्रहो जीवादानं विभ्रंशः  
स्तम्भः कृम उपद्रव इति ॥ १५ ॥

अयोग, सम्यक् योग और अतियोग के विशेष लक्षण ये हैं । जैसे किर्न्ना विशेष कारण से ( गले में अंगुली आदि डालने से भी वमन का थोड़ा भ्राना अथवा वमनकारक औषध ही का केवल बाहर आना, वेगों का रुक जाना ये अयोग के चिन्ह हैं । न तो बहुत जल्दी और न देर में ठीक समय पर वमन का भ्राना, वमन करने में कष्ट का अधिक न होना, क्रम से पहिले कफ, फिर पित्त और अन्त में वायु इन दोषों का

वाहर आना; और वमन का अपने आप रुक जाना सम्यक् योग के लक्षण है । सम्यक् योग में दोषों के प्रमाणों के अनुसार तीक्ष्ण, मृदु और मध्य भाग होते हैं । वमन के अतियोग से ज्ञागदार, रक्तमिश्रित, चमकदार चिटकनों का आना ये अतियोग के लक्षण हैं । अतियोग और अयोग से होने वाले उपद्रवों को जानना चाहिये । अफारा, गुदा में काटने के समान पीड़ा होना, मुख से वमन के रूप में और गुदा से विरेचन के रूप में स्राव होना, हृदय का बाहर आना, अर्थात् कलेजे का मुख को आना, आमाशय का बाहर आना सा प्रतीत होना, अंगों में वेदना और जकड़ना, रक्त का बाहर निकलना, शरीर का विभ्रम ( चक्र आना ), शरीर की जड़ता, शरीर में थकान, उदासी का होना, ये अयोग और अतियोग के उपद्रव हैं ।

योगेन तु खल्वेनं छर्दितवन्तमभिसमीक्ष्य सुप्रक्षालितपाणिपादास्यं मुहूर्तमाश्वास्य, स्नैहिकवैरेचनिकोपशमनीयानां धूमानामन्यतमं सामर्थ्यत. पाययित्वा, पुनरेवोदकमुपस्पर्शयेत् ॥ १६ ॥

उपस्पृष्टोदकं चैनं निवातमागारमनुप्रवेश्य संवेश्य चानुशिष्यात्—उच्चैर्भाष्यमत्यासनमतिस्थानमतिचक्रमणं क्रोधशोकहिमात्पावश्यायातिप्रवातान् यानयानं ग्राम्यधर्ममस्वपनं निशि दिवा स्वप्नं विरुद्धाजीर्णासात्म्याकालप्रमितातिहीनगुरुविषमभोजनवेगसंधारणोदीरणमिति भावानेतान् मनसाऽप्यसेवमान. सर्वमाहारमद्यादिति । स तथा कुर्यात् ॥ १७ ॥

सम्यक् योग से वमन कर चुकनेपर रोगी को देखकर उसके हाथपांव, मुख धुलवा कर थोड़ी देर विश्राम लेने दे । इसके पीछे स्नैहिक, वैरेचनिक या उपशमनीय कोई एक प्रकार का धूम यथाशक्ति पिलाकर फिर पानी से हाथ पांव धुला देवे । पानी से मुंह हाथ धुलाकर वमन किये पुरुष को वायुरहित—सीधी वायु जिसमें न आ सके, एक पार्श्व से आये, ऐसे घर में लेजा कर लेटा दे और निम्न आदेश करे । ऊंचा बोलना, बहुत देर बैठना, बहुत सोना, बहुत चलना फिरना, क्रोध, शोक, हिम, धूप, ओस, वायु में अधिक

घंटना, घोंडे आदि की सवारी अधिक करना, मैथुन, रात में न सोना, दिन में जागना, विरुद्ध भोजन ( दूध और मत्स्य ), अजीर्ण, असात्म्य-प्रवृत्ति के प्रतिफल, अकाल, कुसमय, परिमाण मात्रा से कम, गुरु भारी और विषम भोजन, उपस्थित वेगों को रोकना, अनुपस्थित वेगों को बल पूर्वक बाहर करना इस प्रकार के कर्मों का विचार मन में भी न करे और सब प्रकार का उचित आहार-भोजन करे। वह रोगी इसी प्रकार करे।

अथैनं मायाहे परं वाऽह्नि सुखोदकपरिपिक्तं पुराणानां लोहित-शालितगडुलानां स्वक्लिन्नानां मण्डपूर्वा सुखोष्णां यत्रागूं पाययेद-ग्निबलमभिसमीक्ष्य च, एवं द्वितीये तृतीये चात्रकाले। चतुर्थे त्वन्न-काले तथाविधानामेव शालितगडुलानामुत्स्विन्नां विलेपीमुष्णोदक-द्वितीयामस्नेहलवणामल्पस्नेहलवणा वा भोजयेत्, एवं पञ्चमे पट्टे चात्रकाले, सप्तमे त्वन्नकाले तथाविधानामेव शालीनां द्विप्रसृतं सुस्विन्नमोदनमुष्णोदकानुपानं तनुना तनुस्नेहलवणोपपत्रेण मुद्ग-चूपेण भोजयेत्, षष्ठमष्टमे नवमे चात्रकाले, दशमे त्वन्नकाले लाव-कपिञ्जलादीनामन्यतमस्य मांसरसेनौदकलावणिकेनापि सारवता भोजयेदुष्णोदकानुपानम्, एवमेकादशे द्वादशे चात्रकाले, अत ऊर्ध्व-मन्नगुणान् क्रमेणोपभुञ्जानः सप्तगत्रेण प्रकृतिभोजनमा-गच्छेत् ॥ १८ ॥

इसके पीछे रोगी को सायंकाल अथवा अगले दिन कुछ गरम पानी में नन्पूर्व अंगों का स्नान करे। एक साल युग्मे सांठी चावलों का यत्रागू बना कर जड़ गल जाये, तब थोड़ी गरम यवागू के ऊपर ही माण्ड को पल्ले पहिले पाले। फिर अग्नि का बल देग्गकर थोप गाढ़े भाग को खावे। इसी प्रकार दूधर तीसरे भोजन के समय भी अग्निबल को देखकर इसी प्रकार की ( लापसी ) यवागू ग्यावे। चौथे भोजन काल में इसी प्रकार युग्मे सांठी के चावलों को पत्राक ( विलेपी रूप में बना कर ) गरम पानी के साथ, थोड़े से जौह या नमक के साथ में मिलाकर खाना चाहिये।

( प्रथम दो तीन समयों में जल, नमक और स्नेह नहीं खाना चाहिये ) । इस प्रकार पांचवें और छठे अन्न काल में चौथे समय के अनुसार बरते । सातवें भोजन समय में, पुराने सांठी के चावलों को दो प्रसृति ( तीन तोले ) लेकर पकाये । इन चावलों को गरम पानी के साथ, थोड़े से घी एवं नमक के साथ मूंग के यूप के साथ खावे । इसी प्रकार आठवे और नवें भोजन के समय में भीकरे । दसवें अन्न काल में बटेर, कपिञ्जल आदि किसी पशु पक्षी के मांस रस के साथ घनी, जाड़ी चावलों की यवागू खाये, तथा गरम पानी ऊपर से पीये । इसी प्रकार ग्यारहवे और चारहवें अन्न काल में क्रम से, मृदु, मध्य, कठिन ( अथवा गुरु, कठिन मधुर ) पदार्थों को सेवन करने पर सात दिन पीछे अपने स्वाभाविक भोजन को ग्रहण करे ।

अथैनं पुनरेव स्नेहस्वेदाभ्यामुपपाद्यानुपहतमनसमभिसमीक्ष्य सुखोषितं सुप्रजीर्णभक्तं कृतहोमवलिमङ्गलजप्यप्रायश्चित्तमिष्टतिथिनक्षत्रकरणमुहूर्तं ब्राह्मणान् स्वस्ति वाचयित्वा त्रिवृत्कल्काक्षमात्रं यथार्हालोडनप्रतिविनीतं पाययेत् प्रसमीक्ष्य दोषभेषजदेशकालबलशरीराहारसात्म्यसत्त्वप्रकृतिवयसामवस्थान्तराणि विकारांश्च । सम्यग्विरिक्तं चैनं वमनानन्तरलक्षणोक्तेन धूमवर्जेन विधिनोपपादयेदाबलवर्णप्रकृतिलाभात् । बलवर्णोपपन्नं चैनमनुपहतमनसमभिसमीक्ष्य सुखोषितं सुप्रजीर्णभक्तं शिरःस्नातमनुलिप्तगात्रं स्रग्विणमनुपहतवस्त्रसंवीतमनुरूपालङ्कारालंकृतं सुहृदां दर्शयित्वा ज्ञातीनां दर्शयेत्, अथैनं कामेष्ववसृजेत् ॥ १९ ॥

भवन्ति चात्र । अनेन विधिना राजा राजमात्रोऽथवा पुनः ।

यस्य वा विपुलं द्रव्यं स संशोधनमर्हति ॥ २० ॥

दरिद्रस्त्वापदं प्राप्य प्राप्तकालं विरेचनम् ।

पिवेत्कामसंभृत्य संभारानपि दुर्लभान् ॥ २१ ॥

न हि सर्वमनुष्याणां सन्ति सर्वपरिच्छदाः ।

न च रोगा न बाधन्ते दरिद्रानपि दारुणाः ॥ २२ ॥

यद्यच्छक्यं मनुष्येण कर्तुमौषधमापदि ।

तत्तत्सेव्यं यथाशक्ति वसनान्यशनानि च ॥ २३ ॥

मलापहं रोगहरं बलवर्णप्रसादनम् ।

पीत्वा संशोधन सम्यगायुषा युज्यते चिरम् ॥ २४ ॥

इसके सात दिन पीछे जब मनुष्य में बल आजाये, तब फिर स्नेहन और स्वेदन कर्म करके, प्रसन्न मन देखकर, रात्रि में सुखपूर्वक सोने पर, पहिले दिन का खाया भोजन भली प्रकार जीर्ण होने पर, अग्निहोत्र, बलि, मंगल, जप, प्रायश्चित्त करके, पवित्र तिथि, नक्षत्र सूहृत् का विचार करके, ब्राह्मणों का मंगल पाठ करवा कर त्रिवृत् कल्क ( विरेचन द्रव्य ) निशोध के चूर्ण की एक अल ( ८० रत्ती, १ तोला ) मात्रा, योष्य द्रव्य में मिलाकर पिलावे । औषध देते समय दोष, औषध मात्रा, देश, समय, शरीर, आहार, सात्म्य, सत्व, प्रवृत्ति, आयु और रोगों की विवेचना कर ले । सम्यक् विरेचन होने पर वमन के पीछे की सम्पूर्ण विधि ( धूम्र-पान को छोड़कर ) करे । जब तक कि शरीर में बलकान्ति न आये, शरीर न्याभाविक रूप में न आये, तब तक वमनान्तर की विधि करे । जब जल और वर्ण आजाय, मन भी स्वस्थ हो जाये, तब सुखपूर्वक सुलाकर, खाया हुआ भोजन भली प्रकार पचने पर, सम्पूर्ण अंगों का स्नान कराके, चन्दन, अगर आदि शरीर में मलकर, माला, न्वच्छ वस्त्र पहिना कर, सुन्दर बना कर, आभूषणों में आभूषित करके, मित्रों को डित्राकर, जाति, भाई, बन्धुओं को दिग्वाये । और फिर नित्य के उचित आहार विहार करने की कृष्ट देदे । उस उपरोक्त विधि में राजा अथवा राजा के समान या बहुत धनी आदमी ही संशोधन करवा सकता है । दरिद्र निर्धन व्यक्ति को जब रोग हो जाये और विरेचन लेने का अवसर हो, तो उस समय कठिन उपरम्भों से बचना छोड़कर दवाई पान करावे । सब मनुष्यों को मनुष्य ही नहीं कुछ नरुने और निर्धन व्यक्तियों को भयकर रोग

भी नहीं सताते । आपत्ति काल ( रोगावस्था ) में मनुष्य जो भी औषध, वस्त्र या खान पान कर सके, वह यथाशक्ति उसे करना चाहिये । मलनाशक, रोगनाशक, बल, कान्ति को बढ़ाने वाले संशोधन औषध को पीकर मनुष्य दीर्घायु होता है ।

तत्र श्लोकाः ॥ ईश्वराणां वसुमतां वमनं सविरेचनम् ।

संभारा ये यदर्थं च समानीय प्रयोजयेत् ॥ २५ ॥

यथा प्रयोज्यं या मात्रा यदयोगस्य लक्षणम् ।

योगातियोगयोर्यच्च दोषा ये चाप्युपद्रवाः ॥ २६ ॥

यदसेव्यं विशुद्धेन यश्च संसर्जनक्रमः ।

तत्सर्वं कल्पनाध्याये व्याजहार पुनर्वसुः ॥ २७ ॥

राजाओं के या धनी पुरुषों के वमन, विरेचन कार्य, उपकरण, इनको एकत्र करने का कारण, मात्रा, प्रयोग विधि, अयोग के लक्षण, योग और अतियोग के दोष, और उपद्रव, संशुद्ध व्यक्ति को क्या सेवन करना, किस प्रकार से छोड़ना, ये सब बातें इस 'कल्पनाध्याय' में पुनर्वसु आत्रेय ने कह दीं ।

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने उपकल्पनीयो

नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १० ॥

## षोडशोऽध्यायः ।

अथातश्चिकित्साप्राभृतीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

संशोधन कार्य के अनन्तर 'चिकित्सा प्राभृतीय' नाम अध्याय की व्याख्या करेंगे ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

चिकित्साप्राभृतो विद्वान् शास्त्रवान् कर्मतत्परः ।

नरं विरेचयति यं स योगात्सुखमश्नुते ॥ ३ ॥

यं वैद्यमानी त्वनुधो विरेचयति मानवम् ।

सोऽतियोगादयोगाच्च मानवो दुःखमश्नुते ॥ ४ ॥

विद्वान्, ज्ञानवान्, शास्त्रवान्, आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन किया हुआ, चिकित्सा कार्य में कुशल वैद्य जिस मनुष्य को वमन, विरेचन द्वारा संगोधन कराता है, वह मनुष्य वमन और विरेचन के सम्यक् योग से सुख भोगता है। अपने को वैद्य मानने वाला, मूर्ख वैद्य जिस मनुष्य का वमन विरेचन द्वारा सशोधन कराता है वह मनुष्य वमन-विरेचन के अयोग या अतियोग के कारण दुःख भोगता है।

दौर्बल्यं लाघवं ग्लानिर्व्याधीनामणुता ऽरुचिः ।

हृद्वर्णशुद्धिः क्षुत्तृप्या काले वेगप्रवर्तनम् ॥ ५ ॥

बुद्धीन्द्रियमन.शुद्धिर्मारुतस्यानुलोमता ।

सम्यग्विरिक्तलिङ्गानि कायाग्नेश्चानुवर्तनम् ॥ ६ ॥

सम्यग् विरेचन के लक्षण—शरीर में कमजोरी आना, हलकापन, शरीर में ग्लानि, प्रसन्नता का अभाव, रोगों का घटना, भोजन में अनिच्छा, हृदय का शुद्ध होना, रंग का निखरना, भूख-प्यास, समय पर वेगों का उपस्थित होना, बुद्धि-इन्द्रिय और मन की शुद्धता, प्रसन्नता, अपान वायु का नीचे को जाना और जाठराग्नि का क्रमशः बढ़ना ये सम्यग् योग के लक्षण हैं।

ष्टीवनं हृदयाशुद्धिरुत्कृशः श्लेष्मपित्तयोः ।

आध्मानमरुचिर्ज्वरिर्दौर्बल्यमलाघवम् ॥ ७ ॥

जङ्घोत्सङ्घं तन्द्रा सौमित्यं पीनसागमः ।

तद्ग्लान्यविरिक्तानां मारुतस्य च निग्रहः ॥ ८ ॥

विरेचन के अयोग के लक्षण—मुख से थोड़ा २ थूक या औषध का वाहर आना, बुद्धि की जटता, वमन आने की भांति कफ और पित्त का मुग्य में आना, पेट में अफारा, भोजन में अनिच्छा, वमन की इच्छा, शरीर में निर्यन्ता का अनुभव न होना, शरीर में भारीपन, जांघ और टांग में

पीड़ा, नींद का भान, शरीर के अंगों का गीले-वस्त्र के तुल्य ठंडा प्रतीत होना, सरदी-जुकाम होना, और अपान वायु का रुक जाना, ये विरेचन के अयोग के लक्षण हैं ।

विट्पित्तश्लेष्मवातानामागतानां यथाक्रमम् ।

परं स्रवति यद्रक्तं मेदोमांसोदकोपमम् ॥ ९ ॥

निःश्लेष्मपित्तमुदकं शोणितं कृष्णमेव वा ।

तृष्यतो मारुतार्त्तस्य सोऽतियोगः प्रमुह्यतः ॥ १० ॥

विरेचन अतियोग के लक्षण—गुदा से प्रथम क्रमानुसार मल, पित्त, कफ और वायु बाहर निकलते हैं, परन्तु पीछे से रक्त बहता है । यह रक्त मांसरस, मेद मिश्रित या कफमिश्रित अथवा पित्तमिश्रित पानी की भांति, या लाल अथवा काला होता है । रोगी को वायु के कारण प्यास और मूर्च्छा आ जाती है, ये अतियोग के लक्षण हैं ।

वमनेऽतिकृते लिङ्गान्येतान्येव भवन्ति हि ।

उर्ध्वगा वातरोगाश्च वाग्रहश्चाधिको भवेत् ॥ ११ ॥

चिकित्साप्राभृतं तस्माद्दुपेयाच्छरणं नरः ।

युञ्ज्याद्य एनमत्यन्तमायुषा च सुखेन च ॥ १२ ॥

वमन के अतियोग में भी यही विरेचन के अतियोग के लक्षण होते हैं । परन्तु शरीर के कटिभाग से ऊपर वातरोग एवं जबान का रुकना, ये लक्षण विशेष-अधिक होते हैं । इसलिये संशोधन कराने वाले मनुष्य को चाहिये कि विद्वान्, कर्मकुशल वैद्य की शरण में जाये जो इस रोगी को वमन-विरेचन द्वारा आयु और सुख से युक्त कर सके, मूढ़ अज्ञानी के पास नहीं ।

अविपाकोऽरुचिः स्थौल्यं पाण्डुता गौरवं कृमः ।

पिडकाकोठकण्डूनां संभवोऽरतिरेव च ॥ १३ ॥

आलस्यश्रमदौर्बल्यं दौर्गन्ध्यमवसादकः ।

श्लेष्मपित्तसमुत्केशो निद्रानाशोऽतिनिद्रता ॥ १४ ॥



तन्द्रा क्लेश्यमबुद्धित्वमशस्तस्वप्नदर्शनम् ।

बलवर्णप्रणाशश्च तृप्यतो वृंहणैरपि ॥ १५ ॥

बहुदोषस्य लिङ्गानि, तस्मै संशोधनं हितम् ।

ऊर्ध्वं चैवानुलोम्यं च यथादोषं यथाबलम् ॥ १६ ॥

संशोधन योग्य व्यक्ति—अपचन, अरुचि, मोटापा (स्थूलता), पाण्डुता, निस्तेज, पीलापन, शरीर का भारीपन, विना परिश्रम के थकान चढ़ना, उदासी, शरीर पर छोटी २ फुन्सियां होना, कोठ (छपाकी) छप्पे उठना, खाज का होना, बेचैनी, आलस्य, थकान, निर्बलता, शरीर से दुर्गन्ध आना, मन की अवसन्नता, सुस्ती, कफ या पित्त का बढ़ना, नींद का न आना, अथवा नींद का बहुत आना, नपुंसकता, निरुत्साहता, बुद्धिमान्त्र, बुरे भयानक स्वप्नों का आना, बल और कान्ति का नाश होना, पुष्टिकारक आहार खाने पर शरीर का पुष्ट न होना, जिसके शरीर में इनमें से बहुत से लक्षण हो तो उसमें सब दोष बढ़े हैं यह समझकर संशोधन करना हितकारी है। इसलिये अविपाक आदि लक्षणों को देख कर बल और दोष के अनुसार ऊर्ध्वं अनुलोमन (वमन) या अधो-अनुलोमन (विरचन) रूपी संशोधन देना हितकारी है।

एव विशुद्धकोष्ठस्य कायाग्निरभिवर्धते ।

व्याययश्चापशाम्यन्ति प्रकृतिश्चानुवर्तते ॥ १७ ॥

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिर्वर्णश्चास्य प्रसीदति ।

बलं पुष्टिरपत्यं च वृषता चास्य जायते ॥ १८ ॥

जरां कृच्छ्रेण लभते चिरं जीवत्यनामयः ।

तस्मात्संशोधनं काले युक्तियुक्तं पिवेन्नरः ॥ १९ ॥

दोषा कदाचित्कृष्यन्ति जिता लङ्घनपाचनैः ।

जिता संशोधनैर्ये तु न तेषां पुनरुद्भवः ॥ २० ॥

दोषाणां च द्रुमाणां च मूलोऽनुपहते सति ।

रोगाणां प्रसवाणां च गतानामागतिर्ध्रुवा ॥ २१ ॥

भेषजक्षपिते पथ्यमाहारैरेव बृंहणम् ।

घृतमांसरसक्षीरहृद्ययूषोपसंहितैः ॥ २२ ॥

अभ्यङ्गोत्सादनैः स्नानैर्निरूहैः सानुवासनैः ।

तथा स लभते शर्म युज्यते चायुषा चिरम् ॥ २३ ॥

संशोधन का फल—इस उपरोक्त विधि से मनुष्य का कोष्ठ ( उदर ) साफ होने पर जाठराग्नि बढ जाती है, रोग शान्त हो जाते हैं, शरीर स्वाभाविक अवस्था मे आ जाता है । इन्द्रियां, मन-बुद्धि और कान्ति निर्मल हो जाती है । शरीर में बल, शक्ति, सामर्थ्य, संतान और पुरुषत्व उत्पन्न हो जाता है । बुढ़ाया देर मे आता है और निरोगी होकर मनुष्य देर तक जीता है । इसलिये मनुष्य दोष-संचयकाल में और संशोधन काल में वमन-विरेचन कार्य को युक्तियुक्त रूप में करे । लंघन ( उपवास ) और पाचन रूपी संशमन क्रिया द्वारा वश में किये हुए दोष कभी फिर भी ( समय मिलने पर ) कुपित हो सकते हैं । परन्तु जो दोष संशोधन कार्य के द्वारा वश में कर लिये जाते हैं, वे फिर कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकते । क्योंकि—दोषों या वृक्षों का मूल अवशेष रहने पर अथवा न नष्ट होने पर रोगों की उत्पत्ति फिर हो जानी सम्भव होती है । औषध द्वारा दोष की जड़ कट जाने पर संशुद्ध हुए पुरुष को पथ्यकारक एवं शरीर को बढाने वाले भोजन देवे । यथा घी, मांसरस, दूध, हृदय के लिये हितकारी या मन को अच्छे लगने वाले यूप आदि बनाकर देवे । शरीर पर तेल मलना, उबटन लगाना, स्नान, निरूह वस्ति, अनुवासनवस्ति का प्रयोग करे । इस प्रकार करने से सुख मिलता है तथा देर तक आयु को भोगता है ।

अतियोग होने पर क्या करना चाहिये—

अतियोगानुबद्धानां सर्पिःपानं प्रशस्यते ।

तैलं मधुरकैः सिद्धमथवाऽप्यनुवासनम् ॥ २४ ॥

यस्य त्वयोगस्तं स्निग्धं पुनः संशोधयेन्नरम् ।

मात्राकालवलापेक्षी स्मरन् पूर्वमनुक्रमम् ॥ २५ ॥

स्नेहने स्वेदने शुद्धौ रोगाः संसर्जने च ये ।

जायन्तेऽमार्गविहिते तेषां सिद्धिषु साधनम् ॥ २६ ॥

जिन पुरुषों में अतियोग के लक्षण हो, उनके लिये उन-उन रोगों को शान्त करने वाली उन ओषधियों से सिद्ध क्रिया घृत पान करावे और मधुक अर्थात् जीवनीश्रगण से सिद्ध तैल अनुवासन वस्ति के रूप में दे । जिस पुरुष में अयोग के लक्षण हो, उसको फिर से स्नेह द्वारा स्निग्ध एवं स्वेद द्वारा पसीना लाकर, पूर्व दी हुई मात्रा को, समय, बल आदि को क्रम से स्मरण करता हुआ, फिर से संशोधन करे । स्नेहन, स्वेदन संशोधन और पेयादि क्रम से विधिपूर्वक क्रिया न होने से जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उनकी चिकित्सा 'सिद्धिस्थान' में कहेंगे ।

जायन्ते हेतुवैपम्याद्विपमा देहधातवः ।

हेतुमाम्यात्समास्तेषां स्वभावोपरमः सदा ॥ २७ ॥

प्रवृत्तिहेतुर्भावानां न निरोधेऽस्ति कारणम् ।

केचित्त्रत्रापि मन्यन्ते हेतुं हेतोरवर्तनम् ॥ २८ ॥

शरीर को धारण करने वाले जो धातु हैं वे कारणों की विपमता अर्थात् घटने या घटने में बढ़ते या घटते हैं और शरीर के धातु कारण की समानता से समान रहा करते हैं । इस समता और विपमता की निरन्तर प्रवृत्ति में ऐसा कारण रहता है जिससे कि उनका वृद्धि और क्षय होता है, अर्थात् साम्य या विपमता के होने में कोई कारण अवश्य होता है, बिना कारण इनके स्वाभाविक धर्म में अन्तर नहीं आता । धातु एक क्षण भी विपमावस्था में नहीं रह सकते । यह उनका धर्म है । सब पदार्थों की उत्पत्ति का कारण होता है, परन्तु विनाश कार्य में कारण नहीं होता । इसलिये कुछ आचार्य पदार्थों के निरन्तर विनाश में कारण की अपेक्षा नहीं करते हैं । कुछ विद्वान् पदार्थों के नाश में उत्पादक या प्रवर्तक कारण के अभाव को ही कारण मानते हैं ।

एवमुक्तार्थमाचार्यमग्निवेशोऽभ्यभाषत ।

स्वभावोपरमे कर्म चिकित्साप्राभृतस्य किम् ॥ २९ ॥

भेषजैर्विषमान् धातून् कान् समीकुरुते भिषक् ।

का वा चिकित्सा भगवन् किमर्थं वा प्रयुज्यते ॥ ३० ॥

तच्छिष्यवचनं श्रुत्वा व्याजहार पुनर्वसुः ।

इस प्रकार कहते हुए आचार्य पुनर्वसु को लक्ष्य करके अग्निवेश बोले—भगवन् ! धातुओं का सदैव अपने आप नाश होने से वैद्य का फिर क्या काम ? और तब किन विषम हुए धातुओं को ओपधियों से वैद्य समान करता है ? और यदि धातुओं की विषमता ही सदा रहे, तब चिकित्सा क्या वस्तु है ? और यदि विषमता का नाश सदा होना ही अवश्यम्भावी है, फिर वैद्य किसलिये चिकित्सा कर्म करते हैं ? इस प्रकार अग्निवेश के वचन को सुनकर पुनर्वसु आत्रेय बोले—

श्रयतामत्र या सौम्य युक्तिर्दृष्टा महर्षिभिः ॥ ३१ ॥

न नाशकारणाभावाद्भावानां नाशकारणम् ।

ज्ञायते नित्यगस्येव कालस्यात्ययकारणम् ॥ ३२ ॥

शीघ्रगत्वाद्यथाभूतस्तथा भावो विपद्यते ।

निरोधे कारणं तस्य नास्ति नैवान्यथाक्रिया ॥ ३३ ॥

याभिः क्रियाभिर्जायन्ते शरीरे धातवः समाः ।

सा चिकित्सा विकाराणां कर्म तद्विषजां स्मृतम् ॥ ३४ ॥

कथं शरीरे धातूनां वैषम्यं न भवेदिति ।

समानां चानुबन्ध स्यादित्यर्थं क्रियते क्रिया ॥ ३५ ॥

त्यागाद्विषमहेतूनां समानां चोपसेवनात् ।

विषमा नानुबध्नन्ति जायन्ते धातवः समाः ॥ ३६ ॥

समैस्तु हेतुभियंस्माद्धातून् संजनयेत्समान् ।

चिकित्साप्राभृतस्तस्माद्वाता देहसुखायुषाम् ॥ ३७ ॥

धर्मस्यार्थस्य कामस्य नृलोकस्योभयस्य च ।

दाता संपद्यते वैद्यो दानाद्देहसुखायुषाम् इति ॥ ३८ ॥

हे सौम्य जो युक्ति महर्षियों ने बुद्धि द्वारा देखी, वह सुनो । पदार्थों के नाश होने के कारण का पता नहीं चलता । क्योंकि नाश के कारण का ही अभाव है । जैसे-नित्य काल का भी नाश होता दिखाई देता है, परन्तु इस नाश के कारण का पता नहीं चलता क्योंकि यह काल बहुत शीघ्र-गामी है । धातु पदार्थ भी काल के समान बहुत शीघ्रगामी है इसलिये इनके नाश का कारण न होने से ही अज्ञात है । धातुओं की पूर्वावस्था के निरोध में भी कोई कारण नहीं है । जिन क्रियाओं के द्वारा शरीर के अन्दर विषम हुए धातु समानावस्था में आते हैं, उन क्रियाओं को रोगों की चिकित्सा कहते हैं, यह 'चिकित्सा' वैद्यों का कर्म है । शरीर के अन्दर धातुओं में विषमता उत्पन्न न हो और समान अवस्था में ही धातु सदा बने रहें, इसलिये चिकित्सा क्रिया की जाती है । काल, बुद्धि, इन्द्रियार्थों के अतियोग, अयोग या मिथ्यायोग इन विषम हेतुओं के छोड़ने से, समयोप-रूप में कारणों के मेवन करने से धातु विषम नहीं होते, और विषम हुए धातु समान हो जाते हैं । चिकित्सा-कुशल वैद्य समान कारणों से धातुओं को समान बनाने का यत्न करें । इस प्रकार करने से वैद्य शरीर के सुख और आयुष्य अर्थात् दीर्घायु को प्रदान करता है । मनुष्य को शारीरिक सुख और आयुष्य प्रदान करने से वैद्य ब्रह्मलोक एवं परलोक दोनों लोकों में धर्म, अर्थ और काम ( त्रिगर्ग ) को देने वाला होता है ।

तत्र श्लोकाः । चिकित्साप्राभृतगुणो दोषो यश्चेतराश्रयः ।

योगायोगातियोगाना लक्षणं शुद्धिसंश्रयम् ॥ ३९ ॥

बहुदोषस्य लिङ्गानि संशोवनगुणाश्च ये ।

चिकित्साप्राभृतमात्र च सिद्धिव्यापत्तिसंश्रयम् ॥ ४० ॥

या च युक्तिश्चिकित्सायां यं चार्थं कुरुते भिषक् ।

चिकित्साप्राभृतेऽध्याये तत्त्वमवदन्मुनिः ॥ ४१ ॥

चिकित्सा प्राभृत से वैद्य के गुण, वैद्य के विपरीत मूढ वैद्य के अवगुण,

संशोधन के सम्यक्योग, अयोग और अतियोग के लक्षण, बहुत दोषों के लक्षण, संशोधन के गुण, चिकित्सा का सूत्र रूप, चिकित्सा के युक्तियुक्त होने में शंका-समाधान; चिकित्सा का प्रयोजन—ये सब बातें 'चिकित्सा-प्राभृतीय' अध्याय में आत्रेय ऋषि ने उपदेश की है ।

श्याग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने कल्पनाचतुष्के

चिकित्साप्राभृतीयो नाम षोडशोऽध्याय समाप्तः ॥ १६ ॥

इति कल्पनाचतुष्कःसमाप्तः ॥ ४ ॥

## सप्तदशोऽध्यायः ।

अथातः क्रियन्तःशिरसीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब रोगों को उपदेश करने की इच्छा से 'क्रियन्तः शिरसीयं' नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे, ऐसा भगवान आत्रेय ने उपदेश किया है ।

क्रियन्त शिरसि प्रोक्ता रोगा हृदि च देहिनाम् ॥ ३ ॥

कति चाप्यनिलादीनां रोगा मानविकल्पजाः ।

क्षया कति समाख्याताः पिडकाः कति चानघ ॥ ४ ॥

गतिः कतिविधा चोक्ता दोषाणां दोषसूदन ।

अग्निवेश ने पूछा कि हे दोषों को नाश करने वाले महर्षि ! मनुष्यों के शिर सम्बन्धी रोग कितने हैं ? हृदय सम्बन्धी रोग कितने हैं ? वात आदि दोषों के संसर्ग भेद से कुल कितने प्रकार के रोग हो जाते हैं ? क्षय रोग कितने प्रकार के हैं ? पिडकायें कितनी प्रकार की हैं ? और दोषों की गति कितने प्रकार की है ? कृपा कर कहिये ।

हुताशवेशस्य वचस्तच्छ्रुत्वा गुरुरब्रवीत् ॥ ५ ॥

पृष्ठवानसि यत्सौम्य तन्मे शृणु सुविस्तरम् ।

दृष्टाः पञ्च शिरोरोगाः पञ्चैव हृदयामयाः ॥ ६ ॥

व्याधीनां द्वयधिका पष्टिर्दोषमानविकल्पजा ।  
 दशाष्टौ च क्षया सप्त पिडका माधुमेहिकाः ॥ ७ ॥  
 दोषाणां त्रिविधा चोक्ता गतिर्विस्तरत शृणु ।  
 संधारणादिवास्त्रप्रादात्रौ जागरणान्मदात् ॥ ८ ॥  
 उच्चैर्भाष्यादवश्यायात्प्राग्वातादतिमैथुनात् ।  
 गन्धादसात्म्यादात्राताद्रजोधूमहिमातपात् ॥ ९ ॥  
 गुर्वम्लहरितादानादतिशीताम्बुसेवनात् ।  
 शिरोभितापाद्दुष्टामाद्रोदनाद् वाष्पनिग्रहात् ॥ १० ॥  
 मेघागमान्मनस्तापाद्देशकालविपर्ययात् ।  
 वातादयः प्रकुप्यन्ति शिरस्यस्रं च दुष्यति ॥ ११ ॥  
 ततः शिरसि जायन्ते रोगा विविधलक्षणाः ।

अभिवेश के वचन को सुनकर गुरु महाराज बोले—हे सौम्य ! जो  
 कुछ तुमने पूछा है उसको ध्यान देकर सविस्तर सुनो । शिर के रोग पांच  
 प्रकार के हैं, और पांच ही प्रकार के हृदय के रोग हैं । दोषों के वात-पित्त  
 कफ के परिमाण से होने वाले रोग वासठ (६२) प्रकार के हैं। क्षय अट्टारह (१८)  
 प्रकार के, प्रमेह ( मधुमेह ) के कारण होने वाले फोड़े सात प्रकार के,  
 और दोषों की गति तीन प्रकार की है । इसी को अब विस्तार से सुनो ।  
 मूत्र आदि के उपस्थित वेगों को रोकने से, दिन में सोने से, रात्रि में  
 जागने से, नशा करने ( मद्यकाक पदार्थों के सेवन ) से, ऊँचे या  
 अधिक् बोलने से, ओस से, सामने के वायु के झोंके से, अति स्त्री-संभोग  
 से, अनाम्य अर्थात् प्रतिफल, गन्ध के सूँघने से, धूल, धुंवा, वर्षा या धूप के  
 सेवन से, गरिष्ठ, गूटे, धनिया-मरिच आदि के अधिक खाने से, बहुत  
 ठण्डे पानी के सेवन से, शिर पर चोट लगने से, आम के दोष युक्त होने से  
 ( अर्जाण होने से ), रोने से, आसुओं को रोबने से, वादलों के आने  
 से, मानसिक विक्षोभ से, देश-काल के बदलने से ( इन के अयोग,  
 अनियोग या मिथ्यायोग होने से ), ( अथवा भूकम्प, उल्कापात आदि

देश के मिथ्यायोग हैं इनसे वात, पित्त और कफ दूषित होकर शिर में रक्त को दूषित करते हैं। रक्त के दूषित होने से आगे कहे जाने वाले नाना प्रकार के लक्षणों वाले रोग शिर में उत्पन्न होते हैं।

प्राणा. प्राणभृतां यत्र श्रिताः सर्वेन्द्रियाणि च ॥ १२ ॥

यदुत्तमाङ्गमङ्गानां शिरस्तदभिधीयते ।

प्राणधारियों के प्राण ( जीवन ) और सब इन्द्रियां ( ज्ञानेन्द्रियां ) जहां पर स्थित है और जो शरीर के सब अंगों में मुख्य, श्रेष्ठ अंग है, उसको 'शिर' कहते हैं।

अर्धावभेदको वा स्यात्सर्वै वा रुज्यते शिरः ॥ १३ ॥

प्रतिश्यामुखनासात्तिकर्णरोगशिरोभ्रमा ।

अर्दितं शिरस कम्पो गलमन्याहनुग्रहः ॥ १४ ॥

विविधाश्चापरे रोगा वातादिक्रिमिसंभवाः ।

पृथग्दृष्टास्तु ये पञ्च संग्रहे परमर्षिभिः ॥ १५ ॥

शिरोरोगदांस्तान् शृणु मे यथास्वैर्हेतुलक्षणैः ।

शिर में उत्पन्न होने वाले रोग—आधे शिर का दुःखना, सारे शिर का दुःखना, प्रतिश्याय ( जुकाम, सर्दी ), मुखरोग, नासिका के रोग, आंख के रोग, कान के रोग, शिर में चक्कर आना, चेहरे का लकवा, शिर का हिलना, गलग्रह ( गले का बन्द होना ), मन्याग्रह ( गर्दन का इधर उधर न मुड़ सकना ), हनुग्रह ( जवादी भिंचना ) और दूसरे वात आदि दोषों तथा कृमियों से उत्पन्न होने वाले रोग शिर में होते हैं। वात, पित्त, कफ, सन्निपात और कृमिजन्य ये जो पांच प्रकार के शिरोरोग (आगे जो अष्टोदरीय अध्याय १६ में) महर्षियों ने कहे हैं उनमें से एक एक के लक्षण सुनो।

उच्चैर्भाष्यातिभाष्याभ्यां तीक्ष्णपानात्प्रजागरात् ॥ १६ ॥

शीतमारुतसंस्पर्शाद् व्यवायाद् गन्निग्रहात् ।

अभिघातोपवासाच्च विरेकाद् वमनादपि ॥ १७ ॥



वापशोकभयत्रासाद् भारमार्गातिकर्षणात् ।  
 शिरोगता वै धमनीर्वायुराविश्य कुप्यति ॥ १८ ॥  
 ततः शूलं महत्तस्य वातात्समुपजायते ।  
 निस्तुद्येत् भृशं शङ्खौ घाटा सभिद्यते तथा ॥ १९ ॥  
 भ्रवोर्मध्यं ललाटं च तपतीवातिवेदनम् ।  
 त्रध्येत् स्वनतः श्रोत्रे निष्कृष्येते इवाक्षिणी ॥ २० ॥  
 घूर्णतीव शिरः सर्वं सधिभ्य इव मुच्यते ।  
 स्फुरत्यतिशिराजालं स्तभ्यते च शिरोधरा ॥ २१ ॥  
 स्निग्धोष्णमुपशेत् च शिरोरोगेऽनिलात्मके ।

ऊंचे बोलने से, बहुत अधिक बोलने से, मद्य आदि तीक्ष्ण पदार्थों के पीने से, रात्रि में जागने से, ठण्डी वायु के स्पर्श से, अतिमैथुन से, मल मूत्रादि के उपस्थित वेगों को रोकने से, उपवास से, शिर पर चोट लगने से, अतिविरेचन से, अतिवमन से, वाष्प ( आंसु ) को रोकने से, शोक से, भय से, भार के उठाने से, अतिमार्ग के चलने से, परिश्रम से वायु कुपित होकर शिर में गया हुआ, सिराओं में बढ़कर शिर में महान् शूल उत्पन्न करता है । इस शूल के कारण शंख ( कनपट्टियाँ ) पीडित होते हैं, गर्दन फटती है, भ्रुवों के बीच में, माथे पर बहुत वेदना होनी है और माथा बहुत गरम होता है । कानों में गुंजार ( आवाज ) सुनाई देती है, आंखें बाहर निकलती प्रतीत होती है, शिर घूमता हुआ प्रतीत होता है, शिर की सन्धियाँ फटती प्रतीत होती हैं, शिराओं के अन्दर धट्टकन विशेष ( स्पन्दन ) रूप से प्रतीत होती है, गर्दन जड़ बन जाती है, ऊपर, ऊपर नहीं हिलाई जा सकती और स्निग्ध और उष्ण क्रिया आराम देना प्रतीत होती है । ये वातजन्य शिरोरोग के लक्षण हैं ।

कट्वम्ललवणचारमद्यक्रोधातपानलैः ॥ २२ ॥

पित्तं शिरसि संदुष्टं शिरोरोगाय कल्पते ।

दह्यते रुज्यते तेन शिरः शीतं सुपूयते ॥ २३ ॥

दह्येते चक्षुषी तृष्णा भ्रमः स्वेदश्च जायते ।  
 आस्यासुखैः स्वप्रसुखैर्गुरुस्निग्धातिभोजनैः ॥ २४ ॥  
 श्लेष्मा शिरसि संदुष्टः शिरोरोगाय कल्पते ।  
 शिरो मन्दरुजं तेन सुप्रस्तिमितभारिकम् ॥ २५ ॥  
 भवत्युत्पद्यते तन्द्रा तथाऽऽलस्यमरोचकम् ।  
 चाताच्छूलं भ्रमः कम्प. पित्ताद्वाहो मदस्तृपा ॥ २६ ॥  
 कफाद् गुरुत्वं तन्द्रा च शिरोरोगे त्रिदोषजे ।  
 तिलक्षीरगुडाजीर्णपूतिसंकीर्णभोजनात् ॥ २७ ॥  
 क्लेदोऽसृक्कफमांसानां दोषलस्योपजायते ।  
 ततः शिरसि संक्लेदात्क्रिमयः पापकर्मणः ॥ २८ ॥  
 जनयन्ति शिरोरोगं जाता बीभत्सलक्षणम् ।  
 व्यधच्छेदरुजाकण्डूशोफदौर्गन्ध्यदु खितम् ॥ २९ ॥  
 क्रिमिरोगातुरं विद्यात्क्रिमीणां लक्षणैश्च च ।

पित्त जन्य शिरो रोग—कडुवे, खट्टे, नमकीन, क्षार पदार्थों के सेवन से, शराब के पीने से, क्रोध से, धूप से, आग से पित्त शिर में कुपित होकर शिरोरोग को उत्पन्न करता है । इससे शिर में जलन और पीड़ा होती है, तथा शीत उपचार अनुकूल पड़ता है । आंखे जलती हैं, प्यास होती है, चक्कर आता है, और पसीना आता है । कफजन्य शिरोरोग—निरुद्योगी आलस्य का सुखमय जीवन व्यतीत करना, दिन में सोना, गुरु, भारी और द्धिग्ध घी आदि युक्त पदार्थों के अति भोजन से, श्लेष्मा अर्थात् कफ शिर में कुपित होकर शिरोरोग को उत्पन्न करता है । इससे शिर में धीमी २ वेदना होती है, शिर सोया हुआ सा प्रतीत होता है, शिर जड़ हो जाता है, भारी हो जाता है । तन्द्रा, कार्य में अनिच्छा, आलस्य और भोजन में अरुचि उत्पन्न हो जाती है । त्रिदोषजन्य शिरोरोग—चात के कारण चक्कर आना और कम्पन, पित्त के कारण जलन, मूर्च्छा और प्यास, कफ के कारण भारीपन, और तन्द्रा, त्रिदोष जन्य शिरोरोग में

होती है। कृमि जन्य शिरोरोग—तिल, दूध, गुड़ इनके अधिक सेवन से, अर्जाण और दुग्ध युक्त सडा गला भोजन करने से, संकीर्ण बहुत गडबट चीजे मिलाकर भोजन करने से शिर के वातादि दोष बढ़कर शिर में रुक्त, कफ और मास को दूषित बनाकर रोग उत्पन्न करते हैं। पाप करने, बाले पुरप के शिर में टस डेढ से कीड़े उत्पन्न होकर वीभत्स अर्थात् घृणाजनक भयंकर शिरोरोग उत्पन्न करते हैं। इससे काटने, छेदने के समान पीडा, खाज, मूजन, दुर्गन्ध और बहुत अधिक कष्ट होता है। इन लक्षणों को तथा कृमियों को देखकर कृमिरोग समझना चाहिये।

पाच प्रकार के हृद्यरोग—

शोकोपवासव्यायामशुष्करूक्षाल्पभोजनैः ॥ ३० ॥  
वायुराविश्य हृदयं जनयत्युत्तमां रुजम् ।

वेपथुर्वष्टनं स्तम्भ. प्रमोहः गून्यता दर. ॥ ३१ ॥  
हृदि वातातुरे रूप जीर्णे चात्यर्थवेदना ।

उरणाम्ललवणचारकटुकाजीर्णभोजनैः ॥ ३२ ॥  
मद्यक्रोधातपैश्चाशु हृदि पित्तं प्रकुप्यति ।

हृद्वाहस्तिकता वक्त्रे तिक्ताम्लोद्दिगरणं कुम. ॥ ३३ ॥  
वृष्णा मूर्च्छा भ्रम. स्वेद. पित्तहृद्रोगलक्षणम् ।

अत्यादानं गुरुस्निग्धमचिन्तनमचेष्टनम् ॥ ३४ ॥  
निद्रामुत्थं चाप्यविकं कफहृद्रोगकारणम् ।

हृदयं कफहृद्रोगे मुमस्तिमितभारिकम् ॥ ३५ ॥  
तन्द्रारुचिपरोतस्य भवत्यश्मावृतं यथा ।

हेतुलक्षणसंसर्गादुच्यते सान्निपातिक. ॥ ३६ ॥  
( हृद्रोगः कष्टदः कष्टनाव्य उक्तो महर्षिभिः )

त्रिदोषजे तु हृद्रोगे यो दुरात्मा निषेवते ।  
तिलजीरगुडादीनि ग्रन्थिस्तस्योपजायते ॥ ३७ ॥

मर्मैकदेशे मंष्टेदं रसश्चास्योपगच्छति ।

संक्षेदाक्त्रिमयश्चास्य भवन्त्युपहतात्मनः ॥ ३८ ॥

मर्मैकदेशे संजाताः सर्पन्तो भक्षयन्ति च ।

तुद्यमान स हृदयं सूचीभिरिव मन्यते ॥ ३९ ॥

छिद्यमानं यथा शस्त्रैर्जातकण्डूमहारुजम् ।

हृद्रागं क्रिमिजं त्वेतैर्लिङ्गैर्वृद्ध्या सुदारुणम् ।

त्वरेत जेतुं तं विद्वान् विकार शीघ्रकारिणम् ॥ ४० ॥

(१) शोक, उपवास, व्यायाम (परिश्रम), रुक्ष, शुष्क, और स्वल्प भोजनो से कुपित होकर वायु हृदय में जाकर इसको दूषित करके तीव्र वेदना को उत्पन्न करता है। इससे कम्पन, ऐंठने के समान वेदना, जड़ता, मूर्च्छा, शून्यता (ज्ञान का अभाव), चक्कर आना आदि लक्षण वातजन्य हृदय वेदना में होते हैं। भोजन के जीण होनेपर ये लक्षण बहुत बढ़ जाते हैं। (२) पित्तजन्य हृदय शूल—गरम, खट्टे, नमकीन, क्षार, कटु रस के अधिक सेवन से, अजीर्णावस्था में भोजन करने से, मद्यपान से, क्रोध या धूप में बैठने या चलने से, पित्त हृदय में पहुंचकर जल्दी ही कुपित हो जाता है, कुपित होकर तीव्र वेदना उत्पन्न करता है। इस कारण हृदय में जलन, मुख में कड़ुआपन, खट्टे, पित्तयुक्त डकार का आना, विना परिश्रम के थकान, प्यास, मूर्च्छा, चक्कर आना, पसीना आना ये पित्तजन्य हृदयशूल के लक्षण हैं। (३) कफजन्य हृदयशूल—बहुत परिणाम में भोजन करने से, भारी, स्निग्ध पदार्थों के सेवन से, चिन्ता न करने या थोड़ी करने, शारीरिक चेष्टाओं के कम करने से, दिन में बेफिकरी से, सोने और अधिक सोने से कफ कुपित होकर हृदय में जाकर रस को दूषित करके हृदयशूल उत्पन्न करता है। इसके कारण हृदय सोया हुआ, सुस्त, गीले वस्त्र से ढंपा हुआ सा, भारी, प्रतीत होता है और आलस्य, अरुचि उत्पन्न होती है और ऐसा मालूम होता है कि किसी ने हृदय पर पत्थर रख दिया हो। (४) त्रिदोषजन्य हृदय शूल—तीनों दोषों के मिलने से, तीनों दोषों के लक्षण उत्पन्न होते हैं, उसको त्रिदोषजन्य हृदयशूल कहते हैं।

(५) कृमि जन्य—त्रिदोषजन्य हृदयरोग में जो दुरात्मा तिल, दूध, गुड़ (अर्जाणावन्या में भोजन, सडा हुआ भोजन, विरुद्ध भोजन आदि) सेवन करता है, उसके हृदय के एक भाग में ग्रन्थि (गांठ) उत्पन्न हो जाती है तथा रस का संकुचित-भाग सड़ने लगता है। रस के सङ्केदन से कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। ये कृमि हृदय के एक भाग में उत्पन्न होकर अन्य स्थान में फैलने लगते हैं और हृदय को खाने लगते हैं। इस अवस्था में रोगी को पूर्ण बेवना होती है मानो कोई उसके हृदय में सुइयां चुभा रहा है। ग्रन्थी में कोई हृदय को काटता है, हृदय में बहुत खाज एवं पीडा उठती है। इन लक्षणों को देखकर कृमिजन्य भयानक हृदय रोग को समझकर विद्वान् शीघ्र मृत्यु करने वाले रोग को शान्त करने का यत्न करे।

द्वयुत्त्रयैकोत्त्रयैःपट् स्युर्हीनमध्याधिकैश्च पट् ।

समैश्चैको विकारास्ते सन्निपातास्त्रयोदश ॥ ४१ ॥

सप्तर्गे नत्र पट् तेभ्य एकवृद्ध्या समैस्त्रयः ।

पृथक् त्रय स्युस्तैर्वृद्धैर्ध्याधय पञ्चविंशतिः ॥ ४२ ॥

यथा वृद्धैस्तथा जीर्यैर्गेपै स्युः पञ्चविंशतिः ।

वृद्धिचयकृतान्यां विकल्प उपदेक्ष्यते ॥ ४३ ॥

वृद्धिरेकस्य समता चैकस्यैकस्य संक्षयः ।

द्वन्द्ववृद्धि चयश्चैकस्यैकवृद्धिर्द्वयोः चय ॥ ४४ ॥

वात आदि दोषों के परस्पर संसर्ग से होने वाले विकारों के वासठ (६०) भेद—बड़े हुए वात, पित्त, कफ के परस्पर संसर्ग से सन्निपात जन्य तैर (१३) विकार होते हैं। दो दोषों की अधिकता और एक की न्यूनता से ( वात-पित्त बड़े, कफ कम हो, पित्त-कफ बड़े और वात कम हो, वात कफ बड़े और पित्त कम हो) तीन, एक दोष की वृद्धि और दो दोष की न्यूनता से ( वात बड़े, पित्त कफ न्यून, पित्त बड़े वायु-कफ न्यून, कफ बड़े और वायु-पित्त न्यून ) तीन, इस प्रकार छः सन्निपात हैं, हीन, मध्य और अधिक भेद में ये छः सन्निपात हैं (जैसे—वृद्ध वात, वृद्धतर पित्त, वृद्धतम

कफ, वृद्ध वात, वृद्धतर कफ, वृद्धतम पित्त, वृद्ध पित्त, वृद्धतर कफ और वृद्धतम वात, वृद्ध कफ, वृद्धतर वात और वृद्धतम पित्त ) और वात-पित्त-कफ तीनों दोषों के बढ़ने से एक प्रकार का, इस प्रकार से तेरह प्रकार के सन्निपात हैं । अब दो दोषों के भेद कहते हैं—बड़े हुए वात, पित्त, कफ इनमें किन्हीं दो दोषों के परस्पर मिलने से नौ भेद हो जाते हैं । यह संयोग एक-एक दोष की वृद्धि से छः प्रकार का, और तीनों की समान वृद्धि से तीन प्रकार होता है । छः प्रकार का यथा—वृद्ध वात अधिक, वृद्ध पित्त, वृद्ध पित्ताधिक, वृद्ध वात, वृद्ध वाताधिक, वृद्ध कफ; वृद्ध कफाधिक, वृद्ध वात, वृद्ध पित्ताधिक वृद्धकफ, वृद्धकफाधिक वृद्धपित्त—ये छः प्रकार का । तीन प्रकार का यथा—वृद्ध समवात पित्तज, वृद्ध समवातकफज, वृद्ध समपित्तकफज । इस प्रकार से नौ प्रकार का हुआ । पृथक् रूप में बड़े हुए वात, पित्त, कफ से ( अलग-अलग उत्पन्न हुए ) रोग तीन प्रकार के होते हैं । यथा—वृद्धवातज वृद्ध-पित्तज और वृद्धकफज । इस प्रकार बड़े हुए दोषों से २५ प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं । जिस प्रकार दोषों के बढ़ने से २५ भेद बनते हैं, उसी प्रकार दोषों के क्षीण होने से भी पच्चीस भेद बन जाते हैं । वृद्धि और क्षय द्वारा उत्पन्न भेदों के अतिरिक्त दोषों के अन्य भेद बतलाते हैं । यथा—एक दोष की वृद्धि, एक दोष की समता, और एक दोष का क्षय । यथा—वृद्ध वात, समपित्त, क्षीण कफ, वृद्ध वात, सम कफ, क्षीण पित्त, वृद्ध पित्त, सम वात, क्षीण कफ, वृद्ध पित्त, सम कफ, क्षीण पित्त; वृद्ध कफ, सम पित्त, क्षीण वात, वृद्ध कफ, सम वात, क्षीण पित्त ये छः प्रकार । दो दोषों की वृद्धि और एक दोष का क्षय, यथा—वृद्ध पित्त कफ, क्षीण वात, वृद्ध वात कफ, क्षीण पित्त, वृद्ध वात पित्त, क्षीण कफ, यह तीन प्रकार का । एक दोष की वृद्धि और दो दोषों का क्षय—यथा वृद्ध कफ, क्षीण वात-पित्त, वृद्ध पित्त क्षीण कफ-वात, वृद्ध वात क्षीण पित्त-कफ ये तीन । इस प्रकार से ये बारह भेद उपरोक्त पचास भेद से पृथक् है । कुल मिलकर बासठ ( ६२ ) भेद हो जाते हैं ।

प्रकृतिस्थं यदा पित्तं मारुतः श्लेष्मणः क्षये ।  
 स्थानादादाय गात्रेषु यत्र यत्र विसर्पति ॥ ४५ ॥  
 तदा भेदश्च दाहश्च तत्र तत्रानवस्थितः ।  
 गात्रदेशे भवत्यस्य श्रमो दौर्बल्यमेव च ॥ ४६ ॥  
 साम्ये स्थितं कफं वायुः क्षीणे पित्ते यदा वली ।  
 कर्पेत्कुर्यात्तदा गूलं सशैत्यस्तम्भगौरवम् ॥ ४७ ॥  
 यदाऽनिलं प्रकृतिगं पित्तं कफपरिक्षये ।  
 संरुणद्धि तदा दाहः शूलं चास्योपजायते ॥ ४८ ॥  
 श्लेष्माण हि समं पित्तं यदा वातपरिक्षये ।  
 निर्पाडयेत्तदा कुर्यात्सतन्द्रागौरवं ज्वरम् ॥ ४९ ॥  
 प्रवृद्धो हि यदा श्लेष्मा पित्ते क्षीणे समीरणम् ।  
 रुन्ध्यात्तदा प्रकुर्वीत शीतकं गौरवं रुजम् ॥ ५० ॥  
 समीरणे परिक्षीणे कफः पित्तं समत्वगम् ।  
 कुर्वीत सनिरुन्धानो मृद्वग्नित्वं शिरोग्रहम् ॥ ५१ ॥  
 निद्रा तन्द्रा प्रलापं च हृद्भोगं गात्रगौरवम् ।  
 नखादीनां च पीतत्वं घृबनं कफपित्तयोः ॥ ५२ ॥  
 हीनवातस्य तु कफः पित्तेन सहितश्चरन् ।  
 करोत्यरोचकापाकौ मदनं गौरवं तथा ॥ ५३ ॥  
 हृष्टामनास्यस्त्रवणं दूयनं पाण्डुतां मदम् ।  
 विरेकस्य हि वैषम्यं वैषम्यमनलस्य च ॥ ५४ ॥  
 क्षीणपित्तस्य तु श्लेष्मा मारुतेनोपसंहितः ।  
 स्तम्भं शैत्यं च तोदं च जनयत्यनवस्थितम् ॥ ५५ ॥  
 गौरवं मृदुतामग्नेर्भक्ताश्रद्धां प्रवेपनम् ।  
 नखादीनां च शुक्लत्वं गात्रपारुष्यमेव च ॥ ५६ ॥  
 हीने कफे मारुतस्तु पित्तं तु कुपितं द्वयम् ।  
 करोति यानि लिङ्गानि शृणु तानि समासतः ॥ ५७ ॥

भ्रममुद्वेष्टनं तोदं दाहं स्फुटनवेपने ।

अङ्गमर्दं परीशोषं दूयनं धूपनं तथा ॥ ५८ ॥

वातपित्तक्षये श्लेष्मा स्रोतांस्यपि दधद्भ्रशाम् ।

चेष्टाप्रणाशं मूच्छ्रां च वाक्सङ्गच करोति हि ॥ ५९ ॥

श्लेष्मवातक्षये पित्तं देहौजः स्रसयेच्चरत् ।

ग्लानिमिन्द्रियदौर्बल्यं तृष्णां मूच्छ्रां क्रियाक्षयम् ॥ ६० ॥

पित्तश्लेष्मक्षये वायुर्मर्माण्यभिनिपीडयन् ।

प्रणाशयति सञ्जां च वेपयत्यथवा नरम् ॥ ६१ ॥

जिस समय कि पित्त अपनी प्रकृति में होता है और कफ क्षीण होता है, उस समय वायु पित्त को उसके स्थान से लेकर शरीर में उधर उधर दौड़ता है । जिससे कि फटने की सी दर्द, जलन, थकान और निर्बलता उत्पन्न होती है । शरीर में कफ के प्रकृत अवस्था में होने से, पित्त के क्षीण होने पर कुपित्त बलवान् वायु कफ के साथ मिलकर वेदना, जड़ता, ठण्डक और भारीपन शरीर में उत्पन्न करती है । शरीर में कफ क्षीण हो, पित्त कुपित्त हो, वायु प्रकृति रूप में हो, तो पित्त वायु की गति बन्द करके जलन और दर्द उत्पन्न करता है । कफ समानावस्था में हो, पित्त कुपित्त और वायु का क्षय हो तो, कफ को रोककर पित्त शरीर में तन्द्रा अर्थात् आलस्य, भारीपन और ज्वर उत्पन्न कर देता है । कफ बढ़ा हुआ हो, पित्त क्षीण हो, और वायु समानावस्था हो, तो कफ वायु की गति को बन्द करके ठण्डक, भारीपन और ज्वर उत्पन्न कर देता है । वायु का क्षय हो, पित्त समानावस्था में हो, कफ बढ़ा हुआ हो, तो कफ पित्त की गति को बन्द करके, मन्दाग्नि, गिर का जकड़ना, नींद का आना, आलस्य, प्रलाप, हृदय रोग, शरीर का भारीपन, नख, ओष्ठ, आंख आदि को पीलापन तथा थूक में कफ और पित्त आने लगता है । वायु क्षीण हो और कफ एवं पित्त दोनों बढ़े हुए एक साथ मिलकर शरीर में अरुचि, अविपाक भोजन का अपचन, पीड़ा, भारीपन, वमन की रुचि, मुख से लार गिरना,



पीडा, पीलापन, नशासा, मल त्याग में विपमता, मल का कभी आना कभी नहीं आना, इसी प्रकार अग्नि की विपमता कभी भूख लगाना और कभी नहीं लगाना ये लक्षण उत्पन्न करते हैं। पित्त के क्षीण होने पर कफ वायु के साथ भिलकर शरीर में जड़ता, ठण्डक, कभी यहाँ और कभी वहाँ, अनिश्चित स्थान पर वेदना, भारीपन, अग्नि की निर्बलता, भोजन में अनिच्छा, कम्पन, नख ( मल, ओष्ठ, आंख ) में सफेद रंग और शरीर में स्थाना अर्थात् रुग्णापन आ जाता है। कफ के क्षीण होने पर, वायु और पित्त दोनों क्षुब्ध होकर जो लक्षण शरीर में उत्पन्न करते हैं, उनको संक्षेप से सुनो। शिर में चक्कर आना, घुँठन की पीड़ा, चुभने की सी दर्द, जलन, शरीर का फटना, कम्पन, अंगों का टूटना, शुष्कता, पीड़ा और धूप में बैठने में जैसे अंग गरम हो जाते हैं ऐसी जलन होती है। वात और पित्त दोनों क्षीण हों, केवल कफ बड़ा हो तो—सब स्रोतों को कफ रोक लेता है। इनमें क्रियाएँ नष्ट हो जाती हैं, मूर्च्छा, जीभ-वाणी का वन्द हो जाना, होता है। कफ और वात के क्षीण होने पर पित्त गति करता हुआ शरीर के ओत (कान्ति) को चलायमान कर देता है। शरीर में ग्लानि, थकान, इन्द्रियों की दुर्बलता, प्यास, मूर्च्छा और चेष्टाओं का नाश हो जाता है। पित्त और कफ के क्षीण होने पर वायु मर्म स्थानों को विशेष रूप में पाँटिन करती है। इससे मनुष्य की संज्ञा (चेतना) नष्ट हो जाती है, अथवा मनुष्य काटना है।

दोषा प्रवृद्धाः स्वलिङ्गं दर्शयन्ति यथावलम् ।

जीर्णा जहति लिङ्गं स्वा, समा स्वं कर्म कुर्वते ॥ ६२ ॥

यदि हुए दोष अपनी शक्ति के अनुसार अपने (स्वाभाविक) लक्षणों को उत्पन्न की अवस्था में दिखाते हैं। यथा—पित्त का स्वाभाविक लक्षण उष्णत्व है। घटने पर तीव्र उष्णिमा उत्पन्न करेगा। दोष क्षीण होने पर अपने स्वाभाविक लक्षणों को छोड़ देते हैं, जैसे पित्त के क्षीण होनेसे स्वाभाविक उष्णिमा नहीं रहती। समानावस्था में दोष अपना २ काम करते हैं।

वातादीनां रसादीनां मलानामोजसस्तथा ।  
 क्षयास्तत्रानिलादीनामुक्तं सञ्जीणलक्षणम् ॥ ६३ ॥  
 घट्टते सहते शब्द नोच्चैर्द्रवति दूयते ।  
 हृदयं ताम्यति स्वल्पचेष्टस्यापि रसक्षये ॥ ६४ ॥  
 परुषा स्फुटिता म्लाना त्वग्रूक्षा रक्तसक्षय ।  
 मांसक्षये विशेषेण स्फिग्ग्रीवोदरशुष्कता ॥ ६५ ॥  
 संधीनां स्फुटनं ग्लानिरक्षणोरायास एव च ।  
 लक्षणं मेदसि क्षीणे तनुत्वं चोदरस्य च ॥ ६६ ॥  
 केशलोमनखशमश्रद्धिजप्रपतनं श्रमः ।  
 ज्ञेयमस्थिक्षये रूपं संधिशैथिल्यमेव च ॥ ६७ ॥  
 शीर्यन्त इव चास्थीनि दुर्बलानि लघूनि च ।  
 प्रततं वातरोगाश्च क्षीणे मज्जनि देहिनाम् ॥ ६८ ॥  
 दौर्बल्यं मुखशोषश्च पाण्डुत्वं सदनं श्रमः ।  
 क्लेश्यं शुक्राविसर्गश्च क्षीणशुक्रस्य लक्षणम् ॥ ६९ ॥  
 क्षीणे शकृति चान्त्राणि पीडयन्निव मारुतः ।  
 रूक्षस्योन्नमयन् कुक्षि तिर्यगूर्ध्वं च गच्छति ॥ ७० ॥ ।  
 मूत्रक्षये मूत्रकृच्छ्र मूत्रवैवर्ण्यमेव च ।  
 पिपासा बाधते चास्य मुखं च परिशुष्यति ॥ ७१ ॥  
 मलायनानि चान्यानि शून्यानि च लघूनि च ।  
 विशुष्काणि च लक्ष्यन्ते यथास्वं मलसंक्षये ॥ ७२ ॥  
 विभेति दुर्बलोऽभीक्षां ध्यायति व्यथितेन्द्रिय ।  
 दुश्छायो दुर्मना रूक्ष क्षामश्चैवौजस क्षये ॥ ७३ ॥

अट्टारह प्रकार के क्षय—वात, पित्त, कफ ये तीन दोष, रस-रक्त आदि धातु, मल, मूत्र, कान का मल, इत्यादि सात मल और ओज इन ( अट्टारह ) के क्षीण होने के लक्षण कहते हैं। इनमें वात, पित्त, कफ के क्षीण अवस्था के लक्षण कह दिये हैं। रस के क्षीण होने पर हृदय

मया-त्रिलोया हुआ प्रतीत होता है, ऊँची आवाज को सहन नहीं कर सकना, हृदय जट्टी २ चलना है। पीडा होती है, ग्लानि होती है और थोड़ी क्रिया होती है, अथवा थोड़ी चेष्टा से भी हृदय में उद्विग्नता आ जाती है। रक्त का क्षय होने पर त्वचा कठोर हो जाती है, फट जाती है, घुग्गियां पड जाती हैं और रुखी बन जाती हैं। मांस के क्षय होने पर—साग शरीर क्षीण हो जाता है, वरन्तु नितम्ब, ग्रीवा और पेट विशेष रूप से पतले होजाते हैं। अर्थात् मेट चर्बी के क्षीण होने पर सन्धियां टूटने-फूटने लगती हैं, अंगों में ग्लानि, आलस्य, आंखों पर थकाव और पेट पतला हो जाता है। अस्थियों के क्षय होने पर—शिर के बाल, शरीर के रोम, दाढ़ी मूँठ के बाल, दात, नख गिरने लगते हैं। शरीर थका प्रतीत होता है, और सब सन्धियां शिथिल पड जाती हैं। मज्जा के क्षीण होने पर—अस्थियां मुरझाती-गिरती हुई प्रतीत होती है, अस्थियां निर्बल और छोटी (हल्की) हो जाती है और वातरोग जोर कर जाते हैं, निरन्तर वात रोग रहने लगता है। शुक्र के क्षीण होने पर—शरीर में निर्बलता, मुख में मूत्रापन, चेहरे पर पीलास, पीडा, थकाव, पुरुषत्व की न्यूनता, सम्भोग समय में शुक्र का अभाव रहता है। मल के क्षीण होने पर—वायु आंतों (अन्तडियों) को उन्नाती, दुःखी करती प्रतीत होती है। शरीर अन्दर और बाहर से रूक्ष हो जाता है। वायु पेट को ऊपर उठाती हुई तिगड़ी या ऊपर को जाती है (नीचे नहीं जाती)। मूत्र के क्षय होने पर—मूत्र कठिनाई से थोडा २ आता है, मूत्र का रंग बदल जाता है। प्यास बहुत लगती है, गला और मुख सूखता है। कान, नाक, आंख मुख और त्वचा (रोम रूप) इन इन्द्रियों के मलों का क्षय होने से शून्यता, (ज्ञान की कमी), तथा लक्ष्मता और हलकापन इन इन्द्रियों में अपने-अपने मल के क्षय होने से उत्पन्न हो जाता है। ओज (कान्ति) के क्षीण होने पर—मनुष्य डरने लगता है, निर्बल हो जाता है, वार २ सोचने लगता है, चिन्ता करने लगता है, इन्द्रियों का ज्ञान ठीक नहीं

रहता, पीड़ित हो जाता है । शरीर की कान्ति बिगड़ जाती है, मन अन-  
वस्थित हो जाता है, शरीर रूखा और दुर्बल हो जाता है ।

हृदि तिष्ठति यच्छुद्धं रक्तमीपत्सपीतकम् ।

ओजः शरीरे संख्यातं तत्राशान्ना विनश्यति ॥ ७४ ॥

प्रथमं जायते ह्योजः शरीरेऽस्मिन् शरीरिणाम् ।

सर्पिर्वाणं मधुरसं लाजगन्धि प्रजायते ॥ १ ॥

भ्रमरैः फलपुष्पेभ्यो यथा संहियते मधु ।

एवमोज स्वकर्मभ्यो गुणैः संहियते नृणाम् ॥ २ ॥

ओज का स्वरूप—हृदय के अन्दर जो शुद्ध ( निर्मल ) और लाल  
तथा थोड़ा सा पीला रस आदि धातुओं का सार रस रहता है, उसे  
'ओज' कहते हैं । इसके नष्ट होने से मनुष्य भी नष्ट हो जाता है ।  
जिस प्रकार कि भौरे फल और पुष्पों से मधु का संचय करते हैं,  
उसी प्रकार मनुष्यों के शारीरिक गुणों से ओज का संग्रह किया जाता है ।  
शरीर धारियों के शरीर में सबसे प्रथम ओज उत्पन्न होता है । यह ओज  
घी के समान रंग में, मधुर-रस, और इसमें लाजा के समान ( लाजा  
धान की खील के समान ) गन्ध होती है ।

व्यायामोऽनशनं चिन्ता रूक्षाल्पप्रमिताशनम् ।

वातातपौ भयं शोको रूक्षपानं प्रजागरः ॥ ७५ ॥

कफशोणितशुक्राणां मलानां चातिवर्तनम् ।

कालो भूतोपघातश्च ज्ञातव्या क्षयहेतवः ॥ ७६ ॥

क्षय के कारण—व्यायाम का अधिक करना, उपवास करना, चिन्ता  
करना, रूक्ष, थोड़ा और एक ही रस का खाना, वायु का या धूप का  
सेवन, भय, शोक, रूक्ष गुणवाले पदार्थों का पीना, रात में जागना, कफ,  
रक्त, शुक्र, मल इनका अधिक त्याग करना, वृद्धावस्था, भूत अर्थात् सूक्ष्म  
क्रिमि आदि का आक्रमण, इन कारणों से अट्टारह प्रकार का क्षय होता है ।

गुरुस्निग्धाम्ललवणं भजतामतिमात्रशः ।

नवमन्नं च पानं च निद्रामास्यासुखानि च ॥ ७७ ॥  
 त्पक्तव्यायामचिन्ताना संशोधनमकुर्वताम् ।  
 श्लेष्मा पित्तं च मेदश्च मांसं चातिप्रवर्धते ॥ ७८ ॥  
 तैरावृत्तगनिर्वायुरोज आदाय गच्छति ।  
 यदा वस्ति तदा कृच्छ्रो मधुमेहः प्रवर्तते ॥ ७९ ॥  
 ममारुतस्य पित्तस्य कफस्य च मुहुर्मुहुः ।  
 दर्शयत्याकृतिं गत्वा क्षयमाप्याय्यते पुन ॥ ८० ॥  
 उपेक्षयाऽस्य जायन्ते पिडका सप्त दारुणाः ।  
 मानलोत्प्लवकाशेषु मर्मस्वपि च संधिषु ॥ ८१ ॥

नधुमेह का कारण—अति मात्रा मे गुरु, स्निग्ध, खट्टे या  
 न्मर्कान पदार्थों के खाने से, नवीन ( नवीन ऋतु के चावल-गेहूं  
 आदि ) अन्न या नया पानी ( बरसात का पानी, कृओं या नदी  
 मे पीने पर ) अधिक सोने से, पेश आरामतलत्री का जीवन विताने से,  
 व्यायाम और चिन्ता न करने से, वमन विरेचन कर्मों के न करने से,  
 कफ, पित्त, मेद और मांस बहुत बढ़ जाते है । इनके बढ़ने से मार्गों के  
 रुक जाने से वायु ओज धातु को लेकर मूत्राशय ( मूत्रसंस्थान )  
 मे चली जाती है । तब कष्ट से साथ 'मधुमेह' रोग उत्पन्न होता है ।  
 बटे हुए घान, पित्त, कफ के लक्षण प्रथम प्रकट होते है । कुछ समय पीछे  
 दृष्टी दोषों की क्षीणता ( क्षय ) के लक्षण दीखने लगते है, और फिर  
 उटे हुए दोषों के लक्षण दिखाई देने लगते है । इस समय उपेक्षा करने  
 से नात भयानक पिडकाये अधिक मांस ले युक्त स्थानों मे, मर्मस्थानों में  
 भयया मन्वियों में उत्पन्न हो जाती है ।

शराविका कच्छपिका जालिनी सर्पपी तथा ।

अलजी विनतास्या च विद्रधी चेति सप्तमी ॥ ८२ ॥

अन्तोन्नता मध्यनिन्ना श्यावा क्लेदरुजान्विता ।

शराविका न्यात्पिडका शरावाकृतिसंस्थिता ॥ ८३ ॥

अवगाढार्तिनिस्तोदा महावास्तुपरिग्रहा ।  
 श्लक्ष्णा कच्छपपृष्ठाभा पिडका कच्छपी मता ॥ ८३ ॥  
 स्तब्धा शिराजालवती स्निग्धस्त्रावा महाशया ।  
 रुजानिस्तोदबहुला सूक्ष्मच्छिद्रा च जालिनी ॥ ८५ ॥  
 पिडका नातिमहानी क्षिप्रपाका महारुजा ।  
 सर्पपी सर्षपाभाभि पिडकाभिश्चिता भवेत् ॥ ८६ ॥  
 दहति त्वचमुस्थाने तृष्णामोहज्वरप्रदा ।  
 विस्पर्पत्यनिशं दुःखाद्दहत्यग्निरिवालजी ॥ ८७ ॥  
 अवगाढरुजाक्लेदा पृष्ठे वाऽप्युदरेऽपि वा ।  
 महती विनता नीला पिडका विनता मता ॥ ८८ ॥

सात पिडकाये—शराविका, कच्छपिका, जालिनी, सर्पपी, अलजी, विनता और विद्रधि ये सात प्रकार की पिडकाये उत्पन्न होती हैं । किनारों से ऊँची और बीच से दबी, श्याव अर्थात् ऊदेरंग की, स्त्रावयुक्त और पीड़ा युक्त, यह पिडका शराव ( परई, सकोरा के ) आकार की होती है, इसे शराविका कहते हैं । जिसमें से स्त्राव गाढ़ा बहे, (गम्भीर, वेदना वाली) दर्दयुक्त, महावस्तु ( हरी, गुदा ) का आश्रय करके रहती है । ऊपर से चिकनी और कछुवे की पीठ के समान ऊपर से उठी पिडका 'कच्छपी' होता है । जड़ ( न हिलने वाली ), शिराओं ( Vains ) के जालयुक्त, स्निग्ध, चिकने स्त्रावयुक्त, बड़े आशय ( Cavity ) में आश्रित, दर्द और चुभने की सी वेदनायुक्त तथा छोटे २ छेदों से घिरी पिडका 'जालिनी' होती है । बहुत बड़ी नहीं, जल्दी पकने वाली, बहुत वेदना युक्त, सरसों के आकार की छोटी २ पिडकाओं से घिरी पिडका 'सर्पपी' है । अलजी पिडका के उत्पन्न होने पर त्वचा जलने लगती है, तृष्णा, मूर्च्छा, ज्वर होता है । रात दिन दुःखी करती है, अग्नि के समान दुःख से जलती है, इसका नाम 'अलजी' है । जिस में स्त्राव बहुत गाढ़ा हो, बहुत सख्त वेदना हो, स्त्राव हो, पिडका पीठ या उदर में हो, बहुत बड़ी, दबी हुई

नी, नीले रंग की ऐसी पिड्डा को 'विनना' कहते हैं ।

विद्रधि द्विविधामाहुर्वाह्यामाभ्यन्तरी तथा ।  
 बाह्या त्वक्स्तानुमासोत्था कण्डराभा महारुजा ॥ ८९ ॥  
 शीतकान्नविदाहृष्णरूक्षशुष्कातिभोजनात् ।  
 विरुद्धाजीर्णमंक्षिप्रविपमासात्स्यभोजनात् ॥ ९० ॥  
 व्यापन्नबहुमद्यत्वाद्द्वेगमंधारणाच्छ्रमान् ।  
 जिह्वव्यायामशयनादतिभाराध्वमैथुनात् ॥ ९१ ॥  
 अन्त शरीरे मासान्गुगाविशन्ति यदा मलाः ।  
 तदा सजायते ग्रन्थिर्गम्भीरस्य सुदारुणः ॥ ९२ ॥  
 हृदये क्लोन्नि यकृति प्रीहि कुक्षौ च वृक्कयो ।  
 नाभ्यां वद्भ्रूणयोर्वापि वस्तौ वा तीव्रवेदनः ॥ ९३ ॥  
 दुष्टरक्तातिमात्रत्वात्स वै शीघ्रं विदह्यते ।  
 तत शीघ्रविदाह्तिवाद्द्विद्रधीत्यभिधीयते ॥ ९४ ॥  
 व्यधच्छेदभ्रमानाहशब्दस्फुरणसर्पणै ।  
 वानिर्की, पैत्तिकी तृष्णादाहमोहभदज्वरैः ॥ ९५ ॥  
 जन्मोत्केशारुचिस्तम्भशीतकै श्लैष्मिकी विदुः ।  
 सर्वानु च महच्छूलं विद्रधीपूपजायते ॥ ९६ ॥  
 तप्तैः शस्त्रैर्यथा मध्येतोत्सुकैरिव दह्यते ।  
 विद्रधी व्यम्लतां याता वृश्चिकैरिव दश्यते ॥ ९७ ॥  
 तनुस्त्राणं स्त्रावं फेनिल वातविद्रधी ।  
 तिलमापकुलत्थोदसंनिभं पित्तविद्रधी ॥ ९८ ॥  
 श्लैष्मिकी स्रवति श्वेतं वहलं पिच्छिलं बहु ।  
 लक्ष्णं र्वसवैतद्भजते सान्निपातिकी ॥ ९९ ॥

विद्रधि पिड्डा दो प्रकार की होती है यथा—बाह्या और आभ्यन्तरी । इनमें बाह्या विद्रधि त्वचा, स्नायु और मांस में उत्पन्न होती है, इसका आकार कण्डरा के समान होता है, इसमें बहुत वेदना होती है । अन्तः

विद्रधि का निदान कहते हैं—ठण्डा भोजन, दाह करने वाला भोजन, उष्ण, रूक्ष, शुष्क भोजन या अन्न खाने से, बहुत खाने से, विरुद्ध भोजन से, अजीर्णावस्था में भोजन करने से, संकीर्ण अर्थात् मिश्रण करके खाने से, विषम भोजन से, प्रकृति के प्रतिकूल भोजन से, व्यापन्न अर्थात् गुणरहित भोजन से, बहुत मद्यपान से, उपस्थित वेगों को रोकने से, परिश्रम से, कुटिल व्यायाम ( अंगों को अनुचित रूप से मोड़ने तोड़ने ) से, कुटिल शयन ( टेढ़ा-मेढ़ा होकर सोने ) से, बहुत बोझ उठाने से, बहुत मार्ग चलने से, बहुत मैथुन के कारण जब मल ( वात, पित्त, कफ ) शरीर के अन्दर मांस और रक्त में घुस जाते हैं, तब गहरी और कठोर गांठ उत्पन्न हो जाती है । गांठ उत्पन्न होने के स्थान—हृदय, क्लोम ( पित्ताशय या आमाशय), यकृत, प्लीहा, कुक्षि (पाश्र्वों) में, वृकों ( गुदों ) में, नाभि में, वक्षण ( जांघ की सन्धियों ) में और वस्ति ( मूत्राशय ) में उत्पन्न होती है और यहां तीव्र वेदना होती है । रक्त के बहुत अधिक दुष्ट होने से विद्रधि शीघ्र दाह उत्पन्न करने लगती है, विद्रग्ध होने से ही इसको 'विद्रधि' कहते हैं । वातजन्य विद्रधि में वीधने के समान, काटने के समान, छेदने के समान पीड़ा होती है, चक्कर आता है, अफरा, शब्द सुनाई देता है, स्फुरण, धड़कन और सर्पण ( झुञ्चुणशन ) होता है । पित्तजन्य विद्रधि में—प्यास, जलन, मूर्च्छा, मड और ज्वर होता है । कफजन्य विद्रधि में—जम्भाई, वमन, भोजन में अरुचि, शरीर की जड़ता और ठण्डक होती है । सब विद्रधियों में बहुत अधिक शूल उत्पन्न हो जाता है । गरम शब्दों से जिस प्रकार कोई मार रहा हो, या गरम वस्तुओं से कोई जला रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है । \* विद्रधि के पकने पर विच्छ्रुओ के काटने के समान दर्द होता है अब स्त्राव के लक्षण कहते हैं—स्त्राव के लक्षण—जो स्त्राव पतला, रूक्ष, लाल

\* कई स्थानों पर कलिकाता की छपी पुस्तकों में निम्न पाठ है—

“शब्दास्त्रैभिर्घत इव चोल्मुकैरिव दह्यते” ॥



और ज्ञानदार हो तो उसे वातज विद्रधि का स्राव, जो स्राव तिल, उदद, कुल्जी के पानी के समान हो तो पित्तज विद्रधि का और जो स्राव श्वेत, घना, चिकना और मात्रा में बहुत हो तो कफज विद्रधि का होता है । संनिपात-जन्य विद्रधि में सब दोषों के लक्षण होते हैं ।

अथासां विद्रधीना साध्यासाध्यत्वविशेषज्ञानार्थं स्थानकृतं लिङ्ग-  
विशेषमुपदेक्ष्याम — तत्र प्रधानमर्मजाया विद्रध्यां हृद्धृत्नतमक-  
प्रमोहकासा, क्लोमजाया पिपासामुखशोषगलग्रहा, यकृज्जायां श्वास,  
ग्रीहजायामुच्छ्वासोपरोधः, कुक्षिजायां कुक्षिपार्श्वान्तरांसशूलं,  
वृक्कजाया पार्श्ववृष्टकटिग्रहः, नाभिजाया हिक्का, वड्क्षणाजाया  
सक्रियमादः, वस्तिजायां कृच्छ्रपूतिमूत्रवर्चस्त्वं चेति ॥ १०० ॥

पक्षप्रभिन्नामूर्ध्वजासु मुखाल्म्रावः स्रवति, अधोजासु गुदात्,  
उभयतस्तु नाभिजासु ॥ १०१ ॥

तासां हृन्नाभिवस्तिजाः परिपक्वाः सान्निपातिकी च मरणाय,  
अवशिष्टाः पुन कुशलमाशुप्रतिकारिणां चिकित्सकमासाद्योपशा-  
स्यन्ति, तस्मादचिरोत्थितां विद्रधिं शस्त्रसर्पविद्युद्भित्तुल्यां स्नेहस्वेद-  
विरेचनैराश्वेत्वापक्रामेत् सर्वशो गुल्मवच्चेति ॥ १०२ ॥

अब इन विद्रधियों के साध्य-असाध्य जानने के लिये स्थानजन्य विशेष लक्षण बतलाते हैं । यथा—प्रधान मर्मस्थान ( हृदय ) में उत्पन्न विद्रधि में हृदय का संघटन, तमक (आंखों के आगे अन्धेरा) सास, मूत्रां, वास होता है । क्लोमजन्य विद्रधि में प्यास, मुख का सूखना, गले का रुकना, यकृत जन्य विद्रधि में—श्वास, और प्लीहाजन्य विद्रधि में श्वास की रुकावट और मूर्च्छा, कुक्षि में विद्रधि होने पर कुक्षि और पार्श्व के बीच में शूल और उसी पार्श्व के कन्धे में दर्द होता है । वृक्कजन्य विद्रधि में—पीठ का घटना, कमर का जरुड़ जाना, नाभिजन्य विद्रधि में हिचकी, वंक्षणजन्य विद्रधि में जानों में दर्द, वस्तिजन्य विद्रधि में मूत्र में कृच्छता, दुर्गन्ध-युक्त मूत्र, और पदद्वार मल आता है । हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीहा, और

कुक्षि की विद्रधियों के पककर फूटने से स्राव मुख से, और नाभि के नीचे चक्षुष्य एवं बस्ति की विद्रधियों के फटने से गुदा के मार्ग से तथा नाभि की विद्रधि के फटने से मुख और गुदा दोनों मार्गों से स्राव बहता है । इन विद्रधियों में हृदय, नाभि और बस्ति में उत्पन्न विद्रधि के पकने पर और सन्निपातजन्य विद्रधि मृत्युकारक होती है । और शेष विद्रधियां कुशल और शीघ्र प्रतिकार करने वाले चिकित्सक के मिलने पर शान्त हो जाती है । इसलिये जल्दी ही नवीन विद्रधि को जो कि शस्त्र, सर्प, बिजली और अग्नि के समान पीड़ादायक है, उसको स्नेहन, विरेचन द्वारा शीघ्र चिकित्सा करे । उनकी सब प्रकार के गुल्मों की भँति चिकित्सा करनी चाहिये ।

अथन्ति चात्र । विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः ।

तावच्चैता न लक्ष्यन्ते यावद्वास्तुपरिग्रहः ॥ १०३ ॥

शराविका कच्छपिका जालिनी चेति दुःसहाः ।

जायन्ते ता ह्यतिबलाः प्रभूतश्लेष्ममेदसाम् ॥ १०४ ॥

सर्पपी चालजी चैव विनता विद्रधी च याः ।

साध्या पित्तोल्बणास्ता हि संभवन्त्यल्पमेदसाम् ॥ १०५ ॥

मर्मस्वसे गुदे पाणयोः स्तने संधिषु पादयोः ।

जायन्ते यस्य पिडकाः सः प्रमेही न जीवति ॥ १०६ ॥

नथाऽन्याः पिडकाः सन्नि रक्तपीतासितारुणाः ।

पाण्डुराः पाण्डुवर्णाश्च भस्माभा मेचकप्रभाः ॥ १०७ ॥

मृद्वथश्च कठिनाश्रान्याः स्थूलाः सूक्ष्मास्तथाऽपराः ।

मन्दवेगा महावेगाः स्वल्पशूला महारुजाः ॥ १०८ ॥

ता बुद्ध्वा मारुतादीनां यथास्वैर्हेतुलक्षणैः ।

ब्रूयादुपाचरेच्चाणु प्रागुपद्रवदर्शनात् ॥ १०९ ॥

वृट्श्वासमांससंकोथमोहहिक्कामदज्वराः ।

वीसर्पमर्मसंरोधाः पिडकानामुपद्रवाः ॥ ११० ॥

ये पिडकाये मेद के दुष्ट होने पर विना प्रमेह के भी उत्पन्न हो जाती

है, और जब तक कि 'वान्नुपरिग्रह' अर्थात् स्थान को चारों ओर से पकड़ नहीं लेता, तब तक इनका पता नहीं चलता। शराविका, कच्छपिका और जालिनी ये कठिनाई से सहन की जा सकती हैं। जिन में कफ और मूत्र अधिक होते हैं, उन में ये उत्पन्न होती हैं और बहुत बलवान् होती हैं। सर्पों, भलज्जी, विनता और विद्रधि ये पित्त की अधिकता से होती हैं और ये नाच्य हैं, थोड़ी चर्बी वालों में होती हैं। जिस प्रमेह रोगी के मर्म (हृदय, यन्त्रि, और नाभि) में, कन्धे, गुदा, पार्श्व, स्तन, सन्धियों और पांशु में पिडकायें उत्पन्न होती हैं, वह प्रमेह का रोगी नहीं बचता। इसी प्रकार अन्य दूसरी और भी पिडकायें हैं जो लाल, पीली, काली, पाण्डुर (धूमर) पीले रंग की, राग अर्थात् भस्म के समान, काले वालों की छाया जैसी, उठ सृष्टु, कुछ कठिन, कुछ बड़ी, कुछ छोटी, कुछ मन्द वेग, कुछ तीव्र वेग, कोई थोड़ी वेदना वाली, कोई बहुत दर्द वाली होती है। इन वान, पित्त, कफ की विद्रधियों को इनके अपने २ लक्षणों से पहिचान कर उपद्रवों के उत्पन्न होने में पूर्व ही चिकित्सा करनी चाहिये। उपद्रव—प्यान, श्वास, मास का संकोच, मूर्च्छा, हिचकी, मूत्र और ज्वर, वीसर्प, और हृदय आदि मर्म का अवरोध, ये पिडकाओं के उपद्रव हैं।

ज्ञयः स्थानं च वृद्धिश्च दोषाणां त्रिविधा गतिः ।

ऊर्ध्वं चाधश्च तिर्यक् च विज्ञेया त्रिविधाऽपरा ॥ १११ ॥

इत्युक्त्वा विविभेदेन दोषाणां त्रिविधा गतिः ।

त्रिविधा चापरा कोष्ठशाखामर्मास्थिमंधिषु ॥ ११२ ॥

चयप्रकोपप्रशान्ना पित्तादीना यथाक्रमम् ।

भवत्येकैकान्तरैः पटुमु कालान् भ्रागमादिषु ॥ ११३ ॥

ननिः ॥ ११४ ॥

॥ ११५ ॥

पित्तादोषमग्नौ परिक्रान्तराणामुपजायते ।

तत्र पित्तं प्रकुपितं विकारान् कुरुते बहून् ॥ ११५ ॥

प्राकृतस्तु बलं श्लेष्मा विकृतो मल उच्यते ।  
 स चैवौजः स्मृतः काये स च पाप्मोपदिश्यते ॥ ११६ ॥  
 सर्वा हि चेष्टा वातेन स प्राणः प्राणिनां स्मृतः ।  
 तेनैव रोगा जायन्ते तेन चैवोपरुध्यते ॥ ११७ ॥  
 नित्यसंनिहितामित्रं समीक्ष्यात्मानमात्मवान् ।  
 नित्यं युक्तः परिचरेदिच्छन्नायुरनित्वरम् ॥ ११८ ॥

दोषों की गति तीन प्रकार की होती है क्षय ( घटना ), स्थान ( सम रहना ), और वृद्धि ( बढ़ना ), अथवा (ऊर्ध्व) ऊपर जाना, (अधः) नीचे जाना और (तिर्यक्), तिरछा जाना ये दूसरी प्रकार की दोषों की गति हैं । विधि भेद से दोषों की तीन प्रकार की गति कह दी, एक और प्रकार से भी तीन प्रकार की गति होती है यथा—कोष्ठ, शाखा, मर्मास्थि और सन्धि इनमें दोषों का संचय, प्रकोप और शमन यह तीन प्रकार की गति हैं । यथा—छः ऋतुओं में एक एक दोष की तीनों जातियां होती हैं । यथा—वर्षा ऋतु में पित्त का संचय, शरद् ऋतु में प्रकोप और हेमन्त में शान्ति । ग्रीष्म में वायु का संचय, वर्षा में प्रकोप तथा शरद् में शान्ति । हेमन्त में कफ का संचय वसन्त में प्रकोप और ग्रीष्म में कफ की शान्ति होती है । दोषों के संचय आदि की गति दो प्रकार की है । यथा—प्राकृत और वैकृत । पित्त का वर्षा ऋतु में संचय होना प्राकृत गति है और वसन्त में संचय होना वैकृत गति है । इसी प्रकार कफ का हेमन्त में संचय होना प्राकृत और वर्षा में संचय होना वैकृत है, वायु का ग्रीष्म ऋतु में संचय होना प्राकृत और शरद् में संचय होना वैकृत है । प्राकृत-स्वास्थ्यवस्था, वैकृत रूग्णावस्था है इस प्रकार से पित्त आदि दोषों की भी दो प्रकार की गति है । मनुष्यों का पाचन पित्त की ही गरमी से होता है और वह पित्त विकृत होकर बहुत से रोगों का उत्पन्न करता है । प्राकृत स्वास्थ्यवस्था में स्थित कफ शरीर का बल, और ओजरूप होता है परन्तु यही विकृत, रूग्णावस्था में मल और पाप्मा अर्थात् पाप रोग उत्पन्न करता

हैं। वायु के कारण ही शरीर की सब चेष्टाएँ, क्रियाएँ होती हैं। यही वायु प्राणियों का प्राण है। इस के विकृत होने पर रोग उत्पन्न होते हैं, और इन्हीं रोगों में इसी विकृत वायु से मनुष्य मर जाता है। मनुष्य को चाहिये कि वह समझ ले कि शत्रु (वैकृत, पित्त, वायु, कफ ये दोष) सदा समीप में बड़े हैं, इसलिये अपने कल्याण में मन को लगाकर प्रशस्त मन से परीक्षा करके नित्य ही न जानेवाली दीर्घ आयु की सदा इच्छा करता हुआ दीर्घायु होने का प्रयत्न करे।

तत्र श्लोकौ। शिरोरोगाः स्रग्द्रोणा रोगा मानविकल्पजाः।

क्षयाः सपिडकाश्चोक्ता दोषाणां गतिरेव च ॥ ११९ ॥

क्रियन्तः शिरसीयेऽस्मिन्नध्याये तत्त्वदर्शिना।

ज्ञानार्थं भिषजा चैव प्रजानां च द्वितैपिणा ॥ १२० ॥

शिरोगेग, हृदय के रोग, दोषों के परिमाण भेद से होने वाले रोग, दोषों के ध्यसे, पिटकायें, दोषों की गति, इस सब बातों का तत्त्वदर्शी महर्षि ने 'क्रियन्तः-शिरसीय' अध्याय में, वैद्यों के ज्ञान और प्रजाओं की संरक्षण-कामना में उपदेश किया है।

इन्द्राग्निभेगकृते तन्त्रे चरकप्रतिमत्कृते स्रग्द्रस्याने रोगचतुष्टके

क्रियन्तः शिरसीयो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

## अष्टादशोऽध्यायः।

अथानन्विशोधीयमन्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह न्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

इसके आगे 'विशोधीय अन्याय' की व्याख्या करेंगे, ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है।

त्रय शोथा भवन्ति वानपित्तश्ले मनिमित्ताः। ते पुनर्द्विविधाः

निजागन्तुभेदेन । तत्रागन्तवश्छेदनभेदनकृणानभञ्जनपिच्छतोत्पे-  
पणप्रहारवधवन्धनवेष्टनव्यधनपीडनादिभिर्वा भङ्गातकपुष्पफलरसा-  
त्मगुप्रागूकक्रिमिगूकाहितपत्रलतागुल्मसंस्पर्शनैर्वा स्वेदनपरिसर्पणा-  
वनूत्रणैर्वा विपिणां सविषाविषप्राणितंष्ट्रादन्तविषाणानखनिपातैर्वा  
मागरविषवातहिमदह्नसंस्पर्शनैर्वा शोथाः समुपजायन्ते । ते पुन-  
र्यथास्वं हेतुजैर्व्यञ्जनैरादावुपलभ्यन्ते निजव्यञ्जनैकदेशविपरीतैः,  
वन्धमन्त्रागदप्रलेपप्रतापनिर्वापणादिभिश्चोपक्रमैरुपक्रम्यमाणाः प्रशा-  
न्तिमापद्यन्ते ॥ ३ ॥

शोथ (सूजन) तीन प्रकार का है । १. वात से, २. पित्तसे और ३. कफ  
से । यह तीन प्रकार का शोथ फिर दो प्रकार का है । ( १ ) शरीर में  
उत्पन्न होने वाला निज और ( २ ) बाहर कारण से उत्पन्न होने वाला  
आगन्तु । इन में आगन्तु शोथ छेदन ( दो खण्ड करना ), भेदन  
( फाड़ना ), ध्वनन ( चूर्ण करना ), भञ्जन ( तोड़ना, सजरी करना ),  
पिच्छन ( बहुत दवाना ), उत्पेपण ( गिला पर पीसने की भांति पीसने )  
से, वेष्टन ( रज्जु आदिसे लपेटना ), प्रहार ( चोट ), वध ( मारने ) से,  
वन्धन ( बांधना ), व्यधन ( बाँधना ), पीडन और ( दवाने ) आदि से  
उत्पन्न होती है अथवा भिलावे के पुष्प या फल अथवा रस के लगाने से,  
आन्मगुसा ( कौंच की फली ), शुक, कृमिशुक ( रोये वाला कीड़ा ),  
अहितपत्र ( विच्छू बूटी के पत्र ), लता ( विल ) गुल्म ( झंकार झाड़ों ) के स्पर्श  
से आगन्तु शोथ उत्पन्न होता है । अथवा विषयुक्त प्राणियों के पसीने  
से, शरीर पर चलने फिरने से, इन के मूत्रों से, विपैले प्राणियों के जाड़,  
दान, सींग, नख आदि के प्रहार से, कृत्रिम विषयुक्त वायु, वरफ़ या  
अग्नि के स्पर्श से आगन्तु शोथ उत्पन्न होता है । ये आगन्तु शोथ प्रथम  
कारणों से उत्पन्न लक्षणों से प्रकट होते हैं । आगन्तु शोथ या रोग में व्यथा  
प्रथम उत्पन्न होती है, और पीछे शरीर के दोषों से सम्बन्धित होते हैं ।  
ये शोथ वन्धन (सुखप्रद लेप आदि की पट्टी बांधने से), मन्त्र से, औषध,

ग्रन्थ, प्रताप, निर्वाण ( सेक आदि द्वारा वायु को निकालने से ) एवं जाग्रत रांपणादि से चिकित्सा करने पर शान्त हो जाते हैं ।

निजा पुन. स्नेहस्वेदनवमनविरेचनास्थापनानुवासनशिरोविरेच-  
नानामयथावत्प्रयोगान् मिथ्यासमर्जनाद्वा छर्द्यलसकविसूचिका-  
श्रामसातीसारशोषपाण्डुरोगज्वरोदरप्रदरभगन्दरार्शोविकाराति-  
कर्षणैर्वा कुष्ठरुग्णपिडकादिभिर्वा छर्दिक्ष्वथूद्गारशुक्रवातमूत्रपुरीष-  
वेगविधारणैर्वा कर्मरोगोपवासातिकर्षितस्य वा सहसाऽतिगुर्वल्ल-  
वणपिष्टान्नफलशाकरागदविहरीतकमद्यमन्दकविरूढनचशूकशमीधा-  
न्यान्पूर्वोक्तपिशितोपयोगान् मृत्पङ्कलोपूमक्षणाह्वणातिभक्षणाद्वा  
गर्भमर्षाडनाद्रामगर्भप्रपतनान् प्रजाताना च मिथ्योपचारादुदीर्ण-  
दापत्वाच्च शोथा प्रादुर्भवन्तीत्युक्तं सामान्यो हेतुः ॥ ४ ॥

'निज' अर्थात् शरीर के अन्दर न्वत उत्पन्न होने वाले शोथ—स्नेह,  
स्येद, वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन और शिरोविरेचन के अति या  
हीन अथवा मिथ्या योग से, इन कर्मों के पीछे अपथ्य से, वमन, अलसक,  
विषुचिका, घास, कास, अतिसार, शोष, पाण्डु रोग, ज्वर, उदर रोग,  
प्रदर, भगन्दर, अर्श रोग से, अति संशोधन कर्म से, कुष्ठ, खाज,  
पिडका आदि से, छीक, वमन, ढकार, शुक्र, वायु और मल के उपस्थित  
वेगों को रोकने में और संशोधन कर्मों से उत्पन्न रोगों से, उपवास से,  
शरीर के बहुत कर्षण से, एकदम से बहुत भारी, खट्टे, नमकीन  
पदार्थों से खाने में, पीठों से बने भोजनों से, फल, शाक, राग ( रायता )  
पादक, ( मार आदि ), दही, हरी भाजी, मद्य, मन्दक ( धीमे पडे उतरे  
मग । जो पीने से, अर्जुनि अन्न, नर्धन अन्न से, शूक धान्य, चावल, गेहूं  
आदि, शमी धान्य उड्ड, मृग आदि, जलचर प्राणियों के मांस के सेवन  
से, मिट्टी, शीघर, मिट्टी या टेलों इनके खाने से, नमक के अधिक खाने  
से, गर्भ पर दवाय पडने से, गर्भपात से, प्रसव के पश्चात् उचित परि-  
चारका न होने से, द्रव्यों के बढने से शोथ उत्पन्न हो जाते हैं । ये शरीर  
जन्य द्रव्यों से सामान्य लक्षण हैं ।

अयं त्वत्र विशेषः—शीतरूक्षलघुविशदश्रमोपवासातिकर्षणक्ष-  
पणादिभिर्वायुः प्रकुपितस्त्वङ्मांसशोणितादीन्यभिभूय शोथं जन-  
यति । स क्षिप्रोत्थापनप्रशमो भवति तथा श्यावारुणवर्णः प्रकृति-  
चर्णो वा, चलः स्पन्दनः खरपरुषभिन्नत्वग्लोमा छिद्यत इव भिद्यत  
इव पीड्यत इव सूचीभिरिव तुद्यते पिपीलिकाभिरिव संसृप्यते  
सर्पपकल्कावलिप्त इव चिमिचिमायते संकुच्यते आयम्यत इति  
ज्ञातशोथः ॥ ५ ॥

उष्णतीक्ष्णकटुकक्षारलवणाम्लाजीर्णभोजनैरभ्यातपप्रतापैश्च  
पित्तं प्रकुपितं त्वङ्मांसशोणितान्यभिभूय शोथं जनयति । स क्षिप्रो-  
त्थानप्रशमो भवति कृष्णपीतनीलताम्रावभास उष्णो मृदुः कपिल-  
ताम्रलोमा उष्यते दूयते दह्यते धूप्यते ऊष्मायते स्विद्यति क्लिद्यते न च  
स्पर्शमुष्णं वा सुषूयत इति पित्तशोथः ॥ ६ ॥

गुरुमधुरशीतस्निग्धैरतिस्वप्रव्यायामादिभिश्च श्लेष्मा प्रकुपितः  
त्वङ्मांसशोणितादीन्यभिभूय शोथं जनयति । सकृच्छ्रोत्थानप्रशमो  
भवति, पाण्डुः श्वेतावभासः स्निग्धः श्लक्ष्णो गुरुः स्थिरः स्त्यानः  
शुक्लाग्रोमा स्पर्शोष्णसहश्चेति श्लेष्मशोथः ॥ ७ ॥

यथास्वकारणाकृतिसंसर्गाद्विदोषजास्त्रयः शोथा भवन्ति ॥ ८ ॥

यथास्वकारणाकृतिसन्निपातात्सान्निपातिक एकः ॥ ९ ॥

एवं भेदप्रकृतिभिस्ताभिर्भिद्यमानो द्विविधस्त्रिविधश्चतुर्विधः सप्त-  
विधश्च शोथ उपलभ्यते, पुनश्चैक एव, उत्सेधसामान्यादिति ॥१०॥

यहां पर इतना विशेष है कि—शीत, रूक्ष, लघु, विशद अन्न, खानपान,  
परिश्रम, उपवास, वमन विरेचनादि कर्मों के बहुत करने और उपवास आदि  
से वायु कुपित होकर त्वचा, मांस, रक्त और मेद आदि, धातुओं पर  
अधिकार कर शोथ को उत्पन्न करता है । यह वातजन्य शोथ जल्दी ही  
उत्पन्न होता और जल्दी ही शान्त हो जाता है । इस का रंग काला  
सा या लाल-काला अथवा स्वाभाविक रंग का रहता है । यह



शोथ गतिशील, धडमन युक्त, कर्कश, कठोर, त्वचा फटती सी जाती है, और शाल दृट जाते हैं। रोगी को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई चीरसा राग हां, भेदन कर रहा हो, द्यारहा हो, सुई चुभाने का सा दर्द होता है, चिजं-टिजं सी चलती है, सरसों पीसकर लेप करने जैसी चिरमराहट लगती है, सिक्कना और फैलना है, यह वातजन्य शोफ के लक्षण है।

गरम, तीव्र, कड़ुवे, क्षार, नमकीन और खट्टे पदार्थों के खानेसे, अजीर्ण अग्न्या में भोजन करने से, आग और धूप के ताप के बहुत लेवन से, पित्तकुपित होकर त्वचा, मांस, रक्त पर प्रवल होकर शोथ उत्पन्न करता है। यह शोथ जल्दी ही उत्पन्न होता और जल्दी शान्त हो जाता है। इसका रंग काला, पीला, नीला ताम्बे के समान, स्पर्श गरम और कोमल, बाल भूरे या ताम्बे के रंग के हो जाते हैं। यह शोथ गरम होता, जलता सा है, पीड़ा देता है, तगाता है, गरम मा लगता है, पसीना आता है, नरमा जाता है, न तो स्पर्श और न गरमी को सहन करता है।

भारी, मधुर, शीत, त्रिगुण भोजनों से, व्यायाम न करने से, शंक्का कुपित होकर त्वचा, मांस, रक्त पर अधिकार करके शोथ उत्पन्न करता है। यह शोथ देर से उत्पन्न होता और देर से ही शान्त होता है। इसका रंग भूरा (धुमैला) या श्वेत, चिकना, न्नेहयुक्त, भारी, स्थिर (न हिलने वाला), गाढा, बालों का अग्र भाग श्वेत हो जाता है, स्पर्श को और गरमी को सहन कर लेता है, यह कफशोथ है। अपने ० कारणों से दो दोष कुपित होकर दो दोषों के लक्षणों वाले शोथ को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से गरम वातजन्य शोथ एक प्रकार का है, हम से तीनों दोषों के कारणों के (निज और गामन्वु) ३ प्रकार हैं (वातज, पित्तज, कफज), चार प्रकार के (गामन्वु, पित्तजन्य, कफजन्य, सन्निपातजन्य), सात प्रकार के (वात, पित्त, कफ, वातशैथिल्य, वातशैथिल्य, पित्तशैथिल्य और

सान्निपातिक ) होते हैं । परन्तु सूजन की दृष्टि से शोथ एक ही प्रकार का है, सूजन का होना सब शोथो में सामान्य है ।

भवन्ति चात्र—शून्यन्ते यस्य गात्राणि स्वपन्तीव रुजन्ति च ।

पीडितान्युन्नमन्त्याशु वातशोथं तमादिशेत् ॥ ११ ॥

यश्चाप्यरुणवर्णाभः शोथो नक्तं प्रणश्यति ।

स्नेहोष्णमर्दनाभ्या च प्रणश्येत्स च वातिकः ॥ १२ ॥

यः पिपासाज्वरार्त्तस्य दूयतेऽथ विदह्यते ।

स्विद्यते क्लिद्यते गन्धी स पैत्तः श्वयथुः स्मृतः ॥ १३ ॥

यः पीतनेत्रवक्त्रत्वक् पूर्वं मध्यात् प्रशूयते ।

तनुत्वक् चातिसारी च पित्तशोथः स उच्यते ॥ १४ ॥

यः शीतलः सक्तगतिः कण्डूमान् पाण्डुरेव च ।

निपीडितो नोन्नमति श्वयथुः स कफात्मकः ॥ १५ ॥

यस्य शस्त्रकुशाच्छेदाच्छोणितं न प्रवर्तते ।

कृच्छ्रेण पिच्छान् स्रवति स चापि कफसंभवः ॥ १६ ॥

निदानाकृतिसंसर्गाच्छ्वयथुः स्याद् द्विदोषजः ।

सर्वाकृतिः सन्निपाताच्छोथो व्यामिश्रहेतुजः ॥ १७ ॥

सूजन होने पर जिसका शरीर सोया हुआ, (चेतना, स्पर्श ज्ञान का अभाव) सा प्रतीत हो, पीड़ा होती हो, दबाने पर फिर जल्दी से ऊपर उठ जाता हो, उसे वातजन्य शोथ समझना चाहिये । और जिस शोथ का रंग लाल, काला हो, जो सूजन रात्रि में नष्ट हो जाती है, एवं स्वेदन, उष्ण क्रिया अथवा मर्दन से शान्त हो जाता है, वह वातजन्य शोथ है । जिस शोथ में रोगी को प्यास बहुत लगे, ज्वर की पीड़ा हो, जलन हो, पकता हो, पसीना आता हो, नरम पडता हो, गन्ध आती हो, वह पित्तजन्य शोथ है । जिस में कि त्वचा, नेत्र, मुख पीले हो जाते हो, और जो कि प्रथम बीच में से सूजता हो, त्वचा जिसमें पतली हो और रोगी को अतिसार हो तो उसे पित्तजन्य शोथ समझना चाहिये । जो सूजन ठण्डी, पसीना

न हो, जो हिले जुले नहीं, जिसमें खाज उठती हो, जिसका रंग धूसर हो, र्धाने में फिर ऊपर उठ जाये, वह सूजन कफजन्य है। जिस में कि श्वेत या कृशा में काटने पर रक्त नहीं बहता, अथवा कठिनाई से थोड़ा रक्त बहना बहता है, वह सूजन भी कफजन्य है। जो दोषों के कारणों में दो दोषों के लक्षणों वाला संसर्गजन्य (द्विदोषज) शोथ होता है। सब दोषों के मिलने में सब लक्षणों वाला सन्निपातजन्य शोथ होता है।

यस्तु पात्राभिनिर्वृत्तः शोथः सर्वाङ्गो भवेत् ।

जन्तो म च सुकष्टं स्यात्प्रसृतं स्त्रीमुखाच्च यः ॥ १८ ॥

यश्चापि गुह्यप्रभवः स्त्रियो वा पुरुषस्य वा ।

म च कष्टतमां ज्ञेयो यस्य च स्युरुपद्रवाः ॥ १९ ॥

जो सूजन पुरुषों के पांव से आरम्भ करके और स्त्रियों के मुख से आरम्भ होकर सम्पूर्ण शरीर में फैल जाता है, वह कष्ट साध्य होता है। और जो शोथ स्त्री या पुरुष के गुह्य भाग से आरम्भ होकर सारे शरीर में फैलता है, अथवा जिस शोथ में उपद्रव हों, वह शोथ तो अति अधिक कष्टसाध्य है।

ऋद्धिं श्वासोऽरुचिस्तृण्णा ज्वरोऽनीसार एव च ।

सप्तकोऽयं सर्वैर्बल्यः शोथोपद्रवसंग्रहः ॥ २० ॥

उपद्रव—यमन, श्वास, अरुचि, प्यास, ज्वर, अनीसार और निर्वलता संक्षेप में ये मान शोथ के उपद्रव हैं।

यस्य श्लेष्मा प्रकुपितो जिह्वामूलेऽवतिष्ठते ।

श्लेष्म संजनयेच्छोथं जायतेऽस्योपजिह्विका ॥ २१ ॥

यस्य श्लेष्मा प्रकुपितं काकले व्यवतिष्ठते ।

श्लेष्म संजनयेच्छोफं कर्गानि गलशुण्डिकाम् ॥ २२ ॥

यस्य श्लेष्मा प्रकुपितो गलवाह्येऽवतिष्ठते ।

श्लेष्म संजनयेच्छोथं गलगण्डोऽस्य जायते ॥ २३ ॥

यस्य श्लेष्मा प्रकुपितमिष्टयन्तर्गले स्थितः ।

आशु संजनयेच्छोथं जायतेऽस्य गलग्रहः ॥ २४ ॥

उपजिह्विका रोग—जब कफ कुपित होकर जिह्वा की जड़ में एकत्र होकर शोथ उत्पन्न करता है, तो उसे 'उपजिह्विका' (Renula) कहते हैं। गलगण्डिका—जब कफ कुपित होकर काकल गलग्रन्थि का आश्रय लेकर शोथ उत्पन्न करता है, तब इस रोग को 'गलगण्डिका' (Tonsillitis) कहते हैं। जब कफ कुपित होकर गले के बाहर आकर शोथ उत्पन्न करता है, तब इसे 'गलगण्ड' (Goitre) कहते हैं। यह सूजन बहुत धीरे २ होता है, जब कफ कुपित होकर गले के अन्दर रहकर शीघ्र ही सूजन उत्पन्न करता है, उसे 'गलग्रह' ( गले का रुक जाना, स्वर का बँध जाना ) कहते हैं ।

यस्य पित्तं प्रकुपितं सरक्तं त्वचि सर्पति ।

शोथं सरागं जनयेद्विसर्पस्तस्य जायते ॥ २५ ॥

यस्य पित्तं प्रकुपितं त्वचि रक्तेऽवतिष्ठते ।

शोथं स रागं जनयेत् पिडका तस्य जायते ॥ २६ ॥

यस्य पित्तं प्रकुपितं शोणितं प्राप्य शुष्यति ।

तिलका विप्लवो व्यङ्गो नीलिका चास्य जायते ॥ २७ ॥

यस्य पित्तं प्रकुपितं शङ्खयोरवतिष्ठते ।

श्वयथुः शङ्खको नाम दारुणस्तस्य जायते ॥ २८ ॥

यस्य पित्तं प्रकुपितं कर्णमूलेऽवतिष्ठते ।

ज्वरान्ते दुर्जयोऽन्ताय शोथस्तस्योपजायते ॥ २९ ॥

जब पित्त कुपित होकर रक्त के साथ मिलकर त्वचा में फैलता है, तब लाल रंग की सूजन उत्पन्न होती है, इस को 'विसर्प' कहते हैं। जब पित्त कुपित होकर रक्त के साथ त्वचा में स्थिर हो जाता है, तब लाल रंग के उत्पन्न शोथ को 'पिडका' (फुन्सी) कहते हैं। जब कुपित पित्त रक्त में पहुँच कर शुष्क हो जाता है तब नीलिका, तिल, व्यंग, चर्मकील, लसन, झार्ई आदि रोग होते हैं। जब कुपित पित्त शंखप्रदेश ( कनपटी ) में

आकर रुक जाता है, तब 'अम्यक' नाम का भयानक शोथ उत्पन्न होता है । तब कृत्तिन विन कान की जड़ में आकर रुक जाता है, तब उवर के अन्त में अम्यक मूत्रन उत्पन्न होती है, यह सूत्रन मारक होती है ।

वात श्लेष्मानुदध्नु कृपितो वन्य तिष्ठति ।

जनैः परिनुदन पार्श्वं ग्रीहा तस्याभिवर्धते ॥ ३० ॥

वन्य वायुः प्रकृपितो गुल्मस्थानेऽवतिष्ठते ।

शोथं मग्नं जनयन् गुल्ममन्मयोपजायते ॥ ३१ ॥

वन्य वायुः प्रकृपित शोथगूलकरश्चरन् ।

वृन्तगाद्वृषणौ याति व्रध्नस्तस्योपजायते ॥ ३२ ॥

यस्य वातः प्रकृपितस्त्वङ्मांसान्तरमाश्रितः ।

शोथं मजनयन् कुचावुदर तस्य जायते ॥ ३३ ॥

वन्य वातः प्रकृपितः कुक्षिमाश्रित्य तिष्ठति ।

नाथो व्रजति नाप्यू-र्वमानाहस्तस्य जायते ॥ ३४ ॥

गंगाश्रोत्रोत्प्रेषणामान्यादधिमासाञ्चुद्गादयः ।

विशिष्टा नामरूपाभ्यां निर्देश्या शोथसंग्रहे ॥ ३५ ॥

जब वायु कृपित होकर प्लीहा ( तिछी ) को ऊपर करके प्लीहा का आश्रय ले लेता है, तब पार्श्वों को धीरे-धीरे दबाती हुई ग्रीहा बढ़ जाती है । तब वायु कृपित होकर (हृदय, नाभि, वन्ति और दोनों पार्श्व) गुल्म स्थानों का आश्रय ले लेता है तब शूलयुक्त मूत्रन उत्पन्न होती है, इसे 'गुल्म' कहते हैं । जब वायु कृपित होकर मूत्रन और दर्द को उत्पन्न करता है तब वृन्तगा ( जगामनिव ) प्रदेश में अण्ड कोष में जाती है, तब 'मग्न' रोग होता है । तब वायु कृपित होकर त्वचा और मांस के बीच में उदर के अन्तर रहकर आश्रय लेकर शोथ उत्पन्न करती है, तब 'उदर' रोग उत्पन्न हो जाता है । तब वायु कृपित होकर उदर का आश्रय लेकर स्थिर हो जाता है, न तो नीचे जाती है और न ऊपर जाती है, इस को 'अम्यक' कहते हैं । अग्नि नाम, अनुद आदि रोग में मूत्रन की समानता

होने से, नाम और रूप से भिन्न होने पर भी इनका इसे शोधसंग्रह में निर्देश करना चाहिये ।

वातपित्तकफा यस्य युगपत्कुपितास्त्रयः ।

जिह्वामूलेऽवतिष्ठन्ते विदहन्त समुच्छ्रिताः ॥ ३६ ॥

जनयन्ति भृशं शोथं वेदनाश्च पृथग्विधाः ।

तं शीघ्रकारिणं रोगं रोहिणीकेति निर्दिशेत् ॥ ३७ ॥

त्रिरात्र परमं तस्य जन्तोर्भवति जीवितम् ।

कुशलेन त्वनुक्रान्तः क्षिप्रं सपद्यते सुखी ॥ ३८ ॥

सन्ति ह्येवंविधा रोगाः साध्या दारुणसंमताः ।

ये हन्युरनुपक्रान्ता मिथ्याचारेण वा पुनः ॥ ३९ ॥

साध्याश्चाप्यपरे सन्ति व्याधयो मृदुसंमताः ।

यत्नायत्नकृतं येषु कर्म सिध्यत्यसंशयम् ॥ ४० ॥

असाध्याश्चापरे सन्ति व्याधयो याप्यसंज्ञिताः ।

सुसाध्वपि कृतं येषु कर्म यात्राकरं भवेत् ॥ ४१ ॥

जिस पुरुष के वात, पित्त, कफ ये तीनों इकट्ठे मिलकर कुपित होकर जिह्वा की जड़ में स्थित होते हैं और जलन और बहुत सूजन उत्पन्न करते हैं, तथा नाना प्रकार की पीड़ाएँ देते हैं इस शीघ्रकारी रोग को 'रोहिणी' कहते हैं । इस रोग के कारण मनुष्य केवल तीन दिन जीवित रहता है । इस बीच में यदि कुशल वैद्य से शीघ्र चिकित्सा कराई जाये तो मनुष्य बच जाता है । इस प्रकार के बहुत से भयानक परन्तु साध्य रोग हैं, जिनकी चिकित्सा न करने अथवा मिथ्या वा अशुद्ध चिकित्सा करने से मनुष्य मर जाता है । दूसरे कोमल रोग ऐसे सुखसाध्य हैं, जिनमें क्रियत्पूर्वक या अयत्नपूर्वक ( योग्य या अयोग्य वैद्य ) के चिकित्सा करने से भी निश्चित रूप में आराम होजाते हैं । दूसरे असाध्य रोग हैं, जिनको 'याप्य' कहा है । जिन सुखपूर्वक सिद्ध होने वाले रोगों में चिकित्सा करने पर भी जो याप्य रहते हैं, वे कुछ समय के लिये अच्छे हो जाते हैं ।

नन्ति चाप्यपरे रोगाः कर्म येषु न सिध्यति ।

अपि यत्र कृतं वैद्यैर्न तान् विद्वानुपाचरेत् ॥ ४२ ॥

साध्याश्च वाऽयमाध्याश्च व्याधयो द्विविधाः स्मृताः ।

मृदुदारुणभेदेन ते भवन्ति चतुर्विधाः ॥ ४३ ॥

एक और प्रकार के रोग हैं, जिनमें किसी प्रकार की भी चिकित्सा सफल नहीं होती । इन रोगों में मूढ़ लोग ही उत्साह से काम करते हैं, परन्तु विद्वान् इनकी चिकित्सा नहीं करते । रोग दो प्रकार के हैं—'साध्य' और 'असाध्य' । और मृदु और दारुण भेद से (दोनों) चार प्रकार के रोग होते हैं । मृदु-साध्य, दारुण-साध्य, मृदु-असाध्य और दारुण-असाध्य ।

त एवापरिसंस्थया भिद्यमाना भवन्ति हि ।

रुजावर्णान्मसुत्थानस्थानसंस्थाननामभिः ॥ ४४ ॥

व्यवस्थाकरणं तेषां यथास्थूलेषु संग्रहः ।

तथा प्रकृतिसामान्य विकारं पूषदिश्यते ॥ ४५ ॥

विकारनामाकुशलो न जिहीयात्कटाचन ।

न हि सर्वविकागणा नामतोऽस्ति ध्रुवा स्थितिः ॥ ४६ ॥

स एव कुपितो दोषः समुत्थानविशेषतः ।

स्थानान्तरगतश्चैव जनयत्यामयान् बहून् ॥ ४७ ॥

तन्माद्विकारप्रकृतीरधिष्ठानान्तर्गणि च ।

समुत्थानविशेषाश्च बुद्ध्वा कर्म समाचरेत् ॥ ४८ ॥

यां गतन्त्रिविधं ज्ञात्वा कर्माग्यारभते भिषक् ।

ज्ञानपूर्वं यथान्याय स कर्मसु न मुह्यति ॥ ४९ ॥

ये रोग रोग ( पाण्ड ), वर्ण, समुत्थान अर्थात् कारण ( जैसे रूक्ष भोजन या रात्रि जागरण आदि के कारण से वायु कुपित होकर भिन्न विरिन्ता में स्थान होता है ), स्थान ( आमाशय, रसादि ), संस्थान ( भास्त्रि गुण, वरुण आदि ), नामभेद यथा ( राजयक्ष्मा के राजयक्ष्मा, शोष आदि ) इन भेदों के कारण भेद होने से अमर्य बन जाते हैं ।

चिकित्सा कार्य मे व्यवहार करने के लिये स्थूल संग्रह ( अष्टोदरीय संग्रह ) किया है । इसलिये चिकित्सा कार्य मे प्रकृति की समानता से यह रोग वातजन्य, यह पित्तजन्य, यह कफजन्य इत्यादि रोगों की व्यवस्था बांधनी चाहिये । रोगों को नाम से न जानने वाला वैद्य कभी भी चिकित्सा कार्य में लज्जा न उठावे । सब रोगों की नाम द्वारा स्थिति नहीं, सब रोगों के नाम नहीं है । कोई एक दोष कारण विशेष से कुपित होकर अन्य स्थान पर पहुँचकर नाना प्रकार के रोगों को उत्पन्न कर देता है । इसलिये रोग के स्वभाव को, उस के अधिष्ठान को, उस के भेदों को और रोग के विशेष कारणों को जानकर चिकित्सा कार्य करना चाहिये । जो वैद्य इन तीन बातों को जानकर चिकित्सा का कार्य ज्ञानपूर्वक उचित रूप से करता है, वह चिकित्सा कार्य में मोहित नहीं होता, वह भूल नहीं करता ।

नित्या प्राणभृतां देहे वातपित्तकफास्त्रयः ।

विकृताः प्रकृतिस्था वा तान् बुभुत्सेत पण्डित ॥ ५० ॥

उत्साहोच्छ्वासनिश्वासचेष्टा धातुगतिः समा ।

समो मोक्षो गतिमतां वायोः कर्माविकारजम् ॥ ५१ ॥

दर्शनं पक्तिरूपमा च क्षुत्तृष्णा देहमार्दवम् ।

प्रभा प्रसादो मेधा च पित्तकर्माविकारजम् ॥ ५२ ॥

स्नेहो बन्धः स्थिरत्वं च गौरवं वृषता बलम् ।

क्षमा धृतिरलोभश्च कफकर्माविकारजम् ॥ ५३ ॥

वाते पित्ते कफे चैव क्षीणे लक्षणमुच्यते ।

कर्मणः प्राकृताद्धानिर्बृद्धिर्वाऽपि विरोधिनाम् ॥ ५४ ॥

दोषप्रकृतिवैशेष्यं नियतं वृद्धिलक्षणम् ।

दोषाणां प्रकृतिर्हानिर्बृद्धिश्चैवं परीक्ष्यते ॥ ५५ ॥ इति ॥

शरीरधारियों के शरीर मे वात, पित्त और कफ ये तीनों नित्य सदा रहते हैं । वे या तो विकृत अवस्था मे रहते हैं, या प्रकृत अर्थात् स्वाभाविक



रूप में रहते हैं। विद्वान् को चाहिये कि वह इन को पहिचाने, जाने कि विकृतावस्था में हैं, या प्रकृतावस्था में। काम करने में उत्साह, सांस का और बाहर आना, चेष्टा, रस, रक्त आदि धातुओं की गति को समान रखना, पुरीष, मल-मूत्र आदि गमन शील वस्तुओं को ठीक प्रकार से बाहर करना, ये अविकृत वायु के कर्म हैं। देखना, अन्न का पचन, देहकी, उष्णिमा, भूख प्यास का लगना, शरीर की कोमलता, कान्ति, मन की प्रसन्नता, और बुद्धि का होना ये अविकृत पित्त के कार्य हैं। चिकनाई, सन्धियों का बन्धन, स्थिरता, भारीपन, पुरुषत्व, बल, सहन शक्ति, मन की स्थिरता, धैर्य, लोभ का न होना ये अविकृत कफ के कार्य हैं। वात, पित्त, कफ इन के क्षीण होने पर लक्षण कहते हैं—स्वाभाविक कर्मों में न्यूनता आती है अथवा स्वाभाविक कर्मों के विरोधी कार्यों की वृद्धि होती है (यथा वायु के क्षीण होने पर उत्साह के विपरीत विपाद बढ़ता है, पित्त के क्षीण होने पर नहीं दीखता, कफ के क्षीण होने पर रूक्षता बढ़ती है)। वृद्धि का लक्षण कहते हैं—दोष की प्रकृति (स्वभाव) का वैषम्य (बढ़ना) वृद्धि का लक्षण होता है। यथा—कफ की स्निग्धता, मधुरता और श्रोतलता यह प्रकृति है, इसका अति स्निग्ध, अति शीत होना वृद्धि है। इस प्रकार दोषों की प्रकृति, हानि और वृद्धि की परीक्षा करनी चाहिये।

तत्र श्लोकाः ।

संख्यां निमित्तं रूपाणि शोथानां साध्यतां न च ।

तेषां तेषां विकाराणां शोफांस्तांस्तांश्च पूर्वजान् ॥ ५६ ॥

विधिभेदं विकाराणां त्रिविधं बोध्यसंग्रहम् ।

प्राकृतं कर्म दोषाणां लक्षणं हानिवृद्धिषु ॥ ५७ ॥

वीतरागरजोदोषलोभमानमदस्पृहः ।

न्याख्यातवांस्त्रिशोफीये रोगाध्याये पुनर्वसुः ॥ ५८ ॥

शोथों की संख्या, कारण, लक्षण, साध्यासाध्य इनसे उत्पन्न रोगों को और जिन रोगों में शोथ प्रथम होता है, उनको रोगों के विधि, भेद से तीन

प्रकार की प्रकृति का ज्ञान, दोषों के स्वाभाविक कर्म, वृद्धि और हानि के लक्षण, यह सब मोह, रज दोष, लोभ, मान, मद, स्पृहा इन से रहित पुनर्वसु महर्षि ने 'त्रिशोथीय' अध्याय में कह दिया ।

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने रोगचतुष्के  
त्रिशोफीयो नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

## ऊनविंशोऽध्यायः ।

अथातोऽष्टोदरीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब 'अष्टोदरीय' अध्याय की व्याख्या करेंगे, ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

इह खल्वष्टावुदराणि, अष्टौ मूत्राघाताः, अष्टौ क्षीरदोषाः, अष्टौ रेतोदोषाः, सप्त कुष्ठानि, सप्त पिडकाः, सप्त वीसर्पाः, षडतीसाराः, षडुदावर्ताः, पञ्च गुल्माः, पञ्च प्लीहदोषाः, पञ्च कासाः, पञ्च श्वासाः, पञ्च हिक्काः, पञ्च तृष्णा, पञ्च छर्दयः, पञ्च भक्तस्यानशनस्थानानि, पञ्च शिरोरोगाः, पञ्च हृद्रोगाः, पञ्च पाण्डुरोगाः, पञ्चोन्मादाः, चत्वारोऽपस्मारा, चत्वारोऽक्षिरोगाः, चत्वारः कर्णरोगाः, चत्वारः प्रतिश्यायाः, चत्वारो मुखरोगाः, चत्वारो ग्रहणीदोषाः, चत्वारो मदाः, चत्वारो मूर्च्छायाः, चत्वारः शोषाः, चत्वारि क्लैब्यानि, त्रयः शोथाः, त्रोगि किलासानि, त्रिविधं लोहितपित्तं, द्वौ ज्वरौ, द्वौ ब्रणौ, द्वावायामौ, द्वे गृध्रस्यौ, द्वे कामले, द्विविधमामं, द्विविधं वातरक्तं, द्विविधान्यर्शासि, एक ऊरुस्तम्भः, एकः संन्यासः, एको महागदः, विंशतिः क्रिमिजातयः, विंशतिः प्रमेहाः, विंशतिर्योनिव्यापदः, इत्यष्टचत्वारिंशद्दोगाधिकरणान्यस्मिन् संग्रहे समुद्दिष्टानि ॥३॥

इस आयुर्वेद शास्त्र में आठ प्रकार के उदर रोग हैं, आठ मूत्राघात हैं, आठ प्रकार के दूध के दोष, आठ प्रकार के वीर्य दोष । सात प्रकार के

कुष्ठ, सात पिडकायें, सात वीसर्प । छ. प्रकार के अतीसार, छः उदावर्त । पांच गुल्म, पांच प्लीहां के दोष, पांच कास, पांच श्वास, पांच हिचकियां, पांच तृष्णायें, पांच छर्दि-वमन, पांच प्रकार की अन्न में अरुचि, पांच प्रकार के शिरोरोग, पांच हृदय रोग, पांच प्रकार के पाण्डुरोग, पांच उन्माद । चार प्रकार के अपस्मार, चार नेत्ररोग, चार कर्णरोग, चार प्रकार के प्रतिदयाय, चार मुख रोग, चार प्रकार के ग्रहणी रोग, चार प्रकार के मद रोग, चार प्रकार की मूर्च्छा, चार प्रकार के शोथ, चार प्रकार की क्लीवता, तीन प्रकार का शोथ, तीन प्रकार का किलास, तीन प्रकार का रक्तपित्त, दो प्रकार का ज्वर, दो प्रकार के घ्रण, दो प्रकार के आयाम, दो प्रकार की गृध्रसी, दो प्रकार का कामला, दो प्रकार की आम, दो प्रकार का वात रक्त, दो प्रकार का अर्श । एक प्रकार का अस्तम्भ, एक प्रकार का संन्यास, एक प्रकार का महामद, बीस प्रकार के कृमि भेद, बीस प्रकार के प्रमेह, बीस प्रकार के योनि रोग, इस प्रकार से इस स्थूल संग्रह में अडतालीस प्रकार के रोगों की गणना है । इन को स्पष्ट करके कहते हैं—

एतानि यथोद्देशमभिनिर्देक्ष्यामः—अष्टावुदराणीति वातपित्तकफसन्निपातप्लीहवद्वच्छिद्रदृक्कोदराणीति, अष्टौ मूत्राघाता इति वातपित्तकफसन्निपाताशमरीशर्कराशुक्रशोणितजा इति, अष्टौ क्षीरदोषा इति वैवर्ण्यं वैगन्ध्यं वैरस्य पैच्छिल्यं फेनसङ्घातो रौक्ष्यं गौरवमतिस्नेहश्चेति, अष्टौ रेतोदोषा इति तनु शुष्कं फेनिलमश्वेतं पूत्यतिपिच्छिलमन्यथातूपहितमवसादि चेति ॥ ( १ ) ॥

२१८ प्रकार के उदर रोग हैं—वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, सन्निपातजन्य, प्लीहोदर, वदोदर, छिद्रोदर और दृकोदर ये आठ । आठ मूत्राघात—वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, सन्निपातजन्य, अशमरीजन्य, शर्कराजन्य, शुक्रजन्य और शोणितजन्य । स्त्रियों के दूध में आठ प्रकार के दोष हैं—वैवर्ण्य, वैगन्ध्य, वैरस्य, पैच्छिल्य, फेनसङ्घात ( क्षाग का बहुत आना ), रौक्ष्य ( रुखापन ), गौरव ( भारीपन पानी में नीचे बैठना )

और अतिस्नेह ( चिकनाई की अधिकता ) । वीर्य के दोष आठ हैं—तनु ( पतला ), शुष्क, फेनिल ( झागदार ), अश्वेत ( मैला, धूसर रंग ), पूति ( दुर्गन्धयुक्त ), अति पिच्छिल ( बहुत चिकना ), अन्य धातु से मिश्रित और अवसादि ( हीनसत्त्व ) ।

सप्त कुष्ठानीति कपालोदुम्बरमण्डलर्ष्यजिह्वपुण्डरीकसिध्मकाकणकानीति, सप्त पिडका इति शराविका कच्छपिका जालिनी सर्षप्यलजी विनता विद्रधिश्चेति, सप्त वीसर्पा इति वातपित्तकफाग्निर्दमग्रन्थिसन्निपाताख्याः ॥ ( २ ) ॥

सात प्रकार के कुष्ठ—कपाल, उदुम्बर, मण्डल, ऋष्यजिह्व, पुण्डरीक, सिध्म और काकणिका । सात पिडकाये—शराविका, कच्छपिका, जालिनी, सर्पपी, अलजी, विनता और विद्रधि । सात विसर्प—वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, अग्नि, कर्दमक, ग्रन्थि और सन्निपातजन्य ।

षडतीसारा इति वातपित्तकफसन्निपातभयशोकजाः, षडुदावर्ता इति वातमूत्रपुरीषशुक्रच्छर्दिक्षवथुजाः ॥ ( ३ ) ॥

छः अतीसार है—वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, सन्निपातजन्य, भयजन्य और शोकजन्य । छः उदावर्त हैं—वातजन्य, मूत्रजन्य, पुरीषजन्य, शुक्रजन्य, छर्दिजन्य और क्षवथुजन्य ।

पञ्च गुल्मा इति वातपित्तकफसन्निपातरक्तजाः । पञ्च घ्नीहदोषा इति गुल्मैर्व्याख्याताः । पञ्च कासा इति वातपित्तकफक्षतक्षयजाः, पञ्च श्वासा इति महोर्ध्वच्छिन्नतमकक्षुद्राः । पञ्च हिक्का इति महती गम्भीरा व्यपेता क्षुद्रा चान्नजा च । पञ्च तृष्णा इति वातपित्तामक्षयोपसर्गात्मिकाः । पञ्च छर्दय इति द्विष्टार्थसंयोगवातपित्तकफसन्निपातोद्रेकात्मिकाः । पञ्च भक्तस्यानशनस्थानानीति वातपित्तकफद्वेषायासाः, पञ्च शिरोरोगा इति पूर्वोद्देशमभिसमस्य वातपित्तकफसन्निपातक्रिमिजाः । पञ्च हृद्रोगा इति शिरोरोगैर्व्याख्याताः । पञ्च

पाण्डुरोगा इति वातपित्तकफसन्निपातमृद्भक्षणाजाः । पञ्चोन्मादा इति वातपित्तकफसन्निपातागन्तुनिमित्ताः ॥ ( ४ ) ॥

पांच गुल्म है—वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, सन्निपातजन्य और रक्त ( आर्तव ) जन्य । पांच प्रकार के प्लीहा दोष—गुल्म के समान ( वात, पित्त, कफ, सन्निपात और रक्तजन्य ) है । पांच प्रकार के कास—वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, क्षत ( उर. क्षत ) जन्य और क्षयजन्य । पांच प्रकार के श्वास—महा, ऊर्ध्व, छिन्न, तमक और क्षुद्र । पांच प्रकार की हिक्का ( हिचकी )—महती, गम्भीरा, व्यपेता, क्षुद्रा और अन्नजन्य । पांच प्रकार की प्यास ( तृषा )—वातजन्य, पित्तजन्य, आमजन्य, क्षयजन्य और औपसर्गिक कारण से होने वाली । वमन भी पांच प्रकार का है—दूषित अन्न के खाने से, वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य और सन्निपात से होने वाला । पांच प्रकार का अपचन—वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, द्वेष ( भोजन से द्वेष ) और आयास ( भोजन के पीछे सहसा श्रम करने से ) । पांच प्रकार के शिरोरोग—(‘अर्द्धावभेदको वा स्यात्’ से आरम्भ करके ‘क्रियन्त शिरसीय’ अध्याय में कह दिये गये हैं) । वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, सन्निपातजन्य और कृमिजन्य । पांच प्रकार के हृदय रोग—शिरोरोग की भांति है । पांच पाण्डुरोग—वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, सन्निपातजन्य और मिट्टी के खाने से उत्पन्न । पांच प्रकार का उन्माद—वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, सन्निपात और आगन्तुज कारण से ।

चत्वारोऽपस्मारा इति वातपित्तकफसन्निपातनिमित्तजाः । चत्वारोऽक्षिरोगा चत्वारः कर्णरोगाः, चत्वारः प्रतिश्यायाः, चत्वारो मुखरोगाः, चत्वारो ग्रहणीदोषाः, चत्वारो मदाः, चत्वारो मूर्च्छाया इत्यपस्मारव्याख्याताः । चत्वारः शोषा इति साहस्रसधारणक्षयविषमाशनजाः, चत्वारि क्लेश्यानीति वीजोपघाताद्वजभङ्गाज्जरायाः शुक्रक्षयाच्च ॥ ( ५ ) ॥

चार अपस्मार—वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य और सन्निपातजन्य ।

चार आंख के और चार कान के रोग, चार प्रतिश्याय, चार मुख रोग, चार ग्रहणी दोष, चार मद, चार मूर्च्छाये, ये अपस्मार के समान (वात, पित्त, कफ और सन्निपातजन्य) है। चार प्रकार का शोष, साहस, सन्धारण (मन्-सूत्र के उपस्थित वेगो का रोकना), क्षय तथा विषम भोजनजन्य। चार प्रकार की नपुंसकता—बीज के (वीर्य के) दोष से, ध्वज (साधन) के दोष से, जरा (बुढ़ापे) से और शुक्र के क्षय के कारण।

त्रयः शोथा इति वातपित्तश्लेष्मनिमित्ताः, त्रीणि किलासानीति रक्तताम्रशुक्लानि, त्रिविधं लोहितपित्तमित्यूर्ध्वभागमधोभागमुभयभागं च ॥ ( ६ ) ॥

शोथ तीन प्रकार का—वातजन्य, पित्तजन्य और कफजन्य। तीन प्रकार के किलास—रक्त (लाल), ताम्र और शुक्ल (श्वेत)। तीन प्रकार का रक्तपित्त ऊर्ध्वगामि, अधोगामी और उभयगामी (ऊर्ध्व एवं अधः दोनों मार्गों से जानने वाला)।

द्वौ ज्वराविति उष्णाभिप्रायः शीतसमुत्थश्च शीताभिप्रायश्चोष्णसमुत्थ, द्वौ व्रणौ इति निजश्चागन्तुजश्च, द्वावायामाविति बाह्यश्चाभ्यन्तरश्च, द्वे गृध्रस्याविति वाताद्वातकफाच्च, द्वे कामले इतिकोष्ठाश्रया शाखाश्रया च, द्विविधमाममित्यलसको विसूचिका च, द्विविधं वातरक्तमिति गम्भीरमुत्तानं च, द्विविधान्यर्शासीति शुष्काण्यार्द्राणि च ॥ ( ७ ) ॥

ज्वर दो प्रकार का—शीत से उत्पन्न हुआ, जिसमें उष्ण उपचार की इच्छा हो, यह एक प्रकार का, उष्णिमा से उत्पन्न हुआ जिसमें शीत उपचार की इच्छा हो, यह दूसरी प्रकार का। व्रण दो प्रकार के—निज (शारीरिक) और आगन्तुज (बाह्य कारण से)। दो आयाम—बाह्य और अभ्यन्तर। दो प्रकार का गृध्रसी रोग—वातजन्य और वात-कफजन्य। कामला दो प्रकार का—कोष्ठाश्रित और शाखाश्रित। आम दो प्रकार का—अलसक

और विसृचिका ( हैजा ) । वातरक्त दो प्रकार का—गम्भीर और उत्तान ( त्वचा के पृष्ठवृत्ति ), अर्श दो प्रकार के—शुष्क और आर्द्र ।

एक ऊरुस्तम्भ इति आमत्रिदोषसमुत्थानः, एकः संन्यास इति त्रिदोषात्मको मन शरीराधिष्ठानसमुत्थ , एको महागद इति अतत्त्वाभिनिवेश ॥ ( ८ ) ॥

उरुस्तम्भ एक प्रकार का—आम दोषमिश्रित त्रिदोष जन्य । संन्यास एक प्रकार का त्रिदोषजन्य, मन और शरीर में आश्रित । महागद एक प्रकार का अतत्त्वाभिनिवेश अर्थात् यथार्थ तत्त्व का न जानना यह मन का विकार है और संसार के सब दुःखों का कारण है ।

विंशति क्रिमिजातय इति यूका पिपीलिकाश्चेति द्विविधा वह्निर्मलजा., केशादाः लोमादा लोमद्वीपा सौरसा औदुम्बरा जन्तुमातरश्चेति षट् शाणितजा., अन्त्रादा उदरादा हृदयदराश्चुरवो दर्भपुष्पा सौगन्धिका महागुदाश्चेति सप्त कफजा , ककेरुका मकेरुका लेलिहाः सशूलकाः सौसुरादाश्चेति पञ्च पुरीषजा इति विंशतिः क्रिमिजातयः । विंशतिः प्रमेहा इति उदकमेहश्चेक्षुरसमेहश्च सान्द्र-मेहश्च सान्द्रप्रसादमेहश्च शुक्लमेहश्च शुक्रमेहश्च शीतमेहश्च शनैर्महश्च सिकतामेहश्च लालामेहश्चेति दश श्लेष्मनिमित्ताः, चारमेहश्च काल-मेहश्च नीलमेहश्च लोहितमेहश्च मञ्जिष्ठामेहश्च हरिद्रामेहश्चेति षट् पित्तनिमित्ताः, वसामेहश्च मज्जमेहश्च हस्तिमेहश्च मधुमेहश्चेति चत्वारो वातनिमित्ता इति विंशतिः प्रमेहा. । विंशतिर्योनिव्यापद इति वातिकी पैत्तिकी श्लेष्मिकी सान्निपातिकी चेति चतस्र, दोषदूष्य-संसर्गप्रकृतिनिर्देशैरवशिष्टा षोडश निर्दिश्यन्ते, तद्यथा—रक्तयोनि-श्चारजस्का चाचरणा चातिचरणा च प्राक्चरणा चोपप्लुता चोदावतिनी च कर्णिनी च पुत्रव्री चान्तमुखी च सूचीमुखी च शुष्का च वामिनी च षण्डयोनिश्च महायोनिश्चेति विंशतिर्योनि-व्यापदः । केवलश्चायमुद्देशो यथोद्देशमभिनिर्दिष्ट इति ॥ ४ ॥

कृमियो की जातियां बीस प्रकार की है, यथा—यूक (जूं) और पिपीलिकाएं (लोग) ये दो प्रकार के कृमि बाह्य मल (पसीने आदि) से उत्पन्न होते हैं। केशाद, लोमाद, लोमद्वीप, सौरस, औदुम्बर और जन्तुमाता ये छ रक्तजन्य, अन्त्राद, उदराद, हृदयचर, चुरु, दर्भपुष्प, सौगन्धिक, महागुद ये सात कफजन्य, ककेरुक, लेलिह, सशूलक, और सौसराद ये पांच पुरीषजन्य हैं। ये बीस प्रकार के कृमि हैं।

प्रमेह बीस प्रकार के हैं शुक्लमेह, शुक्रमेद, शीतमेह, शनैर्मेह, सिकतामेह, लालामेह उदकरोह, इक्षुमेह, सान्द्रमेह, सान्द्रप्रसादमेह ये दस प्रमेह कफजन्य; क्षारमेह, कालमेह, नीलमेह, लोहितमेह, मंजिष्ठा मेह, हरिद्रामेह ये छ प्रमेह पित्तजन्य, वसामेह, मज्जामेह, हस्तिमेह और मधुमेह ये चार प्रमेह वातजन्य हैं। इस प्रकार से बीस प्रकार के प्रमेह हैं। योनि रोग बीस प्रकार के हैं यथा वातिकी, पैत्तिकी, श्लैष्मिकी और सात्रिपातिकी ये चार और बाकी सोलह दोष वातादि, दूष्य रक्षादि, इनके संसर्ग से तथा प्रकृति निर्देश से होते हैं यथा—रक्तयोनि, अरज-स्का, अचरणा, अतिचरणा, प्राक्चरणा, उपप्लुता, परिप्लुता, उदावर्तिनी, कर्णिनी, पुत्रघ्नी, अन्तर्मुखी, सूचीमुखी, शुष्का, वामिनी, पण्डयोनि, और महायोनि ये बीस प्रकार के योनिरोग हैं यहां पर केवल रोगों की नाम गणना ही की गई है, आगे विस्तार से यथास्थान कहेंगे।

सर्व एव विकारा निजा नान्यत्र वातपित्तकफेभ्यो निर्वर्तन्ते, यथा हि शकुनिः सर्वं दिवसमपि परिपतन् स्वां छायां नातिवर्तते, तथा स्वधातुवैषम्यनिमित्ताः सर्वविकारा वातपित्तकफान्नातिवर्तन्ते, वातपित्तश्लेष्मणां पुनः स्थानसंस्थानप्रकृतिविशेषानभिसमीक्ष्य तदा-त्मकानपि च सर्वविकारांस्तानेवोपदिशन्ति बुद्धिमन्त इति ॥ ५ ॥

कहे या न कहे हुए सब प्रकार के रोग (शारीरिक रोग) वात पित्त कफ को छोड़कर नहीं हो सकते। वातपित्त कफ के कारण ही सब शारीरिक रोग होते हैं। जिस प्रकार कि सारे दिन भर उड़ता रहने पर भी पक्षी अपनी छाया का अतिक्रमण (उलंघन) नहीं कर सकता, उसी



प्रकार शरीर के धातुओं की विपमता से उत्पन्न होने वाले सब रोग वात पित्त और कफ को नहीं छोड़ सकते । वात, पित्त और कफ ही स्थान ( रसादि वस्ति आदि ), संस्थान ( आकृति लक्षण ), प्रकृति ( कारण ) इनकी विशेषताओं को देखकर, एवं वातादि जन्य सब विकारों को इन्हीं से उत्पन्न उक्त बुद्धिमान् कहते हैं ।

भवत्तश्चात्र ।

स्वधातुवैषम्यनिमित्तजा ये विकारमङ्घ्रा वहवः शरीरे ।

न ते पृथक् पित्तकफानिलेभ्य आगन्तवस्त्वेव ततो विशिष्टाः ॥६॥

आगन्तुरन्वेति निजं विकारं निजस्तथाऽऽगन्तुमपि प्रवृद्ध ।

तत्रानुबन्धं प्रकृतिं च सम्यक् ज्ञात्वा तत कर्म समारभेत ॥७॥

प्रायः जितने रोग शरीर के अन्दर शरीर की धातुओं की विपमता से उत्पन्न होते हैं, वे पित्त, कफ और वायु से पृथक् नहीं होते । आगन्तुक रोग इन वात, पित्त, कफ में पृथक् हैं ।

निज (स्वतः शरीर में उत्पन्न हुए) रोग को आगन्तुज रोग अनुगमन करता है । इसी प्रकार आगन्तुज ( अभिघातजन्य ) रोग के पीछे ( कारण को लेकर), निज (अर्थात् शारीरिक लक्षणों से लक्षित) रोग भी हो जाता है । जैसे चोट लगने के पीछे ज्वर हो जाता है इसलिये अनुबन्ध ( अप्रधान, अमुख्य ) और प्रकृति ( मूल कारण ) को भली प्रकार जान कर चिकित्सा कर्म आरम्भ करना चाहिये ।

तत्र श्लोकौ । विशकाश्चैककाश्चैव त्रिकाश्चोक्तास्त्रयस्त्रयः ।

द्विकाश्चाष्टौ चतुष्काश्च दश द्वादश पञ्चकाः ॥ ८ ॥

चत्वारश्चाष्टका वर्गाः षट्कौ द्वौ सप्तकास्त्रयः ।

अष्टोदरीये रोगाणामध्याये सप्तकाशिता ॥ ९ ॥

इस 'अष्टोदरीय' नामक अध्याय में बीस प्रकार के तीन, एक प्रकार के तीन, तीन प्रकार के तीन, दो प्रकार के आठ, चार प्रकार के दस, बारह

प्रकार के पांच, चार प्रकार के आठ छः प्रकार के दो और सात प्रकार के तीन रोग कहे हैं ।

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिस्मृतकृते सूत्रस्थाने रोगचतुष्के

अष्टोदरीयो नामैकोनविंशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

## विंशोऽध्यायः ।

अथातो महारोगाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब इस अध्याय में वातादि जन्य महा रोगों का ही विशेषरूप से वर्णन करेंगे ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

चत्वारो रोगा भवन्ति—आगन्तुवातपित्तश्लेष्मनिमित्ताः । तेषां चतुर्णामपि रोगाणां रोगत्वमेकविधं, रुक्सामान्यात् । द्विविधा पुनः प्रकृतिरेषां, आगन्तुनिजविभागात् । द्विविधं चैषामधिष्ठानं, मनःशरीरविशेषात् । विकाराः पुनरेषामपरिसंख्येयाः, प्रकृत्यधिष्ठान-लिङ्गायतनविकल्पविशेषात्, तेषामपरिसंख्येयत्वात् ॥ ३ ॥

मुखानि तु खल्वागन्तोर्नखदशनपतनाभिचाराभिशापाभिषङ्ग-व्यधबन्धपीडनरज्जुदहनमन्त्राशानिभूतोपसर्गादीनि, निजस्य तु मुखं वातपित्तश्लेष्मणां वैषम्यम् ॥ ४ ॥

द्वयोस्तु खल्वागन्तुनिजयोः प्रेरणमसात्म्येन्द्रियार्थसंयोगः, प्रज्ञापराधः, परिणामश्चेति ॥ ५ ॥

सर्वेऽपि तु खल्वेतेऽभिप्रवृद्धाश्चत्वारो रोगाः परस्परमनुवर्तन्ति, न चान्योन्यसंदेहमापद्यन्ते ॥ ६ ॥

आगन्तुर्हि व्यथापूर्वसमुत्पन्नो जघन्यं वातपित्तश्लेष्मणां वैष-म्यमापादयति, निजे तु वातपित्तश्लेष्माणः पूर्वं वैषम्यमापद्यन्ते, जघन्यं व्यथामभिनिर्वर्तयन्ति ॥ ७ ॥

तेषां त्रयाणामपि दोषाणां शरीरे स्थानविभाग उपदेक्ष्यते, तद्यथा—वस्ति. पुरीषावानं कटि. सक्थिनी पादावस्थीनि च वातस्थानानि, तत्रापि पक्काशयो विशेषेण वातस्थानं, खेदो रसो लसीका रुधिरमामाशयश्च पित्तस्थानानि, तत्राप्यामाशयो विशेषेण पित्तस्थानं, उर शिरो ग्रीवा पर्वाण्यामाशयो मेदश्च श्लेष्मणः स्थानानि, तत्राप्युरो विशेषेण श्लेष्मणः स्थानम् ॥ ८ ॥

सर्वशरीरचरास्तु वातपित्तश्लेष्माणो हि सर्वस्मिन् शरीरे कुपिताकुपिताः शुभाशुभानि कुर्वन्ति—प्रकृतिभूताः शुभान्युपचयचलवर्णप्रसादादीनि, अशुभानि पुनर्विकृतिमापन्नानि विकारसंज्ञकानि ॥ ९ ॥

तत्र विकाराः—सामान्यजा, नानात्मजाश्च । तत्र सामान्यजाः पूर्वमष्टोदरीये व्याख्याताः, नानात्मजास्त्रिहाध्यायेनुव्याख्यात्यामः, तद्यथा—अशीतिर्वातविकाराः, चत्वारिंशत्पित्तविकाराः, विंशतिः श्लेष्मविकाराः ॥ १० ॥

रोग चार प्रकार के हैं आगन्तुज, वात, पित्त, कफजन्य । इन चारों में ही 'रोग' सामान्य है, इसलिये एक प्रकार है, वेदना की समानता होने से । इन चारों प्रकार के रोगों की प्रकृति दो प्रकार की है, आगन्तुज और निज शरीर में उत्पन्न होने वाले । इन रोगों के अधिष्ठान, आश्रय दो प्रकार के हैं, मन और शरीर । किन्तु रोग असंख्य है । क्योंकि प्रकृति, कारण, नाम आदि अधिष्ठान ( दूय, रस, रक्तादि ), लिंग ( लक्षण ), आयतन (वायु हेतु—दुष्ट आहार-विहार) इनके भेद असंख्य है इसलिये रोग भी अगणित प्रकार के हो जाते हैं । आगन्तुज रोगों के मुख्य कारण-दान्त का लगना, गिरना, अभिचार ( जारण मारण ), अभिशाप शाप देना, अभिपङ्ग, अभिघात (चोट का लगना), वध (मारना), बन्धन (बांधना), दवानी, रस्सी से बांधना, जलाना, शस्त्र का लगना, त्रिजली का गिरना, ये सूक्ष्मभूत तत्त्व के उपद्रव के कारण हैं । निज शारीरिक जन्य

रोगो के मुख्य कारण वात, पित्त और कफ की विषमता है। इन दोनों ( अगन्तुज और निज ) प्रकार के रोगों का मूल प्रेरक ( प्रवृत्ति का ) कारण असात्म्येन्द्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम है। ये चारो प्रकार के रोग बढ़कर परस्पर एक दूसरे में मिल जाते हैं। परन्तु तो भी सन्देह को उत्पन्न नहीं करते। परस्पर मिलने पर भी लक्षण पृथक् २ दीख पड़ते हैं। आगन्तुज रोग प्रथम शरीर के अन्दर पीडा को उत्पन्न करता है और पीछे से वात, पित्त और कफ की विषमता को उत्पन्न करता है। निज रोग प्रथम वात, पित्त, कफ की विषमता को उत्पन्न करते हैं और फिर पीछे से पीडा को उत्पन्न करते हैं। तानों ही दोषो का शरीर में स्थान विभाग कहते हैं—यथा—वस्ति (मूत्राशय), पुरीपाधान ( पक्काशय ), कटि ( कमर), सक्थिण् ( जंघाये ) और पांशु की अस्थियां ये वायु के स्थान हैं ❀ । इनमें भी पक्काशय विशेष करके वायु का स्थान है। पसीना, रस, लसीका (Lymph-पानी का चिक्रण भाग ) रुधिर और आमाशय ये पित्त के स्थान है। इनमें भी आमाशय मुख्य करके पित्त का स्थान है। छाती, शिर, ग्रीवा, व सन्धियां, आमाशय का ( ऊपर का भाग ) और मेद, ये कफ के स्थान हैं इनमें भी छाती विशेष करके कफ का स्थान है। ये वात, पित्त, कफ तीनों दोष सम्पूर्ण शरीर में गति करते हैं, और गति करते हुए कुपित्त या अकुपित्त अवस्था में रहकर सम्पूर्ण शरीर में शुभ या अशुभ लक्षणों को उत्पन्न करते हैं। यथा—प्रकृतिभूत स्वस्वरूप में रहकर शुभ लक्षणों को यथा उपचय(शरीर की पुष्टि), बल-कान्ति की वृद्धि, वर्ण (कान्ति) की उज्ज्वलता और विकृत (कुपित्त रूप) अशुभ लक्षणों ( रोगों ) को उत्पन्न करते हैं।

❀ प्राण अपान भेद से वायु के स्थान अन्यत्र कहेंगे। यहां पर बताया हुआ स्थानों में इन दोषो के विकार प्रायः करके होते हैं, अतः इनकी गणना की है।

† आमाशय के ऊर्ध्वभाग में पित्त और अधोभाग में कफ का स्थान है।

विकार ( रोग ) दो प्रकार के हैं—सामान्य और नानात्मज । सामान्य-  
वातादि दोष प्रत्येक मिलकर जो रोग उत्पन्न करते हैं । नानात्मज—जब  
वातादि दोष परस्पर न मिल कर स्वतन्त्ररूप से रोग उत्पन्न करते हैं ।  
इनमें सामान्यज रोग पहिले 'अष्टोदरीष' अध्याय में कह दिये हैं और  
नानात्मज रोगों का इस अध्याय में वर्णन करेंगे । यथा—अस्सी प्रकार के  
वात रोग, चालीस प्रकार के पित्तरोग और बीस प्रकार के कफ रोग हैं ।

तत्रादौ वातविकाराननुव्याख्यास्यामः, तद्यथा—नखभेदश्च,  
विपादिका च, पादशूलं च, पादभ्रंशश्च, पादसुप्तता च, वातखुड्दता  
च, गुल्फग्रहश्च, पिण्डकोद्वेष्टनं च, गृध्रसी च, जानुभेदश्च, जानु-  
विश्लेषश्च, ऊरुस्तम्भश्च, ऊरुसादश्च, पाङ्गुल्यं च, गुदभ्रंशश्च, गुदा-  
र्तिश्च, वृषणोत्क्षेपश्च, शेषस्तम्भश्च, वङ्क्षणाहाश्च, श्रोणिभेदश्च,  
विड्भेदश्च, उदावर्तश्च, खञ्जत्वं च, [ कुब्जत्वं च, ] वामनत्वं च,  
त्रिकग्रहश्च, पृष्ठग्रहश्च, पार्श्वामर्दश्च, उदरात्रेष्टश्च, हन्मोहश्च, हृद्द्र-  
वश्च, वक्षोद्धर्षश्च, वक्षोपरोधश्च, ( वक्षस्तोदश्च, ) बाहुशोषश्च,  
ग्रीवास्तम्भश्च, मन्यास्तम्भश्च, कण्ठोद्ध्वंसश्च, हनुस्तम्भश्च, ओष्ठ-  
भेदश्च, ( अक्षिभेदश्च, ) दन्तभेदश्च, दन्तशैथिल्यं च, मूकत्वं च  
( गद्गदत्वं च, ) वाक्सङ्गश्च, कपायास्यता च, मुखशोषश्च, अरस-  
ज्ञता च, [ अगन्धज्ञता च, त्राणनाशश्च, ] कर्णशूल च, अश-  
ब्दश्रवण च, उच्चैःश्रुतिश्च, बाधिर्यं च, वर्त्मस्तम्भश्च, वर्त्मसंको-  
चश्च, तिमिरं च, अक्षिशूलं च, अक्षिव्युदासश्च, भ्रुव्युदासश्च,  
शङ्खभेदश्च, ललाटभेदश्च, शिरोरुक् च, केशभूमिस्फुटनं च,  
अर्दितं च, एकाङ्गरोगश्च, सर्वाङ्गरोगश्च, [ पक्षवधश्च, ] आक्षे-  
पकश्च दण्डकश्च, श्रमश्च, भ्रमश्च, वेपथुश्च, जम्भा च, विषा-  
दश्च, ( हिक्का च, ) अतिप्रलापश्च, ग्लानिश्च, रौक्ष्यं च, पारुष्यं च,  
श्यावारुणावभासता च, अस्वप्नश्च, अनवस्थितत्वं चेत्यशीतिर्वातवि-  
कारा वातविकाराणामपरिसंख्येयानामाविष्कृततमा व्याख्याताः॥११॥

सबसे प्रथम वात रोगों को कहते हैं। यथा—नखों का टूटना, विपादिका ( पांव का फटना ), पादशूल ( पांव की वेदना ), पादभ्रंश, पादसुसता ( पांव का सोना, ज्ञानशून्यता ), वातखुड्डका, गुल्फ गुंथि, पिण्डिकोट्टेष्टन ( पिण्डिलियो में ऐंठन ), गृध्रसी, जानुभेद और जानु विश्लेष, ऊरुस्तम्भ, उरुसाद, पंगुता, गुदभ्रंश, गुदात्ति, वृषणोत्क्षेप ( अंडकोश का ऊपर खींचना ) शोफस्तम्भ ( शिशु में अकड़ाहट रहना ), वक्षण से आनाह, श्रोणिभेद ( नितम्बों का फटना ), विड्भेद ( मलभेद ), उदावर्त्ता, खञ्जत्व ( लंगड़ापन ), कुञ्जत्व ( कुबड़ापन ), वामनत्व ( नाटापन ), त्रिकगुह, पृष्ठगुह, पार्श्ववर्द्ध ( पसलियों की पीडा ), उदरावेष्टन ( पेट में ऐंठन ), हृन्मोह ( हृदय की मूर्छा ), हृद्द्राव ( हृदय का द्रवित या धड़कन अधिक होना-Pulpitation of Heart) वक्ष-उर्ध्वर्ष ( छाती में पीड़ा, Pleurisy), वक्षोपरोध ( छाती का रुकजाना ), बाहुशोष ( भुजा का सूखना ), ग्रीवास्तम्भ ( ग्रीवा का अकड़ना ), मन्यास्तम्भ ( घाट की अकड़ाहट ), कण्ठोर्ध्वंस ( स्वरभंग ), हनुस्तम्भ ( मुख का, जवाड़ी का खुला रहना ), ओष्ठभेद ( ओष्ठ की विदीर्णता ) दन्तभेद ( दांतों का टूटना ), दन्तशैथिल्य ( दांतों की शिथिलता ), मूकत्व ( गूंगापन ), वाक्संज्ञ ( वाणी का रुकना ), मुख का कसैलापन, मुख की शुष्कता, स्वाद का ज्ञान न होना, गन्धज्ञान का अभाव, घ्राणशक्ति का अभाव, घ्राणशक्ति का नाश होना, कान में वेदना, शब्द का सुनाई न देना, ऊंचा सुनाई देना, बहरापन, पलकों का स्तम्भ, पलकों का संकुचित होना, शंख, कनपटी का फटना, माथे का फटना, शिरोवेदना, बालों की भूमि का फटना, अर्दित वात, एकांग रोग, सर्वांग रोग, पक्षवध ( पक्षाघात ) आक्षेपक, दण्डापतनक, थकान, चक्कर आना, कम्पन, जम्भाई, विषाद, चिन्ता, बहुत प्रलाप, ग्लानि, रुक्षता, कर्कशता, लाल-लाल रङ्ग की चमक, नींद का न आना, तिमिर ( काच रोग ), आंख में वेदना, आंख का पलटना, अर्बों का संकुचित होना और चित्त की अनवस्थितता, चंच-

लता ( अस्थिरता ) ये अस्सी वात विकार हैं । वात विकार असंख्य हैं—यहा पर प्रधान २ वात रोगो की गणना की है ।

सर्वेष्वपि खल्वेतेषु वानविकारेषूक्तेष्वन्येषु चानुक्तेषु वायो-  
रिदमात्मरूपमपरिणामि कर्मणश्च खलक्षणं, यदुपलभ्य तदवयवं  
वा विमुक्तसंदेहा वातविकारमेवाध्यवस्यन्ति कुशलाः, तद्यथा—  
रौक्ष्यं लाघवं वैशद्य शैत्यं गतिरमूर्त्तत्वं चेति वायोरात्मरूपाणि,  
एवविधत्वाच्च कर्मण खलक्षणमिदमस्य भवति तं तं शरीरा-  
वयवमाविशत, तद्यथा—संसभ्रंशव्यासङ्गभेदसादहर्षतर्पवर्तमर्दक-  
म्पचालतोदन्यथाचेष्टादीनि, तथा खरपरुषविशदसुपिरतारुणकषा-  
यविरसमुखशोषगूलसुप्तिसंकुञ्चनस्तम्भनखञ्जतादीनि च वायोः  
कर्माणि, तैरन्वितं वातविकारमेवाध्यवस्येत् ॥ १२ ॥

तं मधुराम्ललवणस्निग्धोष्णैरुपक्रमैरुपक्रमेत स्नेहस्वेदास्थाप-  
नानुवासननस्त कर्मभोजनाभ्यङ्गोत्सादनपरिपेकादिभिर्वातहरैर्मात्रां  
कालं च प्रमाणीकृत्य; आस्थापनानुवासनं तु खलु सर्वोपक्रमेभ्यो  
वाते प्रधानतमं मन्यन्ते भिषज, तद्ध्यादित एव पक्काशयमनुप्रविश्य  
केवलं वैकारिकं वातमूलं छिनत्ति, तत्रावजितं वातेऽपि शरीरान्तर्गता  
वातविकारा प्रशान्तिमापद्यन्ते, यथा वनस्पतेर्मूले छिन्ने स्कन्धशा-  
खावरोहकुसुमफलपलाशादीना नियतो विनाशस्तद्वत् ॥ १३ ॥

इन सब यहां पर कहे या न कहे हुए वातविकारों मे वायु के  
स्वरूप मे, अपरिणामी अर्थात् स्वाभाविक रूप मे ( अन्य उपाधि से न  
हुए ) और विकृत वायु के कर्म से, जिन वायु के लक्षणों से वायु का  
पहिचान करके अथवा वात के एक भाग को देखकर सन्देह रहित होकर  
कुशल चिकित्सक वात रोग ही है ऐसा पहिचानते है वे ये है यथा—रूक्षता,  
लघुता, हल्कापन, विशदता, शीतलता, गति, अमूर्त्तत्व ( अदृश्यत्व ), ये  
वायु के स्वरूप है । इस प्रकार के कर्मों से इस की पहिचान होती है ।  
शरीर के जिस जिस अवयव में वायु आश्रय लेती है, वहां पर संख

( खिसकना ), अंश (दूर खिसकना), विस्तार, अवसन्नता, हर्ष, कम्पन, गोल करना, चलायमान गति, पीड़ा ( चुभने जैसी ), पीड़ा, चेष्टा आदि, कर्कशता, कठोरता, पृथक्करण, छेद २ करना, लाल रंग, कषाय रस, मुख की विरसता, मुख का शुष्क होना, दर्द, शून्यता, संकोच, स्तम्भन, खञ्जत्व ( लंगड़ापन ) आदि वायु के काम हैं । इन लक्षणों वाले रोगों को वातरोग ही जानना चाहिये । इस वायु की मधुर, अम्ल, लवण, स्निग्ध, उष्ण क्रियाओं से चिकित्सा करनी चाहिये । स्नेहन, स्वेदन, आस्थापन, अनुवासन, नस्य कर्म, भोजन, मर्दन, उबटन लगाना, परिपेक स्नान आदि वातनाशक कर्मों को मात्रा और काल का विचार करके प्रयोग करना चाहिये । इन सब कर्मों में वैद्य लोग आस्थापन और अनुवासन (वस्ति) को ही सब से श्रेष्ठ उपाय वायु के लिये मानते हैं । ये शीघ्रता से पक्काशय में पहुँचकर सम्पूर्ण रोगों को उत्पन्न करने वाले वायु को जड़ से नष्ट कर देते हैं । ऐसी अवस्था में वायु के पूर्ण शान्त न होने पर भी वायुरोग शान्त हो जाते हैं, जैसे—वनस्पतियों के जड़ के कट जाने पर लता, शाखा, अंकुर, फल, फूल पत्ते आदि का नाश अवश्यम्भावी है ।

पित्तविकाराश्चत्वारिंशदत ऊर्ध्व व्याख्यास्यन्ते; तद्यथा—ओषश्च, प्लोषश्च, दाहश्च, दवथुश्च, धूमकश्च, अम्लकश्च, विदाहश्च, अन्तर्दाहश्च, [ अङ्गदाहश्च, ] ऊष्माधिक्यं च, अतिस्वेदश्च, [ अङ्गस्वेदश्च, ] अङ्गगन्धश्च, अङ्गावदरणं च, शोणितक्लेदश्च, मांसक्लेदश्च, त्वग्दाहश्च, मांसदाहश्च, त्वगवदरणं च, चर्मावदरणं च, रक्तकोठाश्च, ( रक्तविस्फोटाश्च, ) रक्तपित्तं च, रक्तमण्डलान्ति च, हरितत्वं च, हारिद्रत्वं च, नीलिका च, कक्षा च, कामला च, तित्तास्यता च, ( लोहितगन्धास्यता च, ) पूतिमुखता च, तृष्णाया आधिक्यं च, अतृप्तिश्च, आस्यपाकश्च, गलपाकश्च, अक्षिपाकश्च, गुद्पाकश्च, मेढूपाकश्च, जीवादानं च तमःप्रवेशश्च, हरितहारिद्र-



मूत्रनेत्रवर्चस्त्वं चेति चत्वारिंशत्पित्तविकाराः पित्तविकाराणामपरि-  
संख्येयानामाविष्कृततमा व्याख्याता भवन्ति ॥ १४ ॥

पित्त विकार—ओष ( पास में रखी अग्नि की आंच ), प्लोप ( जलने के समान जलन ), दाह ( जलना ), द्रवथु ( सब अंगों में जलने के समान धक् धक् होना ), घूमक ( धुँए जैसा घमन आना ), खटास, जलन, शरीर के अन्दर दाह, अंगों में दाह, गरमी की अधिकता, पसीने का अधिक आना, अंगों ( बगल आदि ) में पसीना आना, अंगों से दुर्गन्ध आना, अंगों का फटना, रक्त में क्लिन्नता ( बढवृ ) आना, मांस की क्लिन्नता, त्वचा का जलना, मांस की जलन, त्वचा और मांस का फटना, त्वचा के ऊपर के चर्म का फटना, लाल लाल फुन्सियां ( वर् के काटे के समान ), रक्तपिन् ( रक्तस्राव ), लाल लाल धब्बे चकत्ते, हरा रंग हल्दी का सा पीला रंग, नीलिका ( झाँड़े ), कक्ष्या ( बगल का मांस फटना ), कामला, मुख की कटुता, मुख से दुर्गन्ध आना, प्यास का अधिक लगना, भोजन में अतृप्ति, मुख का पकना, गले का पकना, आंख का पकना, गुदा का पकना; शिदन का पकना, प्राणों का नाश, और आंखों के सामने अन्धेरा रहना, मल-मूत्र और आंख का हरा या पीला होना, ये चालीस पित्तजन्य रोग हैं । पित्त विकार असंख्य है, यहां पर मुख्य रोगों की गणना की गई है ।

सर्वेऽपि खल्वेतेषु पित्तविकारेष्वन्येषु चानुक्तेषु पित्तस्येदमात्म-  
रूपमपरिणामि कर्मणश्च स्वलक्षणं, यदुपलभ्य तदवयवं वा विमु-  
क्तसंदेहा पित्तविकारमेवाध्यवस्यन्ति कुशलाः । तद्यथा—औष्ण्यं  
तैक्ष्ण्यं लाघवमनतिस्नेहो वर्णश्च शुक्लारणवर्जो गन्धश्च विस्त्रो रसौ  
च कटुकार्मलौ पित्तस्यात्मरूपाणि, एवंविधत्वाच्च कर्मणः स्वलक्षण-  
मिदमस्य भवति । तं तं शरीरावयवमाविशतः । तद्यथा—दाहौष्ण्य-  
पाकस्वेदच्छेदकोथस्रावरागा यथास्त्रं च गन्धवर्णरसाभिनिर्वर्तनं  
पित्तस्थ कर्मणि, तैरन्वितं पित्तविकारमेवाध्यवस्येत् ॥ १५ ॥

तं मधुरतिक्रपायशीतैरुपक्रमैरुपक्रमेत स्नेहविरेचनप्रदेहपरिषे-

काभ्यङ्गावगाहादिभिः पित्तहरैर्मात्रां कालं च प्रमाणीकृत्य, विरेचनं तु सर्वोपक्रमेभ्यः पित्ते प्रधानतमं, मन्यन्ते भिषजः, तद्ध्यादित एवामाशयमनुप्रविश्य केवलं वैकारिकं पित्तमूलं चापकर्षति, तत्रावजिते पित्तेऽपि शरीरान्तर्गताः पित्तविकाराः प्रशान्तिमापद्यन्ते, यथाऽमौ व्यपोढे केवलमग्निगृहं शीतीभवति तद्धत् ॥ १६ ॥

इन सब यहां कहे या नहीं कहे हुए पित्त विकारों मे स्वाभाविक रूप से ( किसी दूसरे दोष से न मिला होने पर ), कार्यों से एवं पित्त के लक्षणों से पहिचानकर कुशल वैद्य लोग पित्त रोग ही है, ऐसा निश्चय करते है । यथा—गरमी, तीक्ष्णता, लघुता, चिकास की अधिकता न होना, सफेद और काले-लाल रंग को छोड़कर अन्य रंग, सडांद ( दुर्गन्ध युक्त गन्ध ), कटु और खट्टा रस होना ये पित्त के लक्षण हैं । इस प्रकार के कर्मों से पित्त की पहिचान होती है । शरीर के जिस जिस अवयव में पित्त आश्रय लेता है, वहां र पर दाह, गरमी, पाक (पकना), पसीना; क्लिन्नता, सडांद, खाज, खाव, रंग, तथा पित्त के समान गन्ध, वर्ण और रस की उत्पत्ति होना ये पित्त के कर्म हैं । इन कार्यों से युक्त रोग को पित्त का विकार जानना चाहिये । इस पित्त को शान्त करने के लिये मधुर, तिक्त, कषाय, शीत उपक्रमों से चिकित्सा करनी चाहिये । पित्तनाशक स्नेह, विरेचन, प्रदेह, स्नान, मर्दन आदि कार्यों को मात्रा एवं समय को देखकर प्रयोग करना चाहिये । पित्त को शान्त करने के लिये वैद्यलोग विरेचन को ही सब से मुख्य साधन मानते है । यह जल्दी ही आमाशय में प्रविष्ट होकर सम्पूर्ण पित्तविकार को जड़ से बाहर निकाल देता है । ऐसी अवस्था में पित्त के सम्पूर्ण शान्त न होने पर भी शरीरस्थ पित्तरोग ऐसे ही शान्त हो जाते हैं जिस प्रकार की भट्टी से आग निकाल लेने पर भट्टी अपने आप ठण्डी हो जाती है ।

श्लेष्मविकारांश्च विंशतिमत ऊर्ध्वं व्याख्यास्यामः; तद्यथा—  
 वृश्मिश्च, तन्द्रा च, निद्राया आधिक्यं च, स्तैमित्यं च, गुरुगात्रता च,

आलस्यं च, मुखमाधुर्यं च, मुखस्रावश्च, श्लेष्मोद्गिरणं च, मलस्याधिक्यं च, कण्ठोपलेपश्च, वलासश्च, हृदयोपलेपश्च, धमनीप्रतिचयश्च गलगण्डश्च, अतिस्थौल्यं च, शीताग्निता च, उदर्दश्च, श्वेतावभासता च, श्वेतमूत्रनेत्रवर्चस्त्वं चेति विंशतिः श्लेष्मविकाराः श्लेष्मविकाराणामपरिसख्येयानामाविष्कृततमा व्याख्याताः ॥ १७ ॥

कफजन्य रोग बीस हैं । उन को कहते हैं यथा—भोजन न करने पर भी तृप्ति का अनुभव, तन्द्रा, नीद का अधिक आना, स्तैमित्य ( शरीर का गीले वस्त्र से ढंपा प्रतीत होना ), शरीर का भारीपन, आलस्य आना, मुख की मिठास, मुख से लाला बहना, कफ का वमन, शरीर में मल का अधिक निकलना, कफ का क्षय, हृदय का भरा रहना, कण्ठ का भरा रहना, धमनियों का अवरोध, गल गण्ड, आसिस्थूल, या मन्दाग्नि; उदर्द ( ज्वर ), श्वेत रंग की प्रतीति, मूत्र, मल और नेत्र में सफेदी, ये बीस कफजन्य रोग हैं । कफजन्य विकार असंख्य हैं, परन्तु यहां पर प्रधान रोगों की गणना की है ।

सर्वेष्वपि तु खल्वेतेषु श्लेष्मविकारेष्वन्येषु चानुक्तेषु श्लेष्मण इदमात्मरूपमपरिणामि कर्मणश्च खलक्षणं, यदुपलभ्य तदत्रयवं वा विमुक्तसंदेहा श्लेष्मविकारमेवाध्यवस्यन्ति कुशलाः, तद्यथा— श्वैत्यशैत्यस्नेहगौरवमाधुर्यमात्स्न्यानि श्लेष्मण आत्मरूपाणि, एवंविधत्वाच्च कर्मणः खलक्षणमिदमस्य भवति तं तं शरीरावयवमाविशतः, तद्यथा— श्वैत्यशैत्यकण्डूस्थैर्यगौरवस्नेहस्तम्भसुप्तिक्लेदोपदेहवन्वमाधुर्यचिरकारित्वानि श्लेष्मणः कर्माणि, तैरन्वितं श्लेष्मविकारमेवाध्यवस्येत् ॥ १८ ॥

तं - दुरुत्तिक्रपायतीक्ष्णोष्णरूक्षैरुपक्रमैरुपक्रमेत स्वेदनवसनशिरोविरेचनव्यायामादिभिः श्लेष्महरैर्मात्रां कालं च प्रमाणीकृत्य; वमनं तु सर्वापक्रमेभ्यः श्लेष्मणि प्रधानतमं मन्यन्ते भिषजः, तद्व्यादित एवामाशयमनुप्रविश्य केवलं वैकारिकं श्लेष्ममूलम-

पकर्षति, तत्रावजिते श्लेष्मण्यपि शरीरान्तर्गताः श्लेष्मविकाराः प्रशान्तिमापद्यन्ते, यथा—भिन्ने केदारसेतौ शालियवषष्टिकादीन्य-भिष्यन्दमानान्यम्भसा प्रशोषमापद्यन्ते तद्वदिति ॥ १९ ॥

इन सब कफ की विकारों में कहे हुए या नहीं कहे हुए रोगों में कफ अपने स्वरूप—अपने स्वाभाविक रूप से, कार्यों से, लक्षणों से पहिचान कर कुशल पुरुष सन्देहरहित होकर श्लेष्मविकार ही हैं ऐसा निश्चय करते हैं। यथा चिकास, शीतलता, सफेदी, भारीपन, मधुरता, मसृणता ( पिच्छलता ), ये कफ के रूप हैं। इस प्रकार के कार्यों में कफ के लक्षण होते हैं।

शरीर के अवयवों में प्रविष्ट होकर कफ सफेदी, शीतलता, खाज, स्थिरता, भारीपन, चिकास, जड़ता, निष्क्रियता, क्लिन्नता, चिकनापन, अवरोध, मधुरता, देर में कार्य करना ये कफ के कार्य हैं। इनके द्वारा कफ रोग को जानना चाहिये। इस कफ को शान्त करने के लिये कटु, तिक्त, कपाय, तीक्ष्ण, गरम और रूक्ष उपक्रमणों से चिकित्सा करनी चाहिये। मात्रा और समय के अनुसार स्वेद, वमन, शिरोविरेचन, व्यायाम आदि श्लेष्मनाशक कार्यों का प्रयोग करे। कफ को शान्त करने के लिये वैद्य वमन को ही सब से उत्तम साधन मानते हैं। वमन जल्दी से आमाशय में पहुँच कर सम्पूर्ण वैकारिक कफ को जड़ समेत बाहर कर देता है। इस कफ के पूर्ण रूप से शान्त न होने पर भी शरीर के अन्दर के कफरोग शान्त हो जाते हैं। जिस प्रकार कि धान्य, जौ, साठी पानी से भरे होने पर खेत की मेंढ के टूटने पर पानी से खुश्क हो जाते हैं, (सूख जाते हैं), इसी प्रकार कफ के निकलने से रोग भी नष्ट होजाते हैं।

भवन्ति चात्र । रोगमादौ परीक्षेत ततोऽनन्तरमौषधम् ।

ततः कर्म भिषक्पश्चाज्ज्ञानपूर्वं समाचरेत् ॥ २० ॥

यस्तु रोगमविज्ञाय कर्माण्यारभते भिषक् ।

अप्यौषधविधानज्ञस्तस्य सिद्धिर्यदृच्छया ॥ २१ ॥

यस्तु रोगविशेषज्ञः सर्वभैषज्यकोविदः ।

देशकालप्रमाणज्ञस्तस्य सिद्धिरसंशयम् ॥ २२ ॥

सब से प्रथम रोग की परीक्षा करनी चाहिये, उसके पीछे औषध की परीक्षा, इसके अनन्तर वैद्य ज्ञानपूर्वक चिकित्सा का आरम्भ करे । जो वैद्य, रोग की परीक्षा द्वारा निश्चय किये बिना चिकित्सा कर्म आरम्भ कर देता है, भले ही वह वैद्य औषधि के विधान को जानता हो, तो भी उसकी सफलता निश्चित नहीं ( कभी हो जाती है, और कभी नहीं ) । जो वैद्य रोगों को भली प्रकार जानता है, इसी प्रकार औषधियों को भी जानता है, साथ में देश, काल और प्रमाण को भी समझता है, उसकी सफलता निश्चित, अवश्यम्भावी है ।

तत्र श्लोकाः ।

संग्रहः प्रकृतिदेशो विकारमुखमीरणम् ।

असंदेहोऽनुबन्धश्च रोगाणां संप्रकाशितः ॥ २३ ॥

दोषस्थानानि रोगाणां गणा नानात्मजाश्च ये ।

रूपं पृथक्त्वादोषाणां कर्म चापरिणामि यत् ॥ २४ ॥

पृथक्त्वेन च दोषाणां निर्दिष्टा समुपक्रमाः ।

सम्यङ्महति रोगाणामध्याये तत्त्वदर्शिना ॥ २५ ॥

रोगों की सक्षिप्त संख्या, इनके स्थान और इनके साक्षात् अथवा प्रेरक कारण, असन्देह, और अनुबन्ध, दोषों के स्थान, नाना प्रकार के रोगों की गणना, दोषों के पृथक् २ रूप, और स्वाभाविक कर्म, दोषों के पृथक् २ ज्ञान्ति के उपाय, इस महारोग अध्याय में तत्त्वदर्शि पुनर्वसु ने कह दिये हैं ।

द्वयक्षिणेशकृतं तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने रोगचतुष्के

महारोगाध्यायो नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥

## एकविंशोऽध्यायः ।

अथातोऽष्टौनिन्दितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब 'अष्टौनिन्दितीय' ( आठ निन्दित पदार्थ ) नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

इह खलु शरीरमधिकृत्याष्टौ पुरुषा निन्दिता भवन्ति; तद्यथा—  
अतिदीर्घश्चातिह्रस्वश्चातिलोमा चालोमा चातिकृष्णश्चातिगौरश्चाति-  
स्थूलश्चातिकृशश्चेति ॥ ३ ॥

इस लोक में शरीर के सम्बन्ध में ( मन के सम्बन्ध में अधार्मिक आदि इन से भिन्न हैं ) आठ पुरुष निन्दित माने जाते हैं । यथा १. अतिदीर्घ २ अतिह्रस्व, ३. अतिलोमा (बहुत बालों वाला), ४ अलोमा (एक दम बाल रहित), ५. अतिकृष्ण (बहुत काला) ६ अतिगौर, ७. अतिस्थूल (बहुत मोटा) और ८ अतिकृश (बहुत पतला) ।

तत्रातिस्थूलकृशयोर्भूय एवापरे निन्दितविशेषा भवन्ति; अति-  
स्थूलस्य तावदायुषो हासो जरोपरोधः कृच्छ्रव्यवायता दौर्बल्यं  
दौर्गन्ध्यं स्वेदाबाधः क्षुदतिमात्रं पिपासातियोगश्चेति भवन्त्यष्टौ  
दोषाः । तदतिस्थौल्यमतिसंपूरणाद्गुरुमधुरशीतस्निग्धोपयोगादव्या-  
यामादव्यवायाद्विवास्वप्राद्धर्षनित्यत्वाच्चिन्तनाद्वीजस्वभावाच्चोपजा-  
यते । तस्यातिमात्रं, मेदस्विनो मेद एवोपचीयते न तथेतरे धातवः,  
तस्मादस्यायुषो हासः; शैथिल्यात् सौकुमार्याद्गुरुत्वाच्च मेदसो  
जरोपरोधः, शुक्रबहुत्वान्मेदसावृतमार्गत्वाच्च कृच्छ्रव्यवायता,  
दौर्बल्यमसमत्वाद्दातूनां, दौर्गन्ध्यं मेदोदोषान्मेदसः स्वभावात्स्वेद-  
लत्वाच्च, मेदसः श्लेष्मसंसर्गाद्विष्यन्दित्वाद्बहुत्वाद्ब्रूयायामासहत्वाच्च  
स्वेदाबाधः, तीक्ष्णाग्नित्वात्प्रभूतकोष्ठवायुत्वाच्च क्षुदतिमात्रं पिपासा-  
तियोगश्चेति ॥ ४ ॥

इन आठों पुरुषों में भी अतिस्थूल और अतिकृश ये दोनों पुरुष, विशेष रूप से निन्दित हैं। इनमें अतिस्थूल पुरुष की आयु छोटी होती है, उसे बुढ़ापा जल्दी आ घेरता है, मैथुन में कठिनता, निर्वलता, शरीर में दुर्गन्ध, पसीना बहुत आता है, भूख और प्यास खूब अधिक लगती है, ये आठ दोष होते हैं। यह अतिस्थूलता अधिक भोजन करने से, गुरु, मधुर, शीत, स्निग्ध पदार्थों के सेवन से, च्यायाम न करने से, सम्भोग न करने से, दिन में सोने से, नित्य खुश (वेफ़िकर) रहने से, चिन्ता न करने से, माता पिता के स्थूल होने से उत्पन्न होती है। अतिस्थूल पुरुष के शरीर में मेद के बढ़े होने पर आगे मेद ही बढ़ता जाता है और अन्य धातु नहीं बढ़ते। इसलिये (विषम धातु होने से) आयु छोटी होती है, मेद के शिथिल, सुकुमार और भारी होने से बुढ़ापे का जल्दी आना, शुक्र के कम होने से, मेद के द्वारा शुक्र बाह्य छोटों के रुक जाने से मैथुन में कठिनाई; धातुओं के विषम होने से दुर्बलता, मेद के दोष से, मेद के स्वभाव से तथा पसीने के अधिक आने से दुर्गन्ध, मेद के श्लेष्मा के साथ मिलने से, सडने से, बहुत होने से, भारी होने से और परिश्रम को न सह सकने के कारण पसीने का बहुत आना, अग्नि के प्रबल होने से और कोष्ठ में वायु की अधिकता से भूख अधिक और बहुत प्यास लगती है।

भवन्ति चात्र । मेदमावृतमार्गत्वाद्वायुः कोष्ठे विशेषतः ।

चरन् संधुक्षयत्यग्निमाहारं शोषयत्यपि ॥ ५ ॥

तस्मात्स शीघ्रं जरयत्याहारं चातिकाङ्क्षति ।

विकाराश्चाश्रुते घोरान् काश्चित्कालव्यतिक्रमात् ॥ ६ ॥

एतावुपद्रवकरौ विशेषादग्निमारुतौ ।

एतौ हि दहतः स्थूलं वनदावो वनं यथा ॥ ७ ॥

मेदस्यतीव्र संवृद्धे सहसैवानिलादयः ।

विकारान् दारुणान् कृत्वा नाशयन्त्याशु जीवितम् ॥ ८ ॥

मेदोमांसातिवृद्धत्वाच्चलस्फिगुदरस्तनः ।

अयथोपचयोत्साहो नरोऽतिस्थूल उच्यते ॥ ९ ॥

इति मेदस्विनो दोषा हेतवो रूपमेव च ।

निर्दिष्टं,

मेद के द्वारा स्रोतों के रुक जाने पर वायु कोष्ठ का आश्रय लेकर गति करता है, इससे अग्नि को बढ़ाता ( तेज़ करता है ) है, और भोजन को शुष्क करता है । इसलिये अग्नि आहार को शीघ्र जीर्ण कर देता है, और अन्य आहार को चाहता है । आहार काल के अतिक्रमण होने से भयानक रोगों को उत्पन्न करता है । ये अग्नि और वायु विशेष रूप से उपद्रव करने वाले हैं । जिस प्रकार की जंगल की आग वन को जला देती है, उसी प्रकार ये वायु और अग्नि मोटे व्यक्ति को जला देते हैं । मेद के बहुत बढ़ने पर एक दम से वायु, पित्त, कफ, भयानक रोगों को उत्पन्न करके जीवन का नाश शीघ्रता से कर देते हैं । मेद के अति बढ़ने से मनुष्य के नितम्ब, उदर और स्तन थल २ करने लगते हैं । शरीर का आकार और उत्साह शक्ति नष्ट हो जाते हैं । ऐसे पुरुष को अति-स्थूल कहते हैं । ये मेदस्वी पुरुष के दोष, कारण और लक्षण कह दिये ।

वक्ष्यते वाच्यमतिकार्ष्येऽप्यतः परम् ॥ १० ॥

सेवा रूक्षान्नपानानां लङ्घनं प्रमिताशनम् ।

क्रियातियोगः शोकश्च वेगनिद्राविनिग्रहः ॥ ११ ॥

रूक्षस्थोद्धर्तनं स्नानस्याभ्यासः प्रकृतिर्जरा ।

विकारानुशयः क्रोधः कुर्वन्त्यतिकृशं नरम् ॥ १२ ॥

व्यायाममत्तिसौहित्यं क्षुत्पिपासामहौषधम् ।

कृशो न सहते तद्वदतिशीतोष्णमैथुनम् ॥ १३ ॥

प्लीहा कासः क्षयः श्वासो गुल्मार्शास्युदराणि च ।

कृशं प्रायोऽभिधावन्ति रोगाश्च ग्रहणीगताः ॥ १४ ॥

शुष्कस्फिगुदरग्रीवो धमनीजालसंततः ।



त्वगस्थिशोषोऽतिकृशः स्थूलपर्वा नरो मतः ॥ १५ ॥

सततन्याधितावेतावतिस्थूलकृशौ नरौ ।

सततं चोपचर्यो हि कर्पणैर्वृहणैरपि ॥ १६ ॥

स्थौल्यकार्श्ये वरं कार्श्यं समोपकरणौ हि तौ ।

यद्युभौ व्याधिरागच्छेत्स्थूलमेवातिपीडयेत् ॥ १७ ॥

इसके आगे अतिकृश व्यक्ति के लक्षण कहते हैं—रूक्ष खान पान के सेवन से, उपवास से, थोड़ा खाने से, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन आदि क्रियाओं के अतियोग से, शोक से, मल मूत्र के उपस्थित वेगों को अथवा नाँद के उपस्थित वेग को रोकने से, स्नेह मर्दन किये बिना उबटन लगाकर स्नान ( नित्य प्रति ) करने से, स्वभाव से, बुढापे से रोगों के कारण ( रोग की कमजोरी में ), उत्पन्न कमजोरी में मिथ्याहार विहार से, क्रोध से पुरुष बहुत कृश हो जाता है । परिश्रम, अतिशय पेट भर के खाना, भूख, प्यास और बलवान् औषध, बहुत सर्दी, बहुत गरमी और मैथुन इनको निर्बल कृश पुरुष सहन नहीं कर सकता । प्लीहा, कास, क्षय, श्वास, गुल्म, अर्ग, उदर रोग, और ग्रहणी रोग ( आमाशय आंत्र रोग ) प्रायः करके कृश, निर्बल पुरुष को शीघ्र चिपटते हैं । नितम्ब, उदर और ग्रीवा शुष्क हो जाते हैं, शरीर पर धमनियों के जाल ढीखने लगते हैं, त्वचा और दृष्टियों का ही ढाँचा बच जाता है, ग्रन्थियाँ मोटी २ हो जाती हैं, ऐसे पुरुष को 'अतिकृश' कहते हैं । ये अतिस्थूल और अतिकृश पुरुष सदा रोगी रहते हैं । इसलिये कर्पण से ( स्थूल की ) और वृंहण से ( कृश पुरुष की ) सदा परिचर्या करनी चाहिये । स्थूलता और कृशता में कृशता श्रेष्ठ है, क्योंकि यदि दोनों को एक ही समान चिकित्सा में साध्य व्याधि हो जाये तो स्थूल पुरुष ही अधिक पीड़ित होगा ( क्योंकि स्थूल पुरुष का यदि संतर्पण किया जाये तो स्थूलता बढ़ती है, अपरन्तु कृश पुरुष तो वह सहन नहीं कर सकता, क्योंकि जाठराग्नि केवल बढी हाँदी में ) ।

सममांसप्रमाणस्तु समसंहननो नरः ।

दृढेन्द्रियत्वाद् व्याधीनां न वलेनाभिभूयते ॥ १८ ॥

क्षुत्पिपासातपसहः शीतव्यायामसंसहः ।

समपक्ता समजरः सममांसचयो मतः ॥ १९ ॥

जिस पुरुष की मांस पेशियां प्रमाण में उन्नत हैं, और शरीर का संघटन ठीक प्रकार से है, इन्द्रियां बलवान् है, वह पुरुष रोगों के बल से भी हार नहीं मानता । जो पुरुष भूख, प्यास, धूप का सहन कर सके, शीत, व्यायाम को भली प्रकार सहन करले, न कम और न अधिक, भोजन को जीर्ण करने वाला हो, जिसको बुढ़ापा ठीक समीप पर आये, वह पुरुष समान उपचय अर्थात् उचित शरीर की बनावट का होता है ।

गुरु चातर्पणं चेष्टं स्थूलानां कर्षणं प्रति ।

कृशानां बृंहणार्थं च लघु संतर्पणं च यत् ॥ २० ॥

वातघ्नान्यन्नपानानि श्लेष्ममेदोहराणि च ।

रूक्षोष्णा वस्तयस्तीक्ष्णा रूक्षाण्युद्वर्तनानि च ॥ २१ ॥

गुह्वचीभद्रमुस्तानां प्रयोगस्त्रैफलस्तथा ।

तक्रारिष्टप्रयोगस्तु प्रयोगो मात्तिकस्य च ॥ २२ ॥

विडङ्गनागरं क्षारः काललोहरजो मधु ।

यवामलकचूर्णं च प्रयोगः श्रेष्ठ उच्यते । २३ ॥

वित्वादिपञ्चमूलस्य प्रयोगः क्षौद्रसंयुतः ।

शिलाजतुप्रयोगस्तु साग्निमन्थरसः परः ॥ २४ ॥

प्रशांतिका प्रियङ्गुश्च श्यामाका यवका यवाः ।

जूर्णाह्वाः कोद्रवा मुद्गाः कुलत्थाश्चक्रमुद्द्रकाः ॥ २५ ॥

आढकीनां च बीजानि पटोलामलकैः सह ।

भोजनार्थं प्रयोज्यानि पानं चानु मधूदकम् ॥ २६ ॥

अरिष्टांश्चानुपानार्थं मेदोमांसकफापहान् ।

अतिस्थौल्यविनाशाय संविभज्य प्रयोजयेत् ॥ २७ ॥

प्रजागरं व्यवायं च व्यायामं चिन्तनानि च ।

स्थूल्यमिच्छन् परित्यक्तुं क्रमेणाभिप्रवर्धयेत् ॥ २८ ॥

स्थूल पुरुषों को कृश बनाने के लिये गुरु ( भारी ) और अपतर्पण क्रिया ( यथा शहद भारी होने से अग्नि को कम करता है और अपतर्पण होने से मेद को कम करता है ) उचित है । कृश पुरुषों को मोटा करने के लिये लघु एवं सन्तर्पण क्रिया करनी चाहिये । अतिस्थूल की चिकित्सा—

वातनाशक खान पान, कफ और मेदनाशक आहार, रूखी एवं गरम वस्तियां, तीक्ष्ण, रूक्ष उबटन का मलना, गिलोय, नागर मोथा, इनका, या त्रिफला का काथ देना, तक्रारिष्ट का प्रयोग अथवा मधु का उपयोग, वायविडंग, सोंठ, क्षार, कान्त लोह भस्म को शहद के साथ, जौ और आंवले का चूर्ण, इनका प्रयोग उत्तम है । विल्व, अरणी, सोना पाठ, कादमरी, पाटला इनके काथ में मधु प्रक्षेप करके पीना, अग्निमन्थ ( अरणी ) के रस के साथ शिलाजीत का उपयोग, प्रशाक्तिक ( नीवार धान्य ), प्रियंगु, श्यामक ( सांवक ), क्षुद्रज्व, जौ, देवभात, कोदों धान्य, मूंग, कुलथी, ऋषि मूंग, अरहर की ढाल, परवल, आंवला इनके साथ खाने के लिये देवे और पीने के लिये पानी में शहद मिला के देना चाहिये । अनुपान के लिये मेद, मांस और कफ को नष्ट करने वाले अरिष्टों को अतिस्थूलता नाश करने के लिये प्रयोग करना चाहिये । स्थूलता का नाश करने की इच्छा वाले पुरुष को, रात में जागना, मैथुन, परिश्रम करना, चिन्ता करना इनको क्रम से शनैः शनैः बढ़ाना चाहिये ।

स्वप्नो हर्ष सुखा शय्या मनसो निर्वृतिः शमः ।

चिन्ताव्यवायव्यायामविरामः प्रियदर्शनम् ॥ २९ ॥

नवान्नानि नवं मद्य प्राम्यनूपौदकः रसाः ।

संस्कृतानि च मांसानि दधि सर्पिः पयांसि च ॥ ३० ॥

इक्षुवः शालयो मासा गोधूमा गुडवैकृतम् ।

वस्तयः स्निग्धमधुरास्तैलाभ्यङ्गश्च सर्वदा ॥ ३१ ॥

स्निग्धमुद्धर्तनं स्नानं गन्धमाल्यनिषेवणम् ।

शुक्लवासो यथाकालं दोषाणामवसेचनम् ॥ ३२ ॥

रसायनानां वृष्याणां योगानामुपसेवनम् ।

हत्वाऽतिकार्ष्यमादत्ते नृणामुपचयं परम् ॥ ३३ ॥

अचिन्तनाच्च कार्याणां ध्रुवं संतर्पणेन च ।

स्वप्नप्रसङ्गाच्च नरो वराह इव पुष्यति ॥ ३४ ॥

कृश रोग की चिकित्सा—रात में और दिन में सोना, सदा प्रसन्न रहना, आराम, गद्देदार पलंग पर सोना, बैठना, मन की बेफ़िकरी, शान्ति, चिन्ता न करना, सम्भोग का न करना, श्रम न करना और इच्छित वस्तुओं का दर्शन, नये अन्न, नया मद्य, ग्राम्य और जलचर प्राणियों के मांस का रस, संस्कृत (अच्छी प्रकार बनाये) मांस, दही, घी, और दूध, गन्ने, चावल (लाल चावल), मांस, गेहूं, गुड़ से बनी वस्तुएं, स्निग्ध और मधुर वस्तियां, सर्वदा तैल मर्दन, स्निग्ध उबटन, ज्ञान, सुगन्ध और माला का धारण करना, सफ़ेद वस्त्र, समय २ पर वातादि दोषों का बाहर निकालना, रसायन एवं वाजीकरण योगों का सेवन करने से कृशता दूर होकर पुष्टि, बल (मोटापा) आता है। कार्यों की चिन्ता न करने (बेफ़िकरी) से, नित्य प्रति सन्तर्पण क्रिया द्वारा और रात दिन सोने से मनुष्य सुअर की तरह पुष्ट हो जाता है।

यदा तु मनसि क्लान्ते कर्मात्मानः क्लमान्विताः ।

विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपिति मानवः ॥ ३५ ॥

निद्रायत्तं सुखं दुःखं पुष्टिः कार्ष्यं बलाबलम् ।

वृषता क्लीबता ज्ञानमज्ञानं जीवितं न च ॥ ३६ ॥

अकालेऽतिप्रसङ्गाच्च न च निद्रा निषेविता ।

सुखायुषा पराकुर्यात्कालरात्रिरिवापरा ॥ ३७ ॥

सैव युक्ता पुनर्युङ्क्ते निद्रा देहं सुखायुषा ।

पुरुषं योगिनं सिद्धया सत्या बुद्धिरिवागता ॥ ३८ ॥

गीताध्ययनमद्यस्त्रीकर्मभाराध्वकर्षिताः ।

अजीर्णिन क्षताः क्षीणा वृद्धा बालास्तथाऽबलाः ॥ ३९ ॥

तृष्णातीसारशूलार्ताः श्वासिनो हिक्किनः कृशाः ।

पतिताभिहतोन्मत्ताः क्लान्ता यानप्रजागरैः ॥ ४० ॥

क्रोधशोकभयक्लान्ता दिवास्वप्नोचिताश्च ये ।

सर्व एते दिवास्वप्नं सेवेरन् सार्वकालिकम् ॥ ४१ ॥

धातुसाम्यं तथा ह्येषां बलं चाप्युपजायते ।

श्लेष्मा पुष्पाति चाङ्गानि स्थैर्यं भवति चायुषः ॥ ४२ ॥

जब अन्तःकरण या मन से संयुक्त आत्मा के निष्क्रिय हो जाने पर, इन्द्रियां क्रियारहित हो जाती हैं इस प्रकार रूप, रसादि विषयों से हट जाती हैं, तब पुरुष सो जाता है । यदि विधिपूर्वक नींद का सेवन किया जाये तो, सुख, शरीर की पुष्टि, बल, पुरुषत्व ज्ञान और जीवन नींद के अधीन है और यदि निद्रा का विधि से सेवन न किया जाये तो दुःख, कृशता, बलनाश, क्विबता, अज्ञान, और मरण ये नींद के अधीन है । इसलिये सुख चाहने वाले पुरुष को चाहिये कि दूसरी प्रलथ रात्रि के समान अकाल ( दिन में या सन्ध्याकाल में ) सोना, या बहुत सोना छोड़ दे । ये नींद के मिथ्यायोग हैं । यदि निद्रा उचित रूप में सेवन की जाये तो शरीर को सुख और आयु से ऐसे ही युक्त करती है जिस प्रकार योगी पुरुष को सिद्धि से तत्त्वज्ञान प्राप्त होता है ।

गीत गाने से कृशपुरुष, पढ़ने से कृश, मद्यपान करने वाले, स्त्री सेवा करने वाले, वमन विरेचनादि कर्म में, मार्ग चलने से कृश हुए, अतिसार आदि से कृश, अजीर्ण रोगी, उरक्षत रोगी, क्षीण जिनके रस रक्तादि धातु क्षीण हो, वृद्ध, बालक, स्त्रियां (कमजोर) तृष्णारोगी, शूल से पीड़ित, श्वास से कृश, ऊपर से गिरे, चोट लगे हुए, उन्मत्त (धत्तूरा आदि खाने से), थके हुए, सवारी करने से रात में जागे, क्रोध, शोक, भय से निष्क्रिय पुरुषों को दिन में सोना उचित है । ये उपर लिखे पुरुष सब कालों में

दिन में सो सकते हैं। दिन में सोने से इनके विषम धातु सम होते हैं, चल बढ़ता है, कफ अंगों को पुष्ट करता है और आयु स्थिर होती है ।\*

ग्रीष्मे चादानरूक्षाणां वर्धमाने च मारुते ।

रात्रीणां चातिसङ्क्षेपाद्दिवास्वप्नः प्रशस्यते ॥ ४३ ॥

ग्रीष्मवर्ज्येषु कालेषु दिवास्वप्नात्प्रकुप्यतः ।

श्लेष्मपित्ते, दिवास्वप्नस्तस्मात्तेषु न शस्यते ॥ ४४ ॥

मेदस्विनः स्नेहनित्याः श्लेष्मलाः श्लेष्मरोगिणः ।

दूषीविषार्ताश्च दिवा न शयीरन् कदाचन ॥ ४५ ॥

हलीमकः शिरःशूलं स्तैमित्यं गुरुगात्रता ।

अङ्गमर्दोऽग्निनाशश्च प्रलेपो हृदयस्य च ॥ ४६ ॥

शोथारोचकहृत्प्लीहासपीनसार्धावभेदकाः ।

कोठोऽरुः पिडकाः कण्डूस्तन्द्रा कासो गलामयाः ॥ ४७ ॥

स्मृतिबुद्धिप्रमोहश्च संरोधः स्रोतसां ज्वरः ।

इन्द्रियाणामसामर्थ्यं विषवेगप्रवर्तनम् ॥ ४८ ॥

भवेन्नृणां दिवास्वप्नस्याहितस्य निषेवणात् ।

तस्माद्धिताहितं स्वप्नं बुद्ध्वा स्वप्यात्सुखं बुधः ॥ ४९ ॥

रात्रौ जागरणं रूक्षं स्निग्धं प्रस्वपनं दिवा ।

अरूक्षमनभिष्यन्दि त्वासीनप्रचलायितम् ॥ ५० ॥

देहवृत्तौ यथाऽऽहारस्तथा स्वप्नः सुखो मतः ।

स्वप्नाहारसमुत्थे च स्थौल्यकार्ष्ये विशेषतः ॥ ५१ ॥

ग्रीष्म ऋतु आदान काल एवं रूक्ष है, इस समय वायु बढ़ती है,

\* नींद का स्थान कहाँ है? यह तो कहना कठिन है, परन्तु जब मन या मन से युक्त आत्मा मस्तिष्क की पंचम जवनिका (Fifth Ventrical) में पहुँच जाता है तब पुरुष को नींद आती है। इस जवनिका के साथ किसी भी ज्ञानवतन्तु का सम्बन्ध नहीं है। इसी से कहा है—“स्वप्नश्च निरिन्द्रियप्रदेशे मनोऽवस्थानम्” ॥

और रातें बहुत छोटी होती है, इसलिये दिन में सोना उत्तम है। त्रीप्स ऋतु को छोड़कर और ऋतुओं में सोने से कफ और पित्त विकृत होते हैं, इसलिये इन समयों में दिन के समय सोना ठीक नहीं है। मेदस्वी, नित्य स्नेह का सेवन करने वाले, कफप्रकृति, कफरोगी, और दूषी विष से पीड़ित पुरुष दिन में खास कर कभी भी न सोयें। दिन में सोने से हलीमक, शिरोवेदना, अंगों में भारीपन, अंगों को गीले वस्त्र से ढांपने की भांति प्रतीति, अंगों का टूटना, जाठराग्नि की क्षीणता, हृदय का कफ से लिप्त होना, सृजन, अरुचि, वमनेच्छा, पीनस, आश्रा सीसी, कोठ ( वर् के काटे के भांति ), फुन्सियां, खाज, तन्द्रा, आलस्य, कांस, गले के रोग, स्मृति नाश, बुद्धिनाश, मूर्च्छा, स्रोतों का अवरोध, ज्वर, इन्द्रियों में असमर्थता, विष के वेग का जोर (फिर से चढ़ना) ये लक्षण अहितकारी निद्रा अर्थात् दिन में सोने से उत्पन्न होते हैं। इसलिये बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिये कि अहितकारी नींद का त्याग करे, और हितकारी नींद का सेवन करे इससे सुख होगा। रात्रि में जागने से शरीर में रूक्षता और दिन में सोने से स्निग्धता बढ़ती है। और बैठे बैठे सोना न तो रूक्षता उत्पन्न करता है, न अभिष्यन्द अर्थात् स्निग्धता उत्पन्न करता है। शरीर के धारण के लिये जिस प्रकार भोजन सुखकारक होता है, उसी प्रकार नींद भी आवश्यक है। इसलिये स्थूलता और कृशता मुख्य रूप से आहार और निद्रा पर अवलम्बित है।

अभ्यङ्गोत्सादनं स्नानं ग्राम्यान्पौदका रसाः ।

शाल्यन्न सदधि क्षीरं स्नेहो मद्यं मनःसुखम् ॥ ५२ ॥

मनसोऽनुगुणा गन्धाः शब्दाः संवाहनानि च ।

चक्षुषस्तर्पणं लेपः शिरसो वदनस्य च ॥ ५३ ॥

स्वास्तीर्णं शयनं वेश्म सुखं कालस्तथोचितः ।

आनयन्त्यचिरान्निद्रां प्रनष्टा या निमित्ततः ॥ ५४ ॥

तैलमर्दन, उबटन, स्नान, ग्राम्य या जलचर प्राणियों का मांसरस,

चावल, दही, दूध, स्नेह (घी-तैल), मद्य, मन को प्रिय वस्तुएं, मनोनुकूल सुगन्धि, शब्द, और संवाहन ( मसाज, मुट्टी भरना ), आंखों का तर्पण, शिर और मुख, शरीर पर चन्दनादि का लेप, अच्छा बिछा पलंग, सुन्दर घर तथा उचित समय ये वस्तुएं कारण से नष्ट हुई नींद को शीघ्र ही उत्पन्न कर देती हैं ।❧

कायस्य क्षिरसञ्चैव विरेकश्छर्दनं भयम् ।

चिन्ता क्रोधस्तथा धूमो व्यायामो रक्तमोक्षणम् ॥ ५५ ॥

उपवासोऽसुखा शय्या सत्त्वौदार्यं तमोजयः ।

निद्राप्रसङ्गमहितं वारयन्ति समुत्थितम् ॥ ५६ ॥

शरीर का विरेचन, शिरोविरेचन, वमन, भय, चिन्ता, क्रोध, कहानी सुनना, मैथुन, रक्त मोक्षण ( शिरावेध ), उपवास, दुःखदायक विस्तर, सत्त्व गुण की अधिकता, तमोगुण का जय ( योगाभ्यास से होता है ), ये कारण नींद को नहीं आने देते । इसलिये अहित, अवाञ्छनीय नींद को रोकने के लिये स्वस्थ पुरुष को इन्हें वर्त्तना चाहिये ।

एत एव च विज्ञेया निद्रानाशस्य हेतवः ।

कार्यं कालो विकारश्च प्रकृतिर्वायुरेव च ॥ ५७ ॥

निद्रा नाश के दूसरे कारण—कार्य में फंसा रहना, काल, बुढ़ापा, विकार, शूल, दर्द होना, स्वभाव से ही नींद कम आना, वायु, उन्माद रोग या वातरोग आदि ।

तमोभवा श्लेष्मसमुद्भवा च मनःशरीरश्रमसंभवा च ।

आगन्तुकी व्याध्यनुवर्तिनी च रात्रिस्वभावप्रभवा च निद्रा ॥५८ ॥

रात्रिस्वभावप्रभवा मता या तां भूतधार्त्रीं प्रवदन्ति निद्राम् ।

❧ यदि मस्तिष्क में स्थित निद्रा को नियमित करने वाला केन्द्र नष्ट कर दिया जाये या चोट आदि से नष्ट हो जाये अथवा विक्षिप्त हो जाये तब पुरुष को नींद का आना असम्भव हो जाता है । जब तक मस्तिष्क में यह केन्द्र ठीक है तभी तक यह चिकित्सा फलवती हो सकती है ।



तमोभवामाहुरघस्यमूलं, शेषं पुनर्व्याधिषु निर्दिशन्ति ॥ ५९ ॥

नीद तीन प्रकार की है । यथा—१ तमोजन्य निद्रा कफ से एवं मनु और शरीर के थकने से उत्पन्न होती है । २ 'आगन्तुकी । रोग (सन्निपात ज्वर आदि) से उत्पन्न होनेवाली, ३ रात्रिके स्वभाव से उत्पन्न होने वाली निद्रा । इन तीनों प्रकार की निद्रा में जो निद्रा रात्रि-स्वभाव के कारण उत्पन्न होती है उसको 'भूतधात्री' अर्थात् धात्र के समान प्राणियों को पोषण करनेवाली कहते हैं और तमोगुण से उत्पन्न निद्रा पाप, अधर्म का मूल है, शेष आगन्तुकी निद्रा की गिनती रोगों में की जाती है ।

तत्र श्लोकाः । निन्दिताः पुरुषास्तेषां यौ विशेषेण निन्दितौ ।

निन्दिते कारणं दोषास्तयोर्निन्दितभेषजम् ॥ ६० ॥

येभ्यो यदा हिता निद्रा येभ्यश्चाप्यहिता यदा ।

अतिनिद्रानिद्रयोश्च भेषजं यद्भवा च सा ॥ ६१ ॥

या या यथाप्रभावा च निद्रा तत्सर्वमत्रिज ।

अष्टौनिन्दितसंख्याते व्याजहार पुनर्वसुः ॥ ६२ ॥

निन्दित पुरुष, इनमें जो दो (स्थूल और कृश) अधिक निन्दित, निन्दित होने का कारण, दोनों के दोष, औषध, जिनके लिये निद्रा हितकारी है, जिनके लिये अहितकारी, अति नीद और नींद के न आने की औषध और जिस कारण से नींद आती है, जिस जिस प्रकार से उत्पन्न होती है, इन सब बातों को आत्रेय ऋषि ने 'अष्टौ निन्दित' नामक अध्याय में कह दिया ।

इत्यभिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने योजनाचतुष्के

अष्टौनिन्दितीया नाम एकोविंशतितमोऽध्यायः ॥ २१ ॥

## द्वाविंशतितमोऽध्यायः ।



अथातो लङ्घनवृंहणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब लंघन और वृंहणीय अध्याय की व्याख्या करते हैं, ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

तपःस्वाध्यायनिरतानात्रेयः शिष्यसत्तमान् ।

षडभिवेशप्रमुखानुक्तवान् परिचोदयन् ॥ ३ ॥

(लङ्घनं वृंहणं काले रूक्षणं स्नेहनं तथा ।

स्वेदनं स्तम्भनं चैव जानीते यः स वै भिषक् ॥ ४ ॥

आत्रेय महर्षि तपश्चर्या और स्वाध्याय में मग्न हुए, अभिवेश आदि प्रमुख एवं उत्तम छः शिष्यों के ज्ञान के लिये कहने लगे—जो लंघन, वृंहण, रूक्षण, स्नेहन, स्वेदन एवं स्तम्भन क्रियाओ के समय तथा विधि को जानता है, वही वैद्य है ।

तमुक्तवन्तमात्रेयमभिवेश उवाच ह ।

भगवल्लङ्घनं किंस्विल्लङ्घनीयाश्च कीदृशाः ॥ ५ ॥

वृंहणं वृंहणीयाश्च रूक्षणीयाश्च रूक्षणम् ।

स्नेहनं स्नेहनीयाश्च स्वेदाः स्वेद्याश्च के मताः ॥ ६ ॥

स्तम्भनं स्तम्भनीयाश्च वक्तुमर्हसि तद्गुरो ।

लङ्घनप्रभृतीनां च षण्णामेषां समासतः ॥ ७ ॥

कृताकृतातिरिक्तानां लक्षणं वक्तुमर्हसि ।

इस प्रकार कहते हुए आत्रेय ऋषि से अभिवेश ने कहा—कि ‘भगवन् लंघन किस प्रकार का होता है और कौन पुरुष लंघन के योग्य है ? वृंहण क्या है और वृंहणीय चिकित्सा के योग्य कौन हैं ? रूक्षण क्या है और रूक्षणीय कौन हैं ? स्नेहन क्या है और स्नेहनीय कौन हैं ? स्वेदन क्या है और स्वेदनीय कौन हैं ? स्तम्भन क्या है और स्तम्भनीय पुरुष कौन हैं ? हे गुरो ! यह सब आप कहिये । इन छः लंघन आदि के लक्षण संक्षेप में कहिये । सम्यक् प्रकार से किये, न किये और अति किये हुए के लक्षण भी कहने योग्य हैं ।”

वचस्तदभिवेशस्य निशम्य गुरुरब्रवीत् ॥ ८ ॥

यत्किञ्चिद्वाघवकरं देहे तल्लङ्घनं स्मृतम् ।  
 बृहत्त्वं यच्छरीरस्य जनयेत्तच्च बृंहणम् ॥ ९ ॥  
 रौक्ष्यं खरत्वं वैशद्यं यत्कुर्यात्तद्वि रूक्षणम् ।  
 स्नेहनं स्नेहविष्यन्दमार्दवक्लेदकारकम् ॥ १० ॥  
 स्तम्भगौरवशीतघ्नं स्वेदनं स्वेदकारकम् ।  
 स्तम्भनं स्तम्भयति यद्गतिमन्तं चल द्रवम् ॥ ११ ॥

अग्निवेश के वचन को सुनकर गुरु बोले । शरीर के अन्दर जो वस्तु लघुता, हल्कापन उत्पन्न करती है, उसको 'लघन' कहते हैं । जो वस्तु शरीर की स्थूलता उत्पन्न करती है, उसे 'बृंहण' कहते हैं । जो वस्तु शरीर में रूक्षता, कर्कशता और विशदता, पृथक्त्व उत्पन्न करती है, वह रूक्षण है । शरीर में जो वस्तु चिकास, विष्यन्द, विलयन, कोमलता और क्लिन्नता उत्पन्न करती है, वह स्नेहन है जो वस्तु शरीर में जडता उत्पन्न करे, भारीपन करे शीत का नाश करे तथा पसीना लाये वह 'स्वेदक' है । जो वस्तु गतिशील और थोड़ी सी गति को भी एकदम से रोक देती है, वह स्तम्भन है ।

लघुष्णतीक्ष्णविशदं रूक्षं सूक्ष्मं खरं सरम् ।  
 कठिनं चैव यद्द्रव्यं प्रायस्तल्लङ्घनं स्मृतम् ॥ १२ ॥  
 गुरुशीतमृदुस्निग्धं बहलं स्थूलपिच्छिलम् ।  
 प्रायो मन्दं स्थिरं श्लक्ष्णं द्रव्यं बृंहणमुच्यते ॥ १३ ॥  
 रूक्षं लघु खरं तीक्ष्णमुष्णं स्थिरमपिच्छिलम् ।  
 प्रायशः कठिनं चैव यद्द्रव्यं तद्वि रूक्षणम् ॥ १४ ॥  
 द्रवं सूक्ष्मं सरं स्निग्धं पिच्छिलं गुरु शीतलम् ।  
 प्रायो मन्दं मृदु च यद्द्रव्यं तत्स्नेहनं मतम् ॥ १५ ॥  
 उष्णं तीक्ष्णं सरं स्निग्धं रूक्षं सूक्ष्मं द्रवं स्थिरम् ।  
 द्रव्यं गुरु च यत् प्रायस्तद्वि स्वेदनुमुच्यते ॥ १६ ॥  
 शीतं मन्दं मृदु श्लक्ष्णं रूक्षं सूक्ष्मं द्रवं स्थिरम् ।  
 यद्द्रव्यं लघु चोद्दिष्टं प्रायस्तत्स्तम्भनं स्मृतम् ॥ १७ ॥

जो वस्तु लघु, गरम, तीक्ष्ण, विशद, रूक्ष, सूक्ष्म, खर ( कर्कश ), सर, बहने वाला और कठिन हो वह वस्तु प्रायः करके 'लंघन' गुण वाली होती है । भारी, शीतवीर्य, मृदु, स्निग्ध, घन, स्थूल, पिच्छिल, चिरकारी, देर में कार्य करने वाला, स्थिर, चिकना जो पदार्थ होता है, वह प्रायः करके 'बृंहण' होता है । रूक्ष, लघु, खर, तीक्ष्ण, उष्ण, स्थिर, चिकास रहित और कठिन द्रव्य है वह प्रायः करके 'रूक्षण' होता है । जो द्रव्य पतला, सूक्ष्म, बहने वाला, चिकना, स्नेह युक्त, भारी, शीतल, मन्द ( चिरकारी ) और मृदु होता है, वह प्रायः करके 'स्नेहन' होता है । उष्ण, तीक्ष्ण, बहने वाला, स्निग्ध, रूक्ष, सूक्ष्म, द्रव, स्थिर और भारी जो पदार्थ होता है, वह प्रायः करके 'स्वेदन' होता है । शीत, मन्द, मृदु, श्लेष्मण, रूक्ष, सूक्ष्म, द्रव और स्थिर तथा लघु होता है, वह द्रव्य प्रायः करके 'स्तम्भन' होता है ।

चतुष्प्रकारा संशुद्धिः पिपासां मारुतातपौ ।

पाचनान्युपवासश्च व्यायामश्चेति लङ्घनम् ॥ १८ ॥

प्रभूतश्लेष्मपित्तास्रमलाः सस्पृष्टमारुताः ।

बृहच्छरीरा बलिनो लङ्घनीया विशुद्धिभिः ॥ १९ ॥

येषां मध्यबला रोगाः कफपित्तसमुत्थिताः ।

वम्यतीसारहृद्रोगविसूच्यलसकज्वराः ॥ २० ॥

विवन्धगौरवोद्गारहृल्लासारोचकादयः ।

पाचनैस्तान् भिषक् प्राज्ञ प्रायेणादावुपाचरेत् ॥ २१ ॥

एत एव यथोद्दिष्टा येषामल्पबला गदाः ।

पिपासानिग्रहैस्तेपामुपवासैश्च ताञ्जयेत् ॥ २२ ॥

रोगाञ्जयेन्मध्यबलान् व्यायामातपमारुतैः ।

बलिनां कि पुनर्येषा रोगाणामवर वलम् ॥ २३ ॥

❖ विरूक्षण में मुख्य रूप से स्नेह का अभाव रहता है और लंघन में गौरव का अभाव रहता है यह दोनों में मुख्य भेद है ।

त्वग्दोषिणां प्रमूढानां स्निग्धाभिष्यन्दिबृंहिणाम् ।  
शिशिरे लङ्घनं शस्तमपि वातविकारिणाम् ॥ २४ ॥

वमन, विरेचन, नस्य और आस्थापन वस्ति, प्यास का रोकना, वायु और धूप का सहना, पाचन, उपवास और व्यायाम ये शरीर में लघुता उत्पन्न करते हैं। जिन पुरुषों में कफ, पित्त, रक्त और मल बहुत बढ़े हो, जिन को वात रोग हों, जिन का शरीर बहुत बड़ा हो, बलवान् हो, उन को वमन, विरेचन आदि संशोधन द्वारा लंघन देना चाहिये। और जिन मध्यम बल वाले पुरुषों में कफ, पित्त से उत्पन्न रोग हो, जिन को वमन, अतिसार, हृदय रोग, विसूचिका, अलसक, ज्वर, विबन्ध, गौरव, उद्गार, वैचैनी, अरुचि आदि (अजीर्ण) हों, उनको वैद्य प्रथम पाचन ओषधियों से लंघन देकर चिकित्सा करे। यही रोग यदि अल्प बल वाले पुरुष को हों तो पिपासा के रोकने से और उपवास द्वारा लंघन कराके शान्त कराना चाहिये। मध्यम बल वाले रोगों को व्यायाम, धूप और वायु के सेवन से लंघन कराना चाहिये। इसी प्रकार बलवान् पुरुषो में जब रोग का बल न्यून हो, तब भी व्यायाम द्वारा लंघन कराना चाहिये। त्वचा के दोष वाले, प्रमेह रोगियों को, स्निग्ध या अभिष्यन्द अथवा पुष्ट शरीर वाले पुरुष को, एवं वात रोगियों को शिशिर काल में लंघन देना उत्तम है। शिशिर के समागुण होने से हेमन्त भी उत्तम है।

अदिग्धविद्धमक्लिष्टं वयःस्थं सात्म्यचारिणाम् ।  
मृगमत्स्यविहङ्गाना मासं बृंहणमुच्यते ॥ २५ ॥  
क्षीणाः क्षताः कृशा वृद्धा दुर्वला नित्यमध्वगाः ।  
स्त्रीमद्यनित्या ग्रीष्मे च बृंहणीया नराः स्मृता ॥ २६ ॥  
शोपाशोऽग्रहणीदौर्ब्याविभिः कर्षिताश्च ये ।  
तेषां क्रव्यादमांसानां बृंहणा लघवो रसाः ॥ २७ ॥  
स्नानमुत्सादनं स्वप्नो मधुराः स्नेहवस्तयः ।  
शर्करा क्षीरसर्पिषि सर्वेषां विद्धि बृंहणम् ॥ २८ ॥

विषयुक्त शस्त्र से न मारे हुए, निरोगी, स्वच्छन्द, जवान, स्वस्थ, चरने वाले, मृग, मछली या पक्षियों का मांस वृंहण के लिये उपयुक्त है । ❀ क्षीण रोगी, उरःक्षत का रोगी, कृश, वृद्ध, दुर्बल रोज़ सफ़र ( परिश्रम ) करने वाले, स्त्रीसेवी, मद्यसेवी पुरुषों का ग्रीष्म काल में वृंहण करना चाहिये । शोष, अर्श, ग्रहणी रोग के कारण जो पुरुष निर्बल हो गये हैं, उनको मांस खाने वाले पशु पक्षियों के मांस से वृंहण करना चाहिये । मांस को संस्कार द्वारा लघु बना लेना चाहिये, अथवा लघु गुण वाले पक्षी बाज़ आदि का मांस प्रयोग करना चाहिये । स्नान, उबटन, निद्रा, मधुर एवं स्नेह युक्त बस्ति या, शकर, घी, दूध ये वस्तुएँ सब पुरुषों का वृंहण करती हैं ।

कटुतिक्तकषायाणां सेवनं स्त्रीष्वसंयमः ।

खलिपिण्याकतक्राणां मध्वादीनां च रूक्षणम् ॥ २९ ॥

अभिष्यन्दा महादोषा मर्मस्था व्याधयश्च ये ।

उरुस्तम्भप्रभृतयो रूक्षणीया निदर्शिताः ॥ ३० ॥

कडुए, तीखे, कषाय रस का सेवन, अति स्त्री संग, सरसों की खल, तिल की खल, मठा और मधु (शहद) आदि विरूक्षण करने वाले हैं । कफरोगी, वातरोगी और जिन को मर्म स्थान के रोग उरुस्तम्भ (आढ्य-वात, प्रमेह आदि ) हो उनका विरूक्षण उपचार करना चाहिये ।

स्नेहाः स्नेहयितव्याश्च स्वेदाः स्वेद्याश्च ये नराः ।

स्नेहाध्याये मयोक्तास्ते स्वेदाख्ये च सविस्तरम् ॥ ३१ ॥

स्नेह कितने हैं और कौन स्नेह के योग्य है ? स्वेद कितने हैं और कौन स्वेद के योग्य है ? ये स्नेह और स्वेद अध्याय मे विस्तार से कहदिये हैं ।

द्रवं तनु स्थिरं यावच्छीतीकरणमौषधम् ।

❀ घर में पाले या रक्खे पक्षी या मछलियों का मांस लाभकर नहीं है जो पशु पक्षी अपने स्वाभाविक रूप में रहते हैं उन का मांस ही लाभदायक है ।

स्वादु तिक्तं कषायं च स्तम्भनं सर्वमेव तत् ॥ ३२ ॥

पित्तक्षाराम्निदग्धा ये वम्यतीसारपीडिताः ।

विषस्वेदातियोगार्ताः स्तम्भनीयास्तथाविधाः ॥ ३३ ॥

जो द्रव्य पतला, द्रव, बहने वाला और शीतलता उत्पन्न करने वाला है, तथा मधुर, तिक्त या कषाय रस है, वह सब 'स्तम्भन' है। पित्त रोगी, क्षार या अग्नि से जले रोगी, वमन या अतिसार से पीड़ित, विष वेग से या अति स्वेदन क्रिया से पीड़ित पुरुष स्तम्भन क्रिया के योग्य है।

वातमूत्रपुरीषाणां विसर्गे गात्रलाघवे ।

हृदयोद्गारकण्ठास्यशुद्धौ तन्द्राक्लमे गते ॥ ३४ ॥

स्वेदे जाते रुचौ चैव क्षुत्पिपासासहोदये ।

कृतं लङ्घनमादेश्यं निर्व्यथे चान्तरात्मनि ॥ ३५ ॥

पर्वभेदोऽङ्गमर्दश्च कासः शोषो मुखस्य च ।

क्षुत्प्रणाशोऽरुचिस्तृष्णा दौर्बल्यं श्रोत्रनेत्रयोः ॥ ३६ ॥

मनस संभ्रमोऽभीक्ष्णमूर्ध्वातस्तमो हृदि ।

देहाग्निबलनाशश्च लङ्घनेऽतिकृते भवेत् ॥ ३७ ॥

अपान वायु, मल-मूत्र का बाहर आना, शरीर में हल्कापन, आमाशय, ढकार, गला और मुख के शुद्ध होने पर, आलस्य और निष्क्रियता के नष्ट होने पर, पसीना और भोजन में रुचि उत्पन्न होने पर, मन के प्रसन्न होने पर, सम्यक् प्रकार से लंघन हुआ ऐसा जानना चाहिये। लंघन के अधिक करने से जोड़ों का टूटना, अंगों में पीड़ा, कास, मुख का सूखना, भूख का नष्ट होना, अरुचि, प्यास, कान और आंख में निर्बलता, मन की बेचैनी, चक्कर आना, शरीर के ऊपर के भाग में बारम्बार वायु का चढ़ना, जोर से ना, हृदय में अन्धकार (तमोगुण की अधिकता), जठराग्नि और शरीर के बल का नाश होना ये लंघन के अतियोग से होते हैं।

बलं पुष्ट्युपलम्भश्च कार्श्यदोषविवर्जनम् ।

लक्षणं वृंहितं, स्थौल्यमति चात्यर्थवृंहिते ॥ ३८ ॥

बल, पुष्टि का होना, शीत और उष्ण को सहन करने की शक्ति का होना ये सम्यक् प्रकार के वृंहण होने के लक्षण है । वृंहण के अतियोग से स्थूलता आती है ।

कृताकृतस्य लिङ्गं यल्लङ्घिते तद्धि रूक्षिते ।

लंघन के सम्यक् योग और अतियोग के जो लक्षण हैं वे ही लक्षण रूक्ष के सम्यक् योग और अतियोग के हैं ।

स्तम्भितः स्याद्बले लब्धे यथोक्तैश्चामयैर्जितैः ॥ ३९ ॥

श्यावता स्तब्धगात्रत्वमुद्वेगो हनुसंग्रहः ।

हृद्बर्चोनिग्रहश्च स्यादतिस्तम्भितलक्षणम् ॥ ४० ॥

लक्षणं चाकृतायां स्यात् षण्णामेषां समासतः ।

स्तम्भन क्रिया के योग्य रोगों के शान्त होने पर, बल प्राप्त होने से स्तम्भन भली प्रकार से हुआ जानना चाहिये । स्तम्भन के अतियोग से—काला रंग, शरीर का जड़ होना, वमन की इच्छा, जवाड़ी का बन्द होना, हृदय का अवरोध, मल का रुकना ये अतिस्तम्भन के लक्षण हैं ।

तद्दौषधानां व्याधीनामशमो वृद्धिरेव च ॥ ४१ ॥

इति षट् सर्वरोगाणां प्रोक्ताः सम्यगुपक्रमाः ।

साध्यानां साधने सिद्धा मात्राकालानुरोधिनः ॥ ४२ ॥ इति

भवति चात्र । दोषाणां बहुसंसर्गात् संकीर्यन्ते ह्युपक्रमाः ।

षट्त्वं तु नातिवर्तन्ते त्रित्वं वातादयो यथा ॥ ४३ ॥

तत्र श्लोकः । इत्यस्मिल्लङ्घनाध्याये व्याख्याताः षडुपक्रमाः ।

यथाप्रश्नं भगवता चिकित्सा यैः प्रवर्तिता ॥ ४४ ॥

ये लंघन आदि छः क्रियाओं के अयोग अर्थात् न्यून क्रिया से, इन क्रियाओंसे शान्त होने वाले रोगों की शान्ति नहीं होती या बढ़ जाते हैं । इन छः क्रियाओं के सम्यक् योग से सब रोग शान्त हो सकते हैं । मात्रा और समय का विचार करके इन क्रियाओं का उपयोग करने से सब साध्य रोग ठीक होते हैं ।



वातादि दोषों के परस्पर मिलने से बहुत भेद हो जाते हैं, इसलिये चिकित्सा भी बहुत प्रकार की है। जिस प्रकार कि रोग वात आदि तीन को छोड़कर नहीं होते उसी प्रकार चिकित्सा भी इन छः में ही सीमित है। इस लंघनीय अध्याय में छः क्रियायें प्रश्न के अनुसार भगवान् आत्रेय ने कह दी हैं।

इत्यश्विवेशशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने योजनाचतुष्के  
लघुनवृंहणीयो नाम द्वाविंशतितमोऽध्यायः ॥ २२ ॥

### त्रयोविंशतितमोऽध्यायः ।

अथातः सन्तर्पणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

इसके आगे सन्तर्पणीय अध्याय की व्याख्या करेंगे, ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है।

संतर्पयति यः स्निग्धैर्मधुरैर्गुरुषुपिच्छिलैः ।

नवान्नैर्नवमद्यैश्च मांसैश्चानूपवारिजैः ॥ ३ ॥

गोरसैर्गोडिकैश्चात्रैः पैष्टिकैश्चातिमात्रशः ।

चेष्टाद्वेषी दिवास्वप्नप्रशय्यासनसुखे रतः ॥ ४ ॥

रोगास्तस्योपजायन्ते संतर्पणनिमित्तजाः ।

जो पुरुष स्निग्ध, मधुर, गुरु और पिच्छल पदार्थों से शरीर का सन्तर्पण करते हैं, नये अन्न, नवीन मद्य, जलीय प्रदेश में या जलचर प्राणियों के मांस का सेवन, दूध से बने या गुड से बने पदार्थों का या पौष्टिक भोजनों का अति उपयोग करते हैं, हाथ पांव हिलाने की क्रिया करना पसन्द नहीं करते, दिन में सोना, आरामतलबी से उठना, बैठना जिन्दगी बसर करना पसन्द करते हैं, उनको सन्तर्पणजन्य रोग उत्पन्न होजाते हैं।

प्रमेहकण्डूपिडकाः कोठपापण्डूवामयञ्जराः ॥ ५ ॥

कुष्ठान्यामप्रदोषाश्च मूत्रकृच्छ्रमरोचकः ।

तन्द्राक्लैब्यमतिस्थौल्यमालस्यं गुरुगात्रता ॥ ६ ॥

इन्द्रियस्रोतसां लेपो बुद्धेर्मोहः प्रमीलकः ।

शोफाश्चैवंविधाश्चान्ये शीघ्रमप्रतिकुर्वतः ॥ ७ ॥

सन्तर्पणजन्य रोग—प्रमेह, कण्डू, फुन्सियां, कोठ (वर्र के काटे के समान चकत्ते), पाण्डु रोग, ज्वर, कुष्ठ रोग, विपूचिका आदि, मूत्रकृच्छ्र, अरुचि, तन्द्रा, क्लीबता, अतिस्थूलता, आलस्य, शरीर का भारीपन, इन्द्रिय और स्रोतो का अवरोध, बुद्धिभ्रंश, निरन्तर एक ही बात की चिन्ता, सृजन एवं इसी प्रकार के अन्य रोग शीघ्र प्रतिकार न करने से उत्पन्न होजाते हैं ।

शस्तमुल्लेखनं तत्र विरेको रक्तमोक्षणम् ।

व्यायामश्चोपवासश्च धूमाश्च स्वेदनानि च ॥ ८ ॥

सर्चौद्रश्चाभयाप्राशः प्रायो रूक्षान्नसेवनम् ।

चूर्णप्रदेहा ये चोक्ताः कण्डूकोठविनाशनाः ॥ ९ ॥

त्रिफलारग्वं पाठां सप्तपर्णं सवत्सकम् ।

मुस्तं निम्बं समदनं जलेनोत्कथितं पिबेत् ॥ १० ॥

तेन मेहादयो यान्ति नाशमभ्यस्यतो ध्रुवम् ।

मात्राकालप्रयुक्तेन संतर्पणसमुत्थिताः ॥ ११ ॥

ऐसी अवस्था में वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण, व्यायाम, उपवास, धूम्रपान, स्वेद क्रिया, मधु के साथ हरीतकी खाना ( या अगस्त्य हरीतकी का खाना ), रूक्ष अन्नों का उपयोग, कण्डू और कोठ को नष्ट करने वाले जो चूर्ण या प्रदेह आरग्वधीय अध्याय में कहे हैं उनका सेवन, त्रिफला (हरड़, बहेड़ा, आंवला), अमलतास, पाडल, सतवन, इन्द्रजौ, नागरमोथा, नीम की छाल, मैलफल इनका जल में काढा बनाकर अभ्यास पूर्वक ( नित्यप्रति ) पीने से प्रमेह आदि रोग जो कि मात्रा और काल में सन्तर्पण क्रिया से उत्पन्न हुए हैं, नष्ट हो जाते हैं ।

मुस्तमारग्वधः पाठा त्रिफला देवदारु च ।

श्वदंष्ट्रा खदिरो निम्बो हरिद्रे त्वक्च वत्सकात् ॥ १२ ॥  
 रसमेषां यथादोषं प्रातः प्रातः पिबेन्नरः ।  
 संतर्पणकृतैः सर्वैर्व्याधिभिः संप्रमुच्यते ॥ १३ ॥  
 एभिश्चोद्धर्तनोद्धर्षस्नानयोगोपयोजितैः ।  
 त्वग्दोषा प्रशमं यान्ति तथा स्नेहोपसंहितैः ॥ १४ ॥  
 कुष्ठं गोमेदको हिङ्गुः क्रौञ्चास्थि त्र्यूषणं वचा ।  
 वृषकैले श्वदंष्ट्रा च खराह्वा चाशमभेदकः ॥ १५ ॥  
 तक्रेण दधिमण्डेन बदरास्त्तरसेन वा ।  
 मूत्रकृच्छ्रं प्रमेहं च पीतमेतद्व्यपोहति ॥ १६ ॥  
 तक्राभयाप्रयोगैश्च त्रिफलायास्तथैव च ।  
 अरिष्टानां प्रयोगैश्च यान्ति मेहादयः शमम् ॥ १७ ॥  
 त्र्यूषणं त्रिफला क्षौद्रं क्रिमिघ्नं साजमोदकम् ।  
 मन्थोऽयं सक्तवः सर्पिर्हितो लोहोदकाप्लुतः ॥ १८ ॥  
 व्योषं विडङ्गं शिग्रूणि त्रिफलां कटुरोहिणीम् ।  
 बृहत्यौ द्वे हरिद्रे द्वे पाठां सातिविषां स्थिराम् ॥ १९ ॥  
 हिङ्गुकेवुकमूलानि यवानीधान्यचित्रकम् ।  
 सौवर्चलमज्जाजी च हबुषां चेति चूर्णयेत् ॥ २० ॥  
 चूर्णतैलघृतक्षौद्रभागाः स्युर्मानतः समाः ।  
 सक्तूनां षोडशगुणो भागः संतर्पणं पिबेत् ॥ २१ ॥  
 प्रयोगादस्य शाभ्यन्ति रोगाः संतर्पणोत्थिताः ।  
 प्रमेहा मूढवाताश्च कुष्ठान्यर्शासि कामलाः ॥ २२ ॥  
 ष्ठीहा पाण्डुवामयः शोफो मूत्रकृच्छ्रमरोचकः ।  
 हृद्रोगो राज्यक्ष्मा च कासः श्वासो गलग्रहः ॥ २३ ॥  
 क्रिमयो ग्रहणीदोषाः श्वैत्र्यं स्थौल्यमतीव च ।  
 नराणां दीप्यते चाग्निः स्मृतिर्बुद्धिश्च वर्धते ॥ २४ ॥  
 व्यायामनित्यो जीर्णाशी यवगोधूमभोजनः ।

सन्तर्पणकृतैर्दोषैः स्थौल्यं मुक्त्वा विमुच्यते ॥ २५ ॥

नागरमोथा, अमलतास, पादल, त्रिफला, देवदारु, गोखरू, खैर की छाल, नीम की छाल, हल्दी, दारुहल्दी, कूड़े की छाल, इन औषधियों से काथ करके दोषानुसार प्रतिदिन प्रातःकाल पीने से, सन्तर्पणजन्य सब व्याधियों से मुक्त हो जाता है। स्नेह साधन द्वारा त्वचा के रोग मिट जाते हैं। कूठ, गोमेदक मणि, ( या अंकोल ) हींग, कौंच पक्षी की अस्थि, सोंठ, मिरच, पिप्पली, वच, वासा, इलायची, गोखरू, अजवायन, पाषाण-भेद इन सब को तक्र या दधिमण्ड के साथ अथवा खट्टे बेरो के रसों के साथ पीने से मूत्रकृच्छ और प्रमेह रोग मिटते हैं। छाछ और हरड़ के प्रयोग से या छाछ और त्रिफला के प्रयोग से, या तक्रारिष्ट के प्रयोग से ( प्रमेह में कहे अरिष्टों के उपयोग से ) प्रमेह आदि रोग शान्त होते हैं। सोंठ, मिरच, पिप्पली, त्रिफला, मधु, वायविडंग, अजवायन, पानी में घुला ( घिसा ) अगर, घी, इनको 'पडङ्गविधि' से तैयार सत्तू करके पीने से प्रमेह आदि रोग मिटते हैं। सोंठ, मिरच, पीपल, वाय-विडंग, शोभाजन, त्रिफला, कुटकी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, हल्दी, दारुहल्दी, पादल, अतीस, पृश्निपर्णी, हींग, केवुकमूल, अजवायन, धनिया, चीतामूल, सुवर्चल, जीरा हाउबेर, इनका चूर्ण कर लेना चाहिये। अब चूर्ण के बराबर तेल, घी और शहद प्रत्येक समान भाग मिलाना चाहिये। इसमें जौ के सत्तू का सोलहवां भाग मिला कर ( पेट भर खाना ) चाहिये। इस प्रकार करने से सन्तर्पणजन्य रोग शान्त हो जाते हैं। प्रमेह, मूदवात, कुष्ठ, अर्श, कामला, झीहा, पाण्डुरोग, शोक, मूत्रकृच्छ, अरुचि, हृदय रोग, राजयक्ष्मा, कास, श्वास, गले का अवरोध, कृमि, ग्रहणी रोग, श्वित्र रोग, अतिस्थूलता रोग नष्ट होते हैं, जाठराग्नि दीप्त होती है और स्मृति एवं बुद्धि बढ़ती है। नित्य व्यायाम करने वाला, पहिले भोजन के जीर्ण होने पर खाने वाला, जौ और गेहूं का भोजन करने वाला मनुष्य सन्तर्पणजन्य रोगों से मुक्त होता है, तथा स्थूलता का नाश होता है।

उक्तं संतर्पणोत्थानामपतर्पणमौषधम् ।  
 वक्ष्यन्ते सौषधाश्चोर्ध्वमपतर्पणजा गदा ॥ २६ ॥  
 देहाग्निबलत्रणौजःशुक्रमांसबलक्षयः ।  
 ज्वरः कासानुबन्धश्च पार्श्वशूलमरोचकः ॥ २७ ॥  
 श्रोत्रदौर्बल्यमुन्मादः प्रलापो हृदयव्यथा ।  
 विण्मूत्रसंग्रहः शूलं जंघोरुत्रिकसंश्रयम् ॥ २८ ॥  
 पर्वास्थिसधिभेदश्च ये चान्ये वातजा गदाः ।  
 ऊर्ध्ववातादयः सर्वे जायन्ते तेऽपतर्पणात् ॥ २९ ॥  
 तेषां संतर्पणं तज्जैः पुनराख्यातमौषधम् ।  
 यत्तदात्वे समर्थं स्याद्भ्यासे वा तदिष्यते ॥ ३० ॥  
 सद्यः क्षीणो हि सद्यो वै तर्पणेनोपचीयते ।  
 नर्ते संतर्पणाभ्यासाच्चिरक्षीणस्तु पुष्यति ॥ ३१ ॥  
 देहाग्निदोषभैषज्यमात्राकालानुवर्तिना ।  
 कार्यमत्वरमाणेन भेषजं चिरदुर्वले ॥ ३२ ॥  
 हिता मांसरसास्तस्मै पर्यामि च घृतानि च ।  
 स्नानानि वस्तयोऽभ्यङ्गास्तर्पणास्तर्पणाश्च ये ॥ ३३ ॥  
 ज्वरकासप्रसक्तानां कृशानां मूत्रकृच्छ्रिणाम् ।  
 तृष्यतामूर्ध्ववातानां हितं वक्ष्यामि तर्पणम् ॥ ३४ ॥  
 शर्करापिप्पलीमूलघृतक्षौद्रैः समांशकैः ।  
 सक्तुद्विगुणितो वृष्यस्तेषां मन्यः प्रशस्यते ॥ ३५ ॥  
 सक्तवो मदिरा क्षौद्रं शर्करा चेति तर्पणम् ।  
 पिवेन्मारुतविण्मूत्रकफपित्तानुलोमनम् ॥ ३६ ॥  
 फाणितं सक्तवः सर्पिर्दधिमण्डोऽम्लकाञ्जिकम् ।  
 तर्पणं मूत्रकृच्छ्रन्नमुदावर्तहरं पिवेत् ॥ ३७ ॥  
 मन्यः खजूरमृद्धीकापृष्णाम्लाम्लीकदाडिमैः ।  
 सामलकैर्युक्तो मद्यविकारनुत् ॥ ३८ ॥

स्वादुरम्लो जलकृतः सस्त्रेहो रूक्ष एव वा ।

सद्यः संतर्पणो मन्थः स्थैर्यवर्णबलप्रदः ॥ ३९ ॥

सन्तर्पण से उत्पन्न रोगों की औषध कह दी, अब अपतर्पण को कहते हैं, तथा अपतर्पण जन्य रोग और उनकी औषध भी कहते हैं— अपतर्पण से ज्वर, कास एवं कास सम्बन्धी विकार, बल, कान्ति, ओज, शुक्र और मांस का क्षय, कर्णेन्द्रिय की निर्बलता, उन्माद, प्रलाप, हृदय पीड़ा, मल-मूत्र का अवरोध, जंघा, ऊरु और त्रिक (कटि के नीचे) प्रदेश में दर्द, पर्व, अस्थि और सन्धियों का टूटना, और अन्य वातजन्य रोग यथा ऊर्ध्वात (वायु का उपर चढ़ना) आदि रोग अपतर्पण के कारण उत्पन्न होते हैं। अपतर्पण से उत्पन्न इन रोगों के लिये संतर्पण क्रिया औषध है। सन्तर्पण क्रिया दो प्रकार की है। यथा—सद्यः सन्तर्पण और अभ्यास (क्रमशः शनैः शनैः) सन्तर्पण। जो मनुष्य सहसा एकदम से क्षीण होता है, वह सद्यः सन्तर्पण क्रिया से पुष्ट होता है और देर से क्षीण हुआ पुरुष विना अभ्यास सन्तर्पण के पुष्ट नहीं होता। जो पुरुष देर से निर्बल हो, उसमें शरीर जाठराग्नि, दोष, औषध बल, मात्रा और समय का विचार करके शान्ति से (जल्दी न करके) चिकित्सा करनी चाहिये। इस प्रकार के रोगी के लिये मांस, रस, दूध, घी, स्नान, बस्तियां, मर्दन, सन्तर्पण करने वाले मन्थ आदि प्रयोग करने चाहिये।

ज्वर, कास के रोगियों के लिये, निर्बलों के लिये, मूत्रकृच्छ रोगियों के लिये, प्यास रोगियों के लिये, ऊर्ध्वात रोगियों के लिये हितकारी तर्पण क्रिया का उपदेश करते हैं—शर्करा, पिप्पलीमूल, घी और शहद ये समान भाग लेकर इन सब से दुगुना सत्तू लेकर मन्थ बनाये। सत्तू, मदिरा, शहद और शर्करा इनसे मन्थ तैयार करके वायु, मल, मूत्र के अनुलोमन (अधोमार्ग से बाहर करने के लिये) और कफ, पित्त को अनुकूल करने के लिये प्रयोग करना चाहिये। फाणित (राब) सत्तू, घी, दहिमण्ड और धान्याम्ल कांजी, इनसे बना मन्थ मूत्रकृच्छ नाशक और उदार्वत्त रोग को

नष्ट करने वाला तर्पण है। खजूर, मुनक्का, इमली, कौकम, अनारद्वाना, फालसा और आंवला उनसे बना हुआ मन्थ मदिरा के विकार को नष्ट करता है। खट्टे और मीठे ( अनारद्वाना ) पदार्थों से पानी में बना और घी युक्त या बिना घी के बना हुआ मन्थ सद्यः सन्तर्पण है और स्थिरता, वर्ण कान्ति और बल को देता है।

तत्र श्लोक । संतर्पणोत्था ये रोगा रोगा ये चापतर्पणात् ।

संतर्पणीये तेऽध्याये सौषधाः परिकीर्तिताः ॥ ४० ॥

सन्तर्पण और अपतर्पण से उत्पन्न जो जो रोग है उनको तथा उनकी औषध को इस सन्तर्पणीय अध्याय में कह दिया ।

इत्यश्विदेशकृते तन्त्रे चरकप्रातिसंस्कृते सूत्रस्थाने योजनाचतुष्के

सन्तर्पणीयो नाम त्रयोविंशतितमोऽध्यायः ॥ २३ ॥

## चतुर्विंशतितमोऽध्यायः ।

अथातो विधिशोणित्तीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान्नात्रेयः ॥ २ ॥

अब विधिशोणित्तीय अध्याय की व्याख्या करेंगे ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

विधिना शोणितं जातं शुद्धं भवति देहिनाम् ।

देशकालौकसात्म्यानां विधिर्यः संप्रकाशितः ॥ ३ ॥

तद्विशुद्धं हि रुधिरं बलवर्णसुखायुषा ।

युनक्ति प्राणिनं प्राणः शोणितं ह्यनुवर्तते ॥ ४ ॥

देशसात्म्य, कालसात्म्य और अभ्याससात्म्य से मनुष्यों में जो रक्त उत्पन्न होता है, वह यदि विशुद्ध हो तो पुरुष को बल, वर्ण, सुख, आयु मे युक्त करता है। क्योंकि प्राणियों के प्राण रक्त का अनुसरण करते रहते हैं ।

प्रदुष्टवहुतीक्ष्णोष्णैर्मद्यैरन्यैश्च तद्विधैः ।

तथाऽतिलवणक्षारैरम्लैः कटुभिरेव च ॥ ५ ॥

कुलत्थमापनिष्पावतिलतैलनिषेवणैः ।

पिण्डालुमूलकादीनां हरितानां च सर्वशः ॥ ६ ॥

जलजानूपशैलानां प्रसहानां च सेवनात् ।

दध्यम्लमस्तुशुक्तानां सुरासौवीरकस्य च ॥ ७ ॥

विरुद्धानामुपक्लिन्नपूतीनां भक्षण्येन च ।

भुक्त्वा दिवा प्रस्वपतां द्रवस्निग्धगुरुणि च ॥ ८ ॥

अत्यादानं तथा क्रोधं भजतां चातपानलौ ।

छर्दिवेगप्रतीघातात्काले चानवसेचनात् ॥ ९ ॥

श्रमाभिघातसंतापैरजीर्णाध्यशनैस्तथा ।

शरत्कालस्वभावाच्च शोणितं संप्रदुष्यति ॥ १० ॥

ततः शोणितजा रोगाः प्रजायन्ते पृथग्विधाः ।

मुखपाकोऽक्षिरागश्च पूतिघ्राणास्यगन्धता ॥ ११ ॥

गुल्मोपकुशवीसर्परक्तपित्तप्रमीलकाः ।

विद्रधी रक्तमेहश्च प्रदरो वातशोणितम् ॥ १२ ॥

वैवर्यमग्निनाशश्च पिपासा गुरुगात्रता ।

सन्तापश्चातिदौर्बल्यमरुचिः शिरसश्च रुक् ॥ १३ ॥

विदाहश्चान्नपानस्य तिक्ताम्लोद्गिरणं क्लमः ।

क्रोधप्रचुरता बुद्धेः संमोहो लवणास्यता ॥ १४ ॥

स्वेदः शरीरदौर्गन्ध्यं मदः कम्पः स्वरक्षयः ।

तन्द्रा निद्रातियोगश्च तमसश्चातिदर्शनम् ॥ १५ ॥

कण्डूरुक्कोठपिडकाः कुष्ठचर्मदलादयः ।

विकाराः सर्व एवैते विज्ञेया शोणिताश्रयाः ॥ १६ ॥

शीतोष्णस्निग्धरूक्षाद्यैरुपक्रान्ताश्च ये गदाः ।

सम्यक् साध्या न सिध्यन्ति रक्तजांस्तान्निवभावयेत् ॥ १७ ॥



रक्त दूषित होने के कारण—अपनी प्रकृति से विपरीत, बहुत तीक्ष्ण, बहुत गरम मद्य अथवा इसी प्रकार के पानकाटि ( या अन्न से ), बहुत नमक, क्षार या खटाई से, कड़ुवे रस से, कुलथी, उड़द, राजशिन्वी, तिल, तैल के खाने से, पिण्डाल ( कठ ग्रन्थि, पांडरी रतालू, अरबी, बुईया), मूली, और हरे शाक सब्जियों के खाने से, पानी में रहने वाले तथा जलीय प्रदेश में रहने वाले, तथा पर्वत पर रहने वाले और मांस खाने वाले पक्षियों ( बाज़, चील ) का मांस खाने से, खट्टी दही, मस्तु, शुक्त ( कांजीभेद ), सुरा, सौवीरक ( कांजी भेद ) के खाने से, विरुद्ध, सडे गले, दुर्गन्ध युक्त भोजनों के खाने से, भोजन करके दिन में सोने से, तरल, स्निग्ध और भारी पदार्थों के सेवन से, बहुत अधिक खाने से, क्रोध, धूप, और अग्नि के अधिक सेवन से, वमन के वेग को रोकने से, रक्त के दूषित होने के समय ( शरत्काल ) में रक्त का मोक्षण न करने से, परिश्रम से, चोट से, सन्ताप से, अजीर्ण ( विना भोजन के पचे पुन खाने ) से, अध्यग्रन अर्थात् भोजन के पीछे दुबारा फिर भोजन करने ) से तथा शरत्काल में स्वभावात् से ही रक्त दूषित हो जाता है । रक्त के दूषित होने से नाना प्रकार के रक्तजन्य रोग उत्पन्न होते हैं । यथा मुखपाक, आख की सूजन ( आंख की लालिमा ), नाक से बदनू, मुख का दुर्गन्ध, गुल्म, उपकुश ( मुख की त्वचाओं में दाह और दातों का हिलना), वीसर्प, रक्तपित्त, प्रमौलक ( विसृचिका ), विद्रधि, रक्त प्रमेह, प्रदर, वातरक्त, विवर्णता, जाठराग्नि का नष्ट होना, प्यास, शरीर का भारीपन, सन्ताप, अतिनिर्वलता, अरुचि, शिर की दर्द, खान पान का विद्राह ( अपचन ), कड़ुवी या खट्टी डकार आना, निष्क्रियता, क्रोध की अधिकता, बुद्धिभ्रंश, मुख का नमकीनपन, पसीना आना, शरीर की दुर्गन्धता, मद्य, कम्पन, म्वरनाश, तन्द्रा, निद्रा का अधिक आना, और आंखों के सामने अन्धकार का अधिक आना, खाज, कोठ, फुन्सियां, कुष्ठ, चर्मदल ( चर्म फटने का विशेष रोग ), ये सब रोग रक्त के

आश्रित होते हैं । जो रोग शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष आदि उपक्रमों ( चिकित्सा ) द्वारा भली प्रकार साध्य होने पर भी सिद्ध न हो तो इन रोगों को रक्तजन्य समझना चाहिये ।

कुर्याच्छोणितरोगेषु रक्तपित्तहरी क्रियाम् ।

विरेकमुपवासं वा स्नावणं शोणितस्य वा ॥ १८ ॥

बलदोषप्रमाणाद्वा विशुद्ध्या रुधिरस्य वा ।

रुधिरं स्नावयेज्जन्तोरशयं प्रसमीक्ष्य वा ॥ १९ ॥

चिकित्सा—रक्तजन्य रोगों में रक्त-पित्तनाशक क्रिया करनी चाहिये अर्थात् विरेचन, उपवास, अथवा रक्त का मोक्षण करना चाहिये । बल की मात्रा और रक्तजन्य व्याधि के स्वरूप की मात्रा, जितने रक्त के निकालने से रक्त शुद्ध हो जाय इतने दूषित रक्त के स्थान को देखकर मनुष्य का रक्त ( थोड़ा या बहुत ) निकालना चाहिये ।

अरुणाभं भवेद्वाताद्विशदं फेनिलं तनु ।

पित्तात्पीतासितं रक्तं स्त्यायत्यौषण्याच्चिरेण च ॥ २० ॥

ईषत्पाण्डु कफाद् दुष्टं पिच्छिलं तन्तुमद्धनम् ।

द्विदोषलिङ्गं ससर्गात् त्रिलिङ्गं सान्निपातकम् ॥ २१ ॥

वायु से दूषित रक्त लाल रंग का, विशद-स्वच्छ, झागदार पतला होता है । पित्त से दूषित रक्त पीला, काला, घन (सान्द्र), बहुत गरम और जड़ होता है । कफ से दूषित रक्त थोड़ा पीला, पिच्छिल, तन्तु (तागे जैसा) और घन ठोस होता है । दो दोषों के संसर्ग होने से दो दोषों के लक्षण होते हैं और तीन दोषों के मिलने से तीनों दोषों के लक्षण उत्पन्न होजाते हैं।

तपनीयेन्द्रगोपाभं पद्मालक्तकसंनिभम् ।

गुञ्जाफलसवर्णं च विशुद्धं विद्धि शोणितम् ॥ २२ ॥

नात्युष्णशीतं लघु दीपनीयं रक्तेऽपनीते हितमन्नपानम् ।

तदा शरीरं ह्यवनस्थितासृगभिर्विशेषेण च रक्षितव्यः ॥ २३ ॥

प्रसन्नवर्णेन्द्रियमिन्द्रियार्थानिच्छन्तमव्याहृतपक्त्वेगम् ।

सुखान्वितं पुष्टिबलोपपन्नं विशुद्धरक्तं पुरुषं वदन्ति ॥ २४ ॥

यदा तु रक्तवाहीनि रससंज्ञावहानि च ।

पृथक् पृथक् समस्ता वा स्रोतांसि कुपिता मलाः ॥ २५ ॥

विशुद्ध रक्त का लक्षण—तपे हुष्ट स्वर्ण (कुन्दन) के समान, वीर-  
वहूटी के रंग का, लाल कमल या माहवर (जिसे औरतें पैर के तलुवों पर  
लगाती हैं) के समान रंग, लाल रक्ती के रंग के समान विशुद्ध रक्त  
का रंग होता है । रक्त मोक्षण करने के उपरान्त न तो बहुत गरम और  
न बहुत ठण्डा, लघु एवं दीपक (अग्नि को बढ़ाने वाला), खान पान सेवन  
करना चाहिये । रक्त मोक्षण होने से शरीर का रक्त अनवस्थित, अस्थिर  
होता है ( रक्त का वेग बहुत चंचल होता है ), इसलिये अग्नि की रक्षा  
विशेष रूप से करनी चाहिये, इसको मन्द नहीं होने देना चाहिये ।

विशुद्ध रक्त वाले पुरुष का लक्षण—जिस पुरुष का वर्ण कान्ति और  
इन्द्रियां निर्मल हों, इन्द्रियां अपने विषयों की इच्छा करें, जाठराग्नि का  
बल तथा मल-मूत्र आदि की प्रवृत्ति विना रुकावट के हो, मनुष्य का  
मन आनन्द अनुभव करे, प्रसन्नता और बल दीखता हो, उस पुरुष का  
रक्त शुद्ध जानना चाहिये ।

मलिनाहारशीलस्य रजोमोहावृतात्मनः ।

प्रतिहृत्यावतिष्ठन्ते जायन्ते व्याधयस्तदा ॥ २६ ॥

मदमूर्च्छायसंन्यासास्तेषां विद्याद्विचक्षणः ।

तथोत्तरं बलाधिक्यं हेतुलिङ्गोपशान्तिषु ॥ २७ ॥

दुर्बलं चेतसः स्थानं यदा वायुः प्रपद्यते ।

मनो विक्षोभयन् जन्तोः संज्ञां संमोहयेत्तदा ॥ २८ ॥

पित्तमेवं कफश्चैवं मनो विक्षोभयन्नृणाम् ।

संज्ञां नयत्याकुलतां विशेषश्चात्र वक्ष्यते ॥ २९ ॥

सक्तानल्पद्रुताभापं चलस्खलितचेष्टितम् ।

विद्याद्वातमदाविष्ट रूक्षश्यावारुणाकृतिम् ॥ ३० ॥

सक्रोधपरुषाभाषं संप्रहारकलिप्रियम् ।  
 विद्यात् पित्तमदाविष्टं रक्तपीतासिताकृतिम् ॥ ३१ ॥  
 स्वल्पसंबन्धवचनं तन्द्रालस्यसमन्विम् ।  
 विद्यात्कफमदाविष्टं पाण्डुं प्रध्यानतत्परम् ॥ ३२ ॥  
 सर्वाण्येतानि रूपाणि सन्निपातकृते मदे ।  
 जायते शाम्यति त्वाशु मदो मद्यमदाकृतिः ॥ ३३ ॥  
 यश्च मद्यमदः प्रोक्तो विषजो रौधिरश्च यः ।  
 सर्व एते मदा नर्ते वातपित्तकफत्रयात् ॥ ३४ ॥

मलिन आहार खाने वाले एवं रक्त और तम से आवृत मन वाले के कुपित वात, पित्त, कफ दोष पृथक् २ या मिलकर रसवाही, रक्तवाही या संज्ञावाही स्रोतों को रोक लेते हैं, तब निम्न लिखित रोग उत्पन्न होते हैं । यथा—मद, मूर्च्छा और संन्यास ये रोग होते हैं । इन तीनों दोषों के हेतु, लिंग (लक्षण) और शान्ति, उपचार में उत्तरोत्तर बल की अधिकता रहती है । अर्थात् मद से अधिक मूर्च्छा में और मूर्च्छा से अधिक संन्यास में बल की अधिकता रहती है । जिस समय चेतना का स्थान हृदय निर्बल हो जाता है और यहां पर वायु का प्रकोप हो, तब वह मन को क्षोभित करके मनुष्य की संज्ञा (चेतना) को ढांप लेता है पित्त और कफ ही मन का विक्षोभ उत्पन्न करके संज्ञा का नाश करते हैं, विशेष रूप में आगे कहते हैं । रुक रुक कर (तुतलाकर) बोलना, बहुत बोलना, जल्दी जल्दी बोलना, चलते हुए लड़खड़ा करके गिरते पडते चलना, चेहरे का रंग रूखा, काला, लाल सा होना, वातजन्य मद के लक्षण हैं । क्रोधयुक्त कठोर (गाली) वाणी बोलना, चोट या आघात करना, झगड़ा करना, चेहरे का रंग लाल, पीला, या काला होना, पित्तजन्य मद के लक्षण हैं । थोड़ा परन्तु सम्बन्ध (पूर्वापर सम्बन्ध) युक्त बोलना, तन्द्रा और आलस्य का होना, चेहरे का रंग धूसरवर्ण, एक ध्यान में मग्न होना ये कफजन्य मद के लक्षण हैं । सन्निपातजन्य मद में सब दोषों के लक्षण मिलते हैं ।

मद्यजन्य मद मे आकृति शरावी पुरुष के समान होती है और यह मद जल्दी चढ़ता है और जल्दी उतर जाता है। मद्यजन्य, विषजन्य, रक्तजन्य और दंषजन्य ये चारो प्रकार के मद, वात, पित्त, कफ को छोड़ कर नहीं होते हैं।

नीलं वा यदि वा कृष्णमाकाशमथवाऽरुणम् ।  
 पश्यंस्तमः प्रविशति शीघ्रं च प्रतिबुध्यते ॥ ३५ ॥  
 वेपथुश्चाङ्गमर्दश्च प्रपीडा हृदयस्य च ।  
 कार्श्यं श्यावाऽरुणा छाया मूर्च्छाये वातसंभवे ॥ ३६ ॥  
 रक्तं हरितवर्णं वा वियत्पीतमथापि वा ।  
 पश्यंस्तमः प्रविशति सस्वेदश्च प्रबुध्यते ॥ ३७ ॥  
 सपिपासः ससन्तापो रक्तपीताकुलेक्षणः ।  
 संभिन्नवर्चाः पीताभो मूर्च्छाये पित्तसंभवे ॥ ३८ ॥  
 मेघसंकाशमाकाशमावृतं वा तमोघनैः ।  
 पश्यंस्तमः प्रविशति चिराच्च प्रतिबुध्यते ॥ ३९ ॥  
 गुरुभिः प्रावृतैरङ्गैर्यैवाद्ग्रेण चर्मणा ।  
 सप्रसेकः सद्वृत्तासो मूर्च्छाये कफसंभवे ॥ ४० ॥  
 सर्वाङ्गितः सन्निपातादपस्मार इवागतः ।  
 स जन्तुं पातयत्याशु विना वीभ्रत्सचेष्टितैः ॥ ४१ ॥  
 दंषेपु मद्मूर्च्छायाः कृतवेगेषु देहिनाम् ।  
 स्वयमेवोपशाम्यन्ति संन्यासो नौषधैर्विना ॥ ४२ ॥  
 वाग्देहमनसां चेष्टामाक्षिप्यातिवला मलाः ।  
 संन्यस्यन्त्यवलं जन्तुं प्राणायतनसंश्रिताः ॥ ४३ ॥  
 स ना संन्याससंन्यस्तः काष्ठीभूतो मृतोपमः ।  
 प्राणैर्विच्युज्यते शीघ्रं मुक्त्वा सद्यः फलां क्रियाम् ॥ ४४ ॥

मूर्छा के लक्षण—आंखों के सामने आकाश नीला या काला अथवा लाल दीखता है, आंखों के सामने अन्धेरा आ जाता हो और मनुष्य मूर्छा

से जल्दी ही सचेत हो जाये, शरीर मे कम्पन और अंगों में पीड़ा हो, हृदय में वेदना अनुभव हो, कृशता और छाया, मुख का वर्ण काला या लाल होजाये, ये वातजन्य मूर्च्छाके लक्षण है । आकाश लाल पीला या हरा दिखाई दे, अन्धकार आता दिखाई दे और उठते समय शरीर पर पसीना, प्यास वा जलन हो, आंखे लाल या पीली, व्याकुल दीखती हों, मल पतला (अतीसार) चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है, ये पित्तजन्य मूर्च्छा के लक्षण हैं । आकाश बादलों से घिरा या अन्धकार से आवृत दिखाई दे, अन्धकार सामने आता दिखाई दे, मूर्च्छा से देर में जागृत हो, भारी तथा गीले कपड़े मे शरीर ढंपा प्रतीत होता हो, ( शरीर जकड़ा एवं भारी), मुख से लार बहना, बेचैनी, ये कफजन्य मूर्च्छा के लक्षण हैं । सन्निपात से सब दोषों के लक्षण होते हैं, अपस्मार के समान इसमें वेग आता है । इस रोग में बीभत्स चेष्टाओं ( दांतों से काटना, हाथ पांव आदि फेंकने) के विना मनुष्य गिर पड़ता है । शरीरधारियों मे जब मद-मूर्च्छा को उत्पन्न करने वाले दोषों का बल कम हो जाता है, तब ये रोग अपने आप शान्त हो जाते हैं, परन्तु 'संन्यास' रोग विना औषध के अच्छा नहीं होता । अति बलवान् मल वातादि दोष, प्राणायतन ( हृदय आदि ) अवयवों का आश्रय करके, वाणी, शरीर और मन की क्रियाओं को एकदम से बन्द कर देते हैं, तब मनुष्य निर्बल, निष्क्रिय, क्रियारहित, लकड़ी के समान निर्जीव होकर गिर पड़ता है । इस समय यदि तात्कालिक फल देने वाली क्रियाये ( अंजन, नस्य आदि ) जल्दी न की जायें तो मनुष्य मर जाता है ।

दुर्गेऽम्भसि यथा मज्जद्भाजनं त्वरया बुधः ।

गृह्णीयात्तलमप्राप्तं तथा संन्यासपीडितम् ॥ ४५ ॥

अञ्जनान्यवपीडाश्च धूम प्रधमनानि च ।

सूचीभिस्तोदनं शस्त्रैर्दाह पीडा नखान्तरे ॥ ४६ ॥

लुञ्चनं केशलोम्नां च दन्तैर्दशनमेव च ।

आत्मगुप्तावधर्षश्च हितास्तस्यवबोधने ॥ ४७ ॥  
 संमूर्छितानि तीक्ष्णानि मद्यानि विविधानि च ।  
 प्रभूतकटुयुक्तानि<sup>१</sup> तस्यास्ये गालयेन्मुहुः ॥ ४८ ॥  
 मातुलुङ्गरसं तद्वन्महौषधसमायुतम् ।  
 तद्वत्सौवर्चल<sup>२</sup> दद्याद्युक्तं मद्याम्लकाञ्जिकैः ॥ ४९ ॥  
 हिङ्गुषणसमायुक्तं यावत्संज्ञाप्रबोधनम् ।  
 प्रबुद्धसज्जमत्रैश्च लघुभिस्तमुपाचरेत् ॥ ५० ॥  
 विस्मापनैः स्मारणैश्च प्रियश्रुतिभिरेव च ।  
 वटुभिर्गीतवादित्रशब्दैश्चित्रैश्च दर्शनैः ५१ ॥  
 स्रंसनोल्लेखनैर्धूमैरञ्जनैः कवलग्रहैः ।  
 शोणितस्यावसेकैश्च व्यायामोद्धर्षणैस्तथा ॥ ५२ ॥  
 प्रबुद्धसंज्ञं मतिमाननुबन्धमुपक्रमेत् ।  
 तस्य संरक्षितव्यं हि मनः प्रलयहेतुतः ॥ ५३ ॥  
 स्नेहस्वेदोपपन्नानां यथादोषं यथाबलम् ।  
 पञ्च कर्माणि कुर्वीत मूर्च्छायेषु मदेषु च ॥ ५४ ॥  
 अष्टाविंशत्यौषधस्य तथा तिक्तस्य सर्पिषः ।  
 प्रयोगः शस्यते तद्वन्महतः षट्पलस्य वा ॥ ५५ ॥  
 त्रिफलायाः प्रयोगो वा सघृतचौद्रशर्करः ।  
 शिलाजतुप्रोगो वा प्रयोगः पयसोऽपि वा ॥ ५६ ॥  
 पिप्पलीनां प्रयोगो वा प्रयोगश्चित्रकस्य वा ।  
 रसायनानां कौम्भस्य सर्पिषो वा प्रशस्यते ॥ ५७ ॥  
 रक्तावसेकाच्छास्त्राणां सनां सत्त्ववतामपि ।  
 सेवानान्मदमूर्च्छायाः प्रशाम्यन्ति शरीरिणाम् ॥ ५८ ॥ इति

गहरे पानी में डूबते हुए बर्तन को बुद्धिमान् मनुष्य जिस प्रकार तली में पहुँचने से पूर्व ही पकड़ने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार

१ तिक्तानीति च पाठः ।

२ सौवीरकमिति च पाठः ।

संन्यास रोगी की गिरने से पूर्व चिकित्सा करनी चाहिये । इसके लिये अंजन ( आंखों में ), अवपीडन ( नासिका में औषधियों का रस डालना ), नाक से धूम्रपान, प्रथमन ( नाक में फूत्कार से औषध पहुंचाना ), सुई चुभोना, शस्त्र आदि को गरम करके दाह करना, नखों में सुई, पिन आदि चुभोना, शिर या शरीर के बालों या लोभों को खींचना, दांतों से काटना, कौंच की फली का शरीर पर मलना, ये कर्म रोगी को चेतन करने के लिये हितकारी हैं । नाना प्रकार के तीक्ष्ण और मूर्च्छित मद्य और बहुत कड़ुवे पदार्थ रोगी के मुंह में डालने चाहिये । सोंठ में मिलाकर बिजौरे निम्बू का रस, या मद्य और खट्टी कांजी से सौंचल मिलाकर वा हींग और सोंठ मिरच, पिप्पली इनको मिलाकर देवे, जबतक मनुष्य चेतन हो । चेतन होने पर हल्का भोजन देना चाहिये । चमत्कारिक बातों को सुनना पिछली बातों को याद करना, मन पसन्द कहानी कहना, बढ़िया गाना बजाना सुनाकर, सुन्दर २ चित्रोंको दिखाकर, विरेचन, वमन, धूम्रपान, अञ्जन, कवल अर्थात् मुख में औषध या गोली को रखकर, रक्त मोक्षण, व्यायाम कराके, अंगों के मर्दन से निरन्तर मनुष्य को जागृत, चेतन रखने का यत्न करना चाहिये । रोगी के मन को मोहित ( मूर्च्छा उत्पन्न ) करने वाले कारणों से बचा कर रखना चाहिये । मूर्च्छा और मद रोगों में बल एवं दोष के अनुसार स्वेदन और स्वेदन देकर पीछे से वमन, विरेचन, शिरोविरेचन ( नस्य ), आस्थापन और अनुवासन रूपी पंचकर्म करने चाहिये । उन्माद चिकित्सा में, कहे 'पानीय कल्याण घृत' ( अट्टाईस दवाइयां ), महातित्त घृत या महाषड्पल घृत ( कुष्ठ रोग में ) का पान करना उत्तम है । घी, शहद और शर्करा के साथ त्रिफला का प्रयोग करना, अथवा दूध के साथ शिलाजीत का प्रयोग करना, दूध के साथ पिप्पली चूर्ण या चीतामूल का प्रयोग करना, रसायनों तथा दस वर्ष पुराने मटके में रक्खे हुए घी का प्रयोग करना उत्तम है । रक्त मोक्षण, वेदों आदि सत् शास्त्रों का पढ़ना, सज्जन, सत्वगुणी, तपस्वी पुरुषों का सत्संग मद मूर्च्छा रोग को शान्त करते हैं ।



तत्र श्लोकौ । विशुद्धं चाविशुद्धं च शोणितं तस्य हेतवः ।

रक्तप्रदोपजा रोगास्तेषु गंगेषु चौपधम् ॥ ५९ ॥

मदमूर्च्छायसंन्यासहेतुलक्षणभेषजम् ।

विधिशोणितकेऽध्याये सर्वमेतत्प्रकाशितम् ॥ ६० ॥

शुद्ध या अशुद्ध रक्त, इनके कारण, रक्त प्रदोप से उत्पन्न होने वाले रोग, इनकी औपध, मद् मूर्च्छा, संन्यास रोगों के कारण, लक्षण और औपध, ये सब त्रिपय इस 'विधिशोणित' अध्याय में कह दिये ।

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसङ्कृते सूत्रस्थाने योजनाचतुष्के

विधिशोणितोयो नाम चतुर्विंशतितमोऽध्यायः ॥ २४ ॥

## पञ्चविंशतितमोऽध्यायः ।

अथातो यज्ञःपुरुषीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अत्र 'यज्ञःपुरुषीय' अध्याय की व्याख्या करेंगे, ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

पुरा प्रत्यक्षवर्माण भगवन्त पुनर्वसुम् ।

समेताना महर्षीणां प्रादुरासीदियं कथा<sup>१</sup> ॥ ३ ॥

आत्मेन्द्रियमनोर्थाना योऽयं पुरुषसंज्ञकः ।

राशिरस्यामयानां च प्रागुत्पत्तिविनिश्चये ॥ ४ ॥

अथ काशिपतिर्वाक्यं वामकोऽर्थवदन्तरा ।

व्याजहारर्षिसमितिमभिसृत्याभिवाद्य च ॥ ५ ॥

किं नु स्यान् पुरुषो यज्ञस्तज्जास्तस्यामयाः स्मृताः ।

न वेत्युक्ते नरेन्द्रेण प्रोवाचर्षीन् पुनर्वसु ॥ ६ ॥

१ महर्षय उपासीना प्रादुश्चक्रुरिमां कथामिति वा पाठः ।

सर्व एवामितज्ञानविज्ञानच्छिन्नसंशयाः ।

भवन्तश्छेत्तुमर्हन्ति काशिराजस्य संशयम् ॥ ७ ॥

धर्म के प्रत्यक्ष अवतार, महर्षि आत्रेय एक वार महर्षियों के साथ मिलकर बातचीत करने लगे कि—‘आत्मा, इन्द्रिय, मन और विषय’ इन से युक्त समूह से जो ‘पुरुष’ बनता है इसकी तथा रोगों की उत्पत्ति किस प्रकार और कहां से होती है ? इस प्रसंग में काशि के राजा वामक ऋषिसभा के सन्मुख अभिवादन करके बोलने लगे—हे भगवन् ! जिन कारणों से पुरुषों की उत्पत्ति होती है, उन्हीं कारणों से रोग उत्पन्न होते हैं, यह मानना संगत है या नहीं ? ऋषि पुनर्वसु ने कहा कि—हे महर्षियों ! तुम सब अपार ज्ञान रखते हो, विज्ञान से तुम्हारे सब सन्देह-मिट चुके हैं । आपलोग इन काशिपति के सन्देह को दूर करें ।

पारीक्षिस्तत्परीक्ष्याग्रे मौद्गल्यो वाक्यमब्रवीत् ।

आत्मजः पुरुषो रोगाश्चात्मजाः कारणां हि सः ॥ ८ ॥

स चिनोत्युपभुङ्क्ते च कर्म कर्मफलानि च ।

नहृते चेतनाधातोः प्रवृत्तिः सुखदुःखयोः ॥ ९ ॥

पारीक्षि मौद्गल्य कहने लगे कि—पुरुष आत्मा से उत्पन्न होता है और रोग भी आत्मा से ही उत्पन्न होते हैं । वही आत्मा आहार-विहार-दि कर्मों को करता है और इसीसे आरोग्यता या रोग रूपी कर्मफलो का भोग करता है । क्योंकि ‘चेतना धातु’ आत्मा के बिना सुख, दुःख-के हेतु रूप आरोग्यता या व्याधि नहीं हो सकती ।

शरलोमा तु नेत्याह न ह्यात्माऽऽत्मानमात्माना ।

योजयेद्द्व्याधिभिर्दुःखैः दुःखद्वेषी कदाचन ॥ १० ॥

रजस्तमोभ्यां तु मनः परीतं सत्त्वसंज्ञकम् ।

शरीरस्य समुत्पत्तौ विकाराणां च कारणम् ॥ ११ ॥

शरलोमा ऋषि बोले—यह ठीक नहीं । क्योंकि आत्मा स्वभाव से दुःखों से द्वेष रखने वाला ‘आनन्दमय’ है । इसलिये आत्मा अपने आपको

व्याधियों के कष्टों से युक्त नहीं करेगा । वास्तव में, 'सत्त्व' नामक मन के साथ रज और तम गुण मिलकर पुरुष और रोग दोनों को ही उत्पन्न करते हैं ।

त्रायोविद्वस्तु नेत्याह नह्येकं कारणं मनः ।

नर्त शरीर शारीररोगा न मनसः स्थितिः ॥ १२ ॥

रसजानि तु भूतानि व्याधयश्च पृथग्विधाः ।

आतो हि रसवत्यस्ता. स्मृता निर्वृत्तिहेतवः ॥ १३ ॥

त्रायोविद्वस्तु कृपि बोले—यह ठीक नहीं है कि अकेला मन ही इनकी उत्पत्ति में कारण है । क्योंकि शरीर के बिना न तो शारीरिक रोग हो सकते हैं और न मन ही रह सकता है । इसलिये प्राणियों की उत्पत्ति में कारण रस ( आप. जल ) है और 'रस' से ही सब नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं । रस की उत्पत्ति पानी में या पानी ही रसमय है, इसी रस में सब पंच महाभूत बनते हैं ।

हिरण्याक्षस्तु नेत्याह न ह्यात्मा रसजः स्मृतः ।

नातीन्द्रियं मनः सन्ति रोगाः शब्दादिजास्तथा ॥ १४ ॥

पट्धातुजस्तु पुरुषो रोगाः पट्धातुजास्तथा ।

राशिः पट्धातुजां ह्येष सांख्यैराद्यैः प्रकीर्तितः ॥ १५ ॥

हिरण्याक्ष कृपि बोले—कि नहीं, यह ठीक नहीं, आत्मा रसजन्य नहीं है, आत्मा और मन अतीन्द्रिय है । रोग भी ( कुछ एक रोग ) शब्दादि ( अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग ) से उत्पन्न होते हैं । ये भी रस जन्य नहीं । वास्तव में पुरुष छः धातुओं ( आत्मा और पृथ्वी अप, तेज, वायु, अग्नि, आकाश ) में उत्पन्न होता है, रोग भी इन्हीं छः धातुओं से पैदा होते हैं । सांख्य दर्शन का सिद्धान्त भी है कि 'छः धातुओं के सञ्ज्ञ का नाम पुरुष' है ।

तथा त्रुवाणं कुशिकमाह तत्रेति शौनकः ।

कस्मान्मातापितृभ्यां हि विना पट्धातुजो भवेन् ॥ १६ ॥

पुरुषः पुरुषाद्गोर्गौरश्वादश्वः प्रजायते ।

पैत्र्या मेहादयश्चोक्ता रोगास्तावत्र कारणम् ॥ १७ ॥

इस प्रकार कुशिक ( हिरण्यक्ष ) को शौनक ने कहा कि—माता पिता के विना छ' धातु कैसे हो सकते हैं? पुरुष से, पुरुष, गौ से गाय, और घोड़े से घोड़ा उत्पन्न होता है । और माता पिता के प्रमेहादि रोग पुत्र में आते हैं, इसलिये रोगों और पुरुष की उत्पत्ति में कारण माता-पिता ही हैं ।

भद्रकाप्यस्तु नेत्याह नह्यन्धोऽन्धात्प्रजायते

मातापित्रोरपि च ते प्रागुत्पत्तिर्न युज्यते ॥ १८ ॥

कर्मजस्तु मतो जन्तुः कर्मजास्तस्य चामयाः ।

नह्यृते कर्मणो जन्म रोगाणां पुरुषस्य च ॥ १९ ॥

भद्रकाप्य ऋषि बोले—यह ठीक नहीं, क्योंकि अन्धे माता-पिता से पुत्र अन्धा उत्पन्न नहीं होता । माता-पिता की उत्पत्ति से पूर्व पुरुष का और रोग का होना असम्भव होता है । इसलिये कर्म से ही पुरुष उत्पन्न होता है और कर्म से ही रोग उत्पन्न होते हैं । कर्म के विना न तो पुरुष का और न रोगों का जन्म हो सकता है ।

भरद्वाजस्तु नेत्याह कर्ता पूर्वं हि कर्मणः ।

दृष्टं न चाकृतं कर्म यस्य स्यात्पुरुषः फलम् ॥ २० ॥

भावहेतुः स्वभावस्तु व्याधीनां पुरुषस्य च ।

खरद्रवचलोष्णत्वं तेजोन्तानां यथैव हि ॥ २१ ॥

भारद्वाज ऋषि बोले कि—कर्म से पहिले कर्ता है । विना कर्मों के किये हुए कर्म का फल नहीं देखा जाता । प्रथम कर्म होने से फल होता है, इसलिये प्रथम कर्म होना चाहिये, जिसके फलस्वरूप पुरुष उत्पन्न होना चाहिये । कर्म को करने के लिये कर्ता (पुरुष) आवश्यक है । इसलिये मनुष्य और रोग की उत्पत्ति में कारण 'स्वभाव' ही है । जिस प्रकार पृथ्वी, अप, वायु और अग्नि में खरत्व ( खरखरापन ) द्रवत्व ( तरलता ), चलत्व ( गति ) और उष्णत्व ( गरमी ) स्वभाव से ही होता है ।

काङ्काननस्तु नेत्याह नह्यारम्भफलं भवेत् ।

भवेत्स्वभावाद्भावानामसिद्धिः सिद्धिरेव वा ॥ २२ ॥

स्रष्टा त्वमितसंकल्पो ब्रह्मापत्यं प्रजापतिः ।

चेतनचेतनस्यास्य जगतः सुखदुःखयोः ॥ २३ ॥

कांकायन ऋषि बोले—यह ठीक नहीं । यदि स्वभाव से ही रोग और पुरुषों की सिद्धि और असिद्धि होती हो, तो आरम्भ अर्थात् लोक और शास्त्र में प्रसिद्ध यज्ञ, कृषि, पढना, पढ़ाना आदि कार्य निष्प्रयोजन, होजायें । इस सुख दुःख को बनाने वाला एवं चेतन तथा अचेतन जगत् का कर्त्ता अनन्त संकल्प वाला, ब्रह्मा का पुत्र प्रजापति है ।

तन्नेति भिक्षुरात्रेयो नह्यपत्यं प्रजापतिः ।

प्रजाहितैषी सततं दुःखैर्युञ्ज्यादसाधुवत् ॥२४ ॥

कालजस्त्वेव पुरुष कालजास्तस्य चामयाः ।

जगत्कालवशं सर्वकालः सर्वत्र कारणम् ॥२५ ॥

भिक्षुरात्रेय बोले—यह ठीक नहीं है । यह संसार प्रजापति से (पुत्र रूपेण) उत्पन्न नहीं हुआ । क्योंकि प्रजा की मंगलकामना करने वाला प्रजापति, संतान से द्वेष करने वाले की भांति किस प्रकार से दुःखों को देता, अपनी संतान को दुःखी करता, वास्तव में पुरुष काल से उत्पन्न होता है और रोग भी काल से ही उत्पन्न होते हैं । सम्पूर्ण जगत् काल के वश में है और सब जगह काल ही कारण है ।

तथर्षीणां द्विवदतामुवाचेदं पुनर्वसुः ।

मैवं वोचत तत्त्वं हि दुष्प्रापं पक्षसंश्रयात् ॥ २६ ॥

पादान् सप्रतिवादान् हि वदन्तो निश्चिन्तानिव ।

पक्षान्तं नैव गच्छन्ति तिलपीडकवद्गतौ ॥ २७ ॥

मुक्त्वैवं वादसंघट्टमध्यात्ममनुचिन्त्यताम् ।

नाविधूततमःस्कन्धे ज्ञेये ज्ञानं प्रवर्तते ॥२८ ॥

येषामेव हि भावानां संपत्संजनयेन्नरम् ।

तेषामेव विपद्व्याधीन् विविधान् समुदीरयेत् ॥ २९ ॥

इस प्रकार ऋषिमण्डल में विवाद चलते हुए देख कर पुनर्वसु ऋषि बोले कि इस प्रकार एक पक्ष को लेकर वादविवाद करते जाओगे तो किसी निश्चित तत्त्व को नहीं पहुंच सकोगे । जिस प्रकार तैल के कोल्हू (चरखी) पर बैठा हुआ मनुष्य चारों ओर अनन्त काल तक घूमता रहता है, परन्तु किसी निश्चित दिशा या स्थान पर नहीं पहुंचता । इस लिये इस वाद-विवाद को छोड़ कर मतलब की बात सोचो । अन्धकारसमूह को नष्ट किये बिना ज्ञातव्य विषय में ज्ञान नहीं प्राप्त होता । जिस प्रकार के गुणों से पुरुष उत्पन्न होता है उसी प्रकार के अप्रशस्त गुणों से रोग उत्पन्न होते हैं । पांच महाभूतों से पुरुष उत्पन्न होता और इन्हीं महाभूतों से वात, पित्त, कफ उत्पन्न होते हैं ।

अथात्रेयस्य भगवतो वचनमनुनिशम्य पुनरेव वामकः काशि-पतिरुवाच भगवन्तमात्रेयं—भगवन् ! संपन्नमित्तजस्य पुरुषस्य विपन्नमित्तजानां च रोगाणां किमभिवृद्धिकारणमिति ॥ ६० ॥

आत्रेय ऋषि के वचन सुन कर फिर काशिपति वामक कहने लगे । हे भगवन् ! प्रशस्त गुणों से उत्पन्न पुरुष की और प्रशस्त गुणों से उत्पन्न रोगों की वृद्धि करने वाले कौन से कारण हैं ?

तमुवाच भगवानात्रेयः—हिताहारोपयोग एक एव पुरुषस्याभिवृद्धिकरो भवति, अहिताहारोपयोगः पुनर्व्याधीनां निमित्तमिति ॥ ३१ ॥

धामक ऋषि को भगवान् आत्रेय ने उत्तर दिया । हितकारी वस्तुओं का आहार रूप में उपयोग करना ही पुरुष की वृद्धि में अकेला कारण है । अहितकारी वस्तुओं का सेवन करना ही रोगों की वृद्धि में एकमात्र कारण है ।

एवंवादिनं भगवन्तमात्रेयमभिवेश उवाच—कथमिह भगवन् ! हिताहितानामाहारजातानां लक्षणमनपवादमभिजानीयात्, हितसमाख्यातानां चैव ह्याहारजातानामहितसमाख्यातानां च मात्राका-

लक्रियाभूमिदेहदोषपुरुषावस्थान्तरेषु विपरीतकारित्वमुपलभामहे  
इति ॥ ३० ॥

इस प्रकार कहते हुए आत्रेय ऋषि को अग्निवेश ने पूछा—हे भगवन् ! किस प्रकार से हितकारी या अहितकारी आहार रूप पदार्थों को विना दोष (अपवाद) के जान सकते हैं । क्योंकि हितकारी पदार्थ एवं अहितकारी पदार्थ मात्रा, काल, क्रिया ( संस्कार ), भूमि, देह, दोष और पुरुष भेद से विपरीत, विरुद्ध गुण वाले हितकारी पदार्थ अहितकारी, और अहितकारी पदार्थ हितकारी बन जाते हैं ।

तमुत्राच भगवानात्रेयः—यदाहारजातमग्निवेश समांश्चैव शरीर-  
धातून् प्रकृतौ स्थापयति विपमांश्च समीकरोतीत्येतद्धितं विद्धि,  
विपरीतमहितमिति; एतद्धिताहितलक्षणमनपवादं भवति ॥ ३३ ॥

अग्निवेश को भगवान् आत्रेय ने उत्तर दिया—हे अग्निवेश जो भोजन (आहार के पदार्थ) शरीर के सम धातुओं को प्रकृति अर्थात् समानावस्था में रखता है और विपम धातुओं को सम करता है वह हितकारी है । इसके विपरीत पदार्थ अहितकारी है, हित और अहित पदार्थों का यह लक्षण दोषशून्य है ।

एवंवादिनं च भगवन्तमात्रेयमग्निवेश उवाच—भगवन् ! नत्वे-  
तदेवमुपदिष्टं भूयिष्ठकल्पाः सर्वभिषजो विज्ञास्यन्ति ॥ ३४ ॥

तमुवाच भगवानात्रेयः—येषां विदितमाहारतत्त्वमग्निवेश !  
गुणतो द्रव्यतः कर्मतः सर्वावयवतश्च मात्रादयो भावाः, त एतदेवमु-  
पदिष्टं विज्ञातुमुत्सहन्ते । यथा तु खल्वेतदुपदिष्टं भूयिष्ठकल्पाः  
सर्वभिषजो विज्ञास्यन्ति, तथैतदुपदेक्ष्यामो मात्रादीन् भावानुदा-  
हरन्तः । तेषां हि बहुविधविकल्पा भवन्ति । आहारविधिविशेषास्तु  
खलु लक्षणतश्चावयवतश्चानुव्याख्यास्यामः ॥ ३५ ॥

तद्यथा—आहारत्वमाहारम्यैकविधमर्थाभेदात्; स पुनर्द्वियोनि,  
स्यावरजज्ञमात्मकत्वात्; द्विविधप्रभावो हिताहितोदकविशेषात्;

चतुर्विधोपयोगः, पानाशनभक्ष्यलेह्योपयोगात्; षडास्वादो रसभे-  
दतः षड्विधत्वात्; विशतिगुणो गुरुलघुशीतोष्णस्निग्धरूक्षमन्द-  
तीक्ष्णस्थिरसरमृदुकठिनविशदपिच्छिलश्लक्ष्णखरसूक्ष्मस्थूलसान्द्र-  
द्रवानुगमात्; अपरिसंख्येयविकल्पो, द्रव्यसंयोगकरणावाहुल्यात् ॥

इस प्रकार कहते हुए आत्रेय ऋषि को अग्निवेश बोले—इतना कह देने से सब वैद्य सब बातों को नहीं समझ सकेंगे। अग्निवेश को भगवान् आत्रेय ने कहा—कि जिन वैद्यों को आहारयोग्य पदार्थ गुण, ( गुरु लघु आदि ) कारण ( यह आप्य है, यह आग्नेय है इत्यादि ), कर्म ( यह जीवनीय, यह वृंहणीय इत्यादि ) सब अवयव २ ( रस, वीर्य, विपाक प्रभाव से ), मात्रा एवं पुरुष की अवस्था का ज्ञान होगा वे ही इतने ( ऊपर कहे हुए ) उपदेश से समझ सकते हैं। जिस प्रकार कहने से सब वैद्य सम्पूर्ण रूप में जान सकेंगे, उसी प्रकार से मात्रा आदि वस्तुओं को उदाहरण के साथ कहेंगे। इनके बहुत से भेद होते हैं। आहार की जो विशिष्ट विधि है, उसको प्रथम साधारण रूप में कहकर फिर विभाग पूर्वक कहेंगे। यथा—आहारत्व ( खाद्यत्व ) गुण समान होने से सम्पूर्ण आहार एक प्रकार का है, क्योंकि अर्थ में कोई भेद नहीं है। इस आहार के दो उत्पत्ति स्थान हैं, स्थावर और जंगम। इस आहार के दो प्रकार के प्रभाव हैं, एक हित-फलजनक और दूसरा अहितफलजनक। इस आहार का चार प्रकार से उपयोग होता है। यथा—पान ( पीना ), अशन ( दांतों से काटकर खाना ), भक्ष्य ( चबाना ) और लेह्य ( चाटने ) के उपयोग से। इस आहार के छः स्वाद होने से यह रस भेद से छः प्रकार का है, क्योंकि रस छः प्रकार के है। इस आहार के गुण बीस प्रकार के हैं। यथा—गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, मन्द, तीक्ष्ण, स्थिर, सर, मृदु, कठिन, विशद, पिच्छिल, श्लक्ष्ण, खर, सूक्ष्म, स्थूल, सान्द्र, द्रव भेद से। द्रव्य ( शूकधान्यादि ), संयोग ( खाद्य पदार्थों का मिश्रण ), करण ( संस्कार ) भेद से आहार द्रव्य असंख्य प्रकार का हो जाता है।



तस्य खलु ये चे विकारावयवा भूयिष्ठमुपयुज्यन्ते, भूयिष्ठ-  
कल्पानां च मनुष्याणां प्रकृत्यैव हिततमाश्चाहिततमाश्च, तांस्तान्यथाव-  
दनुन्याख्यास्याम ॥ ( १ )

तद्यथा-लोहितशालयः शूकधान्यानां पथ्यतमत्वे श्रेष्ठतमा  
भवन्ति, मुद्गाः शमीधान्यानां, आन्तरिक्षमुदकानां, सैन्धवं लव-  
णानां, जीवन्तीशाकशाकानां, ऐरण्यं मृगमांसानां, लाव पक्षिणां,  
गोधा विलेशयानां, रोहितो मत्स्यानां, गव्यं सर्पिः सर्पिषां, गान्दीर  
क्षीराणां, तिलतैल स्थावरजातानां स्नेहानां, वराहवसा आनूपमृग-  
वसानां, चुलुकीवसा मत्स्यवसानां, पाकहंसवसा जलचरविहङ्ग-  
वसानां, कुक्कुटवसा विष्किरशकुनिवसानां, अजमोदशाखादमेदसां.  
शृङ्गवेरं कन्दानां, मृद्धीका फलानां, शर्करा इक्षुविकाराणामिति  
प्रकृत्यैव हिततमानामाहारविकाराणां प्राधान्यतो द्रव्याणि व्या-  
ख्यातानि भवन्ति ॥ ( २ )

प्रायः करके जो जो आहार पदार्थ हितकारी और अहितकारी कहे  
जाने है और बहुत अधिक व्यवहार में आते हैं, उन पदार्थों का यहाँ  
वर्णन करते हैं। जैसे—लाल चावल शूक धान्यों में सबसे अधिक  
हितकारी ( श्रेष्ठ ) है। मृग शमीधान्यों में, वरसात का पानी सब  
पानियों में, सेंधा नमक सब नमकों में, जीवन्ती का शाक सब शाकों में,  
मृग का मांस सब पशुओं के मांसों में, बटेर सब पक्षियों में, गोधा (गोह)  
विल में रहने वाले जन्तुओं में, रोहित मत्स्य सब मछलियों में, गौ का घी  
सब घी में, गाय का दूध सब दूधों में, तिल का तेल स्थावरजन्य सब स्नेहों  
में, वराह की चर्बी सब जलचर प्राणियों की चर्बियों में, चुलुकी ( शुशु )  
मछली की चर्बी सब मछलियों की चर्बियों में, सफेद हंस की वसा सब  
जलचर पक्षियों की वसा में, मुर्गे की चर्बी विखेर कर खाने वाले सब  
पक्षियों में, बकरी का मेढ़ शाखा या दहनी खाने वाले पशुओं की मेढ़ों में,  
अदरक सब कन्दों अर्थात् भूमि में रहने वाले फलों में, किशमिश सब फलों

में, शकर गन्ने के रस से बनी सब वस्तुओ मे श्रेष्ठ है । ये भोज्य पदार्थों में स्वभाव से हितकारी द्रव्य कह दिये है ।

अत ऊर्ध्वमहितानप्युपदेक्ष्यामः—यवकाः शूकधान्यानामपथ्यत्वे प्रकृष्टतमा भवन्ति, मापाः शमीधान्यानां, वर्षानादेयमुदकानां, औषरं लवणानां, सर्षपशाकं शाकानां, गोमांसं मृगमांसानां, काणकपोतः पक्षिणां, भेको विलेशयानां, चिलिचिमो मत्स्यानां, आविकं सर्पिः, अविचीरं क्षीराणां, कुसुम्भस्त्रेहः स्थावरस्त्रेहनां, महिषवसा आनूपमृगवसानां, कुम्भीरवसा मत्स्यवसानां, काकमद्गुवसा जलचरविहङ्गवसानां, चटकवसा विष्किरशकुनिवसानां, हस्तिमेदः शाखादमेदसां, लिक्वुचं फलानां, आलुकं कन्दानां फाणितमिक्षुविकाराणामिति प्रकृत्यैव अहिततमानामाहारविकाराणां प्रकृष्टतमानि द्रव्याणि व्याख्यातानि भवन्ति । इति हिताहितावयवो व्याख्यात आहारविकाराणाम् ॥ ३७ ॥

अब इसके अनन्तर अहित पदार्थों का उपदेश करेगे—यवक ( जई, जवी ) शूक धान्यों मे सबसे अपथ्य एवं अति निन्दित है । माप (उड़द) शमी धान्यो मे, वरसात में नदियों का पानी सब पानियों मे, उसर देश मे उत्पन्न नमक सब नमको में, सरसों का शाक सब शाकों में, गाय का मांस सब पशुओं के मांसों मे, छोटा कबूतर सब पक्षियों मे, मेडक बिल में रहने वालों में, चिलचिम मत्स्य सब मछलियों में, भेड़ का घी सब घीयों मे, भेड़ का दूध सब दूधों मे, धनिये का तेल सब स्थावर तैलो में, भैंस की चर्बी सब जलीय देश के पशुओ की चर्बियों मे, कुम्भीर मछली की वसा सब मछलियो की वसा में, पानी के कौवे ( पनकव्वा ) की चर्बी सब जलचर पक्षियों मे, कारण्डव ( पनडुव्वी हंसभेद ) की चर्बी सब जलचारी पक्षियों की चर्बियों में, हाथी की चर्बी शाखा खानेवाले सब पशुओं में, लिक्वुच, ( बड़हल, ह्यो ) सब प्रकार के फलो में, भालू सब कन्दों में, राव गन्ने से बने सब विकारों में, चिड़िया की चर्बी विखेर कर

खाने वाले सब पक्षियों की चर्चियों में निन्दित है । ये भोज्य पदार्थों में स्वभाव से ही अहितकारी एवं निन्दनीय द्रव्य कहे गये हैं ।

अतो भूय. कर्मोपधानां च प्राधान्यत. सानुबन्धानि च द्रव्या-  
 ग्यनुव्याख्यास्यामः । तद्यथा—अन्नं वृत्तिकराणां श्रेष्ठं, उदकमा-  
 श्वासकराणां, सुरा श्रमहराणां, क्षीर जीवनीयानां, मांसं वृंह-  
 णीयानां, रसस्तर्पणीयानां, लवणमन्नद्रव्यरुचिकराणां, अम्लं हृद्यानां  
 कुक्कुटो बल्यानां, तक्ररेतो वृष्याणां, मधु श्लेष्मपित्तप्रशमनानां,  
 सर्पिर्वातपित्तप्रशमनानां, तैलं वातश्लेष्मप्रशमनानां वमनं श्लेष्म-  
 हराणां, त्रिरेचनं पित्तहराणां, वस्तिर्वातहराणां, स्वेदो मार्दवकराणां,  
 व्यायाम स्थैर्यकराणां, चार. पुंस्त्रोपघातिना, तिन्दुकमनन्नद्रव्य-  
 रुचिकराणां, आमं कफित्थसकरुष्यानां, सर्पिरहृद्यानां, अजाक्षीरं  
 शोषन्नस्तन्यसाम्ब्यदोषघ्नरक्तमांश्राहिकरक्तपित्तप्रशमनानां, अविक्षीरं  
 श्लेष्मपित्तोपचयकराणां, महिषीक्षीरं स्वप्नजननानां, मन्दकं दध्यभि-  
 प्यन्दकराणां, गवेधुकाञ्च कर्षणीयानां, उदालकाञ्च रूक्षणीयानां,  
 इक्षुर्मूत्रजननानां, यवाः पुरीगजननानां, जाम्बवं वातजननानां,  
 शण्डुल्य श्लेष्मपित्तजननानां, कुलस्था अम्लपित्तजननानां, माषाः  
 श्लेष्मपित्तजननानां, मदनफलं वमनास्थापनानुवासनोपयोगिनां,  
 त्रिवृत्सुग्धविरेचनानां, चतुरङ्गुलं मृदुविरेचनानां, स्नुक्पयस्तीक्ष्ण-  
 विरेचनानां, प्रत्यक्पुष्पा शिरोविरेचनानां, विडङ्गं क्रिमिघ्नानां,  
 शिरीषो विषघ्नानां, खदिर. कुष्ठघ्नानां, रास्ना वातहराणां, आमलकं  
 वय.स्थापनानां, हरीतकी पथ्यानाम् एरण्डमूलं वृष्यवातहराणां,  
 पिप्पली मूलं दोषनीयपाचनीयानाहप्रशमनानां, चित्रकमूलं दीपनीय-  
 पाचनीयगुदशान् रोथार्शोहराणां, पुष्करमूलं हिक्काश्वासकासपार्थशूल-  
 हराणां, मुस्तं संग्राहकदीपनीयपाचनीयानां, उदीच्यं निर्वापणीय-  
 दीपनीयपाचनीयच्छर्द्यतीसारहराणां, कट्वङ्गं संग्राहकदीपनीयपाच-  
 नीयानां, अनन्ता संग्राहकदीपनीयरक्तप्रशमनानां, अमृता संग्राहक-  
 वातहरदीपनीयश्लेष्मशोणितविबन्धप्रशमनानां, बिल्वं संग्राहकदीपनी-

यवातकफप्रशमनानां, अतिविषा दीपनीयपाचनीयसंग्राहकसर्वदोष-  
 हराणां, उत्पलकुमुदपद्मकिञ्जल्कं संग्राहकरक्तपित्तप्रशमनानां,  
 दुरालभा पित्तश्लेष्मप्रशमनानां, गन्धप्रियङ्गु शोणितपित्तातियोग-  
 प्रशमनानां, कुटजत्वक् श्लेष्मपित्तरक्तसंग्राहकोपशोषणानां, काशमर्य-  
 फलं रक्तसंग्राहकरक्तपित्तप्रशमनानां, पृश्निपर्णी संग्राहकवातहरदीप-  
 नीयवृष्याणां, विदारिगन्वा वृष्यसर्वदोषहराणां, बला संग्राहकबल्य-  
 चातहराणां, गोक्षुरको मूत्रकृच्छ्रानिलहराणां, हिगुनिर्यास-  
 च्छेदनीयदीपनीयभेदनीयानुलोमिकवातकफप्रशमनानां, अम्लवेतसो  
 भेदनीयदीपनीयानुलोमिकवातश्लेष्मप्रशमनानां, यावशूक. संसनीय-  
 पाचनीयाशोन्नानां, तक्राभ्यासो ग्रहणीदोषाशोघृतव्यापत्प्रश-  
 मनानां, क्रव्यादमांसरसाभ्यासो ग्रहणीदोषशोषाशोन्नानां, घृतक्षीरा-  
 भ्यासो रसायनानां, समघृतशक्तप्राशाभ्यासो वृष्योदावर्तहराणां,  
 तैलगण्डूषाभ्यासो दन्तबलरुचिकराणां, चन्दनोडुम्बरं दाहनिर्वा-  
 पणालेपनानां, रास्नागुरुणी शीतापनयनप्रलेपनानां, लामज्जकोशीरे  
 दाहत्वग्दोषस्वेदापनयप्रलेपनानां, कुष्ठं वातहराभ्यङ्गोपनाहयोगिनां,  
 मधुकं चक्षुष्यवृष्यकेश्यकण्ठ्यवर्यबल्यविरजनीयरोपणीयानां, वायु-  
 प्राणसंज्ञाप्रधानहेतूनां, अग्निरामस्तम्भशीतशूलोद्वेपनप्रशमनानां,  
 जलं स्तम्भनीयानां, मृद्भ्रष्टलोष्टनिर्वापितमुदकं तृष्णातियोगप्रशम-  
 नानां, अतिमात्राशनमामप्रदोषहेतूनां, तथाग्न्यभ्यवहारोऽग्निसंधुत्त-  
 रणानां, यथासात्म्यं चेष्टाभ्यवहारवुपसेव्यानां, कालभोजनमारोग्य-  
 कगणां, वेगसंधारस्मनारोग्यकराणां, तृप्तिराहारगुणानां, मद्यं  
 सौमनस्यजननानां, मद्याक्षेपो धीधृतिस्मृतिहराणां, गुरुभोजनं दुर्वि-  
 पाकानां, एककालभोजनं सुखपरिणामकराणां, स्त्रीष्वतिप्रसङ्गः  
 शोषद्वाराणां, शुक्रवेगनिग्रह. षाण्ड्यकराणां, पराघातनमन्नाश्रद्धा-  
 जननानां, अनशनमायुषो हासकराणां, प्रमिताशनं कर्षणीयानां, अजी-  
 र्णाध्यशनं ग्रहणीदूषणानां, विषमाशनमग्निवैषम्यकराणां, विरुद्ध-

वीर्याशनं निन्दितव्याधिकराणां, प्रशमः पथ्यानां, आयासः सर्वापथ्याना, मिथ्यायोगो व्याधिमुखानां, रजस्वलाभिगमनमलक्ष्मीमुखानां, ब्रह्मचर्यमायुष्याणां, संकल्पो वृष्याणां, दौर्मनस्यमवृष्याणां, अयथावलमारम्भ प्राणोपरोधिनां, विषादो रोगवर्धनानां स्नानं श्रमहराणां, हर्षः, प्रीणनाना, शोकः शोपणानां, निर्वृतिः पुष्टिकराणां, पुष्टिः स्वप्नकराणां स्वप्नस्तन्द्राकराणां, सर्वरसाभ्यासो वलकराणां, एकरसाभ्यासो दौर्वल्यकराणां, गर्भशल्यमनाहार्याणां, अजीर्णमुद्धार्याणां, बालो मृदुभेपजीयाना, वृद्धो याप्यानां, गर्भिणी तीक्ष्णौषधव्यायामवर्जनीयाना, सौमनस्यं गर्भधारकाणा, संनिपातो दुश्चिकित्स्यानां, आमो विषमचिकित्स्याना, ज्वरो रोगाणां, कुष्ठं दीर्घरोगाणां, राजयक्ष्मा रोगसमूहानां, प्रमेहोऽनुषङ्गिना, जलौकसोऽनुशस्त्राणां, वस्तिस्तन्त्राणा, हिमवानौषधिभूमीनां, मरुभूरारोग्यदेशानां, अनूपोऽहितदेशानां, निर्देशकारित्वमातुरगुणानां, भिषक् चिकित्साङ्गानां, नास्तिको वर्ध्यानां, लौल्यं क्लेशकराणा, अनिर्देशकारित्वमरिष्टानां, अनिर्वेदो वार्तलक्षणाना, वैद्यसमूहो निःसंशयकराणां, योगो वैद्यगुणाना, विज्ञानमोपधीना, शास्त्रसहितस्तर्क साधनानां, संप्रतिपत्तिः कालज्ञान प्रयोजनाना, अध्यव्यसायः फलातिपत्तिहेतूनां, दृष्टकर्मता निःसंशयकराणा, असमर्थता भयकराणां, तद्विद्यमंभापा बुद्धिवर्धनानां, आचार्य शास्त्राधिगमहेतूनां, आयुर्वेदाऽमृतानां, सद्बचनमनुष्ठेयानां, अमं वद्वचनमसंग्रहणसर्वाहितानां, सर्वसंन्यासः सुखानामिति ॥ ३८ ॥

अब तक सब प्रकार के हितकारी वा अहितकारी मुख्य मुख्य द्रव्य कहे हैं । अब इसके आगे आहार द्रव्यों में या ओषधियों में क्रियाभेद से सप्रयोजन मुख्य द्रव्य कहते हैं—

शरीर की स्थिति करने वाले सब पदार्थों में अन्न श्रेष्ठ है । धैर्य, उत्साह पैदा करने वाले सब पदार्थों में पानी, थकान मिटाने वाले सब

पदार्थों में शराब, जीवन देने वाले पदार्थों में दूध, बृंहण करने वालों में मांस, अन्नद्रव्य भोजन में रुचि उत्पन्न करनेवालों में नमक, हृदय को पसंद आने वालों में अम्ल रस, बलकारक वस्तुओं में कुक्कुट, वृष्य, शुक्रवर्धक वस्तुओं में नक्र (मकर) का वीर्य, कफ-पित्तनाशक वस्तुओं में मधु, वात-पित्तनाशकों में घी, वात-कफनाशक वस्तुओं में तेल, कफनाशक वस्तुओं में विरेचन, वातनाशक वस्तुओं में वस्तिकर्म, कोमलता उत्पन्न करने वालों में पसीना, स्थिरता करनेवालों में व्यायाम, पुरुषत्व नाश करने वालों में क्षार, अन्न के अन्दर मिलकर उसकी रुचि बिगाडने वाले पदार्थों में तिन्दुक, आवाज़ या गला बिगाडने वाले पदार्थों में कच्चा कैथ, हृदय के लिये ग्लानिकारक अप्रिय वस्तुओं में भेड़ का घी, शोषनाशक, दूध के लिये हितकारी, रक्त बन्द करने वाले रक्त-पित्तनाशक वस्तुओं में बकरी का दूध, अभिष्यन्द अर्थात् कफवर्द्धक वस्तुओं में मन्दक दही,<sup>१</sup> कृश करने वाली वस्तुओं में निर्बल मोटे धान्य (सांवक कोदों आदि), कफ पित्त को बढ़ाने वालों में भेड़ का दूध, नीद लाने वालों में भैंस का दूध, विरुक्षता पैदा करने वालों में जंगली कोदों (वनकोद्रव), मूत्र लाने वालों में गन्ना, मल लाने वालों में जौ, वात पैदा करने वालों में जामुन, कफ पित्त पैदा करने वालों में तिल में तले हुए बड़े या कचौरी, अम्लपित्त पैदा करने वालों में कुलथी, कफ पित्त करने वालों में उड़द, वमन, आस्थापन करने वालों में मैनफल, तीक्ष्ण विरेचक वस्तुओं में थोर का दूध, शिरोविरेचनो में चिर-चिटे के चावल, कृमिनाशकों में वायविडंग, विषनाशकों में शिरीष (सिरस), कुष्ठ रोग नाशकों में खैर, वातनाशकों में रास्ना, आयु स्थिर करने वालों में आंवला, पथ्य हितकारी वस्तुओं में छोटी हरड, वृष्य, वातनाशक वस्तुओं में एरण्ड की जड़; दीपन पाचन अफारे को नाश करने वाली वस्तुओं में पिप्पलीमूल, दीपन, पाचन, गुदा की शोथ, बवासीर और शूलनाशक वस्तुओं

१ मन्दक मन्द हुई, दूध में पांच गुना पानी मिलाकर जो दही बनाई जाये ।

में पोहकरमूल, संग्राहक, दीपन, पाचन गुण वाली वस्तुओं में नागरमोथा, निर्वापण अर्थात् दाह को कम करनेवाले दीपन, पाचन, वमन, अतिसार को नष्ट करनेवाली वस्तुओं में नेत्रवाला, संग्राहक, पाचन और दीपनीय वस्तुओं में टेंदू ( स्योनाक ), संग्राहक, रक्त-पित्तनाशक वस्तुओं में सारिवा, संग्राहक, दीपनीय, वात-कफ-रक्त और विवन्धनाशक वस्तुओं में गिलोय, संग्राहक, दीपन, वात-कफनाशक वस्तुओं में वेलगिरी, दीपन, पाचन, संग्राहक सर्वदोषनाशकों में अतीस, संग्राहक, रक्त-पित्तनाशक वस्तुओं में नील कमल, कमल श्वेत, पद्म का केशर (कमल केशर), पित्त-कफनाशक वस्तुओं में धमासा, रक्त-पित्त के धतियोग को कम करने वाली वस्तुओं में गन्धपियंगू ( गहुला )। कफ-पित्त-रक्त संग्राहक, शुष्क करने वाली वस्तुओं में कुटे की छाल, रक्तसंग्राहक, रक्त-पित्तनाशक, वस्तुओं में गम्भागी का फल, संग्राहक, वातनाशक, दीपनीय और शुकवर्धक वस्तुओं में पृश्नपर्णी, वृष्य और सर्वदोषनाशक वस्तुओं में विदारीकन्द, संग्राहक, बलकारक, वातनाशक वस्तुओं में बला (बुरैटी), मूत्रकृच्छ्र, वायु-नाशक वस्तुओं में गोखरू, छेदनीय, दीपनीय, आनुलोमिक ( वायु मल मूत्र का अनुलोमन करने वाले ), वात-कफनाशक वस्तुओं में अम्लवेतस, घृतजन्य रोगों की शान्ति के लिये तरु का अभ्यास अर्थात् सतत सेवन; ग्रहणी रोग, शोथ, अर्श नाशक वस्तुओं में व्याघ्र आदि मांस खाने वाले पशुओं का मांस, रसायनों में दूध और घी का सततसेवन, उदावर्तनाशक और घृष्यकारक वस्तुओं में बराबर घी और सत्तू को खाना; दातों को बल और रुचि, रस, कान्ति पैदा करने की वस्तुओं में तैल के कोगले करना, दाह जल में शान्त करने लिये चन्दन और गूलर का लेप; शीत को दूर करने वाले लेपों में चन्दन और अगर का लेप, जलन में त्वग् रोग पसीने को दूर करने वाले लेपों में कृत्तण और खस का लेप, वात-नाशक मर्दन और लेप के प्रयोग में कूट; आंखों के लिये हितकारी, वृष्य

केश्य, कण्ठ के हितकारी वर्ण, बल और कान्तिदायक, विरजनीय ( रंग पैदा करने ) और रोपण करने वाली वस्तुओं में शहद, प्राण वा जीवन देने वाली वस्तुओं में वायु, आमविकार, मल सूत्रादि का अवरोध, ठण्ड, शूल, कम्पन को दूर करने के लिए आग का सेक, स्तम्भक पदार्थों में जल, प्यास की अधिकता को कम करने के लिये मिट्टी के ढेले वा पत्थर को खूब गरम करके बुझाए पानी को पिलाना; आम रोग को करने वाले कारणों में बहुत अधिक खाना, अग्निवर्धक वस्तुओं में जाठराग्नि के बलानुसार खाना; सेव्य, उपयोगी वस्तुओं में अपनी प्रकृति के अनुसार आहार विहार करना; आरोग्यकारक वस्तुओं में, समय पर भोजन करना, अनारोग्योत्पादक वस्तुओं में, वेगों का रोकना; मन की प्रसन्नता करने वालों में मद्य, बुद्धि, धैर्य और स्मृतिनाशक वस्तुओं में मद्य का अधिक उपयोग; पचने में कठिन वस्तुओं में गुरु, गरिष्ठ भोजन, सुगमता से पचाने वाली वस्तुओं में, एक समय भोजन करना, शोष और क्षय करने वाली वस्तुओं में स्त्री संग की अधिकता; नपुंसक करने वाले कारणों में शुक्र के उपस्थित वेग को रोकना, अन्न में अश्रद्धा पैदा करने वालों में वधस्थान, आयु का हास करने वाले कारणों में न खाना, क्षीण, निर्बल करने वालों में थोड़ा खाना, ग्रहणी रोग को करने वाले कारणों में अजीर्णावस्था में अध्यशन अर्थात् खाने के उपर खाना, अग्नि को विषम करने वाले कारणों में विषम ( ठीक समय पर या कठिन मृदु वस्तु ) खाना, कुष्ठ आदि निन्दित रोगों को पैदा करने में विरुद्ध वीर्य (जैसे दूध और मछली आदि) वस्तुओं का खाना, सब पथ्यों में शान्ति; सब अपथ्यों में परिश्रम थकान (शक्ति से बाहर परिश्रम करना), व्याधियों में मुख्य वमन, विरेचन, आहार, विहार का मिथ्यायोग, दारिद्र्य या अमंगलता के कारणों में रजस्वला स्त्री के साथ सम्भोग, आयुवर्धक वस्तुओं में ब्रह्मचर्य, चृप्य वस्तुओं में संकल्प, अवृप्य वस्तुओं में मन की अप्रसन्नता; प्राण-हारक वस्तुओं में बल से बाहर काम करना, रोग के बढ़ाने में शोक;



श्रम नाशक वस्तुओं में स्नान, प्रीणन, पुष्टिकारक वस्तुओं में प्रसन्नता; सुखाने वाली वस्तुओं में शोक; पुष्ट करने वाली वस्तुओं में बेफिकरी (सन्तोष), नींद लाने वाली वस्तुओं में पुष्टि, आलस्य करने वाली वस्तुओं में नींद, वलकारक वस्तुओं में सब रसों का अभ्यास, निर्वल करने वालों में एक ही रस का निरन्तर सेवन, अनाहार्य्य अर्थात् खींच कर निकालने में अयोग्य वस्तुओं में गर्भ रूपी शल्य; बाहर निकालने वाली वस्तुओं में अजीर्ण, कोमल औषधियों के उपचार में बालक, याप्य रोगों में वृद्ध; तीव्र वेग की औषध और व्यायाम त्याग करनेवालों में गर्भिणी, गर्भ स्थिर कराने वालों में मन की प्रसन्नता; दुश्चिकित्स्य रोगों में सन्निपात जन्य रोग, विषम चिकित्सा (कठिन) वाले रोगों में आमजन्य रोग, सब रोगों में ज्वर; दीर्घ रोगों में कुष्ठ, रोग समूहों में राजयक्ष्मा; आनु-पङ्क्ति रोगों में प्रमेह, अनुशस्यो में, जोंक, तंत्रों में वास्ति, औषध-भूमियों में हिमालय, आरोग्य देशों में मरुभूमि, अहितकार देशों में जलप्राय प्रदेश जैसे बंगाल, रोगी के चारों गुणों में वैद्य के आदेशानुसार काम करना, चिकित्सा के चारों अंगों में वैद्य, त्याज्य वस्तुओं में नास्तिक; दुःखदायक कारणों में लोभ, अरिष्ट अर्थात् मृत्यु-कारणों में कर्त के अनुसार न चलना, रोग के लक्षणों में मन की दुश्चिन्ता; शोक, सन्देह मिटानेवालों में वैद्यों का समूह अर्थात् बहुत वैद्यों का होना; वैद्य के गुणों में देश काल के अनुसार चिकित्सा करना, औषधियों में यथार्थ ज्ञान; ज्ञानसाधनों में शास्त्र सहित तर्क; काल ज्ञान में समया-नुसार काम करना, आहार के गुणों में तृप्ति, फलनाश करने वाले कारणों में मुग्ध उद्योग का न करना, सन्देह को मिटाने वाली वस्तुओं में आंख से कार्य को देख, अनुभव प्राप्त करना, भय करनेवाले कार्यों में असामर्थ्य, दुष्टि घटाने वाले कारणों में उस विद्या को जानने वालों से वातचीत; शास्त्र के तत्त्व को जानने के लिये आचार्य, अमृतों में आयुर्वेद, कर्त्तव्य कार्यों में उत्तम सत्य वचन, सब अहितकारी वस्तुओं में 'असत्य' का सेवन; सब प्रकार के मुग्धों में, संन्यास (सर्वस्व त्याग) श्रेष्ठ अर्थात् श्रेयस्कर है।

भवन्ति चात्र । अश्याणां शतमुद्दिष्टं यद्द्विपञ्चाशदुत्तरम् ।

अलमेतद्विकाराणां विघातायोपदिश्यते ॥ ३० ॥

इस प्रकार से १५२ ( एक सौ बावन ) श्रेष्ठ पदार्थ कहे हैं । ये विकार अर्थात् रोगों के नाश करने के लिये पर्याप्त हैं ।

समानकारिणो येऽर्थास्तेषां श्रेष्ठस्य लक्षणम् ।

ज्यायस्त्वं कार्यकारित्वेऽवरत्वं चाप्युदाहृतम् ॥ ४० ॥

वातपित्तकफेभ्यश्च यद्यत्प्रशमने हितम् ।

प्राधान्यतश्च निर्दिष्टं यद्द्वयाधिहरमुत्तमम् ॥ ४१ ॥

एतन्निशम्य निपुणं चिकित्सां संप्रयोजयेत् ।

एवं कुर्वन् सदा वैद्यो धर्मकामौ समभ्रते ॥ ४२

पथ्यं पथोऽनपेत्तं यद्यच्चोक्तं मनसः प्रियम् ।

यच्चाप्रियमपथ्यं च नियतं तन्न लक्षयेत् ॥ ४३ ॥

मात्राकालक्रियाभूमिदेहदोषगुणान्तरम् ।

प्राप्य तत्तद्वि दृश्यन्ते ते ते भावास्तथा तथा ॥ ४४ ॥

तस्मात्स्वभावो निर्दिष्टस्तथा मात्रादिराश्रयः ।

तदपेक्ष्योभयं कर्म प्रयोज्यं सिद्धिमिच्छता ॥ ४५ ॥

जो पदार्थ शरीर के दोषों को समान करते हैं, या समान अवस्था में रहने देते हैं वे श्रेष्ठ हैं, यही श्रेष्ठ का लक्षण है । इन के कार्य करने की शक्ति से ही अधिक उत्तम और उत्तम भेद किये हैं । ( यथा—लोहित-शालयः शूकधान्यानां श्रेष्ठतम, उदकमाश्वासकराणां श्रेष्ठम् ) । इसी प्रकार वात, पित्त, कफ के नाश के लिये जो वस्तु मुख्य रूप में श्रेष्ठ है और जो रोग को नष्ट करने के लिये उत्तम है, इन को जानकर चिकित्सा का आरम्भ करना चाहिये । इस प्रकार करने से वैद्य को धर्म और काम दोनों मिलते हैं । शरीर और मन के लिये जो प्रिय या हितकर हों, वे पथ्य हैं और जो शरीर और मन के लिये अप्रिय हों वे अपथ्य हैं, ऐसा लक्षण नहीं समझना चाहिये । क्योंकि मात्रा (जैसे—घृत पथ्य होते हुए भी

अधिक मात्रा में अपथ्य है ), काल (वसन्त में घी अपथ्य है), क्रिया (घृत विरुद्ध द्रव्य के साथ अपथ्य है), भूमि (जलबहुल देश में घी अपथ्य है), देह (अतिस्थूल शरीर में घी अपथ्य है), दोष (कफ दोष में घी अपथ्य है) से भेद हो जाता है। इसी प्रकार विष भी पथ्य हो जाता है ( यथा— उदरे विषं तिलं दद्यात् । उदर रोगो मे तिलमात्रं विष देना चाहिये ) । इस प्रकार पथ्य वस्तु अपथ्य हो जाती है और अपथ्य वस्तु पथ्य बन जाती है । इसलिये जो वैद्य यश की इच्छा करते हो, उन को वस्तु के स्वभाव, प्राकृतिकगुण और मात्रा, काल आदि का विचार करके प्रयोग करना चाहिये ।

तदात्रेयस्य भगवतो वचनमनुनिशम्य पुनरपि भगवन्त-  
मात्रेयमग्निवेश उवाच—यथोद्देशमभिनिर्दिष्टं केवलोऽयमर्थो भगवता  
श्रुतस्त्वस्माभिः । आसवद्रव्याणामिदानीं लक्षणमनतिसंक्षेपेणोपदि-  
श्यमानं शुश्रूषामह इति ॥ ४६ ॥

आत्रेय ऋषि के वचन को सुनकर फिर भी अग्निवेश भगवान् आत्रेय मुनि से पूछने लगे । हे महाराज ! आपने प्रतिज्ञानुसार पथ्यापथ्य का प्रधान विषय सम्पूर्ण रूप से पतिपादन कर दिया है । इस समय उन सब पदार्थों के दोषरहित लक्षणों को सुनना चाहते हैं ।

तमुवाच भगवानात्रेय.—धान्यफलमूलसारपुष्पकाण्डपत्र-  
त्वचो भवन्त्यासवयोनयोऽग्निवेश संग्रहेणाष्टौ शर्करा नवमी,  
तास्त्रेव द्रव्यसंयोगकरणतोऽपरिसंख्येयासु यथापथ्यतमानामासवानां  
चतुरशीति निबोध । तद्यथा—सुगसौवीरतुषोदकमैरेयमेदकधान्या-  
म्लाः पङ्कान्यासवा भवन्ति, मृद्धीकाखजू रकाशमर्यधन्वनराजादन-  
वृणशून्यपरूपकाभयामलकमृगलिशिडकाजाम्बवकपित्तकुवलबदर-  
कर्कन्दुपीलुपियालपनसन्ध्रोधोधाश्वत्थपृक्षकपीतनोदुम्बराजमोद-  
शृङ्गाटकशङ्खिनीभिः फलासवाः पङ्कविंशतिः । विदारिगन्धाश्वगन्धाकृ-  
ष्णगन्धाशतावरीश्यामात्रिवृद्धन्तीद्रवन्तीविल्वोरुवृकचित्रकमूलैरे-  
कादश मूलासवाः । शालप्रियकाश्वकर्णचन्दनस्यन्दनखदिरकदरसप्त-

पर्णार्जुनासत्तारिमेदतिन्दुककिणिहीशमीशुक्तिशिशपाशिरीषवञ्जल-  
धन्वनमधूकैः सारासवा विशतिः । पद्मोत्पलनलिनकुमुदसौगन्धि-  
कपुरण्डरीकशतपत्रमधूकप्रियङ्गुधातकीपुष्पैर्दश पुष्पासवा भवन्ति ।  
इक्षुकाण्डेक्ष्वक्षुवालिकापुरण्डकचतुर्थाः काण्डासवा भवन्ति । पटोल  
ताडपत्रासवौ द्वौ भवतः । तिल्वकलोद्गैलवालुकक्रमुकचतुर्थास्त्वगा  
सवा भवन्ति, शर्करासव एक एवेति । एवमेषामासवानां चतुरशीतिः  
परस्परेणासंसृष्टानामासवद्रव्याणामुपनिर्दिष्टा भवति । एषामासवाना  
मासुतत्वादासवसंज्ञा । द्रव्यसंयोगविभागस्त्वेषां बहुविकल्पः संस्का-  
रश्च । यथास्वं योनिसंस्कारसंस्कृताश्चासवाः स्वकमे कुर्वन्ति । संयोगसं  
स्कारदेशकालस्थापनमात्रादयश्च भावास्तेषां तेषामासवानां ते ते  
समुपदिश्यन्ते तत्तत्कार्यमभिसमीक्ष्येति ॥ ४७ ॥

अग्निवेश को भगवान् आत्रेय ने कहा—हे अग्निवेश ! संक्षेप से उन  
सव के उत्पत्ति स्थान ९ ( नौ ) हैं । यथा—धान्य, फल, मूल, सार,  
पुष्प, काण्ड, पत्र, त्वचा, ( छाल ) और शर्करा । इन्हींमें द्रव्य (पदार्थ)  
संयोग (मिश्रण), करण (संस्कार) द्वारा असंख्येय आसव बन जाते हैं ।  
इनमें अधिक हितकारी (मुख्य) आसव २४ (चौबीस) हैं उनको कहते हैं—

सुरा, सौवीरक, तुषोदक, मैरेय और मेदक और धान्याम्ल—ये छः धान्या-  
म्बुक (कांजी) आसव होते हैं<sup>१</sup> । द्राक्षा, खजूर, गम्भारी, धान्वन, ( रक्त  
कुसुम), राजादन ( ब्रीहि या क्षीरी ), तृणशून्य ( केतकी ), परूषक  
( फालसा ), अभया ( हरड़ ), आमलक (आंवला), मृगलिण्डिका(बहेड़ा)  
जाम्बव ( जामुन ), कपित्थ ( कैथ ), कुवल ( बड़ा बेर ), बदर (छोटा  
बेर ), कर्कन्धु ( झाडी का बेर ), पीलु, पियालु ( प्याल ), पनस ( कट-  
हल ), न्यग्रोध ( बड़ ), अश्वत्थ ( पीपल ), प्लक्ष ( पिलखन ), कपीतन  
( सिरस ), उदुम्बर ( गूलर ), अजमोद ( अजवायन ), शृङ्गाटक ( सिंघाड़ा ),

१. सौवीरं निप्लुपयवकृतम्, मैरेय सुरासव कृता सुरा, मेदक श्वेतसुरा,  
जगलाख्या, धान्याम्बु काञ्जि ।

और शंखिनी ( शंखपुष्पी ), ये छत्वीस फलासव हैं । विदारीगन्धा ( विदारी ), अश्वगन्धा ( असगन्ध ), कृष्णगन्धा ( शोभाजन ) शतावरी, निशोध, जमालगोटा, द्रवन्ती ( बड़ा जमालगोटा ) बेलगिरी, पुरण्डमूल, चीतामूल, ये ग्यारह मूलासव है । बडासाल, अश्वकर्ण ( साल भाग), चन्दन, तिवस, खैर, सफेद खैर, सलवन, अर्जुन, असन, अरिमेद ( विट् खदिर ), तिन्दुक, किण्णीही ( अपाभार्ग ), शमी ( जंड ) शुक्ति ( वेर ), ग्रीशम, सिरस, अशोक, धान्वन और मुलहठी ये बीस 'सारासव' है । पद्म ( लाल आठ पत्तों वाला ), उत्पल ( नीला कमल ), कुमुद सौगन्धिक, पुण्डरीक, ( श्वेत कमल ), शतपत्र कमल, मधूक ( महुवे के फूल ) प्रियंगु, धाय के पुष्प, ये दस 'पुष्पासव' है । गन्ना, इक्षुवालिका ( गन्ने के ऊपर का भाग ), गन्ने की जड़, पौण्डा ये चार 'काण्डासव' हैं । परचल और ताड़ के पत्ते ये दो 'पत्रासव' होते हैं । तिल्वक ( शावर लोध ) लोध ( पठानी लोध ), एलवालुक, क्रमुक ( गुवाल, घीकवार ) ये चार 'त्वगासव' है । शर्करासव एक ही है । इस प्रकार एक एक द्रव्य से बनने वाले ये ८४ ( चौरासी ) आसव हैं । आसुत अर्थात् सत के खिंच जाने से ) इन को 'आसव' कहते हैं । द्रव्यों के संयोग और विभाग से ये बहुत प्रकार के और असंख्य बन जाते हैं । आसव अपने संयोग तथा संस्कार के अनुसार अपना कार्य करते हैं । संयोगसंस्कार से अभिप्राय देश ( भस्मराशि, धान्वराशि ), काल ( पन्द्रह दिन, एक मास ), स्थापन ( सन्धान ), मात्रा आदि ( द्रव्यस्वभाव ) से है । कार्य की अपेक्षा से ही आसवों के संयोग संस्कार रूपी कार्य किये जाते हैं ।

भवति चात्र । मन शरीराश्रित्वप्रदानामस्वप्नशोकारुचिनाशनानाम् ।

संहर्षणानां प्रवरासवानामशीतिरुक्ता चतुरुत्तरेषा ॥ ४८ ॥

तत्र श्लोकः ।

शरीररोगप्रकृतौ मतानि तत्त्वेन चाहारविनिश्चयो यः ।

उवाच यज्ज.पुरुषादिकेऽस्मिन्मुनिस्तथाऽग्र्याणि वरासवांश्च ॥४९ ॥

मन, शरीर, अग्नि को बल देने, नीद न आना, शोक और अरुचि को मिटाने वाले, मन में प्रसन्नता करने वाले ये उत्तम ( श्रेष्ठ ) ८४ आसव कह दिये । शरीर एवं इस के रोगों की उत्पत्ति, ऋषियों के मत, आहार की हिताहित विधि का अन्तिम सार, पथ्यापथ्य और श्रेष्ठ आसव इस अध्याय में कह दिये हैं ।

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने अन्नपानचतुष्के

यज्जःपुरुषीयोऽध्यायः पञ्चविंशतितमः समाप्तः ॥

## षड्विंशोऽध्यायः ।

अथात आत्रेयभद्रकाप्यीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अत्र 'भद्रकाप्यीय' अध्याय का वर्णन करेंगे ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

आत्रेयो भद्रकाप्यश्च शाकुन्तेयस्तथैव च ।

पूर्णाक्षश्चैव मौद्गल्यो हिरण्याक्षश्च कौशिकः ॥ ३ ॥

यः कुमारशिरा नाम भरद्वाजः स चानघः ।

श्रीमान् वार्योविदश्चैव राजा मतिमतां वरः ॥ ४ ॥

निमिश्च राजा वैदेहो वडिशश्च महामतिः ।

काङ्कायनश्च बाह्लीको बाह्लीकभिषजां वरः ॥ ५ ॥

एते श्रुतवयोवृद्धा जितात्मानो महर्षयः ।

वने चैत्ररथे रम्ये समीयुर्विजिहीर्षवः ॥ ६ ॥

तेषां तत्रोपविष्टानामियमर्थवती कथा ।

वभूवार्थविदां सम्यग्रसाहारविनिश्चये ॥ ७ ॥

आत्रेय भद्रकाप्यीय शाकुन्तेय, पूर्णाक्ष, मौद्गल्य, हिरण्याक्ष, कौशिक,

भरद्वाज कुमारशिरा, विद्वच्छ्रेष्ठ चायोंविट, वैदेहमहाराज निभि, महाराज वडिश, बाह्लीक देशी भिपजो में श्रेष्ठ बाह्लीक ( बलख देशीय ) काकायन ये ज्ञानवृद्ध, वयोवृद्ध और जितेन्द्रिय महर्षि चैत्ररथ नामक सुन्दर वन में विहार करते थे । वहां इन के एक साथ बैठने पर रस द्वारा आहार के निर्णय करने के लिये आपस में गोष्ठी आरम्भ हुई ।

एक एव रस इत्युवाच भद्रकाप्यो यं पञ्चानामिन्द्रियार्थानामन्यतमं जिह्वावैषयिकं भावमाचक्षते कुशला, स पुनरुदकादनन्य इति । द्वौ रसाविति शाकुन्तेयो ब्राह्मणश्छेदनीयश्चोपशमनीयश्चेति । त्रयो रसा इति पूर्णाक्षो मौद्गल्यश्छेदनीयोपशमनीयौ साधारणश्चेति । चत्वारो रसा इति हिरण्याक्षः कौशिकः स्वादुर्हितश्च स्वादुरहितश्चास्वादुर्हितश्चेति । पञ्च रसा इति कुमारशिरा भरद्वाजो भौमोदकाग्नेयवायवीयान्तरिक्षाः । षड्रसा इति निमिर्वैदेहो मधुराश्ललवणकटुकतिक्तकपायचाराः । अष्टौ रसा इति वडिशो धामार्गवो मधुराम्ललवणकटुकतिक्तकपायचारान्यक्ताः । अपरिसंख्येया रसा इति काङ्कायानो बाह्लीक भिपगाश्रयगुणकर्मसंस्तादविशेषाणासपरिमेयत्वान् ॥ ८ ॥

भद्रकाप्य ऋषि बोले कि—'रस' एक ही है । जिस को कि पांचों इन्द्रियों के विषयों में से एक जिह्वा का ही विषय कहते हैं, वह 'रस' पानी से अभिन्न है और एक ही है । शाकुन्तेय ब्राह्मण ने कहा कि—'रस' दो है, एक छेदनीय और दूसरा उपशमनीय ( अर्थात् अपतर्पण कारक और वृंहणकारक ) । पूर्णाक्ष मौद्गल्य ऋषि बोले कि—तीन रस हैं । यथा—छेदनीय, उपशमनीय और साधारण अर्थात् आग्नेय और सौम्य गुणों की र. त. त. से लंघन, वृंहण दोनों कार्य करने वाला । हिरण्याक्ष कौशिक ने कहा कि—'रस' चार हैं । स्वादु ( प्रिय ) हितकारी, स्वादु अहित, अस्वादु हित और अस्वादु अहित । कुमारशिरा भरद्वाज ने कहा कि—रस पांच हैं । भौम ( पृथ्वी का ), उदक ( पानी का ), आग्नेय ( तेज का ), वायवीय ( वायु का ) और आन्तरिक्ष ( आकाश का ) ये पांच रस हैं । राजर्षि

वार्योविद् बोले—'रस' छः है। गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष। वैदेह निमि ने कहा—रस सात है। मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय और क्षार। धामार्गव वडिश बोले—रस आठ हैं। यथा—मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, क्षार और अव्यक्त। बाह्लीकभिषक् कांकायन ने कहा कि—'गुण ( गुरु लघु आदि ), कर्म ( धातु वर्धन, क्षयण आदि ), संस्वाद ( रसों के नाना अदान्तर भेद ) भेदों से रस अगणित बन जाते हैं।

षडेव रसा इत्युवाच भगवानात्रेयः पुनर्वसुर्मधुराम्ललवण-  
कटुतिक्तकषायाः। तेषां षण्णां रसानां योनिरुदकं, छेदनोपशमने द्वे  
कर्मणी, तयार्मिश्राभावात्साधारणत्वं, स्वाद्वस्वादुता भक्ति, हिता-  
हितौ द्वौ प्रभावौ। पञ्चमहाभूतविकारास्वाश्रया प्रकृतिविकृतिविचार  
देशकालवशाः, तेष्वश्रयेषु द्रव्यसंज्ञकेषु गुणा गुरुलघुशीतोष्णस्नि-  
ग्धरूक्षाद्याः। क्षरणात्क्षारो नासौ रसः, द्रव्यं तदनेकरससमुत्पन्न-  
मनेकरसं कटुकलवणभूयिष्ठमनेकेन्द्रियार्थसमन्वितं करणाभिनि-  
र्वृत्तम्। अव्यक्तीभावस्तु खलु रसानां प्रकृतौ भवत्यनुरसेऽनुरससम-  
न्विते वा द्रव्ये। अपरिसंख्येयत्वं पुनस्तेषामाश्रयादीनां भावानां  
विशेषापरिसंख्येयत्वान्न युक्तं, एकैकोऽपि हि पुनरेषामाश्रयादीनां  
भावानां विशेषानाश्रयते विशेषापरिसंख्येयत्वात्। न च तस्मादन्य-  
त्वमुपपद्यते। परस्परसंसृष्टभूयिष्ठत्वान्न चेषामभिनिर्वृत्तेर्गुणप्रकृती-  
नामपरिसंख्येयत्वं भवति, तस्मान्न संसृष्टानां रसानां कर्मोपदिशन्ति  
बुद्धिमन्तः। तच्चैव कारणमपेक्षमाणाः षण्णां रसानां परस्परेणा-  
संसृष्टानां लक्षणपृथक्त्वमुपदेक्ष्याम ॥ ९ ॥

पुनर्वसु भगवान् आत्रेय ने कहा कि—रस छः ही है। यथा—  
मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। इन छः रसों की उत्पत्ति  
का स्थान पानी ही है। छेदन और उपशमन ये दोनों कर्म हैं, इन दोनों  
कर्मों के मिल जाने से साधारण हो जाता है। स्वादु और अस्वादु यह रुचि



हैं, हित और अहित प्रभाव है। पंच महाभूत विकार होते हैं। वे रस के आश्रय स्थान है, वे रस नहीं है। गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष ये द्रव्यों में आश्रित गुण है, जो कि प्रकृति ( यथा—मूंग, कपाय और मधुर स्वभाव से ही हैं उसलिये लघु है ), विकृति ( चावलों से बने ताज़ा खील लघु और सत्तू बड़े भारी होते हैं ), विचार ( द्रव्यान्तर संयोग यथा—मधु और घी का मेल त्रिप बनता है ), देश ( दो प्रकार का है यथा—भूमि और रोगी। भूमि जैसे—श्वेत कपोती चल्मीकाधिरूढ़ा विपहरी होती है, हिमालय की ओपधियां अधिक गुण युक्त होती है, शरीर देश जैसे टांग के मांस से कन्धे आदि का मांस गुरु होता है ) और काल इन के भेद से बनते हैं। क्षार रस नहीं है। क्योंकि क्षरण किया जाने से, अनेक पदार्थों से उत्पन्न होने के कारण अनेक रस होने से, कटुक, लवण आदि रसों का अनुभव होने से, क्षार में स्पर्श और गन्ध होने से यह द्रव्य है, रस नहीं, और हेत्वन्तर अर्थात् अन्य कारण—भस्म खाव आदि से बनने के कारण, रस नहीं है। 'अव्यक्त' भी रस नहीं। क्योंकि अव्यक्तता तो कारण में ही है। ( रसों के कारण जल में ही अव्यक्तता है )। इस के अतिरिक्त अनुरस में अव्यक्तीभाव होता है। रस के पीछे जो रस होता है, वह अनुरस है। यथा—रूक्षः कपायानुरसो मधुरः कफपित्ता । यथा—विप के विषय में ( 'उष्णमनिर्देश्यरसम्' )। अथवा अनुरसयुक्त द्रव्य में अव्यक्तता होती है। और जो यह कहा है कि रसों के आश्रय आदि भावों के असंख्य होने से रस भी असंख्य हैं, यह ठीक नहीं। क्योंकि एक एक रस इन आश्रय रूपी भावों में से किसी एक भाव का आश्रय करके विशेष रूप से रहता है ( यथा - चावल, मूंग, घृत, दूध आदि वस्तुओं में मधुर रस के आश्रय की भिन्नता रहने पर भी मधुरत्व रस समान है, जिस प्रकार की वगुला, दूध और कपास में आश्रय भेद होने पर भी सफ़ेद रंग सामान्य है )। आश्रय आदि अनुरस है। इसलिये छ. में भिन्न अन्य रस का होना सम्भव नहीं। और

यदि कहो कि रसों के परस्पर मिलने से रस असंख्य हो जायंगे ? यह भी ठीक नहीं, क्योंकि परस्पर मिलने पर भी इनके गुरु, लघु आदि गुण या मधुर आदि स्वभाव अथवा आयुष्यवर्द्धक आदि असंख्य भेद हो जाते हैं । यहाँ पर भी मधुर आदि के प्रत्येक के गुण और प्रकृतियाँ जो कहीं हैं वे ही परस्पर मिलती हैं । इसलिये एक रस के दूसरे रस के साथ मिलने से और दोषों के दूसरे दोषों से मिलने पर भी रस असंख्य, अगणित नहीं होते । इसीलिये मिले हुए रसों के कर्मों (गौरव, लाघव आदि) को बुद्धिमान् पृथक् नहीं बताते । क्योंकि कारण की अपेक्षा से ही परस्पर न मिले हुए छः रसों के ही लक्षण पृथक् कहेंगे ।

अग्ने तु तावद् द्रव्यभेदमभिप्रेत्य किञ्चिदभिधास्यामः । सर्वं द्रव्यं पाञ्चभौतिकमस्मिन्नेवार्थे । तच्चेतनावदचेतनं च, तस्य गुणाः शब्दादयो गुर्वादयश्च द्रवान्ताः, कर्म पञ्चविधमुक्तं वसनादि । तत्र द्रव्याणि गुरुखरकठिनमन्दस्थिरविशदसान्द्रस्थूलगन्धगुणबहुलानि पार्थिवानि, तान्युपचयसंघातगौरवस्थैर्यकराणि; द्रवस्निग्धशीतमन्द-मृदुपिच्छलरसगुणबहुलान्याप्यानि, तान्युत्क्लेदस्नेहबन्धविष्यन्द-मार्दवप्रह्लादकराणि; उष्णतीक्ष्णसूक्ष्मलघुरूक्षविशदरूपगुणबहुलान्याग्नेयानि, तानि दाहपाकप्रभाप्रकाशवर्णकराणि । लघुशीतरूक्षखरविशद-सूक्ष्मस्पर्शगुणबहुलानि वायव्यानि, तानि रौक्ष्यग्लानिविचारवैशद्य-लाघवकराणि; मृदुलघुसूक्ष्मश्लक्ष्णशब्दगुणबहुलान्याकाशात्मकानि, तानि मार्दवसौषिर्यलाघवकराणि ॥ १० ॥

इस के आगे आयुर्वेद के उपयोगी द्रव्य भेद को लेकर कुछ कहेंगे— यहाँ पर जो भी द्रव्य कहेंगे वे सब पांचभौतिक अर्थात् पांच महाभूतों से बने हैं । ये दो प्रकार के हैं, चेतना से युक्त और अचेतन । इस द्रव्य के जहाँ शब्दादि गुण हैं, वहाँ गुरु आदि ( बीस ) गुण हैं । द्रव्य का कर्म पांच प्रकार का है । यथा—वसन, विरेचन, शिरोविरेचन, आस्थापन, अनुवासन । इन द्रव्यों में जो द्रव्य पार्थिव ( पृथ्वीजन्य ) हैं वे गुरु,

कर्कश, कठोर, धीमे, स्थिर, विशद, ( पृथक् पृथक् ), सान्द्र, स्थूल और गन्ध युक्त इन गुणों वाले प्रायः करके होते हैं। ये पार्थिव पदार्थ उपचय संघात, गौरव ( भारीपन ) और स्थिरता करते हैं। जलीय पदार्थ तरल, स्निग्ध शीत, मन्द, मृदु, पिच्छिल और जलीयगुण युक्त प्रायः करके होते हैं। ये द्रव्य उत्कृष्ट नमी, स्नेह, बन्धन परस्पर मिलाने वाले, कोमलता, प्रह्लाद शरीर इन्द्रियों का तर्पण करने वाले हैं। अग्नि गुणयुक्त अर्थात् आग्नेय द्रव्य गरम, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, लघु, रुक्ष, विशद एवं रूप गुण में ( अग्निवत् ) होते हैं। ये द्रव्य जलन, पकाना, कान्ति, प्रकाश और वर्ण ( रंग ) को उत्पन्न करते हैं। वायवीय पदार्थ लघु, शीत, रुक्ष, खर, विशद, सूक्ष्म, स्पर्श गुण ( वायवीय गुण ) वाले होते हैं। ये शरीर में रुक्षता, ग्लानि, विचारों कि निर्मलता और लघुता उत्पन्न करते हैं। आकाश गुण वाले द्रव्य मृदु, लघु, सूक्ष्म, खोतों में पहुँचाने वाला, चिकना एवं शब्द गुण आकाश गुण युक्त होते हैं। ये द्रव्य शरीर में मृदुता, सौम्य ( छिद्राधिक्य ) और लघुता उत्पन्न करते हैं।

अनेनोपदेशेन नानौपधिभूतं जगति किञ्चिद् द्रव्यमुपलभ्यते  
ता तां युक्तिमर्थं च त तमभिप्रेत्य । न तु केवलं गुणप्रभावादेव  
कार्मुकाणि भवन्ति । द्रव्याणि हि द्रव्यप्रभावाद् गुणप्रभावादेव  
गुणप्रभावाच्च तस्मिंस्तस्मिन् काले तत्तदधिष्ठानमासाद्य तां तां च  
युक्तिमर्थं च तं तमभिप्रेत्य यत्कुर्वन्ति तत्कर्म, येन कुर्वन्ति तद्वीर्यं,  
यत्र कुर्वन्ति तदविकरणं, यदा कुर्वन्ति स कालः, यथा कुर्वन्ति स  
उपाय, यत्साधयन्ति तत्फलम् ॥ ११ ॥

इस उपरोक्त उपदेश द्वारा जगत् में जो भी द्रव्य मिलते हैं, वे सब उपाय, प्रयोजन के उद्देश्य से औषध समझने चाहिये। अर्थात् वे सब द्रव्य दोष-नाशक हैं, निम्नप्रांती नहीं हैं। पार्थिवादि द्रव्य केवल गुरु खर आदि गुणों त या दोष नष्ट करने वाले नहीं बन जाते। परन्तु द्रव्य द्रव्य के प्रभाव से, गुण के प्रभाव से, द्रव्य एवं गुण दोनों के प्रभाव से, उस उस

समय में, उस उस अधिष्ठान का आश्रय लेकर, और उस उस योजना तथा प्रयोजन को लक्ष्य में करके जो करते हैं, उसका नाम 'कर्म' है यथा—द्रव्य के प्रभाव से दन्ती ( जमाल गोटा ) विरेचक है, मणि आदि का धारण विष को दूर करता है । गुण के प्रभाव से—ज्वर में तिक्त रस, शीत में अग्नि । द्रव्य एवं गुण के प्रभाव से जैसे—कृष्णाजिन ( काली मृग छाला ) । यहां पर मृग छाला द्रव्य और कृष्ण गुण है । उसपर वे जो कार्य करते हैं । यथा—शिरोविरेचन द्रव्य शिर का विरेचन करते हैं, यह कर्म है । जिस के द्वारा ( उष्ण गुण के द्वारा शिरो विरेचन ) करते है वह 'वीर्य' अर्थात् 'शक्ति' है । जहां कर्म करते है, वह 'अधिकरण' है जैसे शिर । जिस समथ करते है वह 'काल' है । जिस प्रकार करते है वह उपाय है । इस प्रकार से जो सिद्ध करते है वह फल है ।

भेदश्रैषां त्रिपष्टिविधविकल्पो द्रव्यदेशकालप्रभावाद्भवति, तमु-  
पदेक्ष्यामः ॥ १२ ॥

रसों के भेद इन छः रसों के द्रव्य प्रभाव से, देश प्रभाव से ( यथा—हिमालय की द्राक्षा और दाडिम मीठे होते हैं दूसरे स्थानों के खट्टे ), काल प्रभाव से ( यथा—कच्चा आम और कसैला, कुछ बड़ा होने पर भी कच्चा आम खट्टा और पकने पर मीठा, इसी प्रकार हेमन्त में ओषधियां मीठी और वर्षा में खट्टी ), तिरेसठ ( ६३ ) भेद बन जाते है । यथा—

स्वादुरम्लादिभिर्योगे शेषैरम्लादयः पृथक् ।

यान्ति पञ्चदशैतानि द्रव्याणि द्विरसानि तु ॥ १३ ॥

दो रस वाले पन्द्रह भेद है यथा—स्वादु ( मधुर ) और अम्ल के योग से पांच, अम्ल और लवण के योग से चार, लवण और कटु के योग से तीन, कटु तिक्त और कषाय के योग से दो, तथा तिक्त और कषाय के योग से एक । जैसे—(१) मधुराम्ल (२) मधुरलवण (३) मधुरकटु (४) मधुरतिक्त ( ५ ) मधुरकषाय ( ६ ) अम्ललवण ( ७ ) अम्लकटु ( ८ ) अम्लतिक्त ( ९ ) अम्लकषाय ( १० ) लवणकटु ( ११ ) लवणतिक्त

( १२ ) लवणकपाय ( १३ ) कटुतिक्त ( १४ ) कटुकपाय ( १५ ) तिक्तकपाय ।

पृथग्गन्तादियुक्तस्य योगः शेषैः पृथग्भवेत् ।

मधुरस्य तथाऽम्लस्य लवणस्य कटास्तथा ॥ १४ ॥

त्रिरसानि यथासंख्यं द्रव्याण्युक्तानि विशतिः ।

तीन २ रसों के २० भेद हैं जैसे—( १ ) मधुर, अम्ल के साथ लवण आदि चारों का पृथक् २ योग होने से चार भेद । ( २ ) मधुर, लवण के साथ कटु आदि तीन का पृथक् २ योग होने से तीन भेद । ( ३ ) मधुर कटु का कटु, कपाय से पृथक् २ योग होने से दो भेद । ( ४ ) मधुर तिक्त का कपाय से योग होने से एक भेद । ( ५ ) अम्ल लवण का कटु आदि तीन के साथ योग होने से तीन भेद । ( ६ ) अम्ल कटु का तिक्त, कपाय दो के साथ पृथक् २ योग होने से दो भेद । ( ७ ) अम्ल तिक्त का कपाय से योग होने से एक भेद । ( ८ ) लवण कटु का तिक्त और कपाय दो से योग होने से दो भेद । ( ९ ) लवण तिक्त का कपाय से योग होने से एक भेद । ( १० ) कटु तिक्त का कपाय से योग होने से १ भेद । जैसे—( १ ) मधुर अम्ल लवण, ( २ ) मधुर अम्ल कटु, ( ३ ) मधुर अम्ल तिक्त, ( ४ ) मधुर अम्ल कपाय । ( ५ ) मधुर लवण कटु, ( ६ ) मधुर लवण तिक्त, ( ७ ) मधुर लवण कपाय । ( ८ ) मधुर कटु तिक्त, ( ९ ) मधुर कटु कपाय । ( १० ) मधुर तिक्त कपाय । ( ११ ) अम्ल कटु तिक्त, ( १२ ) अम्ल कटु कपाय । ( १३ ) अम्ल तिक्त कपाय । ( १४ ) लवण कटु तिक्त, ( १५ ) लवण कटु कपाय । ( १६ ) अम्ल लवण कटु ( १७ ) अम्ल लवण तिक्त ( १८ ) अम्ल लवण कपाय । ( १९ ) कटु तिक्त कपाय, ( २० ) लवण तिक्त कपाय ।

वक्ष्यन्ते तु चतुष्केण द्रव्याणि दश पञ्च च ॥ १५ ॥

स्वाद्गन्तौ महितौ योगं लवणाद्यैः पृथग्गतौ ।

योगं शेषैः पृथग्गतात्त्रतुष्करससंख्यया ॥ १६ ॥

चार रसों के भेद पन्द्रह हैं । यथा—चार रसों ( स्वादु, अम्ल, लवण और कटु ), में एक एक रस का ( कटु, तिक्त, कषाय ) संयोग होने से छ. रस बनते हैं । इन में स्वादु और अम्ल रस स्थिर रहते हैं ।

सहितौ स्वादुलवणौ तद्वत्कट्वादिभिः पृथक् ।  
युक्तौ शेषैः पृथग्योगं यातःस्वादूषणौ तथा ॥ १७ ॥  
कट्वाद्यैरम्ललवणौ संयुक्तौ सहितौ पृथक् ।  
यातः शेषैः पृथग्योगं शेषैरम्लकटू तथा ॥ १८ ॥  
युज्येते तु कषायेण सतिक्तौ लवणोषणौ ।

स्वादु और लवण के साथ कटु, तिक्त, कषाय के योग से तीन, और लवण को छोड़कर स्वादु, कटु, तिक्त, कषाय के योग से एक, इस प्रकार से दस भेद हुए । अब स्वादु (मधुर) रस के छोड़ने से (अम्ल, लवण इन का कटु, तिक्त, कषाय के साथ योग होने से) तीन, लवण के छोड़ने से अम्ल, कटु, तिक्त और कषाय के योग से एक और मधुर, अम्ल रस को छोड़ने से लवण, कटु, तिक्त, कषाय, यह एक भेद, इस प्रकार से पन्द्रह भेद बन जाते हैं । जैसे—( १ ) मधुराम्ललवणकटु, ( २ ) मधुराम्ललवणतिक्त, ( ३ ) मधुराम्ललवणकषाय, ( ४ ) मधुराम्लकटुतिक्त ( ५ ) मधुराम्लकटुकषाय ( ६ ) मधुराम्लतिक्तकषाय, ( ७ ) मधुरलवणकटुतिक्त ( ८ ) मधुरलवण तिक्तकषाय ( ९ ) मधुरलवणकषायकटु, ( १० ) मधुरकटुतिक्तकषाय, ( ११ ) अम्ललवणकटुतिक्त ( १२ ) अम्ललवणतिक्तकषाय ( १३ ) अम्ललवण कषायकटु, ( १४ ) अम्लकटुतिक्तकषाय ( १५ ) लवणकटुतिक्तकषाय ।

षट् तु पञ्चरसान्याहुरेकैकस्यापवर्जनात् ॥ १९ ॥  
षट् चैवैकरसानि स्युरेकं षड्समेव तु ।  
इति त्रिषष्टिर्द्रव्याणां निर्दिष्टा रससंख्यया ॥ २० ॥  
त्रिषष्टिः स्यात्त्वसंख्येया रसानुरसकल्पनात् ।  
रसास्तरतमाभ्यां तां संख्यामतिपतन्ति हि ॥ २१ ॥

संयोगाः मत्प्रपञ्चाशत्कल्पना तु त्रिषष्टिधा ।

रसाना तत्र योग्यत्वात्कल्पिता रसचिन्तकैः ॥ २२ ॥

एक एक रस के छोड़ने से छः रस बनते हैं. ( यथा—मधुर को छोड़ने से अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कपाय, अम्ल को छोड़ने से स्वादु, लवण, कटु, तिक्त, कपाय, इसी प्रकार लवण, कटु, तिक्त, कपाय के छोड़ने से छः रस ) । ( १ ) अम्ललवणकटुतिक्तकपाय ( २ ) मधुरलवणकटुतिक्तकपाय ( ३ ) मधुराम्लकटुतिक्तकपाय ( ४ ) मधुराम्ललवणतिक्तकपाय ( ५ ) मधुराम्ललवणकटुकपाय ( ६ ) मधुराम्ललवणकटुतिक्त ।

एक एक रस के छः भेद ( यथा—मधुर, अम्ल, आदि ) और सब के मिलित होने से एक भेद, इस प्रकार से कुल मिलाकर तिरैसठ (६३) रस बन जाते हैं । ये जो तिरैसठ (६३) प्रकार के रसों के भेद कहे हैं, इन में रस एवं अनुरस की कल्पना नहीं की गई है । और यदि रस और अनुरस मिला दे, तो असंख्य हो जाते हैं । इसी प्रकार रसों के तर, तम ( यथा—मधुरतर, मधुरतम आदि ) भेद से भी रस असंख्य अगणित बन जाते हैं । इस प्रकार रसों के असंख्य होने पर भी आचार्यों ने चिकित्सा व्यवहार के लिये रसों के सत्तावन ( १७ ) संयोग और मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कपाय इन को मिलाकर तिरैसठ (६३) भेदों की कल्पना कर रक्षी है ।

क्वचिदेको रस कल्प्यः संयुक्ताश्च रसाः क्वचित् ।

दोषैर्गन्धान् संचिन्त्य भिषजा सिद्धिमिच्छता ॥ २३ ॥

द्वयाणि हि भादीनि मयुक्ताश्च रसान् बुध ।

रसान् कल्पन्ति गदान् प्रति ॥ २४ ॥

स्य कल्पद्वा स्याच्च त्रैपविकल्पवित् ।

द न मुखोद्वेकाराणां हेतुलिङ्गोपशान्तिषु ॥ २५ ॥

कहीं पर एक रस, वहीं पर मिलित रसों का, दोष, ओषधि आदि

( देश, काल ) का विचार करके सफलता चाहने वाले वैद्य को कल्पना करनी चाहिये । जैसे—दो रस वाले द्रव्य ( मूंग । कषाय और मधुर होते हैं ), तीन रस वाले ( मधुराम्लकषायं च विष्टम्भि गुरु शीतलं । पित्त श्लेष्म हरं भव्यम् ), चार रस वाले ( जैसे—तिल । स्निग्धोष्णमधुरस्तिक्तकषायः कटुकस्तिलः ), पांच रस ( जैसे—हरीतकी । शिवा पंचरसा ), छ. रस ( अव्यक्त हों यथा—विष । 'विपन्त्वव्यक्तं पडूरससंयुक्तम्' या हरिण का मांस ) । एवं दो रस वाले रसों की या मिलित द्रव्य या रसों की कल्पना, अथवा एक एक रस की कल्पना रोगों के अनुसार करते हैं । जो मनुष्य रस के भेदों को भली प्रकार जानता है ( वह रोगों के कारण द्रव्य ज्ञान को भी अनिवार्य रूप से जान ही जायेगा ), एवं दोषों ( वातादि ) के लक्षणों को भी भली प्रकार से पहिचानता है, अथवा जो मनुष्य भेषज द्रव्यों को स्वरूप से एवं इन के प्रयोग विषय को जानता है, वह रोगों के कारण लक्षण, और शान्ति ( चिकित्सा ) में नहीं घबराता और भ्रम में नहीं फसता ।

व्यक्तः शुष्कस्य चादौ च रसो द्रव्यस्य लक्ष्यते ।

विपर्ययेणानुरसो रसो नास्ति हि सप्तमः ॥ २६ ॥

अनुरस—शुष्क या गीले द्रव्य में जो रस जिह्वा के स्पर्श से स्पष्ट होता है, वह व्यक्त रस है । परन्तु जो रस इस प्रकार से ज्ञात न होकर छया या कार्य द्वारा जाना जाता है, वह 'अनुरस' है । अथवा जो रस गीले द्रव्य में स्पष्ट है, वह व्यक्त ( अनुरस ) और जो रस शुष्क होने पर स्पष्ट होता है वह 'रस' है । यथा—पिप्पली आर्द्रावस्था में मधुर, और शुष्क अवस्था में 'कटु' रस है । इसलिये कटु व्यक्त रस, और मधुर अव्यक्त अनुरस है । अथवा पीछे से जो रस अनुभव होता है, वह 'अनुरस' है । यथा—कांजी, तक आदि पदार्थों के पीने पर प्रथम जिस रस का अनुभव हो वह रस और जो पीछे स्पष्ट हो वह 'अनुरस' है । सातवां रस कोई पृथक् नहीं है ।



परापरत्वे युक्तिश्च संख्या संयोग एव च ।

विभागश्च पृथक्त्वं च परिमाणमथापि च ॥ २७ ॥

मंस्कारोऽभ्यास इत्येते गुणा ज्ञेयाः परादयः ।

सिद्धयुपायाश्चिकित्साया लक्षणैस्तान् प्रचक्ष्महे ॥ २८ ॥

अतिरिक्त दस गुण—पर, अपर, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथक्त्व, परिमाण, संस्कार और अभ्यास ये दस गुण हैं । चिकित्सा में सफलता इन दस गुणों में आश्रित है, इन के लक्षण कहते हैं ।

देशकालवयोमानपाकवीर्यरसादिषु ।

परापरत्वे, युक्तिस्तु योजना या च युज्यते ॥ २९ ॥

संख्या स्याद् गणितं, योगः सह संयोग उच्यते ।

द्रव्याणां द्वन्द्वसर्वैककसंज्ञाऽनित्य एव च ॥ ३० ॥

विभागस्तु विभक्तिः स्याद्वियोगो भागशो ब्रह्मः ।

पृथक्त्वं स्यादसंयोगो वैलक्षण्यसनेकता ॥ ३१ ॥

परिमाणं पुनर्मानं, मस्कारः करणं मतम् ।

भावाभ्यसनमभ्यास शीतलं सततक्रिया ॥ ३२ ॥

इति स्वलक्षणैरुक्ता गुणाः सर्वे परादयः ।

चिकित्सा चैरविदितैर्न यथावत् प्रवर्तते ॥ ३३ ॥

गुणा गुणाश्रया नोक्तास्तस्मद्दसगुणान् भिषक् ।

विद्याद् द्रव्यगुणान् कर्तुर्गभिप्राया पृथग्विधा ॥ ३४ ॥

अतश्च प्रकृत बुद्ध्या देशकारान्तराणि च ।

तत्रकर्तुर्गभिप्रायानुपायाश्चार्थमादिशेत् ॥ ३५ ॥

देश—मरुदेश पर और आनूप अपर । काल—विसर्ग पर, आदान अपर । वयम्—तरुण पर, बाल, वृद्ध अपर । मान—शरीर का क्हा हुआ पर, इस के अन्य अपर । पाक, वीर्य और रस ये जिस योग के प्रति हों उसके लिये पर, दूसरों के प्रति अपर । अथवा सन्निकृष्ट और विप्रकृष्ट भेद से पर-अपर भाव होता है । युक्ति योजना दोषादि के अपेक्षा से औषध की भली प्रकार

कल्पना करना । संख्या-गिनती, एक, दो, तीन आदि । संयोग—द्रव्यो का परस्पर संयुक्त होना संयोग है । यह संयोग तीन प्रकार का होता है । १ द्वन्द्व ( दो का जैसे—लड़ते हुए दो मेढ़ों का), २ सबका (जैसे—एक पात्र में रक्खे उड़दों का), और ३ एककर्मजन्य (जैसे—वृक्ष पर बैठे कौवे का) यह संयोगजन्य कर्म अनित्य है । विभाग—विभजन, बांटना, भाग करना । संयोग का वियोग या विभाग रूप में ग्रहण होना विभाग है । पृथक्त्व—जिस के द्वारा यह बुद्धि उत्पन्न होती है कि यह वस्तु घड़े से भिन्न है वह पृथक्त्व है । यह तीन प्रकार का है । १ सर्वथा अभिन्न वस्तुओं का जैसे—मेरु और हिमालय का । २. विजातियो में जैसे—भैस और सूअर का । ३ विलक्षणताजन्य—विशिष्ट लक्षण युक्त विजातियो से भेद । अनेकता—एक जातीय द्रव्यों के संयोग में रहने वाली भिन्नता का नाम 'अनेकता' है । यथा—उड़दो में अनेकता मिलती है, सब उड़द एक समान नहीं होते । परिमाण—प्रमाण, मान, तोल, वजन । संस्कार—किसी द्रव्य में जिस क्रिया से गुणान्तर उत्पन्न किया जाता है, उस क्रिया का नाम संस्कार है ( संस्कारो हि गुणान्तराधानमुच्यते ) । अभ्यास—किसी द्रव्य या क्रिया का निरन्तर उपयोग करना, व्यवहार करना, अभ्यास कहाता है । इस 'अभ्यास' को शील या निरन्तर करना या आदत भी कहते हैं । इस प्रकार से पर आदि दस गुणों के लक्षण कह दिये हैं । यदि वैद्य को इनका पूरा ज्ञान न होगा तो चिकित्सा पूर्ण रूप में सफल नहीं हो सकेगी । अब तक रसों के परस्पर संयोगी गुण कहे हैं । अब स्निग्धत्वादि गुण कहते हैं । जो गुण कहे हैं, वे गुण रूप, रस आदि में आश्रित नहीं, अपितु रस के आधारभूत द्रव्य में आश्रित हैं । इसलिये रस के गुणों को भी द्रव्य का गुण समझना चाहिये, रस का नहीं । यथा—मधुर रस, स्निग्ध, शीत, गुरु है, इस का अर्थ यह है कि मधुर रस वाला द्रव्य स्निग्ध, शीत, गुरु इन गुणों से युक्त है । गुण गुण का आश्रय करके नहीं रह सकते । इस प्रकार प्रयोग करने की ग्रन्थकार की शैली है । प्रत्येक ग्रन्थ को समझने के लिए ग्रन्थकार के अभिप्राय

(उस के अभिप्राय के पृथक् होने से), प्रकरण, देश, और काल को भी जानना चाहिये । प्रकरण जैसे—“क्षारः क्षीरं फलं पुष्पम्” यहां पर वनस्पति का प्रकरण होने से धोर का दूध लेना चाहिये, गाय, भैंस का नहीं । देश—शिर के शोधन कहने से, ‘क्रिमिव्याधि’ अर्थात् शिरोजन्य कृमि रोग में ऐसा समझना चाहिये । काल—वसन काल में कहने पर ‘प्रतिग्रहं चोपहारयेत्’ अर्थात् वसन का पात्र लाओ । इसी प्रकार भोजन के समय ‘सैन्धवमानय’ कहने से नमक कालाना उचित है, न कि घोडे का । इसलिये ग्रन्थकर्त्ता के अभिप्राय से रसों में गुणों का कथन समझना चाहिये । जहां पर प्रकरणगत देश काल आदि द्वाग ग्रन्थकर्त्ता का अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता, वहां उपायों द्वारा तन्त्र-युक्ति रूपी उपायों से अर्थ को समझना चाहिये ।

पर चातः प्रवक्ष्यन्ते रसानां षड्विभक्तयः ।

षट्पञ्च भूतप्रभवाः संख्याताश्च यथ रसाः ॥ ३६ ॥

सौम्याः खल्वापोऽन्तरिक्षप्रभवाः प्रकृतिशीता लघ्व्यश्चाव्यक्त रसाश्च, तास्त्वन्तरिक्षाद् अश्रयमाना भ्रष्टाश्च पञ्चमहाभूतविकारगुणसमन्विता जङ्गमस्थावराणां भूतानां मूर्तीरभिप्रीणयन्ति, तासु मूर्तिषु षडभिमूर्च्छन्ति रसाः ॥ ३७ ॥

पञ्च महाभूतों से उत्पन्न छः रसों को विभाग करके कहते हैं, किस प्रकार से ये छः रस उत्पन्न होते हैं । सब रसों का उत्पत्तिस्थान पानी है । यह पानी सौरय ( रोमगुणी ), अन्तरिक्ष से उत्पन्न होने वाला, स्वभाव से शीतल, लघु पत्र ‘अव्यक्त रस’ है । यह पानी अन्तरिक्ष से नीचे गिरता हुआ अन्तरिक्ष में स्थित पृथ्वी आदि के परमाणुओं में दूषित होकर, पञ्च महाभूतों में बने स्यावर ( जड़ ) और जंगम ( चल ) पदार्थों को तर्पण करता है, इन पदार्थों के स्वरूप को बनाता है, उत्पन्न करता है । इन पदार्थों में ही छः रस अभिव्यक्त होते हैं ।

तेषां पण्डितानां रसानां नामगुणातिरेकान्मधुरो रसः, पृथिव्यग्निभूयिष्ठ-वाद्भृत्, अतिनामिभूयिष्ठत्वाल्लवणः, वाय्वग्निभूयिष्ठत्वा

त्कटुकः, वाय्वाकाशातिरेकात्तित्तः, पवनपृथिव्यतिरेकात्कषाय इति । एवमेषां रसानां षट्त्वमुत्पन्नं, ऊनातिरेकविशेषान्महाभूतानां भूतानामिव जङ्गमस्थावराणां नानावर्णाकृतिविशेषाः; षट्त्वत्वाच्च कालस्योपपन्नो महाभूतानामूनातिरेकविशेषः ॥ ३८ ॥

यहां पर अन्तरिक्ष स्थित पानी को रसोत्पत्ति मे मुख्य कारण माना है । इस से पृथ्वी पर स्थित पानी भी स्थावर और जंगम पदार्थों में रस उत्पन्न करने मे कारण है । इन छः रसों में सोम गुण के अधिक होने से ( अर्थात् अन्य भूत भी थोड़ी २ मात्रा मे है ) मधुर रस, पृथ्वी और अग्नि गुण की अधिकता से अम्ल, पानी और अग्नि गुण की अधिकता से लवण, वायु और अग्नि की अधिकता से कटु, वायु और आकाश गुण की अधिकता से तिक्त, वायु और पृथिवी गुण की अधिकता से कषाय रस उत्पन्न होता है । इस प्रकार से पञ्च महाभूतों के कम अधिक होने से छः रस उत्पन्न होते हैं । जिस प्रकार सम्पूर्ण स्थावर और जंगम पदार्थों में महाभूतों के कम अधिक होने से नाना प्रकार के वर्ण, रंग, आकृति, रूप आदि बन जाते हैं, उसी प्रकार छ. रस भी बन जाते हैं । इसी प्रकार महाभूतों के कम अधिक होने से ही काल, संवत्सर छ. ऋतुओं में विभक्त हो जाता है । यथा—हेमन्त काल में सोम गुण की अधिकता होती है, शिशिर ऋतु में वायु और आकाश गुण की अधिकता होती है । 'तावेतावर्कवायू' ( च० सू० अ० ६ ) मे स्पष्ट कर चुके हैं । बीजाङ्कुरवत् कार्य कारण की भांति ससार के अनादि होने से, पंच महाभूत और ऋतुओ का कार्य-कारण सम्बन्ध समझना चाहिये ।

तत्राग्निमारुतात्मका रसाः प्रायेणोर्ध्वभाजः, लाघवात्प्लुवनत्वाच्च वायोरूर्ध्वज्वलनत्वाच्च वन्हेः, सलिलपृथिव्यात्मकस्तु प्रायेणाधोभाजः, पृथिव्या गुरुत्वान्निम्नगत्वाच्चोदकस्य, व्यामिश्रात्मकाः पुनरुभयतो-भाजः ॥ ३९ ॥

इन में अग्नि और वायु गुण की अधिकता वाले रसयुक्त द्रव्य प्रायः

ऊर्ध्वगामी ( वमनकारक ) होते हैं । क्योंकि वायु हल्की और उड़ने वाली है । अग्नि का स्वभाव ऊपर को जलने का है, वह ऊपर को गति करता है, इसलिए इन गुणों वाले द्रव्य ऊर्ध्वगामी हैं । जल और पृथ्वी गुण युक्त रस वाले द्रव्य प्रायः करके अधोगामी ( विरेचनकारक ) होते हैं । क्योंकि पृथिवी गुरु है और पानी का स्वभाव नीचाई की ओर बहना है । जिन पदार्थों में चारों तत्त्व मिले रहते हैं वे ऊर्ध्वगामी और अधोगामी दोनों तरह के होते हैं ।

तेषां पण्ड्यां रसानामेकैकस्य यथाद्रव्यं गुणकर्माण्यनुव्याख्या-  
स्याम । तत्र मधुरो रसः शरीरसात्प्याद्रसरुधिरमासमेदोस्थिमज्जौज शु-  
क्राभिवर्धन आयुष्य पडिन्द्रियप्रसादनो बलवर्णकरः पित्तविषमारुत-  
घ्नस्तृष्णाप्रशमनस्त्वच्य केश्यः कण्ठ्यः प्रीणनो जीवनस्तर्पणो वृंहण-  
स्थैर्यकरः क्षीणक्षतसंवातकरो घ्राणमुग्रकण्ठौष्ठजिह्वाप्रह्लादनो दाह-  
मूर्च्छाप्रशमन पट्पदपिपीलिकानामिष्टतमः स्निग्धः शीतो गुरुश्च । स  
एवंगुणोऽप्येक एवात्यर्थमुपयुज्यमानः स्थौल्यं मार्दवमालस्यमतिस्वप्नं  
गौरवमनत्राभिलापमग्निदौर्बल्यमास्यकण्ठमांसाभिवृद्धिं श्वासकास-  
प्रतिश्यायालमकशीतज्वरानानाहास्यमाधुर्यवमथुसंज्ञास्वरप्रणाशगलग-  
ण्डगण्डमालाश्लीपदगलशोफत्रस्तिधमनीगरण्डोपलेपाक्ष्यामयानभिष्य-  
न्दमित्येवं प्रभृतीन् कफजान् विकारानुपजनयति ॥ ( १ ) ॥

इन छ. रसों में से एक एक रस के आधार द्रव्य के अनुसार गुण, कर्म की व्याख्या करेंगे । इन में मधुर रस—जन्म से ही शरीर के अनुकूल ( सात्त्विक ) है । ( जन्म से ही मधुर रसयुक्त दूध को पीकर बच्चा बड़ता है ) । रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, ओज और शुक्र का वृद्धता है, आयुवर्द्धक, श्रोत्र, त्वक्, नासिका, चक्षु, रसना ये पाच ज्ञानेन्द्रिय और मन इन को प्रसन्न, निर्मल करता है । बलकारक, कान्ति-कारक, पित्तनाशक, विषनाशक, वायुनाशक, तृष्णानाशक, त्वचा, केश,

और स्वर के लिये हितकारी, आह्लादजनक, अभिघात आदि से बेहोश पुरुष को जीवन देने वाला, तृप्ति करने वाला, वृद्धि करने वाला, स्थिर-कारक, क्षीण और क्षत व्यक्ति को पोषण करने एवं सन्धान अर्थात् टूटे का जोड़ने वाला नासिका, मुख, कण्ठ, ओष्ठ और जीभ का आह्लाद करने वाला, जलन और मूर्च्छानाशक, अमर और चिञ्जटियों का प्रिय, स्निग्ध, शीत और गुरु है । यद्यपि इस मधुर रस में इतने गुण हैं, तो भी इस अकेले रस को ही निरन्तर अधिक मात्रा में खाने से स्थूलता, कोमलता, आलस्य, नाँद का अधिकता, भारीपन, अन्न में अरुचि, अग्नि की निर्बलता, मुख ( गाल ), गले में मांस की वृद्धि, श्वास, कास, प्रतिश्याय, अलसक, शीत ज्वर, आनाह ( अफ़ारा ), मुख की मधुरता, वमन, संज्ञानाश, स्वर नाश, गलगण्ड, गण्डमाला, श्लेष्मपद, गले की सूजन, बस्ति, धमनी, गुदा ( गले में ) में मांस, चर्बी या कफ कोई पदार्थ बढ़ जाता है, नेत्र रोग, अभिप्यन्द । कफ रोग ( कफस्त्राव ) आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं ।

अम्लो रसो भक्तं रोचयति, अग्निं दीपयति, देहं बृंहयति ऊर्ज-यति, वातमनुलोमयति, हृदयं तर्पयति, आस्यमास्त्रावयति, भुक्तमप कर्षयति, क्लेदयति, जरयति, प्रीणयति, लघुरुष्णः स्निग्धश्च । स एवं गुणोऽप्येक एवात्यर्थमुपयुज्यमानो दन्तान् हर्षयति तर्पयति, संवीजय-ति लोमानि, कफं विलापयति, पित्तमभिवर्धयति, रक्तं दूषयति, मांसं विदहति' कायं शिथिलीकरोति, क्षीणक्षतकृशदुर्बलानां श्वयथुमापा दयति, अपिच क्षताभिहतदष्टदग्धभग्नशूनच्युतावमूत्रितपरिसर्पित-मर्दितक्लिन्नभिन्नविश्लिष्टविद्धोत्पिष्टादीन् पाचयत्याग्नेयस्वभावात् परिद हति कण्ठमुरो हृदयं च ॥ ( २ ) ॥

अम्ल रस अन्न में रुचि पैदा करता है, अग्नि को बढ़ाता है, शरीर को बढ़ाता है, तेज देता है, मन को उत्तेजित, जागृत करता है । इन्द्रियों को बलवान् करता है; बल को बढ़ाता है । वायु का अनुलोमन करता है, हृदय के लिये हितकार' है । मुग्ध में से लार चुआता है, खाये हुए भोजन

को अहर निकालता है, क्लिन्न शरीर को गीलों बनाता है । खाये भोजन को पचता है, प्रसन्नता करता है । लघु, उष्ण, स्निग्ध गुण वाला है ।

यही एक रस यदि अधिक मात्रा में सेवन किया जाये, तो दांतों को कोंट करता है, सड़ा करता है, दूत अर्थात् भोजन में अनिच्छा उत्पन्न करता है, आंखों को मिचता है, शरीर के बालों को कंपा देता है, रोमांचित करता है, कफ को पिघलाता है, पित्त को बढ़ाता है, रक्त को दूषित करता है, मांस में जलन पैदा करता है, शरीर को ढीला, सुस्त करता है, क्षीण, उरः-क्षत रोगों, निर्बल, कमजोर पुरुषों में सूजन उत्पन्न करता है । और भी जलन, चोट, घात से काटना, जलना, अस्थि आदि का टूटना, सूजन, सन्निवृत्त, प्राणियों के मूत्रजन्य विष, स्पर्जजन्य विष ( मकड़ी के ), रगत लगे हुए, दो टुकड़े हुए, चुमे हुए, जिसे हुए आदि व्रणों को पका देता है । अग्निगुण होने से कण्ठ, छाती और हृदय में जलन उत्पन्न करता है ।

लवणो रस पाचनं क्लेदना दीपनरचयावनश्छेदनो भेदनस्ती-  
क्ष्णः सरो विक्रास्थवःसंन्यवकाशकरो वातहरः स्तम्भवन्धसंघातवि-  
नसनः सर्वरसप्रत्यनीकभूत आस्यमास्त्रावगति, कफ विष्यन्द्यति,  
मार्गान् विशोवयति, सर्वशरीरापचयवान्मृदूकराति, रोचयत्याहारमा-  
हारयोगी नात्यर्थं गुरु स्निग्ध उष्णश्च; स एवंगुणोऽप्येक एवात्यर्थ-  
मुपचुज्यमान पित्तं कोपयति, रक्तं वर्तयति, तर्पयति, मूर्च्छयति,  
ताण्डयति, दागयति, कुण्ठाति मांसानि, प्रगालयति कुष्ठानि, विषं  
वर्धयति, शोफान् म्फोटयति, दन्तांश्च्यावयति, पुंस्त्वमुपहन्ति,  
इन्द्रियाण्युपचरणाद्वि, वलीपलितस्त्रालित्यमापादयति, अपि च लोहि-  
नपित्ताम्लपित्तदीनपेयातरक्तविचर्चिकेन्द्रलुप्रप्रभृतीन्विकारानुपजन-  
यति ॥ ( ३ ) ॥

लवण रस—पाचक. नरस बनाने वाला, अग्निदीपक, नीचे गिराने वाला, क्लेदन भेदन करने वाला, तीक्ष्ण, सर ( मल लाने वाला ), विकासी

क्लेद का छेदन करने वाला, अधःसंसी, विष्यन्दशील ( रेचक ), विरलता करने वाला है । वातनाशक, मल मूत्रादि के अवरोध को नाश करने वाला और जहां पर लवण जरा सा अधिक हो जाता है, वहां पर और कोई दूसरा रस स्पष्ट नहीं होता, मुख में थूक उत्पन्न करता है, कफ को पिघलाता है, मार्गों का शोधन करता है, शरीर के सब अवयवों को कोमल करता है, आहार में रुचि उत्पन्न करता है, आहार में सदा बरता जाता है, बहुत भारी नहीं होता, स्निग्ध और उष्ण गुण वाला है ।

यही एक रस यदि अधिक सेवन किया जाये तो पित्त को कुपित करता है, रक्त को बढ़ाता है, प्यास उत्पन्न करता है, संज्ञा नाश करता है, शरीर को गरम करता है, फाड़ता है, मांस को गलाता है, कुष्ठो को द्रवित करता है, विष को बढ़ाता है, सूजन को फोड़ता है, दांतों को गिरा देता है, पुरुषत्व का नाश करता है, इन्द्रियों को जड़ बनाता है । झुर्रियां पैदा करता, बालों को श्वेत करता, गंज अर्थात् बालों को गिराता है । इस के अतिरिक्त रक्त, पित्त, अम्लपित्त, वीसर्प, वातरक्त, विचर्चिका, इन्द्रलुप्त आदि रोगों को उत्पन्न करता है ।

कटुको रसो रक्तं शोधयति, अग्निं दीपयति, भुक्तं शोषयति, घ्राणमास्त्रावयति, चक्षुर्विरेचयति, स्फुटीकरोतीन्द्रियाणि, अलसकश्चयथूपचयोदर्दाभिष्यन्दस्नेहस्वेदक्लेदमलानुपहन्ति, रोचयत्यशनं कण्डूर्विनाशयति, क्रिमीन् हिनस्ति, मांसं विलिखति, शोणितसंघातं भिनत्ति, बन्धांश्छिन्नन्ति, मार्गान्विवृणोति, श्लेष्माणं शमयति, लघु रुष्णो रूक्षश्च । स एवंगुणोऽप्येक एवात्यर्थमुपयुज्यमानो विपाकप्रभावात् पुंस्त्वमुपहन्ति, रसवीर्यप्रभावान्मोहयति, ग्लपयति, सादयति, कर्षयति, मूर्च्छयति, नमयति, तमयति, भ्रमयति, कण्ठं परिदहति, शरीरतापमुपजनयति, बलं क्षिणोति, वृष्णां चोपजनयति । अपिच वाय्वग्निबाहुल्याद्भ्रममदवथु<sup>१</sup> कम्पतोदभेदैश्चरणभुजपार्श्वपृष्ठप्रभृतिषु मारुतजान्त्रिकारानुपजनयति ॥ ( ४ ) ॥

१. 'भ्रममदवथु' इति च पाठः ।



कटु रस मुख का शोधन करता है, अग्नि को बढ़ाता है, खाये हुए भोजन को सुखाता है, नाक से कफ बहाता है, आंखों में आंसू लाता है, इन्द्रियों को उत्तेजित करता है, अलसक, सूजन, वृद्धि, उदरद, अभिष्यन्द, स्नेह, पसीना, क्लेद, मल का नाश करता है। कृमियों को मारता है, मांस का लेखन करता है (स्थूलता को कम करता है)। खाये हुए भोजन का रेचन करता है, खाज को मिटाता है, त्रणों को वैठाता है, भरता है। जमे हुए रक्त को तोड़ता है, सन्धि बन्धनों को छेदन करता है, मार्गों को साफ बनाता है, कफ को शान्त करता है। लघु, उष्ण और रुक्ष होता है।

यही एक रस यदि अधिक मात्रा में मेवन किया जाये तो कटु विपाक के प्रभाव से (कटु रस का कटु विपाक<sup>२</sup>) पुरुषत्व का नाश करता है। रस और वीर्य के प्रभाव में संज्ञानाश करता है। ग्लानि उत्पन्न करता है, अवसन्न करता है, कर्पण (निर्वल) करता है, मूर्च्छित करता है, शरीर को झुकाता है, अन्वकार लाता है, चक्कर लाता है, गले में जलन तथा शरीर में नापज्वर उत्पन्न करता है। बल को कम करता है, प्यास को पैदा करता है। वायु, अग्नि गुण की अधिकता होने से चक्कर, मुख ओठ में जलन, कंपकपी, चुभने की सी दर्द, भेदन जैसी पीड़ा, पांव, हाथ, पार्श्व पसलियों और पीठ में वात विकार उत्पन्न करता है।

तित्तो रसः स्वयमरोचिष्णुररोचकघ्नो विषन्नः कृमिघ्नो मूर्च्छा-  
दाहकण्टकुकुट्टृष्णाप्रशमनः त्वङ्मांसयोः स्थिरीकरणो ज्वरघ्नो  
दीपन पाचनः स्तन्यशोधनो लेखनः क्लेदमेदोवसामज्जलसीकापूय-  
स्वेदमूत्रपुरीषपित्तश्लेष्मोपशोषणो रुक्ष शीतो लघुश्च । स एवंगुणो  
ऽप्येक एवात्यर्यमुपयुज्यमानो रौक्ष्यात् खरविशदस्वभावाच्च रसरुधिर-  
मांसमेदोस्त्रिमज्जशुक्राण्युच्छोषयति, स्रोतसां खरत्वमुर्पनादयति,

२ विपाक—“जाठरेणाग्निना योगात् यदुदेति रसान्तरम् ।

रसानां परिणामान्ते स विपाक इति स्मृत ॥ चरक० ।

बलमादत्ते, कर्षयति, ग्लपयति, मोहयति, भ्रमयति, वदनमुपशोषयति, अपरांश्च वातविकारानुपजनयति, ॥ ( ५ ) ॥

तिक्त रस अपने आप अरुचिकारक होने पर भी दूसरे भोजनों में रुचि उत्पन्न करता है, इसलिये अरोचकनाशक है । विषनाशक, कृमिनाशक, सूर्च्छा, जलन, खाज, कोढ़ और प्यास को शान्त करने वाला, त्वचा मांस को स्थिर करने वाला, ज्वरनाशक, अग्निदीपक, पाचक, दूध का शोधन करने वाला, लेखन करने वाला, क्लेद, मेद, वसा, मज्जा, लसीका, पूय, स्वेद, सूत्र पुरीष ( मल ) पित्त, कफ को सुखाता है, रूक्ष, शीत और लघु है ।

यही रस अधिक मात्रा में सेवन करने से रूक्ष, कर्कश और विशद स्वभाव होने से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र का शोषण करता है, स्रोतसों में खरता उत्पन्न करता है, बल देता है, शरीर की स्थूलता को कर्षण करता है, हर्ष का क्षय करता है, संज्ञानाश करता है, चक्रर उत्पन्न करता है, मुख में शुष्कता उत्पन्न करता है और अन्य वात रोगों को भी उत्पन्न करता है ।

कषायो रसः संशमनः<sup>१</sup>संग्राही संधारणः पीडनो रोपणः शोषण-  
स्तम्भनः श्लेष्मपित्तरक्तप्रशमनः शरीरक्लेदस्योपयोक्ता, रूक्षः शीतो  
गुरुश्च । स एवंगुणोऽप्येक एवात्यर्थमुपयुज्यमान आस्यं शोषयति,  
हृदयं पीडयति, उदरमाध्मापति, वाचं निगृह्णाति, स्रोतांस्यवबध्नाति,  
श्यावत्वमापादयति, पुंस्त्वमुपहन्ति, विष्टभ्य जरां गच्छति, वातमूत्र-  
पुरीषायवगृह्णाति, कर्षयति, म्लापयति, तर्षयति, स्तम्भयति, खर-  
विशदरूक्षत्वात्पक्षवधग्रहापतानकार्दितप्रभृतीश्च वातविकारानुपजन-  
यतीति ॥ ( ६ ) ॥

कषाय रस संशमन करने वाला, संग्राहक, संधारक, व्रण का पीड़न करने वाला, रोपण, व्रण को शुष्क करने वाला, स्तम्भन, कफ, रक्त, पित्तनाशक, शरीर में क्लेद को चूसने वाला, रूक्ष, शीत और गुरु है । वही रस अधिक मात्रा में उपयोग करने से मुख को सुखा देता है, हृदय

'सशोपण' इति च पाठः ।

को पीड़ित करता है, उदर में वायु से फुलाव उत्पन्न करता है, वाणी को जड़ कर देता है, स्रोतों को बन्द कर देता है, कृष्णता उत्पन्न करता है, पुरुषत्व को नष्ट करता है, अन्न को अवरोध करके पचन कराता है, वात, मूत्र, मल, रेतस् ( शुक्र ) को बन्द कर देता है, रोक देता है, शरीर को कर्षण करता है, म्लान कर ( मुरझा ) देता है, प्यास लगाता है, जकड़ देता है । खर, विशद और रूक्ष होने से पक्षवध, हनुग्रह, मन्याग्रह, पृष्ठ-ग्रह, अपतानक, अदित आदि वात रोगों को उत्पन्न करता है ।

एवमेते पड्रसाः पृथक्त्वेनैकत्वेन वा मात्रशः सम्यगुपयुज्यमाना उपकारकरा भवन्त्यध्यात्मलोकस्य, अपकारकराः पुनरतोऽन्यथोपयुज्यमानाः । तान् विद्वानुपकारार्थमेव मात्रशः सम्यगुपयो-जयेदिति ॥ ४१ ॥

इस प्रकार से ये छ. रस पृथक् पृथक् या दो या तीन अथवा सब परस्पर मिलकर मात्रा में योग्य प्रमाण से सेवन करने से सर्व प्राणिमात्र को आरोग्य, पुष्टि देकर उपकार करते हैं और असम्यक् रूप में उपयोग करने से सब प्राणियों का अपकार करते हैं । इसलिये बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिये कि इन को मात्रा में सम्यक् प्रकार से वरते ।

भवन्ति चात्र । शीतं वीर्येण यद्द्रव्यं मधुरं रसपाकयोः ।

तथोरम्लं यदुष्णं च यच्चोष्णं कटुकं तयो ॥ ४२ ॥

तथा रसोपदेशेन निर्देश्यो गुणसंग्रहः ।

वीर्यतोऽत्रिपरीताना पाकतश्चोपदेक्ष्यते ॥ ४३ ॥

यथा पयो यथा सर्पिर्यथा वा चव्यचित्रकौ ।

एवमादीनि चान्यानि निर्दिशेद्रसतो भिषक् ॥ ४४ ॥

२- उसारी द्रव्यों का वीर्य—जो द्रव्य रस और विपाक में मधुर हो, उस को शीतवीर्य समझना चाहिये, और जो द्रव्य रस और पाक में अम्ल हो, उस को उष्णवीर्य, जो द्रव्य रस और पाक में कटु हो, उस को भी उष्णवीर्य समझना चाहिये । इन मधुर आदि विपाकों और रस के

कथन मात्र से ही गुणों का ज्ञान हो जाता है । परन्तु इस का अपवाद भी है । जहां पर रस समान हैं, वहां पर विपाक द्वारा गुणों का ज्ञान होता है । जिस प्रकार कि दूध और घी मधुर रस और मधुर विपाक हैं, इन का वीर्य भी शीत है, इसी प्रकार चव्य और चित्रक इन का रस और विपाक कटु हैं, इसलिये वीर्य भी इन का 'उष्ण' है । इस प्रकार से अन्य द्रव्यों को भी रसनिर्देश से वैद्य सुगमता से समझ सकता है । क्योंकि रस के अनुसार गुण हैं ।

मधुरं किञ्चिदुष्णं स्यात्कषाय तित्तमेव च ।

यथा महत्पञ्चमूलं यथा चानूपमामिषम् ॥ ४५ ॥

लवणं सैन्धवं नोष्णमम्लमामलकं तथा ।

अर्कागुरुगुड्डीचोनां तिक्तानामुष्णमुच्यते ॥ ४६ ॥

किञ्चिदम्लं हि संग्राहि किञ्चिदम्लं भिनत्ति च ।

यथा कपित्थं संग्राहि, भेदि चामलकं तथा ॥ ४७ ॥

पिप्पली नागरं वृष्यं कटु चावृष्यमुच्यते ।

कषायः स्तम्भनः शीतः सोऽभयायामतोऽन्यथा ॥ ४८ ॥

तस्माद्रसोपदेशेन न सर्वं द्रव्यमादिशेत् ।

दृष्टं तुल्यरसेऽप्येवं द्रव्ये द्रव्ये गुणान्तरम् ॥ ४९ ॥

कभी २ मधुर, कषाय और तिक्त रस भी उष्णवीर्य हो जाते हैं । यथा—विल्वदि महापञ्चमूल तिक्त और कषाय होने पर भी उष्ण वीर्य है, और जलचर या जलदेशीय मांस मधुर होने पर भी उष्ण है । सैन्धव नमक उष्णवीर्य नहीं और आंवला खट्टा होने पर भी उष्णवीर्य नहीं है । आकड़ा, अगरू और गिलोय ये तिक्त रस होने पर भी 'उष्ण' वीर्य हैं । अम्ल रस में कोई द्रव्य स्तम्भक और कोई रेचक है । जिस प्रकार की कैथ अम्ल होने पर संग्राही और आंवला अम्ल होने पर भी रेचक है । पिप्पली और सोंठ कटु रस होने पर भी वृष्य (शुक्रवर्धक) हैं, क्योंकि उनका मधुर विपाक है और वैसे कटु रस अवृष्य होता है । कषाय रस स्तम्भनकारक और शीत-

वीर्य होता है, परन्तु हरड का कपाय रस रेचक और उष्ण वीर्य है। इस लिये रस को ही देखकर सब द्रव्य के गुण नहीं समझने चाहिये। रस की समानता होने पर भी द्रव्य द्रव्य में गुणभेद देखा जाता है।

रौक्ष्यात्कषायो रूक्षाणामुत्तमो मध्यमः कटुः ।

तिक्तोऽवरस्तथोष्णानामुष्णत्वाल्लवणः परः ॥ ५० ॥

मध्योऽम्लः कटुकश्चान्त्यः, स्निग्धानां मधुरः परः ।

मध्योऽम्लो लवणश्चान्त्यो रसः स्नेहान्निरुच्यते ॥ ५१ ॥

मध्योत्कृष्टावरा शैत्यात्कपायस्वादुतिक्तकाः ।

[ तिक्तात्कषायो मधुरः शीताच्छीततरः परः । ]

स्वादुर्गुरुत्वादधिकः कपायाल्लवणोऽवरः ॥ ५२ ॥

अम्लात्कटुस्ततस्तिक्तो लघुत्वादुत्तमो मतः ।

केचिल्लघूनामवरमिच्छन्ति लवणं रसम् ॥ ५३ ॥

गौरवे लाघवे चैव सोऽवरस्तूभयोरपि ।

इन छ रसों में कपाय, कटु, तिक्त तीनों रस रुक्ष हैं। इनमें भी कपाय रस रुक्षतम (उत्तम), कटु रस रुक्षतर (मध्यम) और तिक्त रस रुक्ष (अवर) है। इसी प्रकार लवण रस उष्णतम (उत्तम), अम्ल उष्णतर (मध्यम), कटु रस उष्ण (अवर) है। मधुर रस स्निग्धतम (उत्तम), अम्ल रस स्निग्धतर (मध्यम), लवण रस स्निग्ध (अवर) है। शैत्य धर्म सम्यग्ध की दृष्टि में कपाय रस मध्यम, स्वादु रस उत्कृष्ट और तिक्त रस अवर है। गुरुता की दृष्टि से मधुर रस सबसे गुरु, कपाय रस मध्यम और लवण रस सब से अवर है। लघु गुण की दृष्टि से अम्ल रस उत्तम, कटु मध्यम और तिक्त रस अवर है। कुछ आचार्य लवण रस को सब से लघु (अवर) मानते हैं। क्योंकि अम्ल में पृथ्वी कारण है, लवण में जल कारण है। इसलिये पृथिवीजन्य रस की अपेक्षा जलजन्य वस्तु हलकी होनी चाहिये। इसलिये भूतों के आधार से गौरव या लाघव का ज्ञान नहीं करना चाहिये। क्योंकि पानी

की अधिकता से उत्पन्न रस, पृथ्वी की अधिकता से उत्पन्न कषाय रस से 'गुरु' होता है। यहां पर गुरुत्व की दृष्टि से लघु माना है। वास्तव में इस मतभेद का कोई विशेष अर्थ नहीं, क्योंकि दोनों ही पक्ष (लवण रस) को अवर मानते हैं। अम्ल, कटु, तिक्त रस की अपेक्षा जो लवण रस को गुरु समझते हैं वे गुरुता की दृष्टि से देखते हैं और जो लघु मानते हैं वे लघुत्व होने से लघु समझते हैं। दोनों ही पक्ष किञ्चित् गुरुत्व स्वीकार करते हैं।

परं चातो विपाकानां लक्षणं संप्रवक्ष्यते ॥ ५४ ॥

कटुतिक्तकषायाणां विपाकः प्रायशः कटुः ।

अम्लोऽम्लं पच्यते, स्वादुर्मधुरं लवणस्तथा ॥ ५५ ॥

मधुरो लवणाम्लौ च स्निग्धभावात्त्रयो रसाः ।

वातमूत्रपुरीषाणां प्रायो मोक्षे सुखा मताः ॥ ५६ ॥

कटुतिक्तकषायास्तु रूक्षभावात्त्रयो रसाः ।

दुःखाय मोक्षे दृश्यन्ते वातविण्मूत्ररेतसाम् ॥ ५७ ॥

शुक्रहा बद्धविण्मूत्रो विपाको वातल कटुः ।

मधुरः सृष्टविण्मूत्रो विपाकः कफशुक्रलः ॥ ५८ ॥

पित्तकृत्सृष्टविण्मूत्र. पाकोऽम्लः शुक्रनाशनः ।

तेषां गुरुः स्यान्मधुरः कटुकाम्लावतोऽन्यथा ॥ ५९ ॥

विपाकलक्षणस्याल्पमध्यभूयिष्ठतां प्रति ।

द्रव्याणां गुणवैशेष्यात्तत्र तत्रोपलक्ष्यते ॥ ६० ॥

विपाक—इसके आगे विपाकों<sup>१</sup> का लक्षण कहते हैं। कटु, तिक्त, कषाय रस के आधार भूत द्रव्यों का विपाक प्रायः कटु होता है। (पिप्पली कटु रस होने पर भी विपाक में मधुर है, इसलिये प्रायः शब्द है)। अम्ल रस का अम्ल और मधुर तथा लवण रस का मधुर विपाक होता है।

१ विपाक—खाये हुए अन्न का जाठराग्नि में पाचन क्रिया के पश्चात् जो रस उत्पन्न होता है उसका नाम विपाक है।

मधुर, अम्ल और लवण ये तीनों रस स्निग्ध होने के कारण वायु, मूत्र, मल को सुख पूर्वक बाहर निकालने में सहायक होते हैं। कटु, तिक्त और कषाय रस रूक्षगुण होने से वात, मल, मूत्र और शुक्र के बाहर निकालने में कष्ट रूप होते हैं, वे अवरोध करते हैं। जिस द्रव्य का विपाक कटु होता है, वह वीर्यनाशक, मल मूत्र का अवरोध करने वाला और वायुकारक होता है। जिस द्रव्य का विपाक मधुर होता है, वह मल मूत्र का प्रवर्तक ( रेचक ) और कफ एवं शुक्र को बढ़ाता है। जिस द्रव्य का विपाक अम्ल होता है, वह पित्तकारक, मल-मूत्र का रेचक और वीर्यनाशक होता है। इन विपाकों में मधुर विपाक गुरु और कटु तथा अम्ल विपाक लघु होते हैं। विपाक के अल्पत्व और बहुत्व उस उस द्रव्य के रस रूपा गुण की अधिकता या न्यूनता पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिये गन्धे में मधुर रस अधिक प्रमाण में है, इसलिये इसका विपाक भी मधुर ( उत्तम ) होगा। इसी प्रकार जिसमें मध्यम प्रमाण में होगा उस का विपाक भी मध्यम, जिसमें न्यून प्रमाण में होगा, उसका विपाक भी अवर होगा। प्रत्येक पदार्थ का विपाक उसके रस के परिमाण में होता है।

तीक्ष्णं रुचं मृदु स्निग्धं लघूष्णं गुरु शीतलम् ।<sup>१</sup>

वीर्यमप्रविधं केचित्केचिद्द्विविधमास्थिताः ॥ ६१ ॥

शीतोष्णमिति, वीर्यं तु क्रियते येन या क्रिया ।

नावीर्यं कुरुते किञ्चित्सर्वा वीर्यकृता क्रिया ॥ ६२ ॥

रसां निपाते द्रव्याणां, विपाक. कर्मनिष्ठया ।

वीर्यं यावद्दीर्घासान्निपाताच्चोपलभ्यते ॥ ६३ ॥

कोई आचार्य वीर्य को आठ प्रकार का मानते हैं। यथा—मृदु, तीक्ष्ण रुक्ष, लघु, स्निग्ध, उष्ण और शीतल। और कोई आचार्य वीर्य को दो प्रकार का मानते हैं। यथा—शीत और उष्ण। रस, विपाक और प्रभाव इनमें व्यतिरिक्त जो द्रव्य के अन्दर छिपी शक्ति विशेष कार्य करती

१. 'मृदुतीक्ष्णगुरुस्निग्धलघुसूक्ष्णशीतलम् । इति च पाठः ।

है, उसका नाम 'वीर्य' है । वीर्यरहित वस्तु कुछ क्रिया नहीं कर सकती, सम्पूर्ण क्रियायें वीर्य अर्थात् शक्ति से होती हैं ।

रस, वीर्य और विपाक के पृथक्-पृथक् लक्षण कहकर अब एक द्रव्य में स्पष्ट करते हैं । जिह्वा के साथ किसी पदार्थ का सम्बन्ध होने पर जो रस ( खट्टा, कडुवा ) अनुभव होता है, वह रस, वस्तु के पाचन होने के पीछे शरीर में कफवृद्धि, पित्तवृद्धि, वीर्यवृद्धि, वातवृद्धि आदि कार्य के होने से जो अनुभव होता है, उसका नाम विपाक है । वस्तु का ( पचन से पूर्व और रसना के सम्बन्ध होने के पीछे) शरीर के साथ संयोग होने से वीर्य का ज्ञान होता है । तथा— जलचर प्राणियों के मांस का जिह्वा के साथ सम्बन्ध मात्र से उष्णत्व स्पष्ट हो जाता है, मरिच का तीक्ष्णवीर्य जिह्वा स्पर्श से मालूम हो जाता है । मरिच की अश्लिवर्धक दीपन क्रिया शरीर के साथ सम्बन्ध होने पर ज्ञात होती है । रस प्रत्यक्ष है, विपाक सदा परोक्ष और वीर्य अनुमान द्वारा ज्ञात होता है । यथा—सैन्धव नमक शीत वीर्य और जलचर मांस उष्ण है । कहीं २ वीर्य का प्रत्यक्ष द्वारा भी ज्ञान हो जाता है । यथा—शर्ई को सूँघकर तीक्ष्ण वीर्य का पता लग जाता है । यह वीर्य सहज और कृत्रिम है, उडद का भारीपन और मूंग का हल्कापन यह स्वभाव से ही है । और लाजा का हल्कापन यह कृत्रिम है ।

रसवीर्यविपाकानां सामान्यं यत्र लक्ष्यते ।

विशेषः कर्मणां चैव प्रभावस्तस्य स स्मृतः ॥ ६४ ॥

कटुकः कटुकः पाके वीर्योष्णश्चित्रको मतः ।

तद्वहन्ती प्रभावात्तु विरेचयति मानवम् ॥ ६५ ॥

विषं विषघ्नमुक्तं यत् प्रभावस्तत्र कारणम् ।

उर्ध्वानुलोमिकं यच्च तत्प्रभावप्रभावितम् ॥ ६६ ॥

मणीनां धारणीयानां कर्म यद्विविधात्मकम् ।

तत्प्रभावकृतं तेषां, प्रभावोऽचिन्त्य उच्यते ॥ ६७ ॥



किचिद्रसेन कुरुते कर्म वीर्येण चापरम् ।

द्रव्यं गुणेन पाकेन प्रभावेण च किंचन ॥ ६८ ॥

रसं विपाकस्तौ वीर्यं प्रभावस्तानपोहति ।

बलसाम्ये रसादीनामिति नैसर्गिकं बलम् ॥ ६९ ॥

सम्यग्विपाकवीर्याणि प्रभावश्चाप्युदाहृतः ।

प्रभाव—जिस स्थान पर रस, वीर्य और विपाक की समानता होने पर भी कार्य में विशेषता उत्पन्न होती हो, उसे 'प्रभाव' कहते हैं। जिस प्रकार चित्रक (चीतामूल) का रस कटु, विपाक कटु और वीर्य उष्ण है, उसी प्रकार दन्ती (जमालगोटा) भी कटु रस, कटु विपाक और उष्णवीर्य है। परन्तु जमालगोटा विरेचन करता है, चीता नहीं करता। जो विष विष को (स्थावर विष जंगम विष को—'तस्माद् वृष्टाविषं मौलम्') नष्ट करता है, उसका भी कारण प्रभाव है। जो द्रव्य ऊर्ध्वगामी और अधोगामी दोनों मार्गों का संशोधन करता है, वह भी प्रभाव है। मणियों के धारण करने से विपनाश, शूलहरण आदि जो नाना प्रकार के कार्य होते हैं, वे सब प्रभाव के कारण ही होते हैं। प्रभाव द्रव्य की वह अचिन्त्य शक्ति है जिसके विषय में कुछ कह नहीं सकते कि क्या होता है। कोई द्रव्य अपने रस से, कोई वीर्य से, कोई गुण से, कोई विपाक से और कोई प्रभाव से कार्य करता है। किसी पदार्थ में रस आदि का बल समान हो, तो वहा पर रस को विपाक, रस और विपाक को वीर्य, रस, विपाक, वीर्य को प्रभाव अपने स्वाभाविक बल से जीत लेता है। जिस प्रकार कि भैंस की चर्बी का रस और विपाक मधुर है, परन्तु वीर्य उष्ण है, इसलिये वह मधुर रस के कार्य पित्त-शमन को न करके, उष्ण वीर्य के कार्य पित्तप्रकोप को करता है। मद्य, इसका रस और विपाक अम्ल है, वीर्य उष्ण है, परन्तु यही मद्य अपने प्रभाव से इन तीनों को रद्द करके स्त्रियों में दुग्ध उत्पन्न करता है। अब तक विपाक, वीर्य और प्रभाव का वर्णन भली प्रकार कर दिया है।

षण्णां रसानां विज्ञानमुपदेक्ष्याम्यतः परम् ॥ ७० ॥

स्नेहनप्रीणानाह्लादमार्दवैरुपलभ्यते ।

मुखस्थो मधुरश्चास्यं व्याप्नुवंल्लिम्पतीव च ॥ ७१ ॥

दन्तहर्षान्मुखस्त्रावात्स्वेदनान्मुखबोधनात् ।

विदाहाच्चास्यकरठस्य प्राश्यैवाम्लं रसं वदेत् ॥ ७२ ॥

प्रलीयन्क्लेदविष्यन्दमार्दवं कुरुते मुखे ।

यः शीघ्रं लवणो ज्ञेयः स विदाहान्मुखस्य च ॥ ७३ ॥

संवेजयेद्यो रसनां निपाते तुदतीव च ।

विदहन्मुखनासाग्निं संस्त्रावी स कटुः स्मृतः ॥ ७४ ॥

प्रतिहन्ति निपाते यो रसनं स्वदते न च ।

स तिक्तो मुखवैशद्यशोषप्रह्लादकारकः ॥ ७५ ॥

वैशद्यस्तम्भजाड्यैर्यो रसनं योजयेद्रसः ।

वघ्नातीव च यः कण्ठं कषायः स विकास्यपि । इति ॥ ७६ ॥

इसके आगे छः रसों के लक्षण कहते हैं । जो रस स्निग्धता, प्रसन्नता, आल्हाद अथवा मृदुता उत्पन्न करता है, मुख में रखने से सम्पूर्ण मुख को चिकास से भर देता है, लिसलिसा बना देता है, वह मधुर रस है । जो रस दांतों को खटा कर देता है, मुख से थूक ( लाला ) चुआता है, पसीना लाता है, मुख में जागृति उत्पन्न कर देता है, मुख और गले में जलन करता है, वह 'अम्ल' रस है । जो रस मुख में रखने से घुलने लगे, क्लिन्न नमीदार, लाला बहावे, मुख में हल्कापन लाये, मुख में विदाह करता हो, उसे 'लवण' रस बहते हैं । जो रस जीभ को छूते ही चुरचुराहट उत्पन्न करे और सुई जैसा चुभने लगे, मुख को जलाता हुआ नाक और आँखों से पानी बहाने लगे वह 'कटु' रस है । रस जो जीभ के साथ स्पर्श होने पर जीभ को जड़ कर देता है और कुछ अच्छा नहीं लगता और मुख को साफ़ करता है, सुखाता है, आल्हादित करता है वह 'तिक्त' रस है । जिस रस के खाने से जीभ स्वच्छ, जड़ और स्तम्भित हो जाती

है और गले को रोक देता है और हृदय को पीड़ित करता है, वह 'कपाय' रस है ।

एवंवादिनं भगवन्तमात्रेयं पुनरग्निवेश उवाच—भगवन् । श्रुतमेतद्वितथमर्थसंपद्युक्तं भगवतो यथावद्द्रव्यगुणकर्माधिकारे वचः, परं त्वाहारविकाराणां वैरोधिकानां लक्षणमनतिसंक्षेपेणोपदिश्यमानं शुश्रूषामह इति ॥ ७७ ॥

तमुवाच भगवानात्रेय—देहधातुप्रत्यनीकभूतानि द्रव्याणि देहधातुभिर्विरोधमापद्यन्ते, परस्परगुणविरुद्धानि कानिचित् कानिचित्संयोगात्संस्कारादपराणि देशकालमात्रादिभिश्चापराणि तथा स्वभावादपराणि ॥ ७८ ॥

तत्र यान्याहारमधिकृत्य भूयिष्ठमुपयुज्यन्ते तेषामेकदेशं वैरोधिकमविकृत्योपदेक्ष्यामः—न मत्स्यान् पयसा सहाभ्यवहरेत्, उभयं ह्येतन्मधुरं मधुरविपाकं महाभिष्यन्दि शीतोष्णत्वाद्विरुद्धवीर्यविरुद्धवीर्यत्वाच्छोणितप्रदूपणाय महाभिष्यन्दित्वान्मार्गोपरोधाय चेति ॥ ७९ ॥

इस प्रकार से कहते हुए महर्षि आत्रेय को अग्निवेश ने कहा कि हे भगवन् ! आपने द्रव्यगुण कर्म के विषय में जो कुछ अर्थयुक्त वाणी कही है, वह यथार्थ रूप में सुन ली । परन्तु विरुद्ध आहार के लक्षणों को विन्तार में सुनने की इच्छा से, इसलिये आप उसको प्रतिपादन करें । इस पर आत्रेय ऋषि ने कहा—शरीर के रसादि सात धातु या वातादि दोष, इनको प्रकृति के विरुद्ध करने (दूषित करने) वाले द्रव्यों से शरीर के धातु विगट जाते हैं । इन द्रव्यों में कुछ द्रव्य परस्पर गुणों से कुछ संयोग से और कुछ संस्कार से, कुछ देश, काल, मात्रा से और कुछ स्वभाव में ही दूषित करने वाले (विरोधी गुण के) होते हैं । परस्पर विरुद्ध जैसे मटलियों को दूध के साथ खाना । संयोग विरुद्ध—जैसे पके हुए बड़-हल को उड़दों में मिलाकर खाना । संस्कार विरुद्ध—जैसे कबूतर को सरसों

के तेल में भून कर खाना । देश दो प्रकार का है, भूमि और शरीर । भूमि विरुद्ध—राख और धूल में मिला भोजन या परोक्ष में बना भोजन खाना । शरीरविरुद्ध—उष्णावस्था में मधु खाना । समयविरुद्ध—बासी रक्खा मकोय का शाक खाना । मात्रा विरुद्ध—एक वजन में मधु और घी खाना । स्वभाव विरुद्ध—यथा, विष ओज के विरुद्ध दसगुण रखता है । ] इनमें से जो विरोधी द्रव्य प्रायः भोजन में व्यवहार किये जाते हैं, उनके कुछ उदाहरण देते हैं । यथा—मछलियों को दूध के साथ नहीं खाना चाहिये । क्योंकि दोनो ही वस्तुएं मधुर रस और मधुर विपाक वाली हैं । इसलिये दोनों को एक साथ सेवन करने से कफ की बहुत वृद्धि होती है, दूध शीतवीर्य और मछलियां उष्णवीर्य है । इसलिये रक्त को दूषित करती है और महा अभिष्यन्दि होने से स्रोतो को रोक देगी ।

तदनन्तरमात्रेयवचनमनुनिशम्य भद्रकाप्योऽग्निवेशमुवाच—  
सर्वानेव मत्स्यान् पयसा सहाभ्यवहरेदन्यत्रैकस्माच्चिलिचिमात्,  
स पुनः शकली सर्वतो लोहितराजी रोहितप्रकारः प्रायो भूमौ  
चरति, तं चेत्पयसा सहाभ्यवहरेन्निःसंशयं शोणितजानां विबन्ध-  
जानां च व्याधीनामन्यतममथवा मरणं प्राप्नुयादिति ॥ ८० ॥

आत्रेय महर्षि के वचन को श्रवण कर भद्रकाप्य मुनि अग्निवेश को बोले कि एक चिलचिम मछली को छोड़कर और सब मछलियों को दूध के साथ खा सकते हैं । इस चिलचिम मछली पर चारों ओर लाल २ रेखाये, धारियां होती हैं, इसका रंग लाल होता है और प्रायः भूमि ( रेगिस्तान, जैसलमेर में जिसे रेगमाही मच्छी कहते हैं ) में फिरती हैं । इस मछली को दूध के साथ खाने से निश्चय रूप में रक्तजन्य या अवरोध ( मलमूत्र ) जन्य रोगों या मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है ।

नेति भगवानात्रेयः । सर्वानेव मत्स्यान् पयसाऽभ्यवहरेद्विशेष-  
तस्तु चिलिचिमं स हि महाभिष्यन्दिवात्स्थूललक्षणतरानेतान् व्याधी-  
नुपजनयत्यामविषमुदीरयति च ॥ ८१ ॥

ग्राम्यान्पौदकपिशितानि च मधुतिलगुडपयोमाषमूलकविसैर्विरु-  
 दधान्यैश्च नैकधाऽद्यान्, तन्मूलं च वाधिर्यान्ध्यवेपथुजाड्यविकल-  
 मूकतामैरिमण्यमथवा मरणमाप्नोति न पौष्करं रोहिणीक वा शाकं न  
 कपोतान् सार्पपतैलमृष्टान्मधुपयोभ्यां सहाभ्यवहरेत्, तन्मूलं हि शोणि-  
 ताभिष्यन्दधमनीप्रविचयापस्मारशङ्खकगलगण्डरोहिणीकानामन्यतमं  
 प्राप्नोत्यथवा मरणमिति । न मूलकलशुनकृष्णगन्धार्जकसुमुख-  
 सुरसादीनि भक्षयित्वा पयः सेव्यं, कुष्ठावाधभयात्; न जातुशाकं न  
 लिकुचं पकं मधुपयोभ्यां सहोपयोज्यं, एतद्वि मरणायाथवा बल-  
 वर्णतेजोवीर्योपरोधायालघुव्याधये षण्ण्ड्याय चेति । तदेव लिकुचं  
 पकं न मापसूपगुडसर्पिर्भिः सहोपयोज्यं वैरोधिकत्वात् । तथाऽम्लाम्रा-  
 तकमातुलुङ्गलिकुचकरमर्दमोचदन्तशठवदरकोशाम्रभन्यजाम्बवकपि-  
 त्यतिन्तिडीकपारावताक्षोटपनसनालिकेरदाडिमामलकान्येवंप्रकाराणि  
 चान्यानि सर्वे चाम्लं द्रवमद्रवं च पयसा सह विरुद्धम् । तथा कङ्कुवान-  
 कमकुष्ठकुलस्थमापनिष्पावाः पयसा सह विरुद्धाः । पद्मोत्तरि-  
 काशाकं शार्करो मैरेयो मधु च सहोपयुक्तं विरुद्धं वातं चातिको-  
 पयति; हारिद्रकः सर्पपतैलभृष्टो विरुद्धः पित्तं चातिकोपयति; पायसो  
 मन्यानुपानो विरुद्धः श्लेष्माणं चातिकोपयति । उपोदिका तिलकल्क-  
 सिद्धा हेतुरतीसारस्य । बलाका वारुण्या सह कुलमाषैरपि विरुद्धा ।  
 सैत्र सूकरवसापरिभृष्टा सद्यो व्यापादयति, मायूरमांसमेरण्डसीस-  
 कावसक्तमेरण्डान्निष्ठुष्टमेरण्डतैलयुक्तं सद्यो व्यापादयति; तदेव भस्म-  
 पांसुपरिध्वस्तं सच्चौद्रं मरणाय; हारीतकमांसं हारिद्रसीसका-  
 वसक्तं हारिद्रान्निष्ठुष्टं सद्यो व्यापादयति । तदेव भस्मपांशुपरि-  
 ध्वस्तं मत्स्यनिस्तालनसिद्धाः पिप्पल्यस्तथा सच्चौद्रं मरणाय; काक-  
 माची मधु च मरणाय; मधु चोष्णमुष्णार्तस्य च मधु मरणाय ।  
 मधुसर्पिणी मभधृते, मधु वारि चान्तरिक्षं समधृतं, मधुपुष्करवीजं,

मधु पीत्वोष्णोदकं, भल्लातकोष्णोदकं, तक्रसिद्धः कम्पिल्लकः, पर्युषिता काकमाची, अङ्गारशूल्यो भासश्चेति विरुद्धानीत्येतद्यथाप्रश्नमभिनिर्दिष्टं भवतीति ॥ ८२ ॥

भगवान् आत्रेय ने कहा—यह ठीक नहीं । सभी मछलियों को दूध के साथ नहीं खाना चाहिये, परन्तु खासकर चिलचिम मछली को तो कभी भी नहीं खाना चाहिये । क्योंकि यह मछली ( चिलचिम ) बहुत अभिप्यन्द करने वाली है, इसलिये भयंकर बड़े २ रोगों को और आमविष को उत्पन्न करती है । ग्राम्य, आनूप और जलचर प्राणियों का मांस, मधु, तिल, गुड़, दूध, उड़द, मूली, भिस, नाल, अंकुरित धान्यों के साथ एक साथ नहीं खाना चाहिये । इन के साथ में खाने से बहरापन, अन्धत्व, कम्पन, जड़ता, अव्यक्त उच्चार ( मिन्मिन् ), गूंगला, नाक से बोलना, अथवा मरण तक हो सकता है । पुष्करपत्र के शाक अथवा कट्ट रोहिणी के शाक को सरसोंके तैल में भूने कबूतर के मांस के साथ, अथवा दूध और शहद के साथ नहीं खाना चाहिये । इन के खाने से रक्ताभिप्यन्द, सिराजन्य ग्रन्थि रोग, अपस्मार, शंखकशूल, गलगण्ड, रोहिणी ( कण्ठरोहिणी ) रोगों में से कोई एक रोग अथवा मृत्यु प्राप्त होती है । मूली, लहसुन, शोभाजन की भाजी, अर्जक ( कुठरेक ), सुमुख ( राई ) और तुलसी आदि को खाकर दूध नहीं पीना चाहिये । क्योंकि कुछ रोग होने की शंका है । वंशपत्रिका का शाक या पके हुए दूध ( बड़हल ) को शहद और दूध के साथ नहीं खाना चाहिये । क्योंकि इन के खाने से या तो मृत्यु हो जाती है, अथवा बल, वर्ण, तेज, वीर्य का नाश होता है और बड़े २ रोग तथा नपुंसकता उत्पन्न होती है । इसी पके हुए दूध फल को उड़द की दाल, गुड़ और घी के साथ मिलाकर नहीं खाना चाहिये क्योंकि संयोग विरुद्ध है । इसी प्रकार कच्चे आम, बिजौरा, दूधो, करौंदा, केला, निम्बू, बेर, जंगली आम, कमरख, जामुन, कैथ, इमली, फालसा, अखरोट, पनस ( कटहल ), नारियल, अनार, आंवला

या इस प्रकार के अन्य सब द्रव्य, पतले तरल अथवा ठोस सब प्रकार के खट्टे पदार्थ दूध के साथ विरोधी गुण रखते हैं। इसी प्रकार कंगु (नीवार धान्य), जंगली मूंग, मोठ, कुलत्थी, उडद, या पिट्टी से बने पदार्थ दूध के साथ विरोधी है। पद्मोत्तरिका (धनिया) का शाक, शकर, मैरेय, मधु इन को बराबर बराबर खाना विरुद्ध है, और वायुकारक है। कवूतर को सगमो के तेल में भुनकर खाना विरुद्ध है। वह पित्त को बहुत कुपित करता है। सत्तू को दूध में या खीर में मथकर खाना विरुद्ध है और श्लेष्मा को बढ़ाता है। तिल कल्क के साथ तैयार की हुई चोलाई की भाजी अनोसार रोग को उत्पन्न करती है। बलाका (पक्षी) वारुणी शराव तथा कुत्ताप (धान्य) के साथ विरुद्ध है। इसी बलाका पक्षी को सुबर की चर्बी में भुनकर खाने से शीघ्र मरण होता है। मोर का मांस, पुरण्ड की कड़छी (खैचा, भूने की लकड़ी) से, पुरण्ड की लकड़ियों की भाग से, पुरण्ड तैल में पकाकर खाने से तुरन्त मार देता है। हल्दा कवूतर का मांस, कलन्दा लकड़ी की बनी कड़छी से, कलन्दा की लकड़ियों के आंच में पकाकर खाने से शीघ्र मार देता है। इसी कवूतर के मांस को राख, धूल में मिले हुए शहद में मिलाकर खाने से मृत्यु के लिये होता है। मछलियों की चर्बी में अथवा जिस वर्तन में मछलियां पकाई जाती हैं, उसी पात्र में पिप्पली, मकौय या शहद पकाकर खाने से मृत्यु होती है। उष्ण क्रिया करने पर या उष्ण शरीरावस्था में गरम शहद खाना मृत्यु का कारण होता है। गुरुमात्रा में मधु और घी, मधु और वृष्टिगल, शहद और मखाने, मधु पीकर गरमपानी, भिलावा और गरमपानी, छाछ में सिद्ध पकाया कमीला, रात को चार्सा रक्खी मकौय, अंगारों पर शूलाकृत भास (कुक्कुट) पक्षी का मांस ये विरुद्ध होते हैं। ये प्रश्न के अनुसार विरोधी अन्न कह दिये गये।

भवन्ति चात्र श्लोकाः ।

यत्किञ्चिदोपमुच्छेद्य न निर्हरति कायतः ।

आहारजातं तत्सर्वमहितायोपपद्यते ॥ ८३ ॥

यच्चापि देशकालाग्निमात्रा<sup>१</sup> सात्म्यानिलादिभिः ।  
 संस्कारतो वीर्यतश्च कोष्ठावस्थाक्रमैरपि ॥ ८४ ॥  
 परिहारोपचाराभ्यां पाकात्संयोगतोऽपि च ।  
 विरुद्धं तच्च न हितं हृतसंपद्विधिभिश्च यत् ॥ ८५ ॥  
 विरुद्धं देशतस्तावद्रूक्षतीक्ष्णादि धन्वनि ।  
 आनूपे स्निग्धशीतादि भेषजं यन्निषेव्यते ॥ ८६ ॥  
 कालतोऽपि विरुद्धं यच्छीतरूक्षादिसेवनम् ।  
 शीते काले तथोष्णे च कटुकोष्णादिसेवनम् ॥ ८७ ॥  
 विरुद्धमनले तद्वन्नानुरूपं चतुर्विधे ।  
 मधुसर्पिः समधृतं मात्रया तद्विरुध्यते ॥ ८८ ॥  
 कटुकोष्णादिसात्म्यस्य स्वादुशीतादिसेवनम् ।  
 यत्तत्सात्म्यविरुद्धं तु, विरुद्धं त्वनिलादिभिः ॥ ८९ ॥  
 या समानगुणाभ्यासविरुद्धान्नौषधक्रिया ।  
 संस्कारतो विरुद्धं तद्यद्भोज्यं विषवद्भवेत् ॥ ९० ॥  
 ऐरण्डसीसकासक्तं शिखिमांसं तथैव हि ।  
 विरुद्धं वीर्यतो ज्ञेयं वीर्यतः शीतलात्मकम् ॥ ९१ ॥  
 तत्संयोज्योष्णवीर्येण द्रव्येण सह सेव्यते ।  
 क्रूरकोष्ठस्य चात्यल्पं मन्दवीर्यमभेदनम् ॥ ९२ ॥  
 मृदुकोष्ठस्य गुरु च भेदनीयं तथा बहु ।  
 एतत्कोष्ठविरुद्धं तु, विरुद्धं स्यादवस्थया ॥ ९३ ॥  
 श्रमव्यवायव्यायामसक्तस्यानिलकोपनम् ।  
 निद्रालसस्यालसस्य भोजनं श्लेष्मकोपनम् ॥ ९४ ॥  
 यच्चानुत्सृज्य विण्मूत्रं भुंक्ते यश्चाबुभुक्षितः ।  
 तच्च क्रमविरुद्धं स्याद्यच्चातिक्षुब्धशानुगः ॥ ९५ ॥  
 परिहारविरुद्धं तु वराहादीन्निषेव्य यत् ।

१. सात्म्यासात्म्यानिलादिभिरिति च पाठः ।



सेवेतोष्णं, घृतादीश्च पीत्वा शीतं निषेवते ॥ ९६ ॥

विरुद्धं पाकतश्चापि दुष्टदुर्दारुसाधितम् ।

अपकतरण्डुलात्यर्थपक्वदग्ध च यद्भवेत् ।

संयोगतो विरुद्धं तद्यथाऽम्लं पयसा सह ।

अमनोरुचितं यच्च हृद्विरुद्धं तदुच्यते ॥ ९८ ॥

संपद्विरुद्धं तद्विद्यादसंजातरसं तु यत् ।

अतिक्रान्तरसं वाऽपि विपन्नरसमेव वा ॥ ९९ ॥

ज्ञेय विधिविरुद्धं तु भुज्यते निभृतेन यत् ।

तदेवंविधमन्नं स्याद्विरुद्धमुपयोजितम् ॥ १०० ॥

सात्म्यतोऽल्पतया वाऽपि दीप्ताग्नेस्तरुणस्य च ।

स्नेहव्यायामवलिनो विरुद्धं वितथं भवेत् ॥ १०१ ॥

षारह्यान्ध्यवीसर्पदकोदराणां विस्फोटकोन्मादभगन्दराणाम् ।

मूर्च्छामदाध्मानगलामयानां पाण्ड्वामयस्यामविषस्य चैव ॥ १०२ ॥

किलासकुष्ठप्रहृणीगदानां शोषास्रपित्तज्वरपीनसानाम् ।

संतानदोपस्य तथैव मृत्योर्विरुद्धमन्नं प्रवदन्ति हेतुम् ॥ १०३ ॥

जो भोजन दोषों को विशेष रूप में कुपित करके शरीर से बाहर नहीं करता, अर्थात् कुपित अवस्था में शरीर में ही रहने देता है वह सब अन्न अहितकारी होता है। इसी प्रकार देश, काल, अग्नि, सात्म्य, वायु आदि दोष, संस्कार, वीर्य, कोष्ठ, अवस्था, क्रम, (Arrangement of molecules), परिहार, उपचार, पाक, संयोग, हृत्-संपत् और विधि में जो द्रव्य विरोधी हों, वे अहितकारी हैं। मारवाड आदि निर्जल देशों में रूक्ष, तीक्ष्ण पदार्थ, जलबहुल ( वंगाल आदि) प्रदेश में स्निग्ध और शीत पदार्थों का सेवन करना देशविरुद्ध है। इसी प्रकार शीत ऋतु में शीत और रूक्ष पदार्थों का सेवन या उष्णकाल में कटु और उष्ण पदार्थों का सेवन कालविरुद्ध है। अग्नि के विपम, मन्द या तीक्ष्ण या सम इन चार प्रकार की जाठराग्नि में विरोधी अन्न पान ( यथा—तीक्ष्णाग्नि में मन्द आहार, और मन्दाग्नि में गुरु आहार करना) विरोधी है। मधु और घी एक

समान मात्रा में परस्पर विरोधी हैं। जिस पुरुष को कटु, उष्ण आदि वस्तुओं का सात्म्य हो, वह यदि मधुर और शीत पदार्थ सेवन करे तो यह सात्म्य-विरोधी है। समान गुणों के अभ्यास के विरुद्ध जो आहार है वह वायु आदि दोषों का भी विरोधी है। एरण्ड की कड़छी से पकाया हुआ मोर का मांस विष के समान होने से संस्कार-विरुद्ध है। जो वस्तु शीत-वीर्य हो उस को यदि उष्णवीर्य की वस्तु के साथ मिलाकर खाया जाये तो यह वीर्य-विरोधी है। क्रूस्कोष्ठ वाले पुरुष को थोड़ा, मृदुवीर्य अथवा अरेचक पदार्थ देना और मृदुकोष्ठ वाले पुरुष को गुरु, बहुत अथवा रेचक पदार्थ देना, कोष्ठविरोधी है। परिश्रम, मैथुन, स्त्रीसंग और व्यायाम में लगे हुए पुरुष को वायुकोपक आहार देना, या निद्राशील, आलसी पुरुष को कफकोपक भोजन देना अवस्थाविरुद्ध है। जो मल मूत्र का त्याग किये बिना, बिना भूख के खाना, अथवा बहुत भूख से लाचार होकर खाना ये क्रमविरुद्ध है। सुअर आदि का मांस खाकर या गरम अथवा घी आदि खाकर ऊपर शीतल पदार्थों का सेवन करना परिहार विरोधी है। दुष्ट या बुरी (बांस आदि, या मिट्टी के तेल से) लकड़ियों से पकाये, कच्चे-पके, बहुत पके, या जले हुए चावल आदि आहार को पाक-विरोधी कहते हैं। खटाई का दूध के साथ संयोग करना यह संयोग-विरोधी है। जो आहार मन को नहीं रुचता वह हृदयविरोधी है। जिस आहार में रस उत्पन्न नहीं हुआ वह सम्पद्विरुद्ध है। इसी प्रकार जिस आहार का रस नष्ट हो गया या बिगड़ गया है, वह भी सम्पद्विरुद्ध है। जो अकेला एकान्त में खाया जाता है वह आहार विधि अर्थात् शास्त्र के विरुद्ध है। इस प्रकार का विरोधी अन्न भी स्वस्थ पुरुष को या जिसकी अग्नि दीप्त हो, अथवा युवा पुरुष को, स्वास्थ्यानुकूल या अल्पमात्रा में अनुकूल पड़ जाता है, अथवा स्नेह एवं व्यायाम से बलवान् बने पुरुष को विरुद्ध भोजन विशेष हानि नहीं करते।

विरोधी अन्न के सेवन से निम्न रोग उत्पन्न होते हैं। यथा—नपुंसकता-

अन्धापन, वीसर्प, जलोदर, विस्फोटक, उन्माद, भगन्दर, मूर्च्छा, मद, अफारा, गलरोग, पाण्डुरोग, आमविष, किलास (श्वेतकोद), कुष्ठ, संग्रहणी शोष, रक्तपित्त, ज्वर, पीनस । इसी प्रकार संतति में पहुंचने वाले दोषों एवं मृत्यु का भी कारण विरुद्ध आहार को ही कहते हैं ।

एषां च खलु परेषां च वैरोधिकनिमित्तानां व्यधीनामिमे भावाः प्रतिकारा भवन्ति । यथा-वमनं विरेचनं च, तद्विरोधिनां च द्रव्याणां संशमनार्थमुपयोगः, तथाविधैश्च द्रव्यैः पूर्वमभिसंस्कारः शरीरस्येति ॥ १०४ ॥

इस प्रकार के विरुद्ध अन्न पान के सेवन से अथवा अन्य विरोध रूपी कारणों से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा के ये उपाय हैं । यथा—वमन, विरेचन, उक्त रोगों के विरोधी द्रव्यों का शान्ति के लिये उपयोग करना, विरुद्ध आहारजन्य रोगों के विरुद्धद्रव्यों का निरन्तर उपयोग करके शरीरको संस्कृत करना, अथवा रसायन औषधियों से शरीर को परिवर्तित वा शुद्ध करना । भवति चात्र । विरुद्धाशनजान् रोगान् प्रतिहन्ति विरेचनम् ।

वमनं शमनं चैव पूर्वं वा हितसेवनम् ॥ १०५ ॥

विरुद्ध आहार से उत्पन्न रोगों को विरेचन, वमन, संशमन क्रिया अथवा अनागत व्याधि के निवारणार्थ पहले ही पथ्य तथा रसायनादि का सेवन नष्ट कर देता है ।

तत्र श्लोकाः । मतिरासीन्महर्षीणां या या रसविनिश्चये ।

द्रव्याणि गुणकर्मभ्यां द्रव्यसख्या रसाश्रयाः ॥ १०६ ॥

कारणं रससख्या या रसानुरसलक्षणम् ।

परादीनां गुणानां च लक्षणानि पृथक् पृथक् ॥ १०७ ॥

पञ्चात्मकानां पदत्वं च रसानां येन हेतुना ।

ऊर्ध्वानुलोमभाजश्च यद्गुणातिशयाद्द्रसा ॥ १०८ ॥

पराणां रसानां पदत्वे च सविभक्ता विभक्तयः ।

उद्देशश्चापवादश्च द्रव्याणां गुणकर्मणी ॥ १०९ ॥

प्रवरावरमध्यत्वं रसानां गौरवादिषु ।

प्राकप्रभावयोर्लिङ्गं वीर्यसंख्याविनिश्चयः ॥ ११० ॥

षण्णामास्त्राद्यमानानां रसानां यत्स्वलक्षणम् ।

यद्यद्विरुध्यते तस्माद्येन यत्कारि चैव यत् ।

वैरोधिकनिमित्तानां व्याधीनामौषधं च यत् ।

आत्रेयभद्रकाप्यीये तत्सर्वमवदन्मुनिः ॥ ११२ ॥

रस-निश्चय सम्बन्ध में महर्षियों की भिन्न २ मति, द्रव्यों के गुण कर्म, रस की संख्या, इन के भेद होने के कारण, रस या अनुरस का लक्षण, पर आदि गुण एवं उन के लक्षण, पंच महाभूतों से उत्पन्न रसों की संख्या, कौन कौन द्रव्य ऊर्ध्वगामी, अधोगामी क्रिया करते हैं, छः रसों के विभाग, रसके आधारभूत द्रव्यों के सामान्य गुण, कर्म और इनके अपवाद, गौरव, लघु, रसों में उत्कृष्ट, मध्यम, अवर भेद, विपाक, प्रभाव का लक्षण, वीर्य कितने प्रकार का, छः रसों के लक्षण, परस्पर विरुद्ध द्रव्य, इन के सेवन से उत्पन्न विकार एवं इन रोगों की औषध ये सब विषय इस 'आत्रेय-भद्रकाप्यीय' अध्याय में आत्रेय ऋषि ने कह दिये ।

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थानेऽन्नपानचतुष्के  
आत्रेयभद्रकाप्यीयोऽध्याय षड्विंशतितमः समाप्तः ॥ २६ ॥

## सप्तविंशोऽध्यायः ।

अथातोऽन्नपानविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

इस के अनन्तर अन्नपानविधि नामक अध्याय का विशेष रूप से व्याख्यान करेंगे ऐसा भगवान् आत्रेय ने कहा है ।

इष्टवर्णगन्धरसस्पर्श विधिविहितमन्नपानं प्राणिनां प्राणि-  
संज्ञकानां प्राणमाचक्षते कुशलाः, प्रत्यक्षफलशानात्, तदिन्धना

ह्यन्तराम्नेःस्थितिः; तत् सत्त्वमूर्जयति, तच्छरीरधातुव्यूहवलवर्णेन्द्रिय-  
प्रसादकरं यथोक्तमुपसेव्यमानं, विपरीतमहिताय संपद्यते ॥ ३ ॥

प्रिय या हितकर वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्शयुक्त आहार विधिपूर्वक<sup>१</sup>  
सेवन किया अन्न पान, प्राणिमात्र का प्राण है ( 'अन्नं त्रै प्राणा' ) ऐसा  
विद्वान् मनुष्य कहते हैं। सब प्राणियों के प्राण स्थिर रखने के लिये  
आहार मुख्य कारण है। यह बात प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध है। शरीर  
में स्थित जाटराग्नि ही प्राणों का मूल आधार है और इस अग्नि का अन्न  
ही ईन्धन रूप होता है। अन्न के सेवन करने से मन की शक्ति बढ़ती है,  
शरीर के धातुसमूह, बल, वर्ण बढ़ता है, तथा इन्द्रियां निर्मल होती हैं।  
विधि से विपरीत<sup>१</sup> सेवन करने से अन्न अहितकारी, विपरीत परिणाम  
उत्पन्न करता है।

तस्माद्धिताहितावबोधनार्थमन्नपानविधिमखिलेनोपदेक्ष्यामोऽग्नि-  
वेश। तस्त्वभावादुदकं क्लेदयति, लवणं विष्यन्दयति, क्षारः पाचयति,  
मधु संदधाति, सर्पिः स्नेहयति, क्षीरं जीवयति, मांसं बृंहयति, रसः  
प्रीणयति, सुरा जर्जरीकरोति, शीधुरवधमयति, द्राक्षासवो दीपयति,  
फाणित्ताचिनोति, दधि शोफ जनयति, पिण्याकशाकं ग्लपयति, प्रभू-  
तान्मर्मलो मापसृपः, दृष्टिशुक्रघ्नः क्षारः, प्रायःपित्तलमस्लमन्यत्र दाडि-  
मामलकान्, प्रायो मधुरं श्लेष्मलमन्यत्र मधुनः पुराणाच्च शालियवगो-  
धूमान्, प्रायः सर्वं तिक्तं वातलमवृष्यं चान्यत्र वेत्रापप्रटोलात्, प्रायः  
कटुक वातलमवृष्यं चान्यत्र पिप्पलीविश्वभेषजात् ॥ ४ ॥

इसलिये है अग्निवेश ! हितकारी और अहितकारी विषय का ज्ञान  
करने के लिये अन्न-पान विधि को विस्तार से सम्पूर्ण रूप में कहते हैं।  
तो न्वभाविक रीति से जल ( क्लिन्नता ) उत्पन्न करता है। लवण विष्यन्द  
( नरम बनाना, जलछाव उत्पन्न ) करता है। क्षार पाचन करते हैं,

१. सूत्रग्रन्थान् इन्द्रियोपक्रमणीय अध्याय (८। सू० १९) में ( 'नारत्न-  
पाणि०' ) इत्यादि भोजन करने के सम्यन्ध में उचित विधान किया है।

शहद जोड़ता है, घी चिकना बनाता है । दूध जीवन देता है, मांस वृंहण पोषण देता है । रस क्षीणता को पुष्ट करता है । मद्य शरीर को जीर्ण करता है । सीधु ( सिरका ) शरीर का लेखन करता है, द्राक्षासत्र अग्नि को बढ़ाता है । फाणित ( राव ) वात, पित्त, कफ इन को बढ़ाता है, दही सूजन को उत्पन्न करता है । पिण्याक ( तिलकल्क ) और हरे शाक प्रसन्नता का नाश करते हैं । उड़द की दाल मल को विशेष रूप से उत्पन्न करती है । क्षार नेत्र और शुक्र को नाश करते हैं । अनार और आवले को छोड़ कर प्रायः सब अम्ल पित्तकारक है । मधु और पुराने चावल, जौ और गेहूँ को छोड़कर प्रायः करके मधुर रस कफकारक होता है, बेत के अग्रिम भाग और परबल को छोड़ प्रायः करके सब तिक्त रस वायु कारक और शुक्र नाशक होते हैं पिप्पली और सोठ को छोड़कर प्रायः करके सब कटु रस वायुकारक तथा शुक्रनाशक हैं ।

परमतो वर्गसंग्रहेणाहारद्रव्याण्यनुव्याख्यास्याम् ॥ ५ ॥

शूकधान्यशमीधान्यमांसशाकफलाश्रयान् ।

वर्गान् हरितमद्याम्बुगोरसेक्षुविकारिकान् ॥ ५ ॥

दश द्वौ च परौ वर्जौ कृतान्नाहारयोगिनाम् ।

रसवीर्यविपाकैश्च प्रभावैश्चोपदेच्यते ॥ ७ ॥

इस के आगे वर्गक्रम से आहार पदार्थों की व्याख्या करेंगे । यथा—  
शूकवर्ग, शमीधान्यवर्ग, मांसवर्ग, शाकवर्ग, फलवर्ग, हरितवर्ग, मद्यवर्ग, अम्बुवर्ग, गोरसवर्ग, ईक्षुविकारवर्ग, कृतान्नवर्ग और आहारयोगवर्ग । इन बारह वर्गों में सब द्रव्यों के रस, वीर्य, विपाक और प्रभाव का वर्णन करेंगे ।

अथ शूकधान्यवर्गः ।

रक्तशालिर्महाशालिः कलमः शकुनाहतः ।

तूर्णको दीर्घशूकश्च गौरः पाण्डुकलाङ्गुलौ ॥ ८ ॥

सुगन्धिका लोहवालाः शारिवाख्याः प्रमोदकाः ।

पतङ्गास्तपनीयाश्च ये चान्ये शालयः शुभाः ॥ ९ ॥

शीता रसे विपाके च मधुराः स्वल्पमारुताः ।  
 चन्द्राल्पवर्चसः स्निग्धा बृंहणाः शुक्रमूत्रलाः ॥ १० ॥  
 रक्तशालिर्वरस्तेषां वृष्णान्नस्त्रिमलापहः ।  
 महास्तस्यानु कलमस्तस्याप्यनु ततः परे ॥ ११ ॥  
 यवका हायनाः पांशुवाप्या नैषधकादयः ।  
 शालीनां शालयः कुर्वन्त्यनुकारं गुणागुणैः ॥ १२ ॥  
 शीतः स्निग्धोऽगुरुः स्वादुस्त्रिदोषघ्नः स्थिरात्मकः ।  
 षष्टिकः प्रवरो गौरः कृष्णगौरस्ततोऽनु च ॥ १३ ॥  
 वरकोद्दालकौ चीनशारदोज्ज्वलदर्दुराः ।  
 गन्धलाः कुरुविन्दाश्च षष्टिकाल्पान्तरा गुणैः ॥ १४ ॥  
 मधुरश्चांस्लपाकश्च ब्रीहिः पित्तकरो गुरुः ।  
 बहुमूत्रपुरीषोष्मा त्रिदोषस्त्वेव पाटलः ॥ १५ ॥  
 सकोरदूप. श्यामाकः कषायमधुरो लघुः ।  
 चातलः कफपित्तघ्नः शीत. संग्राहिशोपणः ॥ १६ ॥  
 हस्तिश्यामाकनीवारतोयपर्णागवेधुकाः ।  
 प्रशातिकाम्भ श्यामाकलोहिताणुप्रियङ्गवः ॥ १७ ॥  
 मुकुन्दोम्भिरिटगर्मुटीचारुका वरकास्तथा ।  
 शिव्रिगेत्कटजूर्णाद्वाः श्यामाकसदृशा गुणैः ॥ १८ ॥  
 रूक्षः शीतोऽगुरु. स्वादुर्वहुवातशकृच्चव. ।  
 स्थैर्यकृत्सकषायस्तु वल्यः श्लेष्मविकारनुत् ॥ १९ ॥  
 रूक्षः कषायानुरसो मधुरः कफपित्तहा ।  
 मेद. क्रिमित्रिपन्नश्च वल्यो वेणुयवो मतः ॥ २० ॥  
 सन्धानकृद्वातहरो गोधूम स्वादुशीतल. ।  
 जीवना बृंहणो वृष्यः स्निग्धः स्थैर्यकरो गुरुः ॥ २० ॥  
 नन्दीमुखी मधूली च मधुरस्निग्धशीतले ।  
 इत्ययं गूकधान्याना पूर्वो वर्गः समाप्यते ॥ २२ ॥

रक्तशालि, महाशालि, कलम, शकुनाहत, तूर्णक, दीर्घशूक, गौर, पाण्डुक, लांगुल, सुगन्धिकर ( हंसराज ), लोहवाल, शारिवा, प्रमोदक, पतंग और तपनीय तथा अन्य उत्तम शालि (चावल) ठण्डे, रस और विपाक में मधुर, किंचित् वातकारक, स्निग्ध, पुष्टिकारक, शुक्र और मूत्रवर्द्धक हैं । मल को थोड़ा उत्पन्न करने, रोकने वाले हैं (मधुर विपाक होने से कब्ज करना प्रभाव से है) । इन सब चावलों में लाल चावल श्रेष्ठ हैं, ये लाल चावल तृषानाशक और त्रिदोषनाशक हैं । इन से उतर कर महान् शालि, फिर कलम और फिर उत्तरोत्तर गुण न्यून होते गये हैं । यवक,<sup>१</sup> हायन, पांसु, वाप्य, नैषध आदि चावल ( मोटे धान्य ) लाल चावल आदि के विपरीत गुण करते हैं । अर्थात् लाल चावल, तृषानाशक और त्रिदोषहारक हैं और ये इन के विरुद्ध गुण वाले हैं । (३) षष्टिक (साठी ग्रीष्म ऋतु में पकने वाले) धान्य शीत, लघु, मधुर, त्रिदोषनाशक, शरीरको दृढ करने वाले हैं । इन में श्वेत और काले दो भेद हैं । इन में श्वेत साठी श्रेष्ठ है, और काली जाति के धान्य इन से हीन गुण वाले हैं । (४) वरक, उदालक, चीन, शारद, उज्ज्वल, दुर्दुर, गन्धन और कुरुविन्द ये षष्टिक धान्यों की जातियां हैं । ये गुणों में हीनगुण वाले होते हैं । (४) ब्रीही (शरद् ऋतु में पकने वाले) चावल, मधुर रस, अम्लपाकी, पित्तकारक गुरु हैं । इनमें पाटल जाति का धान्य मल-मूत्रवर्द्धक और त्रिदोषकारक है ।

(५) कोरदूप (कोद्रव कुधान्य कोदों), श्यामाक (सांवक) ये धान्य कषाय और मधुर रस, लघु, वायुकारक, कफ-पित्तनाशक, शीतवीर्य, संग्राही और शोषक हैं । (६) हस्ति, सावक, नीवार (देवभात), तोयपर्णी, गवेधुक, प्रशातिका, अम्भःश्यामाक, लोहिताणु, प्रियगु (कांग), मुकुन्द, क्षिटी, गर्मुटी, चारुक, वरक, शिविर, उत्कट, जूर्णाह्न (जोनार) ये सब धान्य

१. यहां पर दिये हुए नाम नाना देशों में प्रसिद्ध हैं । इसलिये सब का नाम लिखना असम्भव है । 'शालि हैमन्तं धान्यम्, षष्टिकादयश्च, ग्रीष्म का', ब्रीहयः शारदाः'— इन में यही भेद है ।



गुणो में सावक के समान हैं । (७) जौ रूक्ष, शीत, गुरु, मधुर रस, वायु और मलकारक, शरीर को स्थिर करने वाले, कषाय रस, बल कारक और कफ-जन्य विकारों को नाश करने वाले है । वेणुयव रूक्ष, मधुर, कषाय अनु-रस, कफ-पित्तनाशक, मेद, कृमि और विष के नाशक एवं बलकारक हैं । (८) गेहूँ दूटे हुए को मिलाने वाला, वातनाशक, स्वादु रस, शीत-वीर्य जीवनीय, वृंहणकारक, वृष्य, शुक्रवर्द्धक, स्निग्ध, स्थिरताकारक गुरु है । नान्दीमुखी ( याविका ) और मधूली ये दोनो मधुर, स्निग्ध, शीतल हैं । यह शक धान्यों का पहिला वर्ग समाप्त हुआ ।  
इति शकधान्यवर्गः ।

अथ शमीधान्यवर्गः ।

कषायमधुरो रूक्षः शीतः पाके कटुर्लघुः ।  
विशदः श्लेष्मपित्तत्रो मुद्गः सूप्योत्तमो मतः ॥ २३ ॥  
वृष्य परं वातहरः स्निग्धोष्णमधुरो गुरुः ।  
बल्यो बहुमलः पुम्बं सापः शीघ्रं ददाति च ॥ २४ ॥  
राजमाष सरो रूच्यः कफशुक्राम्लपित्तकृत् ।  
तत्स्वादुर्वातलो रूक्षः कषायो विशदो गुरुः । २५ ॥  
उष्णा कषायाः पाकेऽम्ला कफशुक्रानिलापहाः ।  
कुलत्था ग्राहिणः कामहिक्राश्र्वासार्षां हिताः ॥ २६ ॥  
मधुरा मधुरा पाके ग्राहिणो रूक्षशीतलाः ।  
मकुटका प्रशस्यन्ते रक्तपित्तज्वरादिषु ॥ २७ ॥  
चणकाश्च मसूराश्च खरिडकाः सहरेणवः ।  
लघव शीतमधुराः सकषाया विरूक्षणाः ॥ २८ ॥  
पित्तश्लेष्मणि शस्यन्ते सूपेत्वालेपनेषु च ।  
तेः मन्म सग्राही कलायो वातलः पर ॥ २९ ॥  
स्निग्धोष्णमधुरस्तिक्त कषाय कटुकस्तिलः ।  
त्वच्यः कंश्यश्च बल्यश्च वातघ्न कफपित्तकृत् ॥ ३० ॥

गुर्व्योऽथ मधुराऽशीता बलघ्न्यो रूक्षणात्मिकाः ।

सस्नेहा बलिभिर्भोज्या विविधाः शिम्बिजातयः ॥ ३१ ॥

शिम्बी रूक्षा कषाया च कोष्ठवातप्रकोपिनी ।

न च वृष्या न चक्षुष्या विप्रभ्य च विपच्यते ॥ ३२ ॥

आढकी कफपित्तघ्नी वातला कफवातनुत् ।

अवलगुजः सैडगजो, निष्पावा वातपित्तलाः ॥ ३३ ॥

काकाण्डोमात्मगुप्तानां माषवत्फलमादिशेत् ।

द्वितीयोऽयं शमीधान्यवर्गः प्रोक्तो महर्षिणा ॥ ३४ ॥

शमीधान्य वर्ग—१ मूंग, कषाय, मधुर रस, रूक्ष, शीत, विपाक मे कटु, लघु, स्वच्छ, श्लेष्म-पित्तनाशक और दालों में सब से उत्तम और शमीधान्यों में भी उत्तम है । २ उड़द अत्यन्त वृष्य, वातनाशक, स्निग्धमें उष्ण, मधुर और गुरु है । वेबलकारक, पुष्कल मल उपन्न करने वाले, और पुरुषत्व को शीघ्र उत्पन्न करने वाले हैं ।<sup>१</sup> राजमाष, मल-भेदक, रुचिकर, कफ, वीर्य और अम्लपित्त को करने वाले, उड़द के समान मधुर, वायुकारक, रूक्ष, कषाय, स्वच्छ और गुरु है । कुलत्थी कषाय रस, विपाक में अम्ल, कफ शुक्र और वायुनाशक, ग्राही ( संग्राही ) तथा कास, श्वास, हिचकी, अर्ग रोग में हितकारी है । मोठ, मधुर रस, मधुर विपाक, संग्राहि, रूक्ष, शीतल, रक्तपित्त तथा ज्वर में प्रशस्त है । चने, मसूर, खण्डिक त्रिपुट (तिकोने मटर) और मटर लघु, शीतवीर्य, मधुर, कषाय रस, रूक्ष, कफ-पित्त में हितकारी हैं । इन का उपयोग दाल में तथा लेप में होता है । इन में मसूर सब से अधिक संग्राही, और मटर सब से

१. वृष्य वस्तु तीन प्रकार की होती है । यथा—

शुक्रस्रुतिकरं किञ्चित् किञ्चिच्छुक्रविवर्धनम् ।

स्रुतिवृद्धिकरं किञ्चित् त्रिविधं वृष्यमुच्यते ॥

कोई वस्तु शुक्र का क्षरण करती, कोई शुक्र को बढ़ाती है और कोई-दोनो कार्य करती है । उड़द में तीनों प्रकार के गुण है ।

अधिक वायुकारक है । तिल ( काले तिल<sup>२</sup> ) स्निग्ध, उष्ण, मधुर रस, तीक्ष्ण, कपाय, तिक्त, स्वचा और वालों के लिये हितकारी, शक्तिदायक, वातनाशक तथा कफ-पित्तवर्द्धक है । यहां पर कहे हुए शमी धान्यों के सिवाय जो दूसरे गोल जाति के धान्य हैं, वे सब गुरु, मधुर, उष्ण, बलनाशक, रुक्ष, स्निग्ध, शक्तिशाली पुरुषों के खाने लायक हैं । सामान्यतः शिम्बीधान्य रुक्ष, कपाय, कोष्ठ में वायु का प्रकोप करने वाले, अवृष्य, नेत्रों के लिये अहितकारी और पचने तक मल मूत्र का अवरोध करने वाले हैं । भरहर ( तुअर ) कफ-पित्तनाशक, वायुकारक है । बाबची, चक्रमर्द के बीज, कफ वायुनाशक है । निप्पाव ( सफेद वाल ) पित्तकारक, वायुकारक है । काकाण्ड ( शूकरशिम्बी, मालकंगनी ), उमा ( अलसी ), और कौच इन का गुण उद्धृष्ट के अनुसार है । इस प्रकार आत्रेय ऋषि ने शमी-धान्य का दृग्गरा वर्ग कह दिया ।

इति शमीधान्यवर्गः ।

अथ मांसवर्गः ।

-गोखराश्वतरोश्वाश्वद्वीपिमिहर्त्तवानराः ।

वृको व्याघ्रस्तरक्षश्च वध्रुमार्जारमूपिकाः ॥ ३५ ॥

लोपाको जम्बुकः श्येनो वान्तादश्चाषवायसौ ।

-शशत्री मधुहा भासो गृध्रोल्ककुलिङ्गकाः ॥ ३६ ॥

धूमीका कुररश्चेति प्रसहा मृगपक्षिणः ।

श्वेतः श्यामश्चित्रः कालकः काकुलीभृगः ॥ ३७ ॥

कूर्चीका चिल्लटो भेको गोधा शल्लकगण्डकौ ।

कदली नकुलः श्वाविदिति भूमिशयाः स्मृताः ॥३८॥

गाय, गधा, घोडा, ऊँठ, खच्चर, चीता, सिंह, भालु रीछ, वानर, भेडिया, व्याघ्र, तरक्षु ( व्याघ्रभेद ), वध्रु ( जिस के ऊपर बहुत बाल

२ तिलों में काले तिल अच्छे हैं—

“तिलेषु सर्वेष्वसितः प्रधानो मध्यः सितो, हीनतरास्ततोऽन्ये ।”

होते हैं), बिल्ली, चूहा, लोमड़ी, गीदड़, बाज, कुत्ता, चाष ( नीलकण्ठ ), कौवा, शशष्ठी ( बाज़ चील ), कुरर ( भास ), मधुहां, गीघ, उल्लू, कुलिंग ( बगुला की जाति ), धूमिका, कुरर ये 'प्रसह' श्रेणी के पशु पक्षी है । काकुलीमृग ( मालुया सर्प ) की चार श्रेणियां है यथा—श्वेत, काली, चितकबरी और कालक, कूर्चीका, चिल्लट (चियार) मेंढक, शलक, गोह, गाण्डक (गोह का भेद, सर्पणी), कदली, नेवला, श्वावित् ये भूमिशय या बिलेशय अर्थात् बिल में रहने वाले हैं ।

सृमरश्चमरः खड्गो महिषो गवयो गजः ।

न्यङ्कुर्वराहश्चानूपा मृगाः सर्वे रुरुस्तथा ॥ ३९ ॥

कूर्मः कर्कटको मत्स्यः शिशुमारस्तिमिङ्गिलः ।

शुक्तिशङ्खोद्रकुम्भीरचुलुकीमकरादयः ॥४० ॥

इति वारिशया प्रोक्ता,

सृमरः ( सूवर ), चमर ( चमरिया गाय ), गेंडा, भैंसा, नील गाय, हाथी, न्यङ्कु ( हरिण ), सुभर ( छोटा ) और रुरु ( बारह सींगा ) ये सब 'आनूप' अर्थात् जल बहुल प्रदेश के पशु हैं । कछुआ, कैंकड़ा, मछली, शिरस, सारस, तिमिंगल ( मछली भेद ), सीप शंख में होने वाले जन्तु, उद्र ( जल विडाल, ऊदविलाव ), कुम्भीर ( नाका ), चुलुकी, शुशु (मत्स्य भेद), और मकर ये 'वारिशय' अर्थात् जल में रहने वाले जन्तु हैं ।

वक्ष्यन्ते वारिचारिणः ।

हंसः क्रौञ्चो वलाका च बकः कारण्डवः प्लवः ॥ ४१ ॥

शरारिः पुष्कराह्वश्च केशरी मान्तुण्डकः ।

मृणालकरणो मद्गुश्च कादम्बः कातुण्डकः ॥ ४२ ॥

उत्क्रोशः पुण्डरीकाक्षो मेघरावोऽम्बुकुक्कुटी ।

आरा नन्दीमुखी वाटी सुमुखाः सहचारिणः ॥ ४३ ॥

रोहिणी कशिकानी च सारसो रक्तशीर्षकः ।

चक्रवाकास्तथाऽन्ये च खगाः सन्त्यम्बुचारिणः ॥ ४४ ॥

पानी पर तैरने वालों के नाम कहते हैं । हंस, कौच, बलाका, बगुला, कारण्डव ( हंसभेद वत्तख ), लव, शरारि, पुष्कराह्वा, केशरी, मान-  
तुण्डक, मृणालकण्ठ, मद्गु ( जलकौवा ), कादम्ब, काकतुण्ड, उत्क्रोश ( कुरल )  
पुण्डरीकाक्ष, मेघराव ( मेघनाद मोर ), अम्बुकुक्कटी ( पानी की  
सुर्गी ), आरा, नन्दीमुखी, वाटी, सुमुख, सहचारी, रोहिणी, कशिकानी,  
सारस, लाल शिर वाला सारस, चक्रवाक ( चक्रवा ) और अन्य जलचर  
पक्षी पानी में विचरने वाले हैं ।

पृपतः शरभो रामः श्वदंष्ट्रा मृगमातृका ।

शशोरणौ कुरङ्गश्च गोकर्णः कोट्टकारकः ॥ ४५ ॥

चारुष्को हरिणौ च शम्बरः कालपुच्छकः ।

ऋष्यश्च वरपोतश्च विज्ञेया जाङ्गला मृगाः ॥ ४६ ॥

चित्त विरंगे हरिण, शरभ ( आठ पांव का ऊठ के आकार का मोटे  
सांगों का एक हरिण, इस के पीठ में चार पाये होते हैं, काश्मीर देश में  
प्रसिद्ध है ), राम ( हिमालय का महामृग ), श्वदंष्ट्रा ( चार दांत का एक  
जाति का पशु ), मृगमातृका ( छोटा मोटे उदर वाला पशु ), खरगोश,  
हरिण, कुरङ्ग ( हरिणभेद ) गोकर्ण ( गाय के से मुख का हरिण ), कोट्ट-  
कारक, चारुष्क, हरिण, ऋष्य, शम्बर ( साभर ), कालपुच्छ, ऋष्य और वरपोत  
ये जंगली मृग हैं ।

लावो वर्ती वकश्चैव वार्तिकः सकपिञ्जल ।

चकोरश्चोपचक्रश्च कुक्कुभो रक्तवर्णकः ॥ ४७ ॥

लावाद्या विष्किरास्त्वेते वक्ष्यन्ते वर्तकादयः ।

वर्तको वर्तिका चैव वर्ही तित्तिरिक्कुटौ ॥ ४८ ॥

कङ्कमारपदेन्द्राभगोनर्दगिरिवर्तकाः ।

क्ररुंऽवकरश्चैव वाग्टाश्चेति विष्किरा ॥ ४९ ॥

बदेर, वर्ती ( तीतर ), वक ( बगुला ), वार्तिक ( वत्तख ), कपिञ्जल  
( श्वेत तीतर ), चकोर, उपचक्र ( चकोर भेद ), कुक्कुभ, रक्तवर्णक, विष्किर

पक्षी हैं । वर्त्तक ( बटेर ), वर्त्तिका, बर्हीं ( मोर ), तीतर, कुक्कुट, कङ्क, सारपद, इन्द्राभ, गोनर्द, गिरीवर्त्तक, क्रकर, अवकर और वारटा ये सब मुर्गा जाति के 'विष्किर' पक्षी है ।

शतपत्रो भृङ्गराजः कोयष्टी जीवजीवकः ।  
 कैरात. कोकिलोऽत्यूहो गोपापुत्रः प्रियात्मजः ॥ ५० ॥  
 लट्वा लटूषको बभ्रुर्वटहा डिण्डिमानकः ।  
 जटी दुन्दुभिवा ( पा ) क्कारलोहपृष्ठकुलिङ्गकाः ॥ ५१ ॥  
 कपोतशुकसारङ्गाश्चिरिटीककुयष्टिकाः ।  
 शारिका कलविङ्कश्च चटकोऽङ्गारचूडकः ॥ ५२ ॥  
 पारावत पानविक इत्युक्ताः प्रतुदा द्विजाः ।

शतपत्र ( कटफोड़ा ) भृंगराज ( भांवरा ), कोयष्टि ( कोड़ा ) जीवजीवक, कैरात, कोकिल, अत्यूहा, गोपापुत्र, प्रियात्मज, लट्वा, लटूषक, बभ्रु ( पिंगल पक्षी, पीले बालोंवाला पक्षी ), वटहा, डिण्डिमानक ( उत्कटध्वनि ), जटी, दुन्दुभि, वाक्कार, लोहपृष्ठ, कुलिङ्ग, कबूतर, तोता, चारक, चिरिटा, ककुयष्टिक, शारिका, कलविङ्क, चटक, अंगारचूडक ( बुलबुल ), पारावत, पानविक ये सब 'प्रतुद' पक्षी हैं ।

प्रसह्य भक्षयन्तीति प्रसहास्तेन संज्ञिताः ॥ ५३ ॥  
 भूशया विलवासित्वादानूपोऽनूपसंश्रयात्  
 जले निवासाज्जलजा जलेचर्याज्जलेचराः ॥ ५४ ॥  
 स्थलजा जाङ्गलाः प्रोक्ता मृगा जाङ्गलचारिणः ।  
 विकीर्य विष्किराश्चैव प्रतुद्य प्रतुदाः स्मृताः ॥ ५५ ॥  
 योनिरष्टविधा त्वेषां मांसानां परिकीर्तिता ।

गाय, घोड़ा, वाघ आदि प्राणी भक्ष्य दृष्टि से एकदम जोर से खाने पर गिरते हैं, इसलिये इनको 'प्रसह' कहते हैं । सांप, मेंढक आदि बिल में रहते हैं, इसलिये इनको 'विलेशय' कहते हैं । हाथी, भैंसा आदि प्राणी पानी के आश्रय से रहते हैं, इसलिये इनको 'आनूप' कहते हैं ।

पानी में रहने से 'जलज', जल में चरने-विचरने से 'जलचर', स्थलभूमि पर चलने वाले जंगल में फिरने वाले पशुओं को 'जांगल' कहते हैं। तीतर आदि पक्षी अपने खाद्य पदार्थ को बिखेर कर खाते हैं, इसलिये 'विष्किर' और तोता आदि पक्षी अपने खाद्य पदार्थ को चोंच से तोड़कर खाते हैं इसलिये 'प्रतुद' कहलाते हैं। इस प्रकार से मांस के आठ उत्पत्तिस्थान हैं।

प्रसहा भूशयानूपवारिजा वारिचारिणः ॥ ५६ ॥  
 गुरूष्णस्निग्धमधुरा बलोपचयवर्धनाः ।  
 वृष्याः परं वातहराः कफपित्ताभिवर्धिनः ॥ ५७ ॥  
 हिता व्यायामनित्येभ्यो नरा दीप्ताग्रयश्च ये ।  
 प्रसहानां विशेषेण मांसं मासाशिनां भिषक् ॥ ५८ ॥  
 जीर्णाशीग्रहणीदोषशोपार्तानां प्रयोजयेत् ।  
 लावाद्यो वैष्किरो वर्गः प्रतुदा जाङ्गला मृगाः ॥ ५९ ॥  
 लघ्नः शीतमधुराः सकपाया हिता नृणाम् ।  
 पित्तोत्तरे वातमध्ये सन्निपाते कफानुगे ॥ ६० ॥  
 विष्किरा वर्तकाद्यास्तु प्रसहाल्पान्तरा गुणैः ।  
 नातिशीतगुरूस्निग्धं मांसमाजमदोषलम् ॥ ६१ ॥  
 शरीरघातुसामान्यादनभिष्यन्दि वृंहणम् ।  
 मांसं मधुरशीतत्वाद् गुरु वृंहणमाविकम् ॥ ६२ ॥  
 योनावजाविके मिश्रगोचरत्वाद्निश्चिते ।  
 सामान्येनोपदिष्टानां मांसानां स्वगुणैः पृथक् ॥ ६३ ॥  
 केषांचिद् गुणवैशेष्याद्विशेष उपदेक्ष्यते ।  
 दर्शनश्रोत्रमेधान्निवयोवर्णस्वराद्युषाम् ॥ ६४ ॥  
 वर्ही हिततमो बल्यो वातत्रो मांसशुक्लः ।  
 गुरूष्णस्निग्धमधुरा स्वरवर्णबलप्रदा ॥ ६५ ॥  
 वृंहणा शुक्लाश्चाक्ता हंसा मारुतनाशनाः ।  
 स्निग्धाश्चाष्ण्याश्च वृष्याश्च वृंहणाः स्वरबोधनाः ॥ ६६ ॥

बल्याः परं वातहराः स्वेदनाश्चरणायुधाः ।  
 गुरुष्णमधुरो नातिधन्वानूपनिषेवणात् ॥ ६७ ॥  
 तित्तिरिः संजयेच्छीघ्रं त्रीन् दोषाननिलोल्बणान् ।  
 पित्तश्लेष्मविकारेषु सरक्तेषु कपिञ्जलाः ॥ ६८ ॥  
 मन्दवातेषु शस्यन्ते शैत्यमाधुर्यलाघवात् ।  
 लावाः कषायमधुरा लघवोऽग्निविवर्धनाः ॥ ६९ ॥  
 सन्निपातप्रशमना कटुकाश्च विपाकतः ।  
 कषायमधुराः शीता रक्तपित्तनिवर्हणाः ॥ ७० ॥  
 विपाके मधुराश्चैव कपोता गृहवासिनः ।  
 तेभ्यो लघुतराः किञ्चित्कपोता वनवासिनः ॥ ७१ ॥  
 शीताः संग्राहिणश्चैव स्वल्पमूत्रकराश्च ते ॥  
 शुक्रमांसं कषायास्तु विपाके रूक्षशीतलम् ॥ ७२ ॥  
 शोषकासक्षयहितं संग्राहि लघु दीपनम् ।  
 कषायो विशदो रूक्षः शीतः पाके कटुर्लघुः ॥ ७३ ॥  
 शशः स्वादुः प्रशस्तश्च संनिपातेऽनिलावरे ।  
 चटका मधुराः स्निग्धा बलशुक्रविवर्धनाः ॥ ७४ ॥  
 सन्निपातप्रशमनाः शमना मारुतस्य च ।  
 मधुरामधुराः पाके त्रिदोषशमना शिवाः ॥ ७५ ॥  
 लघवो बद्ध्विरमूत्राः शीताश्चैव प्रकीर्तिताः ।  
 गोधा विपाके मधुरा कषायकटुका रसे ॥ ७६ ॥  
 वातपित्तप्रशमनी बृंहणी बलवर्धनी ।  
 शल्लको मधुराम्लश्च विपाके कटुकः स्मृतः ॥ ७७ ॥  
 वातपित्तकफघ्नश्च कासश्वासहरस्तथा ।  
 गुरुष्णमधुरा बल्या बृंहणा पवनापहाः ॥ ७८ ॥  
 मत्स्या स्निग्धाश्च वृष्याश्च बहुदोषाः प्रकीर्तिताः ।  
 शैवलाहारभोजित्वात्स्वप्नस्य च विवर्जनात् ॥ ७९ ॥



रोहितो दीपनीयश्च लघुपाको महाबलः ।  
 स्नेहनं वृंहणं वृष्यं श्रमघ्नमनिलापहम् ॥ ८० ॥  
 ब्राह्मिपिशितं बल्यं रोचनं स्वेदनं गुरु ।  
 बल्यो वातहरो वृष्यश्चक्षुष्यो बलवर्धनः ॥ ८१ ॥  
 मेधास्मृतिकर पथ्यः शोषघ्नः कूर्म उच्यते ।  
 गव्यं केवलवातेषु पीनसे विषमज्वरे ॥ ८२ ॥  
 शुष्ककासश्रमात्यग्निमांसक्षयहितं च तत् ।  
 स्निग्धोष्णमधुर वृष्यं माहिपं गुरु तर्पणम्<sup>१</sup> ॥ ८३ ॥  
 दार्ढ्यं वृहत्त्वमुत्साहं स्वप्नं च जनयत्यपि ।  
 धार्तराष्ट्रचकोराणां दक्षाणां शिखिनामपि ॥ ८४ ॥  
 चटकानां च यानि स्युरण्डानि च हितानि च ।  
 रेत क्षीणेषु कासेषु हृद्रोगेषु क्षतेषु च ॥ ८५ ॥  
 मधुराण्यविदाहीनि<sup>२</sup> सद्योबलकराणि च ।  
 शरीरवृंहणे नान्यदाद्यं<sup>३</sup> मांसाद्विशिष्यते ।  
 इति वर्गस्तृतीयोऽयं मांसानां परिकीर्तितः ॥ ८६ ॥

इनमें प्रसह, भृशय, आनूप, जलज और जलचर प्राणियों का मांस गुरु, स्निग्ध, मधुर, शक्ति बढ़ाने वाला, वीर्यवर्द्धक, वातनाशक, कफ-पित्त को बढ़ाने वाला है, इनका मांस नित्य प्रति व्यायाम करने वाले, जिनकी अग्नि जाठराग्नि प्रदीप्त हो, उनके लिये हितकारी है । 'प्रसह' जानवर दो प्रकार के है । एक मांस खाने वाले सिंह आदि, दूसरे मांस न खाने वाले गाय आदि । इनमें मांस खाने वाले 'प्रसह' पक्षी या पशुओं का मांस पुराने अर्ग रोग, ग्रहणी रोग, क्षय, या निर्बल पुरुष के लिये उपकारी है ।

लाक (बटेर) आदि विष्किरवर्ग के पक्षी, प्रतुदपक्षी, जांगलदेश के पशु इनका मांस लघु, शीतल, मधुर कपाय रस, और पित्तप्रधान, मध्यम

१ वृंहणमिति पाठ । २ मधुराण्यविपाकीनि इति पाठः । ३. खाद्यं इति पाठः ।

वात, कनिष्ठ कफ वाले सन्निपात में हितकारी है। बटेर आदि समस्त विष्टिकर पक्षियों का मांस 'प्रसह' श्रेणी के मांसों से गुणों में मिलता है, थोड़ा ही अन्तर है।

बकरी का मांस बहुत ठण्डा नहीं, बहुत भारी नहीं, बहुत स्निग्ध नहीं, (अर्थात् कुछ ठण्डा, कुछ गुरु और कुछ स्निग्ध है) इसलिये वह दोषों को कुपित नहीं करता, कफ को उत्पन्न नहीं करता। उक्त गुणों के कारण मनुष्यों के मांस के समान धातुओं वाला है, जो गुण मनुष्य के धातुओं के हैं, वे ही गुण बकरी के मांस के हैं इसलिये पुष्टिकारक है। भेड़ का मांस मधुर, ठण्डा और भारी है। मधुर और शीतल होने से पित्तनाशक<sup>१</sup> है। बकरी या भेड़ जाति के मिश्रित स्थान में चरने से अथवा अनियमित (प्रसह आदि आठ वर्ग), अनिश्रित स्थान का मांस का गुण सामान्य रूप से कह दिया। और जो मांस अपने गुणों में विशेषता रखते हैं उन को कहते हैं।<sup>२</sup>

मोर का मांस—आंख, कान, मेधा, अग्नि, तारुण्य, वर्ण, स्वर और आयु के लिये हितकारी है। बलकारक, वायुनाशक और मांस एवं शुक्रवर्धक है। हंस का मांस, गुरु, उष्ण, स्निग्ध, मधुर, स्वर, वर्ण, बल को बढ़ाने वाला, वृंहण पुष्टिकारक, शुक्रवर्धक और वातनाशक है। कुक्कुट का मांस स्निग्ध, उष्ण, वृष्य, पुष्टिकारक, स्वर को अच्छा करने वाला, बलकारक और विशेषतः वातनाशक तथा पसाना लाता है। तित्तिर पक्षी का (मरुभूमि और आनूप देश दोनों स्थानों में रहने से) मांस

१ सुश्रुत में भी कहा है—

“वृंहणं मांसं मौरभ्रं पित्तश्लेष्मापहं गुरु” ॥

२ मिश्र-गोचरत्वात्—बकरी या भेड़ आनूप और मरु दोनों प्रदेशों में रहती है। इसलिये इन की योनि निश्चित नहीं है। तित्तिर पक्षी धन्व और आनूप किसी एक स्थान पर रहता है, ऐसा निश्चित करके कहा जा सकता है इसलिये वह इस श्रेणी में नहीं है।

मध्यम गुरु, मध्यम उष्ण और मध्यम मधुर है। वातप्रधान सन्निपात को शीघ्र शान्त करता है। कपिंजल पक्षी का मांस ठण्डा, मधुर और लघु होने से वात का जोर कम होने पर रक्तयुक्त पित्त या रक्तयुक्त कफ विकार में प्रशस्त है। लात्रा (वटेर) कपाय, मधुर, लघु, अग्निवर्धक, सन्निपात को शमन करने वाले और विपाक में कटु है।

घर में पाले हुए कवूतरों का मांस—कपाय, विशद, शीत, रक्तपित्तनाशक, मधुर विपाक वाला होता है। और जो कवूतर जंगल में रहते हैं, उन का मांस इन से कुछ हल्का और शीतल, संग्राही और मूत्र को कम करने वाला होता है। तोते का मांस—कपाय, विपाक में अम्ल, रूक्ष, ठण्डा, शोष, क्षय, दमा में हितकारी, स्तम्भक, हल्का, दीपक होता है। खरगोश का मांस—कपाय, स्वच्छ, रूक्ष, शीतल, विपाक में कटु, हल्का, मधुर और हीनवायु सन्निपात में प्रशस्त है। चिड़िया का मांस—मधुर, स्निग्ध, शक्ति व वीर्य को बढ़ाने वाला, सन्निपात को शान्त करने वाला और विशेषतः वायुनाशक है।<sup>१</sup> शिवा ( गीदड़ ) का मांस—मधुर रस, मधुर विपाक, त्रिदोषनाशक है। काले हरिण का मांस—हल्का, मल मूत्र को रोकने वाला और शीतल होता है। गोह का मांस—विपाक में मधुर और कपाय, कटु रस, वात-पित्तनाशक, पुष्टिकारक, बलवर्धक है। शहदूरी का मांस—मधुर, अम्लरस, विपाक में कटु, त्रिदोषनाशक, श्वास-कास नाशक है।

मछलियों का मांस—गुरु, उष्ण, मधुर, बलकारक, पुष्टिकारक, वायुनाशक, स्निग्ध, वृष्य, वीर्यवर्धक और बहुत से दोषों को उत्पन्न करने वाला है। रोहू मछली का मांस—शैवाल ( सरवाल ) का भोजन करने से, कभी न सोने से, दीपनीय अग्निवर्धक, पचने में लघु और बहुत बल देने वाला है।

सूअर का मांस—स्नेहन, वृंहण, वीर्यवर्धक, थकान और वायु-

१. वृष्य के लिये—“वृषि चटकमांसानां गत्वा थो ऽनु पिबेत्पयः।”

नाशक, बलकारक, रुचिकर और बहुत पसीना लाने वाला है । कल्लुए का मांस—बलकारक, वातनाशक, वीर्यवर्धक, आंखों के लिये हितकारी, बलवर्धक, मेधा, बुद्धि और स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला, आयु के लिये हितकारी, शोषनाशक है । गाय का मांस—केवल वात रोगों में, पीनस मे, विषम ज्वर में, सूखी खांसी में, थकान में, अग्नि या मांस के बहुत अधिक क्षय होजाने मे हितकारी है । भैंस का मांस—स्निग्ध, उष्ण, मधुर, वीर्यवर्धक, भारी, पुष्टिदायक, शरीर में दृढता, पुष्टि, उत्साहवर्धक और नींद लाने वाला है । हंस ( जिन के पांव और चोंच काले होते है ) चकोर, बत्तख, मोर और चिड़ियां इनके अण्डे वीर्य की क्षीणता मे, कास रोग में, हृदय रोग में, क्षत (उरःक्षत) मे हितकारी हैं । ये अण्डे मधुर अविपाकी और तत्काल बल दायक है । खाद्य पदार्थ में शरीर को पुष्ट करने के लिये मांस से बढ़कर और कोई दूसरी वस्तु नहीं है । यह तीसरा मांसवर्ग कह दिया ।

इति मांसवर्गः ।

अथ शाकवर्गः ।

पाठा शुषा शटीशाक वास्तुक सुनिषण्णकम् ।  
 विद्याद् ग्राहि त्रिदोषघ्नं भिन्नवर्चस्तु वास्तुकम् ॥ ८७ ॥  
 त्रिदोषशमनी वृष्या काकमाची रसायनी ।  
 नात्युष्णशीतवीर्या च भेदिनी कुष्ठनाशनी ॥ ८८ ॥  
 राजक्षवकशाकं तु त्रिदोषशमनं लघु ।  
 ग्राहि शस्तं विशेषेण ग्रहण्यशोविकारिणाम् ॥ ८९ ॥  
 कालशाकं तु कटुकं दीपनं गरशोफजित् ।  
 लघूष्णं वातलं रूक्षं कालीयं शाकमुच्यते ॥ ९० ॥  
 दीपनी चोष्णवीर्या च ग्राहिणी कफमारुते ।  
 अशयस्यतेऽम्लचाङ्गेरी ग्रहण्यशोहिता च सा ॥ ९१ ॥

मधुरा मधुरा पाके भेदिनी श्लेष्मवर्धिनी ।  
 वृष्या स्निग्धा च शीता च मदघ्नी चाप्युपोदिका ॥ ९२ ॥  
 रून्तो मदविषन्नश्च प्रशस्तो रक्तपित्तिनाम् ।  
 मधुरोऽमधुरः पाके शीतलस्तरुडुलीयकः ॥ ९३ ॥  
 मण्डूकपर्णी वेत्राग्रं कुचेला वनतिक्तकम् ।  
 कर्कोटकावलगुजकौ पटोलं शकुलादनी ॥ ९४ ॥  
 वृषपुष्पाणि शार्ङ्गेष्टा केवूकं सकठिल्लकम् ।  
 नाडी कलायं गोजिह्वा वार्ताकं तिलपर्णिका ॥ ९५ ॥  
 कुलकं कार्कशं निम्बं शाक पर्पटिकं च यत् ।  
 कफपित्तहरं तिक्तं शीतं कटु विपच्यते ॥ ९६ ॥  
 सर्वाणि सूप्यशाकानि फञ्जी चिल्ली कुतुम्बकः ।  
 आलुकानि च सर्वाणि सपत्राणि कुटिञ्जरम् ॥ ९७ ॥  
 शणशाल्मलिपुष्पाणि कर्बुदारः सुवर्चला ।  
 निष्पावः कोविदारश्च पत्तुरश्चुपर्णिका ॥ ९८ ॥  
 कुमारजीवो लोट्टकः पालङ्कथो सारिपस्तथा ।  
 कलम्बनालिकासूर्यः कुसुम्भवृकधूमकौ ॥ ९९ ॥  
 लक्ष्मणा प्रपुनाडी च नलिनीका कुठेरकः ।  
 लोणिका यवशाकं च कुष्माण्डकमवलगुजम् ॥ १०० ॥  
 यातुकः शालकल्याणी त्रिपर्णी पीलुपर्णिका ।  
 शाकं गुरु च रूक्षं च प्रायो विष्टभ्य जीर्यति ॥ १०१ ॥  
 मधुरं शीतवीर्यं च पुरीपस्य च भेदनम् ।  
 खिन्नं निष्पीडितरमं स्नेहाढ्यं तत्प्रशस्यते ॥ १०२ ॥  
 शणस्य कोविदारस्य कर्बुदारस्य शाल्मले ।  
 पुष्पं ग्राहि प्रशस्तं च रक्तपित्ते विशेषतः ॥ १०३ ॥  
 न्यग्रोवोदुम्बराश्वत्थप्लक्षपद्मादिपल्लवाः ।  
 कपायाः स्तम्भनाः शीता हिताः पित्तातिसारिणाम् ॥ १०४ ॥

वायुं वत्सादनी हन्यात्कफं गरडीरचित्रकौ ।  
 श्रेयसी बिल्वपर्णी च बिल्वपत्रं च वातनुत् ॥ १०५ ॥  
 भण्डी शतावरीशाकं बला जीवन्तिकं च यत् ।  
 पर्वण्याः पर्वपुण्याश्च वातपित्तहरं स्मृतम् ॥ १०६ ॥  
 लघु भिन्नशकृत्तित्तं लाङ्गलक्युरुबूकयोः ।  
 तिलवेतसशाकं च शाकं पञ्चाङ्गुलस्य च ॥ १०७ ॥  
 वातलं कटुतिक्ताम्लमधोमार्गप्रवर्तकम् ।  
 रुक्षाम्लमुष्णं कौसुम्भं कफघ्नं पित्तवर्धनम् ॥ १०८ ॥  
 त्रपुसैर्वारुकं स्वादु गुरु विष्टम्भि शीतलम् ।  
 मुखप्रियं च रूक्षं च मूत्रलं त्रपुसं त्वति ॥ १०९ ॥  
 एर्वारुकं च सपक्वं दाहवृष्णाङ्गुमार्तिनुत् ।  
 वर्चोभेदीन्यलावूनि रुक्षशीतगुरूणि च ॥ ११० ॥  
 चिर्भट्युर्वारुके तद्वद्वर्चोभेदहिते तु ते ।  
 कूष्माण्डमुक्तं सक्षारं मधुराम्लं तथा लघु ॥ १११ ॥  
 सृष्टमूत्रपुरीषं च सर्वदोषनिबर्हणम् ।  
 केलुटं च कदम्ब च नदीमाषकमैन्दुकम् ॥ ११२ ॥  
 विशदं गुरु शीतं च समभिष्यन्दि चोच्यते ।  
 उत्प्लानि कषायाणि रक्तपित्तहराणि च ॥ ११३ ॥  
 तथा तालप्रलम्बं च उरःक्षतरुजापहम् ।  
 खर्जूरं तालशस्यं च रक्तपित्तक्षयापहम् ॥ ११४ ॥  
 तरुटविसशालूकक्रौञ्चादनकशेरुकम् ।  
 शृङ्गाटमङ्गालोडयं च गुरु विष्टम्भि शीतलम् ॥ ११५ ॥  
 कुमुदोत्पलनालास्तु सपुष्पाः सफलाः स्मृताः ।  
 शीताः स्वादुकषायास्तु कफमारुतकोपनाः ॥ ११६ ॥  
 कषायमीषद्विष्टम्भि रक्तपित्तहरं स्मृतम् ।  
 पौष्करं तु भवेद्वीजं मधुरं रसपाकयोः ॥ ११७ ॥

बल्यः शीतो गुरु. स्निग्धस्तर्पणो वृहणात्मकः ।  
 वातपित्तहरः स्वादुर्वृष्यो युञ्जातकः स्मृतः ॥ ११८ ॥  
 जीवनां वृंहणो वृष्य. कण्ठ्य शस्तो रसायने ।  
 विदारिकन्दो बल्यश्च मूत्रल स्वादुशीतलः ॥ ११ ॥  
 अम्लिकायाः स्मृतः कन्दो ग्रहणशोहितो लघुः ।  
 अत्युष्णः कफवातघ्नो ग्राही शस्तो मदात्यये ॥ १२० ॥  
 त्रिदोषं बद्धविण्मूत्रं सार्पपं शाकमुच्यते ।  
 अतिगण्डालुकं विद्यात्कन्दत्वाच्च सुखप्रियम् ॥ १२१ ॥  
 सर्पच्छत्राकवर्ज्यास्तु बह्व्योऽन्याश्चत्रजातयः ।  
 शीताः पीनसकर्त्र्यश्च मधुरा गुर्व्य एव च ॥ ११२ ॥  
 चतुर्थं शाकवर्गोऽयं पत्रकन्दफलाश्रय ।

शाकवर्ग—पाटा, गुपा (सुशर्वा, कसौठी), कचूर, वास्तुक (बथुआ), सुनि-  
 पण्णक (मेथी) ये सब शाक भाजी ग्राहक, त्रिदोषनाशक है, परन्तु बथुआ  
 की भाजी ज़रा रेचक है । काकमाची ( मकोय ) की भाजी तीनों दोषों को  
 नाश करने वाली, पुष्टिदायक, और रसायन है । यह न तो बहुत गरम  
 और न बहुत ठण्डी है, मध्यमवीर्य, रेचक और कुष्ठनाशक है ।<sup>२</sup> राज  
 क्षवक (दूधी) की भाजी त्रिदोषनाशक, लघु, संग्राही है, ग्रहणी और अर्श  
 रोग में विशेषतः हितकारी है । काल नामक शाक—कटु, अग्निदीपक,  
 नयोरजन्य विपनाशक और शोथनाशक, लघु, उष्ण, वायुकारक और रुक्ष  
 है । नट्टी चांगेरी (चौपतिया) की भाजी—अग्निदीपक, उष्णवीर्य, संग्राही,  
 कफ-वायु रोग में उत्तम तथा ग्रहणी और अर्श रोग में हितकारी है ।  
 उपोदिना ( चौलाई ) मधुर रस, मधुर विपाक, रेचक, श्लेष्मवर्धक, वृष्य,  
 स्निग्ध, शीतल और उन्मादनाशक (धत्तूर आदि के मद को नष्ट करनेवाली)  
 है । तण्डुलीयक (चौलाई का भेद) रुक्ष, मद और विपनाशक, रक्तपित्त

<sup>२</sup> सुश्रुत में काकमाची को—“तित्ता काकमाची वातं शमयत्युष्ण-  
 वीर्यत्वात् ।” उष्णवीर्य कहा है ।

रोग मे श्रेष्ठ, मधुर रस, मधुर विपाक और शीतल है । मण्डूकपर्णी का शाक, बेंत का अग्र भाग, कुचेला, वनतिक्ता, ककोड़ा, अवलगुजा (बावची), परबल, शकुनादनी ( कुटकी ), अडूसे के फूल, शार्ङ्गैष्टा ( हस्तिकरंज ), केम्बुक, कठिलक ( पुनर्नवा ), नाड़ी ( नाड़ीच ), कलाय ( मटर ), गोजिह्वा ( गाज़बां ), वार्त्तक ( वैगन ), तिलपर्णी ( हुलहुल ), कुलक ( करेला या परबल का भेद ), कर्कश ( अरुणदत्त के अनुसार कुचला, चक्रदत्त के अनुसार कर्कोटक ), नीम का शाक, पित्तपापड़ा इन की भाजी कफ-पित्त नाशक, तिक्त, शीत और कटु विपाक है । 'सूप्य शाक' ( माषपर्णी, उडदपर्णी आदि ) फंजी ( ब्राह्मण, यष्टिका, भांगी ), चिल्ली<sup>१</sup> कुतुम्बक ( द्रोणपुष्पी, गोमा ), आलुक ( आलु, रतालु, पिण्डालु कन्द मूल ), इन के पते आर कुटिंजर ( जंगली बथुआ ), सन, सिम्बल के फूल, कबु-दार ( कचनार ), सुवर्चला ( हुलहुल ), निष्पाव ( पालक ), कोविदार ( लाल कचनार ), पत्तुर ( शालिच ), चुचुपर्णिका ( नाड़ीच का भेद ) उंदुरकानी ( आखुपर्णी ), कुमारजीव ( जीवगाक ), लोटाक ( लोहा मारिष ), पालंक्व ( पालक ), मारिष ( माठ ), कलम्ब, नालिका, आसुरी ( राई ), कुसुम्भ ( धनिया ), वृकधूमक ( भूरी शिरीष ), लक्ष्मण, प्रपुत्राड ( चक्रमर्द ), नलिनी ( कमलकी नाल, भिस ), कुठेरक ( तुलसी भेद ), लोणिका ( लूणी ), यवशाक ( खेत पापड़ा ), कुष्माण्डक ( पेठा ), अवलगुजा ( बावची ), यातुक ( सफेद शालपर्णी ), शालकल्याणी, त्रिपत्री ( हंसपादिका ), पीलुपर्णी ( मोरटक, मोरबेल ), इन की भाजी गुरु, रुक्ष और प्रायः करके जब तक पचती नहीं, तब तक पेट में अफ़रा करती है । मधुर, शीतवीर्य और मल के रेचक हैं । इन को पानी मे भापकर ( बिना बाहर का पानी मिलाये । रस निकाल कर इस में घी या तैल मिलाकर खाना उत्तम है ।

सन, कचनार, लाल कचनार और सिम्बल इन के फूल संग्राही है,

१. 'चिल्ली'—'माषपर्ण्यां शुनः पुच्छे चिल्ली स्याच्छाकलोध्रयो ॥' ध० नि०



इसलिये रक्तपित्त में विशेषतः प्रशस्त हैं । न्यग्रोध (बड), गूलर, पीपल, पिलखन, कमल आदि के पत्ते कपाय रस, स्तम्भक, शीत तथा पित्तातिसार में हितकारी हैं ।

वत्सादनी ( गिलोय ) की भाजी वायु नाशक, गण्डीर (शमठ, कडुवा जिमीकन्द ) और चीता की भाजी कफनाशक, श्रेयसी ( गज पिप्पली ), त्रिवृपर्णी और बेल के पत्तों की भाजी वायुनाशक है । भण्डी ( भिण्डी ), शतावर, बला, खरैटी, जीवन्ती, पर्वणी ( इन्द्रवारुणी ), पर्वपुष्पी ( कुकुटी ) इन की भाजी वातपित्तनाशक है । लंगली ( कलिहारी की जड ), लाल एरण्ड की भाजी तिक्त, रेचक और लघु है । तिक्त, अम्ल वेतस ( या वेंत का शाक ), या एरण्ड की भाजी वायुकारक, कटु, तिक्त, अम्ल तथा रेचक है । कुसुम्भ की भाजी रुक्ष, अम्ल, उष्ण, कफनाशक, पित्तवर्धक है । त्रपुस ( खीरा ), उर्वारुक ( ककड़ी ), स्वादु, गुरु, अवष्टम्भ करने वाली और शीतल है । इनमें खीरा मुखप्रिय ( खाने में स्वादु ), रुक्ष और बहुत मूत्र लाने वाला है । पका हुआ उर्वारुक ( ककड़ी, खरबूजा ) प्यास, जलन और थकान को नष्ट करती है । अलावू ( दूधी, घीया, आल ) मल की रेचक, रुक्ष, शीतल और गुरु है । चिर्भंटी ( ककड़ी ), एर्वारुक भी रेचक है । पेठा कटु क्षारयुक्त, मधुर, अम्ल, लघु, मल मूत्र का रेचक, त्रिदोषनाशक है ।<sup>१</sup>

केलुट ( केचुक कन्द शाक ) और कडम्ब नन्दी मापक ( उन्दी मानवक ), पेन्द्रक ( निःक्षार ) इन की भाजी स्वच्छ, गुरु, शीतल, कफकारक हैं । नीला कमल कपाय रस और रक्तपित्तनाशक है । ताल प्रलम्ब ( ताड़ का अंकुर ), सज्जर, तालशस्य ( ताल के सिर की मज्जा ) रक्त पित्त और

१ कच्चे और पके कृष्णामण्ड के गुणों में अन्तर है । यथा—

“पित्तघ्नं तेषु कृष्णामण्डं बालं मध्यं कफावहम् ।

पक्व लघूष्णं स क्षारं दीपनं वस्तिशोधनम् ॥

सर्वदोषहरं हृद्यम्—॥”

क्षयरोगनाशक है । तरुट ( कमल का कन्द ) बिस वा भिस, कमल की दण्डी, लाल कमल का कन्द, कौंचादन ( डूकर कन्द, कमल ), कशेरु, शृंगाटक ( सिंघाड़ा ), अंकालोड्य ( ह्रस्व उत्पलकन्द ), गुरु, विष्टम्भी और शीतल हैं । कुमुद ( श्वेत कमल ), उत्पल ( नीला कमल ), फूल और फल समेत शीतल, मधुर, कषाय रस, कफ वायु के प्रकोपक हैं । पुष्कर ( पोहकर ) का बीज कषाय रस, थोड़ा विष्टम्भ करने वाला, रक्तपित्तनाशक मधुर रस और मधुर विपाक है । गुंजातक ( औत्तरपथिक कन्द ) बलकारक, शीतल, गुरु, स्निग्ध, तृप्तिकारक, वृंहण पुष्टिकारक, वात-पित्तनाशक, मधुर वृष्य है । त्रिदारीकन्द, जीवनीय, वृंहण, वृष्य, स्वर के लिये हितकारी, रसायन में प्रशस्त, बलकारक, मूत्ररेचक, मधुर और शीतल है । अम्ली कन्द ( आसाम में होता है आंवर जाति का कन्द ) ग्रहणी, अर्श में हितकारी, लघु, बहुत गरम, कफ-वातनाशक, संग्राही और मदात्यय रोग में प्रशस्त है । सरसों का शाक—त्रिदोषकारक, मल मूत्र का अवरोधक है । पिण्डालु ( रतालु ) भी इसी प्रकार का है, परन्तु कन्द जाति का होने से खाने में अच्छा लगता है । सर्पच्छत्रक ( सांप की छतरी ) को छोड़कर अन्य सब इस प्रकार की भाजियां ( खुम्बी आदि ) शीतल, पीनस रोग को उत्पन्न करने वाली, मधुर गुरु होती हैं । इस प्रकार से पत्ते, कन्द और फल वाला शाक वर्ग समाप्त हुआ ।

इति शाक वर्गः ।

अथ फलवर्गः ।

तृष्णादाहज्वरश्चासरक्तपित्तक्षतक्षयान् ।

वातपित्तमुदावत्तं स्वरभेदं मदात्ययम् ॥ १२३ ॥

तिक्तास्यतामास्यशोषं कासं चाशु व्यपोहति ।

मृद्धीका वृंहणी वृष्या मधुरा स्निग्धशीतला ॥ १२४ ॥

मधुरं वृंहणं वृष्यं खर्जूरं गुरु शीतलम् ।

क्षयेऽभिघाते दाहे च वातपित्ते च तद्धितम् ॥ १२५ ॥

तर्पणं बृंहणं फल्गु गुरु विष्टम्भि शीतलम् ।  
 परूपकं मधूकं च वातपित्ते च शस्यते ॥ १२६ ॥  
 मधुरं बृंहणं बल्यमाभ्रातं तर्पणं गुरु ।  
 सस्त्रेहं श्लेष्मलं शीतं वृष्यं विष्टभ्य जीर्यति ॥ १२७ ॥  
 तालशस्यानि सिद्धानि नारिकेलफलानि च ।  
 बृंहणस्त्रिग्वशीतानि बल्यानि मधुराणि च ॥ १२८ ॥  
 मधुराम्लकपायं च विष्टम्भि गुरु शीतलम् ।  
 पित्तश्लेष्मकरं भव्यं ग्राहि वक्तृविशोधनम् ॥ १२९ ॥  
 अम्लं परूपकं द्राक्षा वदराण्यारुकाणि च ।  
 पित्तश्लेष्मप्रकोपीणि कर्कण्धुलकुचान्यपि ॥ १३० ॥  
 नात्युष्णं गुरु संपक्वं स्वादुप्रायं मुखप्रियम् ।  
 वृंहणं जीयेति क्षिप्रं नातिदोषलमारुकम् ॥ १३१ ॥  
 द्विविधं शीतमुष्णं च मधुरं चाम्लमेव च ।  
 गुरु पारावतं ज्ञेयमरुच्यत्यग्निनाशनम् ॥ १३२ ॥  
 भव्यादल्पान्तरगुणं काष्मर्यफलमुच्यते ।  
 तथैवालपान्तरगुणं तूदमम्लपरूपकात् ॥ १३३ ॥  
 कपायमधुरं टङ्कं वातलं गुरु शीतलम् ।  
 कपित्थं विषकण्ठन्नमासं संग्राहि वातलम् ॥ १३४ ॥  
 मधुराम्लकपायत्वात्सौगन्ध्याच्च रुचिप्रदम् ।  
 तदेव पक्वं दोषन्नं विषन्नं ग्राहि गुर्वपि ॥ १३५ ॥  
 विल्वं तु दुर्जरं सिद्धं दोषलं पूतिमारुतम् ।  
 क्षिप्रबोष्णतीक्ष्णं तदालं दीपनं कफवातजित् ॥ १३६ ॥  
 वातपित्तकरं बालमापूर्णं पित्तवर्धनम् ।  
 पक्वमास्रं जयेद्वायुं मांसशुक्रबलप्रदम् ॥ १३७ ॥  
 कपायमधुरप्रायं गुरु विष्टम्भि शीतलम् ।  
 जाम्बव कफपित्तन्नं ग्राहि वातकरं परम् ॥ १३८ ॥

मधुरं बदरं स्निग्धं भेदनं वातपित्तजित् ।  
 तच्छुष्कं कफवातघ्नं पित्ते न च विरुध्यते ॥ १३९ ॥  
 कषायमधुरं शीतं ग्राहि सिम्बितिकाफलम् ।  
 गाङ्गेरुकं करीरं च बिम्बीतोदनधन्वनम् ॥ १४० ॥  
 मधुरं सकषायं च शीतं पित्तकफापहम् ।  
 संपक्वं पनसं मोचं राजादनफलानि च ॥ १४१ ॥  
 स्वादूनि सकषायाणि स्निग्धशीतगुरूणि च ।  
 कषायविशदत्वाच्च सौगन्ध्याच्च रुचिप्रदम् । १४२ ॥  
 श्रवदंशक्षमं रूक्षं वातलं लवलीफलम् ।  
 नीपं सभार्गकं पीलु तृणशून्यं<sup>१</sup> विकङ्कतम् ॥ १४० ॥  
 प्राचीनामलकं चैव दोषघ्नं गरहारि च ।  
 ऐङ्गुदं तिक्तमधुरं स्निग्धोष्णं कफवातजित् ॥ १४४ ॥  
 तिन्दुकं कफपित्तघ्नं कषायमधुरं लघु ।  
 विद्यादामलके सर्वान् रसाल्लवणवर्जितान् ॥ १४५ ॥  
 स्वेदमेदकफोत्क्लेदपित्तरोगविनाशनम् ।  
 रूक्षं स्वादु कषायाम्लं कफपित्तहरं परम् ॥ १४६ ॥  
 रसासृङ्मांसमेदोजान्दोषान् हन्ति विभीतकम् ।  
 अम्लं कषायमधुरं वातघ्नं ग्राहि दीपनम् ॥ १४७ ॥  
 स्निग्धोष्णं दाडिमं हृद्यं कफपित्ताविरोधि च ।  
 रूक्षाम्लं दाडिमं यत्तु तत्पित्तानिलकोपनम् ॥ १४८ ॥  
 मधुरं पित्तनुत्तेपां तद्धि दाडिममुत्तमम् ।  
 वृक्षाम्ल ग्राहि रूक्षोष्णं वातश्लेष्मणि शस्यते ॥ १४९ ॥  
 अम्लिकायाः फलं पक्वं तस्मादल्पान्तरं गुणैः ।  
 गुणैस्तैरेव संयुक्तं भेदनं त्वम्लवेतसम् ॥ १५० ॥  
 शूलेऽरुचौ विबन्धे च मन्देऽग्नौ मद्यविकृषे ।

हिक्काकासे च श्वासे च वम्यां वर्चोऽगदेपु च ॥ १५१ ॥  
 वातश्लेष्मसमुत्थेषु सर्वेष्वेतेषु दिश्यते ।  
 केशरं मातुलुङ्गस्य लघु शीतमतोऽन्यथा ॥ १५२ ॥  
 गुर्वी त्वगस्य कटुका मारुतस्य च नाशिनी ।  
 रोचनो दीपनो हृद्यः सुगन्धिस्त्वग्विवर्जितः ॥ १५३ ॥  
 कर्चूरः कफवातघ्नः श्वासहिक्कार्शसां हितः ।  
 मधुरं किञ्चिदम्लं च हृद्यं भक्तप्ररोचनम् ॥ १५४ ॥  
 दुर्जरं वातशमनं नागरङ्गफलं गुरु ।  
 वाताभाभिपुकाक्षोटमकूलकनिकोचकाः ॥ १५५ ॥  
 गुरूष्णस्निग्धमधुराः सौरुमाणा बलप्रदाः ।  
 वातघ्ना वृंहणा वृष्याः कफपित्ताभिवर्धनाः ॥ १५६ ॥  
 पियालमेपां सदृशं विद्यादौष्ण्यं विना गुणैः ।  
 श्लेष्मलं मधुरं शीतं श्लेष्मातकफलं गुरु ॥ १५७ ॥  
 श्लेष्मलं गुरु विष्टम्भि चाङ्कोटफलमग्निजित् ।  
 गुरूष्णं मधुरं रूक्षं<sup>१</sup> केशघ्नं च शमीफलम् ॥ १५८ ॥  
 विष्टम्भयति कारञ्जं पित्तश्लेष्माविरोधि च ।  
 आम्रातकं दन्तशठमम्लं सकरमर्दकम् ॥ १५९ ॥  
 रक्तपित्तकरं विद्यादैरावतकमेव च ।  
 वातघ्नं दीपनं चैप वार्ताकं कटुतिक्तकम् ॥ १६० ॥  
 वातलं कफपित्तघ्नं विद्यार्त्पटकीफलम् ।  
 पित्तश्लेष्मघ्नमम्लं च वातलं चाक्षिकीफलम् ॥ १६१ ॥  
 मधुराण्यनुपाकीनि वातपित्तहराणि च ।  
 अश्वत्थादुन्वरप्लक्ष्म्यग्राधानां फलानि च ॥ १६२ ॥  
 कपायमधुरान्त्वानि वातलानि गुरूणि च ।  
 भस्त्रतकास्थ्यग्निसमं त्वङ्मांसं स्वादु शीतलम् ।

१. 'शीत' इति च पाठः ।

पञ्चमः फलवर्गोऽयमुक्तः प्रायोपयोगिकः ॥ १६३ ॥

फलवर्ग—पकी हुई किशमिश ( दाख ) प्यास, जलन, ज्वर, श्वास, रक्त पित्त, उरःक्षत, क्षय, वातपित्त, उदावर्त्त, स्वरभेद मदात्यय, मुख की कटुता मुखशोष और कास को शीघ्र नष्ट करती है। यह वृंहणी पुष्टिकारक, वृष्य, मधुर, स्निग्ध, शीतल है। खजूर मधुर, पुष्टिकारक, शुक्रवर्धक, गुरु शीतल, क्षय, चोट लगने, जलन और वात-पित्त रोग में हितकारी है। फल्गु ( गूलर ) तृप्तिकारक, वृंहण, गुरु, विष्टम्भी और शीतल है। फालसा और महुवा वात-पित्त रोग में उत्तम है। आम्रात ( आमड़ा ) मधुर, पुष्टिकारक, बलकारक, तृप्तिकारक, गुरु, स्निग्ध, कफकारक, शीतल, वृष्य और पेट में अफ़ारा करता है। ताल के फल ( ताड़फल ) पका हुआ नारियल वृंहण, स्निग्ध, शीतल, बलकारक और मधुर होते हैं।

भव्य (कमरख) मधुर, अम्लकषाय, विष्टम्भि, गुरु, शीतल, पित्तश्लेष्मकारक, स्तम्भक और मुख को शोधन करता है। खट्टा फालसा, द्राक्षा, झाड़ी के बेर, आरुक (आहु या आलुबुखारा) ये पित्तकफ को कुपित करने वाले हैं। इसी प्रकार बेर और लकुच (द्वयो) भी पित्त-कफकोपक है। आरुक ( पका हुआ आहु अथवा आलुबुखारा ) बहुत गरम नहीं, स्वादु-मधुर और खाने में स्वादिष्ट, वृंहण पुष्टिकारक, जल्दी पच जाता है, बहुत अधिक दोषों को नहीं बढ़ाता। पारावत ( कामरूप में प्रसिद्ध है ) दो प्रकार का है। मधुर और अम्ल। इनमें मधुर शीतल और अम्ल, उष्ण है। गुरु, अरुचि और अग्नि की तीक्ष्णता को नाश करता है।

काश्मरी (गम्भारी) का फल लगभग कमरख के फल के समान है, इसी प्रकार खट्टे फालसे के समान तूद ( औत्तरपथिक, शहतूत ) भी है। टंक का फलकषाय मधुर, चातुल, गुरु और शीतल है। कैथ विष और कण्ठ (स्वर) को नाश करने वाला (स्वर बिठानेवाला), आम का संग्राहक, वायुकारक है। पका हुआ कैथ मधुरअम्लकषाय रस एवं सुगन्धित होने से खाने में रुचिकर और यही समय पर पक जाने पर दोषनाशक, विष-

नाशक, संग्राही और गुरु है। पका हुआ वेल पकने में दुर्जर, दोषकारक, बहुत दुर्गन्धयुक्त वायु करने वाला है। कच्चा वेल स्निग्ध, उष्ण, तीक्ष्ण, अग्निदीपक, कफ-वायुनाशक है। कच्चा आम (गुठली बैठने से पहिले) वात पित्तकारक, पित्तकारक है। पकने पर आम वायुनाशक, मास शुक्र और बलवर्द्धक है। पका हुआ जामुन कपाय मधुर रस, गुरु विष्टम्भी, शीतल, कफ-पित्तनाशक, संग्राही और वायुकारक है। वेर मधुर, स्निग्ध, रेचक, वात-पित्तनाशक है, सूखा वेर कफ-वातनाशक और पित्त के लिये अविरोधी है, पित्त का प्रकोप नहीं करता। सिन्धितिका (सेव, सफरजंद) कपाय, मधुर-रस, शीतल, संग्राही है। गगेरन (नागवला) और करीर (करौदा), विम्बी, तोदन और धाय के फल मधुर-कपाय, शीतल, पित्त-कफनाशक हैं। पका हुआ कटहल, केला और राजादन (क्षीरी) स्वादु, कपाय, स्निग्ध, शीतल, गुरु है।

लवली का फल कपाय और स्वच्छ होने से रुचिकर, रूक्ष, वायुकारक तथा अवदंशक्षम अर्थात् इस फल को खाकर दूसरे वस्तुओं में रुचि होती है नीप (कदम्ब), शताह्वक (शरका), पीलु, वृणशून्य (केतकी फल), विकङ्कत, प्राचीन आमलक (पानीय आमलक), दोषनाशक और त्रिपनाशक है। इंगुद ( पुत्रजीवक, हिंगोट ) का फल तिक्त, मधुर, स्निग्ध, उष्ण और कफ-वातनाशक है। तिन्दुकफल (केन्दु) कफ-पित्तनाशक, कपाय, मधुर और लघु है। आंवले में लवण रस को छोड़कर और सब रस हैं। स्वेद (पर्साना), मेद, कफ, उल्लेद (वमन की रुचि) और पित्त के रोगों को नष्ट करता है। रूक्ष, स्वादु, कपाय, अम्ल, कफ-पित्तनाशक है। विभीतक (बहेडा), रस, रक्त, मास, मेदजन्य रोगों को नष्ट करती है। अनार खट्टा, कपाय, मधुर, वातनाशक, संग्राही, अग्निदीपक, स्निग्ध और उष्ण है, तथा हृदय के लिये रुचिकर कफपित्त का अविरोधी ( प्रकोपक नहीं ) रूक्ष है। खट्टा अनार रूक्ष, पित्त-वायु का प्रकोपक है। मीठा अनार पित्तनाशक है इन सब में खट्टा अनार श्रेष्ठ है।

वृक्षाम्ल (कोकम) संग्राही, रुक्ष, उष्ण, वात-कफ में प्रशस्त है। अम्लिका (इमली) का फल पकने पर लगभग कोकम के समान गुण वाला होता है। अम्लवेतस का गुण भी इसी प्रकार है, परन्तु रेचक है। मातुलंग (बिजौरे तिम्वू) का केशर शूलअरुचि, विबन्ध में, मन्दाग्नि में, मदात्यय में, हिक्का, कास, श्वास में, वमन में, मल सम्बन्धी रोगों में और वात-कफ-जन्य रोगों में प्रशस्त है और लघु है। इसकी छाल, गिरी आदि गुरु और वात-प्रकोपक है।

विना छाल का कचूर रोचक, अग्निदीपक, हृदयके लिये हितकारी, सुगन्धित, कफ-वातनाशक, श्वास, हिचकी और अर्श रोग में हितकारी है। नारंगी का फल मधुर, कुछ खट्टा, हृद्य, खाने में रुचिकर, पचने में दुर्जर, वातनाशक और गुरु है। बादाम, अभिषुक् (पिस्ता), अखरोट, मकूलक, निकोच, गुरु, उष्ण स्निग्ध, मधुर, शक्तिवर्धक, वायुनाशक, पुष्टिदायक और कफ-पित्त को बढ़ाने वाला है। इनमें पियाल के गुण भी इसी के समान हैं, परन्तु वह उष्ण नहीं है। श्लेष्मातक (लसूडे) का फल कफकारक, मधुर, शीतल, गुरु है। अंकोटक का फल कफकारक, गुरु, विष्टम्भी और अग्निनाशक है। शमी (जंही) का फल गुरु, उष्ण, मधुर, शीतल और बालों का नाशकारक है। करंज का फल विष्टम्भी और वात-कफ के लिये अविरोधी है।

आम्रातक, दन्तशठ (निम्बू, खट्टा), करौंदा और ऐरावत (अम्लतक नारंगी) ये रक्त-पित्तनाशक हैं। वार्ताक (बेंगन) वातनाशक, अग्निदीपक, कटुतिक्त रस है। पित्तपापडे का फल वायुकारक और कफ-पित्तनाशक है। बहेड़ा पित्त-कफनाशक, खट्टा और वायुकारक है। पीपल, गूलर, पिलखन, बड़ इनके फल पकने पर मधुर और वात-पित्तनाशक हैं। कच्चे फल कषाय मधुर, अम्ल, वायुकारक और गुरु हैं। भिलावे का फल अग्नि के समान (छाले डालने वाला) है, भिलावे की छाल, मज्जा स्वादु, शीतल है। इस प्रकार से उपयोगी पाचवां फलवर्ग भी कह दिया है।

इति फलवर्गः ।



अथ हरितवर्गः ।

रोचन दीपनं वृष्यमार्द्रकं विश्वभेषजम् ।  
 वातश्लेष्मविवन्धेषु रसस्तस्योपदिश्यते ॥ १६४ ॥  
 रोचनो दीपनस्तीक्ष्णः सुगन्धिर्मुखशोधनः ।  
 जम्बीरः कफवातघ्नः कृमिघ्नो मुक्तपाचनः ॥ १६५ ॥  
 वालं दोषहरं, वृद्धं त्रिदोषं, मारुतापहम् ।  
 स्निग्धसिद्धं, विशुष्कं तु मूलकं कफवातजित् ॥ १६६ ॥  
 हिक्काकासविपश्वासपार्श्वशूलविनाशनः ।  
 पित्तकृत्कफवातघ्नः सुरसं पूतिगन्धहा ॥ १६७ ॥  
 यवानी चार्जकश्चैव शिशुशालेयमृष्टकम् ।  
 हृद्यान्यास्वादनीयानि पित्तमुत्क्लेशयन्ति च ॥ १६८ ॥  
 गण्डीरो जलपिप्पल्यस्तुगवुरुः शृङ्गवेरिका ।  
 तीक्ष्णोष्णकटुरुणाणि कफवातहराणि च ॥ १६९ ॥  
 पुस्तकं, कटुरुक्षोष्णो भूतृणो वक्रशोधनः ।  
 खराश्चा कफवातघ्नी वस्तिरोगरुजापहा ॥ १७० ॥  
 धान्यकं चाजगन्धा च सुमुखाश्चेति रोचनाः ।  
 सुगन्धना नातिकटुका दोषानुत्क्लेशयन्ति च ॥ १७१ ॥  
 ग्राही गृञ्जनकस्तीक्ष्णो वातश्लेष्मार्शसां हितः ।  
 स्वेदनेऽभ्यवहार्ये च योजयेत्तमपित्तिनाम् ॥ १७२ ॥  
 श्लेष्मलो मारुतघ्नश्च पलाण्डुर्न च पित्तनुत् ।  
 आहारयोगी बल्यश्च गुरुवृष्योऽथ रोचनः ॥ १७३ ॥  
 कृमिकुष्ठकिलासघ्नो वातघ्नो गुल्मनाशनः ।  
 स्निग्धश्चाष्णश्च वृष्यश्च लघुश्च कटुको गुरुः ॥ १७४ ॥  
 शुष्काणि कफवातघ्नान्येतान्येषां फलानि च ।  
 हरितानामयं चैषां पष्टो वर्गः समाप्यते ॥ १७५ ॥

हरितवर्ग—आर्द्रक (अदरक) रोचक, अग्नित्रीपक, वीर्यवर्धक है । इस

का रस वात-कफजन्य अवरोधों में गुणकारी है । नीम्बू रुचिकारक, दीपक, तीक्ष्ण, सुगन्धित, मुख को साफ करने वाला, कफ-वातनाशक, कृमिनाशक और अन्न का पाचक है । कच्ची मूली दोषनाशक है और बढ़नेपर (पकजाने पर) त्रिदोषकारक है । स्निग्ध और सिद्ध (न कच्ची और न पकी) मूली वायु-नाशक, सूखी मूली कफ-वातनाशक है<sup>१</sup> । तुलसी हिचकी, कास, विष, श्वास, पार्श्वशूल का नाश करती तथा पित्तकारक, कफ-वायुनाशक एवं शरीर तथा अन्न के दुर्गन्ध को नष्ट करती है । अजवायन, अर्जक (अजवला), शोभा-जन, शालेयमृष्टक (मिस्तेय, चनेकी पत्ती) और राई ये हृदय को प्रिय और स्वादिष्ट तथा पित्तवर्धक है । गण्डीर (लाल और श्वेत भेद से दो प्रकार का है । यहां पर लाल का ग्रहण है और श्वेत को शाकवर्ग में कह दिया है), जलपिप्पली, तुम्बरु, गोजिह्वा (गाज़वां<sup>१</sup>) ये तीक्ष्ण, उष्ण, कटु रुक्ष, कफ-वायुनाशक हैं । भूस्तृण (गन्धतृण) पुरुपत्वनाशक, कटु, रुक्ष, उष्ण और मुख का शोधक है । खराश्वा ( कालाजीरा ) कफ-वातनाशक, वस्तिरोग और वस्तिशूल-नाशक है ।

धनिया, अजवायन, सुमुखा ( तुलसी भेद ) रोचक, सुगन्धि, बहुत कटु नहीं और दोषों को उत्तेजित करते हैं । गाजर (गृजन) या शलजम संग्राही, तीक्ष्ण, वात-कफ अर्श रोग में हितकारी, स्वेदन कार्य में हितकारी है, इसका उपयोग पित्त जहां न बढ़ा हो वहां पर करना चाहिये । पलाण्डु ( प्याज़ ) कफकारक, वायुनाशक है, परन्तु पित्तनाशक नहीं है । भोजन में उपयोगी, बलकारक, गुरु, वृष्य और रुचिकर है । लहसुन कृमि, कुष्ठ, किलास रोगनाशक, वायुनाशक, गुल्मनाशक, स्निग्ध और उष्ण, वीर्य-

१. मूली—यावद्धि चाव्यत्तरसान्वितानि, नवप्ररूढानि च मूलकानि ।

तावल्लघु दीपनानि पित्तानिलश्लेष्महराणि चैव ॥

१ शृङ्गवेरी—शृङ्गवेरवदाकृत्या शृङ्गवेरीतिभाषिता ।

कुस्तुम्बुरुसमाकृत्या तुम्बुरुणि वदन्ति च ॥

वर्धक, कटु और गुरु है । ये सब सूखे होने पर तथा इनके फल कफवायु  
नाशक हैं । यह छटा हरितवर्ग समाप्त हुआ ।

इति हरितवर्गः ।

अथ मद्यवर्गः ।

प्रकृत्या मद्यमम्लोष्णमम्लं चोक्तं विपाकतः ।  
सर्वं सामान्यतस्तस्य विशेष उपदेक्ष्यते ॥ १७६ ॥  
कृशानां सक्तमूत्राणां ग्रहण्यशीं विकारिणाम् ।  
सुरा प्रशस्ता वातघ्नी स्तन्यरक्तक्षयेषु च ॥ १७७ ॥  
हिक्काश्वासप्रतिश्यायकासवर्चोप्रहारुचौ ।  
वम्यानाहविवन्धेषु वातघ्नी मदिरा हिता ॥ १७८ ॥  
शूलप्रवाहिकाटोपकफवातार्शसां हितः ।  
जगलो ग्राहिरुक्षोष्ण शोफघ्नो भुक्तपाचनः ॥ १७९ ॥  
शोफाशीं ग्रहणीदोषपाण्डुरोगारुचिञ्चरान् ।  
हन्त्यरिष्टः कफकृणान् रोगान् रोचनदीपनः ॥ १८० ॥  
मुखप्रियः सुखमदः सुगन्धिर्वस्तिरोगनुत् ।  
जरणीय परिणतो हृद्यो वर्यश्च शार्करः ॥ १८१ ॥  
रोचनो दीपनो हृद्यः शोषशोफार्शसां हितः ।  
स्नेहश्लेष्मविकारघ्नो वर्यः पक्करसो मतः ॥ १८२ ॥  
जरणीयो विवन्धघ्नः स्वरवर्णविशोधनः ।  
कर्पण शीतरसिको हितः शोफोदरार्शसाम् ॥ १८३ ॥  
सृष्टभिन्नशकृद्घातो गौडस्तर्पणदीपनः ।  
पाण्डुरोगघ्नरहिता दीपनी चाक्षिको मता ॥ १८४ ॥  
सुरासवस्तीव्रमदो वातघ्नो वदनप्रियः ।  
छेदी मध्वासवस्तीक्ष्णो मैरेयो मधुरो गुरुः ॥ १८५ ॥  
धातक्याभिपुतो हृद्यो रुक्षो रोचनदीपनः ।  
माध्वीकवन्न चात्युष्णो मृद्धीकेशुरसासवः ॥ १८६ ॥

रोचनं दीपनं हृद्यं बल्यं पित्ताविरोधि च ।  
 विबन्धघ्नं कफघ्नं च मधु लघ्वल्पमारुतम् ॥ १८७ ॥  
 सुरा समण्डा रूक्षोष्णा यवानां वातपित्तला ।  
 गुर्वी जीर्यति विष्टभ्य श्लेष्मला तु मधूलिका ॥ १८८ ॥  
 दीपनं जरणीयं च हृत्पाण्डुकुमिरोगनुत् ।  
 ग्रहण्यशोहितं भेदि सौवीरकतुषोदकम् ॥ १८९ ॥  
 दाहज्वरापहं स्पर्शात्पानाद्वातकफापहम् ।  
 विबन्धघ्नमविस्रसि दीपनं चाम्लकाञ्जिकम् ॥ १९० ॥  
 प्रायशोऽभिनवं मद्यं गुरु दोषसमीरणम् ।  
 स्रोतसां शोधनं जीर्णं दीपनं लघु रोचनम् ॥ १९१ ॥  
 हर्षणं प्रीणनं बल्यं भयशोकश्रमापहम् ।  
 प्रागल्भ्यवीर्यप्रतिभातुष्टिपुष्टिबलप्रदम् ॥ १९२ ॥  
 सात्त्विकैर्विधिवद्युक्त्या पीतं स्यादमृतं यथा ।  
 चर्गोऽयं सप्तमो मद्यमधिकृत्य प्रकीर्तितः ॥ १९३ ॥

मद्यवर्ग—स्वभाव से मद्य खट्टा, उष्ण है वह रस में अम्ल नहीं, विपाक में अम्ल है । पीने पर दांत खट्टे होजाते हैं, मुख से छाव होता है इसलिये अम्ल<sup>१</sup> है । यह बात सब मद्यों में समान है, विशेष रूप से आगे कहते हैं । सुरा ( अनुद्धतमण्डा ) कृश मूत्र रुक जाने पर, ग्रहणी, अर्शरोग के लिये हितकारी, वायुनाशक तथा स्तन्य ( दूध ) और रक्तक्षय में उपकारी है । मदिरा ( सुरामण्ड ) हिचकी, श्वास, प्रतिश्याय, कास, मलावरोध, अरुचि, वमन, अफारा, विबन्ध में हितकारी एवं वायुनाशक है । जगल ( अन्न से बनी सुरा ) शूल, प्रवाहिका, अफारा, कफ वायु और अर्शरोग में हितकारी है । संग्राही, रूक्ष, उष्ण, शोफनाशक और अन्न को पचाने वाली है । अरिष्ट ( औषध काथ से सम्पादित ) शोष, अर्श, ग्रहणी, पाण्डु, अरुचि, ज्वर एवं कफजन्य रोगों को नष्ट करता है, रोचक

और अग्निवर्धक है। शार्कर (शर्करा का प्राकृतिक आसव) खाने में प्रिय, सुखपूर्वक नशा करने वाला, सुगन्धित, वस्तिरोगनाशक, जीर्ण होकर पचने वाला, हृदय को प्रिय, वर्ण, कान्तिकारक है। पक्क रस (गन्ने के रस को पका कर बनाने पर) रोचक, अग्निदीपक, हृद्य, शोष, शोफ, अर्श रोग में हितकारी, स्नेह-श्लेष्मा के रोगों का नाशक और कान्तिकारक है। शीत रस (गन्ने के अपक्क रस से बनाया) लाघवकारक, विबन्धनाशक, स्वर वर्ण को साफ करने वाला, लेखन, शोफ, उदर, अर्श रोग में हितकारी है। गौड (गुड़ से बना) मद्य रेचक, वायु का अनुलोमक, तृप्तिकारक और अग्निवर्धक है। बहेडे का मद्य पाण्डुरोग, व्रण में हितकारी और दीपक है। सुरासव (सुरा को ही पानी के स्थान पर जहाँ व्यवहार करें) तीव्र मदकारी, वायुनाशक, मुख और शरीर के लिये प्रिय है। महुवे के फूलों से बना आसव छेदक और तीक्ष्ण है, मैरेय<sup>२</sup> मधुर और गुरु है। धाय के फूलों से बना आसव हृद्य, रूक्ष, रोचक और दीपक है। मृद्वीका रस और गन्ने के रस को मिलाकर तैयार किया हुआ आसव माध्वीक से बने आसव के समान गरम नहीं, रोचक, दीपक, हृद्य, बलकर और पित्त के लिये अविरोधी है। शहद प्रधान आसव विबन्धनाशक, कफनाशक, लघु और थोड़ी वायुकारक है। सुरा समण्डा (बबतण्डुलों से बनी) सुरा रूक्ष, उष्ण, वात-पित्तकारक है। मधूलक (गेहूं से बनी मद्य) गुरु, पेट में अफारा करके जीर्ण होती है, कफकारक है। धान्य-तुष से बनी कांजी दीपक, लघु, हृदय पांडु, कृमि, रोगनाशक, प्रहृणी, अर्शरोग में हितकारी और रेचक है। खट्टी कांजी के पाने में दाह, ज्वर नष्ट होता है। वात-कफनाशक, विबन्धनाशक, अग्निवर्धक दीपक है। नवीन मद्य प्रायः गुरु और दोष प्रकोपक होता है। पुराना मद्य स्रोतों का शोधक, दीपक, लघु, रुचिकर, हर्षो-

२ मैरेय—'आसवस्य सुरायाश्च द्वयोरेकत्र भाजने ।

सन्धानं तद् विजानीयात् मैरेयमुभयाश्रयम् ॥'

एक वर्ष के पीछे शराब पुरानी मानी जाती है ।

त्पादक, पुष्टिदायक, बलकारक, भय, शोक, श्रम को मिटाने वाला है । सात्विक विधिपूर्वक सेवन किया हुआ मद्य अमृत के समान होता है, यह मद्य अत्यन्त वीर्यप्रद, प्रतिभा, प्रसन्नता, पुष्टिबल को देता है । यह सातवां मद्यवर्ग समाप्त हुआ ।

इति मद्यवर्गः ।

अथ जलवर्गः ।

जलमेकत्रिधं सर्वं पतत्यैन्द्रं नभस्तलात् ।  
 तत्पतत्पतितं चैव देशकालावपेक्षते ॥ १९४ ॥  
 खात्पतत्सोमवाय्वर्कैः स्पृष्ट कालानुवर्तिभिः ।  
 शीतं शुचि शिवं मृष्टं विमलं लघु षड्गुणम् ।  
 प्रकृत्या दिव्यमुदकं, भ्रष्टं पात्रमपेक्षते ॥ १९६ ॥  
 श्वेते कषायं भवति पाण्डुरे चैव तिक्तकम् ।  
 कपिले चारसंस्पृष्टमूषरे लवणान्वितम् ।  
 कटु पर्वतविस्तारे मधुरं कृष्णमृत्तिके ॥ १९७ ॥  
 एतत्षाड्गुण्यमाख्यात महीस्थस्य जलस्य हि ।  
 तथाऽव्यक्तसं विद्यादैन्द्रं कार हिमं च यत् ॥ १९८ ॥  
 यदन्तरीक्षात्पततीन्द्रस्पृष्टं चोक्तैश्च पात्रैः परिगृह्यतेऽम्भ ।  
 तदैन्द्रमित्येव वदन्ति धीरा नरेन्द्रपेयं सलिलं प्रधानम् ॥ १९९ ॥  
 ऋतावृताविह ख्याताः सर्वे एवांभसो गुणाः ।  
 ईषत्कपायमधुरं सुसूक्ष्मं विशद लघु ॥ २०० ॥  
 अरूक्षमनभिष्यन्दि सर्वं पानीयमुत्तमम् ।  
 गुर्वभिष्यन्दि पानीयं वार्षिकं मधुर नवम् ॥ २०१ ॥  
 तनु लघ्वनभिष्यन्दि प्रायः शरदि वर्षति ।  
 तत्तु ये सुकुमारा स्युः स्निग्धभूयिष्ठभोजनाः ॥ २०२ ॥  
 तेषां भोज्ये च भक्ष्ये च लेह्ये पेये च शस्यते ।  
 हेमन्ते सलिलं स्निग्धं वृष्यं बलहितं गुरु ॥ २०३ ॥

किञ्चित्ततो लघुतरं शिशिरे कफत्रातजित् ।  
 कषायमधुरं रुक्षं विद्याद्वासन्तिकं जलम् ॥ २०४ ॥  
 ग्रैष्मिकं त्वनभिष्यन्दि रूपमित्येष निश्चयः ।  
 विभ्रान्तेषु तु कालेषु यत्प्रयच्छन्ति तोयदाः ॥ २०५ ॥  
 सलिलं तत्तु दोषाय युज्यते नात्र संशयः ।  
 राजभी राजमात्रैश्च सुकुमारैश्च मानवैः ॥ २०६ ॥  
 संगृहीताः शरद्याप प्रयोक्तव्या विशेषताः ।  
 नद्यः पाषाणविच्छिन्नविक्षुब्धाभिहतोदकाः ॥ २०७ ॥  
 हिमवत्प्रभवा पथ्याः पुण्या देवर्षिसेविताः ।  
 नद्यः पाषाणसिकतावाहिन्यो विमलोदकाः ॥ २०८ ॥  
 मलयप्रभवा याश्च जल तास्वमृतोपमम् ।  
 पश्चिमाभिमुखा याश्च पथ्यास्ता निर्मलोदकाः ॥ २०९ ॥  
 प्रायो मृदुवहा गुर्व्यो याश्च पूर्वसमुद्रगाः ।  
 पारियात्रभवा याश्च विन्ध्यसह्यमवाश्च याः ॥ २१० ॥  
 शिरोहृद्गोकुष्ठाना ता हेतुः श्लीपदस्य च ।  
 वसुधाक्रीटसर्पाखुमलसंदूषितोदकाः ॥ २११ ॥  
 वर्षाजलवहा नद्यः सर्वदोषसमीरणाः ।  
 चापीकूपतडागात्ससरःप्रस्रवणादिषु ॥ २१२ ॥  
 आनूपशैलधन्वानां गुणदोषैर्विभावयेत् ।  
 पिच्छिलं कृमिलं क्लिन्नं परणशैवालकर्दमैः ॥ २१३ ॥  
 विवर्णं विरसं सान्द्रं दुर्गन्धि न हितं जलम् ।  
 विन्त्र त्रिदोषं लवणमन्त्रु यद्वरुणालयम् ॥ २१४ ॥  
 इत्यन्धुवर्गः प्रोक्तोऽयमष्टमः सुविनिश्चितः ।  
 जलवर्गं समुद्दिष्टं मानवानां सुखप्रदं ॥ २१५ ॥

सम्पूर्ण पानी गुरु प्रकार का है । यह पानी वरसात के रूप में आकाश से गिरता है । यह गिरता हुआ, और गिरकर, ( गुण-दोष के लिये ) देश,

समय की अपेक्षा करता है। आकाश से गिरता हुआ पानी ऋतु के अनुसार सूर्य चन्द्रमा, और वायु (आकाश में स्थित धूलि, तथा क्षुद्र जन्तु आदि परमाणुओं से मिलकर तथा भूमि के ऊपर गिर कर उस ऋतु के अनुसार भूमि की शीतलता, उष्णिमा, स्निग्धता, रूक्षता आदि के सम्बन्ध होने पर उसी गुण वाला हो जाता है। स्वभाव से, आकाश से गिरता हुआ पानी शीतल, पवित्र, कल्याणकारी, स्वादिष्ट स्वच्छ, हल्का इन छः गुणों वाला है। नीचे भूमि पर गिरकर पात्र की अपेक्षा से गुण वाला बन जाता है। श्वेत भूमि पर गिरने से पानी कसैला, पाण्डुर जमीन में तिक्त; कपिल भूमि अर्थात् क्षारमिश्रित, ऊसर में नमकीन, पडाड़ की भूमि पर कटु और काली भूमि में मधुर होजाता है। भूमि का जल इन छः गुणों वाला होता है। बरसात का पानी, बर्फ का पानी और कार अर्थात् ओले के पानी में कोई रस व्यक्त नहीं होता। आकाश से गिरते हुए पानी को नदी आदि स्थानों के अतिरिक्त, किसी शुद्ध पात्र में एकत्र कर लिया जाये तो इसे बरसात का पानी कहते हैं। यह पानी राजाओं के पीने योग्य है। ऋतु ऋतु के अनुसार बरसात के पानी में गुण होते हैं। जो पानी थोड़ा कषाय, मधुर, पतला ( सूक्ष्म ), स्वच्छ, लघु, अरूक्ष अनभिष्यन्दि, कफ न करे, वह पानी उत्तम समझना चाहिये। बरसात का तथा पानी गुरु, अभिष्यन्दि और मधुर रस होता है। शरद् ऋतु में बरसात का पानी बहुत स्वच्छ, लघु अनभिष्यन्दि कफ नहीं करने वाला होता है। यह पानी सुकमार, एवं विशेषतः स्निग्ध एवं बहुत भोजन खाने वाले पुरुषों के भोजन में, भक्षण ( दांत से काट कर खाने की वस्तुओं ) में पीने और चाटने में भी प्रशस्त है। हेमन्त ऋतु में बरसात का पानी स्निग्ध, वीर्यवर्धक, बलकारक, गुरु है। शिशिर ऋतु में बरसात का और हेमन्त ऋतु के पानी से कुछ हल्का एवं कफ-नाशक होता है। वसन्त ऋतु में बरसात का पानी कषाय, मधुर रस और रूक्ष होता है। ग्रीष्म ऋतु में बरसात का पानी कफ-



नाशक और रुक्ष होता है विभ्रान्त अर्थात् बरसात के दिनों में बादलों से जो पानी गिरता है। वह निश्चित रूप में दोषकारक होता है। राजाओं, श्रीमन्तों, रईसों तथा सुकुमार पुरुषों को चाहिये कि वे शरद् ऋतु में बरसात के पानी को इकट्ठा कर लें और सारे साल इसीका उपयोग करें।

हिमालय से उत्पन्न नदियों का पानी पत्थरो की टक्कर के कारण मथे जाने से निर्दोष, पथ्यकारी, पुण्य है। इनको देवता व ऋषि सेवन् करते थे, ये अति पुण्यकारी है। मल्याचल पर्वत से उत्पन्न नदियों का पानी पत्थर, रेतीली भूमि में बहने से स्वच्छ हो जाता है। इन का जल भी अमृत के समान है। पश्चिम समुद्र में गिरने वाली नदियां पथ्यकारी एवं स्वच्छ पानी वाली है। पूर्वीय समुद्र में गिरने वाली नदियां धीरे धीरे चलती है और गुरुपानी वाली है। पारियात्र पर्वत से उत्पन्न होनेवाली, त्रिन्ध्याचल एव सह्याद्रि के पहाड़ों से उत्पन्न नदियां शिरोरोग, हृदयरोग, कुष्ठ और श्लीषद रोग को उत्पन्न करती है।

बरसात का पानी, मिट्टी, कृमी, कीट, सर्प, चूहा आदि के मलों से दूषित हो कर नदियों में जाकर मिलता है, इसलिये सब नदियों का पानी दूषित होता है इस लिये इस ऋतु में नदियों का पानी दोष बढ़ाने वाला होता है। वावडी, कूवा, तडाग, चश्मा, सरोवर, झरना आदि का पानी अनृप, पर्वत, और धन्वन अर्थात् जांगल देश के गुण-दोषों के अनुसार समझना चाहिये।<sup>१</sup> जो पानी पिच्छिल (चिकास), क्रिमियुक्त क्लिन्न, पत्ते, सरवाल अथवा कीचड में मिला, जिस पानी का रंग बदल गया हो, रस विगड गया हो, सान्द्र ( तरल न हो, गाढा हो ), दुर्गन्ध युक्त हो, वह जल हितकारी नहीं है। समुद्र का पानी विस्र (आमगन्धी) तीनों दोषों

<sup>१</sup> सुश्रुत में भी कहा है—अनृपदेशे यद् वारि गुरु तत् श्लेष्मवर्धकम्।

विपरीतमतो मुख्यं लघु जांगलमुच्यते ॥

सुश्रुत में कृप, तडाग, वापी झरने आदि के पानी के गुण पृथक् पृथक् दिये हैं। विस्तारभय से नहीं लिखे।

को करने वाला, नमकीन होता है। इस लिये नहीं पीना चाहिये यह आठवां जल वर्ग समाप्त हुआ।

इति जलवर्गः ।

अथ दुग्धवर्गः ।

स्वादु शीतं मृदु स्निग्धं बहलं श्लक्ष्णपिच्छिलम् ।  
 गुरु मन्दं प्रसन्नं च गव्यं दशगुणं पयः ॥ २१६ ॥  
 तदेवंगुणमेवौजः सामान्यादभिवर्धयेत् ।  
 प्रवरं जीवनीयानां क्षीरमुक्तं रसायनम् ॥ २१७ ॥  
 महिषीणां गुरुतरं गव्याच्छीततरं पयः ।  
 स्नेहाऽन्यूनमनिद्राय हितमत्यग्नये च तत् ॥ २१८ ॥  
 रूक्षोष्णं क्षीरमुष्ट्रीणामीषत्सलवणं लघु ।  
 शस्तं वातकफानाहकृमिशोफोदरार्शसाम् ॥ २१९ ॥  
 बल्यं स्थैर्यकरं सर्वमुष्णं चैकशफं पयः ।  
 साम्लं सलवणं रूक्षं शाखावातहरं लघु ॥ ०२० ॥  
 छागं कषायमधुर शीतं ग्राहि पयो लघु ।  
 रक्तपित्तातिसारघ्नं क्षयकासज्वरापहम् ॥ २२१ ॥  
 हिक्काश्वासकरं तूष्णं पित्तश्लैष्मलमाविकम् ।  
 हस्तिनीनां पयो बल्यं गुरु स्थैर्यकरं परम् ॥ २२२ ॥  
 जीवनं बृंहणं साम्ल्यं स्नेहनं मानुषं पयः ।  
 नावनं रक्तपित्ते च तर्पणं चाक्षिशूलिनाम् ॥ २२३ ॥  
 रोचनं दीपनं वृष्यं स्नेहनं बलवर्धनम् ।  
 पाकेऽम्लमुष्णं वातघ्नं मङ्गलं बृंहणं दधि ॥ २२४ ॥  
 पीनसे चातिसारे च शीतके विषमज्वरे ।  
 अरुचौ मूत्रकृच्छ्रं च कार्श्ये च दधि शस्यते ॥ ५१५ ॥  
 शरद्व्रीष्मवसन्तेषु प्रायशो दधि गर्हितम् ।  
 रक्तपित्तकफोत्थेषु विकारेष्वहितं च तत् ॥ २३६ ॥

त्रिदोषं मन्दकं , जातं वातघ्नं दधि, शुक्रलः<sup>१</sup> ।  
 सरः, श्लेष्मानिलघ्नस्तु मण्डः स्रोतोविशोधनः ॥ २२७ ॥  
 शोफार्शोग्रहणीदोषमूत्रकृच्छेदरा<sup>२</sup> रुचौ ।  
 स्नेहव्यापदि पाण्डुः तक्रं दद्याद् गरेषु च ॥ २२८ ॥  
 संग्राहि दीपनं हृद्य नवनीतं नवोद्धृतम् ।  
 ग्रहण्यशोविकारघ्नमर्दितारुचिनाशनम् ॥ २२९ ॥  
 स्मृतिवुद्धयग्निशुक्रौजःकफमेदोविवर्धनम् ।  
 वातपित्तविषोन्मादशोषालक्ष्मीविषापहम्<sup>३</sup> ॥ २३० ॥  
 सर्वस्नेहोत्तमं शीतं मधुरं रसपाकयोः ।  
 सहस्रवीर्यं विधिभिर्घृतं कर्मसहस्रकृत् ॥ २३१ ॥  
 मदापस्मारमूर्च्छाशोषोन्मादगरज्वरान् ।  
 योनिकर्णशिरःशूलं घृतं जीर्णमपोहति ॥ २३२ ॥  
 सर्पीष्यजाविमहिषीक्षीरवत्स्त्वानि निर्दिशेत् ।  
 पीयूषो मोरटं चैव किलाटा विविधाश्च ये ॥ २३३ ॥  
 दोष्ताग्नीनामनिद्राणां सर्व एते सुखप्रदाः ।  
 गुरवस्तर्पणा वृष्या वृहणाः पवनापहाः ॥ २३४ ॥  
 विशदा गुरवो रूक्षा ग्राहिणस्तक्रपिण्डका ।  
 गोरसानामयं वर्गो नवमः परिकीर्तितः ॥ २३५ ॥

क्षीर वर्ग—दूध-मधुर, शीतल, मृदु, स्निग्ध, बहल, श्लक्ष्ण, पिच्छिल, गुरु, मन्द, प्रसन्न इन दस गुणोवाला गाय का दूध है । ओज के भी ये ही दस गुण हैं । इस लिये सामान्य होने से दूध ओज को बढ़ाता है । इसलिये जीव-नीय वस्तुओं में दूध सब से अधिक श्रेष्ठ गिना जाता है । वह रसायन है ।

भैंस का दूध—गाय के दूध से भारी, गाय के दूध से ठण्डा और उसमें स्नेह अर्थात् घी भी अधिक होता है, निद्रा न आने के तथा अग्नि के बहुत बढ़ने में हितकारी है, अग्नि को कम करता है ।

१. शुक्रलं इति पाठ । २. मूत्रग्रहोदरा इति पाठः । ३. ज्वरापहम् इति पाठः ।

ऊंटनी का दूध रुक्ष, उष्ण, थोड़ा नमकीन, लघु, वात कफ आनाह, कृमि, शोफ, उदर एवं अर्श रोग में हितकारी है। एक खुर वाले घोड़ी या गधी, खच्चर आदि जानवरों का दूध बलकारक, शरीर को स्थिर बनाने वाला, उष्ण, अम्ल-लवण रस, रुक्ष, हाथ पांव के वात-विकारों को नाश करने वाला और लघु है। बकरी का दूध कषाय, मधुर, शीतल, संग्रही, लघु, रक्तपित्त-अतिसार नाशक, क्षय, कास, ज्वर में हितकारी है। भेड़ी का दूध द्विक्का, श्वास रोग करने वाला, गरम, पित्त कफ को उत्पन्न करता है। हथिनी का दूध बलकारक, गुरु, और शरीर को दृढ़ करने वाला है। स्त्रियों का दूध जीवनीय, बृंहणीय, शरीर के साम्य, स्नेहक, नस्य के लिये और रक्त पित्त में हितकारी, आंख के दुःखने में, तर्पण करने के लिये उत्तम है।

दही के गुण—दही रुचिकारक, अग्निदीपक, वीर्यवर्धक, स्नेहन के योग्य, बलवर्धक, विपाक में अम्ल, उष्णवीर्य, वातनाशक, मंगलकारी, बृंहण, पौष्टिक है। पीनस, अतिसार, शीतजन्य विषम ज्वर में, अरुचि, मूत्र-कृच्छ, और स्वाभाविक कृशता में दही उत्तम है। शरद्-ग्रीष्म और वसन्त ऋतु में दही का खाना निन्दित है। मन्दक (जब दूध फट कर घन, ठोस सा बन जाता है उसे मन्दक कहते हैं) दूध त्रिदोषकारक है और जब इससे दही बनाया जाता है, तब मधुर और कुछ अम्ल होजाने से यह वातनाशक होता है। शर (दही के ऊपर की मलाई) शुक्रवर्धक (शुक्र स्रुति करने वाली) है। दही का मण्ड स्वच्छ द्रवभाग (मस्तु) कफ-वात नाशक और स्रोतो को साफ़ करने वाला है।

छाछ के गुण—शोफ, अर्श, ग्रहणी, मूत्राघात (मूत्रावरोध), उदर-रोग अरुचि, स्नेहकर्म जन्य रोगों में, पाण्डुरोग में तथा संयोग जन्य विष में छाछ प्रशस्त है। मक्खन संग्राही, अग्निदीपक, हृद्य, ग्रहणी, अर्शरोग-नाशक, अर्दित (शून्यवात) तथा अरुचि को मिटाता है। ताजा मक्खन ही अधिक प्रशस्त गुणकारी है, पुराना नहीं।

गाय के घी के गुण—स्मरण शक्ति, बुद्धि, अग्नि, शुक्र, ओज, कफ-मेद, को बढ़ानेवाला, वात, पित्त, विष, उन्माद, शोष, दौर्भाग्य अशुभ-ज्वर का नाशकहै । सब स्नेहों में घी उत्तम है, शीतल, मधुर (रस एवं पाक में मधुर) है । नाना प्रकार के कर्म करने वाले द्रव्यों से घी का संस्कार करने पर घी सहस्रो प्रकार के, अनेक प्रकार के कर्म कर सकता है । मद, अपस्मार, मूर्च्छा, शोफ, उन्माद, विष, ज्वर, योनिरोग, कण रोग, शिर के शूल में पुराना घी ( दस साल का पुराना—‘जीर्णं तु दश वर्षातीतम्’ ) प्रगस्त है । अन्य बकरी-आदि के घी का गुण उनके दूध के समान समझना चाहिये ।

पीयूष (ताजी व्याई हुई मादा पशु का दूध, खीस), मोरट (यही पीयूष जब अगले दिन तक अस्वच्छ नहीं होता, इसको मोरट कहते हैं), किलोट (जिसमें दूध में स्नेह भाग निकाल लिया जाय) तथा इस प्रकार की अन्य वस्तुएं जिन की अग्नि बढी हुई हो, या जिनको अनिद्र रोग हो, उनके लिये सुखदायक है, गुरु, तृप्तिकारक, पौष्टिक, वीर्यवर्द्धक, वातनाशक है । छाछ का छाना या पनीर ( छाछ या दही को कपड़े में लटका कर उसका द्रव भाग निकाल देने पर बचा भाग ) स्वच्छ, गुरु, रूक्ष और संग्राही है । यह नवां गोरस का वर्ग समाप्त हुआ ।

इति गोरसवर्ग ।

अथेक्षुवर्गः ।

वृष्यः शीत स्थिरः स्निग्धो वृंहणो मधुरो रसः ।

श्लेष्मलां भक्षितस्य क्षोयान्त्रिकस्तु विदह्यते ॥ २३६ ॥

शैत्यात्प्रसादान्माधुर्यात्पौरुड्काद्वांशको वरः ॥

प्रभूतकृमिमज्जासृङ्मेदोमांसकरो गुडः ॥ २३७ ॥

क्षूद्रो कुडश्चतुर्भागत्रिभागार्धावशेषितः ।

रमो गुरुयथापूर्वं धौतः स्वरूपमलो गुडः ॥ २३८ ॥

यतो मत्स्यगिडकाखण्डशर्करा विमलाः परम् ।  
 यथा यथैषां वैमल्यं भवेच्छैत्यं तथा तथा ॥ २३९ ॥  
 वृष्याः क्षीणक्षतहिताः सस्नेहा गुडशर्कराः ।  
 कषायमधुराः शीताः सतिक्ता याः सशर्कराः ॥ २४० ॥  
 रूक्षा वन्यतिसारघ्नी छेदनी मधुशर्करा ।  
 तृष्णासृक्पित्तदाहेषु प्रशस्ताः सर्वशर्कराः ॥ २४१ ॥  
 माक्षिकं भ्रामरं क्षौद्रं पौत्तिकं मधुजातयः ।  
 माक्षिकं प्रवरं तेषां विशेषाद्भ्रामरं गुरु ॥ २४२ ॥  
 माक्षिकं तैलवर्णं स्यात्तच्छ्वेतं भ्रामरमुच्यते ।  
 क्षौद्रं तु कपिलं विद्यादूतवर्णं तु पौत्तिकम् ॥ २४३ ॥  
 घातलं गुरु शीतं च रत्तपित्तकफापहम् ।  
 सधातुं छेदन रूक्षं कषायमधुरं मधु ॥ २४४ ॥  
 हन्यान्मधूष्णमुष्णार्तमथवा सविपान्वयात् ।  
 गुरुरूक्षमषायत्वाच्छैत्याञ्चालपं हितं मधु ॥ २४५ ॥  
 नातः कष्टतमं किञ्चिन्मध्वामात्तद्धि मानवम् ।  
 उपक्रमविरोधित्वात्सद्यो हन्याद्यथा विषम् ॥ २४६ ॥  
 आम्रे सोष्णा क्रिया कार्या सा मध्वामे विरुध्यते ।  
 मध्वामं दारुणं यस्मात्सद्यो हन्याद्यथा विषम् ॥ २४७ ॥  
 नानाद्रव्यात्मकत्वाच्च योगवाहि परं मधु ।  
 इतीक्षुविकृतिप्रायो वर्गोऽयं दशमो मतः ॥ २४८ ॥

इक्षु विकारवर्ग—गन्ने का दांतों से चूसकर खाया हुआ रस वीर्य-  
 चर्द्धक, शीतल, रेचक, स्निग्ध, पौष्टिक, मधुर एवं कफकारक होता है ।  
 थान्त्रिक (कोल्हू) में पेल कर निकाला हुआ रस विदाहयुक्त होजाता है ।  
 छिलके और गांठ के योग से उसमें वह उत्पन्न होता है । और बाहर  
 धूप वायु के योग से भी विदाह उत्पन्न होता है । पौण्डा ( नरम  
 छिलके का ) गन्ना अधिक शीतल, अधिक निर्मल ( प्रसन्नता देने वाला )  
 और अधिक मीठा होता है, बांस गन्ना इससे उतर कर होता है ।

गुड़—अतिशय कृमि मज्जा, रक्त, मेद, और सांस को बढ़ाता है। क्षुद्र गुड़ ( काले रंग का गुड़ ), चार भाग तीन भाग और आधा भाग वचाकर गन्ने के रस से बनाये गुड़ की अपेक्षा पूर्वापर क्रम से गुरु हैं। अर्थात् क्षुद्र गुड़ चार भाग से बने गुड़ से और चार भाग का गुड़ तीन भाग के गुड़ से अधिक गुरु है। साफ़ करके बनाया हुआ अर्थात् थोड़े मल वाला गुड़ कम नुकसान करता है। इसके पीछे मत्स्यण्डिका ( राव ) खांड, शकर, उत्तरोत्तर निर्मल-स्वच्छ होते जाते हैं और जिस २ प्रकार इनमें स्वच्छता बढ़ती है उसी २ प्रकार शीतलता भी बढ़ती जाती है। अर्थात् राव से खाण्ड और खाण्ड से शकर शीतल है।

गुड़ से बनी शकर—वीर्यवर्धक, क्षीण, उरःक्षत के रोगी के लिये हितकारी स्नेहयुक्त होती है। धमासे के काथ से बनाई शर्करा कषाय, मधुर रस, शीतल और कुष्ठ तिक्त होती है। मधु शहद की शर्करा, रुक्ष, वमन, अतिसार नाशक, छेदक ( कफ आदि को तोड़ने वाली ) होती है। तृष्णा रक्तपित्त और दाह रोग में सब शर्करायें प्रशस्त है।

मधु के गुण—मधु की चार जातियाँ हैं। यथा १. माक्षिक (बड़ी मक्खियों या पिगल रंग की मक्खियों से बना), २ आमर (अमरों द्वारा बनाया) ३. क्षौद्र (छोटी मक्खियों द्वारा बना) ४ पौत्तिक (पीली मक्खियों से बना श्वेत रंग का)। इन चारों प्रकार के शहद में 'माक्षिक' शहद श्रेष्ठ है। अमरों से बनाया मधु विशेषतः गुरु होता है। माक्षिक शहद का रंग तेल के समान ( पीला ) और पौत्तिक शहद का रंग घी के समान ( सफेद ) पीला होता है। क्षौद्र शहद कपिल ( धूसर रंग का ) और आमर शहद श्वेत होता है।<sup>१</sup>

मधु—वीर्यकारक, गुरु, शीतल, रक्त-पित्त, कफनाशक, व्रणों को

१. सुश्रुत में आठ भेद किये हैं—

'पौत्तिकं आमरं क्षौद्रं माक्षिकं क्षात्रमेव च ।

आर्ष्यमौदालिकं दात्रमित्यष्टौ मधुजातयः ॥'

जोड़ने वाला, कफ मेद आदि को उखाड़ने वाला, रूक्ष, कषाय और मधुर होता है ।

मधु नाना प्रकार के फूलों से विषैली मक्खियों द्वारा उत्पन्न किया जाता है, इसलिये इसे गरम करके देने से अथवा गरम अवस्था में मनुष्य को देने से मारक होता है ।\* मधु गुरु, रूक्ष और कषाय रस, तथा शीतल होने से थोड़ा सेवन करना उत्तम है । मधु के अधिक खाने से उत्पन्न रोग जैसा कष्टसाध्य दूसरा रोग नहीं है । क्योंकि इसकी चिकित्सा में विरोध है । इसलिये विष की भाँति मनुष्य को शीघ्र मार देता है । क्योंकि आम-विकार में उष्ण क्रिया करनी चाहिये, और जो मधु के हितकारी शीतल क्रिया है, वह आमरोग के विरुद्ध है । इसलिये मधु-जन्य आमरोग दारुण रोग है, इसलिये वह विष की भाँति मनुष्य को शीघ्र मार देता है । नाना प्रकार की रस-वीर्य वाली औषधियों के पुष्पों से उत्पन्न होने के कारण मधु में नाना प्रकार की शक्तियाँ छिपी रहती हैं । इसलिये तथा प्रभाव के कारण मधु योगवाही अर्थात् वमनकारक, आस्थापन या वृष्य कर्म करने वाले जिस भी द्रव्य के साथ दिया जाता है वैसा ही कार्य करता है । इस प्रकार से यह दसवाँ ईक्षुविकार-वर्ग समाप्त हुआ ।

इतीक्षुवर्गः ।

अथ कृतान्नवर्गः ।

क्षुत्तृष्णाग्लानिदौर्बल्यकुन्तिरोगविनाशिनी<sup>१</sup> ।

स्वेदाग्निजननी पेया वातवर्चोनुलोमनी ॥ २४९ ॥

तर्पणी ग्राहिणी लघ्वी हृद्या चापि विलेपिका ।

\* शिलाजतु, तैल आदि भी योगवाही हैं । योगवाही होने पर भी स्नेहन कार्य में शहद प्रयुक्त नहीं होता । वायु में रूक्षादि गुण है । मधु में रूक्ष, कषाय गुण विशेषतः स्पष्ट है ।

१. रोगज्वरापहा इति पाठः ।



मण्डः संदीपयत्यग्निं वातं चाप्यनुलोमयेत् ॥ २५० ॥

मृदूकरोति स्रोतांसि स्वेदं संजनयत्यपि ।

लंघितानां विरिक्तानां जीर्णं स्नेहे च तृष्यताम् ॥ २५१ ॥

दीपनत्वाद्बहुत्वाच्च मण्डः स्यात्प्राणधारणः ।

लाजपेया श्रमघ्नी तु चामकण्ठस्य देहिनः ॥ २५२ ॥

तृष्णातीसारशमनो धातुसाम्यकरः शिवः ।

लाजमण्डोऽग्निजननो दाहमूर्च्छानिवारणः ॥ २५३ ॥

मन्दाग्निविपमाग्नीनां बालस्थविरयोषिताम् ।

देयश्च सुकुमाराणां लाजमण्डः सुसंस्कृतः ॥ २५४ ॥

क्षुत्पिपासापहः पथ्यः शुद्धानां तु मलापहः ।

शृतः पिप्पलिशुण्ठीभ्यां युक्तो लाजाम्लदाडिमैः ॥ २५५ ॥

पेया ( ग्यारह गुने पानी में थोड़ी स्विन्न होने पर बनी हुई कांजी ) मूत्र, प्यास, ग्लानि, दुर्बलता, उदर रोग को नष्ट करती है, स्वेदकारक, अग्नि को बढ़ाती और वायु, मल का अनुलोमन करती है । विलेपी ( चार गुने पानी में बनाई ) तृप्तिकारक, संग्राही लघु, हृदय के अनुकूल होती है । मण्ड ( चौदह गुने पानी में तैयार किया ) अग्नि का दीपन और वायु का अनुलोमन करता है । स्रोतों को कोमल करता तथा पसीना लाता है । उपवास किये, विरेचन किये, स्नेहपान जीर्ण होने पर, प्यास लगने पर अग्निदीपक और लघु होने से मण्ड का सेवन करना उत्तम है ( मण्ड, लघु और दीपक गुण वाला है ) । लाजपेया ( लाज अर्थात् खीलों से बनाई पेया ) श्रमनाशक, गले के खुश्क होजाने पर हितकारी है । लाजमण्ड, अग्निवर्धक, दाह-मूर्च्छानाशक है । मन्दाग्नि और विपमाग्नि वाले पुरुषों के लिये, बालक, वृद्ध, स्त्रियों को तथा कोमल, नाजक प्रकृति वालों को लाजमण्ड पका करके देना चाहिये\* । जो भूख और प्यास को सहन न कर सकते हों, पथ्य सेवन करते हों, वमन विरेचन से जो

धनिया, पिप्पली, सोठ, मरिच के साथ पकाना चाहिये ।

शुद्ध देह वाले हों, परन्तु थोड़ा मल वमन विरेचन के पीछे रुक गया हो इस अवस्था में पिप्पली, सोठ, अनारदाना ( खट्टे अनार के रस ) से बनाया लाजमण्ड अग्नि को बढ़ाता और वायु का अनुलोमन करता है ।

सुधौतः प्रस्रुतः स्विन्नः संतप्रश्चोदनो लघुः ।

भृष्टतण्डुलमिच्छन्ति गरश्लेष्मामयेष्वपि ॥ २५६ ॥

अधौतः प्रस्रुतः स्विन्नः शीतश्चाप्योदनो गुरुः ।

मांसशाकवसातैलघृतमज्जफलौदनाः ॥ २५७ ॥

बल्याः संतर्पणा हृद्या गुरवो बृंहयन्ति च ।

तद्वन्माषतिलदीरमुद्गसंयोगसाधिताः ॥ २५८ ॥

कुल्माषा गुरवो रूक्षा वातला भिन्नवर्चसः ।

स्विन्नभक्ष्यास्तु ये केचित्सौप्यगोधूमयावकाः ॥ २५९ ॥

भिषक् तेषां यथाद्रव्यमादिशेद् गुरुलाघवम् ।

अकृतं कृतयूषं च तनुं संस्कारिकं रसम् ॥ २६० ॥

सूपमम्लमनम्लं च गुरुं विद्याद्यथोत्तरम् ।

भली प्रकार से धोये, निचोड़ लेने पर पानी में नरसी पाके, मीठी र सहज आंच से पकाये चावल लघु होते हैं । कृत्रिम विष और कफजन्य रोगों में भूने हुए चावलों का भात अच्छा है । न धोये, बिना मांड उतारे, पकाये और ठण्डे होनेपर चावल गुरु होजाते है । मांस, शाक वसा, तैल, घृत, मज्जा और फल इनको मिलाकर तैयार किये चावल बलकारक, सन्तर्पक हृदयप्रिय, जड़ और पौष्टिक होते है । इसी प्रकार उडद, तिल, दूध, मूंग, के योग से बनाये भात भी इसी प्रकार गुणकारक होते हैं । कुल्माष ( जौ को पीसकर गरम पानी में भिगो कर थोड़ा सा पकाकर अपूप, पृडे बना लेने पर उन्हें 'कुल्माष' कहते हैं । वे गुरु, रूक्ष, वायुकारक और रेचक होते हैं । स्विन्नभक्ष्या ( भाप देकर तैयार की वस्तुएं ) जो उडद, मूंग, गेहुं, जौ आदि से पिष्टी करके बनाये जाये, वे जिस वस्तु से बनाये जाते हैं उसी वस्तु के अनुसार गुरु या लघु गुण वाले होते हैं ।

अकृतयूप, और कृतयूप, तनुयूप ( थोड़े मांस के कारण पतला ), संस्कारिक ( बहुत मांस के कारण घन ) मांस रस, अम्लसूप ( खट्टी दाल ) और अनम्ल सूप, ये उत्तरोत्तर भारी हैं ।

सक्तवो वातला रूक्षा बहुवर्चोऽनुलोमिनः ॥ २६१ ॥

तर्पयन्ति नरं सद्यः पीता. सद्योवलाश्च ते ।

मधुरा लघव शीताः सक्तवः शालिसंभवाः ॥ २६२ ॥

ग्राहिणो रक्तपित्तघ्नास्तृष्णाच्छर्दिज्वरापहाः ।

सत्तू वायुकारक, रूक्ष, पुष्कल मल उत्पन्न करने वाला, वायु के अनुलोमक, पीने पर जल्दी ही तृप्ति करने वाले, एवं शीघ्र बलकारक हैं । शालि ( हेमन्त धान्य ) धान्य से बनाये सत्तू, मधुर, लघु, शीतल होते हैं । वे संग्राही, रक्तपित्त, तृष्णा, चमन, और ज्वर के नाशक हैं ।

हन्याद् व्याधीन् यवापूपो यावको वाट्य एव च ॥ २६३ ॥

उदावर्तप्रतिश्यायकासमेहगलग्रहान् ।

धानासंज्ञास्तु ये भक्ष्या. प्रायस्ते लेखनात्मका ॥ २६४ ॥

शुष्कत्वान्तर्पणाश्चैव विष्टम्भित्वाच्च दुर्जराः ।

विरूढधाना. शष्कुल्यो मधुक्रोडाः सपिण्डका ॥ २६५ ॥

पूपाः पूपलिकाद्याश्च गुरवः पैष्टिका परम् ।

जौ के पृडे, जौ की वडिया, वाट्य (भूने जौ के चावल) ये उदावर्त, प्रतिश्याय, कास, प्रमेह और गले के रोगों को मिटाती हैं । धाना (भूने जौ) प्रायः करके लेखन, कफ आदि के उखाड़ने वाले हैं । एवं शुष्क होने से प्यास लगाने वाले हैं । विष्टम्भी होने से ढेर में पचते हैं । विरूढ धाना ( अंकुरित धान्य ), शष्कुली ( चावलों को पीसकर तिल मिलाकर तेल में पकाने से ), मधुक्रोडा ( पकाकर, घन बनाकर दीच में शहद रखने से ), सपिण्डका ( मधु क्रोडा, पूरन पोली ), पूप ( पृडे ), पूपलिका ( मालपूआ, चापडा ), ये अत्यन्त गुरु और पौष्टिक होते हैं ।

ॐ सुश्रुत ने—“पवनापहा” वायुनाशक लिखा है ।

फलमांसवसाशाकपललक्षौद्रसंस्कृताः ॥ २६६ ॥

भक्ष्या वृष्याश्च बल्याश्च गुरवो बृंहणात्मकाः ।

वेशवारो गुरुः स्निग्धो बलोपचयवर्धनः ॥ २६७ ॥

गुरवस्तर्तणा वृष्याः क्षीरेक्षुरसपूपकाः ।

सगुडाः सतिलाश्चैव सक्षीरक्षौद्रशर्कराः ॥ २६८ ॥

वृष्या बल्याश्च भक्ष्यास्तु ते परं गुरवः स्मृताः ।

फल, मांस, वसा, शाक, पलल ( तिल का चूर्ण ), मधु, इनके साथ बनाये खाद्य पदार्थ वीर्यवर्धक, बलकारक, गुरु और पौष्टिक हैं । वेशवार ( मांस में से हड्डी निकाल कर पत्थर पर पिसकर पिप्पली, मरिच, गुड़ और घी के साथ पका लेने पर वेशवार बनता है ) गुरु, स्निग्ध, बल-शक्तिवर्धक है । दूध और गन्ने के रस से तैयार किये खाद्य पदार्थ गुरु, तृप्तिकारक और वीर्यवर्धक हैं । गुड, तिल, दूध और शर्करा से बनाये पदार्थ वीर्यवर्धक, बलकारक, और बहुत गुरु होते हैं ।

सस्नेहाः स्नेहसिद्धाश्च भक्ष्या विविधलक्षणाः ॥ २६९ ॥

गुरवस्तर्पणा वृष्या हृद्या गौधूमिका मताः ।

संस्काराल्लघवः सन्ति भक्ष्या गोधूमपैष्टिकाः ॥ २७० ॥

धानापर्पटपूपाद्यास्तान्बुद्ध्वा निर्दिशेत्तथा ।

गेहू के आटे को घी आदि स्नेह में मथकर या घी आदि स्नेह में पका कर नाना प्रकार के जो खाद्य पदार्थ बनाये जाते हैं वे सब गुरु, तृप्तिकारक, पौष्टिक ( वीर्यवर्धक ) और हृद्य को प्रिय होते हैं । इसी प्रकार गेहूँ आदि के जो पदार्थ अधिक अग्निसंयोग से तैयार किये जाते हैं, जो कि स्वभाव से गुरु है, वे भी संस्कार द्वारा लघु बन जाते हैं । इसी प्रकार गेहूँ की पीठी, धान्य, पर्पट, पूप आदि वस्तुएं भारी होने पर संस्कार के कारण लघु बन जाती हैं । इसलिये वैद्य को संस्कार का विचार करके गुणों का निश्चय करना चाहिये ।

पृथुका गुरवो भृष्टान्भक्षयेदल्पशस्तु तान् ॥ २७१ ॥

यावा विष्टभ्य जीर्यन्ति सरसा भिन्नवर्चसः ।

सूप्यान्नविकृता भक्ष्या वातला रूक्षशीतलाः ॥ २७२ ॥

सकटुस्नेहलवणानल्पशो भक्षयेत्तु तान् ।

मृदुपाकाश्च ये भक्ष्याः स्थूलाश्च कठिनाश्च ये ॥ २७३ ॥

गुरवस्ते व्यतिक्रान्तपाकाः पुष्टिवलप्रदाः ।

पृथुक ( चिबड़ा ) भारी होता है । भूने हुए चिबड़े को थोड़ा खाना चाहिये । याव ( जौ का बना चिबड़ा ) पेट में अवरोध करके जीर्ण होते हैं । सरस ( न भूने हुए जौ ) रेचक हैं । सूप्य अन्न ( मूंग, उड़द आदि से बनी वस्तुएं ) वायुकारक, रूक्ष, शीतल होते हैं । इनको कटु रस, स्नेह ( घी या तैल ), नमक के साथ थोड़ी मात्रा में खाना चाहिये । जो खाद्य पदार्थ मीठी आंच पर बनते हैं और जो स्थूल और कठोर होते हैं, वे गुरु, एवं देर में पचते हैं तथा पुष्टि और बल देते हैं ।

द्रव्यसंयोगसंस्कारं द्रव्यमानं पृथक्तथा ॥ २७४ ॥

भक्ष्याणामादिशोद् बुद्ध्वा यथास्वं गुरुलाघवम् ।

नानाद्रव्यैः समायुक्तः पक्वामङ्गिन्नभर्जितैः ॥ २७५ ॥

निमर्दको गुरुहृद्यां वृष्यो बलवतां हितः ।

रसाला वृंहणी वृष्या स्निग्धा बलया रुचिप्रदा ॥ २७६ ॥

स्नेहनं तर्पणं हृद्यं वातघ्नं सगुडं दधि ।

किसी पदार्थ के गुरु या लघु होने का निश्चय उस पदार्थ के मूल स्वभाव, संयोग, संस्कार ( पकाने की विधि ), मिलने के परिमाण ( राशि ), आदि सब बातों का विचार करके करना चाहिये । जिसमें ये बातें गुरु पक्ष में जाती हों वे वस्तु गुरु समझना, जिसमें लघु पक्ष में हो वह वस्तु हल्की समझनी चाहिये । निमर्दक ( मांस को नाना प्रकार से बनाने की विधि से ), नाना प्रकार के पदार्थों से मिला हुआ, पकाया, आम, छिन्न और भूने हुए भेद से गुरु, हृद्य के लिये प्रिय,

ॐ पक्वामङ्गिन्न भर्जितैः ॥ इति वा पाठः ॥

वीर्यवर्धक और बलवान् पुरुषों के लिये हितकारी है । रसाला को खूब मथकर इसमें दालचीनी, इलायची, तेजपाल, नागकेशर, अजवायन, गुड़, अद्रक, सोंठ के साथ मिलाकर तैयार की, पुष्टिकारक, वृष्य, वीर्यवर्धक, स्निग्ध, बलकारक, रुचिकारक है । गुड़ के साथ दहि स्नेहक, तृप्तिकारक, हृदय के लिये प्रिय और वातनाशक है ।

द्राक्षाखजूरकोलाना गुरु विष्टम्भि पानकम् ॥ २७७ ॥

परुषकाणां नौद्रस्य यच्चेक्षुविकृति प्रति ।

तेषां कटव्म्लसंयोगाः पानकानां पृथक्पृथक् ॥ २७८ ॥

द्रव्यमानं च विज्ञाय गुणकर्माणि निर्दिशेत् ।

कटव्म्लस्वादुत्वणा लघवो रागषाडवाः ॥ २७९ ॥

मुखप्रियाश्च हृद्याश्च दीपना भक्तरोचनाः ।

आम्रामलकलेहाश्च बृंहणा बलवर्धनाः ॥ २८० ॥

रोचनास्तर्पणाश्चोक्ता स्नेहमाधुर्यगौरवात् ।

बुद्ध्वा संयोगसंस्कारं द्रव्यमानं च तच्छ्रितम् ॥ २८१ ॥

गुणकर्माणि लेहानां तेषा तेषां तथा वदेत् ।

द्राक्षा, खजूर, बेर, फालसा, शहद, गन्ने का रस इनके रस में गुड़ या शर्कर डालकर बनाया हुआ शरबत, गुरु, मल-मूत्र का रोधक होता है । इन शरबतों में कटु या अम्ल वस्तुओं का योग तथा द्रव्य परिमाण जानकर रोग एवं रुचि के अनुसार पृथक् पृथक् रूप में देना चाहिये, इनके गुण कर्म पृथक् २ होजाते हैं । गुड़ के साथ आम रस को पका तेल, नागर आदि मिलाकर बनाया रस, वा अनार, दाख, फालसा, जामुन रसादि से बना मधुर पाक 'रागषाडव' कहाता है । वह कटु, अम्ल, स्वादु नमकीन, लघु, स्वादिष्ठ, हृदय को प्रिय, दीपक, अग्निदीपक और खाने में रुचिकर होता है । आम या आंवले के रस से बनाये चाटन, पुष्टिकारक, बलवर्द्धक, रुचिकारक, तृप्तिकारक होते हैं । क्योंकि इनमें स्नेह मधुरता और भारीपन होता है । द्रव्यों के संयोग, संस्कार ( पाक-विधि )

और द्रव्यों की मात्रा को चाटने योग्य (लेहो) में देखकर विचार कर गुण कर्म का निश्चय करना चाहिये ।

रक्तपित्तकफोत्क्लेदि शुक्तं वातानुलोमनम् ॥ २८२ ॥

कन्दमूलफलाद्य च तद्वद्विद्यात्तदासुतम् ।

शिण्डाकीः चासुतं चान्यन् कालाम्लं रोचनं लघु ।

विद्याद्वर्गं कृतान्नानामेकादशतमं भिषक् ॥ २८३ ॥

शुक्त (चुक्र) — शुद्ध पात्र में गुड, शहद, कांजी सहित मस्तु डालकर धान के ढेर में तीन रात रखने से शुक्त या चुक्र तैयार होता है । वह रक्त-पित्तनाशक, कफ को पतला करने वाला, वायु का अनुलोमक होता है । शुक्त में कन्द, मूल, फल आदि डाले गये हों तो इसको 'अ-सुत' कहते हैं । शिण्डाकी ( सिरके में काला जोरा आदि डालने से ), असुत, कालाम्ल ( ढेर तक रखने से जो अम्ल बन गया हो, अम्ल डालने से नहीं ) वह रोचक और लघु होता है । इस ग्यारहवें कृतान्नवर्ग का वैद्य अवश्य ज्ञान करे ।

इति कृतान्नवर्गः ।

अथाहारयोगिवर्गः ।

कपायानुरसं स्वादु सूक्ष्ममुष्णं व्यवायि च ।

पित्तलं वद्धविण्मूत्रं न च श्लेष्माभिवर्धनम् ॥ २८४ ॥

वातघ्नेपूत्तमं वल्यं त्वच्यं मेधाभिवर्धनम् ।

तैलं संयोगसंस्कारात्सर्वरोगापहं मतम् ॥ २८५ ॥

तैलप्रयोगादजरा निर्विकारा जितश्रमाः ।

आसन्नतिबलाः संख्ये दैत्याधिपतयः पुरा ॥ २८६ ॥

ऐरण्डतैलं मधुरं गुरु श्लेष्माभिवर्धनम् ।

वातामृगुल्महृद्रोगजीर्णज्वरहरं परम् ॥ २८७ ॥

६० शण्डाकी इति च पाठः ।

कटूष्णं सार्पपं तैलं रक्तपित्तप्रदूषणम्  
 कफशुक्रानिलहरं कण्डूकोठविनाशनम् ॥ २८८ ॥  
 पियालतैलं मधुरं गुरु श्लेष्माभिवर्धनम् ।  
 हितमिच्छन्ति नात्यौष्ण्यात्संयोगे, वातपित्तयोः ॥ २८९ ॥  
 आतस्यं मधुराम्लं तु विपाके कटुकं तथा ।  
 उष्णवीर्यं हितं वातं रक्तपित्तप्रकोपणम् ॥ २९० ॥  
 कुसुम्भतैलमुष्णं च विपाके कटुकं गुरु ।  
 विदाहि च विशेषेण सर्वरोगप्रकोपणम् ॥ २९१ ॥  
 फलानां यानि चान्यानि तैलान्याहारसंविधौ ।  
 युज्यन्ते गुणकर्मभ्यां तानि ब्रूयाद्यथाफलम् ॥ २९२ ॥  
 मधुरो वृंहणां वृष्यो वल्यो मज्जा तथा वसा ।  
 यथासत्त्वं तु शैत्यौष्णे वसामज्जोर्विनिर्दिशेत् ॥ २९३ ॥

तिल का तैल कषाय अनुरस, स्वादु, सूक्ष्म (स्रोतो में घुसनेवाला)  
 उष्ण, व्यवायी, छिद्रों में पहुंचने वाला ( शरीर में फैलने वाला ), पित्त-  
 कारक, मल मूत्र को रोकने वाला है, परन्तु कफ को बढ़ानेवाला नहीं है ।  
 वातनागक ओषधियों में श्रेष्ठ, बलकारक, त्वचा के लिये हितकारी, बुद्धि,  
 और अग्नि को बढ़ाने वाला है । संयोग एवं संस्कार करने से सब रोगों को  
 नाश करने वाला है । प्राचीन काल में इस तेल के प्रयोग से दैत्याधिपति,  
 दैत्यराज, बुढ़ापे से रहित, विकारशून्य, परिश्रम सहन करने वाले,  
 न थकने वाले, लड़ाई में बहुत बलवान् हुए थे ।

(१) ऐरण्ड का तेल मधुर, गुरु, कफ को बढ़ानेवाला, वातरक्त, गुल्म,  
 हृदय रोग, अजीर्ण और ज्वरका नागक है । (२) सरसों का तेल कटु, उष्ण,  
 रक्त-पित्त को दूषित करने वाला, कफ, शुक्र और वायु को नष्ट करने वाला,  
 कण्डू औरकोठ का नागक है । (सरसों के तेल को खाने से रक्त-पित्त दूषित  
 होते हैं, मलने से नहीं) (३) पियाल फल चिरोँजी का तेल मधुर, गुरु, कफ  
 को बढ़ाने वाला और बहुत गरम न होने से वात-वित्त के सम्मिलित विकारों



में उत्तम है । (४) अलसी का तेल मधुर अम्ल, विपाक में कटु, उष्णवीर्य, वातरोग में हितकारी, रक्त और पित्त को कुपित करने वाला है । (५) धनिये का तेल गरम, विपाक में कटु, गुरु, विटाही और सब रोगों को (दोषों को) कुपित करने वाला है । जिन फलों से अन्य तैल तैयार किये जाते हैं, उन तैलों के गुण उन्हीं फलों के अनुसार समझने चाहिये ।

[ चिरायता तिक्तक, अतिमुक्तक, विभीतक ( बहेड़ा ) नारियल, बेर, अखरोट, जीवन्ती, पियाल ( चिरौंजी ) कुर्बुदार, सूर्यवल्ली, त्रपुस, ऐरावारु, ककरि, कृष्माण्ड आदि के तेल मधुर, मधुवीर्य, मधुर विपाक वाले, वात-पित्त को शान्त करने वाले, शीतवीर्य, मार्गशोषक, मलमूत्रकारक, अग्निवर्धक होते हैं (सुश्रुत) ] । मज्जा और वसा, मधुर रस, पुष्टिकारक, शुक्रवर्धक, बलकारक होती है । इनकी शीतता और उष्णता प्राणियों के अनुसार समझनी चाहिये । जिस प्राणी का मांस उष्ण है उसकी मज्जा भी उष्ण, जिसका शीत उस प्राणी की मज्जा भी शीत समझनी चाहिये ।

सस्नेहं दीपनं वृष्यमुष्णं वातकफापहम् ॥ २९४ ॥

विपाकमधुरं हृद्यं रोचनं विश्वभेषजम् ॥

श्लेष्मला मधुरा चार्द्रा गुर्वा स्निग्धा च पिप्पली ।

सा शुष्का कफवातघ्नी कटूष्णा वृष्यसंमता ॥ २९५ ॥

नात्यर्थमुष्णं मरिचमवृष्यं लघु रोचनम् ।

द्वेदित्वाच्छ्रापणत्वाच्च दीपनं कफवातजित् ॥ २९६ ॥

वातश्लेष्मविवन्धनं कटूष्णं दीपनं लघु ।

हिङ्गु शूलप्रशमनं विद्यात्पाचनरोचनम् ॥ २९७ ॥

रोचनं दीपनं वृष्यं चक्षुष्यमविदाहि च ।

त्रिदोषघ्नं समधुरं सैन्धवं लवणोत्तमम् ॥ २९८ ॥

सौम्यादौष्ण्याल्लघुत्वाच्च सौगन्ध्याच्च रुचिप्रदम् ।

सौवर्चलं विवन्धनं हृद्यमुद्गारशोधि च ॥ २९९ ॥

तैः एयाद्गैः एयाद्ब्यवायित्वाद्दीपनं शूलनाशनम् ।

ऊर्ध्वं चाधश्च वातानामानुलोम्यकरं बिडम् ॥ ३०० ॥

सतिक्तं कटु सक्षारं तीक्ष्णमुत्क्लेदि चौद्धिदम् ।

न काललवणे गन्धः सौवर्चलगुणाश्च ते ॥ ३०१ ॥

सामुद्रकं समधुरं, सतिक्तं कटु पांशुजम् ।

रोचनं लवणं सर्वं पाकि संस्यनिलापहम् ॥ ३०२ ॥

हृत्पाण्डुग्रहणीदोषप्लीहानाहगलग्रहान् ।

कासं कफजमर्शासि यावशूको व्यपोहति ॥ ३०३ ॥

तीक्ष्णोष्णो लघुरूक्षश्च क्लेदी पक्ता विदारणः ।

दाहनो दीपनश्छेत्ता सर्वः क्षारोऽग्निमंनिभः ॥ ३०४ ॥

कारव्यः कुञ्चिकाऽजाजी यवानी धान्यतुम्बुरु ।

रोचनं दीपनं वातकफदौर्गन्ध्यनाशनम् ॥ ३०५ ॥

आहारयोगिनां भक्तिनिश्चयो न तु विद्यते ।

समाप्तो द्वादशश्चायं वर्ग आहारयोगिनाम् ॥ ३०६ ॥

सोंठ स्निग्ध, अग्निदीपक, वीर्यवर्धक, गरम, वातकफनाशक, विपाक में मधुर, हृदय के लिये हितकारी, रुचिप्रिय होती है। हरी पिप्पली कफ-कारक, मधुर, गुरु और स्निग्ध होती है।। सूखी पिप्पली-कफ वातनाशक कटु, उष्ण, वीर्यवर्धक है। काली मरिच सूखी बहुत गरम नहीं, वीर्य को न बढ़ाने वाली, लघु, रुचिकारक, छेदन करने वाली, कफ आदि को उखाड़ने वाली) और शोषक होने से अग्निदीपक एवं कफ-वातनाशक है। और हरी अवस्था में स्वादु गुरु, कफवर्धक होती है। हींग वायु-कफ विबन्धनाशक, कटु, उष्ण, अग्निदीपक, लघु, शूलनाशक, पाचक और रुचिकर है। सेन्धा नमक-रुचिकारक, अग्निवर्धक, वृष्य, आंखों के लिये हितकारी, अविटाही, त्रिदोषनाशक, कुछ मधुर और सब नमकों में श्रेष्ठ है।

सौवर्चल नमक ( सचल नमक )-सूक्ष्म, उष्ण, लघु होने से तथा सुगन्धि होने से रुचिदायक, विबन्धनाशक, हृद्य, उद्गार ( ढकार ) को शोधन करने वाला है। बिड ( काला नमक ) तीक्ष्ण, उष्ण और व्यवायी

(शरीर में फैलने वाला होने से) अग्निशीपक, शूलनाशक, एवं वायु को ऊपर या नीचे, अधोमार्ग दोनों से अनुलोमन करने वाला है। ऊर्ध्वभिद्रु नमक तिक्त, कटु, धारयुक्त, तीक्ष्ण उत्क्लेदि अर्थात् वमन की रुचि करने वाला है। काले लवण के गुण संचल नमक के समान है, परन्तु इस में संचल के समान गन्ध नहीं होती। समुद्र के पानी से तैयार किया नमक मधुर है। पांशुज (सर्जी) जिसमें धोबी कपडा धोते हैं, ऐसी मिट्टी में तैयार किया नमक कटु और तिक्त होता है। सब प्रकार के नमक रुचि-कारक, अन्न या व्रण को पकाने वाले, म्रंसी और वातनाशक है।

जौ-खार—हृदय, पाण्डु, ग्रहणी रोग, प्लीहा, आनाह, गल रोग, कफजन्य कास और अर्शरोग को नष्ट करते हैं। सब प्रकार के क्षार (टंकरा, सर्जी, पापट खार आदि) तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, रुक्ष, क्लेदि, अन्न और व्रण को पकाने वाले, पके हुए व्रण को फाड़ने वाले, जलाने वाले, अग्नि-वर्द्धक, कफ आदि का छेदन करने वाले आम के समान गुण वाले (उष्ण) होते हैं। कारवी (काला जीरा), कुंचीका मोटा जीरा, ये रुचिकर अग्नि-शीपक, वात, कफ दुर्गन्ध को नाश करने वाले हैं। खान पान में फिन = द्रव्यों का व्यवहार होता है या होना चाहिये इसका निश्चय करना कठिन है, कोई एक नियम नहीं बन सकता क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की रुचि भिन्न भिन्न है। यह वारहवां आहारयोगी द्रव्यों का वर्ग भी समाप्त हुआ।

द्व्याहारयोगिवर्गः ।

शूकधान्यं शमीधान्यं समातीतं प्रशस्यते ।

पुराणं प्रायशो रूक्षं प्रायेणाभिनव गुरु ॥ ३०७ ॥

यद्यदागच्छति क्षिप्रं तन्नलघुतरं स्मृतम् ।

निस्तुपं युक्तिभृष्टं तु सूप्यं लघु विपच्यते ॥ ३०८ ॥

शूक धान्य (चावल, गेहूँ आदि), शमीधान्य (मूग, मसूर, उड़द आदि) ये एक साल पुराने प्रशस्त हैं। प्रायः करके पुराने धान्य रुक्ष

होते हैं । जो धान्य बोने पर जल्दी उग आता है ( जैसे ग्रीष्म ऋतु के साठी चावल ) वह हल्का होता है और मूंग आदि दाल की वस्तुओं को तुपरहित करके छिलका उतारकर थोड़ा भून लिया जावे तो ये लघु होजाते हैं ।

मृतं कृशातिमेध्यं च वृद्धं बालं विषैर्हतम् ।

अगोचरभृतं व्याडसूदितं मांसमुत्सृजेत् ॥ ३०९ ॥

अतोऽन्यथा हितं मांसं बृहणं बलवर्धनम् ।

प्रीणनः सर्वधातूनां हृद्यो मांसरसः परम् ॥ ३१० ॥

शुष्यतां व्याधिमुक्तानां कृशानां क्षीणरेतसाम् ।

बलवर्णार्थिनां चैव रसं विद्याद्यथाऽमृतम् ॥ ३११ ॥

सर्वरोगप्रशामनं यथास्वं विहित रसम् ।

विद्यात्स्वर्यं बलकरं वयोबुद्धीन्द्रियायुषाम् ॥ ३१२ ॥

व्यायामनित्या. स्त्रीनित्या मद्यनित्याश्च ये नराः ।

नित्यं मांसरसाहारा नातुरा. स्युर्न दुर्बलाः ॥ ३१३ ॥

त्याज्य मांस—मरा हुआ, कृश, दुर्बल प्राणी का, बहुत चर्बी वाला, बुढ़े पशु का, बालक का, विष द्वारा मारा, अगोचरभृत अर्थात् अपने स्वाभाविक स्थान को छोड़कर दूसरे प्रदेश में पले ( जलीय देश के प्राणी को मरुस्थल में पोषण करनेपर), व्याड अर्थात् व्याघ्र या सांप आदि हिंसक पशुओं से मारे हुए पशु का मांस त्याज्य है । इससे विपरीत प्रकार का मांस हितकारा, शरीर का पोषक, बलकारक है । मांस रस, पुष्टिदायक, सब प्राणियों के लिये हितकारी, हृदय को प्रिय होता है । सूखते हुए, कृश होते हुए, रोग से उठे अच्छे हुए, निर्बल, शुक्र जिनका क्षीण होगया है, बल या कान्ति को चाहने वाले पुरुषों के लिये मांस-रस अमृत के समान है । मांस रस सब रोगों को \* शान्त करने वाला है, स्वर के लिये, आयुवर्धन, बुद्धि और इन्द्रियों के लिये हितकारी एवं

❀ उन्माद रोग में मांस का निषेध है—यथा 'उन्मादे निवृत्तामिषमद्यो यः ।'

बलकारक है । जो पुरुष नित्य प्रति व्यायाम करते, स्त्री संग करते, शराव पीते हैं और नित्य प्रति मांस रस का भोजन करते हैं, वे न रोगी होते और न निर्बल होते हैं ।

कृमिवातातपहतं शुष्कं जीर्णमनार्तवम् ।

शाक निस्नेहसिद्धं च वर्ज्यं यच्चापरिस्रुतम् ॥ ३१४ ॥

पुराणमामं संक्षिप्तं कृमिव्यालहिमातपैः ।

अदेशकालजं क्लिन्नं यत्स्यात्फलमसाद्यु तत् ॥ ३१५ ॥

हरिताना यथाशाकं निर्देशः साधनादृते ।

मद्याम्बुगोरसादीना स्वे स्वे वर्गे विनिश्चयः ॥ ३१६ ॥

त्याज्य शाक—कृमि, वात, धूप से मरा ( सूखा ), शुष्क, पुराना, ऋतु में उत्पन्न नहीं हुआ, और जो शाक बिना स्नेह ( घी या तेल ) के तैयार किया गया हो और जिसका कि भांप कर पानी न निकाल दिया गया हो, वह शाक त्याज्य है । जो फल पुराना, ( बहुत पका ), कच्चा, सडा, कृमि सर्प या हिंसक पशु से खाया हुआ हो, वर्फ या धूप से खराब हो, भले देश में उत्पन्न न हुआ, क्लिन्न ( सडा ) हो वह फल उत्तम नहीं । कान्दा ( लहसन ) चटनी आदि जो हरे पदार्थ चटनी आदि के काम आते हैं उनकी त्याज्य आदि विधि इनके अपने वर्ग में कह दी है ।

यदाहारगुणैः पानं विपरीतं तदिष्यते ।

अन्नानुपानं धातूना दृष्टं यन्न विरोधि च ॥ ३१७ ॥

आसवानां समुद्रिष्ठा अशीतिश्चतुरत्तरा ।

जलं पेयमपेयं च परीक्ष्यानुपिवेद्धितम् ॥ ३१८ ॥

स्निग्धोष्णं मारुते शस्तं पित्ते मधुरशीतलम् ।

कफेऽनुपानं रूक्षोष्णं, क्षये मासरसः परम् ॥ ३१९ ॥

उपवामाध्वभाप्यस्त्रीमारुतातपकर्मभिः ।

छान्तानामनुपानार्थं पयः पथ्यं यथाऽमृतम् ॥ ३२० ॥

सुरा कृशानां पुष्ट्यर्थमनुपानं प्रशस्यते ।

कार्यार्थं स्थूलदेहानामनुशस्त मधूदकम् ॥ ३२१ ॥

अल्पाग्नीनामनिद्राणा तन्द्राशोकभयक्लमैः ।

मद्यमांसोचितानां च मद्यमेवानुशस्यते ॥ ३२२ ॥

अथानुपानकर्म प्रवक्ष्यामि—अनुपान तर्पयति, प्रीणयति, ऊर्जयति, पर्याप्तिमभिनिर्वृतयेति, भक्तमवसादयति, अन्नसंघातं भिनत्ति, मार्दवमापादयति, क्लेदयति, जरयति, सुखपरिणामितामाशुव्यवायितां चाहारस्योपजनयतीति ॥ ३२३ ॥

अनुपान—जो पेय पदार्थ आहार गुण के विपरीत ( यथा-उष्ण आहार के पीछे शीत अनुपानः ) तथा जो धातुओं का विरोधी न हो अपितु सात्म्य करने वाला हो, वह अनुपान प्रशस्त है । 'यज्जःपुरुषीय' अध्याय में चौरासी प्रकार के आसव कहे हैं । जल पीना हितकारी है, या नहीं इसका विचार करके हितकारी जल पीना चाहिये । वायुदोष में स्निग्ध और उष्ण, पित्तविकार में मधुर और शीतल, कफ में रुक्ष एवं उष्ण तथा क्षय में मांस रस का अनुपान श्रेष्ठ है । उपवास से, मार्ग चलने से, ऊंचे या बहुत बोलने से, स्त्रीसंग, वायु, धूप या पंच कर्मों के कारण जो थके हुए हों, उनको अनुपान देने के लिये दूध अमृत के समान पथ्य, हितकारी है । मोटे शरीर वालों को पतला बनाने के लिये पानी में शहद मिलाकर देना उत्तम है । जिनको मन्दाग्नि हो, नींद न आती हो, तन्द्रा, शोक, भय, क्लम से थके, मद्य मांस सेवन करने वालों के लिये मद्य अनुपान ही श्रेष्ठ है ।

अनुपान के कर्म ( गुण ) कहते हैं—अनुपान शरीर का तर्पण करता है, शरीर को और जीवन को पुष्ट करता है, तेज बढ़ाता है, खाये हुए भोजन से मिलकर शरीर में मिल जाता है, खाये

❁ अनु-पश्चात्-भोजनात् इत्यर्थः । पानं जलादिपानम् ॥

दाह के पीछे मधुर, दूध या खीर के पीछे कांजी ( खट्टा ) अनुपान न दें, इसलिये धातुओं का विरोधी न हो ।

हुए को पचाता है, मिले हुए अन्न को तोड़ता, पृथक् २ करता है। शरीर में कोमलता उत्पन्न करता है, आहार को क्लिन्न करता, पचाता और सुख पूर्वक पचा कर शीघ्र शरीर में व्याप्त कर देता है।

भवति चात्र। अनुपान हित युक्तं तर्पयत्याशु मानवम्।

सुखं पचति चाहारमायुषे च वलाय च ॥ ३२४ ॥

योग्य हितकारी अनुपान मनुष्य को शीघ्र तर्पण कर देता है। भोजन को सुखपूर्वक पचाता है और आयु एवं बल को बढ़ाता है।

नोर्ध्वाङ्गमारुताविष्टा न हिक्काश्वासकासिनः।

न गीतभाष्याध्ययनप्रसक्ता नोरसि क्षताः ॥ ३२५ ॥

पिवेयुरुदकं भुक्त्वा, तद्वि कण्ठौरसि स्थितम्।

स्नेहमाहारजं हत्वा भूयो दोषाय कल्पते ॥ ३२६ ॥

अनुपानैकदेशोऽयमुक्तः प्रायोपयोगिकः।

द्रव्य तु न हि निर्देष्टुं शक्यं कात्स्नर्येन नामभिः ३२७ ॥

यथा नानौषधं किञ्चिद्देशजाना वचो यथा।

द्रव्य तत्तत्तथा वाच्यमनुक्तमिह यद्भवेत् ॥ ३२८ ॥

किनको अनुपान नहीं करना चाहिये—कण्ठ, छाती, शिर, ( ऊर्ध्वांग ) में जब वायु का जोर हो, जिनको हिचकी, श्वास, कास रोग हों, गीत, भाषण, अध्ययन में जो लगे रहते हों, जिनकी छाती में चोट लगी हो, इनको पानी अनुपान रूप में नहीं पीना चाहिये। इस अवस्था में पिया पानी कण्ठ, छाती ( आमाशय ) में स्थित आहारजन्य स्नेह को दूषित करके नाना प्रकार के रोग उत्पन्न करता है।

प्रायः उपयोग में आने वाले आहार, खान पान का कुछ भाग यहां पर कहे दिया है। ग्लानपान के सब द्रव्यों का नाम से कथन करना सम्भव नहीं है जिस प्रकार की औषधियों के नाम प्रत्येक देश में भिन्न २ होजाते हैं, उनके गुण गुरु, खर आदि) भी भिन्न २ होते हैं, उसी प्रकार जो द्रव्य यहां पर नहीं कहे उन द्रव्यों के गुण कर्म उसी प्रकार समझने चाहिये। देश

के अनुसार खाद्य पदार्थों में भी गुरु, लघु आदि समझने चाहिये । गुण-ज्ञान के विषय में और भी कहते हैं—

चरः शरीरावयवः स्वभावो धातवः क्रिया ।

लिङ्गं प्रमाणं संस्कारो मात्रा चात्र परीक्ष्यते ॥ ३२९ ॥

चरोऽनूपजलाकाशधन्वाद्यो भक्ष्यसंविधिः ।

जलजानूपजाश्चैव जलानूपचराश्च ये ॥ ३३० ॥

गुरुभक्ष्याश्च ये सत्त्वाः सर्वे ते गुरवः स्मृताः ।

लघुभक्ष्यास्तु लघवो धन्वजा धन्वचारिणः ॥ ३३१ ॥

शरीरावयवाः सक्थिशिरःस्कन्धादयस्तथा ।

सक्थिमांसाद् गुरुः स्कन्धस्ततः क्रोडस्ततः शिरः ॥ ३३२ ॥

वृषणौ चर्म मेढ्रं च श्रोणी वृक्कौ यकृद् गुदम् ।

मांसाद् गुरुतरं विद्याद्यथास्वं मध्यमस्थि च ॥ ३३३ ॥

स्वभावाल्लघवो मुद्गास्तथा लावकपिञ्जलाः ।

स्वभावाद् गुरवो माषा वराहमहिषास्तथा ॥ ३३४ ॥

धातूनां शोणिताद्यानां गुरुं विद्याद्यथोत्तरम् ।

अलसेभ्यो विशिष्यन्ते प्राणिनो ये बहुक्रियाः ॥ ३३५ ॥

गौरवं लिङ्गसामान्ये पुंसां स्त्रीणां च लाघवम् ।

महाप्रमाणा गुरवः स्वजातौ लघवोऽन्यथा ॥ ३३६ ॥

चर ( जिस स्थान पर विचरता है ), शरीरावयव ( शरीर का अंग ), स्वभाव ( प्रकृति ), धातु ( रस, रक्तादि धातु ), क्रिया लिग, प्रमाण, संस्कार, मात्रा ये बातें गुरु लघु विचार करने में देखनी चाहिये । चर, गति रूपचर और भक्ष्य रूप चर भेद से दो प्रकार के हैं । इनमें गति रूप चर आनूप अर्थात् जलबहुल प्रदेश में विचरने वाले, आकाश में, धन्व देश में तथा जल और आनूप दोनों देशों में विचरने वाले हैं । भक्ष्य रूप चर गुरु, शीतल पदार्थ खाते हैं ऐसे दोनों प्रकार के प्राणी गुरु होते हैं । धन्व प्रदेश में उत्पन्न या धन्व ( रेतीले ) देश में विचरने वाले तथा लघु भोजन करने वाले प्राणी लघु होते हैं ।



जाघ, शिर, स्कन्ध आदि शरीर के अवयव हैं । इनमें जंघा से स्कन्ध, स्कन्ध से क्रोड और क्रोड से शिर, का मांस गुरु होता है । शिर से वृषण आर वृषण से इनका चर्म, फिर शिश्न, फिर श्रोणी भाग, फिर वृक्क ( गुर्दे ) और फिर य वृत्त, उसके पीछे गुर्दा और पीछे मध्यास्थि ( मज्जा या अस्थि के ऊपर का मांस ) गुरु होता है ।

स्वभाव वा प्रकृति से मूंग, बटेर कपिजल लघु होते हैं और उडद सुअर, भैस ये गुरु होते हैं । धातुओं में रक्त, मांस, और मेद ये क्रमश उत्तरोत्तर गुरु होते जाते हैं । जो प्राणी बहुत चेष्टाशील होते हैं, वे आलसी स्वभाव वाले प्राणियों से भिन्न अर्थात् लघु होते हैं (आलसी प्राणी गुरु होते हैं) । लिंग की दृष्टि से नर गुरु और मादा पशु लघु होते हैं, (पशुओं में यह नियम है, परन्तु पक्षियों में नर लघु होता है । ) अपनी जाति में बड़े शरीर वाले गुरु और छोटे शरीर के प्राणी लघु होते हैं ।

गुरूणां लाघवं विद्यात्संस्कारात्सविपर्ययम् ।

व्रीहेर्लाजा यथा च स्युः सक्तूना सिद्धपिण्डिकाः ॥ ३३७ ॥

अल्पादाने गुरूणां च लघूना चातिसेवने ।

मात्राकारणमुद्दिष्टं द्रव्याणा गुरुलाघवे ॥ ३३८ ॥

गुरूणामल्पमादेयं लघूनां तृप्तिरिष्यते ।

मात्रां द्रव्याण्यपेक्षन्ते मात्रा चाग्निमपेक्षते ॥ ३३९ ॥

वलमारोग्यमायुश्च प्राणाश्चामौ प्रतिष्ठिताः ।

अन्नपानेन्वनैश्चाग्निर्दीप्यते शाम्यतेऽन्यथा<sup>२</sup> ॥ ३४० ॥

गुरुलाघवचिन्तेयं प्रायेणाल्पवलान् प्रति ।

मन्दक्रियाननारोग्यान् सुकुमारान् सुखोचितान् ॥ ३४१ ॥

दाप्तान्नय. खराहारा. कर्मनित्या महोदराः ।

ये नरा. प्रति तौश्चिन्त्यं नावश्यं गुरुलाघवम् ॥ ३४२ ॥

मंस्कार द्वारा गुरु पदार्थ लघु और लघु पदार्थ गुरु बन जाते हैं । जैसे

१. ज्वलयति व्येति चान्यथा इति वा पाठः ।

व्रीही (धान्य) स्वभाव से गुरु हैं, परन्तु लाजा के रूप में लघु बनजाते हैं और सत्त्व स्वभाव से लघु होने पर भी उनकी आग से पकाई पिण्डिकायें गुरु होजाती है । गुरु पदार्थों को थोड़ा और लघु पदार्थों को अधिक सेवन करने से वे गुरु होजाते हैं । इसलिये गुरु लघुता के निश्चय करने में भी मात्रा कारण है । गुरु पदार्थों को थोड़ा लेना और लघु पदार्थों को तृप्तिपूर्वक खाना चाहिये जिससे पेट फूल न जाय, श्वास चढ़ने न लगे । द्रव्य मात्रा अर्थात् परिमाण की अपेक्षा करते और मात्रा अग्नि की अपेक्षा करती है । बल, आरोग्यता, आयु और प्राण अग्नि पर आश्रित हैं । वे अग्नि के अधीन हैं । अन्न पान ( खान, पान ) रूपी इन्धन से अग्नि प्रदीप्त होता है, और खान पान के न मिलने से वह बुझ जाता है, शान्त होजाता है । जो पुरुष अल्प बल वाले हों, मन्द क्रिया, मन्द चेष्टा वाले, अनारोग्य, रोगी, सुकुमार अर्थात् नाजुक प्रकृति, के आराम का जीवन व्यतीत करने वाले हैं उनके विषय में गुरु लघु का विचार करना चाहिये । जिनकी अग्नि प्रबल हो, जो कठिन आहार को भी पचा सकते हों, नित्य मेहनत करने वाले, बड़े पेट वाले जिनकी अग्नि बड़ी हुई हो उनके विषय में गुरु लघु का विचार करने की आवश्यकता नहीं है ।

हिताभिर्जुहुयान्नित्यमन्तराग्नि समाहितः ।

अन्नपानसमिद्धिर्ना मात्राकालौ विचारयन् ॥ ३४३ ॥

आहिताग्निः सदा पथ्यान्यन्तराग्नौ जुहोति यः ।

दिवसे दिवसे ब्रह्म जपत्यथ ददाति च ॥ ३४४ ॥

नरं निःश्रेयसे युक्तं सात्म्यज्ञं पानभोजने ।

भजन्ते नामयाः केचिद्भाविनोऽप्यन्तरादृते ॥ ३४५ ॥

षट्त्रिंशत् सहस्राणि रात्रीणां हितभोजनः ।

जीवत्यनातुरो जन्तुर्जितात्मा संमतः सताम् ॥ ३४६ ॥

मनुष्य को चाहिये कि मात्रा और काल का विचार करके, हितकारी खान पान रूपी समिधाओं से अन्तराग्नि में नित्यप्रति संयमित चित्त से

हवन करे । जो आहिताग्नि होकर हवन करने वाले के तुल्य नित्य प्रति दोनों समय अन्तराग्नि में हितकारी अन्न की आहुति देकर ब्रह्म ( ओंकार ) का जप करता है, और यथाशक्ति दान करता है, जिसको खान-पान सम्बन्धी साम्य का ज्ञान होता है, ऐसे पुण्यवान् पुरुष को कारण के बिना कभी भी रोग नहीं होते । इसी प्रकार संचित धर्म के प्रभाव से जन्मान्तर में भी रोग नहीं होते । हितकर आहार करने वाला व्यक्ति ३६००० रात्रि (१०० वर्ष) पर्यन्त निरोगी, जितेन्द्रिय, और सज्जनों से पूजित होकर निवास करता है । भवतश्चात्र । प्राणाः प्राणभृतामन्नमन्नं लोकोऽभिधावति ।

वर्णः प्रसादः सौख्यं जीवितं प्रतिभा सुखम् ॥ ३४७ ॥

तुष्टिः पुष्टिर्बलं मेधा सर्वमन्ने प्रतिष्ठितम् ।

लौकिकं कर्म यद्दत्तौ स्वर्गतौ यच्च वैदिकम् ॥ ३४८ ॥

कर्मापन्नगै यच्चोक्तं तच्चाप्यन्ने प्रतिष्ठितम् ।

अन्न, सब प्राणियों का प्राण है, सारा संसार इसी अन्न की याचना करता है ( पेट के लिये आदमी सब कुछ करता है ) । अन्न में ही वर्ण, शरीर की प्रसन्नता, सुन्दरता, जीवन, प्रतिभा, सुख, तुष्टि, हर्ष, पोषण, बल, मेधा, ये सब बातें स्थिर हैं । सांसारिक कर्म, तथा स्वर्ग प्राप्ति में यज्ञादि जो वैदिक मोक्षदायक यज्ञ, तप आदि कर्म हैं, वे सब अन्न में प्रतिष्ठित हैं ।

तत्र श्लोकः । अन्नपानगुणाः साग्न्या वर्गा द्वादशानिश्चिताः ॥ ३४९ ॥

सगुणान्यनुपानानि गुरुलाघवसंग्रहः ।

अन्नपानविधायुक्तं तत्परीक्ष्यं विशेषतः ॥ ३५० ॥

इस अन्नपान नामक अध्याय में, अन्न-पानके गुण, बारह वर्गों में कह दिये । अनुपान के गुण, गुरु एवं लघु विषय का निरूपण किया है, इस विधि में विचार कर प्रयोग करना चाहिये ।

इत्यश्लेषहृते तन्ने चरकप्रतिमस्कृते सूत्रस्थाने अन्नपानविधिर्नाम

सप्तविंशतितमोऽध्यायः ॥ २७ ॥

## अष्टाविंशोऽध्यायः

अथातो विविधाशितपीतीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब यहां से 'विविध अशित-पीतीय' अध्याय का व्याख्यान करेंगे ।  
ऐसा भगवान् आत्रेय ऋषि ने उपदेश किया है ।

विविधमशितपीतलीढखादितं जन्तोर्हितमन्तरग्निसन्धुक्षितवलेन  
यथास्वेनोष्मणा सम्यग्विपच्यमानं कालवदनवस्थितसर्वधातुपाकमनु-  
पहतसर्वधातूष्ममारुतस्रोतः केवल शरीरमुपचयबलवर्णसुखायुषा  
योजयति, शरीरधातूनूर्जयति, । धातवो हि धात्वाहाराः  
प्रकृतिमनुवर्तन्ते ॥ ३ ॥

मनुष्य का खाया, पीया, चाटा या चबाकर दांतों से खाया भोजन,  
नाना प्रकार का हितकारी पदार्थ, जाठराग्नि के प्रदीप्त बल के कारण,  
तथा पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पांच महाभूत अपनी २  
गरमी से अपने २ ( पृथ्वी आदि के गुण वाले ) आहार द्रव्यों को पचाते  
हैं । इस प्रकार से पचा हुआ अन्न नित्य निरन्तर गति से फिरता  
हुआ, सब धातुओं के निरन्तर पाक होने से जिस शरीर में क्षीणता  
उत्पन्न होरही है उस शरीर को तथा जिस शरीर में सब धातुओं की  
गरमी बनी हुई है, और वायुवह स्रोत जिस शरीर में उपस्थित हैं,  
ऐसे सम्पूर्ण शरीर की वृद्धि करने के साथ २ बल, वर्ण, सुख और आयु  
देता है, तथा शरीर के धातुओं को तेज प्रदान करता है । धातु ही जिनका  
भोजन है ऐसे रसादि धातु नित्य प्रति क्षीण होते हुए खाये हुए भोजन  
रूपी धातु को खाकर स्वस्थ अवस्था में रहते हैं ।

तत्राहारप्रसादाख्यो रसः किट्टं च मलाख्यमभिनिर्वर्तते; किट्टात्  
स्वेदमूत्रपुरीषवातपित्तश्लेष्माणः कर्णाक्षिनासिकास्यलोमकूपप्रजनन-  
मलाः केशश्मश्रुलोमनखादयश्चावयवाः पुष्यन्ति।पुष्यन्ति त्वाहाररसात्

रसरुविरमांसमेदोस्थिमज्जशुक्रौजांसि पञ्चेन्द्रियद्रव्याणि धातुप्रसाद-  
मंज्रकानि शरीरमन्धिवन्धपिच्छादयश्चावयवा ; ते सर्व एव धातवो  
मलाख्याः प्रमादाख्याश्च रसमलाभ्या पुण्यन्तः स्व मानमनुवर्तन्ते  
यथावयः शरीरम् । एवं रसमलौ स्वप्रमाणावस्थितौ आश्रयस्य सम  
धातोर्धातुसाम्यमनुवर्तयतः ; निमित्ततस्तु क्षीणवृद्धानां प्रसादाख्यानां-  
धातूनां वृद्धिचयाभ्यामाहारमूलाभ्या रसः सात्म्यमुत्पादयत्यारोग्याय,  
किट्टं च मलानामेवमेव । स्वमानातिरिक्ताः पुनरुत्सर्गिणः शीतोष्ण-  
पर्ययगुणैश्चोपचर्यमाणा मलाः शरीरधातुसाम्यकराः समुपलभ्यन्ते ।  
तेषां तु मलप्रमादाख्यानां धातूनां स्रोतांस्ययनमुखानि; तानि यथावि-  
भागेन यथास्वधातूनापूरयन्ति । एवमिदं शरीरमशितपीतलीढखादित  
प्रभवम्, अशितपीतलीढखादितप्रभवाश्चास्मिन् शरीरे व्याधयो भवन्ति;  
हिताहितोपयोगविशेषात्त्वत्र शुभाशुभविशेषकरा भवन्तीति ॥ ४ ॥

इस आहार से तीन वस्तुएं बनती हैं एक प्रसाद रस, २. किट्ट, असार  
भाग और ३. मल । इनमें किट्ट भाग से पसीना, मूत्र, मल, वायु, पित्त,  
कफ और कान, आंख, नाक, मुख, लोम, कूप और शिश्न के मल उत्पन्न  
होते हैं । तथा केश, दाढ़ी, मूंछ, रोम ( शरीर के बाल ) और नख आदि  
अवयव पुष्ट होते हैं । आहार के प्रसाद रूपी रसभाग से, रस, रक्त,  
मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज तथा पृथ्वी, अप्, तेज, वायु, आकाश  
( ये पंच महाभूत तो इन्द्रियों को बनाने वाले हैं ) अत्यन्त शुद्ध रूप में  
स्थित धातु, शरीर को बांधने वाली ज्ञायु, शिरा आदि, सन्धियां, आर्तव  
और दूध बनते हैं । ये सब मल नामक धातु या प्रसाद रूप धातु रस  
और मल द्वारा पुष्ट होते हुए आयु के अनुसार अपने परिमाण में बनते  
हैं ( अथवा कृश, मृदुल, छोट, बड़े में अपने परिमाण से बनते हैं ) ।

छ आहार के रसादि धातु में बदलने के विषय में एकपक्ष यह है कि  
रस, रक्त धातु में बदलना है और रक्त, मांस में, इस प्रकार आगे परिवर्तन-  
होता जाता है । जिस प्रकार दही जमते हुए सम्पूर्ण दूध दही रूप में

इस प्रकार से शरीर के अपने स्वरूप में ( न अधिक और न कम परिमाण में ) स्थित होने पर धातु साम्यावस्था में रहते हैं । प्रसाद रूप धातुओं का क्षय या वृद्धि जो निमित्त को लेकर होती है, वह आहार के कारण ही होती है, इसलिये आहार द्वारा वृद्धि और क्षय का सात्म्य उत्पन्न

बदलता है, इसी प्रकार सम्पूर्ण रस रक्त रूप में बदल जाता है और रक्त मांस में इसी प्रकार आगे । दूसरे आचार्य इस परिवर्तन को 'केदार-कुल्यान्याय' से मानते हैं । अर्थात् खेत में बहती पानी की धार में से प्रत्येक क्यारी अपना २ पानी ले लेती है । इसी प्रकार यहां पर भी अन्न से उत्पन्न रस, रस धातु में जाकर कुछ भाग से रस बन जाता है, और शेष रस भाग रक्त में जाकर रक्त के गन्ध, वर्ण से मिलकर रक्त बन जाता है और शेष रस भाग आगे मांस धातु में पहुंचता है, वहां मांस के गन्ध-वर्ण में मिलकर मांस बन जाता है, और इससे अवशिष्ट रस भाग मेद में चला जाता है वहां भी पूर्व की भौति क्रिया होती है इसी प्रकार आगे २ चलता जाता है । तीसरे पक्ष वाले कहते हैं कि-अन्नरस पृथक् २ धातुमार्ग में जाकर रसादि धातुओं का पोषण करता है, यह नहीं कि इस धातु को पोषण करने वाला भाग ही रक्त धातु में जाता है । रस आदि को पोषण करने वाले स्रोत उत्तरोत्तर सूक्ष्म मुख वाले और लम्बे हैं । इस प्रकार से रस को पोषण करने वाला भाग रसमार्ग में गमन करके रस का पोषण करता है, एवं रस का पोषण करने के पीछे रक्तपोषक मार्ग में जाने से रक्त का पोषण करता है, इस प्रकार रक्त का पोषण करने के पीछे मांस को पोषण करने वाला रस भाग दूर एवं सूक्ष्म मार्ग में गमन करने से मांस का पोषण करता है । इसी प्रकार आगे मेद आदि का पोषण होजाता है । इस पक्ष में दूध आदि वृष्य वस्तुओं से उत्पन्न रस प्रभाव से शीघ्र ही शुक्र से मिलकर शुक्र का पोषण कर देता है, इसी प्रकार दुष्टावस्था में भी एक दोष के दुष्ट होने से अन्य धातु दुष्ट नहीं होते, परन्तु परिमाण पक्ष में रस धातु के दुष्ट होने से रक्त आदि

होकर आरोग्यता उत्पन्न होती है इसी प्रकार किट्ट और मल भी शरीर के आरोग्य सम्पादन में सहायक होते हैं। अपने परिमाण से अधिक बढे हुए किट्ट और मल को बाहर निकाल कर तथा शीत से उत्पन्न मल में उष्ण, उष्ण से उत्पन्न मल में शीत परिचर्या से मल शरीर के धातुओं को समानावस्था में रखते हैं। इन मल अर्थात् प्रसाद नामक धातुओं के स्रोत गमन करने के मार्ग हैं और ये स्रोत जो २ जिस जिसके हैं उस २ धातुओं को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से यह सम्पूर्ण शरीर खाये, पिये, चाटे, चाखे आहार रूपी रस से पूर्ण होता है। और रोग भी इस शरीर में खाये, पिये, चाटे आदि भोजन से उत्पन्न होते हैं। इसमें हित वस्तुओं का उपयोग शुभकारी और अहित वस्तुओं का उपयोग अशुभकारी होता है।

एवंवादिनं भगवन्तमात्रेयमग्निवेश उवाच—दृश्यन्ते हि भगवन्? हितममाख्यातमप्याहारमुपयुञ्जाना व्याधिमन्तश्चागदाश्च, तथैवाहित-समाख्यातम्; एवं दृष्टे कथं हिताहितोपयोगविशेषात्मकं शुभाशु-भविशंपमुपलभामह इति ॥ ५ ॥

तमुवाच भगवानात्रेयः—न हिताहारोपयोगिनामग्निवेश! तन्निमित्तं व्याधयो जायन्ते, न च केवलं हिताहारोपयोगादेव सर्वं व्याधिभयमिति क्रान्तं भवति, सन्ति हि ऋतेऽप्यहिताहारोपयोगादन्या रोगप्रकृतयः; तद्यथा— कालविपर्यय, प्रज्ञापराधः, परिणामश्च, शब्द-स्पर्शरूपरसगन्धाश्चासात्म्या इति; ताश्च रोगप्रकृतयो रसान् सम्यगु-पयुञ्जानमपि पुरुषमशुभेनोपपादयन्ति, तस्माद्द्विहाहारोपयोगिनोऽपि दृश्यन्ते व्याधिमन्तः । अहिताहारोपयोगिनां पुनः कारणतो न सद्यो

धातु भी दूष्णित्वात्ते हैं। इसके अतिरिक्त परिमाण पक्ष में तीन चार उपमास से ण्य की मृत्यु होनी चाहिये और एक मास के वृष्यसेवन से तो १० ग्रीसरी शुक्रमय ही होना चाहिये। और 'केदारकुल्या न्याय' वाला २ तीसरे पक्ष के समान ही है। इसमें भी वृष्य वस्तुएं प्रभाव से ग्रीसरी शुक्र को उत्पन्न कर देती हैं।

दोषवान् भवत्यपचारः, न हि सर्वाण्यपध्यानि तुल्यदोषाणि, न च सर्वे दोषास्तुल्यबलाः, न च सर्वाणि शरीराणि व्याधिक्रमिन्त्वे समर्थानि भवन्ति, तदेव ह्यपथ्यं देशकालसयोगवीर्यप्रमाणातियोगाद्भ्यस्तरमपथ्यं संपद्यते, स एव दोषः ससृष्टयोनिर्विरुद्धोपक्रमो गम्भीरोऽनुगतश्चिरस्थितः प्राणायतनसमुत्थो मर्मोपघाती वा भूयान् कष्टतमक्षिप्रकारितमश्च संपद्यते, शरीराणि चातिस्थूलान्यतिकृशान्यनिविष्टमांसशोणितास्थीनि दुर्बलान्यसात्म्याहारोपचितान्यल्पाहाराण्यल्पसत्त्वानि वा भवन्त्यव्याधिसहानि, विपरीतानि पुनर्व्याधिसहानि, एभ्यश्चैवापध्याहारदोषशरीरविशेषेभ्यो व्याधयो मृद्वो दारुणाः क्षिप्रसमुत्थाश्चिरकारिणश्च भवन्ति । अत एव च वातपित्तश्लेष्माणः स्थानविशेषे प्रकुपिता व्याधिविशेषानभिनिर्वर्तयन्त्यग्निवेश ! ॥ ६ ॥

इस प्रकार से कहते हुए आत्रेय ऋषि को अग्निवेश बोले—‘हे भगवन् ! संसार मे देखने में आता है, कि जो मनुष्य हितकारी आहार का उपभोग करते हैं, वे रोगी दिखाई देते हैं और अहितकारी भोजन करने वाले भी नीरोग दीखते हैं ।

अग्निवेश को भगवान् आत्रेय ने कहा—हे अग्निवेश ! जो मनुष्य हितकारी अन्न खाते हैं उनको इनके कारण से उत्पन्न होने वाले रोग नहीं होते । और न केवल हित आहार का उपसेवन ही सब रोगों से बचा सकता है । अहित आहार को छोड़कर कुछ दूसरी भी रोग की प्रकृति हैं । यथा काल विपर्यय (ऋतुओं का परिवर्तन), प्रज्ञापराध और परिणाम, शब्द स्पर्श, रूप, रस, गन्ध का असात्म्य ( अतियोग, मिथ्यायोग, या अयोग ) होना । ये रोग के कारण आहार रसों का सम्यक् प्रकार से उपयोग करने पर भी पुरुष में अशुभ लक्षण उत्पन्न कर देते हैं । इसलिये हितकारी आहार को सेवन करने वाले भी रोगी दिखाई देते हैं । इसी प्रकार जो व्यक्ति अहित आहार का उपसेवन करते हैं, उनमें रोगों के ये कारण जल्दी दोषयुक्त नहीं होते । क्योंकि सम्पूर्ण अपथ्य समान



दोषकारक नहीं हैं और सब दोष समान बल वाले भी नहीं हैं और सारे शरीर रोग को सहन करने में समर्थ नहीं होते। इसलिये अपथ्य देश ( चात्रल पित्तकारक है, यही आनूप देश के योग से अधिक अपथ्य कारक होजाता है, काल ( शरत्काल में अपथ्य बलवान् और हेमन्त में निर्बल), संयोग ( दही रात्र के साथ अपथ्य बलवान् और शहट के साथ निर्बल ), वीर्य ( सस्कार या उष्ण करने से अपथ्यतम और शीत से अपथ्य ), प्रमाण अर्थात् मात्रा के अतियोग से अपथ्यतम और हीन बल से निर्बल बन जाते हैं। इसी प्रकार बहुत से कारणों के मिलने से, विरुद्ध चिक्रिस्ता होने से गम्भीर<sup>१</sup> आशयों में, शरीर के बहुत अन्दर प्रवेश कर जाने से तथा शरीर में चिरकाल से जड़पकड़ जाने पर, श्व आदि इस प्राणाश्रयों में स्थित होने से, मर्मस्थानों को पीड़ित करने से, बहुत दुःख देने के कारण असाध्य होने से, शीघ्र विकार उत्पन्न करने से अपथ्य बलवान् बन जाता है। इसी प्रकार बहुत मोटा, बहुत कृश, जिनके मांस, रक्त, अस्थि, ढीले, निर्बल होगये हों जो विपम शरीर वाले हैं, जो असान्म्य आहार को सेवन करने वाले, थोडा खाने वाले, अल्पसत्व वाले शरीर रोगों को सहन नहीं कर सकते। इनके विपरीत गुणों वाले शरीर व्याधि को सहन कर सकने हैं। इसलिये अपथ्य आहार, दोष शरीर की विशेषता में रोग मृदु, दारुण, शीघ्र होने वाले, अथवा देर में होने वाले होते हैं। इसलिये हे अग्निवेश ! वात, पित्त, कफ विशेष स्थानों में कुपित होकर भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं।

तत्र रमादिषु स्थानेषु प्रकुपिताना दोषाणां यस्मिन् यस्मिन् स्थाने ये ये यावय. सभवन्ति तास्तान यथावदनुव्याख्यास्यामः॥७॥

अश्रद्धा चारुचिश्चास्य वैरस्यमरसजता ।

हृद्यामो गोरवं तन्द्रा साङ्गमर्दो ज्वरस्तमः ॥ ८ ॥

पाण्डुत्वं स्रोतसा रोधः कुब्जं साढः कृशाङ्गता ।

१. व्यट्मासाश्रयमुत्तानं गम्भीरं त्वन्तराश्रयम् ।

नाशोऽग्नेरयथाकालं वलयः पलितानि च ॥ ९ ॥  
 रसप्रदोषजा रोगा, वक्ष्यन्ते रक्तदोषजाः ।  
 कुष्ठवीसर्पपिडका रक्तपित्तमसृग्दरः ॥ १० ॥  
 गुदमेढ्रास्यपाकश्च प्लीहा गुल्मोऽथ विद्रधी ।  
 नीलिका कामला व्यङ्गं विप्लवस्तिलकालकाः ॥ ११ ॥  
 दद्रुश्चर्मदलं श्वित्रं पामा कोठास्रमण्डलम् ।  
 रक्तप्रदोषाज्जायन्ते, शृणु मांसप्रदोषजान् ॥ १२ ॥  
 अधिमांसार्बुदं कीलगलशालूकशुण्डिकाः ।  
 पूतिमांसालजीगरण्डगण्डमालोपजिह्विका ॥ १३ ॥  
 विद्यान्मांसाश्रयान्, मेदः संश्रयांस्तु प्रचक्ष्महे ।  
 निन्दितानि प्रमेहाणां पूर्वरूपाणि यानि च ॥ १४ ॥  
 अध्यस्थिदन्तदन्तास्थिभेदशूलं विवर्णता ।  
 केशलोमनखश्मश्रुदोषाश्चास्थिप्रकोपजाः ॥ १५ ॥  
 रुक् पर्वणां भ्रमो मूर्च्छा दर्शनं तमसो मताः ।  
 अरुषां स्थूलमूलानां पर्वजानां च दर्शनम् ॥ १६ ॥  
 मज्जप्रदोषाच्छुक्रस्य दोषात्क्लैब्यमहर्षणम् ।  
 रोगिणं क्लीबमल्पायुं विरूपं वा प्रजायते ॥ १७ ॥  
 न वा संजायते गर्भः पतति प्रस्रवत्यपि ।  
 शुक्रं हि दुष्टं सापत्य सदारं बाधते नरम् ॥ १८ ॥

इनमे रस आदि स्थानों में कुपित वात आदि दोष, जिस जिस स्थान पर जो रोग उत्पन्न करते हैं उन उन रोगों को कहते हैं । अश्रद्धा (मुख में प्रविष्ट अन्न को अन्दर न निगलना), अरुचि ( भोजन में अरुचि, अनिच्छा ), भारीपन, तन्द्रा, शरीर में पीड़ा, ज्वर, तम, अन्धकार, पाण्डु वर्ण स्रोतो का अवराध, नपुसंकता, साद ( अंगों का चमड़े से मढ़ा सा होना ) शरीर की निर्बलता, अग्नि ( जाठराग्नि ) का नाश, विना समय के झुर्रियां और बालों का श्वेत होना ये रसजन्य रोग हैं ।

रक्त जन्य रोग कहते हैं—कुष्ठ, वीसर्प, पिडकायं, रक्तपित्त, रक्तप्रदर, गुदपाक, शिशन का पकना, ग्रीहा, गुल्म, विद्रधि नीलिका, व्यंग (झाई), कामला, पिप्लव, तिष्ठ के आकार के मस्से, दाद, चर्मदल श्वित्र, पामा, कोठ, रक्तमण्डल ( लाल २ चक्के ) ये रक्तजन्य रोग हैं ।

मांसजन्य रोग कहते हैं—अधिमांस, अर्बुद, ववासीर, गलशालूक (गले में शोथ होने से बड़ा हुआ मांस ) गलगुण्डिका, पूतिमांस, अलजी, आगमे कोनों के भाग की वृद्धि, गलगण्ड, गण्डमाला, उपजिह्विका, ये मांस जन्य रोग हैं ।

मेदजन्य रोग—जो रोग मांसजन्य है, वे तथा प्रमेह के निन्दित पूर्वस्वरूप ( बालों की जटिलता, आदि अथवा अति स्थूल पुरुष के आयु ह्राम आदि आठ रूप ) ये मेदजन्य रोग हैं ।

अस्थि के नीचे दूसरी अस्थि आना, अधिदन्त, दन्तभेद ( दांत कट कटाना ), दांत दुग्ना, अस्थियों में शूल, केश, रोम, नख और दाढ़ी मूँछ के रंग का परिवर्तन होना ये अस्थिजन्य रोग हैं । जोड़ों में दर्द, चक्कर, आना मूर्छा, आंखों के सामने अंधेरा आना, व्रण, शिर में छोटी २ फुन्सियां छोटे २ जोड़ों में गांठें पड जाना ये मज्जाजन्य रोग हैं ।

शुक्र के दोष से नपुंसकता ( ध्वज उन्नत न होना), अहर्षण ( ध्वज के गटे होने पर भी मैथुन में अशक्ति ), रोगी, नपुंसक हो या थोड़ी आयु वाला पित्र्य मन्तान उत्पन्न हो, अथवा गर्भ नहीं रहता, रहने पर गिर जाता है या तीन मास से पूर्व ही वह जाता है । दुष्ट शुक्र बच्चे और स्त्री दोनों को तकलीफ देता है ।

इन्द्रियाणि ममाश्रित्य प्रकुपयन्ति यदा मलाः ।

उपश्रुतापतापाभ्या योजयन्तीन्द्रियाणि ते ॥ १९ ॥

ज्ञानं शिराकण्डर्यादुद्ग्रा क्लिश्यन्ति मानवम् ।

तम्भमद्गोचखलीभिर्ग्रन्थिस्फुरणमुपिभिः ॥ २० ॥

मलानाश्रित्य कुपिता भेदशोषप्रदूपणम् ।

दोषा मलानां कुर्वन्ति सङ्गोत्सर्गावतीव च ॥ २१ ॥

विविधादशितात्पीतादहिताल्लीढखादितात् ।

भवन्त्येते मनुष्याणां विकारा य उदाहृताः ॥ २२ ॥

तेषामिच्छन्ननुत्पत्तिं सेवेत मतिमान् सदा ।

हितान्येवाशितादीनि न स्युस्तज्जास्तथाऽऽमयाः ॥ २३ ॥

जिस समय अपथ्य आहार के कारण मल कुपित होकर इन्द्रियो का आश्रय लेलेते हैं, उस समय ये मल इन्द्रियो का नाश या इन्द्रियों को पीड़ित करने लगते हैं। ये मल वायु, शिरा, कण्डराओं में कुपित होकर मनुष्य को बहुत कष्ट पहुंचाते हैं। इससे स्तम्भ, जड़ता, संकोच, सिकुड़ना खर्छी, हाथ पांव का मुड़ जाना, ग्रन्थि ( स्नायु आदि में गांठ ), स्फुरण, धमन, और संज्ञानाश उत्पन्न होता है। जिस समय वात आदि दोष मलों का आश्रय लेकर कुपित होते हैं, उस समय मल का भेद (अतीसार) तथा मलो को सुखाना अथवा मलो के रंग को विकृत करना या मलों का अवरोध अथवा अतिप्रवृत्ति उत्पन्न कर देते हैं। जो रोग यहां पर लिखे हैं, वे नाना प्रकार के खान, पान, चाटन, खाद्य रूप आहार द्वारा मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। ये रोग उत्पन्न न हो, इस इच्छा से मनुष्य सदा हितकारक आहार का सेवन करे, जिससे कि आहारजन्य रोग न हों।

रसजानां विकाराणां सर्वं लङ्घनमौषधम् ।

विधिशोणितकेऽध्याये रक्तजानां भिषग्जितम् ॥ २४ ॥

मांसजानां तु संशुद्धिः शस्त्रक्षाराग्निकर्म च ।

अष्टौनिन्दितकेऽध्याये मेदोजानां चिकित्सितम् ॥ २५ ॥

अस्थ्याश्रयाणां व्याधीनां पञ्चकर्माणि भेषजम् ।

वस्तयः क्षीरसर्पीषि तित्तकोपहितानि च ॥ २६ ॥

मज्जशुक्रसमुत्थानामौषधं स्वादुतित्तकम् ।

अन्नं व्यवायव्यायामौ शुद्धिः काले च मात्रया ॥ २७ ॥

शान्तिरिन्द्रियजानां तु त्रिमर्माये प्रवक्ष्यते ।

त्लाय्वादिजानां प्रशामो वक्ष्यते वातरोगिके ॥ २८ ॥

न वेगान्धारणोऽध्याये चिकित्सासंग्रह कृतः ।

मलजानां विकाराणा सिद्धिश्चोक्ता क्वचित्क्वचित् ॥ २९ ॥

व्यायामादूष्मणस्तैक्ष्ण्याद्धितस्यानवचारणात् ।

कोष्ठाच्छाखां मला यान्ति द्रुतत्वान्मारुतस्य च ॥ ३० ॥

तत्रस्थाश्च विलम्बन्ते कदाचिन्न समीरिताः ।

नादेशकाले कुप्यन्ति भूयो हेतुप्रतीक्षिणः ॥ ३१ ॥

वृद्ध्याभिष्यन्दनात् पाकात्स्रोतोमुखविशोधनात् ।

शाखां मुक्त्वा मलाः कोष्ठं यान्ति वायोश्च निग्रहात् ॥ ३२ ॥

रसजन्य सब विकारों की चिकित्सा लघन अर्थात् उपवास है । रक्तजन्य रोगों की चिकित्सा विधिशोणित अध्याय में कहेंगे । मांसजन्य रोगों की चिकित्सा शस्त्र, क्षार और अग्नि कर्म से होती है । मेदजन्य रोगों की चिकित्सा 'अष्टौनिन्दित' अध्याय में कह दी है । अस्थियो में आश्रित रोगों की चिकित्सा पंचकर्म, एवं तिक्त वस्तुओं से तथा दूध एवं घृत से सिद्ध वस्तियों ( विशेष ) चिकित्सा है । मज्जा और शुक्र से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा स्वादु, तिक्त अन्न, व्यवाय, (स्त्री-संग) व्यायाम और समय पर मात्रानुसार वमन आदि से शुद्धि है । इन्द्रियजन्य रोगों की चिकित्सा 'त्रिमर्माय' अध्याय में कहेंगे । ज्ञायु आदि से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा वातरोगाधिकार में कहेंगे । मलजन्य रोगों की चिकित्सा 'न वेगान्धारणीय' अध्याय में कह दी और कहीं २ ( अतिसार, ग्रहणी आदि में ) आगे भी कहेंगे । निम्न कारणों से ढोप शाखाओं में पहुँच जाते हैं यथा (१) उत्पन्न क्षोन से कोष्ठ को छोड़कर मल शाखा में आजाते हैं । (२) अग्नि के तीक्ष्ण होने से पिछड़े हुए ढोप शाखा में आ जाते हैं । (३) हितकारी वस्तु के अति सेवन से बहुत बड़े हुए ढोप पानी के पूर की भाँति अपने स्थान पर भरकर दूसरे स्थान पर पहुँच जाते हैं । (४) वायु के गतिशील होने से वायु द्वारा दूसरे स्थान पर पहुँच

जाते हैं । वहां शाखा आदि में पहुंचकर रोग उत्पन्न करने में विलम्ब करते हैं । क्योंकि निर्बल दोष किसी प्रबल दोष की प्रेरणा के बिना कुपित नहीं हो सकते । इसलिये आदेश अर्थात् उचितस्थान पर और उचित काल में ही कुपित होते हैं । वे निर्बल दोष और कारण की प्रतीक्षा करते रहते हैं । बलवान् दोष दूसरे प्रेरक कारण की बाट नहीं देखते । शाखाओं से दोष कोष्ठ में किस प्रकार जाते है यह कहते है । दोषों के बढ़ने से, बिलयन से सरल, होने से दोष नीचे की ओर जाते हैं, दोष के पकने से, स्रोतों के मुख खुल जाने से, अवरोध हटने से, तथा फेकने वाली वायु के निग्रह अर्थात् वश में करने से वे स्थित दोष कोष्ठ में आजाते है ।

अजातानामनुत्पत्तौ जातानां विनिवृत्तये ।

रोगाणां यो विधिर्दृष्टः सुखार्थां तं समाचरेत् ॥ ३३ ॥

सुखार्थाः सर्वभूतानां मताः सर्वाः प्रवृत्तयः ।

ज्ञानाज्ञानविशेषात्तु मार्गामार्गप्रवृत्तयः ॥ ३४ ॥

हितमेवानुरुध्यन्ते प्रपरीक्ष्य परीक्षकाः ।

रजोमोहावृतात्मानः प्रियमेव तु लौकिकाः ॥ ३५ ॥

श्रुतं बुद्धिः स्मृतिर्दाढ्यं धृतिर्हितनिषेवणम् ।

वाग्विशुद्धिः शमो धैर्यमाश्रयन्ति परीक्षकम् ॥ ३६ ॥

लौकिकं नाश्रयन्त्येते गुणा मोहतमश्रितम् ।

तन्मूला बहुलाश्चैव रोगाः शारीरमानसा ॥ ३७ ॥

संक्षेप से सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिये कि रोगों को उत्पन्न न होने देने की जो विधि कही है, तथा उत्पन्न हुए रोगों को हटाने की जो विधि कही है, उसका आचरण, सेवन करें । क्योंकि सब प्राणियों की सब प्रवृत्तियां सुख प्राप्त करने की इच्छा से ही होती हैं । ज्ञान और अज्ञान के भेद से ही मनुष्य मार्ग या अमार्ग का अनुसरण करने लगता है । परीक्षक विद्वान् परीक्षा करके हितकारी वस्तुओं का सेवन करते हैं, रजो गुण और मोह में फंसे साधारण जन प्रिय पदार्थ ही चाहते हैं ।

श्रुत, बुद्धि, स्मृति दृढता हितकारी वस्तुओं का सेवन, वाणी की शुद्धि, शम, और धैर्य, ये गुण विवेकी पुरुषमें होते हैं। परन्तु मोह और तम से युक्त होने के कारणलौकिक, अविवेकी पुरुष में ये गुण नहीं होते। इसलिये इनको शारीरिक औरमानसिक बहुत प्रकार के रोग होते हैं।

प्रज्ञापराधाद्यहितानर्थान् पञ्च निपेवते ।

मंवारयति वेगांश्च सेवते साहसानि च ॥ ३८ ॥

तदात्वसुखसंज्ञेषु भावेष्वन्नोऽनुरज्यते ।

रज्यते न तु विज्ञाता विज्ञाने ह्यमलीकृते ॥ ३९ ॥

न रागान्नाप्यविज्ञानादाहारमुपयोजयेत् ।

परीक्ष्य हितमश्रीयाद्देहो ह्याहारसंभवः ॥ ४० ॥

आहारस्य विधावष्टौ विशेषा हेतुसङ्गताः ।

शुभाशुभसमुत्पत्तौ तान् परीक्ष्योपयोजयेत् ॥ ४१ ॥

परिहार्याण्यपथ्यानि सदा परिहरन्नरः ।

भवत्यनृणातां प्राप्त साधूनामिह पण्डितः ॥ ४२ ॥

यत्त रोगसमुत्थानमशक्यमिह केनचित् ।

परिहर्तुं, न तत्प्राप्य शोचितव्यं मनीषिणा ॥ ४३ ॥

अज्ञानी मनुष्य बुद्धि के दोष से पञ्चेन्द्रियों के अहित शब्द, स्पर्शादि विषयों का सेवन करता, मल मूत्रादि के वेगों को रोकता, साहस के कामों को करता प्रारम्भ में सुखदायक और परिणाम में दुःखदायक कर्मों को करता है। इसलिये दुःख उठाना है। परन्तु ज्ञानी पुरुष ज्ञान द्वारा बुद्धि के अच्छे हान से इन कामों में नहीं फँसता, अतः सुखी रहता है। राग अर्थात् शक्ति से (जानते हुए भी भोजन अहितकर है, फिर भी खाना) या अज्ञान से भोजन को नहीं खाना चाहिये, परन्तु करके ज्ञानपूर्वक हितकारी अन्न को ही खाना चाहिये। क्योंकि शरीर आहार में उत्पन्न होता है। भोजन की शुभ-अशुभ परीक्षा के लिये आठ प्रकार की परीक्षा है। भोजन की इन आठ विशेष-

षताओं से परीक्षा करके भोजन करना चाहिये । जिन अपथ्यों से मनुष्य बच सकता हो उनसे बचने का सदा यत्न करना चाहिये । इस प्रकार करने से पुरुष अपराधरहित होता है और साधु पुरुषों में बुद्धिमान् गिना जाता है । क्योंकि प्रारब्ध से उत्पन्न व्याधि को साधु पुरुष बुरा नहीं मानते । जो रोग प्रारब्ध के बलवान् होने से उत्पन्न होता है वह याद चिकित्सा कार्य के लिये असाध्य भी हो तो भी बुद्धिमान् मनुष्य को शोक, चिन्ता नहीं करनी चाहिये ।

तत्र श्लोकाः । आहारसंभवं वस्तु रोगाश्चाहारसंभवाः ।

हिताहितविशेषाश्च विशेषः सुखदुःखयोः ॥ ४४ ॥

सहत्वे चासहत्वे च दुःखानां देहसत्त्वयोः ।

विशेषो रोगसङ्घाश्च धातुजा ये पृथक् पृथक् ॥ ४५ ॥

तेषां चैव प्रशमनं कोष्ठाच्छाखा उपेत्य च ।

दोषा यथा प्रकुप्यन्ति शाखाभ्यः कोष्ठमेव च ॥ ४६ ॥

प्राज्ञाज्ञयोर्विशेषश्च स्वस्थानुरहितं च यत् ।

विविधाशितपीतीये तत्सर्वं संप्रकाशितम् ॥ ४७ ॥

यह शरीर आहार से उत्पन्न होता है, रोग भी आहार से उत्पन्न होते हैं । हित और अहित की विशेषता ही सुख दुःख में कारण है । दुःखों के सहन करने या न सहन कर सकने में देह, सत्व आदि विशेषताये धातु-जन्य पृथक् २ रोग, इनकी चिकित्सा, दोष जिस प्रकार से कोष्ठ से शाखा में जाकर कुपित होते हैं और शाखाओं से जिस प्रकार कोष्ठ में आते हैं, विद्वान् और अविद्वान् की भिन्नता, स्वस्थ और रोगी के लिये जो कुछ हितकारी है, वह सब 'विविधाशितपीतीय' अध्याय में कह दिया ।


इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थानेऽन्नपानचतुष्के

विविधाशितपीतीयो नाम श्रष्टाविंशोऽध्यायः समाप्तः ॥ २८ ॥

समाप्तमिदं सप्तममन्नपानचतुष्कम् ।



## एकोनत्रिंशोऽध्यायः ।



अथातो दशप्राणायतनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेय ॥ २ ॥

अब आगे 'प्राणायतनीय' अध्याय की व्याख्या करेंगे ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

दशैवायतनान्याहु प्राणा येषु प्रतिष्ठिता ।

शङ्खौ मर्मत्रयं कण्ठो रक्तं शुक्रौजसी गुदम् ॥ ३ ॥

तानीन्द्रियाणि विज्ञान चेतनाहेतुमाभयम् ।

जानीते यः स वै विद्वान् प्राणाभिसर उच्यते इति ॥ ४ ॥

प्राण जिन स्थानों पर आश्रित हैं वे दस स्थान हैं । यथा (१-२) शंख-प्रदेश ( कनपटी टैम्पुल रिजिन ) दो, (३-५) तीन मर्म हृदय, वस्ति और गिर, (६) कण्ठ, (७) रक्त, (८) शुक्र, External secretion of testes अण्डों का वहि स्राव ), (९) ओज ( अण्डों का अन्तः स्राव ) और (१०) गुदा ये दस प्राणों के स्थान हैं ।

इन दस स्थानों को, इन्द्रियों ( आध्यात्मिक ), चेतनाहेतु ( आत्मा ) और रोगों के कारण, लक्षण और ओपधि-चिकित्सा को जो विद्वान् जानता है, वही 'प्राणाभिसर' कहलाता है ।

द्विविधान्तु खलु भिषजो भवन्त्यग्निवेश ! प्राणानामेकेऽभिसरा हन्तागे रोगाणां, रोगाणामेकेऽभिसरा हन्तार प्राणानामिति ॥ ५ ॥

एवंवादिनं भगवन्तमात्रेयमग्निवेश उवाच-भगवन् ! ते कथमस्माभिर्वेदितव्या भवेयुरिति ॥ ६ ॥

भगवानुवाच-य इमे कुलीनाः पर्यवदातश्रुताः परिदृष्टकर्माणो दृक्षाः शुचयो जितहस्ता जितात्मानः सर्वोपकरणवन्तः सर्वेन्द्रियोपपन्नाः प्रकृतिदाः प्रतिपत्तिन्नास्ते प्राणानामभिसरा हन्तारो रोगाणाम्; तथाविधा हि केवले शरीरज्ञानेशरीराभिनिर्वृत्तिज्ञान

प्रकृतिविकारज्ञाने च निःसंशयाः, सुखसाध्यकृच्छ्रसाध्ययाप्यप्रत्या-  
 ख्येयानां च रोगाणां समुत्थानपूर्वरूपलिङ्गवेदनोपशयविशेषविज्ञाने  
 व्यपगतसन्देहाः, त्रिविधस्यायुर्वेदसूत्रस्य ससंग्रहव्याकरणस्य सत्रिवि-  
 धौषधग्रामस्य प्रवक्तारः, पञ्चत्रिंशत्तश्च मूलफलानां चतुर्णां च  
 स्नेहानां पञ्चानां च लवणानामष्टानां च मूत्राणामष्टानां च क्षीराणां  
 क्षीरत्वग्बृक्षाणां च षण्णां शिरोविरोचनादेश्च पञ्चकर्माश्रयस्यौषध-  
 गणस्याष्टाविंशतेश्च यवागूनां द्वात्रिंशच्च चूर्णप्रदेहानां षण्णां च विरे-  
 चनशतानां पञ्चानां च कषायशतानां, स्वस्थवृत्तावपि च भोजनपान-  
 नियमस्थानचक्रमणशय्यासनमात्राद्रव्याञ्जनधूमनावनाभ्यञ्जनपरि-  
 मार्जनवेगविधारणाविधारणव्यायामसात्स्येन्द्रियपरीक्षोपक्रमसद्वृत्त-  
 कुशलाः; चतुष्पादोपगृहीते च भेषजे षोडशकले सविनिश्चये सत्रिप-  
 र्येषणे सवातकलाकलज्ञाने व्यपगतसन्देहाः, चतुर्विधस्य च स्नेहस्य  
 चतुर्विंशत्युपनयस्योपकल्पनीयस्य चतुःषष्टिपर्यन्तस्य व्यवस्थापयितारो  
 बहुविधानामुक्तानां च स्नेहस्वेद्यवस्यविरेच्यौषधोपचाराणां च  
 कुशलाः; शिरोरोगादेश्च दोषांशविकल्पजस्य व्याधिसंग्रहस्य सक्षय-  
 पिडकाविद्रधेस्त्रयाणां च शोफानां बहुविधशोफानुबन्धानामष्टाचत्वा-  
 र्त्रिंशत्तश्च रोगाधिकरणानां चत्वारिंशदुत्तरस्य च नानात्मजस्य व्या-  
 धिशतस्य तथा विगर्हितातिस्थूलातिकृशानां च सहेतुलक्षणोपक्र-  
 माणां स्वप्नस्य च हिताहितास्वाप्नातिस्वप्नस्य च सहेतूपक्रमस्य  
 षण्णां च लङ्घनादीनामुपक्रमाणां सन्तर्पणापतर्पणजानां च रोगाणां  
 स्वरूपप्रशमनानां च शोणितजानां च व्याधीनां मदमूर्च्छासंन्या-  
 सानां च सकारणरूपौषधानां कुशलाः; कुशलाश्चाहारविधिविनि-  
 श्रयस्य प्रकृत्या च हिताहितानामाहारविकाराणामभ्यसंग्रहस्यास-  
 वानां च चतुरशीतेः द्रव्यगुणविनिश्चयस्य रसानुरससंश्रयस्य सवि-  
 कल्पकवैरोधिकस्य द्वादशवर्गाश्रयस्य चान्नपानस्य सगुणप्रभावस्य  
 सानुपानगुणस्य नवविधस्यार्थसंग्रहस्याहारगतेश्च हिताहितोपयोग-

विशेषात्मकस्य च शुभाशुभविशेषस्य धात्वाश्रयाणां च रोगाणामौषध  
संप्रहाणां च दशाना च प्राणायतनानां च वक्ष्यामोऽर्थेदशमहा-  
लीये त्रिंशत्तमाध्यायं तत्र च कृत्स्नस्य तत्रोद्देशलक्षणस्य तन्त्रस्य च  
प्रहणधारणविज्ञानप्रयोगकर्मकार्यकालकर्तृकरणकुशलाकुशलाश्र-  
स्मृतिमतिशास्त्रसंयुक्तियुक्तिज्ञानस्यात्मनः शीलगुणैरविसंवादेनेन च  
संपादनेन सर्वप्राणिषु चेतसो मैत्रस्य मातृपितृभ्रातृबन्धुवदेवं युक्ता<sup>१</sup>  
भवन्त्यग्निवेश ! प्राणानामभिसरा हन्तारो रोगाणामिति ॥ ७ ॥

वैद्यों के लक्षण—हे अग्निवेश ! वैद्य दो प्रकार के होते हैं । एक,  
'प्राणाभिसर' प्राणों को लाने वाले और रोगों का नाश करने वाले ।  
दूसरे 'रोगाभिसर' रोगों को लाने वाले और प्राणों का नाश करने वाले ।

इस प्रकार से कहते हुए भगवान् आत्रेय को अग्निवेश बोले—हम  
इन दोनों प्रकार के वैद्यों को किस प्रकार से किन २ लक्षणों से जान  
सकते हैं ।

भगवान् आत्रेय ने कहा कि जो कुलीन उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हों,  
त्रिनकी बुद्धि व शान्त्रज्ञान निर्मल हो, जिन्होंने क्रिया-कर्म देखा हो, जो अनु-  
भवी चतुर, सदाचारी, अभ्यस्त हाथ वाले (शस्त्र चलाने में जिनको सशय  
न हो, कुशल हाथ वाले) जितेन्द्रिय, सर्व सामग्री से सम्पन्न, आंख, कान  
आदि सब इन्द्रियों में युक्त, जो कि शरीर की निरोगस्थिति को भली प्रकार  
जानते हैं, उत्तम मूत्र व परिणाम को भली प्रकार जानने वाले हों वे वैद्य  
प्राणरक्षक एवं रोगनाशक होते हैं । इस प्रकार से वैद्य सम्पूर्ण शरीर के  
ज्ञान में, वीर्य और शोणित के संयोग से शरीर किस प्रकार बनता है इसको  
जान, शार्गरम्यान में कहे सांख्यशास्त्र के अनुसार प्रकृति विकृति ज्ञान  
को बिना सन्देह के समझते हो, सुखसाध्य, कष्टसाध्य, याप्य वा असाध्य  
रोगों के प्रकार के रोगों के कारण, पूर्वरूप, लक्षण, वेदना, अनुकूल,  
कष्ट विचार भली प्रकार जानते हो, सम्पूर्ण आयुर्वेद के सूत्र रूप जो

१. 'बन्धुवदेवमुक्ता' इति पाठः ॥

त्रिविध सूत्र हेतु, लिंग, लक्षण और औषध ज्ञान है इसको सामान्य और विशेष रूप से इनके संक्षेप और विस्तार को, तथा तीन प्रकार की औषध द्रव्यपाश्रय और युक्तिव्यपाश्रय, सत्वावजय समूह को कहना जाननेवाले, १६ प्रकार की मूलिनी ओषधियों को, १९ प्रकार की फलवर्ग की ओषधियों को, चार प्रकार के स्नेहों, पांच प्रकार के नमक, आठ प्रकार के मूत्र, आठ प्रकार के दूध, छः प्रकार के दूधिया त्वचा वाले वृक्षों को, शिरोविरेचनादि पांचकर्मों के औषध समूहों को, अट्टाईस प्रकार की यवा-गुओं को, ३२ प्रकार के चूर्ण या प्रदेहों को, छः सौ विरेचन, पांच सौ कषाय, मनुष्यों की प्रकृति स्वस्थ रहे इसके लिये भोजन, पान, के नियम, स्थान, चलना, फिरना, सोना, बैठना, मात्रा, द्रव्य, अंजन, धूमपान, नस्य, अभ्यंजन, स्नान, चैर्गों को न रोकना, व्यायाम, सात्म्य, इन्द्रियपरीक्षा उपक्रम, सद्वृत्त में कुशल, इनके नियमों को जानने वाले, चिकित्सा के चारों पाद और सोलह अंगों में सन्देहरहित, तीन प्रकार की वासना, वायु के गुण दोष में सन्देहरहित, चार प्रकार के स्नेह, स्नेह की २४ प्रकार की विचारणा के रस भेद के ६४ प्रकार की योग्य योजना करने में, बहुत प्रकार के स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन ओषधियों को यथायोग्य प्रयोग करने में कुशल, शिरोरोगादि रोग, वातादि दोषों की अधिकता या कमी से उत्पन्न होने वाले रोगों को, क्षय, पिडका, तीन प्रकारकी विद्रधि, शोथजन्य नाना प्रकार के रोगों को, रोगों के ४८ प्रकरण, १४० प्रकार के वात पित्त, कफ रोगों को, निन्दित अतिस्थूल अति कृश पुरुषों की हेतु, लक्षण, चिकित्सा को हितकर अहितकर निद्रा को, अनिद्रा व अतिनिद्रा के कारण और चिकित्सा को, लघनादि छः प्रकार की चिकित्सा को, सन्तर्पण अपतर्पण से होने वाले रोगों को, उनकी चिकित्सा को जानें, रक्तजन्य रोग, मद, मूर्छा और सन्यास के कारण, लक्षण और चिकित्सा में कुशल, आहार विधि में कुशल, स्वभावतः पथ्यापथ्य आहार व संस्कार से होने वाले परिवर्तन, चौरासी ( ८४ ) प्रकार के आसव, रस व

अनुरसात्मक द्रव्य गुण निश्चय, विकल्प, अन्नपान के धारह वर्ग, गुण, प्रभाव, अनुपान गुण ( 'चर. शरीरावयवा', इसप्रकरण में कहे गुणनिश्चयात्मक विषय ), अन्नपानादि से, रसादि धातुओं की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, पथ्यापथ्य, आहार के हितकारी फल, वातादि दोष के प्रकुपित होने में उत्पन्न होने वाले रोग और उनकी चिकित्सा, प्राणायतनो के दस स्थान, इन सब विषयों में तथा अगले 'अर्थे दशमहामूलीय' अध्याय में जो कुछ कहेंगे, उस सब में निपुण, आयुर्वेद के उद्देश, लक्षण को जानने वाले हों, एवं आयुर्वेद शास्त्र के ग्रहण करने, ग्रहण किये हुए को धारण करने और अर्थ से जानने, प्रयोग, चिकित्सा-प्रयोग, अनेक प्रकार से चिकित्सा करने, कार्य-धातुओं के समान करने, काल, क्रियाकाल कर्ता, भिषक्, करण औषध में कुशल, तथा स्मरण शक्ति, बुद्धि, शास्त्रयोजना और तर्कज्ञान में समर्थ, अपने शील, स्वभावरूपी गुणों से, सब प्राणी मात्र में मन, आत्मा द्वारा, माता, पिता भाई बन्धु, आदि के समान मैत्री भाव रखने में कुशल होते हैं, स्नेह का व्यवहार करते हैं, हे अग्निवेश ! इस प्रकार के जो वैद्य होते हैं, वे 'प्राणाभिसर' अर्थात् प्राणरक्षक तथा रोगनाशक होते हैं ।

अतो विपर्ययेण विपरीता रोगाणामभिसरा हन्तारः प्राणानां भिषकृद्भ्रप्रतिच्छन्नाः कण्टकभूता लोकस्य प्रतिरूपकत्यक्तधर्माणो राज्ञा प्रमादाच्चरन्ति राष्ट्रणि । तेषामिदं विशेषविज्ञानं । अत्यर्थं वैद्यवैप्रेण श्लाघमाना विशिखान्तरमनुचरन्ति कर्मलोभात्, श्रुत्वा च कस्यचिदातुर्यमभितः परिपतन्ति, संश्रवणे चास्यात्मनो वैद्यगुणानुचरन्ति, यथास्य वैद्यः प्रतिकर्म करोति तस्य च दोषान् मुहुर्मुहुर्कृदाच्चरन्ति, आतुरमित्राणि च प्रहर्षणांपजापोपसेवादिभिरिच्छन्त्यात्मीकतु, स्वल्पेच्छता चात्मन ख्यापयन्ति, कर्म चासाद्य मुहुर्मुहुर्वलोकयन्ति दादयेणाज्ञानमात्मन प्रच्छादयितुकामाः, व्याधि चापवर्तयितुमशक्नुवन्तो व्याधितमेदानुपकरणमपचारिकम-

मनात्मवन्तमुद्दिशन्ति, अन्तगतं चैनमभिसमीक्ष्यान्यमाश्रयन्ति देशमपदेशमात्मनः कृत्वा, प्राकृतजनसन्निपाते चात्मनः कौशल-मकुशलवद्वर्णयन्ति, अधीरवच्च धैर्यमपवदन्ति धीराणां, विद्वज्जन-सन्निपातं चाभिसमीक्ष्य प्रतिभयमिव कान्तारमध्वगाः परिहरन्ति दूरात्, यश्चैषां कश्चित्सूत्रावयवो भवत्युपयुक्तस्तमप्रकृते प्रकृता-न्तरे वा सततमुदाहरन्ति, न चानुयोगमिच्छन्त्यनुयोक्तुं वा, मृत्यो-रिव चानुयोगाद्द्विजन्ते न चैषामाचार्यः शिष्यो वा सन्नह्यचारी वैवादिको वा कश्चित्प्रज्ञायत इति ॥ ८ ॥

इनसे विपरीत गुण वाले वैद्य 'रोगाभिसर' अर्थात् रोगों को लानेवाले और प्राणों का नाश करने वाले होते हैं। ये वैद्य वैद्य के वेश में लोक में कांटे के समान दुःखदायी, अन्यथा करने वाले, द्रोह करने वाले, धर्म का त्याग करके, राजाओं के आलस्य से ही राष्ट्र में विचरते हैं। इन वैद्यों के विशेष लक्षण ये हैं—ये वैद्य के समान वस्त्र धारण करके अपनी प्रशंसा करते हुए रोगी के घर में, गली में चिकित्सा कर्म के लोभ से जाते हैं, किसी रोगी को सुनकर उसको चारों ओर से घेर बैठते हैं, और अपने गुणानुवादों को ऊंचे २ सुनाने लगते हैं। जो पहले वैद्य चिकित्सा कर रहा होता है, उसके दोषों को बार २ कहते हैं। रोगी के मित्रों को खुश करके, चापलूसी, चुगली से, सेवा आदि द्वारा अपना बनाना चाहते हैं। और अपनी इच्छा को थोड़ा बतलाते हैं। चिकित्सा कार्य मिलने पर बार २ इधर उधर देखते हैं। चालाकी से अपने अज्ञान को छिपाने की चेष्टा करते हुए, रोग को अच्छा करने में अशक्त होने पर रोगी को ही उलाहना देने लगते हैं, तुम्हारे पास साधन नहीं, सेवक नहीं, पथ्य नहीं रखते। मरता हुआ देखकर बहाना करके दूसरे देश में चले जाते हैं। भोले भाले आदमी को देखकर अपनी कुशलता को मूर्ख पुरुष की भांति विरुद्ध वचनों द्वारा प्रकट करते हैं। धीर पुरुषों के सामने अधीर की भांति जोर २ से अपना धैर्य कहने लगते हैं। विद्वान् मनुष्यों को देखकर

दुम दबाकर ऐसे भाग जाते हैं, जिस प्रकार की भयंकर भय की आशंका से जंगल के रास्ते को दूर से ही छोड़ देते हैं। इन लोगों को जो ज़रासा भी आयुर्वेद चिकित्सा का सूत्र मिल जाता है, तो उसीको बेसमय या बिना मतलब के ( प्रसंग के बिना ही ) बार-बार बोलने लगते हैं। ये न तो स्वयं किसी से कुछ पूछते हैं और न यह चाहते हैं कि कोई हमसे पूछे। वे प्रश्न के पूछने से मृत्यु के समान डर कर भागते हैं। न तो कोई इनका आचार्य, न कोई शिष्य और न कोई सहाध्यायी होता है।

भिषक्छद्मप्रविश्यैव व्याधितास्तर्कयन्ति ते ।  
 वीतंसमिव संश्रित्य वने शाकुन्तिको द्विजान् ॥ ९ ॥  
 श्रुतदृष्टिक्रियाकालमात्राज्ञानबहिष्कृता ।  
 वर्जनीया हि ते मृत्योश्चरन्त्यनुचरा भुवि ॥ १० ॥  
 वृत्तिहेतोर्भिषद्मानपूर्णान् मूर्खविशारदान् ।  
 वर्जयेन्नातुरां विद्वान् सर्पास्ते पीतमाहताः ॥ ११ ॥  
 ये तु शास्त्रविदो दक्षाः शुचयः कर्मकोविदाः ।  
 जितहस्ता जितात्मानस्तेभ्यो नित्यं कृतं नमः ॥ १२ ॥

वे रोगी को देखकर वैद्य का वेश पहिर कर रोगी के घर में घुस जाते हैं। ये जंगल में पहुँचें चिड़ीमार की तरह पक्षियों को जाल में फँसाने वाले होते हैं। इनको शास्त्रध्रवण, कर्मदर्शन, चिकित्सा और काल, मात्रा शास्त्र का ज्ञान नहीं होता। ये मृत्यु के नौकर होकर पृथ्वी पर विचरते हैं, इसलिये इनका छोड़ देना चाहिये। जीविका प्राप्त करने के लिये वैद्य बने हुए, पूरे मूर्खों को, बुद्धिमानों से भी छोड़ दें। क्योंकि वे वायु पिये हुए साँप के समान हैं। जो वैद्य - ज्ञानी, कर्म में दक्ष, पवित्र, कर्मकुशल, जितहस्त, संयमी, १५ प्राणायामसर वैद्यों को नित्य प्रति नमस्कार है।

तत्र श्लोकः । दश प्राणायतनिके श्लोकस्थानार्थसंग्रहः ।

द्विविधा भिषजश्चाक्ताः प्राणस्यायतनानि च ॥ १३ ॥

इस दश प्राणायतनीय अध्याय में सम्पूर्ण सूत्रस्थान की संक्षिप्त सूची, दो प्रकार के वैद्य, शरीर के दस प्राणायतन ये विषय प्रतिपादन कर दिये हैं ।

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने दशप्राणायतनीयो  
नामैकोनत्रिंशोऽध्यायः समाप्तः ॥ २६ ॥

## त्रिंशत्तमोऽध्यायः

अथातोऽर्थे दशमहामूलीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब इसके अनन्तर 'अर्थ' में दश महामूलीय' नामक अध्याय का चर्चन करते हैं । ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

अर्थे दश महामूलाः समासक्ता महाफलाः ।

महत्कार्यं हृदयं पर्यायैरुच्यते बुधैः ॥ ३ ॥

हृदय जिनका मूलस्थान है ऐसी महान् कार्य करने वाली दस धमनीयां हृदय में आश्रित हैं । 'महत्' और 'अर्थ' ये हृदय के ही नामान्तर हैं ।

षडङ्गमङ्गं विज्ञानमिन्द्रियाण्यर्थपञ्चकम् ।

आत्मा च सगुणश्चेतश्चिन्त्यं च हृदि संश्रितम् ॥ ४ ॥

प्रतिष्ठार्थं हि भावानामेषां हृदयमिष्यते ।

गोपानसीनामागारकर्णिकेवार्थचिन्तकैः ॥ ५ ॥

तस्यौपघातान्मूर्च्छायं भेदान्मरणमृच्छति ।

यद्धि तस्पर्शविज्ञानं धारि तत्तत्र संश्रितम् ॥ ६ ॥

तत्परस्यौजसः स्थानं तत्र चैतन्यसंग्रहः ।

हृदयं महदर्थंश्च तस्मादुक्तं चिकित्सकैः ॥ ७ ॥

छः अंगों वाला शरीर ( दो हाथ, दो पांव, शिर और ग्रीवा एवं कटि का मध्य भाग ), विज्ञान ( निश्चयात्मक बुद्धि ), पांच ज्ञानेन्द्रियां



तथा इन इन्द्रियों के शब्द, स्पर्श आदि विषय, सुख दुःख आदि गुण युक्त आत्मा, मन, चिन्त्य (मन के विषय) ये सब हृदय में आश्रित हैं। यहाँ पर यह सशय हो सकता है कि हृदय तो दो अंगुल मात्र है, इस में छ' अंगों वाला शरीर किस प्रकार समा सकता है। इन्द्रिया अपने आश्रितों में स्थित हैं, विषय बाह्य द्रव्यों में आश्रित हैं। आत्मा व्यापक होने से अनाश्रित है, इसके गुण आत्मा में ही रहेंगे मन भी अनाश्रित है, ध्येय आदि हृदय में नहीं रहते। इस सन्देह का उत्तर देते हैं कि हृदय में ये भाव (पदार्थ) कार्य-कारण सम्बन्ध में अविरोध रूप में रहते हैं। इनमें आधार-आधेय-सम्बन्ध नहीं, परन्तु आश्रय आश्रयि, अथवा अन्वय-न्यतिरेक सम्बन्ध है। जिस प्रकार छप्पर को ढांपने के आधार काष्ठ और आगारकर्णिका अर्थात् घर को ढांपने के लिये बीच २ में रक्खी कड़ी, होती है उसी प्रकार इनका सम्बन्ध है। इस हृदय को उपवात (चोट) लगने से मूर्छा होजाती है और हृदय के विदीर्ण होने से मनुष्य मर जाता है। हृदय के नाश होने से हृदय में आश्रित संसारी आत्मा भी नष्ट होजाता है। स्पर्श को जो जानता है या जिसके कारण स्पर्श ज्ञान होता है वही 'धारी' शरीर इन्द्रिय, सत्व और आत्मा के संयोग (शरीरेन्द्रियसत्वात्मसंयोगो धारि जीवितम्) ये सब हृदय में आश्रित हैं। यह हृदय परम (श्रेष्ठ) ओज का स्थान है, चैतन्य विषयों में फैले हुए मन का इसी हृदय में सग्रह होता है। विषयों से गये हुए इसी मनको हृदय में रोकने से योगी बनते हैं और योग मोक्ष का साधन (योगो मोक्षप्रदत्तकः) है इसलिये हृद - एतन् और इन शब्दों से चिकित्सक कहते हैं।

तेन म नहता महामूला मता दश ।

श्रोत्रोवाहा शरीरेऽस्मिन् विधम्यन्ते समन्ततः ॥ ८ ॥

येनोजसा वर्तयन्ति प्रीणिताः सर्वजन्तवः ।

यद्वत् सर्वभूताना जीवितं नावतिष्ठते ॥ ९ ॥

यत्सारमादौ गर्भस्य यत्तद्गर्भरसाद्रसः ।

संवर्तमानं हृदयं समाविशति यत्पुरा ॥ १० ॥

यस्य नाशात्तु नाशोऽस्ति धारि यद्धृदयाश्रितम् ।

यः शरीररसस्त्रेहः प्राणा यत्र प्रतिष्ठिताः ॥ ११ ॥

तत्फला बहुधा वा ताः फलन्तीव महाफलाः ।

ध्मानाद्धमन्यः स्रवणात् स्रोतांसि सरणात्सिराः ॥ १२ ॥

इस हृदय से महामूल वाली ( जिनका प्रभावस्थान बड़ा है, ऐसी ) दस ओजवाहक धमनियां निकल कर इस सम्पूर्ण शरीर में फैलती हैं । जिस ओज के पुष्ट होने पर सब प्राणी जीते हैं, जिस ओज के बिना प्राणियों का जीवन नहीं रह सकता, जो ओज शुक्र-रक्त संयोग से बने गर्भ में सारभूत है, और जो शुक्र रक्त के संयोग से बने कलल रूप में रसरूप सार है, जो ओज हृदय के बनने पर स्पष्ट होकर हृदयमें रहता है, जिस ओज के नष्ट होने पर ( धातुओं का क्षय न होने पर भी ) मृत्यु निश्चित है, जो कि प्राणों को धारण करने में मुख्य है, जिस ओज में प्राण आश्रित है उस ओज को लेजाने वाली, ओजोवहा, महाफला दस धमनियां हृदय का आश्रय लेकर अनेक प्रकार से फलती हैं । वे हृदय में दस होती हुई भी शरीर में प्रतान भेदों या से असंख्य बन जाती हैं ।

पूरण अर्थात् वाह्य रस द्वारा भरने से (स्पन्दन होने से), धमनीयां, स्रवण अर्थात् रस, पोष्य वस्तु का स्रवण होने से 'स्रोतस्' और दूसरे देश या स्थान में जाने से 'सिरा' कहलाती हैं ।

तन्महत्ता महामूलास्तच्चौजः परिरक्षता ।

परिहार्या विशेषेण मनसो दुःखहेतवः ॥ १३ ॥

हृद्यं यत्स्याद्यदौजस्यं स्रोतसां यत्प्रसादनम् ।

तत्तत्सेव्यं प्रयत्नेन प्रशमो ज्ञानमेव च ॥ १४ ॥

हृदय स्थित मन की रक्षा में कारण छः अंगों वाले शरीर, बुद्धि आदि

का हृदय स्थान है । ओजोवहा धमनीयां भी इसी हृदय से निकलती हैं, यही हृदय इनका मूल है । इसलिये ओज की रक्षा करने के लिये मानसिक दुःखों के कारणोंमें विशेष रूप से बचना चाहिये । जो वस्तु हृदय और ओज के लिये हितकारी हो, एवं मनोवहा आदि स्रोतों को निर्मल करनेवाली हो और शान्ति तथा तत्त्वज्ञान इनको प्रयत्नपूर्वक सेवन करना चाहिये ।

अथ खल्वेकं प्राणवर्धनानामुत्कृष्टतममेकं बलवर्धनानामेकं वृंहणानामेकं नन्दनानामेकं हर्षणानामेकमयनानामिति । तत्राहिंसा प्राणिनां प्राणवर्धनानामुत्कृष्टतमं, वीर्यं बलवर्धमानां, विद्या वृंहणानां, इन्द्रियजयो नन्दनानां, तत्त्वावबोधो हर्षणानां, ब्रह्मचर्यमयनानामित्यायुर्वेदविदो मन्यन्ते ॥ १५ ॥

सेवन करने योग्य वस्तुएं कहते हैं—प्राणों को बढ़ाने के लिये सबसे उत्कृष्ट वस्तु एक ही है (दूसरा नहीं), बल को बढ़ाने में एक, वृष्य वस्तुओं में उत्कृष्टतम, श्रेय, समृद्धिकारक, हर्षोत्पादक, मोक्षदायक, सबसे श्रेष्ठ वस्तु एक ही है । जैसे प्राणियों के प्राणों को बढ़ाने के लिये अहिंसा सबसे उत्कृष्ट है, बल वर्धकों में वीर्य, वृंहण वस्तुओं में विद्या, श्रेयस्कर वस्तुओं में इन्द्रियों का संयम, हर्षोत्पादक वस्तुओं में तत्त्वज्ञान और मोक्षदायक वस्तुओं में ब्रह्मचर्य ही सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा आयुर्वेद विद्वान् मानते हैं ।

तत्रायुर्वेदविदस्तन्त्रस्थानाव्यायप्रश्नानां पृथक्त्वेन वाक्यशो वाक्यार्थशोऽर्थावयवशश्च प्रवक्तारो मन्तव्या ॥ ६ ॥

अत्राह—कथं तन्त्रादीनि वाक्यशो वाक्यार्थशोऽर्थावयवशश्चेत्युक्तानि भवन्तीति । अत्रोच्चते—तन्त्रमार्थं कात्स्न्येन यथाम्नायमुच्यमानं वाक्यशो भवत्युक्तम् । बुद्ध्या सम्यगनुप्रविश्यार्थतत्त्वं वाग्भिर्व्यास-समास-प्रविज्ञा-हेतूदाहरणोपनय-निगमन-युक्ताभिस्त्रिविधशिष्यबुद्धि-गम्याभिरुच्यमानं वाक्यार्थशो भवत्युक्तम् । तन्त्रनियतानामर्थ-दुर्गाणां पुनर्विभावनैरुक्तमर्थावयवशो भवत्युक्तम् ॥ १७ ॥

जो पुरुष आयुर्वेद के ग्रन्थ, उनके स्थान, प्रसंग, अध्याय, प्रश्न उनके अवान्तर विषय, वाक्यार्थों और अर्थावयवों का निरूपण कर सकते हों, उनको आयुर्वेद का ज्ञाता मानना चाहिये । आयुर्वेद के ग्रन्थ में वाक्य, अर्थ और अर्थावयव किस प्रकार से कहे जाते हैं ? यह कहते हैं, ऋषिकृत तन्त्र को 'अथ' से 'इति' पर्यन्त समस्त ग्रन्थ को पाठक्रम से पढ़ना वाक्यार्थ होता है । अर्थतत्त्व को बुद्धि से भली प्रकार समझ कर वाणी द्वारा व्यास अर्थात् विभाग, समास, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण ( दृष्टान्त ), उपनय<sup>१</sup>, निगमन<sup>२</sup>, तीनों प्रकार ( उत्तम मध्यम और अधमकोटि ) के शिष्य जिस युक्ति से समझ सकें इस प्रकार से कहना वाक्यार्थशः निरूपण कहाता है । तन्त्र मे आये हुए कठिन अर्थों को पुनः २ व्याख्यानो द्वारा स्पष्ट करना यह 'अर्थावयवशः निरूपण' होता है ।

तत्र चेत्प्रष्टार स्युः—चतुर्णामृक्सामयजुरथर्ववेदानां कं वेदमुप-  
दिशन्त्यायुर्वेदविदः, किमायुः, कस्मादायुर्वेदः, किं चायमायुर्वेदः  
शाश्वतोऽशाश्वतश्च । कति कानि चास्याङ्गानि, कैश्चायमध्येतव्यः  
किमर्थं चेति ॥ १८ ॥

तत्र भिषजा पृष्टेनैवं चतुर्णामृक्सामयजुरथर्ववेदानामात्मनोऽथ-  
र्ववेदे भक्तिरादेश्या । वेदोह्याथर्वणः स्वस्थयनबलिमङ्गलहोमनियमप्रा-  
यश्चित्तोपवासमन्त्रादिपरिग्रहाञ्चिकित्सां प्राह, चिकित्सा चायुषो  
हितायोपदिश्यते ॥ १९ ॥

वेदं चोपदिश्यायुर्वाच्यं, तत्रायुश्चेतनानुवृत्तिर्जीवितमनुबन्धो  
धारि चेत्येकोऽर्थः ॥ २० ॥

तत्राऽऽयुर्वेदयतोत्यायुर्वेद । कथमिति चेदुच्यते—स्वलक्षणतः  
सुखामुखतो हिताहिततः प्रमाणाप्रमाणतश्च । यतश्चायुष्याण्यना-  
युष्याणि च द्रव्यगुणकर्माणि वेदयत्यतोऽप्यायुर्वेदः ॥ २१ ॥

१ सिद्धोन्तोपपादितस्य साधनधर्मस्य साध्ये पुनः कथनमुपनयः ।

२. हेतुसाधितसाध्यधर्मकथनं निगमनम् ॥

तत्रायुष्याण्यनायुष्याणि च द्रव्यगुणकर्माणि केवलेनोपदे-  
क्ष्यन्ते तन्त्रेण ॥ २२ ॥

यदि कोई पूछे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इन चारों वेदों में से किस वेद को आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद का कौन से वेद के साथ सम्बन्ध है? आयु क्या है? आयुर्वेद किस लिये है? आयुर्वेद है क्या? आयुर्वेद शाश्वत (नित्य) है या अशाश्वत (अनित्य)? इस आयुर्वेद के किनने और कौन २ से अंग है? आयुर्वेद किन को पढना चाहिये? और इस आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? वैद्य से इस प्रकार प्रश्न पूछे जाने पर वैद्य को ऋग, यजुः, अथर्व और साम इन चारों वेदों में से अथर्व वेद में ही अपनी भक्ति (श्रद्धा) बतलानी चाहिये। क्योंकि अथर्ववेद ने स्वस्ति-अयन, बलि, मंगल, होम, नियम, प्रायश्चित्त, वा उपवासादि द्वारा रोग की चिकित्सा कही है। चिकित्सा आयु की मंगल कामना से कही जाती है आयुर्वेद यह आथर्ववेद का एक भाग है। वेद सम्बन्धी विवेचन करने के पीछे ही आयुसम्बन्धी विवेचन किया जाता है। चैतन्यपरम्परा, जीवित, अनुबन्धन, धारि ये आयु शब्द के समानार्थवाची हैं। आयुर्वेद किस लिये कहते हैं इसका उत्तर अपने लक्षण नै, गुण दुःख, हितकारी अहितकारी, प्रमाण अप्रमाण एवं आयुवर्द्धक और आयुक्षयकारक द्रव्यों के गुण कर्म सम्पूर्ण रूपसे कहे जाते हैं, इन शास्त्र को आयुर्वेद कहते हैं।

तत्रायुरुक्त स्वलक्षणतो यथावदिहैव । तत्र शारीरमानसाभ्यां  
रोगाभ्यामनभिद्रुतस्यानभिभूतस्य च विशेषेण यौवनवतः समर्थानु-  
गतबलवीर्यशुभ्रः पौरुषपराक्रमस्य ज्ञानविज्ञानेन्द्रियेन्द्रियार्थबलस-  
मुदाये वतः । तस्य परमर्विरुचिरविविधोपभोगस्य समृद्धसर्वारम्भस्य  
यथेष्टनिचारितः सुखमायुरुच्यते, असुखमतो विपर्ययेण । हितैषिणः  
पुनर्भूतः ॥ परस्वादुपरतस्य सत्यवादिनः शमपरस्य परीक्ष्यकारिणो-  
ऽप्रमत्तस्य त्रिवर्ग परस्परैणानुपहतमुपसेवमानस्य पूजार्हसंपूजकस्य

ज्ञानविज्ञानोपशमशीलस्य वृद्धोपसेविनः सुनियतरागरोषेर्ष्यामदमान-  
वेगस्य सततं विविधप्रदानपरस्य तपोज्ञानप्रशमनित्यस्याध्यात्मविद-  
स्तत्परस्य लोकमिमं चामुं चापेक्षमाणस्य स्मृतिमतो हितमायुरु-  
च्यते । अहितमतो विपर्ययेण ॥ २३ ॥

आयु का लक्षण ( चेननानुवृत्ति चेतनपरम्परा० ) इस स्थान पर कह  
दिया है । जिस मनुष्य को शारीरिक या मानसिक किसी प्रकार का रोग  
नहीं, शरीर में तारुण्य भरा है, शरीर में शक्ति, बल, वीर्य और पौरुष,  
पराक्रम है, ज्ञान, बुद्धि, इन्द्रिय और विषय बलवान् हैं, सम्पत्ति, प्रिय  
और नाना प्रकार के भोग्य पदार्थ अनुकूल हो, सब कार्यों में जिसको  
सफलता मिलती हो, स्वेच्छापूर्वक आहार-विहार करने योग्य, जो  
मनुष्य हो उसकी आयु सुखमय समझनी चाहिये । इसके विरुद्ध :खमय  
समझना । जो मनुष्य सब प्राणियों का कल्याण चाहता हो, जो दूसरे  
के धन की इच्छा नहीं करता, सत्यवादी, शान्तमन ( संतोषी ),  
विचार कर कार्य करने वाला, उद्यमी, दूसरे को कष्ट न पहुंचाये,  
इस प्रकार से जो धर्म, अर्थ, काम का सेवन करता है, पूजा के योग्य  
पुरुषों का जो पूजन करता है, ज्ञान, विज्ञान, उपशम शील-स्वभाव का,  
वृद्ध पुरुषों का सत्संग (सेवा) करने वाला, राग, क्रोध, ईर्ष्या, मद, मान  
के वेगों को दमन करनेवाला, निरन्तर नाना प्रकार के दान देने वाला, तप,  
ज्ञान में रत एवं सदा शान्त चित्त रहने वाला, आत्मा के चिन्तन में दत्त  
चित्त, इह लोक परलोक दोनों का ध्यान रखने वाला, उत्तम स्मरण शक्ति  
वाला जो पुरुष होता है, उसकी आयु हितकारी होती है ।

प्रमाणमायुषस्त्वर्थेन्द्रियमनोबुद्धिचेष्टादीनां विकृतिलक्षणैरुपल-  
भ्यतेऽनिमित्तैः, इदमस्मात्क्षणांमुहूर्तादिवसात्त्रिपञ्चसप्तदशद्वादशा-  
हात्पक्षान्मासात्षण्मासात्संवत्सराद्वा स्वभावमापत्स्यत इति । तत्र  
स्वभावः, प्रवृत्तेरुपरमो, मरणमनित्यता, निरोध इत्येकोऽर्थः ।  
इत्यायुषः प्रमाणमतो विपरीतमप्रमाणम् । अरिष्टाधिकारे देहप्रकृति-

लक्षणमधिकृत्य चोपदिष्टमायुषः प्रमाणमायुर्वेदे ॥ २४ ॥

प्रयोजनं चास्य—स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणमातुरस्य विकारप्र-  
शमनं च ॥ २५ ॥

आयु का प्रमाण, इन्द्रियों के विषय ( शब्द स्पर्शादि ) मन, बुद्धि, चेष्टा आदि के विकृत लक्षणों से जाना जाता है । लक्षण को देखकर यह कहा जासकता है कि अमुक मनुष्य एक मुहुर्त्त में, एक क्षण में, एक दिन में, तीन दिन में, पाच दिन में, सात दिन में, बारह, पन्द्रह दिनों में महीने, छ. मास में, या साल भर में स्वभाव अर्थात् मृत्यु को प्राप्त होजायेगा । स्वभाव, प्रवृत्ति, उपरम, मरण, अनित्यता, निरोध ये शब्द एकार्थवाची पर्याय है यह आयु का प्रमाण है, इसके विपरीत अप्रमाण । अरिष्टाधिकार ( इन्द्रियस्थान ) में देह, प्रकृति, लक्षण के अधिकार में आयु का प्रमाण आगे कहेंगे ।

सोऽयमायुर्वेदः शाश्वतो निर्दिश्यते, अनादित्वात्स्वभावसंसिद्ध-  
लक्षणत्वाद्भावस्वानित्यत्वाच्च । न हि नाभूत्कदाचिदायुषः  
सन्तानो बुद्धिसन्तानो वा शाश्वतश्चायुषो वेदिता, अनादि च सुख-  
दुःख सद्रव्यहेतुलक्षणमपरापरयोगात्; एष चार्थसंग्रहो विभाव्यते  
आयुर्वेदलक्षणमिति । गुरुलघुशीतोष्णस्निग्धरूक्षादीनां च द्वन्द्वानां  
सामान्यविशेषाभ्या वृद्धिहासौ, यथोक्तम् । गुरुभिरभ्यस्यमानैर्गुरुणा-  
मुपचयो भवत्यपचयो लघूनामेवमेवेतरेपामित्येष भावस्वभावो नित्यः,  
स्वलक्षणं च द्रव्याणां पृथिव्यादीना । सन्ति तु सर्वदागुणाश्च नित्या-  
नित्याः । न ह्यायुर्वेदस्याभूत्वात्पत्तिरुपलभ्यते, अन्यत्रावबोधोपदे-  
शाभ्याम् । एतद् द्वयमधिकृत्योत्पत्तिमुपदिशन्त्येके । स्वाभाविकं चास्य  
लक्षणमकृतकं, यदुक्तमिह चान्द्रेऽध्याये—यथाऽग्नेरौष्ण्यमपां द्रव-  
त्वम् । भास्वभावानित्यत्वमपि चास्य यथाक्तं गुरुभिरभ्यस्यमा-  
नैर्गुरुणामुपचयो भवत्यपचयो लघूनामित्येवमादि ॥ २६ ॥

यह आयुर्वेद नित्य है, ऐसा माना जाता है । इसके तीन हेतु हैं—

उसके तीन हेतु हैं १. अनादि होने से, २. स्वभाव सिद्ध होने से, ३. पदार्थों के गुण, धर्म नित्य होने से । इसका विस्तार से वर्णन करते हैं । आयुर्वेद में आयुष्य का प्रतिपादन किया है और सर्वदा ही आयु की परम्परा सन्तान-न्याय से चली आरही है ( विना आयु के कोई नहीं हुआ ) । इसी प्रकार बुद्धि की परम्परा भी अनित्य काल से चली आरही है । ( एक मरता है, दूसरा जीवित रहता है इस प्रकार से आयु की परम्परा चल रही है ) इसलिये आयुष्यादि प्रतिपाद्य विषय अनादि हैं । इसको प्रतिपादन करने वाला आयुर्वेद भी अनादि है । आयुर्वेद उपकरण और आयुष्य उपकार्य है । विना उपकरण के कार्य नहीं रह सकता । इसी प्रकार बुद्धि के भी अनादि होने से आयुर्वेद का ज्ञान भी अनादि है । और इस ज्ञान को जानने वाले लोग ( जीवात्मा ) भी अनादि हैं । दूसरा आरोग्यता या रोग को उत्पन्न करने वाले, अथवा रोग के लक्षण, कारण, चिकित्सा आयुर्वेद में प्रतिपादन किये हैं और वे अनादि हैं । क्योंकि सुख दुःख अनादि काल से चला आरहा है इसलिये इनको प्राप्त तथा नाश करने के भी उपाय अनादि होने चाहिये । तीसरी जड़, हलका, भारी, ठण्डा, गरम, स्निग्ध, रूक्ष पदार्थों के ये गुण धर्म भी नित्य हैं, इसलिये इन गुण धर्मों को बताने वाला आयुर्वेद भी नित्य है । पृथिव्यादि पंच महाभूतों के गुण धर्म नित्य हैं, परन्तु इनसे बने पदार्थ अनित्य है । इसी प्रकार मिट्टी नित्य और मिट्टी से बना घड़ा अनित्य है । इस प्रकार से मनुष्य-शरीर को बनाने वाले परिणाम नित्य हैं । और इस परिणाम रूप निर्माण क्रिया को बतलाने वाला आयुर्वेद भी नित्य है । आयुर्वेद का एक समय अस्तित्व नहीं था, उत्पन्न हुआ है ऐसा कहीं पर सुनने में नहीं आता । जहाँ पर भी आयुर्वेद का प्रादुर्भाव लिखा है, वहाँ पर इसका अवबोध या उपदेश रूप से प्रतिपादन किया है कि इन्द्र के उपदेश से भरद्वाज मुनि ऋष्यु लोक में आयुर्वेद को लाये यह उपदेश और ब्रह्मा के अन्दर जो ज्ञान का उदय हुआ वही इसकी उत्पत्ति है । आयुर्वेद स्वाभाविक होने



पर भी बनाया हुआ नहीं है। जिस प्रकार घडा सामान्य नित्य होते हुए भी व्यक्ति रूप से अनित्य होता है )। जैसा कि पहले अध्याय में कहा है (हिताहितं सुखदुःखं०)। अग्नि में उष्णिमा और पानी में तरलता स्वाभाविक है, यनाई हुई नहीं है इसी प्रकार आयुर्वेद भी स्वाभाविक है। भाव, अर्थात् स्वभाव के अकृत अर्थात् स्वाभाविक होने से भी आयुर्वेद नित्य है। यथा-गुरु पदार्थों के उपसेवन से गुरुता बढ़ती है। और लघु पदार्थों के उपसेवन से शरीर में लघुता बढ़ती है। इसलिये आयुर्वेद भी नित्य है।

तस्यायुर्वेदस्याङ्गान्यष्टौ । तद्यथा— कायचिकित्सा, शालाक्यं, शत्यापहर्तृकं, विपगरवैरोधिकप्रशमनं, भूतविद्या, कौमारभृत्यकं, रसायनानि, वाजीकरणमिति ॥ २७ ॥

इस आयुर्वेद के आठ अंग हैं। (१) काय-चिकित्सा, (२) शालाक्य, (३) शत्यापहर्तृक, (४) विप-गर-वैराधिकप्रशमन, (५) भूतविद्या, (६) कौमार-भृत्यक, (७) रसायन और (८) वाजीकरण ये आठ अंग हैं।

स चाध्येतव्यो ब्राह्मणराजन्यवैश्यैः । तत्रानुग्रहार्थं प्राणिनां ब्राह्मणैरात्मरक्षार्थं राजन्यैर्वृत्त्यर्थं वैश्यैः, सामान्यतो वा धर्मार्थकामपरिग्रहार्थं सर्वैः । तत्र च यदध्यात्मविदां धर्मपथस्थापकानां धर्मप्रकाशकानां वा मातृपितृभ्रातृबन्धुगुरुजनस्य वा विकारप्रशमने प्रयत्नवान् भवति यच्चायुर्वेदोक्तमध्यात्ममनुध्यायति वेदयत्यनुविधीयते वा सोऽप्यस्य परं धर्मः । या पुनरीश्वराणां वसुमतां वा सकाशात्सुखोपहारनिमित्ताः स्वत्यर्थावाप्तिरारक्षणं च या च स्वपरिगृहीतानां प्राणिनामातुः शरत्ता सोऽस्यार्थः । यत्पुनरस्य विद्वद्ग्रहणयशः शरण्यत्वं च या च नानशुश्रूषा यच्चेष्टानां विषयाणामारोग्यमाधत्ते सोऽस्य काम इति यथाप्रश्नमुक्तमशेषेण ॥ २८ ॥

यह आयुर्वेद ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्गों को पढ़ना

चाहिये । ब्राह्मणों को प्राणियों का भला करने के लिये, क्षत्रियों को अपनी रक्षा के लिये, वैश्यों को वृत्ति अर्थात्, जीविकोपार्जन के लिये पढ़ना चाहिये । अथवा धर्म, अर्थ, काम रूपी पुरुषार्थों के उद्देश्य से ही सब को पढ़ना चाहिये । इनमें जो तत्त्वज्ञान को जानने वाले, धर्मसंस्थापक, धर्मोपदेशक, माता, पिता, भाई, बन्धु, गुरुजनों के रोगों को दूर करने में प्रयत्नशील होता है और जो पढ़े हुए आयुर्वेद को दूसरों को पढ़ाता है, बतलाता है, वैसा करता है, वह इस का सर्वोत्तम धर्म है । राजाओं या रईसों, सेठों से आरोग्यता प्रदान करने पर जो धन की प्राप्ति होती है, आत्मरक्षा होती है, इसी प्रकार अपने आश्रयजीवी नौकर चाकर आदि को रोग मुक्त करता है वह इसका सर्वोत्तम अर्थ है । विद्वान् लोगों द्वारा प्राप्त यज्ञ, कीर्ति, सब लोगों का शरण में आना, आश्रयप्रदाता होना, आदर सत्कार लोगों से प्राप्त होना, प्रिय विषयों में आरोग्यता का प्राप्त होना यह इसका सर्वोत्तम काम है । इस प्रकार से सब प्रश्नों का पूरा उत्तर दे दिया ।

अथ भिषगादित एव भिषजा प्रष्टव्योऽष्टविधं भवति । तद्यथा-  
तन्त्रं तन्त्रार्थं स्थानानि स्थानार्थानध्यायानध्यायार्थान् प्रश्नार्थाश्चेति ।  
पृष्टेन चैतद्वक्तव्यमशेषेण वाक्यशो वाक्यार्थशोऽर्थावयवशश्चेति ॥२९॥

वैद्य परीक्षा के लिये वैद्य से आठ प्रश्न पूछे । यथा तन्त्र, तन्त्रार्थ, स्थान, स्थानों के अर्थ, अध्याय और अध्याय के अर्थ, प्रश्न और प्रश्नार्थ । पूछे जाने पर वैद्य को सम्पूर्ण रूप से वाक्य, वाक्यार्थ, अर्थावयव रूप से पूर्णतया कहना चाहिये ।

तत्रायुर्वेदः शाखा विद्या सूत्रं ज्ञानं शास्त्रं लक्षणं तन्त्रमित्य-  
नर्थान्तरम् ॥ ३० ॥

तन्त्रार्थः पुनः स्वलक्षणैरुपदिष्टः, स चार्थः प्रकरणैर्विभाव्यमानो भूय एव शरीरवृत्तिहेतुव्याधिकर्मकार्यकालकर्तृकरणविधिविनिश्चया-  
द्दशप्रकरणः, तानि च प्रकरणानि केवलेनोपदेक्ष्यन्ते तन्त्रेण ॥ ३१ ॥

इसमें आयुर्वेद, शाखा, सूत्र, ज्ञान, शास्त्र, लक्षण व तन्त्र ये सब प्रकारवाची शब्द हैं। तन्त्र का अर्थ ( आयुर्वेदयतीत्यायुर्वेदः ) अपने लक्षणों में कह दिया। हित-अहित आयुरूप लक्षण है और यह अर्थ प्रकरण भेद से बहुत प्रकार का है। यथा शरीर ( पञ्च महाभूतों का समुदायरूप होने से अवयवआदि भेद से बहुत प्रकार का है), वृत्त (आहार अशित, पीत, लीढ, स्वाद्य भेद में), हेतु ( असात्म्येन्द्रियार्थसंयोग, प्रज्ञापराध, परिणाम ), व्याधि ( धातुवैपम्य ), कर्म ( चिकित्सा ), कार्य ( आरोग्यता ), काल ( ऋतु आदि ), कर्त्ता ( भिषक् ), करण ( भेषज ), विधि ( उपकल्पना विधान जिसे काल, द्रव्य और व्याधि की अपेक्षा से समझना चाहिये )। इन प्रकरणों से ग्रन्थ सम्पूर्ण रूप से भली प्रकार सुगठित होता है। ये प्रकरण तन्त्र में सम्पूर्ण रूप में कहे जावेंगे।

तन्त्रस्यास्याष्टौ स्थानानि । तद्यथा—श्लोकनिदानविमानशारीरेन्द्रियचिकित्सितकल्पसिद्धिस्थानानि । तत्र त्रिशदध्यायकं श्लोकस्थानं, अष्टाध्यायकानि निदानविमानशारीरस्थानानि, द्वादशकमिन्द्रियाणां, त्रिशकं चिकित्सितानां, द्वादशके कल्पसिद्धिस्थाने इति ॥ ३२ ॥

इस तन्त्र के आठ स्थान हैं यथा—१ सूत्र (श्लोक) स्थान, २ निदानस्थान, ३ विमानस्थान, ४ शरीरस्थान, ५ इन्द्रियस्थान, ६ चिकित्सास्थान, ७ कल्पस्थान और ८ सिद्धिस्थान। इनमें श्लोकस्थान ३० अध्यायों का, निदान, विमान और शारीरस्थान, आठ २ अध्यायों के, इन्द्रियस्थान बारह का, चिकित्सास्थान तीस का, कल्प और सिद्धिस्थान बारह २ अध्यायों के हैं।

भवन्ति चात्र ।

द्वे त्रिशके द्वादशकत्रयं च त्रीण्यष्टकान्येषु समाप्तिरुक्ता ।  
श्लोकीपवारिष्टविकल्पसिद्धिनिदानमानाश्रयसंज्ञकेषु ॥ ३३ ॥  
स्वै स्वै स्थाने यथास्वे च स्थानार्थ उपदेक्ष्यते ।

सविंशमध्यायशतं शृणु नामक्रमागतम् ॥ ३४ ॥  
 दीर्घजीवोऽप्यपामार्गतण्डुलारग्वधादिकौ ।  
 षड्विरेकाश्रयश्चेति चतुष्को भेषजाश्रयः ॥ ३५ ॥  
 मात्रातस्याशितीयौ च न वेगान्धारणं तथा ।  
 इन्द्रियोपक्रमश्चेति चत्वारः स्वास्थ्यवृत्तिकाः ॥ ३६ ॥  
 खुड्काश्च चतुष्पादो महांस्तिस्रैषणस्तथा ।  
 सह वातकलाख्येन विद्यान्नैर्देशिकान् बुधः ॥ ३७ ॥  
 स्नेहनस्वेदनाध्यायावुभौ यश्चोपकल्पनः ।  
 चिकित्साप्राभृतश्चैव सर्वा एवोपकल्पनाः ॥ ३८ ॥  
 कियन्तःशिरसीयश्च त्रिशोफाष्टोदरादिकौ ।  
 रोगाध्यायो महांश्चैव रोगाध्यायचतुष्टयम् ॥ ३९ ॥  
 अष्टौनिन्दितसंख्यातस्तथा लंघनतर्पणौ ।  
 विधिशोणितकश्चेति व्याख्यातास्तत्र योजनाः ॥ ४० ॥  
 यज्जःपुरुषसंख्यातो भद्रकाप्यान्नपानिकौ ।  
 विविधाशितपीतीयश्चत्वारोऽन्नविनिश्चये ॥ ४१ ॥  
 दशप्राणायतनिकस्तथाऽर्थदशमूलिकः ।  
 द्वावेतौ प्राणदेहार्थौ प्रोक्तौ वैद्यगुणाश्रयौ ॥ ४२ ॥  
 औषधस्वस्थनिर्देशकल्पनारोगयोजनाः ।  
 चतुष्काः षट् क्रमेणोक्ताः सप्तमश्चान्नपानिकः ॥ ४३ ॥  
 द्वौ चान्यौ संग्रहाध्यायाविति त्रिंशत्कमर्थवत् ।  
 श्लोकस्थानं समुद्दिष्टं तन्त्रस्यास्य शिरः शुभम् ॥ ४४ ॥  
 चतुष्काणां महार्थानां स्थानेऽस्मिन् संग्रहः कृतः ।  
 श्लोकार्थः संग्रहार्थश्च श्लोकस्थानमतः स्मृतम् ॥ ४५ ॥

इस ग्रन्थ में तीस तीस अध्याय के सूत्र और चिकित्सास्थान हैं। बारह २ अध्याय के तीन अरिष्ट (इन्द्रिय), कल्प और सिद्धि स्थान, आठ २ अध्याय के निदान, विमान और शरीर ये तीन स्थान हैं। श्लोक, औषध, अरिष्ट, विकल्प,

सिद्धि, निदान, विमान और आश्रय नामक १२० अध्यायों में ग्रन्थ समाप्त हुआ है। अपने ० स्थान में यथा योग्य स्थानों का उपदेश तत्त्वार्थ सहित करेंगे। इन १२० अध्याय के क्रम से नाम सुनो।

टीवर्त्रीवर्तीय, अपामार्गतण्डुलीय, आरग्वधीय, पद्विरेचनशताध्रितीय, इन चार अध्यायों में 'औषध चतुष्क' का निरूपण किया है। मात्राश्रितीय, तस्याश्रितीय, नवेगान्धरणीय और इन्द्रियोपक्रमगीय ये चार स्वास्थ्य-चतुष्क है। खुड्काक चतुष्पाद, महाचतुष्पाद, तिस्रैपगीय और वातकलाकलीय ये चार निर्देश चतुष्क (कर्त्तव्य अकर्त्तव्य विषयक) है। स्नेहन, स्वेदन, उपकल्पनीय और चिकित्सा प्राभृतीय ये चार कल्पनाचतुष्क है। क्रियन्त शिरसीय, त्रिशोफीय, अप्टौनिन्दितीय लपन-वृहणीय, सन्तर्पणीय और विविधशोणीतीय ये चार योजना-चतुष्क हैं। यज्ञःपुस्पीय, आत्रेयभद्रकाप्यीय, अन्नपानीय, विविधाशित-पीनीय ये चार अन्नपान-चतुष्क हैं। दश प्राणायतनीय और अर्थे दशमहामूर्त्तीय इन पिछले दोनों अध्यायों में प्राण, ओज, धमनी और वैद्यों के गुणों का निरूपण किया है। इस प्रकार से इस सूत्रस्थान में औषध चतुष्क, रोगचतुष्क, अन्नपान-चतुष्क, स्वस्थचतुष्क, निर्देशचतुष्क तथा पहले दो अध्यायों में इन अट्ठाईस अध्यायों की सूची है। इस प्रकार से सूत्रस्थान के तीस अध्यायों में इन विषयों का वर्णन किया है। जिस प्रकार मनुष्य के सब अंगों में श्रेष्ठ मस्तिष्क है उसी प्रकार से सब ग्रन्थों में यह ग्रन्थ श्रेष्ठ है। इस सूत्र स्थान में उपयोगी चतुष्कों का संग्रह किया है। श्लोक रूप में संग्रह होने के कारण इसको 'श्लोकस्थान' कहते हैं।

ज्वराणां रक्तपित्तस्य गुल्मानां मेहकुष्ठयोः ।

शोषोन्मादनिदाने च स्यादपस्मारिणां च यत् ॥ ४६ ॥

इत्यव्यायाष्टकमिद् निदानस्थानमुच्यते ।

ज्वर निदान, रक्तपित्त निदान, गुल्म निदान, प्रमेह निदान, कुष्ठ निदान, शोष निदान, उन्माद निदान और अपस्मार निदान ये आठ अध्याय निदानस्थान में हैं।

रसेषु त्रिविधे कुक्षौ ध्वंसे जनपदस्य च ॥ ४७ ॥

त्रिविधे रोगविज्ञाने स्रोतःस्वपि च वर्तते ।

रोगानीके व्याधिरूपे रोगाणां च भिषग्जिते ॥ ४८ ॥

अष्टौ विमानान्युक्तानि मानार्थानि महर्षिणा ।

विमान स्थान में रस, विमान, त्रिविधकुक्षीय, जनपदोद्ध्वंसनीय, त्रिविधरोग विशेषविज्ञानीय, स्रोतोविमान, रोगानीक, व्याधिरूपीय और रोगभिषग्जित्य ये आठ अध्याय हैं ।

कतिधापुरुषीयं च गोत्रेणातुल्यमेव च ॥ ४९ ॥

खुड्डीका महती चैव गर्भावक्रान्तिरुच्यते ।

पुरुषस्य शरीरस्य विचर्यौ द्वौ विनिश्चितौ ॥ ५० ॥

शरीरसंख्या सूत्रं च जातेरष्टममुच्यते ।

इत्युद्दिष्टानि मुनिना शारीराण्यत्रिसूनुना ॥ ५१ ॥

शारीर स्थान में कतिधापुरुषीय, अतुल्यगोत्रीय, खुड्डीकागर्भाव क्रान्ति, पुरुष विचय, शारीरविचय, शरीरसंख्या और जातिसूत्रीय ये आठ अध्याय हैं ।

वर्णस्वरीयः पुष्पाख्यस्तृतीयः परिमर्षणः ।

तथैव चेन्द्रियानीकः पूर्वरूपिक एव च ॥ ५२ ॥

कतमानिशरीरीयः पन्नरूपोऽप्यवाकृशिराः ।

यस्य श्यावनिमित्तञ्च सद्योमरण एव च ॥ ५३ ॥

अणुज्योतिरिति ख्यातस्तथा गोमयचूर्णवान् ।

द्वादशाध्यायक स्थानमिन्द्रियाणां प्रकीर्तितम् ॥ ५४ ॥

वर्णस्वरीय, पुष्पितक, परिमर्षणीय, इन्द्रियानीक, पूर्वरूपीय, कतमानि शरीरीय, पन्नरूपीय, अवाकृशिरसीय, यस्यश्यावनिमित्तीय, सद्योमरणीय, अणुज्योतीय और गोमयचूर्णीय ये बारह अध्याय इन्द्रियस्थान में हैं ।

अभयामलकीयं च प्राणकामीयमेव च ।

करप्रचितिक वेदसमुत्थानं रसायनम् ॥ ५५ ॥

संयोगशरमूलीयमासक्तक्षीरिकं तथा ।  
 माषपर्णभृतीयं च पुमाञ्जातबलादिकम् ॥ ५६ ॥  
 चतुष्कद्वयमप्येतदध्यायद्वयमुच्यते ।  
 रसायनमिति ज्ञेयं वाजीकरणमेव च ॥ ५७ ॥  
 ज्वराणां रक्तपित्तस्य गुल्मानां मेहकुष्ठयोः ।  
 शोपोन्मादेऽप्यपस्मारक्षतशोफोदरार्शसाम् ॥ ५८ ॥  
 ग्रहणीपाण्डुरोगाणां श्वासकासातिसारिणाम् ।  
 छर्द्वीसर्पतृणानां विषमद्यविकारिणाम् ॥ ५९ ॥  
 द्विव्रणीयं त्रिमर्मायमूरुस्तभिकमेव च ।  
 वातरोगे वातरक्ते योनिव्यापदि चैव यत् ॥ ६० ॥  
 त्रिंशच्चिकित्सितान्युक्तवान्यतः कल्पान् परं शृणु ।

अभयामलकीय, प्राणकामीय, करप्रचितीय, आयुर्वेदसमुत्थानीय, संयोगशरमूलीय, आसिक्तक्षीरीय, माषपर्ण, पुमाञ्जातबलादिक इन भिन्न २ आठ प्रकरणों के दो अध्याय हैं। इनमें पहिले चार प्रकरणों में रसायनाध्याय और दूसरे चार में वाजीकरणाध्याय कहा है। इसके पीछे ज्वरचिकित्सा, रसचिकित्सा, गुल्मचिकित्सा, प्रमेह चिकित्सा कुष्ठ, राजयक्ष्मा, अर्श, अतिसार, वीसर्प, मदात्यय, द्विव्रणीय, उन्माद, अपस्मार, क्षतक्षीण, शोथ, उदर, ग्रहणी, पाण्डुरोग, हिक्का, श्वास, कास, छर्दि, तृणा, त्रिमर्माय, उरुस्तम्भ, वातव्याधि, वातरक्त इस प्रकार से कुल मिलाकर चिकित्सा स्थान में तीस अध्याय है।

फलजीमूतकेड्वाकुकल्पो धामार्गवस्य च ॥ ६१ ॥

पञ्चमो वत्सकस्योक्त पृष्ठश्च कृतवेधने ।

श्यामान्निवृत्तयोः कल्पस्तथैव चतुरङ्गले ॥ ६२ ॥

तिल्वक्रस्य सुधायाश्च सप्तलाशङ्घिनीपु च ।

दन्तीद्रवन्त्यो कल्पश्च द्वादशोऽयं समाप्यते ॥ ६३ ॥

मदनफलकल्प, जीमूतकल्प, इक्ष्वाकुकल्प, धामार्गवकल्प, वत्सक-

कल्प, - कृतवेधनकल्प, श्यामात्रिवृत्कल्प, महावृक्षकल्प, सप्तलाशंखनी-  
कल्प, और दन्ती-द्रवन्तीकल्प ये बारह अध्याय कल्पस्थान में हैं ।

कल्पना पञ्चकर्माख्या बस्तिमूत्रा तथैव च ।

स्नेहव्यापदिकी सिद्धिर्नेत्रव्यापदिकी तथा ॥ ५४ ॥

सिद्धिः शोधनयोश्चैव बस्तिसिद्धिस्तथैव च ।

प्रासृती मर्मसंख्याता सिद्धिर्बस्त्याश्रया च या ॥ ६५ ॥

फलमात्रा तथा सिद्धिः सिद्धिश्चोत्तरसंज्ञिता ।

सिद्धयो द्वादशैवैतास्तन्त्रं चासु समाप्यते ॥ ६६ ॥

सिद्धिस्थान, कल्पसिद्धि, पञ्चकर्मीय सिद्धि, बस्तिसूत्रीय सिद्धि,  
स्नेहव्यापदिक सिद्धि, नेत्रव्यापदिक सिद्धि, वमनविरेचन-व्यापत्सिद्धि  
बस्तिव्यापदिक सिद्धि, प्रसृतयोगिकसिद्धि, त्रिमर्मीय सिद्धि, बस्ति सिद्धि,  
फलमात्र सिद्धि और उत्तर सिद्धि ये बारह अध्याय सिद्धिस्थान में हैं इस  
प्रकार से यह ग्रन्थ समाप्त होता है ।

स्वे स्वे स्थाने तथाऽध्याये चाध्यायार्थः प्रवक्ष्यते ।

तं ब्रूयात्सर्वतः सर्वं यथास्वं ह्यर्थसंग्रहात् ॥ ६७ ॥

प्रत्येक अध्याय में वर्णित विषयों का निरूपण संग्रह रूप से प्रत्येक  
अध्याय के अन्त में दे दिया है और जो मुख्य विषय आया है, उसको  
स्थान २ पर संक्षिप्त रूप से फिर कह दिया है । इसलिये एक अध्याय  
का वर्णन जो यत्र तत्र आया है, वह सब वर्णन उसी एक अध्याय का  
समझना चाहिये ।

पृच्छा तन्त्राद्यथाम्नायं विधिना प्रश्न उच्यते ।

प्रश्नार्थं युक्तिमांस्तत्र तन्त्रेणैवार्थनिश्चयः ॥ ६८ ॥

निरुक्तं तन्त्रणान्तन्त्रं स्थानमर्थप्रतिष्ठया ।

अधिकृत्यार्थमध्यायनामसंज्ञा त्रतिष्ठिता ॥ ६९ ॥

इति सर्वं यथाप्रश्नमष्टकं संप्रकाशितम् ।

कात्स्नर्येन चोक्तस्तन्त्रस्य संग्रहः सुविनिश्चितः ॥ ७० ॥



ग्रन्थ के प्रारम्भ करने में सामान्य विशेष रूप से अथवा पूर्वापर-विरोध से रहित जो विचार करना है उसका नाम 'प्रश्न' और विचार पूर्वक किये हुए प्रश्नका शास्त्र के आधार से युक्तिपूर्वक जो निर्णय है उसका नाम 'प्रश्नार्थ' है । जिसमें अनेक विषय एक साथ में एकत्र किये गये हों उसका नाम 'तन्त्र' है । तन्त्र अर्थात् शास्त्र में मुख्य २ विषयों में से एक एक भाग को जो पृथक् २ लेकर प्रतिपादन किया है उस का नाम 'अध्याय' है ( जैसे-दीर्घजीवतीय, अपामार्गतण्डुलीय इत्यादि प्रत्येक विषय के अनुक्रम में निर्दिष्ट भाग का नाम अध्याय है ) । इस प्रकार तन्त्र, तन्त्रार्थ, स्थान स्थानार्थ आदि जो आठ प्रश्न किये उनका उत्तर दे दिया है । यह सम्पूर्ण ग्रन्थ का संक्षेप है ।

सन्ति पाह्लविकोत्पाताः संचोभं जनयन्ति ये ।

वर्तकानामिवोत्पाता सहसैवाविभाविताः ॥ ७१ ॥

तम्मत्तान पूर्वसंजल्पे सर्वत्राष्टकमादिशेत् ।

परावरपरीक्षार्थं तत्र शास्त्रविदां बलम् ॥ ७२ ॥

शब्दमात्रेण तन्त्रस्य केवलस्यैकदेशिकाः ।

भ्रमन्त्यल्पवलास्तन्त्रे ज्याशब्देनैव वर्तकाः ॥ ७३ ॥

पशुः पशूनां दीर्घस्यात्कश्चिन्मध्ये वृकायतं ।

समत्त्वं वृकमासाद्य प्रकृतिं भजते पशुः ॥ ७४ ॥

तद्वदज्ञोऽज्ञमन्वयथः कश्चिन्मौख्यसाधनः ।

स्थापयत्याप्तमात्मानमाप्त त्वासाद्य भिद्यते ॥ ७५ ॥

बभ्रुर्मूढ इवाङ्गीभिरवुद्धिरबहुश्रुतः ।

न वै वक्ष्यति संजल्पे कुण्डभेदी जडो तथा ॥ ७६ ॥

कुठ ऐसे भी मनुष्य हैं जो शास्त्र के थोड़े से भाग को पढ़कर विश्रोभ ( मानसिक उद्विग्नता ) उत्पन्न करते हैं । सहसा उठकर जिस प्रकार बटेर पक्षी उत्पात करने लगते हैं, उसी प्रकार ये अर्धपठित वैद्य भी उत्पात किया करते हैं । इसलिये प्रथम जल्प (वाद-विवाद में) में

तन्त्र, तन्त्रार्थ आदि आठ प्रश्नों को पूछना चाहिये । अपने से श्रेष्ठ या हीन की परीक्षा करने के लिये यही आठ प्रश्न असली शास्त्र को जानने वालों के बल है । थोड़े बल वाले, जिन्होंने शास्त्र का कुछ थोड़ा सा भाग ही देखा होता है वे इन प्रश्नों से इस प्रकार से भाग खड़े होते हैं जिस प्रकार धनुष की डोरी की टंकार से बटरे भाग जाते हैं । जैसे कोई पशु निर्बल पशुओं में अपने को भेड़िया मानकर बोलने लगता है । परन्तु जब कोई बलवान् पशु सामने आजाता है, तब वह पुनः अपने असलीरूप में आजाता है, वह जो होता है वही बन जाता है । इसी प्रकार अपने मुख से प्रशंसा करने वाला मूर्ख मूर्खों में बैठकर अपना पाण्डित्य दिखाने लगता है परन्तु जब कोई पण्डित विद्वान् सामने आखड़ा होता है, तब यह अबुद्धि मूढ़, अबहुश्रुत, कुण्डभेदी ( दुष्ट-अष्टयोनि ), जड़ मूर्ख, वाद प्रतिवाद में क्या कहेगा ? कुछ भी नहीं । जिस प्रकार मकड़ी के जाल में फंसा कौड़ा कुछ नहीं कर सकता उसी प्रकार यह मूढ़ भी विद्वान् के सामने कुछ नहीं कर सकता ।

सद्वृत्तैर्न विगृह्णीयाद्भिषगल्पश्रुतैरपि ।

हन्यात्प्रश्नाष्टकेनादावितरांस्त्वात्ममानिनः ॥ ७७ ॥

दम्भिनो मुखरा ह्यज्ञाः प्रभूताबद्धभाषिणः ।

प्रायः, प्रायेण सुमुखाः सन्तो युक्ताल्पभाषिणः । ७८ ॥

तत्त्वज्ञानप्रकाशार्थमहङ्कारमनाश्रिताः ।

परन्तु जो निरभिमानी सच्चे वैद्य हों वे यदि थोड़े भी पढ़े लिखे हों तो भी उनके साथ शिष्टाचार, सम्मानपूर्वक वरतना चाहिये । और जो आत्माभिमानी हों उनको इन आठ प्रश्नों से परास्त करना चाहिये । ऐसे पुरुष प्रायः दम्भी, अपनी मुख से अपनी श्लाघा करने वाले, मूर्ख, बहुत-इतने असम्बद्ध, प्रसंगरहित बोलने वाले होते हैं और जो अच्छे विद्वान् होते हैं वे थोड़ा और उचित प्रसंग में ही बोलते हैं, वे तत्त्वज्ञान का प्रकाश करने के लिये बोलते हैं और अहंकार का आश्रय नहीं लेते हैं ।

स्वल्पाधाराज्ञमुखरान्मर्षयेन्न विवादिनः ॥ ७९ ॥

परो भूतेष्वनुक्रोशस्तत्त्वज्ञाने परा दया ।

येषां तेषामसद्वादनिग्रहे निरता मतिः ॥ ८० ॥

परन्तु जो अपने तत्त्वज्ञान को दिखाने के लिये अहंकार के कारण आये हों, जो थोड़े पढ़े हों, उन मूर्ख आत्मप्रशंसकों की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । जिनकी प्राणीमात्र पर कृपा और तत्त्वज्ञान में दया है उनकी असत्वाद के रोकने में सदा मति रहती है । क्योंकि इस प्रकार न करने से असद् वैद्यों को उत्तेजन मिलकर संसार का अपकार होता है । इसलिये इनको निग्रह करने में सदा तत्पर रहना चाहिये ।

असत्पद्माक्षरिकातिदम्भपारुष्यसाधनाः ।

भवन्त्यनाप्ताः स्वे तन्त्रे प्रायः परविकृत्यकाः ॥ ८१ ॥

तान् कालपाशसदृशान्वर्जयेच्छास्त्रदूषकान् ।

प्रशमज्ञानविज्ञानपूर्णाः सेव्या भिपक्तमाः ॥ ८२ ॥

छोटे ( असत् ) पक्ष को लेकर विवाद करना, मुझको समय नहीं है, फिर पूछना ऐसा बहाना करने वाले, पूछने पर शिर दुखता है, दाम्भिक, पूछने पर गुस्से या जोर से उत्तर दे और दूसरों की व्यर्थ निन्दा करने वाले अपने तन्त्र में अनभिज्ञ होते हैं । इस प्रकार के शास्त्र को बदनाम करने वालों को मृत्यु के फाँसों के समान दूर से ही छोड़ देना चाहिये । जो शान्त, ज्ञान-विज्ञान से परिपूर्ण हों ऐसे उत्तम वैद्यों की सेवा करनी चाहिये ।

समग्रं दुःखमायत्तमविज्ञाने द्वयाश्रयम् ।

सुखं समग्रं विज्ञाने विमले च प्रतिष्ठितम् ॥ ८३ ॥

इदमेवमुदारार्थमज्ञानार्थप्रकाशकम् ।

शास्त्रं दृष्टिप्रणष्टानां यथैवादित्यमण्डलमिति ॥ ८४ ॥

सब प्रकार के दुःखों का कारण शारीरिक और मानसिक ज्ञान का अभाव है । शरीर और मन सम्बन्धी ज्ञान न होने से सब रोग होते हैं । इन दोनों के ज्ञान में, विशुद्ध ज्ञान में सम्पूर्ण सुख-आरोग्यता मिलती

है । यह शास्त्र अति गम्भीर, दोनों लोकों में हितकारी अर्थ को बतलाता है, तथा अज्ञात वस्तु को प्रकाशित करता है । परन्तु जिस प्रकार नेत्रहीन पुरुष चमकते हुए सूर्य का कुछ भी उपयोग नहीं कर सकता, इसी प्रकार शास्त्रहीन व्यक्तियों के लिये यह कुछ काम नहीं दे सकता ।

तत्र श्लोकाः । अर्थे दश महामूलाः संज्ञा चैषां यथा कृता ।

अयनान्ताः षडग्रथाश्च रूपं वेदविदां च यत् ॥ ८५ ॥

सप्तकश्चाष्टकश्चैव परिप्रश्नः सनिर्णयः ।

यथा वाच्यं यदर्थं च यद्विधाश्चैकदेशिकाः ॥ ८६ ॥

अर्थे दशमहामूले सर्वमेतत्प्रकाशितम् ।

संग्रहश्चायमध्यायस्तन्त्रस्यास्यैव केवलः ॥ ८७ ॥

यथा सुमनसां सूत्रं संग्रहार्थं विधीयते ।

संग्रहार्थं तथाऽर्थानामृषिणा संग्रहः कृतः ॥ ८८ ॥

हृदय से सम्बन्धित दस धमनियां, 'महामूला' इस संज्ञा होने के कारण, आयुवर्द्धक, छः उत्तम उपाय, आयुर्वेद का स्वरूप, सात व आठ प्रश्न विशेष, वाक्यांश, अर्थांश, निर्णय और अधूरे वैद्य, इ तने विषयों का निरूपण इस 'अर्थे दशमहामूलीय' अध्याय में किया है । इस ग्रन्थ में वर्णित सब विषयों का संक्षिप्त निरूपण भी इस अध्याय में किया है । जिस प्रकार कि फूलों की माला को गूँथने के लिये सूत्र की आवश्यकता होती है उसी प्रकार सब विषयों का संग्रह करने के लिये ऋषिः ने यह सूत्र ( सूत्रस्थान ) बनाया है ।

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने अर्थे दशमहामूलीयो

नाम त्रिशत्तमोऽध्यायः ॥ ३० ॥

अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते ।

इयताऽवधिना सर्वं सूत्रस्थानं समाप्यते ॥

इति सूत्रस्थानं समाप्तम् ।

# निदानस्थानम्<sup>१</sup>

## प्रथमोऽध्यायः

अथातो ज्वरनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् आत्रेयः ॥ २ ॥

सूत्रस्थान को कहने के पश्चात् अब ज्वरनिदान का वर्णन करेंगे।  
जैसा कि भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।<sup>२</sup>

इह खलु हेतुनिमित्तमायतनं कर्ता कारणं प्रत्ययः समुत्थानं  
निदानमित्यनर्थान्तरम् । तत्रिविधं-असात्म्येन्द्रियार्थसंयोगः, प्रज्ञा-  
पराधः परिणामश्चेति ॥ ३ ॥

निदान के पर्याय-इस निदान स्थान में हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता  
कारण, प्रत्यय, समुत्थान ये निदान शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं।  
निदान अर्थात् रोगों का उत्पत्ति का कारण तीन प्रकार का है, १ असात्म्ये  
न्द्रियार्थ-संयोग अर्थात् इन्द्रिय और विषय का प्रतिकूल योग, २. प्रज्ञा  
पराध ( बुद्धि का दोष ) और ३. परिणाम ( काल ) ।

अतस्त्रिविधविकल्पा व्याधयः प्रादुर्भवन्त्याग्नेयसौम्यवायव्याः।

१ जिसमे रोग जाना जाये उसका नाम 'निदान' है ।

'निद्रियं शीघ्रं प्रतिपाद्यते व्याधिरनेनेति निदानम्' ॥ जैअट ।

२ संक्षेप में लिंग को निर्देश करने वाला सूत्रस्थान कहने के पश्चात्  
हेतु और लिंग को बतलाने वाला 'निदानस्थान' कहते हैं । क्योंकि हेतु और  
लिंग को जानकर ही दृढ़ चिकित्सा फलवती होती है । हेतु सन्निकृष्ट  
विप्रकृष्ट, व्यभिचार और प्रवाण भेद से चार प्रकार का है । विस्तार वं  
लिये मुकोष देंगिये ।

द्विविधाश्चापरे राजसास्तामसाश्च । तत्र व्याधिरामयो गद आतङ्को  
यक्ष्मा ज्वरो विकारो रोग इत्यनर्थान्तरम् ॥ ४ ॥

इसलिये रोग भी तीन प्रकार के ही होते हैं । १. आग्नेय (पित्तजन्य)  
२. सौम्य ( कफजन्य ), और ३ वायव्य (वायुजन्य) । ये शारीरिक रोग  
के भेद हैं । । मानसिक रोग भी दो प्रकार के हैं । १. राजस ( रजोगुण  
से उत्पन्न हुए ), और २ तामस, ( तमोगुण से उत्पन्न हुए ) ।

रोग के पर्याय—व्याधि, आमय, गद, आतंक, यक्ष्मा, ज्वर, विकार  
और रोग ये सब शब्द एक ही अर्थ ( 'रोग ) को कहते हैं ।

तस्योपलब्धिर्निदानपूर्वरूपलिङ्गोपशयसंप्राप्तिः ॥ ५ ॥

निदान पंचक अर्थात् रोगज्ञान के पांच उपाय—१. निदान २ पूर्व-  
रूप, ३. लिंग (रूप), ४ उपशय और ५. सम्प्राप्ति, इन पांच उपायों से  
रोग पहिचाना जाता है ।

तत्र निदानं कारणमित्युक्तमग्रे ।

रोगों के कारण को निदान कहते हैं, यह पहिले कह चुके हैं ।

पूर्वरूपं प्रागुत्पत्तिलक्षणं व्याधेः ।

रोग के उत्पन्न होने से पूर्व जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, उनको 'पूर्वरूप'  
कहते हैं । ( जैसे जंभाई का आना, अंगों का टूटना, शिर का दुखना  
आदि ये ज्वर के पूर्वरूप हैं । )

प्रादुर्भूतलक्षणं पुनर्लिङ्गं, तत्र लिङ्गमाकृतिर्लक्षणं चिन्हं संस्थानं  
व्यञ्जनं रूपमित्यनर्थान्तरमस्मिन्नर्थे ।

रोग के उत्पन्न होने पर जो लक्षण स्पष्ट होते हैं, जिन लक्षणों से  
रोग का भान होने लगता है, उनको लिंग कहते हैं । इसके लिंग, आकृति,  
लक्षण, चिन्ह, संस्थान, व्यञ्जन और रूप ये सब पर्यायवाची हैं ।

उपशयः पुनर्हेतुव्याधिविपरीतानां विपरीतार्थकारिणां चौषधा-  
हारविहाराणामुपयोगः सुखानुबन्धः ।

उपशय—हेतुविपरीत, व्याधि-विपरीत और विपरातार्थकारी, औषध,

आहार और विहार का सुखोत्पत्ति के लिये सेवन करना 'उपशय' है । १.

१. उपशय द्वारा गूढ़ लिंगों, चिन्हों वाली व्याधि की परीक्षा की जाती है। जैसे 'मलेरिया' और 'कालाज़ार' रोग में। इनमें मलेरिया कुनोन से चला जाता है, परन्तु कालाज़ार नहीं जाता। इसका विवरण नीचे लिखे प्रकार से जानो।

हेतुविपरीत { औषध—जैसे शीत कफ ज्वर में सोंठ ।  
अन्न—जैसे श्रम वातजन्य ज्वर में मांस रस और चावल ।  
विहार—जैसे दिन में सोने से उत्पन्न कफ ज्वर में रात को जागना ।

व्याधिविपरीत { औषध—जैसे अतिसार में पाठा स्तम्भन ।  
अन्न—जैसे अतिसार में मसूर ।  
विहार—जैसे उदावर्त्त में प्रवाहण ।

हेतु व्याधि-  
विपरीत { औषध—जैसे वातजन्य शोथ में दशमूल ।  
अन्न—जैसे शीत ज्वर में ज्वरनाशक चवागू ।  
विहार—जैसे दिन में सोने से उत्पन्न तन्द्रा में रात्रि-जागरण ।

हेतु-  
विपरीतार्थकारी { औषध—जैसे पित्तजन्य शोथ में गरम उपनाह (पुलटिस) ।  
अन्न—जैसे पित्तजन्य शोथ में विदाही अन्न ।  
विहार—जैसे वातोन्माद में भय वतलाना ।

व्याधि-  
विपरीतार्थकारी { औषध—जैसे छत्रि में मैनफल से वमन कराना ।  
अन्न—जैसे अतिसार में दूध से विरेचन ।  
विहार—जैसे छत्रि में प्रवाहण ।

हेतु-व्याधि-  
विपरीतार्थकारी { औषध—जैसे अग्नि में जलने पर अगर्क । लेप ।  
अन्न—जैसे मद्यजन्य रोग में मद्यपान ।  
विहार—जैसे श्रमजनित मूढघात में पानी में तैरना ।

संप्राप्तिर्जातिरागतिरित्यनर्थान्तरं व्याधेः । सा संख्याप्राधान्य-  
विधिविकल्पबलकालविशेषैर्भिद्यते । संख्या तावद्यथा—अष्टौ ज्वराः,  
पञ्च गुल्माः, सप्त कुष्ठान्येवमादिः । प्राधान्यं पुनर्दोषाणां तरतमाभ्यां  
योगेनोपलभ्यते । तत्र द्वयोस्तरस्त्रिषु तम इति । विधिर्नाम द्विविधा  
व्याधयो निजागन्तुभेदेन, त्रिविधास्त्रिदोषभेदेन, चतुर्विधाः साध्या-  
साध्यमृदुदारुणभेदेन । समवेतानां पुनर्दोषाणामंशांशबलविकल्पो  
ऽस्मिन्नर्थे । बलकालविशेषः पुनर्व्याधीनामृत्वहोरात्राहारकालविधि-  
विनियतो भवति । तस्माद्व्याधीन् भिषगनुपहतसत्त्वबुद्धिर्हेत्वा-  
दिभिर्भावैर्यथावदनुबुध्येत ॥ ६ ॥

इत्यर्थसंग्रहो निदानस्थानस्योद्दिष्टो भवति, तं विस्तरेण भूय-  
स्तरमतोऽनुव्याख्यास्यामः ॥ ७ ॥

व्याधि की सम्प्राप्ति, जाति और आगति ये तीनों शब्द  
एक ही अर्थ के वाचक हैं । १ यह सम्प्राप्ति १. संख्या, २ प्राधान्य,  
३. विधि, ४. विकल्प और ५ बल भेद से पांच प्रकार की है ।

(१) संख्यासम्प्राप्ति—प्रत्येक रोग के भेदों की गणना का नाम संख्या-  
संप्राप्ति है । जैसे आठ प्रकार के ज्वर, पांच प्रकार के गुल्म, सात प्रकार के  
कुष्ठ इत्यादि ।

(२) प्राधान्य-सम्प्राप्ति दोषों के अधिकतर व अधिकतम ( तार-  
तम्य ) से रोगों की प्रधानता व अप्रधानता होती है । ( वृद्ध पित्त, वृद्ध-  
तर वायु और वृद्धतम कफ, यह एक प्रकार का सन्निपात है । ) दो दोषों में  
एक दोष बढ़ा हो तो अधिकतर, तीन दोषों में एक दोष बढ़ा हो तो  
'अधिकतम' समझना चाहिये । २

१. कुछ लोग रोगोत्पत्ति के अन्तिम कारण से उत्पन्न कर्म को सम्प्राप्ति  
कहते हैं । यथा—'स यदा प्रकुपितः प्रविश्यमाशयम्' यहां से लेकर  
'तदा ज्वरमभिनिर्वृतयति' तक ज्वर की सम्प्राप्ति कही है ।

२. माधव-निदान में स्वतन्त्रता और परतन्त्रता को लक्ष्य में रखकर रोग  
की प्रधानता या अप्रधानता की परीक्षा की है ।



३ विधि-सम्प्राप्ति—व्याधि भेद से विधिरूप सम्प्राप्ति होती है । निज अर्थात् शारीरिक और अगन्तुज भेद से व्याधि दो प्रकार का है । वात आदि दोष भेद से तीन प्रकार का, और साध्य, असाध्य, मृदु और दारुण भेद से चार प्रकार का है ।

विकल्प सम्प्राप्ति—जिस समय वात आदि दोष दो या तीन मिलते हैं उस समय अशाश बल की कल्पना ( विवेचना ) को विकल्प-सम्प्राप्ति कहते हैं । यथा—वायु के प्रकुपित होने पर भी कभी तो वात का ग्रीत अंग बलवान् होता है, कभी लघु अंश और कभी रूक्ष अंश एवं कभी लघु और रूक्ष दोनों अंश बलवान् होते हैं ।

बलकाल सम्प्राप्ति—ऋतु, दिन रात, आहार और काल भेद से रोग के बलकाल में अन्तर पड़ जाता है । जैसे ऋतु और कफज्वर का वसन्त, अहो-रात्र कफज्वर का पूर्वाह्न और प्रदोष, आहार-कफज्वर का भुक्तमात्रकाल ।

स्वस्थाचित्त एवं बुद्धिमान् वैद्य ( धैर्य एवं शान्ति तथा बुद्धि से ) हेतु, पूर्वरूप आदि से रोगों की यथार्थ परीक्षा करे । यह निदानस्थान का संक्षेप में वर्णन कर दिया, अब इमी का विस्तार से वर्णन करते हैं ।

तत्र प्रथमत एव तावदाद्याँल्लोभाभिद्रोहकोपप्रभवानष्टौ व्याधी-  
त्रिदानपूर्वेण क्रमेणानुव्याख्यास्यामः, तथा सूत्रसंग्रहमात्रं चिकि-  
त्सायाः । चिकित्सितेषु चोत्तरकालं तथोद्दिष्टं यथोपचितविकारा-  
ननुव्याख्यास्यामः ॥ ८ ॥

इन में प्रथम निदान क्रम से लोभ, अभिद्रोह, कोप आदि से उत्पन्न आठ रोगों का वर्णन निदान स्थान में करेंगे इससे पीछे संक्षेप से चिकित्सा-सूत्र करेंगे । इसके अनन्तर सब रोगों का सविस्तर वर्णन चिकित्सा-स्थान में किया जायेगा ।

उह तु ज्वर एवाद्यौ विकाराणामुपदिश्यते, तत्प्रथमत्वाच्छारी-  
राणाम् । अथ खल्वष्टाभ्यो ज्वरः संजायते मनुष्याणाम् । तद्यथा वातात्  
पित्तान् कफान् वातपित्ताभ्यां, वातकफाभ्यां, पित्तश्लेष्मभ्यां, वात-

पित्तश्लेष्मभ्यः, आगन्तोरष्टमात्कारणात् । तस्य निदानपूर्वरूपलिङ्गो-  
पशयसंप्राप्तिविशेषानुपदेक्ष्यामः ॥ ९ ॥

ज्वर निदान—सर्व रोगों में प्रथम ज्वर का ही वर्णन करते हैं । क्यों-  
कि शारीरिक रोगों में सब से मुख्य ज्वर है ।

मनुष्यों को ज्वर आठ कारणों से होता है । १. वात से, २ पित्त  
से, ३ कफ से, ४. वात-पित्त से, ५ पित्त-कफ से, ६. वात-कफ से,  
७ वात कफ और पित्त ( सन्निपात ) से और ८. आगन्तुज कारण से ।

अब ज्वर के निदान, पूर्वरूप, लिंग, उपशय और संप्राप्ति का  
विस्तार से वर्णन करते हैं ।

तद्यथा—रूक्षलघुशीतव्यायामवमनविरेचनास्थापनशिरोविरेचनाति  
योगवेगसंधारणानशानाभिघातव्यवायोद्वेगशोकशोणिताभिषेकजाग-  
रणविषमशरीरन्यासेभ्योऽतिसेवितेभ्यो वायुः प्रकोपमापद्यते ।

वात प्रकोप के कारण—रूक्ष, लघु, शीत, व्यायाम, वमन, विरेचन,  
आस्थापन इनके अतियोग से, मल-मूत्र आदि के उपस्थित वेग को रोकने  
से, उपवास से, चोट लगने से, स्त्री संग, उद्वेग, शोक, और रक्त के अधिक  
निकलने से, रात्रि-जागरण से, विषम रीति से शरीर के अवयवों को  
रखने से, इन कारणों के अति सेवन से वायु प्रकुपित होती है ।

स यदा प्रकुपितः प्रविश्यामाशयमूष्मणःस्थानमूष्मणा सह मिश्रीः  
भूत आद्यमाहारपरिणामधातुं रसनामानमन्ववेत्य रसस्वेदवहानि च  
स्रोतांसि च पिधायान्निमुपहत्य पक्तिस्थानादूष्मणां बहिर्निरस्य केवलं  
शरीरमनुप्रपद्यते, तदा ज्वरमभिनिर्वर्तयति । तस्येमानि लिङ्गानि  
भवन्ति ।

संप्राप्ति—उपरोक्त कारणों से कुपित हुआ वायु उष्णिमा के स्थान  
आमाशय में पहुंच जाता है । वहां उष्णिमा के साथ मिलता है । फिर अन्न  
के पाचन से उत्पन्न 'रस' (Chyle) नाम के धातु का आश्रय लेता है ।  
इस धातु का आश्रय लेकर वायु रसवह और स्वेदवह स्रोतो को बन्द

कर देता है, जठराग्नि को मन्द कर देता है और, आमाशय से पाचकाग्नि को बाहर निकाल कर सम्पूर्ण शरीर में फैला देता है इस लिये ज्वर उत्पन्न होता है। इस वातज्वर के निम्न लिखित लक्षण होते हैं ।

तद्यथा-विपमारम्भविसर्गित्वम्, ऊष्मणो वैषम्यं, तीव्रतनु-  
भावानवस्थानानि ज्वरस्य, जरणान्ते दिवसान्ते निशान्ते घर्मान्ते वा  
ज्वराभ्यागमनमभिवृद्धिर्वा ज्वरस्य । विशेषेण परुषारुणवर्णत्वं नख-  
नयनवदनमृत्रपुरोपत्वचामत्यर्थं कृप्तीभावश्च, अनेकविधोपमाश्चला-  
चलाश्च वेदनास्तेपांतेपामङ्गावयवानां, तद्यथा-पादयोः सुप्तता, पिण्डि-  
कयोरुद्वेष्टनं, जानुनो' केवलानां च सन्धीनां विश्लेषणंमूर्धो- सादः,  
कटीपार्श्वपृष्ठस्कन्धवाहंसोरसां च भग्नरुणमृदितमथितचटितावपीडि-  
तावनुन्नत्रमिव, हन्त्रोश्चाप्रसिद्धि, स्वनश्च कर्णयोः, शङ्खयोर्निस्तोदः,  
कपायास्यताऽऽस्यवैरस्यं वा, मुखतालुकण्ठशोषः, पिपासा, हृदयग्रह,  
शुष्कच्छर्दि, शुष्ककासः, क्ष्वथूद्गारविनिग्रहोऽन्नरसखेदः, प्रसेका-  
रोचकाविपाकाः, विपादविजृम्भात्रिनामवैपथ्यध्रुमभ्रमप्रलापजागरण-  
रोमहर्षदन्तहर्षास्तथोष्णाभिप्रायवा, निदानोक्तानामनुपशयो विपरी-  
तोपशयश्चेति वातज्वरस्य लिङ्गानि स्युः ॥ १० ॥

वातज्वर के लक्षण—जैसे ज्वर के चढ़ने या उतरने के समय का नियम न होना, शरीर में उष्णता का नियम न होना, ज्वर का तापता या कम होने की प्रतीति में अस्थिरता, अन्न के पचन होने के समय, सायंकाल में, अथवा वर्षा ऋतु के प्रारम्भ में ज्वर का आना, अथवा ज्वर में वृद्धि होना, विशेषतः नख, आंख, मूत्र, मूत्र, और त्वचा का बदल कठिन और काला-लाल रंग पड़ना, मल-मूत्र का अवरोध, ( नख-त्वचा आदि का फटना ), भिन्न भिन्न अंगों में नाना प्रकार की चल और अचल ( गतिशील या स्थिर ) पीडाओं का होना । जैसे—घोंटों पांशों में सो जाने की सी प्रतीति, पिण्डलियों में ऐंठन, घुटने एवं सम्पूर्ण सन्धियों में टूटने और गीले कपड़े से ढाँपे होने की भांति,

की दर्द का जंघाओं में होना, कमर, पार्श्व, पीठ, स्कन्ध, बाहु और छाती में टूटने के समान, फटने के समान, मर्दन करने के समान, चटकने के समान, अवपीडन अर्थात् दवाने के समान और सूइयां चुभने के समान वेदनायें होती हैं । हनुग्रह (जवाड़े का न खुलना), कानों में आवाज़ (कर्णनाद) कान एवं शंख प्रदेश ( कनपटी ) में वेदना, मुख का कषाय स्वाद, मुख में विरसता, मुख, तालु, कण्ठ का पुनः २ सूखना, प्यास का अधिक लगना, दिल या छाती का जकडना, रुक जाना, सूखी उबकाई, वमन होने पर वमन में किसी पदार्थ का बाहर न निकलना, सूखी खांसी, छींक और ढकार का बन्द हो जाना; सब अन्नरसों में अनिच्छा (अथवा अन्न रस का वमन); मुख से पानी का बहना; अरुचि, भोजन की अनिच्छा, अत्रिपाक ( भोजन का न पचना ), विषाद, जम्भाइयां आना, अंगों का मुड़ना-तुड़ना, अंगड़ाई आना, कम्पन, प्रलाप, जागरण (नीद का न आना) रोमों का भर भरा आना ( दात्यों का स्तब्ध हो जाना ), गरम वस्तुओं की चाह; एवं वातज्वर के निदानभूत वस्तुओं का सेवन हानिकारक होना तथा निदान ( रूक्ष, लघु, शीतादि गुणों ) के विपरीत गुणों वाले पदार्थों के सेवन करने से आरोग्य होना ये सब वातज्वर के लक्षण हैं ।

उष्णाम्ललवणक्षारकटुकाजीर्णभोजनेभ्योतिसेवितेभ्यस्तथाऽति तीक्ष्णातपाम्निसन्तापश्रमक्रोधविषमाहारेभ्यश्च पित्तं प्रकोपमापद्यते ।

पित्त प्रकोप के कारण—उष्ण, खट्टा, नमकीन, क्षार, कटु और अजीर्णकारक पदार्थों के अतिसेवन से; तथा अतितीक्ष्ण, बहुत धूप, अग्नि-सन्ताप, श्रम, क्रोध, विषम भोजन के सेवन से पित्त प्रकुपित होता है ।

तद्यदां प्रकुपितमामाशयादूष्माणामुपसृज्याद्यमाहारपरिणामधातुं रसनामानमन्ववेत्य रसखेदवहानि स्रोतासि पिधाय द्रवत्वाद्ग्निसुपहत्य पक्तिस्थानादूष्माणं बहिर्निरस्य प्रपीडयत्केवलं शरीरमनुप्रपद्यते तदा ज्वरमभिनिर्वर्तयति; तस्येमानि लिङ्गानि भवन्ति ।

पित्तज्वर की सम्प्राप्ति—यह प्रकुपित हुआ पित्त आमाशय में स्थित

उष्णिमा से मिलकर, अन्न के पाचन से उत्पन्न प्रसाद नामक रस से मिलकर रसवह और स्वेदवह स्रोतों को बन्द कर देता है । और पित्त द्रव होने से अग्नि को मन्द करता है, इसलिये पक्काशय से उष्णिमा को बाहर निकाल देता है । तत्र पित्त सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त होकर शरीर को पीड़ित करता है । इस प्रकार से ज्वर को उत्पन्न करता है । पित्त ज्वर के लक्षण ये होते हैं ।

तद्यथा—युगपदेव केवले शरीरे ज्वरस्याभ्यागमनमभिवृद्धिर्वा भुक्तस्य विदाहकाले मध्यन्दिनेऽर्धरात्रे शरदि वा विशेषेण, कटुकास्यता घ्राण-मुखकण्ठोष्ठतालुपाकः, ऊष्मा, वृष्णा, भ्रमो, मदो, मूर्च्छा, पित्तच्छर्दन-मतीसारोऽन्नद्वेषः, सदनं, संस्वेदः, प्रलापो. रक्तकोठाभिनिर्वृत्तिः शरीरे, हरितहारिद्रत्वं नखनयनवदनमूत्रपुरीषत्वचामत्यर्थमूष्मण-स्तीव्रभावोऽतिमात्रं दाहः, शीताभिप्रायता, निदानोक्तानामनुपशयो, विपरीतोपशयश्चेति पित्तज्वरलिङ्गानि भवन्ति ॥ ११ ॥

पित्त-ज्वर के लक्षण—यथा—सम्पूर्ण शरीर में एक साथ ( सहसा ) ज्वर का चढ़ना, अथवा ज्वर का बढ़ना, भोजन के पचने के समय, मध्याह्न में, आधी रात में, शरद् ऋतु में, विशेष करके ज्वर बढ़ता है; मुख से कड़वापन, नासिका, मुख, कण्ठ, ओष्ठ, तालु का पकना, गरमी, प्यास का लगना, भ्रम, मद, मूर्च्छा, पित्त का वमन, अतिसार, अन्न में अनिच्छा, पसीना आना, प्रलाप, शरीर पर लाल लाल धब्बे वा चक्रे, फुन्सियां निकलना, नख, आख, मुख, मूत्र, मल, त्वचा इन का रंग हरा या हल्दी के समान होजाना, गरमी बहुत बढ़ जाना, बहुत अधिक जलन होना, शीत वस्तुओं की चाह रहना और पित्त ज्वर के कारण रूप पदार्थों का सेवन हानिकारक एवं विपरीत गुण वाले पदार्थों का सेवन शिथिल होना ये पित्तज्वर के लक्षण हैं ।

स्निग्धगुरुमधुरपिच्छिलशीताम्ललवणदिवास्वप्रहर्षाऽन्यायामे-  
भ्याऽतिसेवितेभ्य श्लेष्मा प्रकोपमापद्यते ।

रफा प्रकोप के कारण—चिमास, मीठे, भारी, शीतल, पिच्छिल, खट्टे

नमकीन पदार्थों के अतिसेवन से, दिन में सोने से, हर्ष वा आनन्द के अति सेवन तथा व्यायाम के न करने से कफ प्रकुपित होता है ।

स यदा प्रकुपितः प्रविश्यामाशयमूष्मणा सह मिश्रीभूयाद्यमाहारपरिणामधातुं रसनामानमन्ववेत्य रसस्वेदवहानि स्रोतांसि पिधायाम्निमुपहत्य पक्तिस्थानादूष्माणं बहिर्निरस्य प्रपीडयन् केवलं शरीरमनुप्रद्यते, तदा ज्वरमभिनिर्वर्तयति; तस्येमानि लिङ्गानि भवन्ति ।

कफज्वर की सम्प्राप्ति—कुपित कफ आमाशय में जाकर उष्णिमा के साथ मिलकर, अन्न के परिणाम भूत रस नामक धातु से मिल कर, रसवह और स्वेदवह स्रोतों को बन्द करके अग्नि को मन्द कर देता है । पक्काशय से अग्नि को बाहर निकाल कर सम्पूर्ण शरीर को पीड़ित करता है । इस प्रकार से कफ ज्वर को उत्पन्न करता है । कफ ज्वर के लक्षण ये होते हैं ।

तद्यथा—युगपदेव केवले शरीरे ज्वरस्याभ्यागमनमभिवृद्धिर्वा । भुक्तमात्रे पूर्वाह्ने पूर्वरात्रे वसन्तकाले वा विशेषेण गुरुगात्रत्वमनन्नाभिलाषः, श्लेष्मप्रसेको, मुखस्य च माधुर्यं, ह्रस्वासो, हृदयोपलेपस्तिमितत्वं, छर्दिर्मृद्वग्निता, निद्राधिक्यं, स्तम्भस्तन्द्रा, श्वासः, कास, प्रतिश्यायः, शैत्यं, श्वैत्यं च नखनयनवदनमूत्रपुरीषत्वचामत्यर्थं, शीतपिडकाश्च भृशमङ्गेभ्य उत्तिष्ठन्ति, उष्णाभिप्रायता, निदानोक्तानामनुपशयो विपरीतोपशयश्चेति श्लेष्मज्वरलिङ्गानि भवन्ति ॥ १२ ॥

कफज्वर के लक्षण—यथा—सम्पूर्ण शरीर में ज्वर एक साथ आता है, या बढ़ता है । भोजन करने के समय ( या खा चुकने पर ही ) पूर्वाह्न में रात्रि के प्रथम भाग में, या वसन्त ऋतु में ज्वर का वेग बढ़ा होता है । शरीर में भारीपन, भोजन में अरुचि, मुख से लार बहना, मुख में मिठास, वमन की रुचि, बेचैनी, हृदय का रुकना, हृदय ( आमाशय ) प्रदेश पर कफ का लगा रहना आलस्य ( तन्द्रा ), वमन, अग्नि का मन्द होना, नींद का अधिक आना, जडता

मुन्ती, खांसी, श्वास, जुकाम, शीत लगाना, नख, आंख, मुख, मूत्र, मल और त्वचा में सफेदी, शरीर पर बहुतसी पिडिकाओं, फुन्सियों का निकल आना त्रिन पिडिकाओं का स्पर्श शीतल होता है। उष्ण पदार्थों की चाह रहती है, कफ ज्वर के कारणरूप गुणों वाले पदार्थों का सेवन हानि कारक और विपरीत गुण वाले पदार्थों का सेवन लाभकारक होता है। ये कफज्वर के लक्षण हैं।

विषमाशनादनशानादन्नपरिवर्त्तद्विदुर्व्यापत्तेरसात्स्यगन्धोपघ्राणाद् विषोपहतम्योदकस्य चोपयोगाद् गरेभ्यो गिरीणा चोपश्लेषात् स्नेहस्वेद-चमनविरेचनास्थापनानुवासनशिरोविरेचनानामयथावत्प्रयोगात्मिथ्या मंसर्जनाद्वा स्त्रीणा च विषमप्रजननात् प्रजातानां च मिथ्योप-चाराद्यथोक्ताना च हेतूनां मिश्रीभावाद्यथानिदानं द्वन्द्वानामन्यतमः सर्वे वा त्रयो दोषा युगपत्प्रकोपमापद्यन्ते, ते प्रकुपितास्तयैवानुपूर्व्या ज्वरमभिनिर्वर्तयन्ति।

तीन दोषों के प्रकोप के कारण ज्वर—विषम भोजनसे, भोजन के न करने से ऋतु के बदलने से, ऋतु के विकृत ( अतियोग, मिथ्यायोग ) होने से, प्रति मूल-गन्धयुक्त पदार्थों के मूँघने से, विषयुक्त पानी के उपयोग से; संयोगजन्य विष के दोष से, पर्वतों के पास में रहने से, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, और शिरोविरेचन के अयोग्य प्रयोग से मिथ्यों के विषम प्रसव करने से, बालक की उत्पत्ति के पीछे मिथ्या परिचर्या से, और पूर्व ज्वरे हुए वात, पित्त, कफ इन दोषों के परस्पर मिश्रण से दो दोष या तीनों दोष एक साथ प्रकुपित हो जाते हैं।

तत्र यथोक्ताना ज्वरलिङ्गाना मिश्रीभावविशेषदर्शनाद् द्वान्द्विक-मन्यतमं ज्वरं सात्त्रिपातिकं वा विद्यात् ॥ १३ ॥

संमर्गज = सात्त्रिपातिक ज्वर—इस प्रकार से दो दोष या तीन दोष साथ मिलकर अनुक्रम से—कफ-वातज, कफ-पित्तज और कफ-वात-पित्तज ज्वर में उत्पन्न करते हैं। द्वन्द्वज ज्वर में दो दोष कुपित होकर

दोनों दोषों के लक्षण उत्पन्न करते हैं, इसी प्रकार तीनों दोषों से उत्पन्न ज्वर में तीनों दोषों के लक्षण होते हैं। इन लक्षणों को देखकर दो या तीन दोषों से उत्पन्न ज्वरों को जानना चाहिये।

अभिघाताभिषङ्गाभिचाराभिशापेभ्य आगन्तुर्हि व्यथापूर्वो ज्वरोऽष्टमो भवति ।

आगन्तुज ज्वर—अभिघात ( चोट आदि के लगना ), अभिषंग ( काम आदि वेग ), अभिचार ( अथर्व मन्त्र आदि से ज्वर पैदा करना ) अभिशाप ( गुरु, सिद्ध आदि पुरुषों का शाप ) इन मुख्य चार कारणों से व्यथापूर्वक आगन्तुज ज्वर उत्पन्न होता है।<sup>१</sup> यह ज्वर का आठवाँ प्रकार है।

स किञ्चित्कालमागन्तुः केवलो भूत्वा पश्चाद्दोषैरनुबन्ध्यते । तत्राभिघातजो वायुना दुष्टशोणिताधिष्ठानेन, अभिषङ्गजः पुनर्वातपित्ताभ्यां, अभिचाराभिशापजौ तु सन्निपातेनानुबन्ध्यते । स सप्तविधाज्वराद्विशिष्टलिङ्गोपक्रमसमुत्थानत्वाद्विशिष्टो चेदितव्यः, कर्मणा साधारणेन चोपक्रम्यत इत्यष्टविधा ज्वरप्रकृतिरुक्ता ॥ १४ ॥

आगन्तुज ज्वर की सम्प्राप्ति—आगन्तुज ज्वर उत्पन्न होकर कुछ काल (सात दिन वा तीन दिन) तक रहता है, फिर वात आदि दोष के साथ मिल जाता है। अभिघातज ज्वर में प्रथम चोट आदि से ज्वर उत्पन्न होता है, पीछे से दोष उत्पन्न होता है। इस ज्वर में वायु से दूषित रक्त के साथ मिलकर इसका आश्रय करके रहता है। अभिषंगज वा ज्वर में वात-पित्त का आश्रय करता है। अभिचार और अभिशाप से उत्पन्न ज्वर तीनों दोषों का आश्रय करके रहते हैं। आगन्तुज ज्वर के लक्षण, चिकित्सा और इसका

१ 'व्यथापूर्व'—आगन्तुज ज्वर में व्यथा ही पूर्वरूप है। इन में प्रथम ज्वर होकर फिर दोषों का सम्बन्ध होता है।



निदान, दूसरे बात आदि दोषों से उत्पन्न सात प्रकार के ज्वर से सर्वथा भिन्न प्रकार के हैं, क्योंकि आगन्तुज ज्वर भिन्न प्रकार का है ।

सब प्रकार के ज्वरों में सामान्यतः एक ही प्रकार की चिकित्सा की जाती है क्योंकि ज्वर एक ही प्रकार का है । इस प्रकार में ज्वर के आठ प्रकार कह दिये हैं ।

ज्वरस्त्रैक एव मंतापलक्षण । तमेवाभिप्रायविशेषाद्विविधमा-  
चक्षते । निजागन्तुविशेषाच्च । तत्र निजं द्विविधं त्रिविधं चतुर्विधं  
सप्तविधं चाहुर्भिषजो वातादिविकल्पात् ॥ १५ ॥

ज्वर तो एक ही प्रकार का है । क्योंकि सब प्रकार के ज्वरों में 'सन्ताप' ( गरमी ) पाई जाती है । परन्तु अभिप्राय विशेष को लेकर इसके निज (शारीरिक) और आगन्तुज ये दो भेद किये जाते हैं । इनमें निज-ज्वर को वातादि दोषों की विकल्पना में ( संसृष्ट और असंसृष्ट शीत या उष्णभेद से ) दो प्रकार का, ( वात आदि दोष भेद से ) तीन प्रकार का, ( वात, पित्त, कफ और सनिपातज भेद से ) चार प्रकार का, ( दोष जन्य, मिश्रण सन्निपात भेद से ) सात प्रकार का कहा हो जाता है ।

तस्येमानि पूर्वरूपाणि । तद्यथा—मुखवैरस्यं गुरुगात्रत्वमनन्ना-  
भिलाषश्चक्षुषोराकुलत्वमस्त्रागमनं निद्राया आधिक्यमरतिर्जृम्भा  
विनामो वेपथुः श्रमभ्रमप्रलापजागरणलोमहर्षदन्तहर्षाः शब्दशीत-  
वातातपासहत्वासहत्वमरोचकाविपाकौ दौर्बल्यमङ्गमर्दः सदनमल्प-  
प्राणतादीर्घसूत्रताऽऽलस्यमुचितस्य कर्मणो हानिः प्रतीपतास्वकार्येषु  
गुरुणा वाक्येष्वभ्यसूया, चालेषु प्रद्वेषः स्वधर्मेष्वचिन्ता माल्यानुले-  
पनभोजनपरिक्लेशनं मधुरेषु भक्ष्येषु प्रद्वेषोऽम्ललवणकटुकप्रियता  
चेति ज्वरपूर्वरूपाणि भवन्ति प्राक्सन्तापात्, अपि चैनं सन्तापार्त्तम-  
नुवध्नन्ति ॥ १६ ॥

इत्येतान्येकैकशो ज्वरलिङ्गानि व्याख्यातानि भवन्ति विस्तरस-  
मासाभ्याम् ।

ज्वर के पूर्वरूप—उस ज्वर के पूर्वरूप ये हैं। जैसे—मुख में विरसता, शरीर में भारीपन, भोजन में अनिच्छा, आंखों में बेचैनी, आंखों से आंसू बहना; नींद का अधिक आना,<sup>१</sup> बेचैनी, जंभाई आना, शरीर का मुड़ना,<sup>२</sup> कम्पन, श्रम, भ्रम, प्रलाप, नींद का न आना, लोमहर्ष, शब्द, शीत<sup>३</sup> वायु, धूप की कभी सहन करने की रुचि और कभी सहने में अरुचि का होना; भोजन में अरुचि, अविपाक, दुर्बलता, अंगों का टूटना, शक्ति का कम हो जाना; अल्पप्राणता, दीर्घसूत्रता ( काम में आलस्य ), आरम्भ किये हुए कार्य में इच्छा का न होना, अपने किये हुए काम में प्रतिकूलता, गुरुजनों के वाक्यों में अश्रद्धा, बालकों से द्वेष, अपने कर्त्तव्य में (धर्मकार्य में) बेपर्वाही; फूलों की माला, चन्दन का लेपन, और भोजन में दुःख मानना; मधुर वस्तुओं से द्वेष, खट्टे-नमकीन कड़वे पदार्थों की चाह होना ये ज्वर के पूर्व रूप हैं जो कि संताप से भी पूर्व सन्तापयुक्त रोगी में प्रतीत होने लगते हैं। इस प्रकार से ज्वर के लक्षण अलग अलग विस्तार एवं संक्षेप में कह दिये हैं।

ज्वरस्तु खलु महेश्वरकोपप्रभवः सर्वप्राणिनां प्राणहरो देहेन्द्रियमनस्तापकरः प्रज्ञाबलवर्णहर्षोत्साहसादनः<sup>४</sup> श्रमक्लममोहाहारोपरोधसंजननो, ज्वरयति शरीराणि इति ज्वरः, नान्ये व्याधयस्तथादारुणा बहूपद्रवा दुश्चिकित्स्याश्च यथाऽयमिति, स सर्वरोगाधिपतिर्नानातिर्यग्योनिषु बहुविधैः शब्दैरभिधीयते, सर्वप्राणभृतश्च सज्वरा एव जायन्ते सज्वरा एव म्रियन्ते, स महामोहः, तेनाभिभूता देहिनः प्राग्दैहिकं कर्म किञ्चिदपि न स्मरन्ति, सर्वप्राणभृतां च ज्वर एवान्ते प्राणानादत्ते ॥ १७ ॥

१ 'असृगाजमनम' इति वा पाठः। अर्थात् आखे लाल हो जाती हैं।

२. 'विराम' इति पाठान्तरम्' अर्थात् मन की उदासीनता।

३ शीत के स्थान पर 'गीत' पाठान्तर है वहां गीत अर्थात् संगीत में अनिच्छा।

४. 'त्साहहासकरः' इति पाठः।

ज्वर का परिणाम—ज्वर महेश्वर के क्रोध से उत्पन्न हुआ है। यह ज्वर सब प्राणियों का प्राण लेने वाला, इन्द्रिय और मन को ताप (दुःख) देने वाला, बुद्धि, बल, कान्ति, हर्ष, उत्साह का नाश करने वाला, व्याधि, श्रम, क्लान्ति, मोह और क्षुधानाश को उत्पन्न करने वाला है।

ज्वर शब्द की निरुक्ति—ज्वर शरीरों को पीड़ित करता है इसलिये इसको 'ज्वर' कहते हैं। इसके समान कठिग, बहुत उपद्रव युक्त, चिकित्सा करने में दुःसाध्य और दूसरे रोग नहीं हैं। ज्वर ही सब रोगों का अधिपति है। नाना प्रकार के पशु पक्षियों में अनेक प्रकार के शब्दों से कहा जाता है।<sup>१</sup> सब प्राणी ज्वर के साथ उत्पन्न होते हैं और ज्वर के साथ ही मरते हैं। ज्वर महामोह स्वरूप है, इसलिये इस ज्वर से आक्रान्त होने से पूर्वजन्म (पूर्व शरीर) के किसी भी कर्म का स्मरण नहीं करता। यह ज्वर ही सब प्राणियों के प्राणों का हरण करता है।

तत्र पूर्वरूपदर्शने ज्वरादौ वा हितं लघ्वशनमतर्पणां वा ज्वर-  
स्यामाशयसमुत्थत्वात् ततः कषायपानाभ्यङ्गस्वेदप्रदेहपरिषेकानुलेपन-  
चमनविरेचनास्थापनानुवासनोपशमननस्तःकर्मधूपधूमपानाञ्जनक्षीर-  
भोजनविधानं च यथास्वं युक्त्या प्रयोज्यम्।

ज्वर के चिकित्सा सूत्र—ज्वर के पूर्व रूप होने पर अथवा ज्वर के प्रारम्भ में ही हल्का अन्न सेवन करना अथवा लंघन करना चाहिये। क्योंकि ज्वर आमाशय से उत्पन्न होता है। इसके अनन्तर कषाय (क्लाथ) अभ्यंग, स्वेद, प्रदेह (लेप), परिषेक, अनुलोमन (वात को अनुकूल करने की क्रिया), चमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासनवस्ति, कर्म उपशमन, नस्यकर्म, धूपन, धूमपान, अंजन और दूध इनका युक्तिपूर्वक यथायोग्य उपयोग करना चाहिये।

१ यथा—हाथियों में होने वाले ज्वर को 'पाकल', गायों में होने वाले ज्वर को 'खेरिक', मछलियों के ज्वर को 'इन्द्रजाल', पक्षियों के ज्वर को 'भ्रामरक' कहते हैं।

जीर्णज्वरेषु तु सर्वेष्वेव सर्पिषः पानं प्रशस्यते यथास्त्रौषधसिद्धस्य सर्पिर्हि स्नेहाद्वातं शमयति, संस्कारात्कफं, शैत्यात्पित्तमूष्माणं च । तस्माज्जीर्णज्वरेषु तु सर्वेष्वेव सर्पिर्हितमुदकमिवाग्निप्लष्टेषु द्रव्येष्विति ॥ १८ ॥

जीर्णज्वर में घृतपान—सब प्रकार के जीर्ण ज्वरों में घी का पान कराना प्रशस्त है । इसके लिये योग्य रीति से ओषधियों द्वारा सिद्ध किया घी काम में लाना चाहिये । चिकना होने से घी वायु का शमन करता है, भिन्न २ ओषधियों के संस्कार से कफ को, शीतलता से पित्त और उष्मा को शान्त करता है । इसलिये सब प्रकार के जीर्णज्वरों में घी ऐसा ही हितकारक होता है जिस प्रकार कि आग से जलते हुए पदार्थों के लिये पानी हितकारक है ।

भवन्ति चात्र । यथा प्रज्वलितं वेश्म परिष्वन्ति वारिणा ।

नराः शान्तिमभिप्रेत्य तथा जीर्णज्वरे घृतम् ॥ १९ ॥

स्नेहाद्वातं शमयति, शैत्यात्पित्तं नियच्छति ।

घृतं तुल्यगुणं दोष संस्कारात् जयेत्कफम् ॥ २० ॥

नान्यः स्नेहस्तथा कश्चित्संस्कारमनुवर्तते ।

यथा सर्पिरतः सर्पिः सर्वस्नेहोत्तमं मतम् ॥ २१ ॥

संस्कारसिद्ध घृत—जिस प्रकार आग से जलते हुए घर को बुझाने के लिये मनुष्य पानी डाला करते हैं, उसी प्रकार जीर्णज्वर में घृत का उपयोग उत्तम है । घी स्नेह गुण से वायु को, शीतगुण से पित्त को तथा जिस ओषधि से सिद्ध किया जाता है उस ओषधि का गुण लेकर कफ को शान्त करता है ।

घृत की श्रेष्ठता—जिस प्रकार घी दूसरी दवाइयों के गुण अपने में ग्रहण करके संस्कारयुक्त होजाता है उस प्रकार और कोई अन्य स्नेह पदार्थों का गुण ग्रहण नहीं करता । इसलिये सब स्नेहों में घी ही श्रेष्ठ है ।

गद्योक्तो यः पुनः श्लोकैरर्थः समनुगीयते ।

तद्व्यक्तिव्यवसायार्थं द्विरुक्तं तत्र गद्यते ॥ २२ ॥

जो अर्थ गद्यरूप में कहा गया है, उसी को श्लोक रूप में कहते हैं । इसमें पुनरुक्त दोष नहीं है । क्योंकि गद्य में कहे हुए विषय को ही पुनः और अधिक स्पष्ट और दृढ़ करने के लिये पद्य में कहा जाता है ।

तत्र श्लोकाः । त्रिविधं नामपर्यायैर्हेतुं पञ्चविधं गदम् ।

गदलक्षणपर्यायान् व्याधेः पञ्चविधं ग्रहम् ॥ २३ ॥

ज्वरमष्टविधं तस्य प्रकृष्टासन्नकारणम् ।

पूर्वरूपं च रूपं च भेषजं संग्रहेण च ॥ २४ ॥

व्याख्यातवान्<sup>१</sup> ज्वरस्याग्रे निदाने विगतज्वरः ।

भगवानभिवेशाय प्रणताय पुनर्वसुः ॥ २५ ॥

रोगों के तीन प्रकार के हेतु, पर्यायवाचक शब्द, पांच प्रकार के रोग, इनके लक्षण, पर्यायवाचक शब्द, रोगों के पांच प्रकारों का संग्रह, ज्वर के आठ भेद, इसके समीप एवं दूरवर्ती कारण, ज्वर के पूर्वरूप, रूप और औषध का संक्षेप में वर्णन, ये सब विषय 'ज्वर-निदान' नामक अध्याय में विनीत अभिवेश को भगवान् पुनर्वसु ने उपदेश किये ।

इत्यभिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने ज्वरनिदान

नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

## द्वितीयोऽध्यायः

अथातो रक्तपित्तनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

१. 'व्याजहार' इति पाठः ।

अब रक्त पित्त का निदान कहेंगे ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

पित्तं यथा भूतं लोहितपित्तमिति संज्ञां लभते तथाऽनुव्याख्या-  
स्यामः । यदा जन्तुर्यवकोद्दालककोरदूषकप्रायाण्यन्नानि भुंक्ते भृशो-  
ष्णतीक्ष्णमपि चान्नजातं निष्पावमाषकुलत्थच्चारसूपोपहितं दधि-  
मण्डोदश्वित्कट्वराम्लकाञ्जिकोपसेकं वाराहमाहिषाविकमात्स्यगव्यपि-  
शितपिण्याकपिण्डालुशुष्कशाकोपहितं मूलकसर्षपलशुनकरञ्जिशिशुमधु-  
शिग्रुखडयूषभूस्त्रुणसुमुखसुरसकुठेरगण्डीरकालमानकपर्णासक्ष्वकफ-  
ण्डिज्जकोपदंशं सुरासौवीरकतुषोदकमैरयमेदकमधुलकशुक्तकुवलबदरा-  
म्लप्रायानुपानं पिष्टान्नोत्तरभूयिष्ठमुष्णाभितप्तो वाऽतिमात्रमतिवेलं-  
पयःपिबति पयसा वा समश्नाति रौहिणीकं काणकपोतं वा सर्षपतै-  
लच्चारसिद्धं कुलत्थपिण्याकजाम्बवल्कुचपक्कैः शौक्तिकैर्वा सह क्षीर-  
माममतिमात्रमथवा पिबत्युष्णाभितप्तस्तस्यैवमाचरतः पित्तं प्रकोपमा-  
पद्यते, लोहितं च स्वप्रमाणमतिवर्तते, तस्मिन् प्रमाणातिप्रवृत्ते पित्तं  
प्रकुपितं शरीरमनुसर्पद्यदैव यकृत्प्लीहप्रभवाणां लोहितवहानां स्रोतसां  
लोहिताभिष्यन्दगुरूणि मुखान्यासाद्य प्रतिरुन्ध्यात् तदैव लोहितं  
दूषयति ॥ ३ ॥

जिस प्रकार के पित्त को 'रक्तपित्त' कहते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं । जब मनुष्य यवक ( ब्रीहि-विशेष ), उद्दालक ( वनकोद्दव ) कोरदूष इनमें मिले खान पान के अति सेवन से, अथवा दूसरे कोई अति उष्ण या तीक्ष्ण गुण वाले अन्न के सेवन करने से, अथवा पूए, उड़द, कुलथी, दालें, क्षारयुक्त पदार्थों के सेवन से, दही, दधिमण्ड ( मस्तु ), उदश्वित् ( आधा जल मिश्रित तक्र ), कद्वर, ( बिना पानी का तक्र था खट्टी छाछ ), अम्लकांजी ( खट्टी कांजी ), सूअर, भैंस, भेड़, मछली और गाय के मांस के सेवन से, पिण्याक ( फोणी ) पिण्डालु, कचालु शुष्क शाक ( सूखे शाक ) से युक्त अन्न पान के सेवन से, मूली, सरसों, लशुन,

करज, सहजन, मधुशियु, ( छोटा सहजन ), खड्यूष ( राग कर्पूर ), भूस्तृण ( रोहिप तृण ), सुमुख, सुरस, कुठरेक, गण्डीर, कालमानक, पर्णास, क्षवक और फणिगदक ( सब तुलसी के भेद ) इनके सेवन से, सुरा, सौवीर ( कांजी ) तुपोदक, मैरेय, मेढक, मधूलक ( महुवे की शराव ), शुक्त ( सिरका आदि ), कुवल ( राय बोर ), वेर अथवा दूसरे खट्टे पदार्थ मिश्रित वस्तुओं के अत्यन्त उपयोग करने से, अधिक टण्णिमा में रहने के पीछे अथवा पिष्टी युक्त अन्न के खाने के उपरान्त बार बार पानी के पीने से, अथवा दूध के साथ रोहितक ( रोहिणी, कुटकी का शाक ) शाक या कत्रर का मांस, सरसों के तेल अथवा क्षार में सिद्ध किये हुए पदार्थों के खाने से, अथवा कुलथी, उड़द, पिण्याक, जामुन, लसूटा आदि पके हुए फलों के साथ कांजी या कच्चा दूध अतिमात्रा में अथवा ( शरीर की गरम स्थिति में ) खाने से, इस प्रकार करने से पित्त प्रकृपित होजाता है और रक्त अपनी मात्रा से अधिक बढ़ जाता है ।

पित्त प्रकोप से रक्त का दोष—इस प्रकार से प्रमाण में अधिक बढ़ा हुआ रक्त, प्रकृपित हुआ पित्त सम्पूर्ण शरीर में फैल जाता है और यकृत एवं प्लीहा में उत्पन्न होने वाले रक्तवह स्रोतों के बड़े हुए रक्त के कारण भरे हुए मुखों को पहुँचकर बन्द कर देता है । इस प्रकार से संसर्ग द्वारा पित्त रक्त को दूषित कर देता है । \*

दोषितसंसर्गाद्धोहितप्रदूषणाद्धोहितगन्धवर्णानुविधानाच्च पित्तं लोहितमिति मित्याचक्षते ॥ ४ ॥

पित्त का रक्तके साथ संसर्ग होने से एवं शरीरस्थ रक्त के पित्त

रक्त के बढ़ने में रक्तवह स्रोतों के मुख खुल जाते हैं । परन्तु पित्त के कारण रक्त के दूषित होने से रक्त में घनता बढ़ जाती है । इससे उनका मुख बन्द होजाता है । पित्त रक्त को दूषित करता है ।

रक्तवह स्रोतों का प्रभाव स्थान यकृत और प्लीहा हैं ।

द्वारा दूषित होने से तथा पित्त का रक्त के समान गन्ध एवं रंग होने से पित्त को 'रक्तपित्त' कहते हैं ।

तस्येमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति । तद्यथा—अनन्नाभिलाषो भुक्तस्य विदाहः शुक्ताम्लगन्धरस उद्गारश्लेष्मदीक्षणागमनं छर्दितस्य बीभत्सता स्वरभेदो गात्राणां सदनं परिदाहो मुखाद्भूभागम इव लोहलोहितमत्स्यामगन्धत्वमपि चास्यस्य रक्तहरितहारिद्रवत्वमङ्गावयवशकृन्मूत्रस्वेदलालासिङ्घाणकास्यकर्णमलपिडकोलिकापिडकानामङ्गवेदनालोहितनीलपीतश्यावानामर्चिष्मतां च रूपाणां स्वप्ने दर्शनमभीक्ष्णमिति लोहितपित्तपूर्वरूपाणि भवन्ति ॥ ५ ॥

रक्तपित्त के पूर्व रूप ये हैं—भोजन में अनिच्छा, खाये हुए अन्न का न पचना, खट्टे या शुक्त, गन्ध अथवा रस की ढकार आना, बार २ वमन की अभिरुचि, वमन में आये रक्त आदि पदार्थ की भयंकरता, स्वरभेद, अंगों का टूटना, शरीर में दाह, मुख से धुएँ के समान श्वास आना, मुख से लोहा, रक्त, या मछली या कच्चे मांस की गन्ध आना, मुख का लाल, हरा अथवा हल्दी के समान रंग होजाना, शरीर के अवयव, मल, मूत्र, पसीना, लार, नासिका का मल, मुख का मल, कान का मल, फुन्सियों का लाल, हरा अथवा हल्दी के समान होना, अंगों में वेदना, स्वप्न में लाल, नीले, पीले, काले वा प्रदीप्त पदार्थों का बार बार दर्शन होना, इत्यादि रक्तपित्त के पूर्वरूप हैं ।

उपद्रवास्तु खलु दौर्बल्यारोचकाविपाकश्वासकासज्वरातीसारशोफशोषपाण्डुरोगाः स्वरभेदश्च ॥ ६ ॥

रक्तपित्त के उपद्रव—दुर्बलता, अरुचि, अविपाक, श्वास, कास, ज्वर, अतिसार, सूजन, शोष, पाण्डुरोग, और स्वरभेद ये रक्तपित्त के उपद्रव हैं ।

मागौ पुनरस्य द्वावूर्ध्वं चाधश्च । तद्बहुश्लेष्मणि शरीरे श्लेष्मसंसर्गादूर्ध्वं प्रपद्यमानं कर्णनासिकानेत्रास्येभ्यः प्रच्यवते । बहुवाते



तु शरीरे वातसंसर्गादधः प्रपद्यमानं मूत्रपुरीषमार्गाभ्यां प्रच्यवते ।  
वहुवातश्लेष्मणि शरीरे श्लेष्मवातसंसर्गाद् द्वावपि मार्गौ प्रपद्यते, तौ  
मार्गौ प्रपद्यमानं सर्वेभ्य एव यथोक्तेभ्यः खेभ्यः प्रच्यवते  
शरीरस्य ॥ ७ ॥

रक्तपित्त के दो मार्ग—रक्तपित्त के बाहर पड़ने के दो मार्ग हैं ।  
एक ऊर्ध्वमार्ग और दूसरा अधोमार्ग । जिस समय शरीर में कफ की  
प्रधानता होती है उस समय शरीर का पित्त कफ से मिलकर ऊर्ध्वगामी  
बन कर कान, नाक, नेत्र और मुखद्वार से बाहर निकलता है । वात-  
प्रधान शरीर में पित्त वायु से मिलकर अधोगामी होता है । इस अवस्था में  
वह मल मूत्र के रास्ते से बाहर निकलता है और जब शरीर में वात  
और कफ दोनों प्रबल होते हैं तब शरीर में वात और कफ से मिलकर  
ऊर्ध्वमार्ग एवं अधोमार्ग दोनों से बाहर आता है । इन दोनों मार्गों  
से बाहर निकलता हुआ शरीर के सम्पूर्ण छिद्रों से निकलने लगता है ।

तत्र यदूर्ध्वभागं तत्साध्यं, विरेचनोपक्रमणीयत्वाद्दध्नौषधत्वाच्च ।  
यदधोभागं तद्याप्यं, वमनोपक्रमणीयत्वादल्पौषधत्वाच्च । यदुभय-  
भागं तदसाध्यं, वमनविरेचनायोगित्वादनौषधत्वाच्चेति ॥ ८ ॥

साध्य-असाध्य का विचार—इनमें जो रक्तपित्त ऊर्ध्वगामी है, वह  
साध्य है क्योंकि इसकी चिकित्सा विरेचन द्वारा होती है और विरेचन  
की ओपधिया बहुत हैं । जो रक्तपित्त अधोगामी है वह याप्य अर्थात्  
कष्टसाध्य है क्योंकि इस की चिकित्सा वमन द्वारा होती है और वमन की  
ओपधियां कम हैं । जो रक्तपित्त उभय मार्गगामी अर्थात् ऊर्ध्व-अधोमार्ग-  
गामी है वह असाध्य है । क्योंकि इसमें वमन और विरेचन दोनों का  
उपयोग होता है और ऐसी ओपधियें नहीं हैं ।

रक्तपित्तप्रकोपस्तु खलु पुरा दक्षयज्ञोद्ध्वंसे रुद्रकोपप्रभवाग्निना<sup>१</sup>  
प्राणिनां परिगतशरीरप्राणानामनु ज्वरमभवत्<sup>२</sup> ॥ ९ ॥

१ 'दक्षयज्ञध्वंसे रुद्रकोपामर्पाग्निना' इति पाठः ।

२. 'मभवञ्ज्वरमनु' इति वा पाठः ।

तस्याशुकारिणो दावाग्नेरिवापतितस्यात्यधिकस्याशु प्रशान्तौ  
यतितव्यं मात्रां देशं कालं चाभिसमीक्ष्य संतर्पणेनापतर्पणेन वा  
मृदुमधुरशिशिरतिक्तकषायैरभ्यवहार्यैः प्रदेहपरिपेकावगाहसंस्पर्श-  
नैर्वमनाद्यैर्वा तत्रावहितेनेति ॥ १० ॥

रक्तपित्त का इतिहास—प्राचीन काल में जिस समय रुद्र के गणों  
ने दक्ष के यज्ञ<sup>१</sup> का विध्वंस किया था उस समय रुद्र के कोप से, सम्पूर्ण  
देहधारी प्राणियों को कष्ट देने वाले ज्वर के पीछे, अग्नि के समान उष्ण  
शक्ति ( रक्तपित्त ) उत्पन्न हुआ। यह रक्तपित्त शीघ्र कार्य करने वाला,  
प्राणहारक एवं अग्नि के समान नाश करने वाला है। इसको शान्त  
करने का शीघ्र उपाय करना चाहिये। मात्रा, देश, काल आदि का विचार  
करके संतर्पण या अपतर्पण क्रिया द्वारा अथवा मृदु, मधुर, शीत, कटु,  
कषाय रसयुक्त भोजनों से, लेप, परिपेक, अवगाहन, संस्पर्शन, वमन  
आदि द्वारा सावधानी से चिकित्सा करनी चाहिये।

भवन्ति चात्र । साध्यं लोहितपित्तं तद्यदूर्ध्वं प्रतिपद्यते ।

विरेचनस्य योगित्वाद्बहुत्वाद्भेषजस्य च ॥ ११ ॥

विरेचनं तु पित्तस्य जयार्थं परमौषधम् ।

यश्च तत्रान्वयः श्लेष्मा तस्य चानधमं स्मृतम् ॥ १२ ॥

भवेद्योगावहं तत्र मधुरं चैव भेषजम् ।

तस्मात्साध्यं मतं रक्तं यदूर्ध्वं प्रतिपद्यते ॥ १३ ॥

ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त साध्य—जो रक्तपित्त ऊर्ध्वमार्ग-गामी हो, वह  
साध्य है। क्योंकि इसमें विरेचन द्वारा चिकित्सा की जाती है, और  
विरेचन की औषधियां बहुत हैं। ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त में पित्त दोष प्रधान  
होता है, और कफ दोष गौण होता है। पित्त दोष को शान्त करने के  
लिये विरेचन परम श्रेष्ठ क्रिया है। और जो कफ दोष इसमें अनुबन्ध

१. यह इतिहास आलंकारिक है। दक्ष का यज्ञ इस देह में ही है।  
रुद्र शिव जाठराग्नि है। उसके विकृत होने से ही रोग उत्पन्न होते हैं।

रूप में रहता है, इसके लिये विरेचन मध्यम उपाय है। कषाय और तिक्त रसों के सिवाय मधुर रस भी अन्य ओषधियों के साथ मिलकर योगवाही होजाता है। इसलिये ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त साध्य है।

रक्तं तु यदधोभागं तद्याप्यमिति निश्चयः ।

वमनस्याल्पयोगित्वादल्पत्वाद्भेषजस्य च ॥ १४ ॥

वमनं हि न पित्तस्य हरणे श्रेष्ठमुच्यते ।

यश्च तत्रानुगो वायुस्तच्छ्रान्तौ चावर मतम् ॥ १५ ॥

तच्चायोगावहं तत्र कषायं तिक्तकानि च ।

तस्माद्याप्यं समाख्यातं यदुक्तमनुलोमगम् ॥ १६ ॥

अधोगामी रक्तपित्त याप्य—जो रक्तपित्त अधोमार्गगामी है वह याप्य है। क्योंकि पित्त को जीतने के लिये 'वमन' पूर्ण रूप से पर्याप्त क्रिया नहीं है और वमन की ओषधियां भी कम हैं। कफ दोष के साथ मिश्रित पित्त को निकालने में वमन पर्याप्त है। परन्तु रक्तपित्त के मूलरूप पित्त को निकालने में वमन श्रेष्ठ नहीं है। इसमें अनुबन्ध रूप से रहने वाले वायु को शमन करने के लिये वमन क्रिया निरूपयोगी है। इसी प्रकार कषाय और कटु रस जो रक्तपित्त के नाशक हैं, वे रस वायु को बढ़ाने वाले हैं इसलिये योगों में इनका उपयोग नहीं किया जा सकता इसलिये अधोगामी रक्तपित्त याप्य होजाता है।

रक्तपित्तं तु यन्मार्गो द्वावपि प्रतिपद्यते ।

असाध्यमिति तज्ज्ञेयं पूर्वोक्तादपि कारणात् ॥ १७ ॥

न हि संशोधनं किञ्चिदस्त्यस्य प्रतिमार्गगम् ।

प्रतिमार्गं च हरणं रक्तपित्ते विधीयते ॥ १८ ॥

एवमेवोपशमनं सर्वशो नास्य विद्यते ।

उभयमार्गगामी असाध्य रक्तपित्त—दोनों मार्गों से जाने वाला रक्तपित्त, उपरोक्त कारणों से असाध्य होजाता है। क्योंकि (१) इसके प्रति-कूल मार्ग के लिये संशोधन-चिकित्सा किसी प्रकार की भी नहीं है।

और (२) रक्तपित्त में विरुद्ध मार्ग से संशोधन कार्य गुणकारी होता है । इसलिये सब प्रकार की शान्ति करने वाले कोई भी औषध नहीं है ।

संसृष्टेषु च दोषेषु सर्वजिच्छमनं मतम् ॥ १९ ॥

इत्युक्तं त्रिविधोदकं रक्तं मार्गविशेषतः ।

द्वि-दोषों से व त्रि-दोषज रक्तपित्त की चिकित्सा—संसृष्ट दो दोषों या तीनों दोषों से मिश्रित रक्तपित्त में सब दोषों को शमन करने वाली औषधि देनी चाहिये । इस प्रकार से रक्तपित्त के तीन प्रकार बाहर पड़ने के मार्गों के भेदानुसार कह दिये ।

एभ्यस्तु खलु हेतुभ्यः किञ्चित्साध्यं न सिध्यति ॥ २० ॥

प्रेष्योपकरणाभावाद्दौरात्म्याद्वैद्यदोषतः ।

अकर्मतश्च साध्यत्वं कश्चिद्रोगोऽतिवर्तते ॥ २१ ॥

तत्रासाध्यत्वमेकं स्यात्साध्ययाप्यपरिक्रमात् ।

रक्तपित्तस्य विज्ञानमिदं तस्योपदेक्ष्यते ॥ २२ ॥

साध्य रोग असाध्य होजाने के कारण —इन निम्नलिखित कारणों से कोई साध्य रोग असाध्य बन जाता है । जैसे दूत ( भृत्य आदि ) अथवा दूसरी अन्य आवश्यक सामग्री के अभाव से, आत्मसंयम के अभाव से, रोग के दुष्ट आहार-विहार के कारण, वैद्य के दोष से, तथा दुश्चिकित्सा-आदि कारणों से साध्य रोग भी असाध्य होजाता है ।

उभय मार्ग से जाने वाला रक्तपित्त असाध्य है । इसी प्रकार साध्य रक्तपित्त का याप्य मार्ग से जाना, या याप्य रक्तपित्त का साध्य मार्ग से जाना दोनों ही असाध्य है । इसके आगे रक्तपित्त विषयक विज्ञान और अधिक कहते हैं ।

यत्कृष्णमथवा नीलं यद्वा शक्रधनुषप्रभम् ।

रक्तपित्तमसाध्यं तद्वाससो रञ्जनं च यत् ॥ २३ ॥

भृशं पूत्यतिमात्रं च सर्वोपद्रववच्च यत् ।

बलमांसक्षये यच्च तच्च रक्तमसिद्धिमत् ॥ २४ ॥

येन चोपहतो रक्तं रक्तपित्तेन मानवः ।

पश्येद् दृश्यं वियञ्चैव तच्चासाध्यमसंशयम् ॥ २५ ॥

तत्रासाध्यं परित्यज्यं याप्यं यत्नेन यापयेत् ।

साध्यं चावहितः सिद्धैर्भेषजैः साधयेद्भिषक् ॥ २६ ॥

असाध्य रक्तपित्त के लक्षण—जो रक्तपित्त काला, नीला, अथवा इन्द्र धनुष के समान नाना प्रकार के रंगों वाला हो, और जिसमें वस्त्र पर लगा रक्त का दाग धोने से न मिटे और अतिशय दुर्गन्ध वाला हो, जिसमें सब उपद्रव हों, जिस के कारण रोगी का बल और मांस क्षीण होगया हो, ये असाध्य रक्तपित्त के लक्षण हैं । रक्तपित्त का रोगी जब सब पदार्थों को लाल लाल ही देखने लगे तब रक्तपित्त निःसंशय असाध्य समझना चाहिये । असाध्य अवस्था की चिकित्सा आरम्भ ही नहीं करनी चाहिये, दुःसाध्य या यत्नसाध्य रोग की प्रयत्नपूर्वक चिकित्सा करनी चाहिये । साध्य रोग की सावधान होकर गुणकारी औषधियों से चिकित्सा करनी चाहिये ।

तत्र श्लोकौ । कारणं नामनिर्वृत्तिं पूर्वरूपाण्युपद्रवान् ।

मार्गो दोषानुबन्धं च साध्यत्वं न च हेतुमत् ॥ २७ ॥

निदाने रक्तपित्तस्य व्याजहार पुनर्वसुः ।

वातमोहरजोदोषलोभमानमदस्पृह इति ॥ २८ ॥

मोह, रजोगुण, दोष, लोभ, अभिमान, मद, और स्पृहा से रहित पुनर्वसु ने इस अध्याय में, रक्तपित्त की उत्पत्ति का कारण, पूर्वरूप, उपद्रव, इसके दोनों मार्ग, वात आदि दोषों का अनुबन्ध, साध्यासाध्यत्व, हेतु इत्यादि सब विषय वर्णन कर दिये हैं ।

इत्यग्निवेशद्वये तन्त्रे चरकप्रतिसरद्वये निदानस्थाने रक्तपित्तनिदान

नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

## तृतीयोऽध्यायः ।

अथातो गुल्मनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अत्र 'गुल्मनिदान' का वर्णन करते हैं, जैसा कि भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।<sup>१</sup>

इह खलु पञ्च गुल्मा भवन्ति । तद्यथा—वातगुल्मः, पित्तगुल्मः, श्लेष्मगुल्मो, निचयगुल्मः, शोणितगुल्मश्चेति ॥ ३ ॥

एवंवादिनं भगवन्तमात्रेयमग्निवेश उवाच—कथमिह भगवन्! पञ्चानां गुल्मानां विशेषमभिजानीयाम् नह्यविशेषविद्रोगाणामौषधविदपि भिषक् प्रशमनसमर्थो भवतीति ॥ ४ ॥

तमुवाच भगवानात्रेयः—समुत्थानपूर्वरूपलिङ्गवेदनोपशयविशेषेभ्यो विशेषविज्ञानं गुल्मानां भवत्यन्येषां च रोगाणामग्निवेश! तत्तु खलु गुल्मेषूच्यमानं निबोध ॥ ५ ॥

गुल्म के भेद—गुल्म पांच प्रकार के होते हैं । जैसे (१) वातगुल्म, (२) पित्तगुल्म, (३) कफगुल्म, (४) निचयगुल्म और (५) रक्तगुल्म ।<sup>२</sup>

इस प्रकार कहते हुए भगवान् आत्रेय से अग्निवेश ने पूछा कि इन पांच प्रकार के गुल्मों के विषय में विशेष ( भेद-ज्ञान ) ज्ञान किस

१. शरीर के भीतर दोष संचित होकर पिण्डाकार होजाते हैं । इससे वे 'गुल्म' कहाते हैं ।

कुपितानिलमूलत्वाद् गूढमूलोदयादपि ।

गुल्मवद्वा विशालत्वाद् गुल्म इत्यभिधीयते ॥ सुश्रुत ॥

२. इन पांच गुल्मों के सिवाय तीन और भी गुल्म हैं जैसा कि आगे चिकित्सा में कहेंगे—“व्यामिश्रलिगानपरांस्तु गुल्मांस्त्रीनादिशेदौषध कल्पनार्थम्” । अर्थात् वातपित्तज, पित्तकफज और वातकफज । इस प्रकार से आठ प्रकार के गुल्म हैं ।

प्रकार करूं ? क्योंकि इनके भेदों को सम्पूर्ण रूप से जाने बिना, सम्पूर्ण औषध-ज्ञान होने पर भी वैद्य रोगों के शमन करने में समर्थ नहीं होता ।

भगवान् आत्रेय ने उत्तर दिया—हे अग्निवेश ! उत्पत्ति, पूर्वरूप, रूप, लक्षण, वेदना और उपशय इनके भेद से भिन्न भिन्न गुल्मों का विशेष ज्ञान होता है और इन्हीं साधनों से दूसरे अन्य रोगों का भी पता चलता है । इसलिये गुल्म के लक्षण आदि का वर्णन करते हैं, इसको ध्यान से सुनो और समझो ।

यदा पुरुषो वातलो विशेषेण ज्वरवमनविरेचनातीसाराणामन्यतमेन कर्शनेन कर्शितो वातलमाहारमाहरति शीतं वा विशेषेणातिमात्रमस्त्रोहपूर्वे वा वमनविरेचने पिबत्यनुदीर्णा वा छर्दिमुदीरयत्युदीर्णान् वातमूत्रपुरीषवेगान्निरुणद्धत्यशितं वा पिबति नवोदकमतिमात्रमतिमात्रसंक्षोभिणा वा यानेन यात्यतिल्यवायव्यायाममद्यरुचिर्वाऽभिघातमृच्छति वा विषमाशनशयनासनस्थानचंक्रमणसेवी भवत्यन्यद्वा किंचिदेवंविधं विषममतिमात्रं व्यायामजातमारभते, तस्यापचाराद्वातः प्रकोपमापद्यते ॥ ६ ॥

वातगुल्म—जब वातप्रकृति का मनुष्य विशेष कर ज्वर, वमन, विरेचन और अतिसार इनमें से किसी एक के कारण कृश होजाता है, इस स्थिति में जब वह वायुकारक आहार या अति शीतल पदार्थों का सेवन करता है, वा स्नेहन कर्म किये बिना विरेचन का उपयोग करता है, वमन की इच्छा न रहने पर भी बलात्कार से वमन करता है, अधोवायु, मल, मूत्र के उपस्थित वेगों को रोकता है, अधिक भोजन करके नवीन पानी ( बरसात में कुएँ आदि का पानी ) अधिक पीता है, बहुत अधिक झकोले वाली गाड़ी वा सवारी से यात्रा करता है, स्त्री-सम्भोग और मद्य के अति उपयोग से, रुचि के अभिघात होने से, विषम स्थिति में बैठने, सोने, चलने या रहने से, इसी प्रकार के अन्य

व्यायाम आदि श्रमजनक कार्य को अधिक मात्रा में करने से, वायु प्रकुपित होजाता है ।

स प्रकुपितो महास्रोतोऽनुप्रविश्य रौक्ष्यात्कठिनीभूतमाप्लुत्य पिण्डतोऽवस्थानं करोति हृदि वस्तौ पार्श्वयोर्नाभ्यां वा । स शूलमुप जनयति ग्रन्थीश्चानेकविधान्, पिण्डतश्चावतिष्ठते, स पिण्डतत्वाद् गुल्म इत्युच्यते ॥ ७ ॥

वातगुल्म की सम्प्राप्ति—इस प्रकार से कुपित हुआ वायु महास्रोतों ( आमाशय और पक्वाशय ) में घुसकर अपने रूक्ष गुण के कारण कठिन होकर कोष्ठ में फैलकर गोल पिण्डाकार बन जाता है और हृदय, वस्तिभाग, दोनों पार्श्वभाग अथवा नाभि भाग में शूल अथवा अनेक प्रकार की गांठें उत्पन्न कर देता है । वायु गोलाकार बनकर रहता है, पिण्डाकार होने से 'गुल्म' कहा जाता है । ( इसी को 'वायुगोला' कहते हैं । जोकि वातगुल्म का अपभ्रंश है । )

स मुहुराधमति, मुहुरणुत्वमापद्यते, अनियतविपुलाणुवेदनश्च भवति चलत्वाद्वायोः, पिपिलिकासंप्रचार इवाङ्गेषु, तोदस्फुरणायाम-संकोचसुप्तिर्हर्षप्रलयोदयबहुलस्तदातुरश्च सूच्येव शङ्कुनेव चाति-विद्धमात्मानं मन्यते, हृष्यन्ति चास्य रोमाणि वेदनायाः प्रादुर्भावे ।

वातगुल्म के लक्षण—यह वातगुल्म क्षण भर में फैलकर बड़ा होजाता है और क्षण भर में सिकुड़कर छोटा होजाता है, इसकी पीड़ा अनिश्चित, कभी अधिक और कभी कम होजाती है इस का कारण वायु का चंचल स्वभाव है, शरीर के अवयवों में कीड़ियों के चलने की सी प्रतीति होती है, इसमें तोद ( चुभने की सी वेदना ), स्फुरण ( धड़कन ), आयाम ( विस्तार ), संकोच ( सिकुड़ना ), सुप्ति ( स्पर्शज्ञान का अभाव ) हर्ष ( स्पर्शज्ञानका बढ़ना ), प्रलय ( नाश ), उदय ( जन्म ) प्रायः होता है । इस अवस्था में रोगी सूई चुभने या कील आदि से विंधने का सा अनुभव करता है । सन्ध्याकाल में और भोजन के परिपाक काल में रोगी का मुख



सूख जाता है, श्वास घुटने या बन्द होने लगता है, वेदना के समय शरीर रोमाञ्चित होजाता है ।

प्लीहाटोपान्त्रकूजनाविपाकोदावर्ताङ्गमर्दमन्याशिरःशङ्खशूलव्रध्न-  
रोगाश्चैनमुपद्रवन्ति, कृष्णारुणपरुषत्वङ्नखनयनवदनमूत्रपुरीपश्च  
भवति,

प्लीहा, आटोप ( वायु का आध्मान Tympanitis), आंतों में गुड़ गुड़ ध्वनि, अपचन, उदावर्त्त, अंगों का टूटना, मन्याशूल, शिरःशूल शंखशूल, व्रध्न रोग आदि नाना उपद्रव होने लगते हैं । रोगी की त्वचा, नख, मुख, मूत्र और मल का रंग काला या लाल होजाता है, तथा ये कर्कश होजाते हैं ।

निदानोक्तानि चास्य नोपशेरते, विपरीतानि चोपशेरत इति  
वातगुल्मः ॥ ८ ॥

वातगुल्म के कारणानुकूल आहार विहार करने से रोग शान्त नहीं होता, परन्तु रोग के कारण के विपरीत गुण वाले आहार विहार से रोग शान्त हो जाता है । वातगुल्म के ये लक्षण हैं ।

तैरेव तु कर्शनैः कर्शितस्याम्लत्वणकटुकक्षारोष्णतीक्ष्णशुक्ल-  
व्यापन्नमद्यहरितकफलाम्लानां विदाहिनां च शाकधान्वमांसादीना-  
मुपयोगादजीर्णाध्यशनाद्रौक्ष्यानुगते चामाशये वमनविरेचनमतिवेलं  
संधारणं वातातपौ चातिसेवमानस्य पित्तं सह मारुतेन प्रकोपमा-  
पद्यते ॥ ९ ॥

वात के साथ पित्त प्रकोप के कारण—वातगुल्म में कही हुई क्रिया द्वारा कर्शित हुआ पुरुष जब खट्टे, नमकीन, कड़वे, क्षार, उष्ण, तीक्ष्ण, शुक्त, सडे, खराब हुए, मद्य, या हरी सब्जियां और फल खाता या दाह-कारक शाक या मास का सेवन करता है, अजीर्ण या अध्यशन (भोजन के ऊपर फिर भोजन करने) से आमाशय में रूक्षता के उत्पन्न होने से,

वमन, विरेचन के वेगों को बहुत देर तक रोकने से, वायु या धूप के अति सेवन करने से वायु के साथ पित्त भी कुपित होजाता है ।

तत्प्रकुपितं मारुत आमाशयैकदेशे संमूर्च्छय तानेव वेदनाप्रकारानुपजनयति य उक्ता वातगुल्मे, पित्तं त्वेनं विदहति कुक्षौ हृद्युरसि कण्ठे च, स विदह्यमानः सधूममिवोद्गारमुद्गिरत्यम्लान्वितं, गुल्मावकाशश्चास्य दह्यते दूयते धूप्यते उष्णायते स्विद्यति क्लिद्यते शिथिल इव च स्पर्शासहोऽल्परोमाञ्चो भवति । ज्वरभ्रमदवथुपिपासागलवदनतालुशोषप्रमोहविड्भेदाश्चैनमुपद्रवन्ति, हरितहारिद्रत्वड्न्खनयनवदनमूत्रपुरीषश्च भवति । निदानोक्तानि चास्य नोपशेरते, विपरीतानि चोपशेरत इति पित्तगुल्मः ॥ १० ॥

पित्तगुल्म की सम्प्राप्ति—इस प्रकार से कुपित हुआ पित्त और वायु आमाशय के एक प्रदेश में मिलकर वातगुल्म में कहीं हुई वेदनाओं को उत्पन्न करते हैं । पित्तगुल्म में विशेषता यह है कि प्रकुपित पित्त कुक्षि, हृदय, वक्षःस्थल और कण्ठ इन स्थानों में दाह उत्पन्न करता है । इस दाह के कारण धुंए के समान और खट्टा ढकार रोगी को आता है और गुल्म के स्थान में दाह होती है, धूँआ निकलता है, गरमी रहती है, पसीना आता है, क्लिन्नता होती है, शरीर ढीला पड़ा प्रतीत होता है, स्पर्श की असह्यता रहती है और किञ्चित् रोमांच रहता है । ज्वर, भ्रम, दवथु ( धक् धक् स्पन्दन ), पिपासा, गले, मुख और तालु में शुष्कता, मूर्च्छा, मल का पतला आना, ये उपद्रव होजाते हैं ।

१ आमाशय के एक देश में मूर्च्छित होने से पित्तगुल्म और कफगुल्म वस्ति में नहीं होते । क्योंकि नाभि और स्तनों के बीच के स्थान को आमाशय कहते हैं । वातगुल्म वस्ति में भी होता है । इसलिये वातगुल्म में 'महास्रोतस्' शब्द पड़ा है । 'महास्रोतस्' शब्द से वस्ति का भी ग्रहण होजाता है ।

त्वचा, नख, आंख, मूत्र और मल इनका रंग हरा या हल्दी के समान होजाता है। इसके निदान के समान गुण वाली वस्तुओं के उपयोग से रोग बढ़ता है और विपरीत गुण वाली वस्तुओं से कम होता है। यह पित्तगुल्म का वर्णन हुआ।

तैरव तु कर्शनैः कर्षितस्यात्यशनादतिस्निग्धगुरुमधुरशीताशना-  
त्पिष्टेक्षुक्षीरमाषतिलगुडविकृतिसेवनान्मन्दकमद्यातिपानाद्धरितकाति-  
प्रणयनादानूपौदकग्राम्यमांसातिभक्षणात्संधारणादतिसुहितस्यचाति-  
प्रगाढमुदपानात्संचोभणाद्वा शरीरस्य श्लेष्मा सह मारुतेन  
प्रकोपमापद्यते ॥ ११ ॥

वात के साथ कफ-प्रकोप के कारण—वातगुल्म में कहे हुए कारणों से कृश हुए व्यक्ति के अत्यन्त भोजन करने से, अतिस्निग्ध, गुरु, मधुर, शीत पदार्थों के खाने से, पीठी ( उड़द आदि को पीसकर ), ईख, दूध, उड़द, तिल, गुड़ इनसे बने पदार्थों के अति सेवन से, मन्दक दही और मद्य के अति सेवन से, हरे शाक, आनूप या जलचर प्राणियों के अथवा ग्राम्य मांस के अति सेवन से, शरीर को बहुत विशोभित करने से, वायु कफ के साथ मिलकर कुपित होजाता है।

तं प्रकुपितं मारुत आमाशयैकदेशे संमूर्च्छ्य तानेव गाढवेद-  
नाप्रकारानुपजनयति य उक्ता वातगुल्मे। श्लेष्मात्वस्य शीतज्वरारो-  
चकाविपाकाङ्गमर्दहर्षहृद्रोगच्छर्दिनिद्रालस्यस्तैमित्यगौरवशिरोभिता-  
पानुपजनयति, अपि च गुल्मस्य स्थैर्यगौरवकाठिन्यावगाढसुप्रताः,  
तथा कासश्वासप्रतिश्यायान् राजयक्ष्माणं चातिप्रवृद्धः, श्वैत्यं च  
त्वङ्गनखनयनवदगमृज्जपुरीषेपूपजनयति। निदानोक्तानि चास्य नोप-  
शेरते, तद्विपरीतानि चोपशेरत इति श्लेष्मगुल्मः ॥ १२ ॥

कफगुल्म - सम्प्राप्ति—इस प्रकार से कुपित कफ और वायु आमाशय के एक प्रदेश में मिलकर वातगुल्म में कही हुई अनेक प्रकार की तीव्र वेदनाये उत्पन्न करते हैं। प्रकुपित कफ शीतज्वर, अरुचि

अविपाक, अंगों में वेदना, रोमहर्ष, हृदय-रोग, वमन, निद्रा, आलस्य, स्तिमितता, भारीपन, शिर और अंगों में उष्णिमा, ताप उत्पन्न करता है। इस गुल्ममें स्थिरता (हिलने का अभाव), भारीपन, कठिनता, स्पर्शज्ञान का एक दम अभाव, (बधिरता) रहती है। बहुत बढ़ने पर कास, श्वास, प्रतिश्याय और क्षय रोग उत्पन्न करता है। त्वचा, नख, आंख, मुख, मल, मूत्र, उनका रंग श्वेत होजाता है। इसके निदान के समान गुण वाले आहार विहार से रोग बढ़ता है और विपरीत गुण वाली वस्तुओं से कम होता है। यह कफगुल्म का निदान कह दिया है।

त्रिदोषहेतुलिङ्गसन्निपातात्तु सान्निपातिकं गुल्ममुपदिशन्ति कुशलाः । स विप्रतिषिद्धोपक्रमत्वादसाध्यो निचयगुल्मः ॥ १३ ॥

सान्निपातिक गुल्म—जिस गुल्म में तीनों दोषों के हेतु और तीनों दोषों के लक्षण मिले होते हैं। उसको बुद्धिमान् वैद्य 'सान्निपातिक गुल्म' कहते हैं। यह सान्निपातिक गुल्म विरुद्धोपक्रम अर्थात् विकृति, विषम सन्निपात होने से चिकित्सा कर्म में असाध्य है।

शोणितगुल्मस्तु खलु स्त्रिया एव भवति न पुरुषस्य, गर्भकोष्ठार्तवागमनवैशेष्यात् ॥ १४ ॥

पारतन्त्र्यादवैशारद्यात्सततमुपचारानुरोधाद्वेगानुदीर्णानुपरुन्धन्त्या आमगर्भे वाऽप्यचिरात्पतितेऽथवाऽप्यचिरप्रजाताया ऋतौ वा वातप्रकोपणान्यासेवमानायाः क्षिप्रं वातः प्रकोपमापते ॥

रक्तगुल्म—रक्तगुल्म केवल स्त्रियों की ही होता है, पुरुषों में नहीं होता। क्योंकि स्त्रियों में ही गर्भाशय तथा रजोदर्शन होता है। स्त्रियां परवश होने से वेगों को रोकती है, अशिक्षित होने से, पति आदि की सेवा में तत्पर रहने से और मल मूत्रादि

१. सामान्यतः रक्त का दूषित होना और दूसरे गुल्मों में भी मिलता है। इसी प्रकार आगे कहेंगे।

के उपस्थित वेगो को रोकने से, इन कारणों से वा अपक गर्भ के गिर जाने से, या बालक प्रसव करने के पीछे अथवा ऋतुकाल में वात-प्रकोपक वस्तुओं के सेवन करने से वायु शीघ्र ही प्रकुपित होजाता है ।

स प्रकुपितो योनिमुखमनुप्रविश्यार्तवमुपरुणद्धि मासि मासि, तदार्तवमुपरुध्यमानं कुक्षिमभिवर्धयति । तस्याः शूलकासातीसार-च्छर्द्यरोचकाविपाकाङ्गमर्दानिद्रालस्यस्तैमित्यकफप्रसेकाः समुपजायन्ते स्तनयोश्च स्तन्यमोष्ठयोः स्तनमण्डलयोश्च काष्ण्यं, ग्लानिश्चक्षुपो-र्मूर्च्छा हृल्लासो दोहदः, श्वयथुः पादयोरीषच्चोद्गमो रोमराज्याः, योन्याश्चाटालत्वं, अपि च योन्या दौर्गन्ध्यमासावश्चोपजायते, केवलश्चास्या गुल्मः पिण्डित एव स्पन्दतं, तामगर्भा गर्भिणी-मित्याहुर्मूढाः ॥ १५ ॥

रक्तगुल्म की सम्प्राप्ति—यह कुपित वायु योनिमुख में प्रविष्ट होकर आर्तव को रोक देता है । प्रत्येक मास में रुक रुक कर यह आर्तव कोष्ट को बड़ा कर देता है । इससे स्त्री को शूल, कास, अतीसार, वमन, अरुचि, अविपाक, अंगों का टूटना, निद्रा, भालस्य, कफ का (लार का) मुख से आना, स्तनों में दूध का आना \* ओठ एवं स्तनो के चुचुकों का काला होजाना, आंखों में ग्लानि, मूर्च्छा, वमन की अभिरुचि, गर्भ के समान अनेक लक्षण, पांव में सूजन, रोमराजि में विस्फुरण, योनि का फैल जाना, योनि में दुर्गन्ध आना तथा योनि में से स्राव होना इत्यादि

\* आर्तव रोग का यह प्रभाव है कि स्तनों में दूध आजाता है । गर्भावस्था में भी आर्तव के रुकने से स्तनों में दूध आता है । गर्भवती स्त्री में जो रस वनता है, उसके तीन कार्य होते हैं । (१) माता के शरीर का पोषण, (२) स्तनों में दूध, (३) बच्चे का पोषण, इसलिये यह आर्तवभी स्तनों में दूध उत्पन्न कर देता है ।

विकार उत्पन्न होजाते हैं । इस प्रकार गुल्म पेट में हिलता है, अज्ञानी लोग गर्भरहित स्त्री को भी गर्भिणी कहने लगते हैं ।<sup>१</sup>

एषां तु खलु पञ्चानां गुल्मानां प्रागभिनिर्वृत्तेरिमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति । तद्यथा—अनन्नाभिलषणमरोचकाविपाकावग्निवैषम्यं, विदाहो भुक्तस्य विपाककाले चायुक्त्या छद्मद्गारौ, वातमूत्रपुरीषवेगानामप्रादुर्भावः प्रादुर्भूतानां चाप्रवृत्तिरीषदागमनं वा, वातशूलाटोपान्त्रकूजनापरिहर्षणातिवृत्तपुरीषताऽबुभुक्षा, दौर्बल्यं, सौहित्यस्य चासहत्वमिति गुल्मपूर्वरूपाणि भवन्ति ॥ १६ ॥

गुल्म का पूर्वरूप—इन पांचों प्रकार के गुल्मों की उत्पत्ति से पूर्व निम्नलिखित लक्षण होते हैं । यथा अन्न में अनिच्छा, अरुचि, अविपाक, अग्नि की विषमता ( कभी तेज़ और कभी मन्द ), विदाह ( जलन ), भोजन के पचने के समय जलन, बिना कारण के वमन और ढकार आना, अधोवायु, मूत्र व मलों की अप्रवृत्ति अथवा प्रवाहण की प्रवृत्ति होने पर भी मलादि का बाहर न निकलना, अथवा थोड़ा आना, वातशूल, पेट में गुड़ गुड़ाहट, आंतों में अफ़ारा, शरीर में रोमांच, गांठदार मल का आना, भूख का लगना, कृशता, पेट भर अन्न खाने पर उसका सहन न होना, इत्यादि लक्षण सब प्रकार के गुल्मों के पूर्वरूप हैं ।

सर्वेष्वपि च खल्वेतेषु न कश्चिद्वातादृते संभवति गुल्मः ॥ १७ ॥

इन सब प्रकार के गुल्मों का मूलभूत कारण वायु ही है, वायु के बिना कोई भी गुल्म नहीं होता ।

तेषां सन्निपातजमसाध्यं ज्ञात्वा नोपक्रमेत । एकदोषजे तु यथास्वमारम्भं प्रणयेत् । संसृष्टांस्तु साधारणेन कर्मणोपचरेत् । यच्चान्य-

१. जो स्त्रियां बच्चों के लिये बहुत लालायित रहती हैं उनमें भी ऋतु धर्म के रुक जाने पर ये लक्षण दीखने लगते हैं । इस अवस्था में यदि क्लोरोफार्म सुंघाकर परीक्षा करें तो सिवाय वायु के और कुछ उपलब्ध नहीं होता ।

दृष्यविरुद्धं मन्येत तद्वचारयेद्विभज्य गुरुलाघवमुपद्रवाणां  
समीक्ष्य, गुरुत्तुपद्रवांस्त्वरमाणश्चिकित्सेज्जघन्यमितरान्, त्वरमा-  
णस्तु विशेषमनुपलभ्य गुल्मेष्वात्ययिके कर्मणि वातचिकित्सितं  
प्रणयेत्, स्नेहस्वेदौ वातहरौ, स्नेहोपसंहितं च मृदुविरेचनं, वस्तीश्चा  
म्ललवणमधुरांश्च रसान् युक्तितोऽवचारयेत् । मारुते ह्युपशान्ते  
स्वरूपेनापि प्रयत्नेन शक्योऽन्योपि दोषो नियन्तुं गुल्मेष्विति ॥ १८ ॥

इनमें सन्निपातजन्य गुल्म को असाध्य समझकर चिकित्सा में हाथ  
नहीं डालना चाहिये । एक दोष से उत्पन्न गुल्म की यथायोग्य रीति से  
चिकित्सा करनी चाहिये । दो दोष वाले गुल्मों की चिकित्सा साधारण  
प्रकार से करनी चाहिये । अथवा वैद्य रोगी की गुरुता लघुता को देखकर,  
दूसरे किसी से चिकित्सा विरुद्ध न पड़े, इस प्रकार से चिकित्सा आरम्भ  
करनी चाहिये । जो उपद्रव गुरु हों, उनकी तत्काल चिकित्सा करनी  
चाहिये और जो उपद्रव कम हों, उन की पीछे से चिकित्सा करनी  
चाहिये । जिस गुल्म में कुछ पता न चलता हो या काम ज़रूरी या  
जल्दी करना हो तो प्रथम वायु की चिकित्सा करनी चाहिये । इसके  
वायु को शान्त करने के लिये स्नेहन, मृदु विरेचन, वस्तिकर्म, खटा,  
नमकीन और मधुर रस युक्तिपूर्वक देने चाहिये । वायु शान्त होजाने  
पर थोड़े से परिश्रम से दूसरे दोष भी सुगमता से वश में किये  
जा सकते हैं ।

भवति चात्र ।

गुल्मिनामनिलशान्तिरूपायैः सर्वशो विधिवदाचरितव्या ।

मारुते ह्यवजितेऽन्यमुदीर्णा दोषमल्पमपि कर्म निहन्यात् ॥ १९ ॥

गुल्मरोग—में वायु को शान्त करने के लिये सम्पूर्ण विधि  
काम में लानी चाहिये । क्योंकि वायु को शान्त न करने पर दूसरा  
थोडा सा बढा हुआ दोष भी सम्पूर्ण किये कराये पर पानी फेर देता है ।  
तत्र श्लोकाः । संख्या निमित्तं रूपाणि पूर्वरूपमथापि च ।

दृष्टं निदाने गुल्मानामेकदेशश्च कर्मणाम् ॥ २० ॥

इस गुल्म निदान मे गुल्मों की संख्या, कारण, पूर्वरूप और चिकित्सा कह दी है ।

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने गुल्मनिदानं  
नामतृतीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ ३ ॥

## चतुर्थोऽध्यायः

अथातः प्रमेहनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

इसके आगे प्रमेह-निदान का वर्णन करेगे ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

त्रिदोषकोपनिमित्ता विंशतिः प्रमेहा भवन्ति, विकाराश्चापरे-  
ऽपरिसंख्येयाः । तत्र यथा त्रिदोषप्रकोपः प्रमेहानभिनिर्वर्तयति  
तथाऽनुव्याख्यास्यामः ॥ ३ ॥

प्रमेहों की संख्या—वात आदि दोषों से उत्पन्न होने वाले प्रमेह  
बीस प्रकार के हैं, इनके सिवाय अन्य जो प्रमेह हैं वे असंख्य हैं । त्रिदोष  
के कोप से प्रमेह किस प्रकार उत्पन्न होते हैं इसका आगे वर्णन करते हैं ।

इह खलु निदानदोषदूष्यविशेषेभ्यो विकारविघातभावाभाव-  
प्रतिविशेषा भवन्ति ॥ ४ ॥

निदान, दोष और दूष्य इनके विशेष भेदों को लेकर रोगों के  
विघात अर्थात् रोग का देर में होना, थोड़ा या अधिक विकार होना आदि  
भाव विशेष उत्पन्न होते हैं । इस सूत्रात्मक सिद्धान्त को विस्तार से  
कहते हैं—

यदा ह्येते त्रयो निदानादिविशेषाः परस्परं नानुबध्नन्ति, अथवा वा  
कालप्रकर्षाद्बलीयांसो वाऽनुबध्नन्ति न तदा विकाराभिनिर्वृत्तिः,  
चिराद्वाऽप्यभिनिर्वर्तन्ते, तन्वो वा भवन्त्यथवाऽप्ययथोक्तसर्वलिङ्गाः ।



विपर्यये विपरीताः; इति सर्वविकारविघातभावाभावप्रतिविशेषाभि-  
निर्वृत्तिहेतुर्भवत्युक्तः ॥ ५ ॥

रोगों के विघात भाव-अभाव—जब निदान दोष और दूष्य परस्पर विरोधि भाव से नहीं, बल्कि अनुकूल रूप में या अयोग्य, सूक्ष्म या निर्बल भाव से मिलते हैं, तब रोग उत्पन्न नहीं होता, यदि उत्पन्न भी होता है तो देर में उत्पन्न होता है या निर्बल रूप में या असम्पूर्ण लक्षणों के साथ उत्पन्न होता है। परन्तु जब निदान, दोष और दूष्य विपरीत रूप में मिलते हैं, तब शीघ्र, बलवान् एवं सम्पूर्ण लक्षणों से युक्त रोग उत्पन्न होता है। इस प्रकार से सब रोगों की उत्पत्ति में विघात, भाव-अभाव कारण बनते हैं।

तत्रेमे त्रयो निदानादिविशेषाः श्लेष्मनिमित्तानां प्रमेहाणामाश्व-  
भिनिर्वृत्तिकरा भवन्ति। तद्यथा—हायनकयवकचीनकोदालकनैषधे-  
त्कटमुकुन्दकमहाव्रीहिप्रमोदकसुगन्धकाना नवानामतिवेलमतिप्रमा-  
णेनोपयोगः, तथा सर्पिष्मता नवहरेणुमापसृष्ट्यानां ग्राम्या-  
नूपौदकाना च मांसानां शाकतिलपल्लपिष्टान्नपायसकृशरविलेपी-  
क्षुविकाराणा चीरमन्दकदधिद्रवमधुरतरुणप्रायाणामुपयोगो, मृजा-  
व्यायामवर्जन, स्वप्रशयनासनप्रसङ्गो यश्च कश्चिद्विधिरन्योऽपि श्लेष्म-  
मेदोमूत्रसंजननः, स सर्वो निदानविशेषः ॥ ६ ॥

कफप्रमेह के कारण—निम्न-उक्त कारणों से कफजन्य प्रमेह मुख्यतः उत्पन्न होता है। यथा हायनक (धान्य विशेष), यवक (जौ), चीनक, उदालक, नैषध, इत्कट, मुत्कन्दक महाव्रीही, प्रमोदक, सुगन्धिक इत्यादि जाति के चावलों को अति मात्रा में वा नूतन चावलों का उपयोग करने से, इसी प्रकार अधिक धीके साथ हरेणु (मटर), उड़द की टाल, ग्राम्य या आनूप अथवा जलचर प्राणियों का मांस अधिक खाने से, भाजी, तिल, मास, पिष्टी से बने पदार्थ खीर, खिचड़ी, विलेपी (गाढ़ी कांजी) मात्र के रस से बनी वस्तुओं के अति उपयोग करने से, दूध, दही, आधा

पानी दूध में डालकर जमाई दही ( मन्दक ), द्रव, मधुर पदार्थ या नवीन धान्यों के अति उपयोग करने से, अंगों को परिचालन न करने से, सोने, लेटे या बैठे रहने से, अथवा कफ, मेद व मूत्र को बढ़ाने वाला कारण होता है । यह सब प्रकार के प्रमेहों के विशेष कारण हैं ।

बहुद्रवः श्लेष्मा दोषविशेषः ॥ ७ ॥

बह्वद्रं मेदोमांसं शरीरजक्लेदः शुक्रं शोणितं च वसा मज्जा लसीका रसश्चोजःसंख्यात इति दूष्यविशेषाः ॥ ८ ॥

कफप्रमेह के दूष्य — बहुत तरल ( द्रव ) कफ इसमें दोष होता है, बहुत अवद्र असंहत अर्थात् ढीला शिथिल मेद और मांस शरीरजन्य क्लेद, शुक्र, शोणित, वसा, मज्जा, लसीका, रस और ओज ये दूष्य विशेष हैं अर्थात् इनमें ही दोष अपना बुरा प्रभाव उत्पन्न करता है ।<sup>१</sup>

त्रयाणामेषां निदानादिविशेषाणां सन्निपाते क्षिप्रं श्लेष्मा प्रकोपमापद्यते प्रागतिभूयस्त्वात्, स प्रकुपितः क्षिप्रमेव शरीरे विस्तृप्ति लभते, शरीरशैथिल्यात्स विसर्पञ्छरीरे मेदसैवादितो मिश्रीभावं गच्छति, मेदसश्चैव बह्वद्रत्वान्मेदसश्च गुणानांगुणैः समानगुणभूयिष्ठत्वात्स मेदसा मिश्रीभावं गच्छन् दूषयत्येनद्विकृतत्वात्, स विकृतो दुष्टेन मेदसोपहितः शरीरक्लेदमांसाभ्यां संसर्गं गच्छति, क्लेदमांसयोरतिप्रमाणाभिवृद्धत्वात् स मांसे मांसप्रदोषात्पूतिमांसपिडकाः शराविकाकच्छपिकाद्याः संजनयति, अप्रकृतिभूतत्वात्, शरीरक्लेदं पुन-

१ प्रमेह में सब से प्रथम कफ का ही बिगाड़ होता है । इसलिये यह तो दोष है, और सप्तधातु, रस, रक्त, मांस आदि ये इससे दूषित होते हैं, इसलिये ये दूष्य हैं । इस अवस्था में जिस अपर ओज का परिमाण आधा अञ्जलि कहा है, वह ओज भाग विकृत होता है । क्लेद रक्त का तरल भाग ( Serum ) है जिसके दूषित होने से मधुमेह रोगी के व्रण शीघ्र अच्छे नहीं होते । वसा शरीर में त्वचा के नीचे रहने वाला पतला श्वेत, चिकना पदार्थ है जो शरीर की रक्षा करता है । ये सब दूष्य हैं ।

दूषयमन्मूत्रत्वेन परिणमयति । मूत्रवहानां च स्रोतसां वङ्क्षणावस्ति-  
प्रभवाणां मेदक्लेदोपहितानि गुरूणि मुखान्यासाद्य प्रतिरुध्यते;  
ततस्तेषा स्थैर्यमसाध्यता वा जनयति, प्रकृतिविकृतिभूतत्वात् ॥ ९ ॥

कफप्रमेह की सम्प्राप्ति—निदान, दोष और दूष्य इन तीनों के मिलने से कफ शीघ्र कुपित होजाता है । क्योंकि उत्पत्ति काल में कफ अधिक बढ़ा होता है । इस प्रकार से कुपित कफ जल्दी ही शरीर में फैल जाता है । शरीर के शिथिल होने से यह फैलता हुआ कफ सबसे प्रथम शरीर में मेद के साथ मिलता है । क्योंकि मेद बहुत अवद्द अर्थात् शिथिल रूप में होता है । तथा मेद के गुणों के समान गुण ही कफ के हैं और शरीर में मेद का परिमाण भी बहुत है । मेद के साथ मिलकर कफ अपने आप दूषित होने से इस को भी दूषित बना देता है । यह विकृत कफ दुष्ट मेद के साथ मिलकर शरीर के क्लेद भाग और मांस के साथ मिल जाते हैं । शरीर में क्लेद और मांस बहुत मात्रा में बढ़े होते हैं । यह मांस को दूषित करके मांस के दूषित होने से मांस में उत्पन्न होने वाली पिडकाये, शराविका, कच्छपिका आदि को उत्पन्न करता है । क्योंकि कफ अपनी प्रकृति में नहीं रहता, इसलिये अपनी शक्ति से इनको उत्पन्न करता है । शरीर के क्लेद को दूषित करके मूत्र रूप में बदल देता है । वंक्षण सन्धि तथा वस्ति से उत्पन्न होने वाले मूत्रवह चोतों के मुख में मेद और क्लेद के भारी होने से बन्द होजाते हैं । इसलिये कफ का कार्य बन्द होजाता है, अर्थात् स्थैर्य या बहुत बढ़कर असाध्यता आजाती है ।

शरीरक्लेदस्तु श्लेष्ममेदोमिश्र प्रविशन्मूत्राशय मूत्रत्वमापद्य-  
मानः श्लैष्मिकैरेभिर्दशभिर्गुणैरुपसृज्यते वैषम्ययुक्तैः । तद्यथा—  
श्वेतशीतमूर्तपिच्छिलाच्छस्त्रिगधगुरुप्रसादमधुरसान्द्रमन्दैः; अत्र येन  
गुणेनैकेनानेकेन वा भूयस्तरमुपसृज्यते तत्समाख्यं गौणं नाम-  
विशेषं प्राप्नोति ॥ १० ॥

विकृत कफ के दश गुण—शरीर की आर्द्रता कफ और मेद से मिलकर मूत्राशय में प्रवेश करती है। वहाँ पर मूत्ररूप होकर कफ की विषमता से युक्त दस गुणों के साथ मिल जाती है। कफ के दस गुण श्वेत, शीतल, मूर्त्त, पिच्छिल, स्निग्ध, गुरु, प्रसाद, मधुर, सान्द्र और मन्द इनमें से एक गुण की या अनेक गुणों की प्रधानता होने से, उसी के अनुसार सामान्य या विशेष नाम मिलता है।

ते तु खल्विमे दश प्रमेहा नामविशेषेण भवन्ति । तद्यथा—  
उदकमेहश्चेक्षुवालि कारसमेहश्च, सान्द्रमेहश्च, सान्द्रप्रसादमेहश्च,  
शुक्लमेहश्च, शुक्रमेहश्च, शीतमेहश्च, सिकतामेहश्च, शनैर्मेहश्चालालमेहश्चेति ॥ ११ ॥

ते दश प्रमेहाः साध्याः, समानगुणमेदःस्थानत्वात्कफस्य प्राधान्यात्समक्रियत्वाच्च ॥ १२ ॥

कफजन्य दस प्रमेह—इस प्रकार से कफजन्य प्रमेह दस प्रकार के हैं। इनके नाम (१) उदकमेह (२) ईक्षुवालि कारसमेह (३) सान्द्र-मेह (४) सान्द्र-प्रसादमेह (५) शुक्लमेह, (६), शुक्रमेह, (७) शीत-मेह (८) सिकतामेह (९) शनैर्मेह और (१०) आलालमेह।

ये कफजन्य दस प्रमेह साध्य हैं। क्योंकि कफ और मेद के गुण एवं स्थान समान हैं, तथा कफ की प्रधानता होने से और कफ और मेद की चिकित्सा समान है, इन सब कारणों से कफ-प्रमेह साध्य है। ❀

तत्र श्लोकाः श्लेष्मप्रमेहविज्ञानार्था भवन्ति ।

कफप्रमेहों को बताने के लिये श्लोक कहते हैं—

अच्छं बहुसितं शीतं निर्गन्धमुदकोपमम् ।

श्लेष्मकोपात्रो मूत्रमुदमेही प्रमेहति ॥ १३ ॥

अत्यर्थमधुरं शीतमीषत्पिच्छिलमाविलम् ।

❀ मूत्रमार्ग से शुक्र मूत्र से पृथक् रूप में जाना यह शुक्रदोष है, इसका प्रमेह में अन्तर्भाव नहीं होता।

काण्डेश्वरसमंकाश श्लेष्मकोपात्प्रमेहति ॥ १४ ॥  
 यस्य पर्युषितं मूत्रं सान्द्रीभवति भाजने ।  
 पुरुषं कफकोपेन तमाहुः सान्द्रमेहिनम् ॥ १५ ॥  
 यस्य संहन्यते मूत्रं किञ्चित् किञ्चित्प्रसीदति ।  
 सान्द्रप्रसादमेहीति तमाहुः श्लेष्मकोपतः ॥ १६ ॥  
 शुक्लं पिष्टनिभं मूत्रमभीक्ष्णं यः प्रमेहति ।  
 पुरुषं कफकोपेन तमाहुः शुक्लमेहिनम् ॥ १७ ॥  
 शुक्राभं शुक्रमिश्रं वा मुहुर्मेहति यो नरः ।  
 शुक्रमेहिनमाहुस्तं पुरुषं श्लेष्मकोपत ॥ १८ ॥  
 अत्यर्थशीतमधुरं मूत्रं मेहति यो भृशम् ।  
 शीतमेहिनमाहुस्तं पुरुषं श्लेष्मकोपतः ॥ १९ ॥  
 मूर्तान्मूत्रगतान्दोषानणून्मेहति यो नरः ।  
 भिकतामेहिनं विद्यान्नरं तं श्लेष्मकोपतः ॥ २० ॥  
 मन्दं मन्दमवेगं तु कृच्छ्रं यो मूत्रयेच्छनैः ।  
 शनैर्मेहिनमाहुस्तं पुरुषं श्लेष्मकोपत ॥ २१ ॥  
 तन्तुबद्धमिवालालं पिच्छिलं यः प्रमेहति ।  
 आलालमेहिनं विद्यान्नरं श्लेष्मकोपत ॥ २२ ॥

(१) उदकमेह—उदकमेह का रोगी कफ के प्रकोप के कारण बहुत स्वच्छ, बहुत सफेद, शीतल, विना गन्ध का, पानी के समान मूत्र करता है यह उदकमेह के लक्षण हैं ।

(२) ईक्षुवालिका रसमेह—कफ के प्रकोप से अतिशय सधुर, शीतल, थोडा चिकास वाला, मैला, भस्वच्छ, गन्ध के रस के सनान मूत्र करता है । वह 'ईक्षुमेह' का रोगी है ।

(३) सान्द्रमेह—पहिले दिन का वरतन में रखा हुआ जिसका मूत्र, कफ के कारण दूसरे दिन गाढ़ा हो जाता है, उसको 'सान्द्रमेह' का रोगी मझना चाहिये ।

(४) सान्द्र-प्रसादमेह—कफ प्रकोप के कारण मूत्र ऊपर जम जाये और नीचे थोड़ा थोड़ा पतला रहे तो 'सान्द्रप्रसाद मेह' का रोगी समझना चाहिये ।

(५) शुक्लमेह—कफ प्रकोप के कारण जो मनुष्य श्वेत, मिट्टी के धोवन के समान मूत्र बार बार करता है उसको 'शुक्लमेह' का रोगी समझना चाहिये ।

(६) शुक्रमेह—कफप्रकोप के कारण जो मनुष्य शुक्र के समान, या शुक्र से मिला, मूत्र बार २ करता है उसको 'शुक्रमेह' का रोगी समझना चाहिये ।

(७) शीतमेह—जो मनुष्य कफप्रकोप से अत्यन्त शीतल, मीठा-मूत्र अधिक करके करता है, उसको 'शीतमेह' का रोगी जानना चाहिये ।

(८) सिकतामेह—कफप्रकोप से जब मनुष्य के मूत्र में सूक्ष्म, बालू के के समान छोटे २ कठिन कण जाने लगते हैं, तब उसे 'सिकता-मेह' का रोगी समझना चाहिये ।

(९) शनैर्मेह—जब मनुष्य कफ के प्रकोप से धीरे धीरे, बिना वेग के, कठिनाई से, मूत्र करता हो तब इसको 'शनैर्मेह' का रोगी समझना चाहिये ।

(१०) आलालमेह—जो मनुष्य कफ के प्रकोप से तारवाला या लार के समान चिकना मूत्र करता है तो इसको 'आलालमेह' का रोगी समझना चाहिये ।

इस प्रकार से कफ के प्रकोप से उत्पन्न होने वाले दस प्रकार के प्रमेहों का वर्णन कर दिया है ।

इत्येते दश प्रमेहाः श्लेष्मप्रकोपनिमित्ता व्याख्याता भवन्ति ॥  
 उष्णाम्ललवणक्षारकटुकाजीर्णभोजनोपसेविनस्तथाऽतितीक्ष्णा-  
 तपाग्निसंतापश्रमक्रोधविषमाहारोपसेविनश्च तथात्मकशरीरस्यैव क्षिप्रं  
 पित्तं प्रकोपमापद्यते ॥ २३ ॥

तत्प्रकुपितं तयैवानुपूर्व्या प्रमेहानिमान् षट् क्षिप्रमभिनिवर्त-  
यति ॥ २४ ॥

तेषामपि च पित्तगुणविशेषेण नामविशेषा पूर्ववद्युक्ता भवन्ति ।  
तद्यथा—क्षारमेहश्च, कालमेहश्च, नीलमेहश्च, लोहितमेहश्च, मंजिष्ठा-  
मेहश्च, (हारिद्रमेहश्चेति) । ते षड्भिरेतै चाराम्ललवणकटुकविश्लोष्यैः  
पित्तगुणैः पूर्ववत्समन्विता भवन्ति । सर्व एव च ते याप्याः, ससृष्ट-  
दोषमेदःस्थानत्वाद्विरुद्धोपक्रमत्वाच्चेति ॥ २५ ॥

पित्तप्रमेह के कारण और सम्प्राप्ति—उष्ण, अम्ल, लवण, क्षार,  
वा कटु पदार्थों के अति सेवन करने से, अजीर्णावस्था में भोजन करने से,  
अति तीव्र धूप, अग्नि, सन्ताप, श्रम, क्रोध वा विषम भोजन के सेवन से,  
पित्त प्रकृति वाले पुरुष में पित्त शीघ्रता से प्रकुपित हो जाता है ।

यह प्रकुपित पित्त, पूर्व वर्णित प्रकार से ही छ' प्रकार के प्रमेह  
उत्पन्न करता है ।

पित्तजन्य प्रमेह—छ. प्रकार के प्रमेह भी, कफप्रमेह के समान ही  
पित्त के गुण के अनुसार भिन्न २ नाम वाले होते हैं । जैसे—(१) क्षारमेह,  
(२) कालमेह, (३) नीलमेह, (४) लोहितमेह, (५) मंजिष्ठामेह और  
(६) हारिद्रमेह । ये छ. प्रकार के प्रमेह पूर्ववत् क्षार, लवण, कटु, अम्ल, विस्त्र  
(दुर्गन्ध) और उष्ण इन पित्त के गुणों से युक्त होते हैं । ये पित्तजन्य  
प्रमेह सब के सब याप्य है । क्योंकि पित्त और मेद इनका स्थान समीप,  
एव धर्म परस्पर विरुद्ध हैं, एवं चिकित्सा भी परस्पर विरोधी है ।\*

\* पित्त का स्थान आमाशय, और मेद का वसावहुल स्थान आमा-  
शय का एक प्रदेश है । इसलिये दोष एवं दूष्य के नित्यप्रति पास में  
रहने से याप्य है । पित्त को शान्त करने वाले जो मधुर, शीत आदि  
पदार्थ हैं, वे मेद के लिये अपथ्य है और जो मेद के लिये कटु रस आदि  
वस्तु पथ्य हैं, वे पित्त के लिये अपथ्य है । इसलिये चिकित्सा परस्पर  
विरोधी पड जाती है ।

तत्र श्लोकाः पित्तप्रमेहविशेषविज्ञानार्था भवन्ति —

पित्तप्रमेह को बताने के लिये ये निम्न लिखित श्लोक कहे हैं—

गन्धवर्णरसस्पर्शैर्यथा क्षारस्तथात्माकम् ।

पित्तकोपात्ररो मूत्रं क्षारमेही प्रमेहति ॥ २६ ॥

मसीवर्णमजस्रं यो मूत्रमुष्णं प्रमेहति ।

पित्तस्य परिकोपेण तं विद्यात्कालमेहिनम् ॥ २७ ॥

चाषपक्षनिभं मूत्रं मन्दंमेहति यो नरः ।

पित्तस्य परिकोपेण तं विद्यात्रीलमेहिनम् ॥ २८ ॥

विस्रं लवणमुष्णं च रक्तं मेहति यो नरः ।

पित्तस्य परिकोपेण तं विद्याद्रक्तमेहिनम् ॥ २९ ॥

मञ्जिष्टारूपि योऽजस्रं भृशं विस्रं प्रमेहति ।

पित्तस्य परिकोपात्तं विद्यान्माञ्जिष्टमेहिनम् ॥ ३० ॥

हरिद्रोदकसंकाशं कटुक यः प्रमेहति ।

पित्तस्य परिकोपात्तु विद्याद्धारिद्रमेहिनम् ॥ ३१ ॥

इत्येते षट् प्रमेहाः पित्तप्रकोपनिमित्ता व्याख्याता भवन्ति ॥३२

(१) क्षारमेह—जो मनुष्य पित्तप्रकोप के कारण क्षार के समान गन्ध, वर्ण, रस और स्पर्श वाला मूत्र करता है वह क्षारमेह का रोगी होता है ।

( २ ) कालमेह—जो मनुष्य पित्तप्रकोप के कारण स्याही के समान काला, एवं गरम मूत्र बार-बार करता हो उसको कालमेह का रोगी जानना चाहिये ।

(३) नीलमेह—जो मनुष्य पित्त प्रकोप के कारण चाष (नीलकण्ठ) पक्षी के पंख के समान नीले रंग का एवं अम्ल मूत्र त्याग करता है, उसे 'नीलमेह' का रोगी समझना चाहिये ।

( ४ ) रक्तमेह—जो मनुष्य पित्त प्रकोप के कारण दुर्गन्धयुक्त, नमकीन, गरम एवं लाल रंग का मूत्र त्याग करता है, उसको रक्तमेह का रोगी समझना चाहिये ।



वातप्रमेहों को विशेष रूप से कहने के लिये ये निम्नलिखित श्लोक हैं—

वसामिश्रं वसाभं च मुहुर्मेहति यो नरः ।

वसामेहिनमाहुस्तमसाध्यं वातकोपतः ॥ ३५ ॥

मज्जानं सह मूत्रेण मुहुर्मेहति यो नरः ।

मज्जमेहिनमाहुस्तमसाध्यं वातकोपतः ॥ ३६ ॥

हस्ती मत्त इवाजस्र मूत्रं चरति यो भृशम् ।

हस्तिमेहिनमाहुस्तमसाध्यं वातकोपतः ॥ ३७ ॥

कपायमधुरं पाण्डुं रूक्षं मेहति यो नरः ।

वातकोपादसाध्यं तं प्रतीयान्मधुमेहिनम् ॥ ३८ ॥

इत्येते चत्वारः प्रमेहा वातप्रकोपनिमित्ताः व्याख्याता भवन्ति ॥ ३९ ॥

( १ ) वसामेह—जो मनुष्य वात के प्रकोप के कारण वसामिश्रित या वसा के समान रंग वाला मूत्र बार बार करता है, उसको वसामेह का रोगी जानना चाहिये, यह रोग असाध्य है ।

( २ ) मज्जमेह—जो मनुष्य वायु के प्रकोप से मज्जा से युक्त मूत्र बारबार त्याग करता हो, उसको मज्जमेह का रोगी जानना चाहिये । यह भी रोग असाध्य है ।

( ३ ) हस्तिमेह—जो मनुष्य वायु के प्रकोप से मस्त हाथी की भाँति एक समान मूत्र, निरन्तर और बहुत अधिक करता है, उसको हस्तिमेह का रोगी कहते हैं, यह भी असाध्य है ।

( ४ ) मधुमेह—जो मनुष्य वायु के प्रकोप से कपाय, मधुर, गण्डुवर्ण और रूक्ष मूत्र त्याग करता है उसको मधुमेह का रोगी जानना चाहिये । यह भी असाध्य है । ये चार प्रमेह वायु के प्रकोप के कारण होते हैं । इस प्रकार से तीनों दोषों से उत्पन्न होने वाले सम्पूर्ण बीस प्रकार के प्रमेहों का वर्णन कर दिया है ।

त एवं त्रिदोषप्रकोपनिमित्ता विशतिः प्रमेहा व्याख्याता भवन्ति ॥ ४० ॥

त्रयस्तु दोषाः प्रकुपिताः प्रमेहानभिनिर्वर्तयिष्यन्त इमानि पूर्वरूपाणि दर्शयन्ति । तद्यथा—जटिलीभावं केशेषु, माधुर्यमास्ये, करपादयोः सुप्तता दाहं, मुखतालुककण्ठशोषं, पिपासा, आलस्यं, मल च काये, कायच्छिद्रेषूपदेहं, परिदाहं, सुप्ततां चाङ्गेषु, पटपदपिपीलिकाभिश्च शरीरमूत्राभिसरणं, मूत्रे च मूत्रदोषान्, विस्त्रं शरीरगन्धं, तन्द्रां च सर्वकालमिति ॥ ४१ ॥

प्रमेहो का पूर्वरूप—तीनो दोष कुपित होकर प्रमेह रोग को उत्पन्न करते है । उस समय ये पूर्वरूप दिखाई देते है । यथा—बालों का गुंझ जाना, मुख मे मिठास, हाथ-पांव में शून्यता, शरीर में जलन, मुख, तालु और कण्ठ मे शुष्कता, प्यास का लगना, आलस्य, कार्य करने मे अनिच्छा, शरीर में मल का जमना, शरीर के रोम-छिद्रों का बन्द हो जाना, अंगों मे जलन एवं शून्यता, शरीर या मूत्र पर भौरा या चिउंटी का चलना, मूत्र में मूत्र के दोष, शरीर से दुर्गन्ध आना, तथा हर समय आंखों में नीद या तन्द्रा ( भारीपन ) रहता है ।

उपद्रवास्तु खलु प्रमेहिणा—तृष्णातीसारज्वरदाहदौर्बल्यारोचकाविपाकाः पूतिमांसपिडकाअलजीविद्रध्यादयश्च तत्प्रसंगाद्भवन्ति ॥ ४२ ॥

तत्र साध्यान् प्रमेहान् संशोधनोपशमनैर्यथार्हमुपपादयंश्चिकित्सेदिति ॥ ४३ ॥

प्रमेह के उपद्रव—प्रमेह के रोगियों में ये उपद्रव उत्पन्न होते है । यथा—तृष्णा, प्यास, अतिसार, ज्वर, दाह, दुर्बलता, अरुचि, अविपाक, अपचन, मांस मे दुर्गन्धयुक्त पिड्कार्ये, अलजी, विद्रधि आदि ये सब उपद्रव प्रमेह के कारण होते है ।

चिकित्सा—इन सब प्रमेहों में जो प्रमेह साध्य हो, उनकी यथायोग्य रीति से संशोधन या संशमनविधि से चिकित्सा करनी चाहिये ।

भवन्ति चात्र । गृध्रमव्यवहार्येषु स्नानचंकमणद्विषम् ।

प्रमेहः क्षिप्रमभ्येति नीडद्रुममिवाण्डजः ॥ ४४ ॥

मन्दोत्साहमतिस्थूलमतिस्निग्धं महाशनम् ।

मृत्युः प्रमेहरूपेण क्षिप्रमादाय गच्छति ॥ ४५ ॥

यस्त्वाहारं शरीरस्य धातुसाम्यकरं नरः

सेवतं विविधाश्चान्याश्चेष्टाः स सुखमभ्रुते ॥ ४६ ॥

प्रमेह किसको होता है—घोंसले की ओर जिस प्रकार पक्षी जल्दी पहुँच जाता है, उसी प्रकार खाने पीने के लालची, ज्ञान एवं चलने फिरने से द्वेष करने वाले पुरुष को प्रमेह बहुत शीघ्र लग जाता है । मन्द उत्साह वाले, निरुत्साही, अतिस्थूल, अत्यन्त स्निग्ध शरीर वाले एवं बहुत खाने वाले पुरुष को मृत्यु प्रमेह रूप से लेकर चला जाता है । जो मनुष्य शरीर के धातुओं को समान करने वाले आहार तथा अन्य प्रकार की चेष्टाओं ( विहार ) का सेवन करता है, वह सुख भोगता है ।

-तत्र श्लोकाः । हेतुर्व्याधि विशेषाणां प्रमेहाणां च कारणम् ।

दोषधातुसमायोगो रूपं विविधमेव च ॥ ४७ ॥

दश श्लेष्मकृता यस्मात्प्रमेहाः पट् च पित्तजाः ।

यथा करांति वायुश्च प्रमेहांश्चतुरो वली ॥ ४८ ॥

साध्यासाध्यविशेषाश्च पूर्वरूपाण्युपद्रवाः ।

प्रमेहाणां निदानेऽस्मिन् क्रियासूत्रं च भाषितम् ॥ ४९ ॥

इस प्रमेह-अध्याय में हेतु, व्याधि, प्रमेहों के कारण, दोष एवं दूष्य का वर्णन, इनके नाना रूप, दस प्रकार के कफजन्य, छः प्रकार के पित्त-जन्य और चार प्रकार के वातजन्य प्रमेह, उनके साध्य-असाध्य भेद, प्रमेहों के पूर्वरूप, उपद्रव और क्रिया-सूत्र ये सब विषय कह दिये हैं ।

इत्यभिषेकशकृते तन्त्रे चरकप्रतिमस्कृते निदानस्थाने प्रमेह-

निदान नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

## पञ्चमोऽध्यायः

अथातः कुष्ठनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब कुष्ठ का निदान कहते हैं । जैसा कि भगवान् आत्रेय ने उप-  
देश किया है ।

सप्त द्रव्याणि कुष्ठानां प्रकृतिमापन्नानि भवन्ति । तद्यथा—  
त्रयो दोषा वातपित्तश्लेष्माणः प्रकोपणविकृताः । दूष्याश्च शरीर-  
धातवस्त्वङ्मांसशोणितलसीकाश्चतुर्धा दोषोपघातविकृताः; इत्येत-  
त्सप्तानां सप्तधातुकमेवंगतमाजननं कुष्ठानामतःप्रभावाण्यभिनिर्व-  
र्तमानानि केवलं शरीरमुपतपन्ति ॥ ३ ॥

शरीर के अन्दर सात द्रव्य विकृत होकर कुष्ठरोग को उत्पन्न करते हैं ।  
यथा—प्रकोपकारक पदार्थों के संयोग से वात, पित्त और कफ ये तीन  
दोष विकृत होकर, त्वचा, मांस, रक्त और लसीका इन चार दूष्य धातु-  
उपधातुओं को अपने संसर्ग से विकृत करते हैं । इस प्रकार से ये सात  
द्रव्य विकृत होकर कुष्ठ रोग को उत्पन्न करते हैं ।<sup>१</sup> इन सातों धातुओं  
से उत्पन्न कुष्ठ सात धातुओं में अपना प्रभाव प्रकट करता हुआ सम्पूर्ण  
शरीर को पीड़ित करता है ।

न च किञ्चिदस्ति कुष्ठमेकदोषप्रकोपनिमित्तं, अस्ति तु खलु  
समानप्रकृतीनामपि सप्तानां कुष्ठानां दोषांशांशविकल्पस्थानविभा-  
गेन वेदनावर्णसंस्थानप्रभावनामचिकित्सितविशेषः ॥ ४ ॥

१ विसर्प और कुष्ठ रोग में दोष और दूष्य एक समान ही हैं ।  
इस समानता पर भी विसर्प फैलने वाला तथा रक्त का प्रधान दोष  
इसमें रहता है । रक्तमोक्षण-चिकित्सा अकेली और सब चिकित्साओं के  
समान है । रक्तजन्य कुष्ठ में कण्डू, पूय, त्वक्-शून्यता, पसीने का न  
आना होता है जो वीसर्प में नहीं होता ।

कोई भी कुष्ठ एक दोष के प्रकोप से उत्पन्न नहीं होता । सातों प्रकार के कुष्ठों में प्रकृति के समान होने पर दोष, अंश, बल, विकल्प तथा स्थान भेद से, वेदना, रंग, स्थिति, प्रभाव एव नाम से चिकित्सा में भेद आजाता है ।<sup>१</sup>

स सप्तविधोऽष्टादशविधोऽपरिसंख्येयविधो वा भवति । दोषा हि विकल्पनैर्विकल्प्यमाना विकल्पयन्ति विकारान्, अन्यत्रासाध्यभावात्; तेषां विकल्पविकारसंख्यानेऽतिप्रसंगमभिसमीक्ष्य सप्तविधमेव कुष्ठविशेषमुपदेक्ष्यामः ॥ ५ ॥

इस प्रकार से कुष्ठ सात प्रकार का, अठारह प्रकार का अथवा असंख्य प्रकार का हो जाता है ।

कुष्ठ के सात भेद—दोष अनेक प्रकार की विकल्पनाओं के कारण नाना प्रकार से नाना रोग उत्पन्न कर देते हैं । अर्थात् व्याधि, करण और दोष इनके भेद से कार्यरूप व्याधि के भी बहुत से भेद होजाते हैं । इसलिये दोषभेद से उत्पन्न भेदों को असाध्य भेद में नहीं गिना जाता । अतः इन कुष्ठों के भेदों की गणना को बहुत विस्तृत जान कर यहां पर केवल सात प्रकार के कुष्ठों का उपदेश करेंगे ।

इह वातादिषु त्रिषु प्रकुपितेषु त्वगादीश्चतुरः प्रदूषयत्सु वातेऽधिकतरं कापालकुष्ठमभिनिर्वर्तते, पित्ते त्वोदुम्बरं, श्लेष्मणि मण्डलकुष्ठं, वातपित्तयोर्ऋष्यजिह्वं, पित्तश्लेष्मणोः पुण्डरीकं, श्लेष्ममारुतयोः सिध्म, सर्वदोषाभिवृद्धौ काकणकमभिनिर्वर्तते; इत्येवमेष सप्तविधः कुष्ठविशेषो भवति ॥ ६ ॥

स चैप भूयस्तरमतः प्रकृतौ विकल्प्यमानायां भूयसी विकारविकल्पसंख्यामापद्यते ॥ ७ ॥

१ वेदनाविशेष—कापाल तोद्वहुलम् । वर्णविशेष—काकणन्तिका वर्णम् । संस्थान—ऋष्यजिह्वासंस्थानम् । प्रभाव—साध्यताऽसाध्यतादि । नामविशेष—कापालः । ये उदाहरण हैं ।

वातादि दोष के अनुसार कुष्ठ—वात आदि तीनों दोष प्रकुपित होकर जब त्वचा, मांस, रक्त और लसीका इन चारों को दूषित करते हैं, तब कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। इनमें वात की अधिकता से कापाल कुष्ठ, पित्त की अधिकता से औदुम्बर कुष्ठ, कफ की अधिकता से मण्डल कुष्ठ, वात-पित्त की अधिकता से ऋष्यजिह्व कुष्ठ, पित्त-कफ की अधिकता से पुण्डरीक कुष्ठ, कफ-वायु की अधिकता से सिध्म कुष्ठ होता है और सब दोषों की वृद्धि होने से काकणक कुष्ठ उत्पन्न होता है। इस प्रकार से सात कुष्ठ उत्पन्न होते हैं।

यही सात प्रकार के कुष्ठ प्रकृति के तर-तम अर्थात् न्यूनाधिक भेद के कारण नाना प्रकार के कुष्ठों के असंख्य भेद उत्पन्न कर देते हैं।

तत्रेदं सर्वकुष्ठनिदानं समासेनोपदेक्ष्यामः शीतोष्णव्यत्यासमननु-  
 पूव्योपसेवमानस्य तथा संतर्पणापतर्पणाभ्यवहार्यव्यत्यासं च, मधुफा-  
 णितमत्स्यमूलकाकमाचीश्च सततमतिमात्रमप्यजीर्णोऽन्ने समश्रतश्चि-  
 लिचिमं च पयसा, हायनकयवकचीनकोद्दालककोरदूषप्रायाणि चा-  
 न्नानि क्षीरदधितक्रकोलकुलत्थमाषातसीकुसुम्भपरुषस्नेहवन्ति, एतैरे-  
 मात्रं सुहितभक्षितस्य च व्यवायव्यायामसंतापानत्युपसेवमानस्य,  
 वातिभयश्रमसंतापोपहतस्य च सहसा शीतोदकमवतरतो, विदग्धं  
 चाहारजातमनुल्लिख्य विदाहीन्यभ्यवहरतः, छर्दिं च प्रतिघ्नतः, स्नेहां-  
 श्चातिचरतो युगपत्त्रयो दोषाः प्रकोपमापद्यन्ते, त्वगादयश्चत्वारः शैथि-  
 ल्यमापद्यन्ते, तेषु शिथिलेषु त्रयो दोषाः प्रकुपिताः स्थानमभिगम्य  
 संतिष्ठमानास्तानेव त्वगादीन् दूषयन्तः कुष्ठान्यभिनिर्वर्तयन्ति ॥ ८ ॥

कुष्ठ रोग के कारण—अब संक्षेप से सब कुष्ठों का निदान कहते हैं। शीत और उष्ण के परिवर्तन से, शीत और उष्ण के परित्याग से ( अर्थात् उष्ण सेवन करके सहसा शीत सेवन या इसके विपरीत तथा अनुचित काल में शीतोष्ण सेवन से, संतर्पण एवं अपतर्पण दोनों के उलट फेर से, मधु, फाणित ( राब ), मछली, मूली, काकमाची ( मकोय )

इनके निरन्तर या अधिक मात्रा में खाने से, अजीर्ण में भोजन करने से, दूध के साथ चिलचिम मछली के उपयोग से, हायनक, यवक, चीनक, उद्दालक, कोद्रव आदि कुधान्यों के बहुत खाने से, दूध, दही, छाछ, घैर, कुलथी, उड़द, अलसी, धनिया, इनके तेल में तैयार किये पदार्थों के अति सेवन से, मँथुन, व्यायाम और सन्ताप के अतिशय करने से, भय, श्रम और सन्ताप से युक्त होने पर एकदम ठण्डे पानी में उतरने से (ठण्डी वायु के स्पर्श से भी), दाहकारक पदार्थों के वमन होने पर पुनः दाहकारक पदार्थों के खाने से, वमन के वेग को रोकने से, स्निग्ध पदार्थों के अति भोजन से, तीनों दोष एक साथ में कुपित होजाते हैं, तथा त्वचा, रक्त, मांस और लसीका चारों धातु क्षिथिल होजाते हैं। इन क्षिथिल हुए धातुओं में कुपित हुए दोष किसी एक भाग में स्थान पाकर घर घर लेते हैं। वहाँ पर रहकर त्वचा आदि को दूषित बनाकर कुष्ठ रोग उत्पन्न करते हैं।

तेषामिमानि खलु पूर्वरूपाणि । तद्यथा—अस्वेदनमतिस्वेदनं पारुष्यमतिश्लथ्णता वैवर्ण्यं कण्डूर्निस्तोद् । सुप्तता परिदाहः परिहर्षो लोमहर्षः खरत्वमुष्णायनं गौरवं श्रयथुर्विसर्पागमनमभीक्ष्णं कायच्छिद्रेपूपदेहः पक्कदग्धदष्टृक्षतोपस्खलितेष्वतिमात्रं वेदना स्वल्पानामपि च व्रणानां दुष्टिरसंरोहणं चेति कुष्ठपूर्वरूपाणि भवन्ति ॥ ९ ॥

कुष्ठ रोग के पूर्वरूप ये हैं—जैसे पसीने का सर्वथा न आना या बहुत पसीना आना, त्वचा में कर्कशता या कठोरता, अथवा बहुत चिकनापन, रंग परिवर्तन, खाज, सूई चुभने की ती वेदना, स्पर्शज्ञान की शून्यता, जलन, रोमांच, हर्ष, रुक्षता, उष्णता, भारीपन, सूजन, वीसर्प रोग का होना, शरीर के छिद्रों में चार २ लेप सा होना, अवरोध, पकने या जलने या कटने या चोट लगने या गिरने पर बहुत दर्द होना, थोड़े से व्रण का भी संक्रान्त होना या शीघ्र न भरना, ये कुष्ठ के पूर्वरूप हैं।

तेभ्योऽनन्तरं कुष्ठानि जायन्ते । तेषामिदं वेदनावर्णसंस्थान-  
प्रभावनामविशेषविज्ञानं भवति । तद्यथा—रूक्षारुणपरुषाणि विष-  
मविसृत्तानि खरपर्यन्तानि तनून्युद्धत्तबहिस्तनूनि सुप्तसुप्तानि हृषितलो-  
माचितानि निस्तोदबहुलान्यल्पकरडूदाहपूयलसीकान्याशुगतिस-  
मुत्थानान्याशुभेदीनि जन्तुमन्ति कृष्णारुणकपालवर्णानि च कापा-  
लकुष्ठानीति विद्यात् ॥ १० ॥

उनके पीछे कुष्ठ उत्पन्न होते हैं । इसके आगे इनके वेदना, वर्ण,  
संस्थान, प्रभाव, नाम विशेष वर्णन करते हैं ।

कापाल कुष्ठ—रूक्ष, अरुण वर्ण, कर्कश, विषम, फैला, तथा किनारों  
पर खरखर, बाह्य पार्श्व से पतला तथा थोड़ा उभरा हुआ, पतला, फैला,  
सोये हुये के समान सीया, बहरा ( स्पर्शज्ञानशून्य ), रोमांच सहित,  
अतिशय चुभने की वेदना वाले, थोड़ी खाज, दाह, पूय, लसीका युक्त,  
शीघ्रता से उत्पन्न होने वाले, शीघ्र फटने वाले, काले लाल, कपाल वर्ण  
के कीड़ों वाले कुष्ठों को 'कापाल कुष्ठ' कहते हैं ।

ताम्राणि ताम्रखररोमराजीभिरवनद्धानि बहलानि बहुबहल-  
रक्तपूयलसीकानि करडूक्लेदकोथदाहपाकवन्त्याशुगतिसमुत्थानभे-  
दीनि ससंतापकृमीणि पक्कोदुम्बरफलवर्णान्युदुम्बरकुष्ठानीति वि-  
द्यात् ॥ ११ ॥

उदुम्बर कुष्ठ—जो कुष्ठ ताम्ब्रे के समान या ताम्ब्रे के समान रंग  
वाले बालों वाले होते हैं, कर्कश, बहुत-बहुत रक्त-पूय और लसीका से  
युक्त, जिनमें खाज, क्लेद, ( स्राव ) कोथ ( गलना ), दाह एवं पाक हो,  
शीघ्रता से उत्पन्न होने वाले एवं पकने वाले, जिनमें ताप एवं कृमि हों,  
जिनका रंग पके हुए गूलर के समान हो उनको 'उदुम्बर कुष्ठ'  
जानना चाहिये ।

स्निग्धानि गुरूण्युत्सेधवन्ति श्लक्ष्णस्थिरपीनपर्यन्तानि शुक्लरक्ता-  
वभासानि शुक्लोमराजीसंन्तानानि बहुलबहलशुक्लपिच्छिलस्रावाणि



बहुक्लेदकण्डूकृमीणि सक्तगतिसमुत्थानभेदीनि परिमण्डलानि मण्डल-  
कुष्टानीति विद्यात् ॥ १२ ॥

मण्डल कुष्ठ—जो कुष्ठ स्निग्ध, भारी, ऊंचाई वाले, चिकने, स्थिर, किनारों से मोटे, सफेद या लाल रंग के, सफेद बालों ( लोम ) से व्याप्त, जिनमें बहुत, गाढ़ा एवं सफेद तथा चिकना स्राव होता हो, जो बहुत स्राव, खान तथा कृमि से युक्त हों, जिनकी गति बढ़ती और उत्पत्ति धीरे २ होती हो, जिनका आकार चक्र के समान गोलाकार हो, उनको 'मण्डल कुष्ठ' कहते हैं ।

परुषाण्यरुणवर्णानि वहिरन्तःश्यावानि नीलपीतताम्राव-  
भासान्याशुगतिसमुत्थानान्यल्पकण्डूक्लेदकृमीणि दाहभेदनिस्तोद-  
पाकबहुलानि शूकोपहतोपमानवेदनान्युत्सन्नमध्यानि तनुपर्यन्तानि  
कर्कशपिडकाचितानि दीर्घपरिमण्डलानि ऋष्यजिह्वाकृतीनि ऋष्य-  
जिह्वानीति विद्यात् ॥ १३ ॥

ऋष्यजिह्व कुष्ठ—जो कुष्ठ बाहर के पार्श्व में खर्खर तथा लाल रंग के, अन्दर से काले रंग के, जिनमें नीले, पीले, ताम्बे के रंग की झाँई दीखती हो, जो कि शीघ्रता से बढ़ते या उत्पत्ति वाले हों, जिनमें कण्डू, कृमि और क्लेद कम हो, जिनमें दाह, फटना, वेदना तथा पाक बहुत हो, जिनमें शूक ( जल शूक, कृमि ) के लगने के समान पीड़ाएँ हों, बीच से उठे हुए न हों, किनारों से पतले, खर्खर स्पर्श वाली फुन्सियों द्वारा चारों ओर से घिरे हों, बड़े २ चक्के वाले, हरिण की जीभ के समान आकृति वाले कुष्ठों को ऋष्यजिह्व कुष्ठ जानना चाहिये ।

शुक्लरक्तावभासानि रक्तपर्यन्तानि रक्तराजीसंततान्युत्सेधवन्ति  
बहुवहलः कपूयलसीकानि कण्डूकृमिदाहपाकवन्त्याशुगतिसमु-  
त्थानभेदीनि पुरण्डरीकपलाशसंकाशानि पुरण्डरीकाणीति  
विद्यात् ॥ १४ ॥

पुरण्डरीककुष्ठ—सफेद या लाल रंग की चमक वाले, किनारों पर लाल,

लाल रोम ( बालों ) से व्याप्त, त्वचा से ऊपर उठे हुए न हों, गाढ़ी पूय ( पीप ), रक्त एवं लसीका बहुत हो, खाज, कृमि, दाह और पाकयुक्त, जल्दी बढ़ने एवं उत्पन्न होने वाले, शीघ्रभेदी, कमल के पत्तों के समान आकार वाले कुष्ठों को 'पुण्डरीक कुष्ठ' कहते हैं ।

परुषारुणविशीर्णवह्निस्तनून्यन्तःस्निग्धानि बहून्यल्पवेदनान्य-  
ल्पकण्डूदाहपूयलसीकानि लघुसमुत्थानान्यल्पभेदकृमीण्यलाबुपुष्प-  
संकाशानि सिध्मकुष्ठानीति विद्यात् ॥ १५ ॥

सिध्म—जो कुष्ठ बाहर से कठिन, लाल वर्ण, किनारों से कटे फटे, अन्दर से स्निग्ध, जिनमें सफेद या लाल रंग की चमक हो, जो कि बहुत अधिक हों जिनमें पीड़ा कण्डू, दाह, पूय, लसीका कम हो, जिनकी उत्पत्ति धीरे धीरे हो, जो अल्पभेदी हों, जिनमें कृमि थोड़े हों और जिनका रंग दूधिया, घाया कद्दू के फूल के समान हो उनको 'सिध्म कुष्ठ' कहते हैं ।

काकणन्तिकावर्णान्यादौ पश्चात्सर्वकुष्ठलिङ्गसमन्वितानि पापी-  
यसा सर्वकुष्ठलिङ्गसंभवेनानेकवर्णानि काकणकानीति विद्यात्;  
तान्यसाध्यानि साध्यानि पुनरितराणि ॥ १६ ॥

काकणक कुष्ठ—जिन कुष्ठों का रंग प्रथम लाल रत्ती के समान हो और पीछे से जिनमे सम्पूर्ण कुष्ठों के लक्षण उत्पन्न होजाते हैं, उनको 'काकणक कुष्ठ' कहते हैं । ( इनमे अनेक रंग उत्पन्न होजाते है ) ये कुष्ठ पापी मनुष्यों को होते हैं । इनमें सब कुष्ठों के लक्षण होने से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होजाते हैं ।

तत्र यदसाध्यं, तदसाध्यतां नातिवर्तते; साध्यं पुनः किचि-  
त्साध्यतामतिवर्तते कदाचिदपचारात् । साध्यानीह षट् काकणकव-  
र्णान्यचिकित्स्यमानान्यपचारतो वा दोषैरभिष्यन्दमानान्यसाध्य-  
तामुपयान्ति ॥ १७ ॥

साध्य-असाध्य भेद—इन कुष्ठों में से कुछ कुष्ठ असाध्य हैं, और कुछ कुष्ठ साध्य हैं, वे कभी अच्छे नहीं होते । परन्तु जो साध्य हैं, वे

अपचार और मिथ्या आहार-विहार के कारण असाध्य होजाते हैं । काकणक कुण्ड को छोड़कर शेष छः कुण्ड भी चिकित्सा के न करने से अथवा दोषों के बढ़ जाने से असाध्य होजाते हैं ।

साध्यानामपि ह्यपेक्ष्यमाणानामेषां त्वड्मांसशोणितलसीकाकोथक्लेदसंस्वेदजा. कृमयोऽभिमृच्छन्ति । ते भक्षयन्तस्त्वगादीन्, दोषाः पुनर्दूषयन्त इमानुपद्रवान् पृथक्पृथक्गुत्पादयन्ति ।

साध्य कुण्डों में भी उपेक्षा करने से त्वचा, मांस, रक्त, लसीका में सड़ना, स्राव और पसीने से कीड़े उत्पन्न होजाते हैं । ये कृमि त्वचा आदि को खाते हैं, और वात आदि दोष और अधिक दूषित होकर नीचे लिखे उपद्रवों को पृथक् पृथक् रूप में उत्पन्न करते हैं ।

तत्र वातः श्यावारुणावर्णपरुषतामपि च रौक्ष्यशूलशोपतोद्वेषथु-  
व्यथाहर्षसंको वायासस्तम्भसुप्तिभेदभङ्गान्, पित्तं पुनर्दाहस्वेदक्लेदको-  
थकण्डूस्त्रावपाकरागान्, श्लेष्मा त्वस्य श्वैत्यशैत्यस्थैर्यकण्डूगौरवोत्से-  
धोपस्नेहोपलेपान्, कृमयस्त्वगादीश्चतुर. शिरा स्नायूनि मांसान्यस्थी-  
न्यपि च तरुणानि खादन्ति ॥ १८ ॥

अस्यामवस्थायामुपद्रवाः कुष्ठिनं स्पृशन्ति । तद्यथा—प्रस्र-  
वणमङ्गभेदः पतनान्यङ्गावयवाना तृष्णाज्वरातीसारदाहदौर्वल्या-  
रोचकाविपाकाश्च, तद्विधमसाध्य विद्यादिति ॥ १९ ॥

उपद्रव—वायु के कोप के कारण रंग लाल, काला, कर्कशता, रुक्षता, शूल चुभने की सी वेदना, वीधने का सा अनुभव, रोमाच, हर्ष, कम्प, सकोच, श्रम, स्तम्भ, अंग का सों जाना, भेदन या भंग अर्थात् अंगों का टूटना ये उपद्रव होते हैं । पित्त प्रकोप के कारण दाह, पसीना, क्लिन्नता, सड़ना, खाज, स्राव, पकना इत्यादि उपद्रव होते हैं । कफ के प्रकोप के कारण, श्वेत वर्ण, शीतलता, खाज, स्थिरता, भारीपन, उभार, चिकास, बुल बुला सा होना इत्यादि उपद्रव होते हैं ।

इस प्रकार से उत्पन्न कीड़े त्वचा आदि चार धातुओं को तथा शिरा, स्नायु, मांस एवं कोमल अस्थियों ( जैसे नाक की कोमल अस्थि ) को

खाने लगते हैं । इस अवस्था में कुष्ठ रोगी को निम्न-लिखित उपद्रव घेर लेते हैं । यथा—स्त्राव का बहना, अंगों का फटना या टूटना, अंगों का गिरना, तृष्णा, उ्वर, अतिसार, दाह, निर्वलता, अरुचि, अविपाक ये उपद्रव होते हैं । इस अवस्था में रोग असाध्य हो जाता है ।

भवन्ति चात्र । साध्योऽयमिति यः पूर्वं नरो रोगमुपेक्षते ।

स किञ्चित्कालमासाद्य मृत एवावबुध्यते ॥ २० ॥

यस्तु प्रागेव रोगेभ्यो रोगेषु तरुणेषु च ।

भेषजं कुरुते सम्यक् स चिरं सुखमश्नुते ॥ २१ ॥

यथा स्वल्पेन यत्नेन छिद्यते तरुणस्तरुः ।

स एवातिप्रवृद्धस्तु छिद्यतेऽतिप्रयत्नतः ॥ २२ ॥

एवमेव विकारोऽपि तरुणः साध्यते सुखम् ।

विवृद्धः साध्यते कृच्छ्रादसाध्यो वापि जायते ॥ २३ ॥

जो मनुष्य रोग के आरम्भ में 'साध्य' है ऐसा समझ कर उपेक्षा कर देता है, वह थोड़े समय पीछे ही मुर्दा होकर (असाध्यावस्था में आकर) ही चेतता है, और रोग के असाध्य होने पर ही उसकी नींद टूटती है । जो मनुष्य रोग के आक्रमण से पूर्व ही या रोग की नवीन अवस्था में ही औषध उपचार कर लेता है, वह देर तक सुख (जीवन) का उपभोग करता है । जिस प्रकार थोड़े से परिश्रम से ही छोटा वृक्ष काटा जा सकता है, वही वृक्ष बड़ा होने पर बहुत परिश्रम से कटता है, इसी प्रकार नवीन अवस्था में रोग भी सुगमता से अच्छा हो जाता है और यही रोग बढ़ने पर कठिनाई से अच्छा होता है, अथवा असाध्य रूप में बदल जाता है ।

तत्र श्लोकाः । संख्या द्रव्याणि दोषाश्च हेतवः पूर्वलक्षणम् ।

रूपाण्युपद्रवाश्चोक्ताः कुष्ठानां कौष्ठिके पृथक् ॥ २४ ॥

इस कुष्ठ नामक अध्याय में कुष्ठों की संख्या, द्रव्य, हेतु, दोष, पूर्व-रूप, रूप और उपद्रव ये सब विषय पृथक् पृथक् कह दिये हैं ।

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने कुष्ठनिदान

## षष्ठोऽध्यायः ।

अथातः शोषनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब शोष के निदान की व्याख्या करते हैं, ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

इह खलु चत्वारि शोषस्यायतनानि । तद्यथा—साहसं, संधारणं, क्षयो, विषमाशनमिति ॥ ३ ॥

शोष रोग के चार कारण होते हैं जैसे—(१) साहस, (२) सन्धारण (मल मूत्रादि के उपस्थित वेगों को रोकना), (३) क्षय, (४) विषमाशन, (विषम गुणों वाले अन्नों का भोजन करना) ।

तत्र यदुक्तं साहसं शोषस्यायतनमिति तदनुव्याख्यास्यामः—यदा पुरुषो दुर्बलो हि सन् बलव्रता सह विगृह्णाति, अतिमहता वा धनुषा व्यायच्छति, जरुपति वाऽप्यतिमात्रं, अतिमात्रं वा भारमुद्धहति, अप्सु वा प्लवते चातिदूरं, उत्सादनपदाघातने वाऽतिप्रगाढमासेवते, अतिप्रकृष्ट वाऽध्वानं द्रुतमभिपतति, अभिहन्यते वाऽन्यद्वा किञ्चिदेवंविधं विषममतिमात्रं वा व्यायामजातमारभते तस्यातिमात्रेण कर्मणा उरः क्षण्यते ।

साहस शोषरोगका कारण है, यह जो कहा है, इसकी व्याख्या करेंगे—जब कोई दुर्बल पुरुष अपने से बलवान् व्यक्ति के साथ कुश्ती भादि करता है, बहुत बड़े धनुष को तानता है, अथवा बहुत अधिक बोलता है, बहुत अधिक बोझ को उठाता है, पानों में बहुत तैरता है, बहुत ऊंचा लम्बा कूदता है, जोर से भूमि पर पांव पटकता है, या बहुत लम्बे या कठिन रास्ते को बहुत तेज़ी से पार करता है, अथवा ऊंचे नीचे या किसी भारी दुःसह्य कार्य द्वारा चोट खाता है या और कोई ऐसा ही विषम या बहुत अधिक व्यायाम

करता है अथवा आरम्भ किये कार्य को बहुत अधिक करता है इसमे उस की छाती फट पड़ती है ।

तस्योरःक्षतमुपप्लवते वायुः, स तत्रावस्थितः श्लेष्माणुरःस्थमु-  
पसंभृज्य शोषयन् विहरत्यूर्ध्वमधस्तिर्यक् च । योऽशस्तस्य शरीरमंधी-  
नाविशति तेनास्य जम्भाऽङ्गमर्दो ज्वरश्चोपजायते, यस्त्वामाशयम-  
भ्युपैति तेनास्य वर्चो भिद्यते, यस्तु हृदयमाविशति तेन रोगा भव-  
न्त्युरस्याः, यो रसनां तेनास्यारोचकश्च, यः कण्ठं प्रपद्यते, कण्ठ-  
स्तेनोद्ध्वंस्यते स्वरश्चावसीदति, यः प्राणवहानि स्रोतांस्यन्वेति तेन  
श्वासः प्रतिश्यायश्चोपजायते, यः शिरस्यवतिष्ठते शिरस्तेनोपहन्यते ।

इन धारों मे वायु प्रवेश कर जाता है । वायु प्रवेश करके छाती में स्थित कफ के साथ मिलकर इसको सुखाकर ऊपर, नीचे या तिर्यक् दशा में स्वयं गमन करने लगता है । इस वायु का जो अंश शरीर की सन्धियों में जाता है, उससे जम्भाई, अंगों का टूटना और ज्वर उत्पन्न हो जाता है और जो अंश आमाशय में पहुंचता है उससे मल पतला आता है, जो भाग हृदय मे पहुंचता है उससे हृदय ( छाती ) में अन्य रोग होते हैं । जो जीभ में पहुंचता है उससे अरुचि, जो भाग कण्ठ में पहुंचता है, उस से कण्ठ नष्ट होता तथा स्वर भंग हो जाता है, जो भाग प्राणवह स्रोतों में पहुंचता है उससे श्वास और प्रतिश्याय उत्पन्न होता है और जो भाग शिर में पहुंचता है उससे शिरोरोग होता है ।

ततः क्षणान्चैवोरसो विषमगतित्वाच्च वायोः कण्ठस्य चोद्ध्वं-  
सनात्कासः सततमस्य संजायते, स कासप्रसंगादुरसि क्षते शोणितं  
ष्ठीवति, शोणितागमाच्चस्य दौर्गन्ध्यमुपजायते; एवमेते साहसप्र-  
भवाः साहसिकमुपद्रवाः स्पृशन्ति । ततः सोऽप्युपशोषणैरेतैरुपद्र-  
वैरुपद्रुतः शनैः शनैरुपशुष्यति । तस्मात्पुरुषो मतिमान् बलमात्मनः  
समीक्ष्य तदनुरूपाणि कर्माण्यारभेत कर्तुं, बलसमाधानं हि शरीरं,  
शरीरमूलश्च पुरुष इति ॥ ४ ॥

इसके अनन्तर छाती में व्रण होने और वायु की विषम गति होने से तथा कण्ठ के खर्खर बनने से निरन्तर कास (खांसी) उत्पन्न हो जाती है । कास के होने से छाती में व्रण बनने से थूक में रक्त आता है, रक्त के आने से दुर्गन्ध उत्पन्न हो जाती है । इस प्रकार से साहस करने वाले पुरुष को साहस से उत्पन्न होने वाले उपद्रव घेर लेते हैं । इन शुष्क करने वाले उपद्रवों से आक्रान्त होकर पुरुष भी धीरे धीरे सूख जाता है । इसलिये बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिये कि अपने बल को देखकर तदनुसार कार्य का आरम्भ करे । बल के कारण ही शरीर अच्छी प्रकार से धारण किया जाता है और शरीर ही पुरुष अर्थात् आत्मा का मुख्य आश्रय है ।

भवति चात्र । साहस वर्जयेत्कर्म रक्षञ्जीवितमात्मनः ।

जीवन् हि पुरुषस्त्विष्ट कर्मणः फलमश्रुते ॥ ५ ॥

अपना जीवन चाहने वाले पुरुष को साहस के कार्य छोड़ देने चाहिये क्योंकि जीता हुआ पुरुष ही अपने कर्म का दृष्टफल भोग सकता है ।

अथ संधारणं शोपस्यायतनमिति यदुक्तं तदनुव्याख्यास्याम — यदा पुरुषो राजसमीपे भर्तृसमीपे वा गुरोर्वा पादमूले द्यूतसभ-मन्यं सतां समाजं स्त्रीमध्यं वाऽनुप्रविश्य यानैर्वाऽप्युच्चावचैरभियन् भयान् प्रसंगात् होमत्वाद्घृणित्वाद्वा निरुणद्ध्यागतानि वातमूत्रपुरी-पाणि, तदा तस्य संधारणाद्वायुः प्रकोपमाद्यते । स प्रकुपित पित्त-श्लेष्माणौ समुदीर्योर्ध्वमधस्तिर्यक् च विहरति । ततश्चांशविशेषेण पूर्ववच्छरीरावयवविशेष प्रविश्य शूलं जनयति, भिनत्ति पुरीषमु-च्छ्रापयति वा, वातं चातिरुजति, अंसौ चावमृद्नाति, कण्ठमुरश्चा-वधमति, शिरःप्रवहन्ति, कासश्चासं उवरं स्वरभेदं प्रतिश्यायं चोप-जनयति । ततः सोऽप्युपशोषणैरैतैरुपद्रवैरुपद्रुतः शनैः शनैरुपशुष्यति । तस्मात्पुरुषः 'ततः सोऽप्युपशोषणैरैतैरुपद्रवैरुपद्रुतः शनैः शनैरुपशुष्यति । तस्मात्पुरुषः मतिमानात्मनः' शरीरेष्वेव योगक्षेमकरेषु प्रयतेत । शरीरं ह्यस्य मूलं, शरीरमूलश्च पुरुषो भवतीति ॥ ६ ॥

भवति चात्र । सर्वमन्यत्परित्यज्य शरीरमनुपालयेत् ।

तदभावे हि भावानां सर्वाभावः शरीरिणामिति ॥ ७ ॥

( २ ) वेग सन्धारण मल मूत्रादि के उपस्थित वेगों को रोकना शोष का कारण है, यह जो कहा है उसकी व्याख्या करते हैं—

जिस समय पुरुष राजा के समीप, स्वामी के समीप, गुरु की चरण-सेवा में, जुआखाने में, अथवा इसी प्रकार दूसरे सज्जन मनुष्यों की सभा में, या स्त्रियों के बीच में घुसकर, या ऊंची नीची सवारी पर यात्रा करते समय, भय से, प्रसंग से, लज्जा से वा घृणा से वायु मूत्र या मल के उपस्थित वेगों को रोक लेता है, तब उनके रोकने से वायु प्रकुपित हो जाता है । यह प्रकुपित हुआ वायु पित्त और कफ को कुपित करके ऊपर, नीचे या तिरछे रूप में बहता है और तब बहुत अंश रूप से शरीर के विशेष विशेष अंगों में प्रवेश करके शूल उत्पन्न करता है, मल का भेदन अथवा शोषण करता है । रोगी के पार्श्वों में पीड़ा उत्पन्न करता है, कन्धों को तोड़ सा डालता है, कन्धों का आकार बोतल की गर्दन के समान हो जाता है, समकोण नहीं रहता, कण्ठ और छाती पीड़ित होते हैं, गिर में वेदना होती है । कास, श्वास, ज्वर, स्वरभेद, प्रतिश्याय रोग उत्पन्न हो जाते हैं । रोगी भी इन शोषण करने वाले उपद्रवों से धीरे धीरे सूखने लगता है । इसलिये बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिये कि अपना शरीर जिस प्रकार से सुखी, स्वस्थ रहे, उस प्रकार का विशेष रूप से प्रयत्न करे । क्योंकि जो भी कोई अमूल्य अलभ्य वस्तु है वह शरीर से ही होती है और पुरुष का शरीर ही आधार है । इसलिये और सब कुछ छोड़कर शरीर की रक्षा करनी चाहिये । शरीर के न रहने पर सब वस्तुओं का होना या न होना एक समान है । शरीर के होने पर ही और सब पदार्थ उपयोगी होते हैं ।

क्षयः शोषस्यायतनमिति यदुक्तं तदनुव्याख्यास्यामः—यदा पुरुषोऽतिमात्रं शोकचिन्तापरीतहृदयो भवति, ईर्ष्योत्कराभायक्रोधादिभिर्वा समाविश्यते, कृशो वा सन् रूक्षान्नपानसेवी भवति,



दुर्बलप्रकृतिरनाहारो ऽल्पाहारो वाऽऽस्ते, तदा तस्य हृदयस्थायी रसः क्षयमुपैति, स तस्योपक्षयात्संशोषं प्राप्नोति, अप्रतीकाराच्चानु-  
वध्यते यक्ष्मणा यथोपदेक्ष्यमाणरूपेण ॥ ८ ॥

(३) क्षय का विवरण — 'क्षय' शोषरोग का कारण है, यह जो पहिले कहा है, उस की व्याख्या करेंगे —

जो मनुष्य के हृदय में शोक वा चिन्ता, बहुत काम, ईर्ष्या, उत्कण्ठा, भय, क्रोध ( लोभ, मोह ) आदि मन में बहुत प्रवेश कर जाय वा कृश होता हुआ फिर रूखे खान-पान का सेवन करे, शरीर से दुर्बल प्रकृति हो कर उपवास या आवश्यकता से न्यून भोजन ले, तब उस के हृदय में रहने वाला रस ( ओज ) क्षय होने लगता है । इस रस ( ओज ) के क्षय होने से मनुष्य सूखने लगता है और इस का प्रतिकार न करने से पुरुष राजयक्ष्मा रोग से पीडित होता है । जैसा कि आगे उपदेश करेंगे ।

यदा वा पुरुषोऽतिप्रहर्षात्प्रसक्तभावः स्त्रीष्वतिप्रसङ्गमारभते, तस्या-  
तिमात्रप्रसङ्गाद्रेतः क्षयमुपैति । क्षयमपि चोपगच्छति रेतसि यदि मनः  
स्त्रीभ्यां नैवास्य निवर्तते एव । तस्य चातिप्रणीतसंक्रल्पस्य मैथुनमा-  
पद्यमानस्य शुक्रं च न प्रवर्तते अतिमात्रोपजीणत्वात्, अथास्य वायु-  
र्व्यायच्छ्रमानशरीरस्यैव धमनीरनुप्रविश्य शोणितवाहिनीस्ताभ्यः  
शोणितं प्रच्यावयति, तच्छुक्रक्षयाच्छुक्रमार्गण शोणितं प्रवर्तते वा-  
तानुसृतलिङ्गं । अथास्य शुक्रक्षयाच्छोणितप्रवर्तनाच्च संधयः शिथिली-  
भवन्ति, गैक्ष्यमुपजायते, भ्रूयः शरीरं दौर्बल्यमाविशति, वायुः  
प्रकोपमापद्यते । स प्रकुपितोऽवशिकं शरीरमनुसर्पन् परिशोषयति  
मांसशांसिते, प्रच्यावयति श्लेष्मपित्ते, संरुजति पार्श्वे, चावगृह्णात्यंसौ,  
कण्ठमुद्ध्वंसयति, शिरः श्लेष्माणमुपक्लेश्य प्रतिपूरयति श्लेष्मणा  
संध्यांश्च प्रपीडयन् करोत्यङ्गमर्दमरोचकाविपाकौ च, पित्तश्लेष्मोक्ले-  
शात्प्रतिलोमगत्वाच्च वायुर्ध्वरं कासं स्वरभेदं प्रतिश्यायं चोपजन-

यति; ततः स्रोप्युपशोषणैरुपद्रवैरुपद्रतः शनैःशनैरुपशुष्यति । तस्मात्पुरुषो मतिमानात्मनः शरीरमनुरक्तन् शुक्रमनुरक्षेत् । परा ह्येषा फलनिर्वृत्तिराहारस्येति ॥ ९ ॥

भवति चात्र । आहारस्य परं धाम शुक्र तद्रक्ष्यमात्मनः ।

क्षये ह्यस्य बहून् रोगान्मरणं वा नियच्छति ॥ १० ॥

शुक्र-क्षय—जिस समय पुरुष अति कामवेग के कारण स्त्रियों में आसक्त होकर अति सम्भोग आरम्भ कर देता है, उस का अति स्त्रीसंग करने से वीर्य क्षय हो जाता है । वीर्य के क्षय होने पर भी जब मन स्त्रीसंग से नहीं हटता और संग करता ही जाता है तब अति प्रचण्ड कामवासना के कारण मैथुन करने पर भी वीर्य उत्पन्न नहीं होता । क्योंकि वीर्य बहुत अधिक क्षीण हो चुका होता है । इस समय सम्भोग रूप परिश्रम करते हुए वायु रक्तवाहिनी धमनियों में प्रवेश करके इन से रक्त बहाने लगता है । तब शुक्र (वीर्य) के क्षय से शुक्रमार्ग द्वारा वायु के साथ मिला रक्त बाहर आने लगता है । इस अवस्था में वीर्य के क्षय से तथा रक्त के निकलने से शरीर की सन्धियां शिथिल हो जाती है, शरीर में रूक्षता आ जाती है, शरीर और अधिक कमज़ोर हो जाता है, और वायु का प्रकोप हो जाता है । इस प्रकार से प्रकुपित वायु शून्य (अशक्त) शरीर में संचार करता हुआ मांस और रक्त को शुष्क कर देता है, कफ और पित्त को बाहर निकालता है, पार्श्वों में पीडा उत्पन्न करता है, कन्धो को दबा देता है, गले को बिगाड़ देता है, कफ को कुपित करके गिर को कफ से भर देता है, सन्धियों को पीड़ित करके अंगों में वेदना उत्पन्न करता है, पित्त और कफ को कुपित करके अरुचि एवं अपचन उत्पन्न करता है । वायु की प्रतिलोम गति होने से ज्वर, कास, श्वास, स्वरभेद और प्रतिश्याय रोग उत्पन्न हो जाते हैं । इस अवस्था में पुरुष शोषण करने वाले इन उपद्रवों से पीड़ित होकर धीरे धीरे शुष्क हो जाता है । इसलिये बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिये कि अपने शरीर की रक्षा करता हुआ शुक्र अर्थात् वीर्य की रक्षा करे । यहाँ शुक्र ( वीर्य ) आहार का सर्वोत्तम फल होता है ।

वीर्य आहार का परम तेज है, इस का रक्षण करना परम आवश्यक है । इस का क्षय बहुत से रोगों वा मृत्यु का भी कारण होता है ।

विपमाशनं शोषस्यायतनमिति यदुक्तं, तदनुव्याख्यास्यामः—  
यदा पुरुषः पानाशनभक्ष्यलेह्योपयोगान् प्रकृतिकरणसंयोगराशि-  
देशकालोपयोगसंस्थोपशयविपमानासेवते, तदा तस्य तेभ्यो वातपित्त-  
श्लेष्माणो वैषम्यमापद्यन्ते, ते विपमाः शरीरमनुपसृत्य यदा स्रोतसाम-  
यनमुखानि प्रतिवार्यावतिष्ठन्ते तदा जन्तुर्यद्यदाहारजातमाहरति तत्त-  
दस्य मूत्रपुरीषमेवोपजायते भूयिष्ठं नान्यस्तथा शरीरधातुः, स पुरी-  
षोपष्टम्भाद्धर्तयति, तस्माच्छुष्यतो विशेषेण पुरीषमनुरक्ष्यं, तथा  
सर्वेषामत्यर्थकृशदुर्वलानां, तस्यानाप्याय्यमानस्य विषमाशनोपचिता  
दोषा पृथक्पृथगुपद्रवैर्युञ्जन्तो भूयः शरीरमुपशोषयन्ति । तत्र वातः  
शूलमङ्गमर्दं कण्ठोद्ध्वंसनं पार्श्वसरुजनमसावमर्दनं स्वरभेदं प्रतिश्यायं  
चोपजनयति, पित्तं पुनर्ज्वरमतीसारमन्तर्दाहं च, श्लेष्मा तु प्रति-  
श्यायं शिरसो गुरुत्वं कासमरोचकं च । स कासप्रसंगाद्गुरसि क्षते  
शोणितं घृणति, शोणितगमनाच्चास्य दौर्बल्यमुपजायते । एवमेते  
विपमाशनोपचिता दोषा राजयक्ष्माणमभिनिर्वर्तयन्ति । स तैरुपशो-  
षणैरुपद्रवैरुपद्रुतः शनैः शनैरुपशुष्यति । तस्मात्पुरुषो मतिमान्  
प्रकृतिकरणसंयोगराशिदेशकालोपयोगसंस्थोपशयाद्विपममाहारमा-  
हरेदिति ॥

भवति चात्र । हिताशी स्यान्मिताशी स्यात्कालभोजी जितेन्द्रियः ।

पश्यन् रोगान् वहून्कष्टान्वुद्धिमान्विपमाशनात् इति ॥१२॥ ।

( ४ ) विपमाशन—विपमाशन शोष रोग का कारण है, यह जो  
कहा है अत्र उस की व्याख्या करेंगे—

जत्र मनुष्य प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था  
तथा उपशय के विरुद्ध, पान-अशन, भक्ष्य और लेह्य रूप में अन्न-पान  
का उपयोग करता है, तब उस के वात, पित्त और कफ विपम हो जाते हैं ।

ये विकृत दोष जिस समय शरीर में फैलकर स्रोतसों वा नाड़ियों के मुखों को घेर लेते हैं तब मनुष्य जो भी भोजन खाता है उस का अधिक भाग मूत्र और मल में बदलकर इन को ही अधिक बढ़ाता है, इस प्रकार शरीर के अन्य धातु नहीं बढ़ते। पुरुष मल के रुकने से ही जीवन धारण किया करता है। इसलिये शुष्क होते हुए पुरुष के मल की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिये। इस प्रकार कृश होते हुए मनुष्य के विषम भोजन से बड़े हुए दोष नाना उपद्रवों से युक्त होकर और भी शरीर को सुखा देते हैं तब कुपित हुआ वात शूल, अंगों का टूटना, कण्ठभेद, पार्श्वों में पीड़ा, कन्धों का टूटना, स्वरभेद और प्रतिश्याय उत्पन्न करता है। पित्तज्वर, अतिसार और अन्तर्दाह को उत्पन्न करता है। श्लेष्मा—प्रतिश्याय, शिर का भारीपन, कास और अरुचि उत्पन्न करता है। कास के कारण छाती में व्रण होने से थूक में रक्त आता है। रक्त के निकलने से कमजोरी आ जाती है। इस प्रकार से विषम भोजन द्वारा एकत्रित हुए दोष राजयक्ष्मा रोग को उत्पन्न करते हैं। शोषण करने वाले इन उपद्रवों से पीड़ित होने पर धीरे २ मनुष्य सूखने लगता है। इसलिये बुद्धिमान् पुरुष को चाहिये कि प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था और उपशय के अनुकूल खान पान करे।<sup>१</sup>

बुद्धिमान् मनुष्य विषमाशन के कारण नाना प्रकार के कष्टदायक रोगों की उत्पत्ति को देखकर, हितकारक, परिमित और समय पर भोजन करने वाला और जितेन्द्रिय हो।

एवमेतैश्चतुर्भिः शोषस्यायतनैरभ्युपसेवितैर्वातपित्तश्लेष्माणः प्रकोपमापद्यन्ते, ते प्रकुपिता नानाविधैरुपद्रवैः शरीरमुपशोषयन्ति । तं सर्वरोगाणां कष्टतमत्वाद्वाजयक्ष्माणमाचक्षते भिषजः । यस्माद्वा पूर्वमासीद्भगवतः सोमस्योद्बुराजस्य तस्माद्वाजयक्ष्मेति ॥

राजयक्ष्मा शब्द की निरुक्ति—शोष रोग के कहे हुए इन चार

१ इस का विस्तार 'रस-विमान' नामक अध्याय में कहेंगे।

कारणों के सेवन करने से वात, पित्त, कफ ये तीनों दोष प्रकुपित हो जाते हैं। ये दोष कुपित होकर नाना प्रकार के उपद्रवों से शरीर का शोषण करते हैं। यह रोग सब रोगों में अधिक कष्टसाध्य है, इसलिये वैद्य लोग इस को 'राजयक्ष्मा' कहते हैं। अथवा यह क्षय पूर्व नक्षत्रराज चन्द्रमा को रहा, इसलिये इस का नाम 'राजयक्ष्मा' है।

तस्येमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति । तद्यथा—प्रतिश्यायः क्ष्वथु-  
रभीक्ष्णं श्लेष्मप्रसेको मुखमाधुर्यमनन्नाभिलाषोऽन्नकाले चायासो  
दोषदर्शनमदोषेष्वल्पदोषेषु वा पात्रोदकान्नसूपोपदंशंपरिवेशकेषु  
भुक्तवतो हृल्लासस्तथोल्लेखनमाहारस्यान्तरान्तरा मुखम्य पादयोश्च  
शोषः पाणयोश्चात्रेक्षणमत्यर्थमक्षणोः श्वेतावभासता चातिमात्रं बाह्वोश्च  
प्रमाणजिज्ञासा स्त्रीकामताऽतिघृणित्वं वीभत्सदर्शनता चास्य काये  
स्वप्ने चाभीक्ष्णं दर्शनमनुदकानामुदकस्थानानां शून्यानां च ग्रामनगर-  
निगमनजनपदानां शुष्कदग्धावभ्रानां च वनानां कृकलासमथूर-  
वानरशुकसर्पकाकोल्कादिभि संस्पर्शनमधिरोहणं वा यानं च श्वो-  
प्रखरवराहैः केशास्थिभस्मतुपाङ्गारराशीनां चाधिरोहणमिति शोष-  
पूर्वरूपाणि भवन्ति ॥ १४ ॥

शोष के पूर्व रूप—शोष रोग के ये पूर्व रूप हैं। यथा—प्रतिश्याय (जुकाम),  
छाँक आना, बार बार कफ का गिरना, मुख में मिठास, भोजन की अनि-  
च्छा, भोजन करते समय थकान की प्रतीति, पात्र, पानी, अन्न, दाल, चटनी,  
शाक आदि निर्दोष या अल्प दोष वाली वस्तुओं में भी दोष देखना, भोजन  
करने समय जी मचलना, मुँह में पानी बहुत आना, खाये हुए अन्न का  
वमन होना, मुख और पाँव का सूखना, हाथों को बहुत अधिक देखते  
रहना, आँखों का सफेद हो जाना ( रक्त की न्यूनता), भुजाओं में मोटाई  
जांचने की प्रवृत्ति, स्त्रीसंग की इच्छा, अपने शरीर से घृणा या अपने  
शरीर में भयंकर रूप देखना और स्वप्न में पानी से रहित स्थानों में पानी  
को देखना, शून्य स्थानों में ग्राम, नगर, जनपदों की प्रतीति होना,

जंगलों का जलना, शुष्क होना या टूटना देखना, गिरगट, मोर, बन्दर, तोता, सांप, कौवा, उल्लू आदि के साथ स्पर्श की प्रतीति, कुत्ता, जंत, गधा, सुअर आदि पर चढ़कर सवारी करना, केश, अस्थि, भस्म, भूसा, अंगारे के ढेरो पर चढ़ना आदि देखना, ये शोष रोग के पूर्वरूप हैं ।

अत ऊर्ध्वमेकादश रूपाणि तस्य भवन्ति, तद्यथा—शिरसः प्रतिपूरणं कासः श्वासः स्वरभेदः श्लेष्मणश्छर्दनं शोणितष्ठीवनं पार्श्वसंरुजनमंसावमर्दो ज्वरोऽतीसारस्तथाऽरोचक इति ॥ १५ ॥

ग्यारह रूप—इस के बाद राजयक्ष्मा के ग्यारह लक्षण हो जाते हैं । यथा—( १ ) शिर का कफ से भरना, ( २ ) कास, ( ३ ) श्वास, ( ४ ) स्वरभेद, ( ५ ) कफ का गिरना, ( ६ ) थूक में रक्त आना, ( ७ ) पार्श्वों में दर्द, ( ८ ) कन्धो का नीचे दबना, ( ९ ) ज्वर, ( १० ) अतिसार और ( ११ ) अरोचक ( अरुचि ) ।

तत्रारिच्चीणमांसशोणितो बलवानजातारिष्टः सर्वैरपि शोष-लिङ्गैरुपद्रुतः साध्यो ज्ञेयः, बलवर्णोपचयोपचितो हि सहिष्णुत्वाद्-व्याध्यौषधबलस्य कामं सुबहुलिङ्गोऽप्यल्पलिङ्ग एव मन्तव्यः । दुर्बलं त्वतिच्चीणमांसशोणितमल्पलिङ्गमप्यजातारिष्टमपि बहुलिङ्गमेव जाता रिष्टमेव विद्यात्, तदसहत्वाद् व्याध्यौषधबलस्य, तं परिवर्जयेत्, क्षणेन हि प्रादुर्भवन्त्यरिष्टानि, अनिमित्तश्चारिष्टप्रादुर्भाव इति ॥ १६ ॥

साध्य और असाध्य रूप—जिस रोगी के मांस और रक्त कम नहीं हुए, और शक्ति बनी हुई है और अरिष्ट लक्षण उत्पन्न नहीं हुए, ऐसे रोगी को यदि सब उपद्रव भी घेर लें तो भी रोगी साध्य है । क्योंकि जिस रोगी के बल और वर्ण सुरक्षित हैं, वह व्याधि और औषध के बल को सुगमता से सह सकता है । इसलिये इस प्रकार का रोगी बहुत लक्षणों से युक्त होने पर भी थोड़े लक्षणों वाला ही गिनना चाहिये । जो रोगी मांस और रक्त के क्षीण होने से बहुत दुर्बल हो गया हो, इस में लक्षण चाहे थोड़े ही हों और कोई अरिष्ट लक्षण न भी उत्पन्न हुआ हो तो भी ऐसे रोगी को बहुत

लक्षणों वाला और अरिष्ट लक्षणों से युक्त ही गिनना चाहिये । क्योंकि यह रोगी ओषधि और रोग के बल को सहन नहीं कर सकता, इसलिये छोड़ देना चाहिये । इस रोगी में एक क्षण के अन्दर अरिष्ट उत्पन्न हो सकते हैं और बिना कारण ही अरिष्ट लक्षण दीखने लगते हैं ।

तत्र श्लोकः । समुत्थानं च लिङ्गं च यः शोपस्यावबुध्यते ।

पूर्वरूपं च तत्त्वेन स राज्ञः कर्तुमर्हति ॥ १७ ॥

जो वैद्य शोप की उत्पत्ति, लक्षण और पूर्व रूप भली प्रकार से जानता है वह राजयक्ष्मा की चिकित्सा करने के योग्य है ।

इत्यग्निवेशकृते तन्त्र चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने

गोपनिदान नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

## सप्तमोऽध्यायः ।

अथात उन्मादनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अत्र उन्माद निदान का वर्णन करेगे ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

इह खलु पञ्चोन्मादा भवन्ति । तद्यथा—वातपित्तकफसन्निपा-  
तागन्तुनिमित्ताः ।

उन्माद पांच प्रकार के हैं । जैसे—( १ ) वातजन्य, ( २ ) पित्त-  
जन्य, ( ३ ) कफजन्य, ( ४ ) सन्निपातजन्य और ( ५ ) आगन्तुज ।  
इन में से पहिले चार उन्माद दोषजन्य हैं ।

तत्र दोषनिमित्ताश्चत्वारः पुरुषाणामेवंविधानां क्षिप्रमभिनि-  
र्वर्तन्ते तद्यथा,—भीरुणामुपह्लिष्टसत्त्वान्नामुत्सन्नदोषाणां च समल-  
विकृतो रद्वितान्यनुचिनान्याहारजातानि वैषम्ययुक्तेनोपयोगविधिनो-  
पयुञ्जानानां तन्त्रप्रयोगं वा विषममाचरतामन्यां वा चेष्टां विषमां समा-

चरतामत्युपत्तीणदेहानां च व्याधिवेगसमुद्भ्रमितानामुपहतमनसां  
 वा कामक्रोधलोभहर्षभयमोहायासशोकचिन्तोद्वेगादिभिः पुनरभिघा-  
 ताभ्याहतानां वा मनस्युपहते बुद्धौ च प्रचलितायामभ्युदीर्णा  
 दोषाः प्रकुपिता हृदयमुपसृत्य मनोवहानि स्रोतांस्यावृत्य जनयन्त्यु-  
 न्मादम् ॥ ३ ॥

ये चार दोषजन्य उन्माद निम्न लक्षणों वाले व्यक्तियों को शीघ्र उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे—जो मनुष्य डरपोक हों, जिन के शरीर में सत्त्व गुण न हो, (अपितु रज और तम हों) जिन में वात आदि दोष बढ़े हुए हों, जो अपवित्र, बिगड़े हुए एवं विरोधी गुण वाले पदार्थों से मिले, अथवा कुष्ठ आदि के रोगी मनुष्यों द्वारा लाये हुए अन्न पान खाते हों, विषम रीति से भोजन करने वाले व्यक्तियों में, शास्त्रोक्त विधि के विरुद्ध आचरण करने वाले पुरुषों में, अथवा कोई अन्य प्रकार की विषम चेष्टा करने वाले व्यक्तियों में, जिन का शरीर अत्यन्त क्षीण हो गया हो, जिनका चित्त रोग के वेग के कारण उद्भ्रान्त हो चुका हो, जिन का मन, काम, क्रोध, लोभ, हर्ष, भय, मोह, आयास, (थकान), शोक, चिन्ता और उद्वेग आदि द्वारा दुःखित होता है, घाव या चोट के लगने से जिनका मन ठिकाने पर नहीं रहता तथा बुद्धि चलायमान हो गई हो, ऐसे मनुष्यों के वात आदि दोष प्रकुपित होकर, हृदय को दूषित करके (हृदय में पहुँचकर) मनोवहान्तस्रोतस्रोतसो की गति को बन्द करके उन्माद रोग उत्पन्न करते हैं।

—उन्मादं पुनर्मनोबुद्धिसंज्ञाज्ञानस्मृतिभक्तिशीलचेष्टाचारविभ्रमं विद्यात् ॥ ४ ॥

उन्माद का लक्षण—मन, बुद्धि, संज्ञा, ज्ञान, स्मृति, भक्ति, शील, आहार, चेष्टा इन का विभ्रम अर्थात् विक्षिप्त होना 'उन्माद' कहाता है, इन के विकार से उन्माद रोग होता है।<sup>१</sup>

१. मन चिन्तन का काम करता है, उस के विभ्रम से चिन्तन करने योग्य बातों को नहीं सोचता और चिन्तन न करने योग्य बातों की चिन्ता



तस्येमानि पूर्वरूपाणि । तद्यथा—शिरसः शून्यभावश्चक्षुषो-  
राकुलता, स्वनः कर्णयोरुच्छ्वासस्याधिक्यमास्यसंस्त्रवणमनत्राभि-  
लाषोऽरोचकाविपाकौ हृदयग्रहो ध्यानायाससंमोहोद्वेगाश्चास्थाने  
सततं लोमहर्षो ज्वरश्चाभीक्षणमुन्मत्तचित्तत्वमुददित्वमर्दिताकृति-  
करणं च व्याधेः स्वप्ने च दर्शनमभीक्षणं भ्रान्तचलितावनवस्थितानां  
च रूपाणामप्रशस्तानां तिलपीडकचक्राधिरोहणं वातकुण्डलिका-  
भिश्चोन्मथनं निमज्जनं कलुषाणामम्भसामावर्तेषु चक्षुषोश्चापसर्प-  
णमिति दोषनिमित्तानामुन्मादानां पूर्वरूपाणि भवन्ति ॥ ५ ॥

उन्माद के पूर्वरूप—उन्माद के पूर्वरूप निम्न लिखित है । यथा—  
शिर ( मस्तिष्क ) का खालीपन, आंखों में चंचलता, कानों में ध्वनि का  
होना, श्वास का जोर से चलना, मुख से लार गिरना, भोजन में अनिच्छा,  
अरुचि, अविपाक, हृदयग्रह, वैमौके ध्यान, आयास ( थकान ), संमोह और उद्वेग  
होना, अर्थात् जहां पर न करने हों वहां इन का करना, निरन्तर रोमांच  
रहना, बार बार ज्वर का आना, चित्त का उन्मत्त रहना, उदर, कोठ  
निकलना ( अगो का सूजन या शरीर के ऊर्ध्व भाग में पीड़ा होना ),  
अर्दित, मुख की आकृति का आधा टेढ़ा बनना, बुद्धि आदि का भ्रम होना,  
स्वप्न में भ्रान्त, चलित, चंचल या भयंकर स्वरूपों का बार बार देखना,  
अप्रशस्त कोल्हू ( जिस यन्त्र से तेल निकाला जाता है ) आदि उन पर बैठना,  
वातकुण्डलिका रोग ( मूत्ररोध विकार ) का होना, गन्दे, खराब पानी के

करता है । बुद्धि के विभ्रम से नित्य को अनित्य और प्रिय को अप्रिय देखने-  
लगता है । संज्ञा, ज्ञान इस के विभ्रम से अग्नि से जलने की प्रतीति नहीं  
होती । स्मृति के विभ्रम से कुछ स्मरण नहीं होता या उल्टा स्मरण होता  
है । भक्ति आदि इच्छा, इस के विभ्रम से पहिले जहां इच्छा थी वहां  
अनिच्छा हो जाती है । शील के विभ्रम से अति क्रोधी वा क्रोध के स्थान  
में भी क्रोधरहित हो जाता है । आचार के विभ्रम से अपवित्र आचरण  
करता है ।

भंवरों में खेलना, डुबकी मारना आदि, आंखों की अस्थिरता और चंचलता, दोषजन्य उन्मादों के ये पूर्वरूप है ।

ततोऽनन्तरमुन्मादाभिनिर्वृत्तिः, तत्रेदमुन्मादविशेषविज्ञानं भवति । तद्यथा परिसर्पणमक्षिभ्रुवामोष्ठांसहनुहस्तपादविक्षेपणमकस्मात्, अनियतानां च सततं गिरामुत्सर्गः, फेनागमनमास्यात्, स्मितहसितनृत्यगीतवादित्रादिप्रयोगाश्रास्थाने, वीणावंशशङ्खशम्यातालशब्दानुकरणमसाम्ना, यानमयानैरलङ्करणमनलङ्कारिकैर्द्रव्यैर्लोभोऽभ्यवहार्येष्वलब्धेषु, लब्धेषु चावमानस्तीव्रं मात्सर्यं, काश्यं, पारुष्यमुत्पिण्डताऽरुणाक्षता, वातोपशयविपर्यासादनुपशयता चेति वातोन्मादलिङ्गानि भवन्ति ॥ ६ ॥

इन पूर्वरूपों के प्रकट होने के पीछे उत्ताद रोग उत्पन्न होता है । उस समय उन्माद रोग के विशेष लक्षण ये होते हैं:—

( १ ) वातोन्माद के लक्षण—आंख और भौहों का चलते रहना ( अस्थिरता ), ओंठ, जबाड़ा ( हनु ), कन्धा, हाथ और पांव का फेंकना, विना स्थान के ( विना मतलब के ) हंसना, मुसकुराना, नाचना, गाना, बजाना, विना कारण के लगातार बोलते जाना, मुख से झाग निकलना, वीणा, बांसुरी, शंख, मुरली, सनई, ताल आदि वाद्यों का बेसुरा अनुकरण करना,<sup>२</sup> ऊंचे और न चढ़ने योग्य सवारी पर चढ़ना, जिन वस्तुओं से शरीर का अलंकार नहीं करना चाहिये उन से अलंकार करना, न मिलने वाले खाद्य पदार्थों में इच्छा, लोभ तथा प्राप्त वस्तुओं में तिरस्कार, बहुत अधिक द्वेष, मत्सरता ( ईर्ष्या ), क्रुशता, कठोरता, आंखों में लाली तथा आंखों का बाहर निकलना, वातवर्धक पदार्थों से रोग का बढ़ना ये वातजन्य उन्माद के लक्षण हैं ।

अमर्षक्रोधसंरम्भाश्रास्थाने, शस्त्रलोष्ट्रकाष्ठमुष्टिभिरभिहननं स्वेषां परेषां वा, अभिद्रवणं, प्रच्छायशीतोदकात्राभिलाषः, संतापोऽतिवेलं,

२ शम्या दक्षिण हाथ से और ताल वाम हाथ से बजाया जाता है ।

ताम्रहरितहारिद्रसंरब्धाक्षता, पित्तोपशयविपर्यासादनुपशयता चेति पित्तोन्मादलिङ्गानि भवन्ति ॥ ७ ॥

(२) पित्तजन्य उन्माद के लक्षण—अनुचित स्थान और अवसर में अस्हिष्णुता दिखाना, क्रोध करना या स्तम्भित रह जाना, शस्त्र, मिट्टी का ढेला, लकड़ी या मुट्टी से अपने को या दूसरों को मारना, इधर उधर दौड़ना, छाया, शीतलखान पान (अन्न या पानी) की इच्छा करना, बहुत समय तक ताप का होना, आंखों का ताग्वे के समान लाल, हरा, पीला एवं खुले रहना, और पित्तवर्धक पदार्थों से रोग का बढ़ना ये पित्तजन्य उन्माद के लक्षण हैं ।

स्थानमेकदेशे, तूष्णीभावो, अल्पशश्चङ्क्रमणं, लालाशिङ्घाणकप्रस्रवणं, अनन्नाभिलाषो, रहस्कामता, वीभत्सत्वं, शौचद्वेषः, स्वप्ननिद्रता, श्रयथुरानने, शुक्लस्तिमितमलोपदिग्धाक्षता, श्लेष्मोपशयविपर्यासादनुपशयता चेति श्लेष्मोन्मादलिङ्गानि भवन्ति ॥ ८ ॥

(३) कफजन्य उन्माद के लक्षण—एकान्त स्थान में चुपचाप बैठना, थोड़ा चलना फिरना, मुख से लार, नाक से मल का गिरना, भोजन में अनिच्छा, एकान्त स्थान में रहने की इच्छा, भयानक विकृत रूप, स्वच्छता से द्वेष, नींद कम होना, मुख पर सूजन, आंख में सफेदी भारीपन और मल का होना, कफ वर्धक पदार्थों से रोग का बढ़ना ये कफजन्य उन्माद के लक्षण हैं ।

त्रिदोषलिङ्गसन्निपाते तु सांनिपातिकं विद्यात्, तमसाध्यमित्याचक्षते कुशलाः ॥ ९ ॥

(४) सान्निपातिक उन्माद—तीनों दोषों के एक साथ मिलने से सन्निपातजन्य उन्माद रोग हो जाता है । इस को कुशल वैद्य असाध्य कहते हैं ।

साध्यानां तु त्रयाणां साधनानि भवन्ति । तद्यथा—स्नेहस्वेदवमन विरंचनास्थापनानुवासनोपशमन-नस्तःकर्म-धूप-धूमपानाञ्जनाव-पोडप्रधमनाभ्यङ्गप्रदेहपरिपेकानुलेपनवधवन्धनावरोधनवित्रासनविस्मापनविस्मरणापतर्पणसिराव्यधनानि भोजनविधानं च यथास्वै

युक्त्या, यच्चान्यदपि किञ्चिन्निदानविपरीतमौषधं कार्यं तत्स्या-  
दिति ॥ १० ॥

उन्माद की चिकित्सा—इन तीन सिद्ध होने वाले उन्मादों की चिकि-  
त्सा निम्न प्रकार से करनी चाहिये । यथा—स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरे-  
चन, आस्थापन, अनुवासन, उपशमन, नस्य कर्म, धूप, धूम्रपान, अञ्जन,  
अवपीड़न, प्रधमन, अभ्यंग, प्रदेह, परिषेक, अनुलेपन, वध ( मारने का  
भय दिखाना ), बन्धन, अवरोधन ( कमरे में बन्द करना ), वित्रासन  
( डराना ), विस्मारण (नाना प्रकार की बातों में भुलाना), विस्मापन  
( आश्चर्य से, चकित करना ), अपतर्पण ( उपवास ), सिरान्यधन (शिरा  
वैध आदि से रक्त बाहर करना ) ये चिकित्सा करनी चाहियें और युक्ति-  
पूर्वक दोषो को देखकर अन्न-पान का स्वयं निश्चय करना चाहिये । इस के  
सिवाय और भी जो कोई औषध रोगजनक कारण के विपरीत, उसको  
शान्त करने वाला हो, वह भी अवश्य देनी चाहिये ।

भवति चात्र । उन्मादान्दोषजान् साध्यान् साधयेद्भिषगुत्तमः ।

अनेन विधियुक्तेन कर्मणा यत्प्रकीर्तितम् ॥ इति ११ ॥

श्रेष्ठ वैद्य इस कही हुई विधि से दोषों से उत्पन्न साध्य उन्माद  
रोग को दूर करे ।

यस्तु दोषनिमित्तेभ्य उन्मादेभ्यः समुत्थानपूर्वरूपलिङ्गवेद-  
नोपशयविशेषसमन्वितो भवत्युन्मादस्तमागन्तुमाचक्षते । केचित्पुनः  
पूर्वकृतं कर्माप्रशस्तमिच्छन्ति तस्य निमित्तं । प्रज्ञापराध एवेति  
भगवान्पुनर्वसुरात्रेय उवाच । प्रज्ञापराधाद्धयं देवर्षिपितृगन्ध-  
र्वयक्षराक्षस-पिशाच-गुरुवृद्धसिद्धाचार्यपूज्यानवमत्याहितान्याचरति,  
अन्यद्वा किञ्चित्कर्माप्रशस्तमारभते, तमात्मना हतमुपघ्नन्तो देवादयः  
कुर्वन्त्युन्मत्तम् ॥ १२ ॥

आगन्तुज उन्माद—जो उन्माद दोषों से उत्पन्न होने वाले उन्माद से  
उत्पत्ति, पूर्वरूप, लक्षण, वेदना और उपशय में भिन्न होता है, उस को

‘आगन्तुज उन्माद’ कहते हैं । कुछ आचार्य पूर्वजन्म के अशुभ पाप कर्मों से आगन्तुज उन्माद की उत्पत्ति मानते हैं । उस का कारण प्रज्ञापराध ही है, ऐसा भगवान् पुनर्वसु आत्रेय ने कहा है । प्रज्ञापराध अर्थात् बुद्धि के दोष से ही मनुष्य देवता, ऋषि, पितरं, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, पिशाच, गुरु, वृद्ध, सिद्ध, आचार्य एवं पूज्य पुरुषों का अपमान करता है । अथवा अन्य किसी प्रकार का निन्दनीय कर्म करता है । अपनी आत्मा द्वारा किये हुए अशुभ कर्म के द्वारा उसी पुरुष को मारने के लिये देव आदि उस को उन्मत्त कर देते हैं ।

तत्र देवादिप्रकोपनिमित्तेनागन्तुकोन्मादेन पुरस्कृतस्येमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति । तद्यथा—देवगोब्राह्मणतपस्विनां हिंसारुचित्वं कोपनत्वं नृशंसाभिप्रायता अरतिरोजोवर्णच्छायावलवपुषामुपतप्तिः स्वप्ने च देवादिभिरभिभर्त्सनं प्रवर्तनं चेत्यागन्तुनिमित्तस्योन्मादस्य पूर्वरूपाणि भवन्ति । ततोऽनन्तरमुन्मादाभिनिर्वृत्तिः ॥ १३ ॥

आगन्तुज उन्माद के पूर्वरूप—देवता आदि के प्रकोप के कारण आगन्तुज उन्माद के पूर्वरूप निम्न प्रकार के होते हैं । जैसे—देव, गौ, ब्राह्मण, तपस्वी पुरुषों की हिंसा करने में रुचि, क्रोधीपन, दूसरे का अपकार करने की इच्छा, उदासीनता, ओज, बल, वर्ण, छाया और शरीर में ताप होना, विगडना, स्वप्न में देवता आदि का तिरस्कार करना, अथवा इन पर क्रोध करना आदि आगन्तुज उन्माद के पूर्वरूप हैं । इस के पीछे उन्माद उत्पन्न हो जाता है ।

तत्रायमुन्मादकराणां भूतानामुन्मादयिष्यतामारम्भविशेषः । तद्यथा—अवलोकयन्तो देवा जनयन्त्युन्मादं, गुरुवृद्धसिद्धर्षयोऽभि-  
शपन्तः, पितरो धर्षयन्तः, स्पृशन्तो गन्धर्वाः, समाविशन्तो यक्षाः,  
राक्षसास्त्वामगन्धमात्रापयन्तः, पिशाचाः पुनरधिरुह्य वाह-  
यन्तः ॥ १४ ॥

उन्माद का प्रारम्भ—उन्माद को उत्पन्न करने वाले भूतों की उन्माद

को प्रारम्भ करने में निम्नलिखित प्रकार से भिन्नता होती है । यथा—देव आंखों से देख कर ही उन्माद उत्पन्न करते हैं, गुरु, वृद्ध, सिद्ध और ऋषिजन श्लाघ देकर, पितर लोग धमकाकर, गन्धर्व गण स्पर्श करके, यक्ष शरीर में घुसकर, राक्षस आम ( सड़े मांस आदि की ) गन्ध को सुंघाकर और पिशाच चढ़कर उन्माद रोग को उत्पन्न करते हैं ।

तस्येमानि रूपाणि भवन्ति । तद्यथा—अमर्त्यबलवीर्यपौरुष-पराक्रमग्रहणधारणस्मरणज्ञानवचनविज्ञानानि, अनियतश्चोन्माद-कालः ॥ १५ ॥

(५) आगन्तुज के लक्षण—आगन्तुज उन्माद के ये लक्षण होते हैं । जैसे—उन्मत्त रोगी में अमानुष बल, वीर्य, पुरुषार्थ, पराक्रम, ग्रहण, धारण, स्मरण, ज्ञान, वाणी और विज्ञान प्राप्त हो जाता है । उन्माद रोग का काल भी अनिश्चित रहता है ।

उन्मादयिष्यतामपि खलु देवर्षिपितृगन्धर्वयक्षराक्षसपिशा-चानां गुरुवृद्धानां वा एष्वन्तरेष्वभिगमनीयाः पुरुषा भवन्ति । तद्यथा—पापस्य कर्मणः समारम्भे, पूर्वकृतस्य वा कर्मणः परि-णामकाले, एकस्य वा शून्यगृहवासे, चतुष्पथाधिष्ठाने वा, सन्ध्या-वेलायां अप्रयतभावे वा, पर्वसंधिषु वा मिथुनभावे, रजस्वला-भिगमने वा, विगुणे वाऽध्ययनबलिमङ्गलहोमप्रयोगे, नियमव्रतब्र-ह्मचर्यभङ्गे वा, देशकुलपुरविनाशे वा, महाग्रहोपगमने वा, स्त्रिया वा प्रजननकाले, विविधभूताशुभाशुचिस्पर्शने वा, वमनविरेचन-रुधिरस्रावाशुचेः, अप्रयतस्य वा, चैत्यदेवायतनाभिगमने वा, मांस-मधुतिलंगुडमद्योच्छिष्टे वा, दिग्वाससि वा, निशि नगरनिगमचतु-ष्पथोपवनशमशानाघातनाभिगमने वा, द्विजगुरुसुरपूज्याभिधर्षणे वा धर्माख्यानव्यतिक्रमे वा, अन्यस्य कर्मणोऽप्रशस्तस्यारम्भे वेत्या-घातकाला व्याख्याता भवन्ति ॥ १६ ॥

आघात काल—देव, ऋषि, पितर, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि

निम्नलिखित स्थान या समयों पर मनुष्य पर उन्माद उत्पन्न करते हैं । यथा—पाप कर्म के प्रारम्भ करने के समय, पूर्वजन्मकृत पापकर्म के परिणाम समय पर, निर्जन, एकान्त घर में अकेला होने पर, चौराहे पर खड़े रहने या बैठने पर, सन्ध्या समय में असावधान या अपवित्र रहने से, पूर्णिमा, अमावस्या में स्त्रीसंग करने से, रजस्वला स्त्री के साथ संग करने से, अव्यवस्थित कार्य करने से, अध्ययन, वलि, मंगल, होम इन को नियम से न करने पर, नियम, व्रत या ब्रह्मचर्य के भंग करने पर, बड़े युद्ध के समय, देश, कुल या नगर के विनाश के समय, बड़े भारी ग्रह के आ जाने पर, प्रसव के समय स्त्री पर, नाना प्रकार के अशुभ पदार्थों के स्पर्श से, वमन, विरेचन, रक्तस्राव आदि अपवित्र काम करके अशुद्ध शरीर से चैत्य ( गांव का तरु खेडा ) या देवमन्दिर आदि पवित्र स्थान में जाने से, मांस, मधु, तिल, गुड, मद्य या जूठन ( उच्छिष्ट ) खाकर, या नगना अवस्था में, अथवा रात के समय ग्राम, नगर वा चौराहे या उपवन, श्मशान या क़साईखाने के समीप जाने से, ब्राह्मण, गुरु, संन्यासी, पूज्यपुरुषों को धमकाने से, धर्म का उल्लंघन करने से, इसी प्रकार के अन्य अपवित्र, पाप कर्म के आरम्भ करने से उन्माद रोग का आक्रमण होता है । इस प्रकार से आघात काल का वर्णन कर दिया है ।

त्रिविधं तु खलून्मादकराणां भूतानामुन्मादने प्रयोजनं भवति ॥ तद्यथा—हिंसा, रतिः, अभ्यर्चनं चेति । तेषां तत्प्रयोजनमुन्मत्ताचारविशेषलक्षणैर्विद्यात् । तत्र हिंसार्थमुन्माद्यमानोऽग्निं प्रविशत्यप्सु वा निमज्जति, स्थलाच्छ्वभ्रे वा निपतति, शस्त्रकशाकाष्ठलोष्टमुष्टिभिर्हन्यात्मानमन्यश्च प्राणवधार्थमारभते किंचित्, तमसाध्यं विद्यात्, साध्यौ पुनर्द्वावितरौ ॥ १७ ॥

उन्माद उत्पन्न करनेका प्रयोजन—उन्माद रोग को उत्पन्न करने वाले भूतों के मनुष्यों को उन्मत्त बनाने में तीन प्रकार के प्रयोजन हैं । यथा—हिंसा, रति और पूजा । इन कार्यों ( प्रयोजनों ) को उन्मत्त पुरुष के

लक्षणों से पहिचानना चाहिये । हिंसा के लिये उन्माद होने पर मनुष्य आग में घुसता है, पानी में डूबता है, ऊंचे स्थान से गड्ढे में गिरता है, हथियार, काष्ठ, कशा, (चाबुक), ढेला (पत्थर) मुक्को आदि से अपने को मारता है, अथवा अन्य इसी प्रकार के प्राण नाश करने वाले कार्यों को करता है । इस को असाध्य जानना चाहिये ।<sup>१</sup> बाकी के दोनों प्रकार के उन्माद साध्य हैं ।

तयोः साधनानि-मन्त्रौषधिमणिमङ्गलवलयुपहारहोमनिययव्रत-  
प्रायश्चित्तोपवासस्वस्त्ययनप्रणिपातगमनादीनीति । एवमेते पञ्चो-  
न्मादा व्याख्याता भवन्ति ॥ १८ ॥

ये उन्माद मन्त्र, ओषधि, मार्ग, मंगल-पाठ, बलिदान, उपहार, हवन, नियम, व्रत, प्रायश्चित्त, उपवास, स्वस्त्ययन, प्रणिपात आदि मंगल कृत्यों से शान्त होते हैं । इस प्रकार से पांचों उन्मादों की व्याख्या करदी ।

ते तु खलु निजागन्तुविशेषेण साध्यासाध्यविशेषेण च प्रवि-  
भज्यमानाः पञ्च सन्तो द्वावेव भवतः । तौ परस्परमनुबध्नीतः । कदा-  
चिद्यथोक्तहेतुससर्गाद्दुभयोः संसृष्टमेव पूर्वरूपं भवति, संसृष्टञ्चैव  
लिङ्गमभिज्ञेयम् । तत्रासाध्यसंयोगं साध्यासाध्यसंयोगं वाऽसाध्यं  
विद्यात् । साध्यं तु साध्यसंयोगं, तस्य साधनं साधनसंयोगमेव  
विद्यादिति ॥ १९ ॥

उन्माद के भेद—ऊपर कहे हुए पांच उन्माद निज और आगन्तुज भेद से या साध्य और असाध्य भेद से, पांच प्रकार के होने पर भी दो प्रकार के होते हैं । कई बार निज दोषजन्य उन्माद के साथ आगन्तुज

१. रति प्रयोजन से आक्रान्त होने पर मनुष्य खेलता है, पूजा के लिये पूजा करता है । देव आदि मनुष्य को आक्रान्त नहीं करते । जैसा कि सुश्रुत में कहा है—

“न ते मनुष्यैः सह सं विशन्ति न वा मनुष्यान् क्वचिदाविशन्ति ।

ये त्वाविशन्ति वदन्ति मोहात्ते भूतविद्याविषयादपोह्याः ॥



उन्माद भी परस्पर अनुबन्ध रूप से मिला होता है और कभी साध्य और असाध्य दोनों प्रकार के उन्मादों के कारणों का संयोग होता है, इस अवस्था में पूर्वरूप और लक्षण दोनों मिश्रित होते हैं। दोनों प्रकार के लक्षणों के मिलने से रोग असाध्य हो जाता है। इस में भी असाध्य संयोग अथवा साध्य और असाध्य दोनों का संयोग हो तो इसको असाध्य जाने। साध्य लक्षणों का संयोग हो तो साध्य जाने। ( अर्थात् मिश्रित लक्षणों वाले उन्माद में संयुक्त ओषधियों द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये)।

भवन्ति चात्र । नैव देवा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसाः ।

न चान्ये स्वयमक्लिष्टमुपक्लिश्यन्ति मानवम् ॥ २० ॥

ये त्वेनमनुवर्तन्ते क्लिश्यमानं स्वकर्मणा ।

न तन्निमित्तः क्लेशोऽसौ न ह्यस्ति कृतकृत्यता ॥ २१ ॥

प्रज्ञापराधात्संप्राप्ते व्याधौ कर्मज आत्मनः ।

नाभिशंसेद्बुधो देवान्न पितृन्नापि राक्षसान् ॥ २२ ॥

आत्मानमेव मन्येत कर्तारं सुखदुःखयो ।

तस्माच्छ्रेयस्करं मार्गं प्रतिपद्येत नो त्रसेत् ॥ २३ ॥

देवादीनामपचितिर्हितानां चोपसेवनम् ।

ते च तेभ्यां विरोधश्च सर्वमायत्तमात्मनि ॥ २४ ॥

जो मनुष्य स्वयं अपने दोषों से पीड़ित नहीं होता उस को न तो देवता, न गन्धर्व, न पिशाच, न राक्षस और न अन्य योनियां क्लेशित करती हैं। अपने कर्मों के कारण देवता आदि द्वारा जो पीड़ा मिलती है, उस का कारण देवता नहीं होते। क्योंकि अशुभ कर्मों के फल स्वरूप उन्माद होता है। इन कर्मों के कर्ता देवता आदि नहीं है। बुद्धि के अपराध न, अपने कर्मों के दोष से रोग उत्पन्न होते हैं, इसलिये बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिये कि देवता, पितर या राक्षस आदि को दोष न दे, उन को उपासना न दे। अपने को ही सुख और दुःख का कारण माने। इसलिये मनुष्य देव आदि से भय न कर के श्रेयस्कर मार्ग का अनुसरण

करे । देव आदि की पूजा, हितकारक पदार्थों का सेवन करना देव गण और उन से विरोध करना, ये सब बातें अपने हाथ में है ।

तत्र श्लोकाः । संख्या निमित्तं द्विविधं लक्षणं साध्यतां न च ।

उन्मादानां निदानेऽस्मिन् क्रियासूत्रं च भाषितम् इति ॥ २५ ॥

‘उन्माद निदान’ नामक अध्याय में उन्माद रोग की संख्या, निमित्त, दो प्रकार के लक्षण, साध्य और असाध्य भेद और चिकित्सासूत्र ये सब बातें कह दी हैं ।

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने

उन्मादनिदान नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

## अष्टमोऽध्यायः ।

अथातोऽपस्मारनिदान व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब ‘अपस्मार-निदान’ की व्याख्या करते हैं, ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

इह खलु चत्वारोऽपस्मारा भवन्ति वातपित्तकफसन्निपातनिमित्ताः ॥ ३ ॥

अपस्मार रोग चार प्रकार का होता है । यथा—( १ ) वातजन्य, ( २ ) पित्तजन्य, ( ३ ) कफजन्य और ( ४ ) सन्निपातजन्य ।

त एवंविधानां प्राणभृतां क्षिप्रमभिनिर्वर्तन्ते, तद्यथा—रजस्तमोभ्यामुपहतचेतसामुद्भ्रान्तविषमबहुदोषाणां समलविकृतोपहितान्यशुचीन्यभ्यवहारजातानि वैषम्ययुक्तेनोपयोगविधिनोपयुञ्जानानां तन्त्रप्रयोगमपि च विषममाचरतामन्याश्च शरीरचेष्टा विषमाः समाचरतामत्युपक्षीणदेहानां वा दोषाः प्रकुपिता रजस्तमोभ्यामुपहतचेतसामन्तरात्मनः श्रेष्ठतममायतनं हृदयमुपसृत्य पर्यवतिष्ठन्ते,

तथेन्द्रियायतनानि; तत्र चावस्थिताः सन्तो यदा हृदयमिन्द्रियायत-  
नानि चेरिताः कामक्रोधभयलोभमोहहर्षशोकचिन्तोद्वेगादिभिर्भूयः-  
सहसाऽभिपूरयन्ति, तदा जन्तुरपस्मरति ॥ ४ ॥

निदान और सम्प्राप्ति—अपस्मार रोग निम्न प्रकार के पुरुषों में बहुत  
जल्दी होता है। यथा—जिन का मन रज और तम से युक्त होता है,  
जिन में दोष उद्भ्रान्त, विषम या बहुत बड़े होते हैं, जिन का मन विक्षिप्त  
रहता है, अपवित्र, मलिन, विरोधी वस्तुओं से मिश्रित, अमगल विधि से  
भोजन करने वाले, अनुचित विधि से उपयोग करने वाले, शास्त्र के  
विरुद्ध आचरण करने वाले, शरीर की अन्य चेष्टाओं को विषम रूप से  
करने वाले, अत्यन्त क्षीण शरीर वाले तथा रज और तमोगुण से व्याप्त  
चित्त वाले ऐसे पुरुषों में अन्तरात्मा के प्रधान स्थान हृदय को बड़े हुए  
दोष घेर लेते हैं। इसी प्रकार भिन्न भिन्न इन्द्रियों के स्थानों में भी  
जब ये कुपित दोष फैल जाते हैं, तथा काम, क्रोध, भय, लोभ, मोह,  
हर्ष, शोक, चिन्ता, उद्वेग आदि द्वारा हृदय तथा इन्द्रिय स्थानों को भर  
देते हैं, उस समय मनुष्य की स्मृति ( भान ) नष्ट हो जाती है और  
वह ब्रह्मोश हो जाता है।

अपस्मारं पुन स्मृतिबुद्धिसत्त्वसंप्लवाद्बीभत्सचेष्टमावस्थिकं तमः-  
प्रवेशमाचक्षते ॥ ५ ॥

अपस्मार का लक्षण—स्मृति, बुद्धि और चित्त इन के विकृत होने से  
मुख में ब्राग, वमन, अंग-भंग आदि बीभत्स शरीर चेष्टाओं के होने से एक  
दम तमो गुण के कारण वेसुध स्थिति में आ जाने को 'अपस्मार'  
कहते हैं।

तस्येमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति । तद्यथा—भ्रूव्युदासः सततम-  
क्षणोर्विकृतमशब्दश्रवणं लालाशिङ्घाणकप्रस्रवणमनन्नाभिलषणम-  
रोचकात्रिपाकौ हृदयग्रहः कुक्षोराटोपो दौर्बल्यमङ्गमर्दो मोहस्तमसो  
दर्शनं मूर्च्छा भ्रमश्चाभीक्षणं च स्वप्ने मदनर्तनपीडनवेषथुव्यथन-

व्यधनपतनादीन्यपस्मारपूर्वरूपाणि भवन्ति । ततोऽनन्तरमपस्मारा भिनिर्वृत्तिरेव ॥ ६ ॥

अपस्मार के पूर्वरूप—अपस्मार के निम्नलिखित पूर्वरूप होते हैं । यथा—श्रुवों का संकुचित ( वक्र ) होना, आंखों का निरन्तर विकृत रहना, कान की श्रवण शक्ति का नष्ट होना ( जो बोला जाय उसे स्पष्ट न सुनना ), मुख से लार और नासिका से मल का बहना, भोजन में अनिच्छा, अरुचि, अविपाक, हृदयग्रह, पेट में अफारा, कृशता, अंगों में पीड़ा, मोह, अन्धकार का आंखों के सामने आना, मूर्च्छा, भ्रम ( चक्कर आना ), स्वप्न में मस्त हो कर नाचना, कांपना, पीड़न, बीधना, गिरना आदि पूर्व लक्षण होते हैं । इन लक्षणों के पीछे अपस्मार रोग उत्पन्न होता है ।

तत्रेदमपस्मारविशेषविज्ञानं भवति । तद्यथा—अभीक्ष्णमपस्मरन्तं क्षणे क्षणे संज्ञां प्रतिलभमानमुत्पिण्डिताक्षमसाम्ना विलपन्त-मुद्धमन्तं फेनमतीवाध्मातग्रीवमाविद्धशिरस्कं विषमविनताङ्गुलिकम-नवस्थितसक्थिपाणिपादमरुणपरुषश्यावनखनयनवदनत्वचमनवस्थि-तचपलपरुषरुक्षरूपदर्शिनं वातलानुपशयं विपरीतोपशयं वातेनाप-स्मरन्तं विद्यात् ॥ ७ ॥

वातजन्य अपस्मार के लक्षण—अपस्मार रोग के विशेष लक्षण ये हैं । यथा—रोगी बेसुध होकर शीघ्र ही थोड़े २ समय में सचेत हो जाता है, आंखों का बहुत फैलना, व्यर्थ की वकवांद करना, मुख से झाग गिरना, ग्रीवा का भरा एवं जकड़ा रहना, शिर का टेढ़ा रहना (शिर में बीधने के समान पीड़ा होना), अंगुलियों का विषम होना या मुड़ जाना, टांग, पांव और हाथ का चलाना ( इन में अस्थिरता ), नख, आंख, मुख और त्वचा का लाल, कठोर, खर्खर होना, चंचल, अस्थिर, कठोर, रुक्ष आदि रूप गिरते समय रोगी को दीखते हैं । वातकारक पदार्थों से रोग में वृद्धि और विरुद्ध पदार्थों से इस की शान्ति होती है, ये वातजन्य अपस्मार के लक्षण हैं ।

अभीक्षणमपस्मरन्तं क्षणे क्षणे संज्ञां प्रतिलभमानमवकूजन्त-  
मास्फालयन्तं च भूमिं हरितहारिद्रताम्रनखनयनवदनत्वचं रुधिरो-  
क्षितोप्रभैरवप्रदीप्तरुषितरूपदर्शिनं पित्तलानुपशयं विपरीतोपशयं  
पित्तेनापस्मरन्तं विद्यात् ॥ ८ ॥

पित्तजन्य अपस्मार—जो रोगी बार बार वेसुध होता हो और थोड़ी  
देर में फिर सचेत हो जाता हो ( वातजन्य अपस्मार की अपेक्षा से कुछ  
देरी में), गले से कूजने का सा शब्द होता हो, भूमि पर हाथ-पांव पटकता  
हो, नख, नयन, मुख और त्वचा हरे, हल्दी के समान वा ताम्बे के समान  
लाल, रक्त से भरे, तीव्र, भयंकर, प्रदीप्त, रंग वाले पदार्थों को देखता  
हो, पित्तकारक पदार्थों से रोग का बढ़े और विपरीत क्रियाओं से शान्त  
हो, ये पित्त से उत्पन्न अपस्मार के लक्षण हैं ।

चिरादपस्मरन्तं चिराच्च संज्ञां प्रतिलभमानं पतन्तमनतिविकृ-  
तचेष्टं लालामुद्गमन्तं शुक्लनखनयनवदनत्वचं शुक्लगुरुस्निग्धरूपदर्शिनं  
श्लेष्मलानुपशयं विपरीतोपशयं श्लेष्मणाऽपस्मरन्तं विद्यात् ॥ ९ ॥

कफजन्य अपस्मार—जो रोगी देर में बेहोश होता हो और देर में  
ही जागृत होता हो, गिरते समय जिस की चेष्टाये बहुत विकृत नहीं होती,  
मुख से लार गिरती हो, नख, आंख और त्वचा सफ़ेद हो गई हो, जिस  
को सफ़ेद, गुरु, स्निग्ध रूप दिखाई देता हो तथा कफवर्धक वस्तुओं से  
जिस का रोग बढ़े और विपरीत वस्तुओं से जिस का कम हो उस को  
कफजन्य अपस्मार का रोगी समझना चाहिये ।

समवेतसर्वलिङ्गमपस्मारं सान्निपातिक विद्यात्; तमसाध्यमाच-  
क्षते । इति चत्वारोऽपस्मारा व्याख्याताः ॥ १० ॥

सान्निपातिक अपस्मार—जिस अपस्मार में तीनों दोषों के लक्षण मिले-  
रहते हैं उस को सान्निपातिक अपस्मार समझना चाहिये । यह असाध्य है,  
इस प्रकार से चार प्रकार के अपस्मार कह दिये ।

तेषामागन्तुरनुबन्धो भवत्येव कदाचित्, स उत्तरकालमुपदे-

क्षयते । तस्य विशेषविज्ञानं यथोक्तैर्लिङ्गैर्लिङ्गाधिक्यमदोषलिङ्गानु-  
रूपं किञ्चित् ॥ ११ ॥

इन चार प्रकार के अपस्मार रोगों में भाग्य से कभी आगन्तुज अप-  
स्मार का सम्बन्ध होता है । इस का विस्तार आगे चिकित्सा स्थान में  
करेंगे । जिस अपस्मार में उपरोक्त लक्षणों से भिन्न लक्षण अथवा लक्षणों  
की अधिकता या दोषों के लक्षणों से भिन्न लक्षण दिखाई दें, उसे आग-  
न्तुज अपस्मार समझना चाहिये ।

“सर्वमेवं हितम् । हितान्यपस्मारिभ्यस्तीक्षणानि चैव संशोधना-  
न्युपशमनानि च यथास्वं, मन्त्रादीनि चागन्तुसंयोगे ॥ १२ ॥

चिकित्सा सूत्र—अपस्मार रोगी के लिये तीव्र संशोधन या तीव्र  
संशमन सब औषधियां हितकारी हैं । आगन्तुज अपस्मार में मंत्र आदि  
का प्रयोग करना होता है ।

तस्मिन् हि दक्षाध्वरोद्ध्वंसे देहिनां नाना दिक्षु विद्रवतामतिसर-  
णप्लवनधावनलङ्घनाद्यैर्देहविक्षोभणैः पुरा गुल्मोत्पत्तिरभूत्,  
हविष्प्राशान्मेहकुष्ठानां, भयोत्त्रासशोकैरुन्मादानां, विविधभूताशु-  
चिसंस्पर्शादपस्माराणां, ज्वरस्तु खलु महेश्वरललाटप्रभवः, तत्सं-  
तापाद्रक्तपित्तं, अतिव्यवायात्पुनर्नक्षत्रराजस्य राजयक्ष्मेति ॥ १३ ॥

भिन्न भिन्न रोगों की उत्पत्ति—प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति के  
यज्ञ का विध्वंस होने के समय सब प्राणी इधर उधर दिशाओं में भागे ।  
इन के भागने, कूदने, फांदने आदि शरीर को विक्षोभित करने वाली  
चेष्टाओं से ‘गुल्म’ रोग की उत्पत्ति हुई । हविष्य के अधिक खाने से ‘प्रमेह’  
और ‘कुष्ठ’ रोग की, भय, डर और शोक से ‘उन्माद’ रोग की; नाना  
प्रकार के अपवित्र पदार्थों के स्पर्श से ‘अपस्मार’ रोग की उत्पत्ति हुई ।  
ज्वर महादेव के माथे से उत्पन्न हुआ है, ज्वर के सन्ताप से ‘रक्त-  
पित्त’ रोग और नक्षत्रराज चन्द्रमा के अति स्त्रीसंग से ‘राजयक्ष्मा’ रोग  
उत्पन्न हुआ ।

भवन्ति चात्र । अपस्मरति वातेन पित्तेन च कफेन च ।

चतुर्थः सन्निपातेन प्रत्याख्येयस्तथाविधः ॥ १४ ॥

साध्यांस्तु भिषजः प्राज्ञाः साधयन्ति समाहिताः ।

तीक्ष्णैः संशोधनैश्चैव यथास्व शमनैरपि ॥ १५ ॥

यदा दोषनिमित्तस्य भवत्यागन्तुरन्वयः ।

तदा साधारणं कर्म प्रवदन्ति भिषग्वराः ॥ १६ ॥

सर्वरोगविशेषज्ञः सर्वोपधविशेषवित् ।

भिषक् सर्वामयान् हन्ति न च मोहं निगच्छति ॥ १७ ॥

इत्येतदखिलेनोक्तं निदानस्थानमुत्तमम् ।

साध्य और असाध्य—अपस्मार चार प्रकार का है । वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य और सन्निपातजन्य । इन में सन्निपातजन्य असाध्य है । साध्य अपस्मारों को बुद्धिमान् वैद्य तीक्ष्ण संशोधन एवं संशमन क्रिया से अच्छा करते हैं और जिस समय दोषज और आगन्तुज दोनों अपस्मार मिले रहते हैं उस समय उत्तम वैद्य दोनों प्रकार की मिश्रित चिकित्सा करते हैं ।

रोगज्ञान का फल—सब रोगों को और सब ओषधियों को भली प्रकार से जानने वाला वैद्य सब प्रकार के रोगों को शान्त कर सकता है और कभी भी घबराता नहीं । इस प्रकार से उत्तम निदानस्थान को सम्पूर्ण रूप में कह दिया है ।

निदानार्थकरो रोगो रोगस्याप्युपलभ्यते ॥ १८ ॥

तद्यथा ल्वरसन्तापाद्रक्तपित्तमुदीर्यते ।

रक्तपित्ताब्ज्वरस्ताभ्यां शोषश्चाप्युपजायते ॥ १९ ॥

प्लीहाभिवृद्ध्या जठरं जठराच्छोथ एव च ।

अर्शोभ्यो जठरं दुःखं गुल्मश्चाप्युपजायते ॥ २० ॥

प्रतिश्यायादथो कासः कासात्संजायते क्षयः ।

क्षयो रोगस्य हेतुत्वे शोषस्याप्युपजायते ॥ २१ ॥

एक रोग के कारण दूसरा रोग—एक रोग दूसरे रोग का निदान

अर्थात् उत्पादक कारण भी होता है। जैसे—ज्वर-सन्ताप से रक्तपित्त रोग उत्पन्न होता है। रक्तपित्त और ज्वर से शोष रोग उत्पन्न होता है। प्लीहा के बढ़ने से उदर रोग, उदर रोग से शोथ रोग उत्पन्न होता है। अर्श रोग से दुःखदायी उदर रोग तथा गुल्म रोग भी उत्पन्न हो जाता है। प्रतिश्याय से कास और कास रोग से क्षय तथा क्षय रोग से दूसरे अन्य रोग या शोष ही उत्पन्न हो जाता है।

ते पूर्व केवला रोगाः पश्चाद्धेत्वर्थकारिणः ।

उभयार्थकरा दृष्टास्तथैवैकार्थकारिणः ॥ २२ ॥

कश्चिद्धि रोगो रोगस्य हेतुर्भूत्वा प्रशाम्यति ।

न प्रशाम्यति चाप्यन्यो हेत्वर्थं कुरुतेऽपि च ॥ २३ ॥

ये रोग प्रथम स्वयं रोग रूप होते हैं, परन्तु पीछे से दूसरे रोगों के कारण बन जाते हैं। परन्तु कई रोग दोनों कार्य करते हैं अर्थात् अपने आप रोग रूप से रहते हुए भी कारण रूप बनकर दूसरे रोगों को उत्पन्न करते हैं। कोई रोग दूसरे रोग को उत्पन्न करके स्वयं शान्त हो जाता है। परन्तु कई रोग स्वयं शान्त न होकर दूसरे रोगों के कारण बनते हैं।

एवं कृच्छ्रतमा नृणां दृश्यन्ते व्याधिसंकराः ।

प्रयोगापरिशुद्धत्वात्तथा चान्योन्यसंभवात् ॥ २४ ॥

अयोगः शमयेद्व्याधि योऽन्यमन्यमुदीरयेत् ।

नासौ विशुद्धः, शुद्धस्तु शमयेद्यो न कोपयेत् ॥ २५ ॥

शुद्ध प्रयोग का लक्षण—इस प्रकार से मनुष्यों में होने वाले अनेक प्रकार के कष्टसाध्य रोग दिखाई पड़ते हैं। एक औषध का प्रयोग अविशुद्ध होने से तथा एक से दूसरा रोग उत्पन्न होने से व्याधियों का संकर अर्थात् मिश्रण दिखाई देता है।<sup>१</sup> जो प्रयोग एक रोग को शान्त करे परन्तु

१. जिस प्रकार अतिसार रोग में अफीम आदि देकर, स्तम्भन करने से पेट में अफरा या शूल हो जाता है। एक समान रूप होने से प्रतिश्याय से कास रोग उत्पन्न हो जाता है।



साथ में दूसरे रोग को उत्पन्न कर दे वह प्रयोग विशुद्ध नहीं । शुद्ध प्रयोग तो वही है जो उपस्थित रोग को शान्त करदे, तथा नया रोग उत्पन्न न करे ।

एको हेतुरनेकस्य तथैकस्यैक एव हि ।

व्याधेरेकस्य चानेकां बहूनां बहवोऽपि च ॥ २६ ॥

ज्वरभ्रमप्रलापाद्या दृश्यन्ते रूक्षहेतुजाः ।

रूक्षेणैकेन चाप्येको ज्वर एवोपजायते ॥ २७ ॥

हेतुभिर्वहुभिश्चैको ज्वरो रूक्षादिभिर्भवेत् ।

रूक्षादिभिर्ज्वराद्याश्च व्याधयः संभवन्ति हि ॥ २८ ॥

कारण भेद—अनेक रोगों का एक कारण, एक रोग का एक ही कारण, एक रोग के अनेक कारण, बहुत से रोगों के बहुत से कारण भी होते हैं । जैसे, एक रूक्ष कारण से ज्वर, भ्रम, प्रलाप आदि बहुत रोग होते हैं । एक रूक्ष कारण से ज्वर रूप एक ही रोग उत्पन्न होता है । रूक्ष आदि बहुत से कारणों को लेकर ज्वर एक ही रोग उत्पन्न होता है और रूक्ष आदि बहुत से कारणों से ज्वर आदि अनेक रोग भी उत्पन्न होते हैं ।

लिङ्गं चैकमनेकस्य तथैवैकस्य लक्ष्यते ।

बहून्येकस्य च व्याधेर्बहूनां स्युर्वहूनि च ॥ २९ ॥

विषमारम्भमूलानां लिङ्गमेकं ज्वरो मतः ।

ज्वरस्यैकस्य चाप्येकः संतापो लिङ्गमुच्यते ॥ ३० ॥

विषमारम्भमूलैश्च ज्वर एको निरुच्यते ।

लिङ्गैरेतैर्ज्वरश्वासहिक्काद्याः सन्ति चामयाः ॥ ३१ ॥

लक्षण भेद—अनेक रोगों का एक लक्षण, एक रोग का एक ही लक्षण, एक रोग के बहुत से लक्षण और अनेक रोगों के बहुत से लक्षण होते हैं । जैसे -उष्ण की विषमता से उत्पन्न होने वाले रोगों का ज्वर रूप एक लक्षण होता है । ज्वर रोग का एक ही लक्षण संताप है । विषमारम्भ मूलक अनेक लक्षणों से युक्त अकेला ज्वर होता है । इसी प्रकार विषमारम्भ मूलक लक्षणों से ज्वर, श्वास, हिचकी आदि अनेक रोग होते हैं ।

एका शान्तिरनेकस्य तथैवैकस्य लक्ष्यते ।

व्याधेरेकस्य चानेका बहूनां बह्वथ एव च ॥ ३२ ॥

शान्तिरामाशयोत्थानां व्याधीनां लंघनक्रिया ।

ज्वरस्यैकस्य चाप्येका शान्तिर्लङ्घनमुच्यते ॥ ३३ ॥

तथा लघ्वशनाद्याश्च ज्वरस्यैकस्य शान्तयः ।

एताश्चैव ज्वरश्वासहिक्कादीनां प्रशान्तयः ॥ ३४ ॥

चिकित्सा विधान—अनेक रोग एक ही चिकित्सा से शान्त होजाते हैं, एक रोग की शान्ति एक ही प्रकार से, एक रोग की शान्ति अनेक प्रकार से और अनेक रोगों की शान्ति अनेक प्रकार से भी होती है । जैसे आमाशय से उत्पन्न होने वाले अनेक रोगों की शान्ति उपवास क्रिया से, ज्वर अकेले की शान्ति उपवास से हो जाती है । इसी प्रकार अकेले ज्वर को शान्त करने के लिये लघु भोजन आदि अनेक उपाय हैं । लघु भोजन आदि अनेक उपाय ज्वर, श्वास, हिचकी आदि अनेक रोगों को शान्त करते हैं ।

सुखसाध्यः सुखोपायः कालेनाल्पेन साध्यते ।

साध्यते कृच्छ्रसाध्यस्तु यत्नेन महता चिरात् ॥ ३५ ॥

सुखसाध्य और कृच्छ्रसाध्य—सुखसाध्य रोग, सुखपूर्वक चिकित्सा करने पर थोड़े समय में अच्छा हो जाता है । कष्टसाध्य रोग बहुत प्रयत्न करने पर भी देर में अच्छा होता है ।

याति नाशेषतां व्याधिरसाध्यो याप्यसंज्ञितः ।

परोऽसाध्यः क्रियाः सर्वाः प्रत्याख्येयोऽतिवर्तते ॥ ३३ ॥

नासाध्यः साध्यतां याति, साध्यो याति त्वसाध्यताम् ।

पादावचाराद्वैवाद्वा यान्ति भावान्तरं गदाः ॥ ३७ ॥

वृद्धिस्थानक्षयावस्थां रोगाणामुपलक्ष्येत् ।

सुसूक्ष्मामपि च प्राज्ञो देहाग्निबलचेतसाम् ॥ ३८ ॥

व्याध्यवस्थाविशेषान् हि ज्ञात्वा ज्ञात्वा विचक्षणः ।

तस्यां तस्यामवस्थायां तत्तच्छ्रेयः प्रपद्यते ॥ ३९ ॥

याप्य और असाध्य—याप्य संज्ञक असाध्य रोग कभी भी जड़-मूल से नष्ट नहीं होते (वे पथ्य और औषध द्वारा कुछ काल तक ठके रहते हैं) । और असाध्य रोग सब प्रकार की चिकित्सा करने पर भी शान्त नहीं होते । असाध्य रोग साध्य नहीं हो सकते, परन्तु साध्य रोग असाध्य बन जाते हैं । सब रोगों की चिकित्सा के जो चार पाद हैं, इन के अपचार से अथवा देव बल के कारण रोग दूसरी स्थिति (असाध्य अवस्था) में पहुँच जाते हैं । बुद्धिमान् वैद्य को उचित है कि दोष की वृद्धि, स्थान और क्षय की परीक्षा भली प्रकार करे । रोगी के शरीर, जाठराग्नि, बल और चित्तवृत्ति का सूक्ष्मता से ज्ञान प्राप्त करे । रोग की विशेष अवस्थाओं को भली प्रकार पूर्ण रूप से समझ कर उस प्रकार से शान्तिकारक चिकित्सा करने पर सुख ( धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थ ) प्राप्त होते हैं ।

प्रायस्तिर्यग्गता दोषा कुशयन्त्यातुराँश्चिरम् ।

तेषु न त्वरया कुर्याद्देहाग्निबलविक्रियाम् ॥ ४० ॥

प्रयोगैः क्षपयेद्वा तान् सुखं वा कोष्ठमानयेत् ।

ज्ञात्वा कोष्ठप्रपन्नांस्तान् यथास्वं तं हरेद्द्वयः ॥ ४१ ॥

ज्ञानार्थं यानि चोक्तानि व्याविलिङ्गानि सग्रहे ।

व्याधयस्ते तदात्वे तु लिङ्गानां गानि नामयाः ॥ ४२ ॥

विकाराः प्रकृतिश्चैव द्वयं सर्वं समासतः ।

तद्वेतुवशागं हेतोरभावान्न प्रवर्तते ॥ ४३ ॥

प्रायः वात आदि दोष कुमार्ग में जाकर रोगियों को बहुत समय तक पीड़ित करते हैं । ऐसे स्थानों में शीघ्रता से काम नहीं लेना चाहिये । अपितु रोगी के शरीर और अग्नि-बल को जानकर औषध-प्रयोग द्वारा दोषों को धीरे धीरे कम करना चाहिये । अथवा दोषों को कोष्ठ-स्थान में लाना चाहिये । और जब दोष कोष्ठ में आ जायें तब योग्य रीति से बाहर निकाल देने चाहियें । रोगों के ज्ञान के लिये जो लक्षण संक्षेप में कहे हैं, उन को एक स्वतन्त्र रोग समझना चाहिये । परन्तु जिस स्थान पर दूसरे

रोगों का ज्ञान कराया गया है वहां पर इन लक्षणों को लक्षण ही समझना चाहिये । विकार और प्रकृति इन दो अवस्थाओं का जो वर्णन किया है ये दोनों ही कारण के अधीन है । कारण के अभाव से इन दोनों में से एक भी नहीं रह सकता ।

तत्र श्लोकाः ।

हेतवः पूर्वरूपाणि रूपाण्युपशयस्तथा ।

संप्राप्तिः पूर्वमुत्पत्तिः सूत्रमात्रं चिकित्सितम् ॥ ४४ ॥

ज्वरादीनां विकाराणामष्टानां साध्यता न च ।

पृथगेकैकशश्रोक्ता हेतुलिङ्गोपशान्तयः ॥ ४५ ॥

हेतुपर्यायनामानि व्याधीना लक्षणस्य च ।

निदानस्थानमेतावत्संग्रहेणोपदिश्यते ॥ ४६ ॥ इति ॥

इस निदान स्थान में ज्वर आदि आठ रोगों के हेतु, पूर्वरूप, रूप, उपशय, सम्प्राप्ति, पूर्वोत्पत्ति, चिकित्सा सूत्र, साध्यता और असाध्यता इन का वर्णन किया है । हेतु, लिङ्ग, उपशय, व्याधि, लक्षण और हेतु के पर्यायवाची शब्द ये सब विषय संक्षेप में कह दिये हैं ।

इत्यश्विवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने-

ऽपस्मारनिदान नामाष्टमोऽध्यायः ।

इति निदानस्थानं संपूर्णम् ।



## विमानस्थानम्

### प्रथमोध्यायः

अथातो रसविमानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब इस के अनन्तर 'रस-विमान' का वर्णन करेंगे ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

इह खलु व्याधीना निमित्तपूर्वरूपरूपोपशयसंख्याप्राधान्यविधिविकल्पवलकालविशेषाननुप्रविश्यानन्तरं<sup>१</sup> रसद्रव्यदोषविकारभेषजदेशकालवलशरीराहारसारसात्म्यसत्त्वप्रकृतिवयसां मानमवहितमनसा यथावज्ज्ञेयं भवति भिपजा, रसादिमानज्ञानायत्तत्वात् क्रियायाः । न ह्यमानज्ञो रसदोषादीनां भिपक्व व्याधिनिग्रहसमर्थो भवति । तस्मात् रसादिमानज्ञानार्थं विमानस्थानमुपदेक्ष्यामोऽग्निवेश ! ॥ ३ ॥

विमान-स्थान का प्रयोजन—चिकित्सा में सफलता चाहने वाले वैद्य को चाहिये कि सब से प्रथम रोगों का निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय, संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प ( भेद ), वल, काल, विशेष ( संख्या आदि पांच, सम्प्राप्ति के भेद ) को भली प्रकार जानकर, अनन्तर सावधान मन होकर मधुर आदि रस, ( भेषज द्रव्य ), वात आदि दोष, विकार, देश ( भूमि और रोगी ), काल ( नित्य और आवस्थिक ), वल, शरीर, सार ( त्वग्, रक्त, ओज आदि ), आहार ( भोजन ), सात्म्य ( ओक-सात्म्य ), सत्त्व ( मन ), प्रकृति ( वात आदि ), वयस् ( काल के प्रमाण

१ 'दोषभेषजदेश' इति च पाठः ।

की अपेक्षा से वाल्यावस्था आदि ) आदि की रोगी में परीक्षा भली प्रकार करनी चाहिये । क्योंकि चिकित्सा क्रिया का आधार रसादि ज्ञान ही है इस लिये रसादि का ज्ञान भली प्रकार करना चाहिये । रसादि को न जानने वाला वैद्य रोगों को रोकने और उन की चिकित्सा में सफल नहीं हो सकता । इसलिये हे अग्निवेश ! रसादि ज्ञान के अधीन चिकित्सा के होने से, रसादि ज्ञान के लिये विमान-स्थान का उपदेश करेंगे ।

तत्रादौ रसद्रव्यदोषविकारप्रभावान् वक्ष्यामः ॥ ४ ॥

इन में सब से प्रथम मधुर आदि रस, भेषज द्रव्य, वात आदि दोष और विकार और इन के प्रभावों को कहेंगे ।

रसास्तावत् षट् मधुराम्ललवणकटुतिक्तकषायाः । ते सम्यगुपयुज्यमानाः शरीरं यापयन्ति, मिथ्योपयुज्यमानास्तु खलु दोषप्रकोपनायोपकल्पयन्ति ॥ ५ ॥

रस छः हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय । इन का यदि भली प्रकार उपयोग किया जाय तो ये शरीर को स्वस्थ अवस्था में रखते हैं और यदि अन्यथा योग अर्थात् अन्यथा रूप में सेवन किये जावें तो वातादि दोषों को प्रकुपित करके रोगों को उत्पन्न करते हैं ।

दोषाः पुनस्त्रयो वातपित्तश्लेष्माणः । ते कृतिभूताः शरीरोपकारका भवन्ति, विकृतिमापन्नास्तु खलु नानाविधैर्विकारैः शरीरमुपतापयन्ति ॥ ६ ॥

दोष तीन हैं । वात, पित्त और कफ । ये तीनों दोष अपनी प्रकृति अर्थात् समान अवस्था में रहकर शरीर के उपकार होते हैं और ये ही दोष विपम रूप में विकार को पाकर शरीर को नाना प्रकार के रोगों से पीडित करते हैं ।

तत्र दोषमेकैकं त्रयस्त्रयो रसा जनयन्ति, त्रयस्त्रयश्चोपशमयन्ति । तद्यथा कटुतिक्तकषाया वातं जनयन्ति, मधुराम्ललवणास्त्वेनं शमयन्ति । कटुकांम्ललवणाः पित्तं जनयन्ति, मधुरतिक्तकषायास्त्वेनं-

शमयन्ति । मधुराम्ललवणाः श्लेष्माणं जनयन्ति, कटुतिक्तकपाया-  
स्त्वेनं शमयन्ति ॥ ७ ॥

रसों के प्रभाव—दोषों का शमन करना और दोषों को कुपित करना यह रसों का ही प्रभाव है । इन में तीन तीन रस एक एक दोष को उत्पन्न करते हैं और तीन तीन रस एक एक दोष को शान्त करते हैं । जैसे—कटु, तिक्त और कपाय ये तीन रस वायु को उत्पन्न करते हैं । मधुर, अम्ल और लवण ये तीन रस वायु का शमन करते हैं । कटु, अम्ल और लवण ये तीन रस पित्त को उत्पन्न करते हैं । मधुर, तिक्त और कपाय ये तीन रस पित्त का शमन करते हैं । मधुर, अम्ल और लवण ये तीन रस कफ को उत्पन्न करते हैं और कटु, तिक्त और कपाय ये तीन रस कफ को शमन करते हैं ।

रसदोषसन्निपाते तु ये रसा यैर्दोषैः समानगुणाः समानगुणभू-  
यिष्ठा वा भवन्ति ते तानभिवर्धयन्ति, विपरीतगुणास्तु विपरीतगुण-  
भूयिष्ठा वा शमयन्त्यभ्यस्यमाना इत्येतद्-व्यवस्थाहेतोः षट्त्वमुपदि-  
श्यते रसानां परस्परेणासंसृष्टानां, त्रित्वं च दोषाणाम् । संसर्गविकल्प-  
विस्तरो ह्येषामपरिसंख्येयो भवति, विकल्पभेदापरिसंख्येयत्वात् ॥८॥

रस और दोषों के सन्निपात होने पर जो जो रस दोषों के समान गुण वाले तथा समान स्वभाव के होते हैं वे उन दोषों को बढ़ाते हैं, विशेषतः जब ये रस नित्य प्रति निरन्तर सेवन किये जाते हैं । इसी प्रकार जो रस जिन दोषों के साथ विपरीत गुण और विपरीत स्वभाव वाले होते हैं वे सेवन करने पर उन दोषों को शमन करते हैं । इस सामान्य और विपर्यय के कारण जो वृद्धि और ह्रास का नियम है उस की दृष्टि से परस्पर न मिले हुए रस छः तथा परस्पर न मिले हुए दोष तीन हैं । इन्हीं में उपरोक्त व्यवस्था सम्भव है । इन के पारस्परिक संसर्ग में यह संभव नहीं । क्योंकि इन रसों और दोषों का परस्पर संयोग होने से वे असंख्य हो जाते हैं । क्योंकि विकल्पों के भेद असंख्य है ।

तत्र खल्वनेकरसेषु द्रव्येष्वनेकदोषात्मकेषु च विकारेषु रस-

दोषप्रभावमेकैकत्वेनाभिसमीक्ष्य ततो द्रव्यविकारप्रभावतत्त्वं व्यव-  
स्येत् ।

इन में अनेक रस वाले द्रव्यों में और अनेक दोषों को प्रारम्भ करने वाले विकारों में रस और दोषों के प्रभाव को पृथक् पृथक् रूप से देखकर द्रव्य-विकार के प्रभाव का निश्चय करे । अर्थात् जहां पर एक रस और एक ही दोष हो वहां पर रस और दोष के प्रभाव से द्रव्य-विकार के प्रभाव का ज्ञान हो ही जाता है । परन्तु जहां पर अनेक रस और अनेक दोष मिले हो वहां पर भी छः रसों और तीन दोषों के प्रभाव का निश्चय कर लेना चाहिये ।

नत्वेवं खलु सर्वत्र । न हि विकृतिविषमसमवेतानां नानात्म-  
कानां द्रव्याणां परस्परेण चोपहतानामन्यैश्च विकल्पनैर्विकल्पिता-  
नामवयवप्रभावानुमानेन समुदायप्रभावतत्त्वमध्यवसातुं शक्यं । तथा-  
युक्ते हि समुदाये समुदायप्रभावतत्त्वमेवोपलभ्य ततो रसद्रव्यवि-  
कारप्रभावतत्त्वं व्यवस्येत् ॥ ९ ॥

परन्तु इस प्रकार सब स्थानों पर जाना नहीं जा सकता । क्योंकि विकृति के कारण विषम रूप से मिले हुए रसों और विकारों वाले और

१. रस का विकृति-समवाय जैसे मधुर भात में । मधुर गुण स्वभाव से स्नेहकारी और वृण्य है, परन्तु द्रव्य के विकार रूप भात में वह मधु-  
रता वह गुण नहीं करती ।

रसों का विषम समवाय अर्थात् विषम मेल जैसे तिल में कषाय, कटु, तिक्त और मधुर चार रस मिले हैं । यदि वे विना मात्रा के मिले न होते तो तिल भी पित्त और श्लेष्मा को हरने वाला वा त्रिदोष-हारी होता परन्तु तिल में रसों का विषम समवाय अर्थात् विषम रूप से मेल है अतः वह वैसा नहीं है । प्रत्युत पित्त और कफ को उत्पन्न करता है । पदार्थों में कही तो ये रस अपना ठीक २ फल उत्पन्न करते हैं और कही नहीं करते इसी से उन के सम-समवाय या विषम-समवाय का अनुमान किया जाता है ।



परस्पर विरोधी नाना रूप के द्रव्यों के और जिन से नाना प्रकार के विकृत रूप बनाये गये हों उन के समुदाय के प्रभाव का अवश्व के प्रभाव द्वारा अनुमान-बल से निश्चय नहीं किया जा सकता । जहां रस या दोष विषम रूप में मिले हों ऐसे समुदाय में ( द्रव्य और विकार में ) व्याधि का बल और द्रव्य का उसको शान्त करने का सामर्थ्य जानकर द्रव्य एवं विकार के प्रभाव का निश्चय करे ।

तस्माद्रसप्रभावतश्च द्रव्यप्रभावतश्च दोषप्रभावतश्च विकारप्रभावतश्च तत्त्वमुपदेक्ष्यामः—तत्रैष रसद्रव्यदोषविकारप्रभाव उपदिष्टो भवति ॥ १० ॥

इसलिये चिकित्सा में रस-प्रभाव, द्रव्य-प्रभाव, दोष-प्रभाव और विकार-प्रभाव इन चारों की अपेक्षा है । इस से उन चारों प्रकार के प्रभावों का यथार्थ उपदेश करेंगे । रसों और द्रव्यों का वात, पित्त और कफ इन दोषों को कुपित और शान्त करने का प्रभावर स-निरूपण अध्याय में कह दिया ।

द्रव्यप्रभावं पुनरुपदेक्ष्यामः—तैलसर्पिर्मधूनि वातपित्तश्लेष्मप्रशमनार्थानि द्रव्याणि भवन्ति । तत्र तैलं स्नेहौष्ण्यगौरवोपपन्नत्वाद्वातं जयति सततमभ्यस्यमानम् । वातो हि रौक्ष्यशैत्यलाघवोपपन्नो विरुद्धगुणो भवति, विरुद्धगुणसन्निपाते हि भूयसाऽल्पमवजीयते, तस्मात्तैलं वातं जयति सततमभ्यस्यमानम् । सर्पिः खल्वेवमेव पित्तं जयति, माधुर्याच्छैत्यान्मन्दवीर्यत्वाच्च, पित्तं ह्यमधुरमुष्णं तीक्ष्णं च । मधु

एक ही पदार्थ के नाना रूप बन जाने से भी उन के गुणों में भेद आता है । रसों और दोषों का दो प्रकार का समवाय अर्थात् मेल होता है । (१) प्रकृति के अनुकूल (२) प्रकृति के अननुकूल । जहां नाना रस मिलकर भी प्रकृति के गुणों का नाश नहीं करते वैसे मेल 'प्रकृति-सम समवाय' कहाता है । जहां वे विकृत होकर मूल पदार्थ के गुणों का नाश कर देते हैं, वहां 'विकृति विषम-समवाय' कहाता है । क्योंकि वहां विकृति हो जाने से विषम अर्थात् प्रकृति के गुणों से रसों का विपरीत मेल होता है ।

च श्लेष्माणं जयति, रौक्ष्यात्तैक्ष्ण्यात् कषायत्वाच्च । श्लेष्मा हि स्निग्धो मन्दो मधुरश्च ॥ ११ ॥

द्रव्य के प्रभाव का अब उपदेश करते हैं । तैल वायु को, घी पित्त को और मधु कफ को शान्त करने वाले द्रव्य हैं । इन में तैल, स्नेह, उष्ण और गुरु होने से निरन्तर सेवन करने से वायु को शान्त करता है । क्योंकि वायु, रूक्ष, शीत और लघु होने से तैल से विपरीत गुण वाला है । दो विरोधी गुणों के मिश्रण में जो गुण अधिक बलवान् होता है वह निर्बल को जीत लेता है । इसलिये तैल निरन्तर सेवन से वायु को जीत लेता है । इसी प्रकार घी भी पित्त को जीतता है, घी, मधुर, शीत एवं मन्दवीर्य है और पित्त अमधुर ( कटु, अम्ल ), उष्ण और तीक्ष्ण है । वह भी विपरीत गुण होने से पित्त को जीतता है । मधु कफ को जीतता, शमन करता है । मधु रूक्ष, तीक्ष्ण और कषाय है । कफ स्निग्ध, मन्द और मधुर है इसलिये मधु कफ से विपरीत गुण वाला है ।

यच्चान्यदपि किञ्चिद्द्रव्यमेवं वातपित्तकफेभ्यो गुणतो विपरीतं विरुद्धं तच्चैताञ्जयत्यभ्यस्यमानम् ॥ १२ ॥

इसी प्रकार अन्य जो कोई द्रव्य गुणों में वात, पित्त, कफ से विपरीत गुण वाला होता है, वह निरन्तर सेवन करने से वात, पित्त और कफ को शान्त करता है ।

अथ खलु त्रीणि द्रव्याणि नात्युपयुञ्जीताधिकमन्येभ्यो द्रव्येभ्यः । तद्यथा पिप्पलीः, क्षारं, लवणमिति ॥ १३ ॥

इन निम्न-लिखित तीन द्रव्यों को अन्य द्रव्यों की अपेक्षा अधिक सेवन नहीं करे । १. पिप्पली, २. क्षार और ३. लवण ।

पिप्पल्यो हि कटुकाः सत्यो मधुरविपाका गुर्व्यो नात्यर्थं स्निग्धोष्णाः प्रकृदिन्यो भेषजाभिमतश्च । ताः सद्यः शुभाशुभकारिण्यो भवन्ति, आपातभद्राः प्रयोगसमसाद्-गुण्यात्, दोषसंचयानुबन्धाः । सततमुपयुज्यमाना हि गुरुप्रकृदित्वाच्छ्लेष्माणमुत्क्लेशयन्ति, त्रौण्या-

पित्तं, नच वातप्रशमनायोपकल्पन्तेऽल्पस्नेहोष्णभावात्, योगवाहिन्यस्तु खलु भवन्ति । तस्मात्पिप्पलीर्नात्युपयुञ्जीत ॥ १४ ॥

पिप्पली ( शुष्क पिप्पली ) कटु रस की होकर भी विपाक में मधुर, गुरु, न अति स्निग्ध, न अधिक उष्ण, शरीर के धातुओं को क्लिन्न करने ( गलाने ) वाली है, ओषधि रूप से ठीक भी है, तो भी शीघ्र ही शुभ-अशुभ फल को दिखाने वाली, आपत्ति के समय में शुभफलदायक, सम्यक् प्रयोग करने में गुणकारी और परिणाम में निरन्तर उपयोग करने से दोष का संचय करने वाली होती है । क्योंकि पिप्पली का निरन्तर उपयोग करने से यह भारी तथा क्लेद उत्पन्न करने वाली होने से कफ को कुपित करती है । उष्ण होने से पित्त को कुपित करती है । यह विपरीत गुण होने पर भी वायु का शमन नहीं करती । क्योंकि इन में स्नेह और उष्ण गुण न्यून रहता है । पिप्पली योगवाही है अर्थात् जिस द्रव्य के साथ मिलाकर देते हैं उसी द्रव्य के समान कर्म करने वाली होती है । इसी लिये ज्वर, गुल्म, कुष्ठ आदि में इस का उपयोग है । इसलिये पिप्पली का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिये । ( पिप्पली का भोजनादि में अति प्रयोग हानिकारक है, रसायन में नहीं ) ।

क्षारः पुनरौष्ण्यतैर्दण्डलाघवोपपन्नः क्लेदयत्यादौ पश्चादुपशोपयति । स पचनदहनभेदनार्थमुपयुज्यते । सोऽतिप्रयुज्यमानः केशाक्षिहृदयपुंस्त्वोपघातकरः सपद्यते । ये ह्येनं ग्रामनगरनिगमजनपदाः सततमुपयुञ्जते तेऽप्यान्ध्यपाण्ड्यखालित्यपालित्यभाजो हृदयापकर्तिनश्च भवन्ति, तद्यथा प्राच्याश्चीनाश्च । तस्मात्क्षारं नात्युपयुञ्जीत ॥ १५ ॥

क्षार, उष्ण, तीक्ष्ण और लवण रस से युक्त होते हैं । ये क्षार पहिले तो शरीर को हित करते हैं और पीछे से शुष्क करते हैं । शोफ आदि संघात या पित्त, दृष्ट दोषों को जलाता है, पकाता है और फोड़ता है । इस लिये पकाने, उखाड़ने और फोड़ने के लिये इस का उपयोग किया जाता है । यही क्षार यदि अधिक मात्रा में सेवन किया जाये तो केश ( बाल ),

आंख, हृदय और पुरुषत्व को नाश करता है । इसलिये जिस ग्राम, नगर बस्ती प्रान्त वा देश के लोग इस का अधिक उपयोग करते हैं वे अन्धे, नपुंसक, बालों का गिरने (गंज) या पकने (पलित) और हृदय के रोग से विशेष रूप से पीड़ित होते हैं । जैसे—प्राच्य (कामरूप) देश के और चीनी । इसलिये क्षार का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिये ।

लवणं पुनरौष्ण्यतैक्ष्ण्योपपन्नमनतिगुर्वनतिस्निग्धमुपक्लेदि विसं-  
सनसमर्थमन्नद्रव्यरुचिकरं आपातभद्रं प्रयोगसमसाद्गुण्यात्, दोष-  
संचयानुबन्धं, तद्रोचनपाचनोपक्लेदनविसंसनार्थमुपयुज्यते । तदत्यर्थ-  
मुपयुज्यमानं ग्लानिशैथिल्यदौर्बल्याभिनिर्वृत्तिकरं शरीरस्य भवति ।  
ये ह्येनद् ग्रामनगरनिगमजनपदाः सततमुपयुञ्जते, ते भूयिष्ठं ग्लास्त्वः  
शिथिलमांसशोणिता अपरिक्षेसहाश्च भवन्ति । तद्यथा बाह्लीक-  
सौराष्ट्रिकसैन्धवसौवीरकाः, ते हि पयसाऽपि सदा लवणमश्नन्ति,  
येऽपीह भूमेरत्यूषरा देशास्तेष्वौषधिवीरुद्वनस्पतिवानस्पत्या न जाय-  
न्तेऽस्पतेजसो वा भवन्ति लवणोपहतत्वात् । तस्माल्लवणं नात्युपयु-  
ञ्जीत । ये ह्यतिलवणसात्म्याः पुरुषास्तेषामपि खालित्येन्द्रलुप्तपालि-  
त्यानि तथा वलयश्चाकाले भवन्ति ॥ १६ ॥

लवण, उष्ण एवं तीक्ष्ण दोनों गुणों से युक्त है, न तो बहुत गुरु और न बहुत स्निग्ध होता है । क्लिन्न करने वाला, विसंसन (बहाने की) शक्ति वाला, भोजन में रुचि पैदा करने वाला, भली प्रकार उपयोग करने पर भी आपत्ति में कल्याणकारी, परन्तु पीछे से दोषों को कुपित करने वाला होता है । इस का उपयोग रुचि पैदा करने में, पाचन के लिये, क्लिन्न करने के लिये और विसंसन के लिये प्रयुक्त होता है । इस का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में करने से शरीर में ग्लानि, शिथिलता और दुर्बलता उत्पन्न होती है । जिस ग्राम, नगर, प्रान्त वा देश के व्यक्ति इस का निरन्तर उपयोग करते हैं, उन को ग्लानि बहुत रहती है और उन के रुधिर, स्नायु और मांस शिथिल हो जाते हैं । वे निर्बल होने से कुेश सहने में

असमर्थ रहते हैं । जैसे—बाह्यीक (बल्लू), सौराष्ट्रिक (गुजराती, काठियावाड़ी), सैन्धव ( सिन्धु देशी ) और सौवीर देश के लोग । ये लोग दूध के साथ भी लवण खाते हैं ।

उपर भूमियों में ओषधि ( फलवाली ), लता, वनस्पति, फल पुष्प वाले वृक्ष उत्पन्न नहीं होते । यदि होते हैं तो वे अल्पबल होते हैं । नमक ही इन की शक्ति को मार देता है, इसलिये नमक का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिये ।

इस के अतिरिक्त जिन को लवण बहुत अनुकूल पड़ता है उन के बाल शीघ्र गिर जाते हैं, जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, इन्द्रलुप्त का रोग हो जाता है और युवावस्था में ही चेहरे पर झुर्रियां पड जाती हैं ।

तस्मात्तेषां तत्सात्म्यतः क्रमेणापगमनं श्रेयः; सात्म्यमपि हि क्रमेणोपनिवर्त्यमानमदोषमल्पदोषं वा भवति ॥ १७ ॥

इसलिये इन पुरुषों को 'न वेगान्धारणीय' ( सूत्र० ७ ) अध्याय में बतलाये हुए क्रम से नमक के इस प्रकार के सात्म्य (अनुकूलता) से पृथक् होना ही कल्याणकारी है, क्योंकि ऐसे सात्म्य से क्रमपूर्वक हटना दोषरहित अथवा थोड़े दोष वाला होता है ।

सात्म्यं नाम तद् यदात्मन्युपशेते । सात्म्यार्थो ह्युपशयार्थः ।

सात्म्य—उस को कहते हैं कि जो अपनी देह के लिये सुखकारक या अनुकूल होता है । क्योंकि 'सात्म्य' का अर्थ 'उपशय' है ।

तत् त्रिविधं—प्रवरावरमध्यविभागेन । सप्तविधं च रसैकैकत्वेन, सर्वरसोपयोगाच्च ॥ १८ ॥

तत्र सर्वरसं प्रवरं, अवरमेकरसं, मध्यमं तु प्रवरावरमध्यस्थम् । तत्रावरमध्याभ्यां सात्म्याभ्यां क्रमेण प्रवरमुपपादयेत्सात्म्यम् । सर्वरसमपि च द्रव्यं सात्म्यमुपपन्नं प्रकृत्याद्युपयोक्तृष्टमानि सर्वा-ग्याहारविधिविशेषायतनान्यभिसमीक्ष्य हितमेवानुरुध्येत् ॥ १९ ॥

सात्म्य के भेद—यह सात्म्य तीन प्रकार का है । ( १ ) प्रवर

( २ ) मध्यम और ( ३ ) अवर । अथवा सात प्रकार का है । जैसे एक एक रस से छः प्रकार का और सब रसों के उपयोग से सात प्रकार का है । इन सातों में सब रसों का सात्म्य 'प्रवर' है । एक रस का सात्म्य 'अवर' निकृष्ट है । प्रवर और अवर के मध्य में स्थित सात्म्य को 'मध्यम' कहते हैं । इन में अवर और मध्यम सात्म्य को क्रमशः प्रवर सात्म्य में परिवर्तित करने का प्रयत्न करना चाहिये । सब रसों का सात्म्य होने पर भी अर्थात् आहार विधि के विशेष उपयोक्ता और प्रकृति आदि सब प्रकार के आठों अंगों को देखकर हितकारक पदार्थों का सेवन करना चाहिये ।

तत्र खल्विमान्यष्टावाहारविधिविशेषायतनानि भवन्ति । तद्यथा प्रकृतिकरणसंयोगराशिदेशकालोपयोगसंस्थोपयोक्त्रष्टमानि भवन्ति ॥ २० ॥

आहार विधि—ये निम्नलिखित आठ बातें आहार विधि में विशेष कारण या उस के अंग होते हैं । ( १ ) प्रकृति, ( २ ) करण, ( ३ ) संयोग, ( ४ ) राशि, ( ५ ) देश, ( ६ ) काल, ( ७ ) उपयोग-संस्था और ( ८ ) उपयोक्ता ।

तत्र प्रकृतिरुच्यते । स्वभावो यः स पुनराहारौषधद्रव्याणां स्वाभाविको गुर्वादिगुणयोगः । तद्यथा—माषमुद्गयोः, शूकरैणयोश्च ॥ २१ ॥

उन में से प्रकृति का वर्णन करते हैं ( १ ) प्रकृति स्वभाव को कहते हैं । आहार द्रव्य और औषध द्रव्यों में जो गुरु, लघु आदि गुण स्वभाव से रहते हैं उन का नाम प्रकृति है । जैसे माष ( उड़द ) और शूकर के मांस स्वभाव से ही गुरु हैं और मूंग तथा हरिण के मांस स्वभाव से ही लघु होते हैं ।

करणं पुनः स्वाभाविकानां द्रव्याणामभिसंस्कारः, संस्कारो हि

१ बकरी सब रस के पदार्थ खाती है इसलिये इस का मांस और दूध निर्दोष माना है ।

गुणान्तराधानमुच्यते । ते गुणाश्च तोयाग्निसंनिकर्षशौचमन्थनदेश-  
कालवशेन भावनादिभिः कालप्रकर्षभाजनादिभिश्चाधीयन्ते ॥ २२ ॥

( २ ) करण—स्वाभाविक द्रव्यों के संस्कार का नाम 'करण' है ।  
स्वाभाविक गुण से भिन्न दूसरे गुण को उत्पन्न कर देने का नाम 'संस्कार'  
है । ये गुण जल, अग्नि के संयोग से, शौच ( धोने आदि से ), मन्थन  
( विलोने से ), देश, काल और स्वरस आदि की भावना से, समय की अधि-  
कृत्वा से, ( पात्र आदि की भिन्नता से ), उत्पन्न कर दिये जाते हैं ।<sup>२</sup>

विलोने पर दही के गुण भिन्न हो जाते हैं । दूध को मिट्टी के  
वर्तन और लोहे के वर्तन में पकाने पर उस के स्वाद में अन्तर आ  
जाता है ।

संयोगस्तु द्वयोर्वहूनां द्रव्याणां संहतीभावः, स विशेषमारभते  
यन्नैकैकशो द्रव्याण्यारभन्ते । तद्यथा मधुसर्पिषोः, मधुमत्स्यपयसां  
च संयोगः ॥ २३ ॥

( ३ ) संयोग—दो या दो से अधिक पदार्थों का मिलना 'संयोग'  
कहाता है । संयोग विशेष कार्य उत्पन्न करता है, जब कि अकेला २ द्रव्य  
कोई कार्य उत्पन्न नहीं करता । जैसे, मधु और घी का समान मात्रा में  
संयोग मारक है, पृथक् पृथक् नहीं । इसी प्रकार मछली और दूध का  
संयोग कुष्ठ रोग को उत्पन्न करता है, पृथक् पृथक् नहीं ।

राशिस्तु सर्वग्रहपरिग्रहौ, मात्रामात्राफलवित्तिश्चयार्थः प्रकृतः ।  
तत्र सर्वस्याहारस्य प्रमाणग्रहणमेकपिण्डेन सर्वग्रहः । परिग्रहश्च पुनः  
प्रमाणग्रहणमेकैकत्वेनाहारद्रव्याणाम् । सर्वस्य हि ग्रहः सर्वग्रह । सर्व-  
तश्च ग्रहः परिग्रह उच्यते ॥ २४ ॥

( ४ ) राशि—दो प्रकार की होती है । ( १ ) सर्वग्रह और ( २ )  
परिग्रह । राशि का प्रयोजन मात्रा और अमात्रा अर्थात् कम या अधिक

२ पानी से बार बार धोने पर पदार्थ के गुण बदल जाते हैं । यथा—  
'सुधौतः, प्रक्षुतः, त्विन्नः, संतप्तश्चोदनो लघुः ॥'

मात्रा में भोजन या औषध के लेने से उत्पन्न अच्छे या बुरे परिणाम का निश्चय करना है। सम्पूर्ण आहार को एक पिण्ड की मात्रा में ग्रहण करने का नाम 'सर्वग्रह' है। आहार द्रव्यों को एक-एक करके नियत प्रमाण में ग्रहण करने का नाम 'परिग्रह' है। सब भोज्य पदार्थों के समुदाय रूप में एक साथ मिलाकर उस में से ग्रहण करना 'सर्वग्रह' है। और सब में से प्रत्येक से पृथक् पृथक् ग्रहण करना 'परिग्रह' है। (आहार मात्रा—अग्नि और आहार द्रव्य की अपेक्षा करती है। इसलिये अग्नि बल की अपेक्षा से सर्वग्रह और द्रव्य की अपेक्षा से परिग्रह समझना चाहिये।)

देशः पुनः स्थानं, द्रव्याणामुत्पत्तिप्रचारौ देशसात्म्यं चा-  
चष्टे ॥ २५ ॥

( ५ ) देश का अर्थ है स्थान। यह स्थान ( स्थावर जंगम ) द्रव्यों की उत्पत्ति, प्रचार के साथ २ देश सात्म्य को भी बताता है। उत्पत्ति से जैसे, हिमालय में उत्पन्न अन्नादि गुरु और मरु में लघु होता है। प्रचार से जैसे, लघु पदार्थ खाने वाले, मरु भूमि में विचरने वाले, बहुत फिरने वाले प्राणियों का मांस लघु होता है, अन्वो का गुरु। देशसात्म्य जैसे अनूप देश में उष्ण, रूक्ष और मरुभूमि में शीत स्निग्ध पदार्थ हितकारी है।

कालो हि नित्यगश्चावस्थिकश्च । तत्रावस्थिको विकारमपेक्षते,  
नित्यगस्तु खल्वृतुसात्म्यापेक्षः ॥ २६ ॥

( ६ ) काल दो प्रकार का है। नित्यग और आवस्थिक। रोगी की अवस्थानुरूप इन में आवस्थिक काल विकार की अपेक्षा करता है। नित्यग काल ऋतु, सात्म्य, शीत, उष्ण, वर्षा आदि की अपेक्षा करता है।

उपयोगसंस्था तु उपयोगनियमः, स जीर्णलक्षणापेक्षः ॥ २७ ॥

( ७ ) उपयोग-संस्था—उपयोग-व्यवस्था या उपयोग-नियम को उपयोग-संस्था कहते हैं। यह भोजन के पचाने की अपेक्षा करती है। यह आगे कहेंगे और 'इन्द्रियोपक्रमणीय' अध्याय में ( नारत्नपाणि-  
र्नास्नात० इत्यादि ) पूर्व कह आये हैं।



उपयोक्ता पुनः यस्तमाहारमुपयुंक्ते, यदायत्तमोकसात्म्यम् ॥२८॥

( ८ ) उपयोक्ता—जो उस आहार का उपयोग करता है, उस भोक्ता को 'उपयोक्ता' कहते हैं। जिस के लिये अभ्यास सात्म्य है।

इत्यष्टावाहारविधिविशेषायतनानि भवन्ति । एषां विशेषाः शुभाशुभफलप्रदाः परस्परोपकारका भवन्ति, तान् बुभुत्सेत । बुद्ध्वा च हितेषुरेव स्यात्, न च मोहात्प्रमादाद्वा प्रियमहितमसुखोदकमुपसेव्यं किञ्चिदाहारजातमन्यद्वा ॥ २९ ॥

इस प्रकार से आहार विधि के विशेष आठ आयतन कह दिये हैं। ये प्रकृति आदि आठों आयतन शुभ और अशुभ फल (स्वास्थ्य एवं अस्वास्थ्य) को उत्पन्न करने में परस्पर एक दूसरे के सहायक होते हैं। इस लिये वैद्य इन को भी जाने। इन में जो सम धातुओं को प्रकृति में रक्खें और विषम धातुओं को समान करें उन को जानकर हितकारक का सेवन करे। मोह, अज्ञान अथवा लापरवाही से आपातप्रिय (सेवन के समय अति प्रिय) परन्तु उत्तरकाल में परिणाम में दुःख विकार वा रोगकारक अहित आहार पदार्थों या अन्य इस प्रकार के विहार का सेवन नहीं करना चाहिये ॥

तत्रेदमाहारविधिविधानमरोगाणामातुराणां च केषांचित्काले प्रकृत्यैव हिततमं भुञ्जानानां भवति । उष्णं स्निग्धं मात्रावज्जीर्णं वीर्याविरुद्धमिष्टे देशे इष्टसर्वोपकरणं नातिद्रुतं नातिविलम्बितमजरुपन्नहसंस्तनमना भुञ्जीतात्मानमभिसमीक्ष्य सम्यक् ॥ ३० ॥

यहां आगे कही जाने वाली आहार विधि स्वस्थ एवं रोगी दोनों के लिये उचित समय में स्वभाव से हितकारक होती है।

आहार विधि—उष्ण (गरम) भोजन खावे, स्निग्ध भोजन करे, मात्रानुसार खावे, पूर्व भोजन के जीर्ण होने पर खावे, अचिरुद्ध वीर्य वाले पदार्थों को खावे, मनोवाञ्छित स्थान पर, मन के अनुकूल उपकरणों के साथ, न बहुत जल्दी, न बहुत धीरे, विना बोले, विना हंसे, पूर्ण मन देकर, आत्मा के सात्म्य या अपनी शक्ति को देखकर भली प्रकार विचार कर खावे।

तस्य साद्गुण्यमुपदेक्ष्यामः—उष्णमश्रीयात् । उष्णं हि भुज्यमानं स्वदते, भुक्तं चाग्निमौर्दर्यमुदीरयति, क्षिप्रं च जरां गच्छति, वातं चानुलोमयति, श्लेष्माणं च परिशोषयति, तस्मादुष्णमश्रीयात् । ३१ ।

इस प्रकार भोजन करने के सद्गुणों का उपदेश करते हैं । उष्ण ( गरम ), जितना कि मुख में सहन हो सके, भोजन करे । गरम भोजन रुचि उत्पन्न करता है, खाने में अच्छा लगता है । खाने पर जाठर अग्नि को बढ़ाता है, शीघ्र पाचन हो जाता है । वायु का अनुलोमन करता है, कफ को सुखाता है । इस लिये गरम भोजन खावे ।

स्निग्धमश्रीयात् । स्निग्धं हि भुज्यमानं स्वदते, युक्तमौर्दर्यमग्निमुदीरयति, क्षिप्रं जरां गच्छति, वातमनुलोमयति, दृढीकरोति शरीरोपचयं, बलाभिवृद्धिं चाभिजनयति, वर्णप्रसादमपि चाभिनिवर्तयति तस्मात्स्निग्धमश्रीयात् ॥ ३२ ॥

स्निग्ध भोजन करे । स्निग्ध भोजन खाने में अच्छा लगता है । खाने पर निर्बल जाठराग्नि को बढ़ाता है । शीघ्र परिपाक होता है । वायु का अनुलोमन करता है, शरीर को बढ़ाता है, इन्द्रियों को बलवान् बनाता है, शरीर में बल की वृद्धि करता है, रंग में कान्ति, चिकनाई उत्पन्न करता है, इसलिये स्निग्ध भोजन करे ।

मात्रावदश्रीयात् । मात्रावद्धिं भुक्तं वातपित्तकफानप्रपीडयदायुरेव विवर्धयति केवलं, सुखं गुदमनुपर्येति, न चोष्माणमुपहन्ति, अव्यथं च परिपाकमेति, तस्मान्मात्रावदश्रीयात् ॥ ३३ ॥

मात्रा में खावे । मात्रा में खाया हुआ अन्न वात, पित्त और कफ को कुपित नहीं करता, केवल आयु को ही बढ़ाता है । परिपाक होकर सुखपूर्वक गुदा मार्ग से बाहर निकल आता है । शरीर की अन्तराग्नि को नहीं विगाड़ता, बिना कष्ट के परिपाक हो जाता है, इसलिये मात्रा में भोजन करे ।

जीर्णोऽश्रीयात् । अजीर्णं हि भुज्यमानस्याभ्यवहृतमाहारजातं

पूर्वस्याहारस्य रसमपरिणतमुत्तरेणाहाररसेनोपसृजत्सर्वान्दोषान्  
 प्रकोपयत्याशु, जीर्णं तु भुञ्जानस्य स्वस्थानस्थेषु दोषेष्वग्नौ चोदीर्णं  
 जातायां च बुभुक्षायां विवृतेषु च स्रोतसां मुखेषु चोद्गारे विशुद्धे,  
 विशुद्धे च हृदये वातानुलोम्ये विसृष्टेषु च वातमूत्रपुरीषवेगेष्वभ्यव-  
 हृतमाहारजातं सर्वशरीरधातूनप्रदूषयदायुरेवाभिवर्धयति केवलं,  
 तस्माज्जीर्णंऽश्रीयात् ॥ ३४ ॥

पूर्व भुक्त भोजन के जीर्ण होने पर खावे । अजीर्ण अवस्था में  
 भोजन करने से पूर्व में खाये हुए भोजन के अपरिपक्व रस से ( उत्तरोत्तर  
 धातु रूप में बदलने वाले रस में ) नवीन आहार का रस मिलकर शीघ्र  
 ही दोषों को प्रकुपित कर देता है । इसलिये पूर्व भुक्त भोजन के जीर्ण होने  
 पर, दोषों के अपने स्थान में स्थित होने पर, अग्नि के उद्दीप्त होने पर,  
 भूख लगने पर, अन्नवह स्रोतों के मुखों के खुल जाने पर, ढकार के  
 विशुद्ध होने पर, हृदय ( आमाशय ) के साफ होने पर, वायु के अनुकूल  
 होने पर वायु, मूत्र, मल के वेगों के साफ होने पर किया हुआ भोजन  
 शरीर के सब धातुओं को समान अवस्था में रखता हुआ, केवल आयु को  
 ही बढ़ाता है, इसलिये जीर्ण अवस्था में भोजन करे ।

वीर्याविरुद्धमश्रीयात् । अविरुद्धवीर्यमश्रन् हि न विरुद्धवीर्या-  
 हारजैर्विकारैरयमुपसृज्यते, तस्माद्वीर्याविरुद्धमश्रीयात् ॥ ३५ ॥

अविरुद्ध वीर्य वाले पदार्थों को खावे । अविरुद्ध अर्थात् अविपरीत  
 वीर्य वाले पदार्थों के सेवन करने से, विरुद्ध वीर्य वाले पदार्थों के सेवन  
 से उत्पन्न होने वाले ( कुष्ठ, वीसर्प आदि ) रोगों से मनुष्य बचा रहता  
 है, इसलिये अविरुद्ध वीर्य वाले पदार्थों को खावे ।

इष्टे देशेऽश्रीयात् । इष्टे हि देशे भुञ्जानो नानिष्टदेशजैर्मनोवि-  
 यातकरैर्भावैर्मनोविघातं प्राप्नोति, तथेष्टैः सर्वोपकरणैः, तस्मादिष्टे  
 देशे तथेष्टसर्वोपकरणं चाश्रीयान् ॥ ३६ ॥

अभिमत प्रदेश में मनोऽनुकूल उपकरणों के साथ भोजन करे । मनो-

वाञ्छित स्थान में भोजन करने से, अनिष्ट देश में उत्पन्न होने वाले, मन को दुःखी करने वाले भावों से मनुष्य दुःखी नहीं होता है । यही बात मन के अनुकूल उपकरणों के साथ भी जानें । इसलिये इष्ट स्थान में और अभिमत उपकरणों के साथ भोजन करे ।

नातिद्रुतमश्रीयात्, अतिद्रुतं हि भुञ्जानस्योत्स्नेहनमवसदनं, भोजनस्याप्रतिष्ठानं, भोव्यदोषसाद्गुणयोपलब्धिश्च न नियता, तस्मान्नातिद्रुतमश्रीयात् ॥ ३७ ॥

बहुत जल्दी २ भोजन नहीं करे । बहुत जल्दी भोजन खाने से भोजन उन्मार्ग अर्थात् विरुद्ध मार्ग में जाने लगता है । जल्दी खाया हुआ भोजन अवसन्नता पैदा करता है, तथा भोजन आमामशय में नहीं रहता, वमन हो जाता है । जल्दी खाने से भोजन के गुण दोष की पहिचान भी नहीं होती इसलिये बहुत जल्दी भोजन नहीं करे ।

नातिविलम्बितमश्रीयात् । अतिविलम्बितं हि भुञ्जानो न तृप्तिमधिगच्छति, बहु भुंक्ते, शीतीभवति चाहारजातं, विषमपाकं च भवति, तस्मान्नातिविलम्बितमश्रीयात् ॥ ३८ ॥

बहुत धीरे रुक रुक कर भी भोजन नहीं करे । बहुत धीरे धीरे खाने से पुरुष को कभी तृप्ति नहीं होती, इसलिये बहुत खाजाता है । भोजन भी ठण्डा पड़ जाता है, भोजन विषम रूप में पचता है, इसलिये बहुत धीरे धीरे भोजन नहीं करे ।

अजल्पन्नहसंस्तन्मना भुञ्जीत—जल्पतो हसतोऽन्यमनसो वा भुञ्जानस्य त एव हि दोषा भवन्ति य एवातिद्रुतमश्रतः, तस्माज्जल्पन्नहसंस्तन्मना भुञ्जीत ॥ ३९ ॥

बाते न करते हुए या न हंसते हुए मनोयोग के साथ भोजन करे । बातें करते हुए और हंसते हुए अथवा दूसरी तरफ अन्य कार्य में मन को लगाये हुए भोजन करने पर वे ही दोष उत्पन्न होते हैं जो जल्दी खाने में उत्पन्न होते हैं । इसलिये विना बोले, विना हंसे, पूर्ण मनोयोग

के साथ भोजन करे, अपनी शीघ्र रुचि वा हित-अहित को देखकर भोजन करे ।

आत्मानमभिमोक्ष्य भुञ्जीत सम्यक् । इदं ममोपशेते, इदं नो-  
पशेत इति, विदितं ह्यस्य आत्मन आत्मसात्म्यं भवति, तस्मादात्मा-  
नमभिसमीक्ष्य भुञ्जीत सम्यगिति ॥ ४० ॥

मेरी आत्मा के यह अनुकूल है, यह प्रतिकूल है, यह मेरे सात्म्य है, यह मेरे असात्म्य है, ऐसा विचार कर खावे । इस प्रकार खाने से आत्म-सात्म्य का ज्ञान रहना है । इसलिये अपनी शक्ति और हित-अहित का विवेचन करके खाना चाहिये ।

भवति चात्र । रसान् द्रव्याणि दोषांश्च विकारांश्च प्रभावतः ।

वेद यो देशकालौ च शरीरं च स नो भिषक् ॥ ४१ ॥

जो पुरुष रस, द्रव्य, दोष, विकार, प्रभाव, देश, काल, शरीर ( प्रकृति, सत्त्व और सात्म्य ) इन को भली प्रकार जानता है वही हम में से वैद्य होने योग्य है ।

तत्र श्लोकौ । विमानार्थो रसद्रव्यदोषरोगाः प्रभावतः ।

द्रव्याणि नातिसेव्यानि त्रिविधं सात्म्यमेव च ॥ ४२ ॥

आहारायतनान्यष्टौ भोव्यसाद्गुण्यमेव च ।

विमाने रससंख्याते सर्वमेतत्प्रकाशितम् ॥ ४३ ॥

विमान स्थान का प्रयोजन, रस, द्रव्य, दोष और रोग इन चारों का प्रभाव, बहुत अधिक सेवन न करने योग्य द्रव्य, तीन प्रकार का सात्म्य, आठ आहार विधि के आयतन, भोजन का साद्-गुण्य, ये सब बातें इस 'रस' संज्ञक विमान में भगवान् आत्रेय ने प्रकाशित कर दी हैं ।

वेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते तृतीये विमानस्थाने

रमविमान नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

## द्वितीयोऽध्यायः

अथातस्त्रिविधकुक्षीयं विमानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब 'त्रिविध-कुक्षीय' नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं, ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

त्रिविधं कुक्षौ स्थापयेद्द्रवकाशांशमाहारस्याहारमुपयुञ्जानः; तद्यथा एकमवकाशांशं मूर्तानामाहारविकाराणामेकं द्रवाणामेकं पुनर्वातपित्तश्लेष्मणाम् । एतावतीं ह्याहारमात्रामुपयुञ्जानो नामात्राहारजं किञ्चिद्दुःखं प्राप्नोति ॥ ३ ॥

आहार करने वाले मनुष्य को चाहिये कि वह भोजन के निमित्त पेट में तीन प्रकार के स्थान रखे । एक स्थान मूर्त्त (स्थूल) आहार विकारों के निमित्त, दूसरा द्रव (पेय) पदार्थों के निमित्त और तीसरा वात, पित्त और कफ के निमित्त । इस प्रकार तीन विभाग करके आहार मात्रा का उपयोग करने वाले पुरुष को आहार की अमात्रा ( अधिक या स्वल्प मात्रा ) से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के अशुभ परिणाम नहीं होते ।

न च केवलं मात्रावत्त्वादेवाहारस्य कृत्स्नमाहारफलसौष्टवमचाप्तुं शक्यं, प्रकृत्यादीनामष्टानामाहारविधिविशेषायतनानां प्रविभक्तफलत्वात् ॥ ४ ॥

तत्र तावदाहारराशिमधिकृत्य मात्रामात्राफलविनिश्चयार्थः प्रकृतः । एतावानेव ह्याहारराशिविधिविकल्पो यावन्मात्रावत्त्वमामात्रावत्त्वं च ॥ ५ ॥

केवल आहार की मात्रा से ही सम्पूर्ण आहार फल की उत्तमता प्राप्त नहीं हो सकती क्योंकि प्रकृति आदि जो आठ आहार विधि के विशेष अंग हैं, इन का भी भिन्न भिन्न फल होता है । यहां पर प्रकृति आदि आठ आहार विधि विशेषों में आहार की राशि को लेकर मात्रा और अमात्रा

के फल का निश्चय करने के लिये यह प्रकरण है । आहार की राशि-विधि का भेद इतना ही है कि मात्रा का परिमाण इतना और अमात्रा का परिमाण इतना है ।

तत्र मात्रावत्त्वं पूर्वमुपदिष्टं कुक्ष्यंशविभागेन, तद्भूयो विस्तरे-  
णानुव्याख्यास्यामः । तद्यथा—कुक्षेरप्रपीडनमाहारेण, हृदयस्यानव-  
रोधः, पार्श्वयोरविपाटनं, अनतिगौरवमुदरस्य, ग्रीणानमिन्द्रियाणां,  
क्षुत्पिपासोपरमः, स्थानासनशयनगमनप्रश्वासोच्छ्वासहाससंकथासु-  
च सुखानुवृत्तिः, सायं प्रातश्च सुखेन परिणमनं, बलवर्णोपचय-  
करत्वं चेति मात्रावतो लक्षणमाहारस्य भवति ॥ ६ ॥

इन में मात्रावत्त्व ( मात्रा ) को कुक्षि के विभाग से प्रथम संक्षेप में कह दिया है । अब मात्रा और अमात्रा दोनों को विस्तार से कहते हैं । जैसे—भोजन से कोख का पीड़ित ( दबना ) न होना, हृदय (श्वास प्रश्वास ) का न रुकना, भोजन के भार से पार्श्वों का न फटना ( फटते हुए प्रतीत न होना, अधिक न तनना ), पेट में बहुत भारीपन का प्रतीत न होना, आंख आदि इन्द्रियों का पूर्ण संतुष्ट होना, भूख और प्यास का शान्त होना, स्थान ( सीधा खड़ा होने में ), असन ( बैठने में ), सोने में, चलने में, श्वास लेने एवं छोड़ने में, हास्य और वातचीत में सुखपूर्वक प्रवृत्ति, दिन में किये भोजन का सायंकाल और रात्रि में किये भोजन का प्रातःकाल तक सुखपूर्वक जीर्ण हो जाना, बल, वर्ण, उपचय ( पुष्टि ) का शरीर से होना ये सब मात्रा में किये भोजन के लक्षण हैं ।

अमात्रावत्त्वं पुनर्द्विविधमाचक्षते । हीनमधिकं चेति । तत्र हीन-  
मात्रमाहारराशि बलवर्णोपचयचयकरमृत्तिकरमुदावर्तकरमवृष्यम-  
नायुष्यमतौलस्यं शरीरमनोबुद्धीन्द्रियोपघातकरं सारविधमनमल-  
क्ष्म्यावहमशीतेश्च वातविकाराणामायतनमाचक्षते ॥ ७ ॥

अमात्रा—आहार की अमात्रा दो प्रकार की बतलाते हैं । ( १ ) हीन और ( २ ) अधिक । इन में आहार राशि की हीन मात्रा बल और वर्ण को

दृष्ट नहीं करती, न मनुष्य को वृक्ष करती है, वह उदावर्त्त रोग को उत्पन्न करती है, आयु, वीर्य एवं ओज के लिये हितकारी नहीं है, मन, बुद्धि, इन्द्रिय ( आंख आदि ) को नष्ट करने वाली है । सार (त्वग् रक्त आदि) को नष्ट करती है । अलक्ष्मी ( गरीबी ) को पैदा करती है । हीनमात्रा अस्सी प्रकार के वायु रोगों का कारण होती है ऐसा वैद्य लोग बतलाते हैं ।

अतिमात्रं पुनः सर्वदोषप्रकोपणमिच्छन्ति सर्वकुशलाः ॥ ८ ॥

यो हि मूर्तानामाहारविकाराणां सौहित्यं गत्वा पश्चाद्द्वैष्टृत्ति-  
मापद्यते भूयस्तस्यामाशयगता वातपित्तश्लेष्माणोऽभ्यवहारेणाति-  
मात्रेणातिप्रपीड्यमानाः सर्वे युगपत्प्रकोपमापद्यन्ते ॥ ९ ॥

ते प्रकुपितास्तमेवाहारराशिमपरिणतमाविश्य कुक्ष्यैकदेशमन्ना-  
श्रिता विष्टम्भयन्तः सहसा वाऽप्युत्तराधराभ्यां मार्गाभ्यां प्रच्या-  
वयन्तः पृथक् पृथगिमान् विकारानभिनिर्वर्तयन्त्यतिमात्रभोक्तः ॥ १० ॥

आहार राशि की अतिमात्रा से सब दोष प्रकुपित होते हैं । ऐसा कुशल चिकित्सक मानते हैं । जो मनुष्य मूर्च्छ ( स्थूल ) आहार पदार्थों से पेट भर लेता है और ऊपर से पेय पदार्थों को पूर्ण रूप से पी लेता है उसके आमाशय में स्थित वात, पित्त और कफ दोष इस अति अधिक भार से पीड़ित होकर एक साथ कुपित हो जाते हैं । वे प्रकुपित हुए दोष इस कच्ची ( अपरिपक्व ) आहार राशि के साथ मिलकर इस आहार राशि को उदर के एक भाग में रोक देते हैं । अथवा सहसा ऊपर या नीचे के ( ऊर्ध्व या अधः ) मार्गों से बाहर निकालने लगते हैं । अधिक खाने वाले पुरुष में भिन्न २ नाना रोग पृथक् २ रूप से उत्पन्न करते हैं ।

तत्र वातः शूलानाहाङ्गमर्दमुखशोषमूर्च्छाभ्रमाग्निवैषम्यसिरा-  
संकोचनसंस्तम्भनानि करोति । पित्तं पुनर्ज्वरातीसारमन्तर्दाहं वृष्णा-  
मदभ्रमप्रलपनानि । श्लेष्मा तु छर्द्यरोचकाविपाकशीतज्वरालस्यगा-  
त्रगौरवाभिनिर्वृत्तिकरः संपद्यते ॥ ११ ॥

वायु, शूल, अफ़ारा, अंगमर्द ( अंगों का दूटना ), मुख का शुष्क



होना, मूर्च्छा, भ्रम, अग्नि की विपमता, पार्श्वग्रह, पृष्ठग्रह, कटिग्रह, सिराओं का भाकुञ्चन ( संकोच ) और स्तम्भन ( जड़ता ) इन विकारों को उत्पन्न करता है । पित्त ज्वर, अतिसार, अन्तर्दाह ( शरीर में जलन ), नृणा, मद, भ्रम और प्रलाप को उत्पन्न करता है और कफ छिदि ( वमन ), अरचि, अविपाक, शीतज्वर, आलस्य और शरीर में भारीपन पैदा करता है ।

न खलु केवलमतिमात्रमेवाहारराशिसामप्रदोषकरमिच्छन्ति, अपि तु खलु गुरुरूक्षशीतशुष्कद्विष्टविष्टम्भिविदाह्यशुचिविरुद्धानामकाले चान्नपानानमुपसेवनं, कामक्रोधलोभमोहेर्ष्याहीशोकमानोद्वेगभयोपतप्तेन मनसा वा यदन्नपानमुपयुज्यते तद्रूप्याममेव प्रदूषयति ॥ १२ ॥

कुशल वैद्य केवल आहार राशि की अतिमात्रा को ही आम दोष का कारण नहीं मानते । किन्तु प्रकृति से भारी, रुक्ष, शीत, शुष्क, द्वेषयुक्त ( मन के प्रतिकूल ), विष्टम्भी ( वायु, दर्द के होने पर भी मल का न आना ), दाह ( जलन ) करने वाले, अपवित्र, प्रकृति, संस्कार, राशि में विरोधी खान-पान का सेवन अथवा हितकारी अन्न को भी अनुचित काल में वा वमन, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, लज्जा, शोक, मन के उद्वेग, भय आदि अवस्था में किया हुआ अन्न-पान भी आम को ही दूषित करता है ।

अन्नदि चात्र । मात्रयाऽप्यभ्यवहृतं पथ्यं चान्नं न जीर्यति ।

चिन्ताशोकभयक्रोधदुःखशय्याप्रजागरैः ॥ १३ ॥

तं द्विविधमामप्रदोषमाचक्षते भिषजो विसूचिकामलसकं च ।

तत्र विसूचिकामूर्ध्वं चाधश्च प्रवृत्तामदोषां यथोक्तरूपां विद्यात् ॥ १४ ॥

हितकारी, पथ्य अन्न मात्रा से खाने पर भी चिन्ता, शोक, भय, क्रोध, दुःख, दिन में सोने, रात्रि में जागने से जीर्ण नहीं होता है । इस आम-

प्रदोष ( भोजन के इस प्रकार न पचने ) को वैद्य दो प्रकार का मानते हैं ।  
( १ ) विसूचिका और ( २ ) अलसक । इन में विसूचिका के अन्दर आम दोष ( भोजन का न पचा अंश ) ऊपर और नीचे दोनों मार्गों से बाहर निकलता है ।

अलसकमुपदेक्ष्यामः—दुर्बलस्याल्पाग्नेर्बहुश्लेष्मणो वातमूत्रपु-  
रीषवेगविधारिणः स्थिरगुरुबहुरूक्षशीतशुष्कान्नसेविनस्तदन्नपानमनि-  
लप्रपीडितं श्लेष्मणा च विबद्धमार्गमतिमात्रप्रलीनमलसत्वात्त बहि-  
र्मुखी भवति, ततश्छर्द्यतीसारवर्ज्यान्यामप्रदोषलिङ्गानि यथोक्तान्य-  
भिदर्शयत्यतिमात्राणि । अतिमात्रप्रदुष्टाश्च दोषाः प्रदुष्टामबद्धमार्गा-  
स्तिर्यग्गच्छन्तः कदाचित्केवलमेवास्य शरीरं दण्डवस्तम्भयन्ति,  
ततस्तमलसकमसाध्यं ब्रुवते ॥ १५ ॥

अलसक का उपदेश करते हैं—दुर्बल, अल्पाग्नि, बहुत कफयुक्त, वात आदि के वेग को रोकने के स्वभाव के, स्थिर, गुरु बहुत, रुक्ष, शीत, शुष्क इस प्रकार के अन्न को सेवन करने वाले पुरुष में वायु खान-पान को पादित करता है और कफ से मार्ग रुके होने से वह बाहर नहीं निकलता । वही आमाशय में बहुत अधिक मात्रा में व्याप्त हो जाता है । और आलस्य ( मन्दता ) के कारण बाहर भी नहीं आता । इसलिये इस को 'अलसक' कहते हैं । बाहर न होने से वमन और अतिसार को छोड़कर शेष अन्य आम दोष के लक्षण बहुत अधिक मात्रा में स्पष्ट होते हैं ।

असाध्य अलसक—बहुत अधिक मात्रा में दूषित हुए वात आदि दोष दुष्ट आम द्वारा मार्गों के रुक जाने पर तिरछे गति करते हुए कभी अकस्मात् इस बहुत खाने वाले पुरुष के सम्पूर्ण शरीर को दण्डे की भांति स्तब्ध कर (जकड़) देते हैं । इसलिये इस अलसक को असाध्य कहते हैं ।

विरुद्धाध्यशानाजीर्णाशनशीलिनः पुनरामदोषमामविषमित्या-  
चक्षते भिषजो विषसदृशलिङ्गत्वात् । तत्परमसाध्यमाशुकारित्वा-  
द्विरुद्धोपक्रमत्वाच्चेति ॥ १६ ॥

विरुद्ध भोजी, अध्यशन (खाने के ऊपर खाना खाने) और अजीर्णावस्था में भोजन करने वाले पुरुष के दोष को वैद्य 'आमविष' कहते हैं। क्योंकि इसके लक्षण विष के समान होते हैं। (आम दोष में भी विष के खाने के समान मुख से लालास्राव होता है)। यह भी बहुत असाध्य है। क्योंकि विषरूप होने से शीघ्र मारने वाला है और इसमें जो उपचार किया जाता है वह विरोधी पड़ता है। अर्थात् विष में शीतक्रिया और आम एवं अजीर्ण में उष्ण क्रिया करनी अपेक्षित है ये दोनों परस्पर विरोधी होती हैं।

तत्र साध्यमामं प्रदुष्टमलसीभूतमुल्लेखयेदादौ पाययित्वा लवणमुष्णं च वारि। ततः स्वेदनवर्तिप्रणिधानाभ्यामुपाचरेदुपवासयेच्चैनम् ॥ १७ ॥

साध्य अलसक की चिकित्सा—पुष्ट हुपु एवं अलस (क्रियाहीन) होने आम दोष को लवण मिश्रित गरम पानी पिलाकर वमन के रूप में बाहर निकालना चाहिये। पीछे से स्वेदन (फलवर्ति) का उपयोग करे और रोगी को उपवास करावे।

विपूचिकायां तु लङ्घनमेवाग्रे विरिक्तवच्चानुपूर्वी ॥ १८ ॥

विसूचिका की अवस्था में सबसे प्रथम लंघन ही करवाना चाहिये। इसके पीछे विरेचन दिये पुरुष की भांति पेयादि की व्यवस्था (उपकल्पनीय अध्याय [सूत्र० अ० १५] में कहे अनुसार) करनी चाहिये।

आमप्रदोषेषु त्वन्नकाले जीर्णाहारं पुनर्दोषावलिप्तामाशयं स्तिमितगुरुकोष्ठमनन्नाभिलापिणमभिसमीक्ष्यपाययेद्दोषशेषपाचनार्थमौषधमग्निबंधुत्तणार्थं च। न त्वेवाजीर्णाशनं। आमप्रदोषदुर्बलो ह्यग्निर्युगपद्दोषमौषधमाहारजात चाशक्तः पक्तुम्, अपि चामप्रदोषाहारौषधविभ्रमोऽतिबलवत्त्वादुपरतकायाम्नि सहसैवातुरमवलमतिपातयेत् ॥ १९ ॥

आम प्रदोष में औषध प्रयोग—जब भोजन जीर्ण हो गया हो, जिस

का कोष्ठ जड़ और भारी हो, जो अन्न की इच्छा न करता हो, ऐसे पुरुष के शेष अपक्व दोषों के पाचन के लिये और उसके अग्नि को बढ़ाने के लिये भोजन के समय में औषध देनी चाहिये । किन्तु अजीर्ण-अवस्था में भोजन के जीर्ण हुए विना औषध नहीं देनी चाहिये । क्योंकि आम प्रदोष के कारण दुर्बल हुई अग्नि आम दोष और औषध और भोजन इन सब को एक साथ पचाने में समर्थ नहीं होता । इसके अतिरिक्त आमदोष, आहार और औषध में परस्पर विषमता अधिक बलवान् होने से शरीर की अग्नि को नष्ट करके ये निर्बल रोगी को सहसा शीघ्र ही मार सकते हैं ।

आमप्रदोषजानां पुनर्विकाराणामपतर्पणेनैवोपरमो भवति सति त्वनुबन्धे कृतापतर्पणानां व्याधीनां निग्रहे निमित्तविपरीतमपास्यौषधमातङ्कविपरीतमेवावचारयेद्यथास्वम् । सर्वविकाराणामपि च निग्रहे हेतुव्याधिविपरीतमौषधमिच्छन्ति कुशलाः, तदर्थकारिवा ॥ २० ॥

सम्पूर्ण आमदोषजन्य रोगों की शान्ति अपतर्पण (उपवास) से होती है<sup>१</sup> । संतर्पण से उत्पन्न रोगों में अपतर्पण क्रिया कारण के विपरीत है । परन्तु अपतर्पण करने पर भी जहां अनुबन्ध हो वहां पर निदान के विपरीत औषध को छोड़ कर रोग के विपरीत ( जो जिस रोग के विपरीत हो ) वही औषध देनी चाहिये । यह बात केवल आमदोषजन्य रोगों के लिये ही नहीं है । अपितु सब रोगों के शमन के लिये निदान और रोग दोनों के विपरीत औषध देनी चाहिये ऐसा कुशल चिकित्सकों का मत है ।<sup>२</sup>

१. अपतर्पण दोष बल की अपेक्षा से तीन प्रकार का है । (१) लंघन, (२) लंघन-पाचन और ( ३ ) दोषावसेचन । अल्पदोष में लंघन, मध्य दोष में लंघन-पाचन और बहुदोष में दोषावसेचन करना चाहिये ।

२. गुरु और स्निग्ध पदार्थों से उत्पन्न रोग में लघु रुक्ष चिकित्सा । स्नेह-स्वेदजन्य रोग में लंघन वृंहण । वमन में और अधिक वमन कराना तदर्थकारी चिकित्सा है ।

विमुक्तामप्रदोषस्य पुनः परिपक्वदोषस्य दीप्ते चाग्नावभ्यङ्गा-  
स्थापनानुवासनं विधिवत्स्नेहपानं च युक्त्या प्रयोज्यं प्रसमीक्ष्य  
दोष-भेषजदेशकालबलशरीराहारसात्म्यसत्त्वप्रकृतिवयसामवस्थान्त-  
राणि विकारांश्च सम्यगिति ॥ २१ ॥

जब आम प्रदोष शान्त हो जायें, दोषों का परिपाक हो जाय, अग्नि-  
प्रदीप्त हो जाय तब दोष, देश, औषध, काल, बल, शरीर, आहार, सात्म्य,  
सत्त्व, प्रकृति और आयु आदि अवस्थाओं को तथा विकारों को भली प्रकार  
देखकर अभ्यंग, आस्थापन, अनुवासन आदि कर्म और विधिपूर्वक स्नेह-पान-  
युक्ति से कराना चाहिये ।

भवन्ति चात्र । अशितं खादितं पीतं लीढं च क्व विपच्यते ।

एतत्त्वां धीर ! पृच्छामस्तन्न आचक्ष्व बुद्धिमन् ! ॥ २२ ॥

इत्यग्निवेशप्रमुखैः शिष्यैः पृष्ट. पुनर्वसुः ।

आचक्ष्वे ततस्तेभ्यो यत्राहारो विपच्यते ॥ २३ ॥

नाभिस्तनान्तरं जन्तोरामाशय इति स्मृतः ।

अशितं खादितं पीतं लीढं चात्र विपच्यते ॥ २४ ॥

आमाशयगत. पाकमाहारः प्राप्य केवलम् ।

पक्वः सर्वाश्रयं पश्चाद्भ्रमनीभिः प्रपद्यते ॥ २५ ॥

स्वाये चवाये पीये या चाटे सब अन्न-पान कहां पर पचते हैं, हे धीर  
गुरो ! यह हम आप से पूछते हैं । हे बुद्धिमन् ! यह आप हम को बताइये ।  
इस प्रकार अग्निवेश आदि शिष्यों के पूछने पर पुनर्वसु ने उन को  
उपदेश किया । मनुष्य के नाभि और स्तनों के मध्यवर्ती प्रदेश को  
'आमाशय' कहते हैं । स्तनों से नीचे और नाभि से ऊपर 'आमाशय'  
और नाभि से नीचे गुदा से ऊपर 'पक्वाशय' है । आमाशय में अशित,  
खादित, पीत और लीढ यह चारों प्रकार का अन्न पचता है । आमाशय  
में पहुँचा सब प्रकार का अन्न यहां पर परिपक्व होकर भ्रमनी-स्रोतों द्वारा  
सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त होता है ।

तत्र श्लोकौ । तस्य मात्रावतो लिङ्गं फलं चोक्तं यथायथम् ।

अमात्रस्य तथा लिङ्गं फलं चोक्तं विभागशः ॥ २६ ॥

आहारविधायतनानि चाष्टौ

सम्यक्परीक्ष्यात्महितं विदध्यात् ।

अन्यश्च यः कश्चिदिहास्ति मार्गो

हितोपयोगेषु भजेत तं च ॥ २७ ॥

मात्रावान् चार प्रकार के आहार के लक्षण और फल पूर्ण रूप में कह दिये हैं । इसी प्रकार अमात्रा अर्थात् हीन और अधिक रूप में सेवन किये आहारके लक्षण और फल पृथक् २ करके कह दिये हैं । आहार विधि के आठ आयतन ( कारणों, अंगों ) की ठीक २ परीक्षा करके अपना हित करें और भी जो कोई उत्तम मार्ग, जिसका उपदेश नहीं किया हो उस को भी हित पदार्थों के उपयोग के अवसरों में प्रयोग करे ।

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने त्रिविधकुक्षीयविमान

नाम द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ ३ ॥

## तृतीयोऽध्यायः ।

अथातो जनपदोद्ध्वंसनीयं विमानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब 'जनपद-उद्ध्वंसनीय' नाम विमान की व्याख्या करेंगे । ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

जनपदमण्डले पञ्चालक्षेत्रे द्विजातिवराध्युषितायां काम्पिल्य-  
राजधान्यां भगवान्पुनर्वसुरात्रेयोऽन्तेवासिगणपरिवृतः पश्चिमे घर्म-  
मासे गङ्गातीरे वनविचारमनुविचरन् शिष्यमग्निवेशमब्रवीत् ॥ ३ ॥

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन द्विज वर्णों से बसे पंचाल क्षेत्र ( पंजाब ) के जनपद-मण्डल ( प्रान्त ) में, काम्पिल्य नाम राजधानी में

शिष्यगण सहित भगवान् आत्रेय पुनर्वसु ग्रीष्म काल के द्वितीय अर्थात् ज्येष्ठ मांस में गंगा के किनारे वन में विहार करते हुए शिष्य अग्निवेश को बोले । १

दृश्यन्ते हि खलु सौम्य ! नक्षत्रग्रहचन्द्रसूर्यानिलानलानां दिशां चा-  
प्रकृतिभूतानामृतवैकारिका भावाः, अचिरादितो भूरपि च न यथा-  
वद्रसवीर्यविपाकप्रभावमोपधीनां प्रतिविधास्यति, तद्वियोगाच्चातङ्क-  
प्रायता नियता । तस्मात्प्रागुद्ध्वंसात्प्राक् च भूमेर्विरसीभावादुद्ध्वं-  
सौम्य । भैषज्यानि यावन्नोपहतरसवीर्यविपाकप्रभावाणि भवन्ति ।  
वयं चैषां रसवीर्यविपाकप्रभावानुपयोक्ष्यामहे, ये चास्माननुका-  
ङ्क्षन्ति, यांश्च वयमनुकाङ्क्षामः; नहि सम्यगुद्धृतेषु भैषज्येषु सम्य-  
ग्विहितेषु सम्यग्विचारितेषु जनपदोद्ध्वंसकराणां विकाराणां  
किञ्चित्प्रतीकारगौरवं भवति ॥ ४ ॥

हे सौम्य ! नक्षत्र ( अश्विनी आदि ), ग्रह ( बृहस्पति आदि ),  
चन्द्रमा, सूर्य, वायु, अग्नि और दिशाओं के प्रकृति अर्थात् स्वाभाविक दशा  
में न होने पर ऋतु-विकार से उत्पन्न होने वाले नाना परिणाम देखे जाते  
हैं । इधर पृथ्वी भी ओषधियों में रस, वीर्य, विपाक और प्रभाव को  
शीघ्र उत्पन्न नहीं कर सकती । इसलिये प्रायः अयंकर रोगों का होना  
सम्भव होता है । अतः हे सौम्य ! जनपदोद्ध्वंस अर्थात् देश भर को नाश  
कर देने वाले रोग होने से पूर्व तथा पृथ्वी के विरस ( रसहीन या  
विपरीत रस वाली ) होने से पूर्व ही ओषधियों का संग्रह कर लो । जिस से  
कि इन ओषधियों के रस, वीर्य, विपाक और प्रभाव सुरक्षित बने रहें,  
नष्ट न हों । हम इन ओषधियों के रस, वीर्य, विपाक और प्रभाव का

१ सुश्रुत में इस विकार को 'मरक' कहा है । यथा—

शीतोष्णवर्षाणि खलु विपरीतान्योपधीर्व्यापादयन्ति ।

तासामुपयोगाद् विविधरोगप्रादुर्भावो मरको वा भवेत् ॥

उपयोग करते हैं जिन को हम चाहते हैं और जो हम को चाहते हैं, वे इन ओषधियों का उपयोग करेंगे। ठीक समय पर ओषधियों के उखाड़ लेने पर, ठीक प्रकार से बना लेने पर और ठीक प्रकार से दोष आदि की अपेक्षा से प्रयोग करने पर जनपद-नाशक रोगों के प्रतीकार करने में कुछ भी कठिनाई नहीं होती।

एवंवादिनं भगवन्तमात्रेयमग्निवेश उवाच उद्धृतानि खलु भगवन् ! भैषज्यानि विहितानि च सम्यक् सम्यग्विचारचारितानि च । अपि तु खलु जनपदोद्ध्वंसनमेकेनैव व्याधिना युगपदसमानप्रकृत्याहारदेहबलसात्म्यसत्त्ववयसां मनुष्याणां कस्माद्भवतीति ॥ ५ ॥

इस प्रकार से कहते हुए भगवान् आत्रेय को अग्निवेश बोले ! हे भगवन् ! ओषधियां ठीक प्रकार से इकट्ठी की जावेंगी, ठीक प्रकार से बना ली जावेंगी और भली प्रकार से विचार कर ही ओषधियां दी जावेगी। परन्तु भिन्न भिन्न प्रकृति, आहार, देह, बल, सात्म्य, सत्त्व और आयु वाले अनेक मनुष्यों को, देश भर को ध्वंस कर देने वाला एक ही प्रकार का रोग क्यों हो जाता है।

तमुवाच भगवानात्रेयः—एवमसामान्यानामेभिरप्यग्निवेश ! प्रकृत्यादिभिर्भावैर्मनुष्याणां येऽन्ये भावाः सामान्यास्तद्वैगुण्यात्समानकालाः समानलिङ्गाश्च व्याधयोऽभिनिर्वर्त्तमाना जनपदमुद्ध्वंसयन्ति । ते तु खल्विमे भावाः सामान्यजनपदेषु भवन्ति । तद्यथा—चायुरुदकं देशः काल इति ॥ ६ ॥

भगवान् आत्रेय ने कहा। हे अग्निवेश ! इन प्रकृति आदि की भिन्नता होने पर भी जो अन्य कारण सब मनुष्यों में समान रूप से रहते हैं, उनमें विकार आने से एक ही समय में, एक ही लक्षणों वाले रोग उत्पन्न होकर जनपद का नाश कर देते हैं। जनपदों में निम्न कारण समान रूप से होते हैं। जैसे—वायु, जल, देश और काल।

तत्र वातमेवंविधमनारोग्यकरं विद्यात् । तद्यथा—यथर्तुविषममति-



स्तिमितमतिचलमतिपरूपमतिशीतमत्युष्णमतिरूक्षमत्यभिष्यन्दिनम-  
तिभैरवारावमतिप्रतिहतपरस्परगतिमतिकुण्डलिनमसात्म्यगन्धवाष्प-  
सिकतापांशुधूमोपहतमिति ॥ ७ ॥

इन में निम्न लक्षणों वाले वायु को आरोग्यनाशक समझना चाहिये ।  
जैसे—ऋतु के विपरीत सर्वथा गतिरहित, बहुत वेग वाला, अति कर्कश,  
अति शीत, अति उष्ण, अति रूक्ष, दोष, धातु, मल, स्रोतों में अति क्लिन्नता  
उत्पन्न करने वाला, बहुत भीषण शब्द करने वाला, परस्पर वायु से वायु  
का वेग खण्डित होता हो, आवर्त ( भँवरों ) वाला, हानिकारक दुर्गन्ध  
वाला, वाष्प, सिकता ( रेत ), पांशु ( धूलि ) और धुंए से व्याप्त हो,  
तब वायु को अनारोग्यकारक, रोगकारक समझना चाहिये ।

उदकं तु खल्वत्यर्थविकृतगन्धवर्णरसस्पर्शवत्क्लेदबहुलमपक्रान्त  
जलचरविहङ्गमुपक्षीणजलाशयमप्रीतिकरमपगतगुणं विद्यात् ॥ ८ ॥

जल—जिस पानी का गन्ध, रस, वर्ण और स्पर्श बहुत अधिक विकृत  
हो गया हो, जिस में क्लेद ( सड़ाँद ) बहुत उठे, जिस पानी को जलचारी  
पक्षी छोड़कर चले गये हों, जिस पानी में रहने वाली मछलियाँ नष्ट  
हो गई हों और जलाशय भी कमती हो गया हो, इस प्रकार के  
पानी को अप्रिय और गुणरहित जाने ।

देश पुनर्विकृतवर्णगन्धरसस्पर्श क्लेदबहुलमुपसृष्टं सरीसृप-  
व्यालमशकशलभमक्षिकामूपकोलकश्माशानिकशकुनिजम्बुकादिभि-  
सृणोल्हूपोपवनवन्तं लताप्रतानादिवहुलमपूर्ववद्वपतितं शुष्कनष्टशस्यं  
धूम्रपवनं प्रध्मातपतत्रिगणमुत्क्रुष्टश्वगणमुद्भ्रान्तव्यथितविविधमृ-  
गपक्षिसङ्घमुत्सृष्टनष्टधर्मसत्यलज्जाचारशीलगुणजनपदं शश्वत्क्षुभि-  
तोदीर्णसलिलाशयं प्रततोल्कापातनिर्घातभूमिकम्पमतिभयारावरूपं  
रूक्षताम्रारुणमिनाभ्रजालसंवृताकचन्द्रतारकमभीक्षणं ससंभ्रमोद्वे-  
गमिव सत्रासरुदितमिव सतमस्कमिव गुह्यकाचरितमिवाक्रन्दितश-  
ब्दबहुलमिव चाहितं विद्यात् ॥ ९ ॥

देश—जिस स्थान का वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श विकृत हो गया हो, क्लेद बहुल हो, जिस स्थान में सरीसृप (सरकने वाले सांप आदि जन्तु), च्याल (सिंह, चीते आदि), मशक ( मच्छर ) शलभ (पतंगे), मक्खियां, मूषक ( चूहे ), उल्लूक ( उल्लू ), श्मशान में रहने वाले पक्षी गीध, चील, गोदड़ आदि का उपद्रव हो, जहां पर ये बहुत हों, जहां पर नृण, घास, लता आदि बहुत हों, जो पहिले से एकदम नया ही दीखे, जहां पर अनाज के खेत सूख या चष्ट हो गये हो, जहां की वायु धुंवाली हो, जहां पर पक्षीगण घोर शब्द करते हों, जहां पर कुत्ते मुंह उठा कर रोते हों, जहां पर घवराये और पीड़ित नाना प्रकार के मृग-पशु-पक्षीसमूह हों, जिन नगरों में से धर्म, सत्य, लज्जा, आचार, शील, दया, दाक्षिण्य आदि गुण नष्ट हो गये हो, जहां के तालाबों का पानी विना वायु के भी निरन्तर क्षुभित और तरंगों वाला रहे, जहां पर उल्कापात, बिजली आदि का गिरना, भूकम्प आदि लगातार हों और भयकर शब्द उत्पन्न होता हो, जहां पर सूर्य, चन्द्र और तारे रूखे, तांबे के से, लाल, काले बादलों से ढंपे दिखाई दें, जहां पर बार बार भ्रम, उद्वेग के साथ, भय के साथ रोने का सा शब्द सुने, अन्धकार सा हो, जो गुह्यक ( यक्ष ) आदि देवयोनियों से आक्रान्त सा हो, तथा रोने के से शब्दों से व्याप्त हो उस देश को अनारोग्यकारक समझना चाहिये ।

कालं तु खलु यथर्तुलिङ्गाद्विपरीतलिङ्गमतिलिङ्गं हीनलिङ्गं चाहितं व्यवस्येत् ॥ १० ॥

काल—शीत, उष्ण और वर्षा इन ऋतुओं के अपने लक्षणों से विपरीत होना या उन लक्षणों का अधिक होना या कम होना ( मिथ्यायोग, अतियोग और अयोग ) अनारोग्यकारक होता है ।

इमानेवंदोषयुक्तांश्चतुरो भावान् जनपदोद्ध्वंसकरान् वदन्ति कुशलाः । अतोऽन्यथाभूतांस्तु हितानाचक्षते ॥ ११ ॥

विगुणेष्वपि तु खल्वेतेषु जनपदोद्ध्वंसनकरेषु भावेषु भेषजेतो-  
पपाद्यमानानामभयं भवति रोगेभ्य इति ॥ १२ ॥

निपुण वैद्य इस प्रकार के दोषों वाले वायु, जल, देश और काल इन चारों को जनपद-नाश का कारण मानते हैं। इनसे विपरीत लक्षणों वाले इन चारों को आरोग्यकारक गिनते हैं। इन चारों के विगुण होने व जनपद के नाशक कारणों के उपस्थित होने पर भी, दोष और दूष्य की अपेक्षा करके औषध द्वारा चिकित्सा करने पर पुरुषों को रोग नहीं होते, वे पुरुष रोगों से बचे रहते हैं।

भवन्ति चात्र । वैगुण्यमुपपन्नानां देशकालानिलाभसाम् ।

गरीयस्त्वं विशेषेण हेतुमत्संप्रवक्ष्यते ॥ १३ ॥

वाताज्जलं, जलादेशं, देशात्कालं, स्वभावतः ।

विद्याद्वेषरिहार्यत्वाद्गरीयस्तरमर्थवित् ॥ १४ ॥

वाय्वादिपु यथोक्तानां दोषाणां तु विशेषवित् ।

प्रतीकारस्य सौकर्ये विद्याल्लाघवलक्षणम् ॥ १५ ॥

विकृत हुए देश, काल, वायु और जल इनमें कारण के विचार-अनुसार-किसका उत्कर्ष है इसका वर्णन करते हैं। यथार्थ तत्व को जानने वाला वैद्य स्वभाव से वायु से जल को, जल से देश को, देश से काल को बढ़ कर समझे। क्योंकि इनका त्याग नहीं किया जा सकता। यदि वायु खराब हो तो दूसरे स्थान पर सुगमता से जाया जा सकता है। जल तो जीवन के लिये सेवन करना आवश्यक है। यदि प्रथम से जल को भी छोड़ दें, देश से वचना कठिन है। देश से भी यदि देशान्तर में जायें तो काल से वचना अशक्य है। इसलिये सबसे अधिक प्रबल काल है। वायु, जल, देश और काल इन चारों के दोषों को दूर करने के उपाय जानने और दोषों के प्रतिकार के सुगम होने पर कुशल वैद्य इनके शान्ति के लक्षण भी जानें।

चतुर्ष्वपि तु दुष्टेषु कालान्तेषु यदा नराः ।

भेषजेनोपपाद्यन्ते न भवन्त्यातुरास्तदा ॥ १६ ॥

वायु आदि इन चारों के विकृत होने पर भी जब पुरुष औषध सेवन करते हैं तब रोग नहीं होते।

येषां न मृत्युसामान्यं सामान्यं न च कर्मणाम् ।

कर्म पञ्चविधं तेषां भेषजं परमुच्यते ॥ १७ ॥

रसायनानां विधिवच्चोपयोगः प्रशस्यते ।

शस्यते देहवृत्तिश्च भेषजैः पूर्वमुद्धृतैः ॥ १८ ॥

जिन पुरुषों में मरण की समानता नहीं और न कर्मों की समानता है, उनके लिये तो व्रमन, विरेचन आदि पञ्चकर्म सबसे श्रेयस्कर उपाय है। इसके साथ में विधिपूर्वक रसायन ( वृष्य प्रयोगों ) का सेवन करना चाहिये। तथा व्यापत्ति से पूर्व एकत्र की हुई ओषधियो (अन्न आदि) से शरीर का पालन करना चाहिये।

सत्यं भूते दया दान बलयो देवतार्चनम् ।

सद्बृत्तस्यानुवृत्तिश्च प्रशमो गुप्तिरात्मनः ॥ १९ ॥

हितं जनपदानां च शिवानामुपसेवनम् ।

सेवनं ब्रह्मचर्यस्य तथैव ब्रह्मचारिणाम् ॥ २० ॥

संकथा धर्मशास्त्राणां महर्षीणां जितात्मनाम् ।

धार्मिकैः सात्त्विकैर्नित्यं सहास्या वृद्धसंमतैः ॥ २१ ॥

इत्येतद्भेषजं प्रोक्तमायुषः परिपालनम् ।

येपामनियतो मृत्युस्तास्मिन् काले सुदारुणे ॥ २२ ॥

सत्य, प्राणियों में दया, दान, बलि, देवता की अर्चना, सद् बृत्त का पालन, इन्द्रियों को विषयों से रोकना, अपनी रक्षा, अविकृत ( अच्छे, जहां बीमारी न हो ) जनपदों ( देशों का ) का सेवन करना, ब्रह्मचर्य तथा ब्रह्मचारियों का सेवन करना, उन के पास रहना, धर्मशास्त्रों की कथा तथा जितात्मा महर्षियों से बात-चीत करना, धार्मिक सत्त्व प्रकृति के वृद्धों के पास उठना बैठना, ( तथा दैव-व्यपाश्रय कर्म का सेवन ), आयु की रक्षा के लिये औषध है। जिन लोगों की मृत्यु इस दारुण काल में निश्चित ( अवश्यम्भावी ) नहीं है, उन के लिये उपरोक्त कर्म औषध हैं। जिनकी मृत्यु निश्चित है, उन में औषध का भी कुछ उपयोग नहीं है।

इति श्रुत्वा जनपदोद्ध्वंसने कारणान्यात्रेयस्य भगवतः पुनरपि भगवन्तमात्रेयमग्निवेश उवाच—अथ खलु भगवन् ! कुतोमूल-  
मेषां वाय्वादीनां वैगुण्यमुत्पद्यते, येनोपपन्ना जनपदमुद्ध्वंसय-  
न्तीति ॥ २३ ॥

जनपद-नाश के इन कारणों को सुन कर भी अग्निवेश ने भगवान् आत्रेय से पूछा । हे भगवन् ! वायु आदि में किस कारण से विगुणता उत्पन्न होती है, जिस से विकृत होकर ये जनपदों को नाश करते हैं ।

तमुवाच भगवान्नात्रेयः—सर्वेषामप्यग्निवेश ! वाय्वादीनां यद्वैगु-  
ण्यमुत्पद्यते तस्य मूलमधर्मः, तन्मूलं वाम्त्कर्म पूर्वकृतम् । तयोर्योनिः  
प्रज्ञापराध एव । तद्यथा—यदा देशनगरनिगमजनपदप्रधाना धर्म-  
मुत्क्रम्याधर्मेण प्रजां वर्तयन्ति, तदाश्रितोपाश्रिता पौरजनपदा व्य-  
वहारोपजीविनश्च तमधर्ममभिवर्धयन्ति, ततः सोऽधर्मः प्रसभं  
धर्ममन्तर्धत्ते, ततस्तेऽन्तर्हितधर्माणो देवताभिरपि त्यज्यन्ते, तेषां  
तथाऽन्तर्हितधर्माणामधर्मप्रधानानामपक्रान्तदेवतानामृतत्वा व्याप-  
द्यन्ते, तेन नापो यथाकालं देवो वर्पति, न वा वर्पति, विकृता वा वर्पति,  
वातानसम्यगभिवान्ति, क्षितिर्व्यापद्यते, सलिलान्युपशुष्यन्ति, ओष-  
धयः स्वभाव परिहायापद्यन्ते विकृतिम्, तत उद्ध्वंसन्ते जनपदाः स्पर्-  
शाभ्यवहार्यदोषात् ॥ २४ ॥

अग्निवेश को भगवान् आत्रेय ने कहा । इन वायु आदि सब में जो विगुणता उत्पन्न होती है, उस का मूल कारण अधर्म है । इस अधर्म का मूल कारण पूर्व किये और असत् कर्म ( अहित कर्म ) हैं । इन दोनों अधर्म और अज्ञान कर्मों की उत्पत्ति का कारण प्रज्ञापराध अर्थात् बुद्धि का दोष है । इस समय देश, नगर, प्रान्त और जनपद के अध्यक्ष (प्रधान शासक जन) धर्म का अतिक्रमण करके अधर्म से प्रजाजनों के साथ व्यवहार करने लगते हैं, तब इन प्रधान जनों के आश्रित एवं पीछे चलने वाले नगर और जनपद वासी लोग तथा वाणिज्य व्यवहार वा अदालत

द्वारा जीविका प्राप्त करने वाले मनुष्य इस अधर्म को और भी बढ़ाते हैं । इस प्रकार से बढ़ा हुआ अधर्म बलात् धर्म का लोप कर देता है । इस धर्म के लोप हो जाने से देवता लोग नागरिकों के लोगों का साथ छोड़ देते हैं, इस प्रकार से अधर्म की प्रधानता होने और देवता आदि का सहयोग छूट जाने पर ऋतुएं ( शीत, उष्ण और वर्षा ) विकृत हो जाती हैं । इस से देव ( मेघ ) ठीक समय पर वर्षा नहीं करता, सर्वथा नहीं करता अथवा विकृत रूप में जल बरसाता है । वायुएं भी भली प्रकार नहीं चलती, भूमि विगड जाती है, पानी सूख जाते हैं । ओषधियां अपनी प्रकृति को छोड़ कर विकृति को प्राप्त हो जाती हैं । तब स्पर्श और आहार के दोष से जनपद नष्ट होने लगते हैं ।

तथा शस्त्रप्रभवस्यापि जनपदोद्ध्वंसस्याधर्म एव हेतुर्भवति ।  
तेऽतिप्रवृद्धलोभरोषमोहमानास्ते दुर्बलानवमत्यात्मस्त्रजनपरोपघा-  
ताय शस्त्रेण परस्परमभिक्रामन्ति, परान्वाऽतिक्रामन्ति, परैर्वाऽ-  
भिक्राम्यन्ते ॥ २५ ॥

रक्षोगणादिभिर्वा विविधैर्भूतसङ्घैस्तमधर्ममन्यद्वाऽप्यपचारान्त-  
रमुपलभ्याभिहन्यन्ते ॥ २६ ॥

शस्त्र से होने वाले युद्ध आदि में भी जो जनपद का नाश होता है उस का भी कारण अधर्म ही है । जिन पुरुषों में लोभ, क्रोध, मान बहुत बढ़ा होता है, वे दुर्बल पुरुषों का तिरस्कार करके अपने और दूसरों के नाश के लिये परस्पर शस्त्रों से आक्रमण करते हैं । परायों पर जा चढ़ते हैं या दूसरे इन पर आक्रमण करते हैं । इस अवस्था में राक्षस आदि नाना प्रकार के भूत ( प्राणि ) समूह इस अधर्म या इसी प्रकार के अन्य अपचारों से इन पर आघात करते हैं ।

तथाऽभिशापप्रभवस्याप्यधर्म एव हेतुर्भवति । ये लुप्तधर्माणो  
धर्मादपेतास्ते गुरुवृद्धसिद्धिर्षिपूज्यानवमत्याहतान्याचरन्ति, ततस्ताः  
प्रजा गुर्वादिभिरभिशाप्ता भस्मतामुपयान्ति प्रागेवानेकपुरुषकुल-

विनाशाय, नियतप्रत्ययोपलम्भान्नियता अनियतप्रत्ययोपलम्भा-  
दनियताश्चापरे ॥ २७ ॥

इसी प्रकार अभिशाप से देश के नाश होने का भी मुख्य कारण अधर्म ही है । जिन देशों में धर्म लुप्त हो जाता है और जो धर्म से व्युत्पन्न हो जाते हैं वे गुरु, वृद्ध, सिद्ध, ऋषि, पूज्य पुरुषों का तिरस्कार करके अहित कार्यों का सेवन करने लगते हैं । तब वे प्रजाएं गुरुजनों से शापित होकर शीघ्र ही भस्म हो जाते हैं । अनेक पुरुषों के कुल विनाश के लिये जहां विशेष पुरुषों के अपराध होते हैं वहां वे ही नष्ट होते हैं और जहां निश्चित कारण प्रतीत नहीं होता वहां अनियमित रूप से अनेक अन्य भी नष्ट हो जाते हैं ।

प्रागपि चाधर्मादृते नाशुभोत्पत्तिरन्यतोऽभूत् ; आदि काले ह्यदि-  
तिसुतसमौजसोऽतिबलविपुलप्रभावाः प्रत्यक्षदेवदेवर्षिधर्मयज्ञविधि-  
विधानाः शैलेन्द्रसारसंहतस्थिरशरीराः प्रसन्नवर्णेन्द्रियाः पवनसमवल-  
जवपराक्रमाश्चारुस्फिचोऽभिरूपप्रमाणाकृतिप्रसादोपचयवन्तः सत्या-  
र्जवानृशंस्यदानदमनियमतपउपवासब्रह्मचर्यव्रतपरा व्यपगतभयराग-  
द्वेषमोहलोभक्रोधशोकमानरोगनिद्रातन्द्राश्रमकृमालस्यपरिग्रहाश्च पु-  
रुषा वभूवुरमितायुषः । तेषामुदारसत्त्वगुणकर्मणामचिन्त्यरसवीर्य-  
विपाकप्रभावगुणसमुद्भितानि प्रादुर्वभूवु सस्यानि सर्वगुणसमुद्भित-  
त्वात्पृथिव्यादीनां कृतयुगस्यादौ ।

रोग आदि की उत्पत्ति का मूल कारण—पहले भी अधर्म के बिना किसी अन्य कारण से रोग आदि अशुभों की उत्पत्ति नहीं हुई । कृतयुग में देवों के समान तेज-पराक्रम वाले, अति बलवान्, विशाल प्रभाव वाले, देव, देवर्षि, धर्म, यज्ञ विधि आदि सत्कर्मों को प्रत्यक्ष देखने वाले, पर्वत के समान दृढ, संगठित, स्थिर शरीर वाले, निर्मल वर्ण ( कान्ति ), और इन्द्रियों से युक्त, वायु के समान बल, वेग और पराक्रम वाले, सुन्दर नितम्ब वाले, आयु के अनुकूल अवयव परिमाण, आकृति और

प्रसाद वाले और गुणों और पुष्टि से युक्त, सत्य, आर्जव (ऋजुता, नम्रता), अनृशंसता ( दया ), दम, दान, नियम, तप, उपवास, ब्रह्मचर्य और व्रतों में तत्पर, भय, राग, द्वेष, मोह, लोभ, क्रोध, शोक, मान, रोग, निद्रा, तन्द्रा, श्रम, कुम, आलस्य, परिग्रह इन से रहित और अमित ( युगों के अनुसार दीर्घ ) आयु वाले पुरुष थे । सत्य युग के प्रारम्भ में इन पुरुषों के उदार चित्त और गुणों, धार्मिक कर्मों के अचिन्त्य प्रभाव से पृथिवी आदि महाभूतों के सर्वगुणसम्पन्न होने से शस्य ( धान्य ) भी रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव और गुणों वाले उत्पन्न होते थे ।

भ्रश्यति तु कृतयुगे केषांचिदत्यादानात्सांपन्निकानां शरीर-  
गौरवमासीत् । शरीरगौरवात् श्रमः श्रमादालस्यं, आलस्यात् संचयः,  
संचयात् परिग्रहः, परिग्रहाल्लोभः प्रादुर्भूतः कृते ॥ २८ ॥

कृतयुग के उतरते हुए अन्तिम भाग में कुछ सम्पन्न धनी लोगों के अतिभोजन से शरीर में भारीपन आ गया । शरीर में भारीपन आने से श्रम, श्रम से आलस्य, आलस्य से संचय ( इकट्ठा करने की बुद्धि ), संचय से परिग्रह ( ममता ) और परिग्रह से लोभ उत्पन्न हुआ ।

ततस्त्रेतायां लोभादभिद्रोहः, अभिद्रोहादनृतवचनं अनृतवचना-  
त्कामक्रोधमानद्वेषपारुष्याभिघातभयतापशोकचित्तोद्वेगादयः प्रवृत्ताः ।  
ततस्त्रेतायां धर्मपादोऽन्तर्धानमगमत्, तस्यान्तर्धानात् ( युगवर्षप्रमा-  
णस्य पादहासः ) पृथग्व्यादीना गुणपादप्रणाशोऽभूत्, तत्प्रणाशकृतश्च  
सत्यानां स्नेहवैमल्यरसवीर्यविपाकप्रभावगुणपादभ्रंशः । ततस्तानि  
प्रजाशरीराणि हीयमानगुणपादैश्चाहारविहारैर्यथापूर्वमुपष्टभ्यमा-  
नान्यग्निमारुतपरीतानि प्राग्व्याधिभिर्ज्वरादिभिराक्रान्तानि, अतः  
प्राणिनो हासमवापुरायुषः क्रमश इति ॥ २९ ॥

फिर त्रेता में लोभ से अभिद्रोह, अभिद्रोह से असत्य भाषण, अस-  
त्य भाषण से काम, क्रोध, मान, द्वेष, कठोर वचन, अभिघात ( परस्पर-  
हिंसा ), भय, ताप, शोक, चिन्ता, उद्वेग आदि उत्पन्न हुए । इस के पीछे



त्रेता में धर्म का एक चरण लोप हो गया । इस धर्म के एक पांव के लोप होने से आहार-विहार के गुणों का भी एक चतुर्थांश नष्ट हो गया । साथ में पृथिवी आदि के गुणों में भी एक चौथाई कमी आ गई । इस कमी के कारण धान्यों के स्नेह, निर्मलता, रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव में भी चतुर्थांश घटती हो गई । इस से पुरुषों के शरीर के गुणों में चतुर्थांश की कमी होने से, आहार विहार के गुणों में भी घटती होने से, पूर्व युग के समान वे अग्नि, वायु वाले नहीं रहे । अग्नि, वायु के गुणों में भी कमी आ गई । इसलिये ज्वर आदि रोगों से प्रथम प्रथम आक्रान्त हुए । अतः कृतयुग से प्राणियों की आयु में एक २ चतुर्थांश की कमी हुई ।

भवतश्चात्र । युगे युगे धर्मपादः क्रमेणानेन हीयते ।

गुणपादश्च भूतानामेवं लोकः प्रलीयते ॥ ३० ॥

संवत्सरशते पूर्णं याति संवत्सरः क्षयम् ।

देहिनामायुषः काले यत्र यन्मानमिष्यते ॥ ३१ ॥

इति विकाराणां प्रागुत्पत्तिहेतुरुक्तो भवति ॥ ३२ ॥

इस क्रम से प्रत्येक युग में धर्म का एक एक पाद ( चतुर्थांश ) क्षीण होता जाता है । इसी क्रम से पृथिवी आदि भूतों के गुणों में भी एक एक पाद की कमी होती जाती है । अर्थात् सत्य युग में चार पाद, त्रेता में तीन पाद, द्वापर में दो और कलियुग में एक पाद शेष रह जाता है । इस प्रकार से लोक प्रलय को प्राप्त होते हैं । जिस युग में मनुष्यों की आयु और युग का जो २ परिमाण है, उस युगमान के सौ वर्ष पूर्ण होने पर आयु का एक २ वर्ष कम हो जाता है । जैसे कलियुग में सौ वर्ष की आयु है । युगमान १०० वर्ष पूर्ण होने पर एक वर्ष कम होकर निन्यानवे ( ९९ ) वर्ष परायु होती है । यह रोगों के प्रथम उत्पत्ति का कारण कह दिया ।

एववादिनं भगवन्तमात्रेयमग्निवेश उवाच—किं नु खलु भगवन् ! नियतकालप्रमाणमायुः सर्वं न वेति ॥ ३३ ॥

इस प्रकार कहते हुए भगवान् मात्रेय से अग्निवेश ने पूछा—भगवन् ! क्या आयु का समय और परिमाण सब निश्चित है वा अनिश्चित ?

भगवानुवाच—इहाग्निवेश ! भूतानामायुर्युक्तिमपेक्षते ॥३४ ॥

दैवे पुरुषकारे च स्थितं ह्यस्य बलाबलम् ।

भगवान् आत्रेय ने कहा—हे अग्निवेश ! प्राणियों की आयु, दैव और पुरुषकार इन दोनों का योग चाहती है । इसलिये आयु का बल और अबल . दैव और पुरुषार्थ पर स्थित है ।

दैवमात्मकृतं विद्यात्कर्म यत्पौर्वदेहिकम् ॥ ३५ ॥

स्मृतः पुरुषकारस्तु क्रियते यदिहापरम् ।

बलाबलविशेषोऽस्ति तयोरपि च कर्मणोः ३६ ॥

अपने शरीर से जो कर्म पूर्व जन्म में किये हों उन को 'दैव' जाने । और इस जन्म में जो कर्म किया जाता है उसे पुरुषकार कहा है । इन दोनों प्रकार के कर्मों का विशेष बल और अबल होता है ।

दृष्टं हि त्रिविधं कर्म हीनं मध्यममुत्तमम् ।

यह कर्म भी तीन प्रकार का है । हीन, मध्यम और उत्तम ।

तयोरुदारयोर्भुक्तिर्दीर्घस्य च सुखस्य च ॥ ३७ ॥

नियतस्यायुषो हेतुर्विपरीतस्य चेतरा ।

मध्यमा मध्यमस्येष्टा,

तीन प्रकार की आयु—दैव और पुरुषकार दोनों प्रकार के कर्म उत्तम होने से आयु का परिमाण अर्थात् नियत काल दीर्घ होता है । सुखकारक एवं हितकारक आयु मिलती है और यदि इन दोनों प्रकार के कर्मों में विपरीत युक्ति हो तो आयु अनियत, छोटी, दुःखी एवं अहितकारक रहती है । इन कर्मों में मध्यम बल हो तो आयु भी मध्यम प्रकार की रहती है ।

कारणं शृणु चापरम् ॥ ४८ ॥

दैवं पुरुषकारेण दुर्बलं ह्युपहन्यते ।

दैवेन चेतरत्कर्म विशिष्टेनोपहन्यते ॥ ३९ ॥

और भी कारण सुनो । जहां पर एक कर्म बलवान् हो, दूसरा निर्बल हो, वहां पर बलवान् दुर्बल कारण को दबा लेता है । इसलिये यदि पुरुष-

कार कर्म बलवान् होगा तो निर्बल दैव को दबा लेगा और यदि दैव बलवान् होगा तो वह दूसरे कर्म ( पुरुषकार ) को नष्ट कर देगा । निर्बल को बलवान् दबा लेता है ।

दृष्ट्वा यदेके मन्यन्ते नियतं मानमायुषः ।

कर्म किञ्चित् क्वचित्काले विपाके नियतं महत् ।

किञ्चित्कालनियतं प्रत्ययैः प्रतिबोध्यते ॥ ४० ॥ इति ।

इस बात को देख कर कुछ विद्वान् आयु का परिमाण निश्चित मानते हैं । किसी बलवान् कर्म का तो किसी विशेष निश्चित समय में ही परिपाक होता है और किसी का विपाक काल अनिश्चित है, कभी भी उसका पाक हो सकता है । कौन कर्म कब पकेगा इस बात का निर्णय कारणों से किया जाता है । कभी सहकारी अन्य कारण को पाकर कर्म का पाक होता है । किया कर्म अवश्य भोगना पड़ता है । इस प्रकार कर्म के परिपाक काल के नियत और अनियत होने से आयु भी नियत तथा अनियत है ।

तस्माद्दुभयदृष्टत्वादेकान्तप्रहणमसाधु । निदर्शनमपि चात्रोदाहरिष्याम । यदि हि नियतकालप्रमाणमायुः सर्वं स्यात्, तदायुष्कामानां न मन्त्रौषधिमणिमङ्गलवलयुपहारहोमनियमप्रायश्चित्तोपवासस्वस्त्ययनप्रणिपातगमनाद्याः क्रिया इष्टयश्च प्रयुज्येरन्, नोद्भ्रान्तचण्डचपलगोगजोष्ट्रखरतुरगमहिषादयः पवनादयश्च दुष्टाः परिहार्याः स्युर्न प्रपातगिरिविषमदुर्गाम्बुवेगास्तथा न प्रमत्तोन्मत्तोद्भ्रान्तचण्डचपलमोहलोभाकुलमवयो नारयो न प्रवृद्धोऽग्निर्न च विविधविपाश्रयाः सरीसृपोरगादयः, न साहसं नादेशकालचर्या, न नरेऽप्रकोप इत्येवमादयो हि भावा नाभावकराः स्युः, आयुषः सर्वम् नियतकालप्रमाणात्वात् ।

इसलिये नियत और अनियत दोनों प्रकार की आयु के दीखने से कोई एक पक्ष अर्थात् आयु का नियत वा अनियत काल मानना यह ठीक नहीं

है । इस के लिये उदाहरण भी देते हैं — यदि आयु का परिमाण नियत मान लिया जाय तो दीर्घायु चाहने वाले मनुष्य आयु को बढ़ाने वाले मंत्र, ओषधि, क्रिया, इष्टि, याग, मणि, संगल, वलि, उपहार, नियम, प्रायश्चित्त, उपवास, स्वस्त्ययन, प्रणिपात, गमनादि क्रियाओं को न किया करें । इसी प्रकार इधर उधर दौड़ते हुए भयानक, चपल, गौ, हाथी, ऊंट, गधे, घोड़े, भैंसे आदि तथा दुष्ट वायु आदि से कोई भी अपने को न बचावे, न कोई उन को दूर करने का यत्न करे । प्रपात (जल-प्रपात), पहाड, कठिन दुर्ग, पानी के वेग से कोई अपने को न बचावे । मस्त, उन्मत्त, भ्रान्त, चण्ड, चपल, मोह, लोभ से व्याप्त बुद्धि वालों से अपने को न बचावें, शत्रु को भी निवारण न करे । तेज जलते अग्नि से कोई न डरे । विविध प्रकार के विपैले पदार्थों और सर्प आदि जन्तुओं से, कोई भी भय न माने । अनुचित बल के आरम्भ से न बचे । देश काल के विपरीत आचरण से अपने को न बचावे । राजा का प्रकोप भी मृत्यु का कारण न बन सके । इन समस्त कारणों से भी आयु का नाश न हो । क्योंकि सब की आयु का काल और परिमाण नियत है । आयु के नियत काल होने से यह कारण भी मारक नहीं बनने चाहियें । मृत्यु के भय से ही लोग इन कारणों से बचते हैं ।

न चानभ्यस्ताकालमरणभयनिवारकाणामकालमरणभयमागच्छेत्प्राणिनां, व्यर्थाश्चारम्भकथाप्रयोगबुद्धयः स्युर्महर्षीणां रसायनाधिकारे, नापीन्द्रो नियतायुषं शत्रुं वज्रेणाभिहन्यात्, नाश्विनावार्तभेषजेनोपपादयेतां, न महर्षयो यथेष्टमायुस्तपसा प्राप्स्युः, नच विदितवेदितव्या महर्षयः ससुरेशा रसायनादीनि सम्यक् पश्येयुरुपदिशेयुराचरेयुर्वा ।

अकाल मरण के भय का निवारण करने वाले अनभ्यासी प्राणियों को अकाल मृत्यु के कारणों से भय भी न हो । महर्षियों के रसायनाधिकार में कहे हुए उपदेश, प्रयोग और ज्ञान ये सब व्यर्थ हो जायें । नियत आयु

वाले शत्रु को इन्द्र भी वज्र से नहीं मार सके । अश्विनीकुमार भी रोगी पुरुष की ओपधियों से चिकित्सा न कर सके । और महर्षिगण तप द्वारा वाञ्छित वर्षों तक की आयु भी प्राप्त न कर सके । सर्वज्ञ महर्षिगण इन्द्र के साथ आयुवर्धक रसायनादि को न देखे, न उपदेश करे और न स्वयं व्यवहार करे । क्योंकि आयु का काल और परिमाण तो निश्चित है ।

अपि च सर्वचक्षुषामेतत्पर यदैन्द्रं चक्षुः, इदं चास्माकं प्रत्यक्षं, यथा पुरुषसहस्राणामुत्थायांत्थायाहवं कुर्वतामकुर्वतां चातुल्यायुष्ट्वं, तथा जातमात्राणामप्रतीकारात् प्रतीकाराच्चाविषविषप्राशिनां चाप्यतुल्यायुष्ट्वं, न च तुल्यो योगः क्षेम उदपानघटानां चित्रघटानां चोत्सीदतां, तस्माद्धितोपचारमूलं जीवितमतो विपर्ययान्मृत्युः ।

सब आँखों से श्रेष्ठ प्रमाण यह इन्द्र ( आत्मा ) की आंख है—हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि हज़ारों मनुष्य प्रतिदिन उठ उठ कर शस्त्रों से लड़ाई करते हैं, नहीं भी करते हैं, उन सब की आयु तुल्य नहीं होती अर्थात् लड़ने वाले मरते और न लड़ने वाले नहीं मरते हैं । इसी प्रकार उत्पन्न हुए संन्यास रोहिणी आदि रोगों की जो तत्काल चिकित्सा कर लेते हैं वे बच जाते हैं और जो चिकित्सा नहीं करते वे मरते हैं । इसी प्रकार विष खाने वाले मरते हैं और विष नहीं खाने वाले नहीं मरते । पानी रखने या लाने के लिये जो पके घड़े बनाये जाते हैं उन का तथा चित्र घटों ( कच्चे घटों ) का योग-क्षेम समान नहीं हो सकता । वे समान काल तक स्थिर नहीं रह सकते । किन्तु रक्षण करने से कच्चे घड़े भी देर तक रह सकते हैं और न पालने से पके घड़े भी शीघ्र टूट जाते हैं । इसलिये हितकारी वस्तुओं वा कार्यों का मेव न करना ही जीवन का निमित्त है । इस के विपरीत अहिंसाचरण करना मृत्यु का कारण है ।

५१ च देशकालात्मगुणविपरीतानां कर्मणामाहारविहाराणां च क्रिःपयोगं सम्यक् सर्वातियोगसंधारणमसंधारणमुदीर्णानां च गतिमतां साहसानां च वर्जनमारोग्यानुवृत्तौ हेतुमुपलभामहे उपदिशामः सम्यक् पश्यामश्चेति ॥ ४१ ॥

और भी, देश, काल, आत्मा इन के गुणों के सात्म्य, कर्म तथा आहार द्रव्यों को विधिपूर्वक उपयोग करना, काल, कर्म और इन्द्रियार्थों के अयोग, मिथ्यायोग और अतियोग का त्याग, अनुपस्थित वेगों को रोकना ( बलात्कार से बाहर न करना ) और उपस्थित वेगों को न रोकना और सब प्रकार के साहसिक कर्मों ( अनुचित बल के कार्यों ) का त्याग, ये सब बातें आरोग्य के संरक्षण में कारण होती हैं । इस स्वस्थवृत्त का हम भली प्रकार उपदेश करते हैं और इसे अच्छी प्रकार देखते भी हैं ।

अतः परमग्निवेश उवाच—एवं सत्यनियतकालप्रमाणायुषां भगवन् ! कथं कालमृत्युरकालमृत्युर्वा भवतीति ॥ ४२ ॥

इस के अनन्तर अग्निवेश बोले ! इस प्रकार से यदि आयु का समय अनिश्चित है, तब कालमृत्यु और अकालमृत्यु किस प्रकार होती है ?

तमुवाच भगवानात्रेयः—श्रूयतामग्निवेश ! यथा यानसमायुक्तोऽक्षः प्रकृत्यैवाक्षगुणैरुपेतः (स्यात्, स च) सर्वगुणोपपन्नो बाह्यमानो यथाकालं स्वप्रमाणक्षयादेवावसानं गच्छेत्, तथाऽऽयुः शरीरोपगतं बलवत्प्रकृत्या यथावदुपचर्यमाणं स्वप्रमाणक्षयादेवावसानं गच्छति, स मृत्युः काले ।

भगवान् आत्रेय ने कहा—हे अग्निवेश सुनो ! जिस प्रकार गाड़ी में लगा अक्ष (धुरा), धुरे के समस्त गुणों से युक्त होने पर भी अधिक भार आदि के न पड़ने से, ठीक समय में अपने परिमाण के क्षय होने पर विसता २ टूट जाता है, उसी प्रकार शरीर से सम्बद्ध आयु भी बलवान् प्रकृति, युक्ति तथा स्वस्थवृत्त-विधि से पाली हुई, अपने समय में ही क्षय को प्राप्त होती है, इस मृत्यु को 'कालमृत्यु' कहते हैं ।

यथा च स एवाक्षोऽतिभाराधिष्ठितत्वाद्विषमपथादपथादक्षचक्रभङ्गाद्बाह्यवाहकदोषादणिमोक्षात् पर्यसनादनुपाङ्गाच्चान्तरा व्यसनमाद्यते, तथाऽऽयुरप्ययथाबलमारम्भाद्यथाग्न्यभ्यवहरणाद्विषमाभ्यवहरणाद्विषमशरीरन्यासादतिमैथुनादसत्संश्रयादुदीर्णवेगविनिग्र-

हाद्विधायिवैगाविधारणाद् भूतविषवाय्वरग्न्युपतापादभिधातादाहारप्र-  
तीकारविवर्जनाच्च यावदन्तरा व्यसनमापद्यते । तथा नियतायुष  
अन्तरा अपराधान्निरुह्यन्ते । स मृत्युरकाले । तथा ज्वरादीनप्यात-  
ङ्कान्मिथ्योपचरितानकालमृत्युन् पश्याम इति ॥ ४३ ॥

और यदि इसी अक्ष पर बहुत अधिक भार रक्ता जाये, अथवा विषम  
मार्ग से, कुमार्ग से, धुरे या पहिये के टूटने से, बैल या वाहक (सारथि )  
के दोष से, अग्नि, धुरी में लगी कील के निकल जाने से, स्नेह न पड़ने से,  
गिरने से नियत समय से पूर्व ही टूट जाता है उसी प्रकार आयु भी साह-  
सिक कार्यों से, अग्नि के अनुसार भोजन न करने या विषम भोजन करने से,  
अति मैथुन से, उपस्थित वेगों को रोकने से, रोकने योग्य (काम क्रोधादि)  
वेगों को न रोकने से, शरीर को विषम स्थिति में रखने से (उत्कट आसन  
वैठने से ), दुर्जनों का संसर्ग करने से, भूत, विष, वायु, अग्नि, ताप, चोट  
आदि से, आहार विधि के छोड़ने से, बीच में ही आयु समाप्त हो जाती  
है इस का नाम 'अकाल-मृत्यु' है । इसी प्रकार ज्वर आदि रोगों की ठीक  
प्रकार से चिकित्सा न होने से इन से भी अकाल मृत्युएं होती देखते हैं ।

अथाग्निवेशः पप्रच्छ—किं नु खलु भगवन् ! ज्वरितेभ्यः पानी-  
यमुष्णं भूयिष्ठं प्रयच्छन्ति भिषजो न तथा शीतम् । अस्ति च शीत-  
साध्यो धातुर्ज्वरकर इति ॥ ४४ ॥

इस के अनन्तर अग्निवेश ने पूछा—हे भगवन् ! वैद्य लोग ज्वर के  
रोगी को गरम पानी अधिकतः किस लिये देते हैं ? शीतल पानी उतना  
नहीं देते । शीत उपचार से भी ज्वरकारक धातु पित्त शान्त होता है ।

तमुवाच भगवानात्रेयः,—ज्वरितस्य कायसमुत्थानदेशकाला-  
नभिसमीक्ष्य पाचनार्थं पानीयमुष्णं प्रयच्छन्ति भिषजः । ज्वरो  
ह्यामाशयसमुत्थ. । प्रायो भेषजानि चामाशयसमुत्थानां विकाराणां  
पाचनवमनापतर्पणसमर्थानि भवन्ति, पाचनार्थं च पानीयमुष्णं,  
तस्मादेतज्ज्वरितेभ्यः प्रयच्छन्ति भिषजो भूयिष्ठम् । तच्चैषां पीतं

चातमनुलोमयति, अग्निमुदर्यमुदीरयति, क्षिप्रं जरां गच्छति, श्लेष्माणं च परिशोषयति, स्वल्पमपि पीतं तृष्णाप्रशमनायोपपद्यते, तथायुक्तमपि चैतन्नात्यर्थोत्सन्नपित्ते ज्वरे सदाहभ्रमप्रलापातिसारे वा प्रदेयम्, उष्णोम हि दाहभ्रमप्रलापातिसारा भूयोऽभिवर्धन्ते, शीतेनोपशाम्यन्तीति ॥ ४५ ॥

अग्निवेश को भगवान् आत्रेय ने कहा—ज्वर-रोगी के शरीर, निदान (आमाशय से उत्पन्न विकारों में) देश, काल को देखकर पाचन के लिये वैद्य लोग गरम पानी देते हैं। ज्वर की उत्पत्ति आमाशय से होती है। आमाशय से उत्पन्न होने वाले रोगों के लिये पाचन, वमन, अपतर्पण, संशमन आदि उपचार प्रायः होते हैं। इसलिये ज्वर के रोगी को पाचन कराने के लिये वैद्य लोग गरम पानी अधिकतः देते हैं। यह पीया हुआ गरम पानी वायु को अनुलोमन करता है, जाठराग्नि को बढ़ाता है, शीघ्र पच जाता है, जीर्ण हो जाता है, कफ को सुखाता है और थोड़ा भी पिया हुआ पानी प्यास को शान्त करने के लिये पर्याप्त होता है। यह गरम पानी इतना लाभप्रद होने पर भी जिस ज्वर में, पित्त बहुत बढ़ा हो उसमें और दाह, भ्रम, प्रलाप अथवा अतिसार की अवस्था में भी नहीं देना चाहिये। गरमी से, दाह, भ्रम, प्रलाप और अतिसार और अधिक बढ़ते हैं। ये रोग शीत उपचार से शान्त होते हैं।

भवति चात्र । शीतेनोष्णकृतान् रोगान् शमयन्ति भिषग्भिदः ।

ये तु शीतकृता रोगास्तेषां चोष्णं भिषग्जितम् ॥ ४३ ॥

चिकित्सक ज्ञानी लोग गरमी (उष्णता) से उत्पन्न हुए रोगों को शीत चिकित्सा से शमन करते हैं और शीत कारण से उत्पन्न रोगों को उष्ण चिकित्सा से शान्त करते हैं अर्थात् निदान से विपरीत चिकित्सा करते हैं।

एवमितरेषामपि व्याधीनां निदानविपरीतमौषधं भवति कार्यम् ।

यथा—अपतर्पणनिमित्तानामपि व्याधीनां नान्तरेण पूरणमस्ति



शान्तिस्तथा पूरणनिमित्तानां नान्तरेणापतर्पणमिति ॥ ४७ ॥

इस प्रकार से अन्य रोगों में भी कारण के विपरीत चिकित्सा करनी होती है। जिस प्रकार कि अपतर्पण क्रिया से उत्पन्न रोगों की शान्ति संतर्पण क्रिया के बिना नहीं होती उसी प्रकार संतर्पणजन्य रोगों की शान्ति अपतर्पण क्रिया के बिना नहीं होती।

अपतर्पणमपि च त्रिविधं लङ्घनं, लङ्घनपाचनं, दोषावसेचनं चेति ॥ ४८ ॥

अपतर्पण भी तीन प्रकार का है। ( १ ) लंघन, ( २ ) लंघन-पाचन और ( ३ ) दोषावसेचन ( दोषों का बाहर निकालना )।

तत्र लङ्घनमल्पवल्दोषाणां, लङ्घनेन ह्यग्निमारुतवृद्ध्या वातात्पपरीतमिवाल्पमुदकमल्पदोषः प्रशोषमापद्यते ॥ ४९ ॥

इन में जब दोषों का बल अल्प हो, तब लंघन करना चाहिये। लंघन द्वारा अग्नि और वायु की वृद्धि होती है। जिस प्रकार थोड़ा पानी वायु और धूप के बढ़ने से शुष्क हो जाता है। उसी प्रकार इन की वृद्धि से अल्प बल वाला दोष शुष्क हो जाता है।

लङ्घनपाचनाभ्यां हि मध्यवलो दोषः सूर्यसन्तापमारुताभ्यां पांशुभस्मावक्रिरणैरिव चान्तिवहूदकं प्रशोषमापद्यते ॥ ५० ॥

दोषों का मध्यम बल होने पर लंघन और पाचन कर्म करना चाहिये। जिस प्रकार सूर्य के संताप एवं वायु द्वारा तथा धूल और भस्म के फेंकने से साधारण आत्रा का पानी (बहुत अधिक राशि नहीं) सूख जाता है, उसी प्रकार लंघन और पाचन से मध्यम बल वाले दोष शान्त हो जाते हैं। ( धूल और भस्म का फेंकना पाचन क्रिया का उपलक्षक है और सूर्य का संताप और वायु लंघन क्रिया का। )

बहुदोषाणां पुनर्दोषावसेचनमेव कार्यं, न ह्यभिन्ने कंदारसेतौ पत्रलप्रसेकोऽस्ति, तद्बहुषावसेचनम् ॥ ५१ ॥

दोषों के प्रबल होने पर इन का अवसेचन ( निष्कासन ) ही करना

चाहिये । जैसे खेत की मेढ़ को तोड़े विना खेत के पानी को सुखा देना असम्भव होता है । मेढ़ को तोड़कर पानी निकाल देने से खेत शीघ्र सूख जाता है । इसी प्रकार वमन, विरेचन आदि से अधिक बढ़े हुए दोषों को शरीर से बाहर कर देने पर दोषों की शान्ति होती है ।

दोषावसेचनं तु खल्वन्यद्वा भेषजं प्राप्तकालमप्यातुरस्य नैवं-  
विधस्य कुर्यात्, तद्यथा—अनपवादप्रतीकारस्यापरिचारकस्य वैद्य-  
मानिनश्चण्डस्यासूयकस्य तीव्रधर्मारुचेरतिक्षीणबलमांसशोणितस्या-  
साध्यरोगोपहतस्य मुमूर्षुलिङ्गान्विस्य चेति । एवंविधं ह्यातुरमुपचरन्  
भिषक्पापीयसाऽयशसा योगमृच्छतीति ॥ ५२ ॥

चिकित्सा में त्याज्य रोगी वा निम्न प्रकार के रोगी की दोषावसेचन (संशोधन रूप) अथवा संशमन रूप चिकित्सा नहीं करनी चाहिये । यथा—जिससे अपवाद का प्रतिकार न होसके, जो रोगी उपकरणों का संग्रह नहीं कर सके, ऐसे निर्धन की, जिस के पास परिचारक न हो, अपने को वैद्य मानने वाले, क्रोधी, निन्दा करने वाले, जिस का बल, मांस, रक्त बहुत क्षीण हो गया हो, असाध्य रोग से आक्रान्त, जिस में मरणोन्मुख लक्षण स्पष्ट हों, इस प्रकार के रोगी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिये । यदि इस प्रकार के रोगी की चिकित्सा वैद्य करता है तो पापमूलक-अप-कीर्त्ति को प्राप्त होता है ।

अवन्ति चात्र । अल्पोदकद्रुमो यस्तु प्रवातः प्रचुरातपः ।

ज्ञेयः स जाङ्गलो देशः स्वल्परोगतमोऽपि च ॥ ५३ ॥

प्रचुरोदकवृक्षो यो निवातो दुर्लभातपः ।

अनूपो बहुदोषश्च, समः साधारणो मतः ॥ ५४ ॥<sup>१</sup>

जिस देश में पानी और वृक्ष कम हों, वायु और धूप बहुत प्रचण्ड हो वह जांगल देश जानना चाहिये । उस में बहुत कम रोग होते हैं । जिस देश में जल और वृक्ष बहुत हों, वायु न चले और धूप भी न हो, वह

अनूप देश कहाता है। जिस में वात और धूप दोनों समान हों वह देश समदेश कहाता है।

तदात्वे चानुबन्धे वा यस्य स्यादशुभं फलम् ।

कर्मणास्तत्र कर्त्तव्यमेतद्बुद्धिमतां मतम् ॥ ५५ ॥

तत्काल में अथवा उत्तर काल में जिस कर्म का फल अशुभ हो, वह कर्म नहीं करना चाहिये, यह बुद्धिमानों का मत है।

तत्र श्लोकाः ।

पूर्वरूपाणि सामान्या हेतवः स्वस्वलक्षणाः ।

देशोद्-ध्वंसस्य भैषज्यं हेतूनां मूलमेव च ॥ ५६ ॥

प्राग्विकारसमुत्पत्तिरायुषश्च क्षयक्रमः ।

मरणं प्रतिभूताना कालाकालविनिश्चयः ॥ ५७ ॥

यथा चाकालमरणं यथा युक्तं च भेषजम् ।

सिद्धिं यात्यौषधं येषां न कुर्याद्येन हेतुना ॥ ५८ ॥

तदात्रेयोऽग्निवेशाय निखिलं सर्वमुक्तवान् ।

देशोद्-ध्वंसनिमित्तीये विमाने मुनिसत्तमः ॥ ५९ ॥

जनपदोद्-ध्वंस के पूर्वरूप, सामान्य कारण, प्रत्येक के अपने अपने लक्षण, चिकित्सा ( पंच कर्म ), कारणों का मूल कारण अधर्म, रोगों की प्रारम्भिक उत्पत्ति, आयु और धर्म के ह्रास का क्रम, कालमृत्यु और अकाल-मृत्यु, निदान और दोष, बलापेक्षित औषध, जिनकी चिकित्सा नहीं करनी, ये सब बातें इस अध्याय में मुनिश्रेष्ठ भगवान् आत्रेय ने शिष्य अग्निवेश के लिये सम्पूर्ण रूप से कह दीं।

इत्याग्निवेशकृतं तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते तृतीये विमानस्थाने जनपदोद्-ध्वसनीय-विमान नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

## चतुर्थोऽध्यायः

अथातस्त्रिविधरोगविशेषविज्ञानीयं विमानं व्याख्यास्यामः ।

इति ह स्माह भगवान् आत्रेयः ॥ २ ॥

अब 'त्रिविध रोग-विशेष-विज्ञानीय' नामक अध्याय की व्याख्या करते हैं, ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

त्रिविधं खलु रोगविशेषविज्ञानं भवति । तद्यथा—आप्तोपदेशः प्रत्यक्षमनुमानं चेति ॥ ३ ॥

रोग-विशेष-विज्ञान तीन प्रकार का है । जैसे—( १ ) आप्त-उपदेश, ( २ ) प्रत्यक्ष और ( ३ ) अनुमान ।

तत्राप्तोपदेशो नाम—आप्तवचनम् । आप्ता ह्यवितर्कस्मृतिविभागविदो निष्प्रीत्युपतापदर्शिनश्च । तेषामेवंगुणयोगाद्यद्वचनं तत्प्रमाणं, अप्रमाणं पुनर्मत्तोन्मत्तमूर्खवक्तृदृष्टादृष्टवचनमिति ॥ ४ ॥

( १ ) आप्तोपदेश—आप्तजनों के वचनो का नाम आप्त-उपदेश है । आप्त ही वितर्क से भिन्न अर्थात् सन्देह से रहित और स्मृति ज्ञान से रहित, साक्षात् अनुभव और विभाग अर्थात् एक देश से भिन्न सम्पूर्ण तत्व के जानने वाले । शास्त्र ज्ञान में संशय रहित एवं प्राणियों में प्रीति ( राग ), उपताप ( द्वेष ) के भावों से शून्य, रागद्वेषरहित होते हैं । इस प्रकार के गुण होने से इन आप्त पुरुषों का वचन प्रमाण हो सकता है । मत्त, उन्मत्त ( पागल ), मूर्ख आदि पुरुषों के जो दृष्ट<sup>१</sup> ( ऐहिक ) और अदृष्ट ( आमुष्मिक ) वचन अप्रमाण होते हैं ।

प्रत्यक्षं तु खलु तत्—यस्त्वयमिन्द्रियैर्मनसा चोपलभ्यते ॥ ५ ॥

प्रत्यक्ष—जो अपनी इन्द्रियों और मन से ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष है ।

१. 'मूर्खरक्तदुष्टादृष्टवचन' इति वा पाठः । मूर्ख पुरुष के दोषयुक्त और निर्दोष वचन भी प्रमाण नहीं, अथवा मूर्ख, और (रक्त) दोषयुक्त, ।

अनुमानं खलु-तर्को युक्त्यपेक्षः ॥ ६ ॥

अनुमान—अनुमान तर्क है जो युक्ति की अपेक्षा करता है । ( कार्य कारण सम्बन्ध या अव्यभिचरित व्याप्ति का नाम युक्ति है । )

त्रिविधेन खल्वनेन ज्ञानसमुदायेन पूर्वं परीक्ष्य रोगं सर्वथा सर्वमथोत्तरकालमध्यवसानमदोषं भवति । नहि ज्ञानावयवेन कृत्स्ने ज्ञेये ज्ञानमुत्पद्यते ॥ ७ ॥

इस तीन प्रकार के ज्ञान-समुदाय से प्रथम रोग की परीक्षा करके सब प्रकार से और सारा देख कर पीछे से पूर्ण निश्चय करके चिकित्सा करना निर्दोष होता है । ज्ञान के एक अवयव को जान लेने से ज्ञेय अर्थात् जानने योग्य वस्तु का सम्पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता । इसलिये वैद्य को चाहिये कि तीनों प्रमाणों से रोग को एक अंश में ही नहीं, प्रत्युत सम्पूर्ण रूप में जाने ।

त्रिविधे त्वस्मिन् ज्ञानसमुदाये पूर्वमाप्तोपदेशाज्ज्ञानम् । ततः प्रत्यक्षानुमानाभ्यां परीक्षोपपद्यते । किं ह्यनुपदिष्टे पूर्वं प्रत्यक्षानुमानाभ्यां परीक्षमाणो विद्यात् । तस्मात् द्विविधा परीक्षा ज्ञानवतां प्रत्यक्षमनुमानं चेति, त्रिविधा वा सहोपदेशेन ॥ ८ ॥

इस तीन प्रकार के ज्ञान-समुदाय में सबसे प्रथम 'आप्तोपदेश' से ज्ञान होता है । इसके पीछे प्रत्यक्ष और अनुमान द्वारा परीक्षा होती है । यदि पूर्व आप्तोपदेश न हो तो परीक्षा करता हुआ वैद्य प्रत्यक्ष और अनुमान से क्या जानेगा ? कुछ भी नहीं । इसलिये आप्तोपदेश से प्राप्त ज्ञान वालों के लिये परीक्षा दो प्रकार की है प्रत्यक्ष और अनुमान । अथवा आप्तोपदेश को मिला कर तीन प्रकार की है—प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश ।

तत्रेदमुपदिशन्ति बुद्धिमन्तः—रोगमेकैकमेव प्रकोपणमेवंयो-  
निमेवमात्मानमेवमधिष्ठानमेवंवेदनमेवंसंस्थानमेवंवृद्धिस्थानत्रयसम-  
न्वितमेवमुदर्कमेवंनामानमेवयोगं विद्यात् । तस्मिन्नियं प्रतीकारार्था

प्रवृत्तिरथवा निवृत्तिरित्युपदेशाज्जायते ॥ ९ ॥

आप्तोपदेश से एक एक रोग में ऐसे प्रकोप, ऐसी योनि ( प्रकृति वातादि की विषमता ), ऐसी उत्पत्ति, ऐसा स्वरूप, ऐसा अधिष्ठान (मन और शरीर), ऐसी वेदना (पीड़ा), ऐसा संस्थान (लक्षण), ऐसे २ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ऐसा उपद्रव ( रोग के पीछे दूसरा होने वाला रोग ), ऐसी दोषों की वृद्धि, स्थान और क्षय, उदर्क (उत्तर फल-साध्य-असाध्य ), इस प्रकार का नाम, ऐसा योग ये सब बातें बुद्धिमान् लोग उपदेश करते हैं, उनके उपदेश से जानना चाहिये । इस प्रकार की व्याधि में इस प्रकार का प्रतिकार वा चिकित्सा है, अथवा इस रोग में असाध्य होने से निवृत्ति ( चिकित्सा न करना ) ये दोनों प्रकार की प्रवृत्ति और निवृत्ति भी उपदेश से ही जानी जाती हैं ।

प्रत्यक्षतस्तु खलु रोगतत्त्वं बुभुत्सुः सर्वैरिन्द्रियैः सर्वानिन्द्रियार्थानातुरशरीरगतान्परीक्षेतान्यत्र रसज्ञानात्; तद्यथा,—अन्त्रकूजनं संधिस्फोटनमङ्गुलीपवेणां च स्वरविशेषा ये चान्येऽपि केचिच्छरीरोपगताः शब्दाः स्युस्ताञ्श्रोत्रेण परीक्षेत । वर्णसंस्थानप्रमाणच्छायाः शरीरप्रकृतिविकारौ चक्षुर्वैषयिकाणि यानि चान्यानि तानि चक्षुषा परीक्षेत ।

प्रत्यक्ष द्वारा रोग जानने की इच्छा से वैद्य रोगी मनुष्य के इन्द्रियों के द्वारा जानने योग्य सब बातों की वह अपनी इन्द्रियों से परीक्षा करे । केवल रस ज्ञान को छोड़कर । जैसे—आंठों के शब्द, अंगुली के पर्वों की सन्धियों का फटना (क्रैपीटेशन), रोगी शरीर के भिन्न भिन्न स्वरों को, इनके अतिरिक्त रोगी के अन्य जो ( हिचकी, श्वास आदि ) शब्द हों, उनकी श्रोत्र द्वारा परीक्षा करे । वर्ण, अंगों की बनावट, शरीर और अवयवों का माप ( छोटाई, बड़ाई, स्थूलता, कृशता ), छाया ( कान्ति ), शरीर के प्राकृतिक एवं वैकृतिक भावों ( परिवर्तनों ) को एवं चक्षु इन्द्रिय से ग्राह्य और जो यहां पर न कही बातें हों ( मल, मूत्र आदि ), उनकी भी आंख से परीक्षा करनी चाहिये ।

रसं तु खल्वानुरशरीरगतमिन्द्रियवैषयिकमप्यनुमानादव-  
गच्छेत् न ह्यस्य प्रत्यक्षेण ग्रहणमुपपद्यते, तस्मादानुरपरिप्रश्नेनै-  
वानुरमुखरसं विद्यात्, यूकापसर्पणेन त्वस्य शरीरवैरस्य, मक्षिकोप-  
सर्पणेन शरीरमाधुर्यं, लोहितपित्तसंदेहं तु किं धारिलोहितं लोहि-  
तपित्तं वेति श्वकाकभक्षणाद्धारिलोहितमभक्षणाद्धारिलोहितपित्तमित्यनु-  
मातव्यं, एवमन्यानप्यातुरशरीरगतान् रसाननुमिमीत् । गन्धांस्तु  
खलु सर्वशरीरगतानातुरस्य प्रकृतिवैकारिकान् घ्राणेन परीक्षेत । स्पर्शं  
च पाणिना प्रकृतिविकृतियुक्तम् । इति प्रत्यक्षतोऽनुमानैकदेशतश्च  
परीक्षणमुक्तम् ॥ १० ॥

रोगी के शरीर के रस को, इन्द्रिय का विषय होने पर भी, अनुमान  
द्वारा ही जानना चाहिये । क्योंकि रोगी के शरीर के रस का प्रत्यक्ष द्वारा  
ग्रहण नहीं हो सकता । बीमारी में मुख का स्वाद बदल जाता है इसलिये  
रोगी से पूछकर ही उसके मुख का रस जानना चाहिये । यथा—शरीर पर  
जू आदि के चलने से शरीर में विरसता, शरीर पर मक्खी आदि के  
पास भिनकने से शरीर में मधुरता समझनी चाहिये । रक्तपित्त के सन्देह में  
यह रक्त शुद्ध ( शरीर को धारण करने वाला ) है या रक्तपित्त ( पित्त  
से दूषित रक्त ) का है । यदि इस रक्त को कुत्ते, कौवे खा ले तो धारण  
करने वाला समझना चाहिये और यदि न खाये तो रक्तपित्त रोग से  
दूषित रक्त समझना चाहिये । इस प्रकार से रोगी के शरीर के अन्य रसों  
को भी अनुमान से जानना चाहिये । रोगी के सम्पूर्ण शरीर की प्राकृतिक  
एवं वैकृतिक गन्धों की परीक्षा घ्राणेन्द्रिय नासिका द्वारा करनी चाहिये ।  
स्पर्श, शीत, उष्ण, खर, चिकने आदि प्राकृतिक एवं वैकृतिक स्पर्शों को  
हाथ के स्पर्श से जानना चाहिये । यहाँ पर प्रत्यक्ष तथा अनुमान से एक  
भाग से रस का ग्रहण हो ही ।

इमे तु खल्वन्येऽप्येवमेव भूयोऽनुमानज्ञेया भवन्ति भावाः ।  
तद्यथा, अग्निं जरणशक्त्या परीक्षेत, वलं व्यायामशक्त्या, श्रोत्रा-

दीर्घशब्दादिग्रहणेन, मनोऽर्थाव्यभिचरणेन, विज्ञानं व्यवसायेन, रजः सङ्गेन, मोहमविज्ञानेन, क्रोधमभिद्रोहेण, शोकं दैन्येन, हर्षमामोदेन, प्रीतिं तोषेण, भयं विषादेन, धैर्यमविषादेन, वीर्य-मुत्थानेन, अवस्थानमविभ्रमेण, श्रद्धामभिप्रायेण, मेधां ग्रहणेन, संज्ञां नामग्रहणेन, स्मृतिं स्मरणेन, हियमपत्रपणेन, शीलमनु-शीलनेन, द्वेषं प्रतिषेधेन, उपधिमनुबन्धेन, धृतिमलौल्येन, वश्यतां विधेयतया, त्रयोभक्तिसात्म्यव्याधिसमुत्थानानि कालदेशोपशयवेदना-विशेषेण, गूढलिङ्गं व्याधिमुपशयानुपशयाभ्यां, दोषप्रमाणविशेषमपचारविशेषेण, आयुषः क्षयमरिष्टैः, उपस्थितश्रेयस्त्वं कल्याणाभि-निवेशेन, अमलं सत्त्वमविकारेणेति । ग्रहण्यास्तु मृदुदारुणत्वं स्वप्नदर्शनमभिप्रायं द्विष्टेष्टसुखदुःखानि चातुरपरिग्रहेनैव विद्याद् इति ॥ ११ ॥

इसके अतिरिक्त ये निम्नलिखित वाते भी अनुमान द्वारा ही जानी जाती हैं । जैसे—रोगी की परिपाक शक्ति को देखकर अग्नि ( जाठराग्नि ) को जाने । व्यायाम शक्ति से रोगी का बल, शब्द आदि विषयों के ग्रहण से कान आदि इन्द्रियो को अर्थ के ठीक प्रकार ग्रहण करने से, मन और इन्द्रियों को, अवधारण शक्ति से विज्ञान को, संग (आसक्ति) से रज को, अज्ञान से मोह को, हिंसा प्रवृत्ति से क्रोध को, रोदन आदि से शोक को, गीत, वादित्र आदि से आनन्द को, मुख की प्रसन्नता आदि लक्षणो से मन की प्रीति को, मुख की मलिनता आदि से भय को, अविषाद से धैर्य ( विपत्ति में भी मन की स्थिरता ) का, उत्साह से वीर्य ( कार्य करने की शक्ति) को, अभ्रान्ति से स्थिरता को, अभिप्राय ( प्रार्थना ) से श्रद्धा को, श्लोक आदि को कण्ठ करने से मेधा को, नाम लेकर चेतना को, स्मरण शक्ति से स्मृति को, लज्जा दिलाकर लज्जा को, निरन्तर शीलन से स्वभाव को, वस्तु के प्रतिषेध से उस वस्तु में द्वेष को, आगे के परिणाम से छल व्यवहार को, मन की अचपलता से संतोष को, वैद्य की आज्ञा मानने



से रोगी की वक्ष्यता को, काल विशेषसे आयु को (जैसे १६ वर्ष तक बालक) देश से भक्ति (इच्छा) को, (जैसे—यह पंजाब का रहने वाला है इसलिये इसे गेहूँ में इच्छा होगी, यह बंगाल का है इसकी चावलों में रुचि होगी इत्यादि), उपशय अर्थात् अनुकूलता से सात्म्य को, वेदना-विशेष से व्याधि के समुत्थान को, उपशय ( शान्ति ) और अनुपशय (निदान) द्वारा गूढलिंग वाले रोग को जिस रोग के लक्षण छिपे हों ( जैसे विद्रधि और गुल्म में भेद ), उपचार विशेष (प्रकोपन के न्यूनाधिक होने से) दोषों के प्रमाण विशेष ( न्यूनाधिक ) को, अरिष्ट लक्षणों से आयु के क्षय को, हितोप-सेवन से निकटवर्ती आरोग्यता के लक्षणों को, अविकार (काम, क्रोधादि से रहित मानसिक विकारों ) से निर्मल चित्त को जाने ।

ग्रहणी (अग्नि का स्थान, जठर) के मृदु दारुण भेद को रोगी के हित-अहित स्वप्न दर्शन से, भोजनादि में अभिप्राय (इच्छा) को, द्विष्ट, अप्रिय और इष्ट, प्रिय इनमें सुख और दुःख को रोगी के प्रश्नों से ही जान ले ।

भवन्ति चात्र । आप्ततश्चोपदेशेन प्रत्यक्षकरणेन च ।

अनुमानेन च व्याधीन् सम्यग्विद्याद्विचक्षणम् ॥ १२ ॥

सर्वथा सर्वमालोच्य यथासंभवमर्थवित् ।

अथाध्यवस्येत्तत्त्वे च कार्ये च तदनन्तरम् ॥ १३ ॥

कार्यतत्त्वविशेषज्ञः प्रतिपत्तौ न मुह्यति ।

अमूढः फलमाप्नोति यद्मोहनिमित्तजम् ॥ १४ ॥

ज्ञानबुद्धिप्रदीपेन यो नाविशति तत्त्ववित् ।

आतुरस्यान्तरात्मानं न स रोगांश्चिकित्सति ॥ १५ ॥

चतुर व्यक्ति आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान द्वारा रोगों की परीक्षा करे । अर्थवित् यथासंभव सब रोगों की सब प्रकार से (तीनों प्रकार से) परीक्षा करके, निश्चय करे, इसके पीछे चिकित्साकार्य करे । कार्यतत्त्व को जानने वाला भिषक् रोग के चिकित्सा कार्यमें कभी भी मोह को प्राप्त नहीं होता । अमादरहित होकर ही मोह रहित होकर किये अनुष्ठान से उत्पन्न फल को प्राप्त

करता है। जो योगवित् (प्रयोगो को जानने वाला) भिषक् (वैद्य) ज्ञान, बुद्धि रूपी प्रदीप की सहायता से रोगी के अन्दर आत्मा तक नहीं पहुँचता (रोगी की सम्पूर्ण बातों को नहीं जानता), वह रोगों की चिकित्सा नहीं कर सकता। तत्र श्लोकौ । सर्वरोगविशेषाणां त्रिविधं ज्ञानसंग्रहम् ।

यथा चोपदिशन्त्याप्ताः प्रत्यक्षं गृह्यते यथा ॥ १६ ॥

ये यथा चानुमानेन ज्ञेयास्तांश्चाप्युदारधीः ।

भावांस्त्रिरोगविज्ञाने विमानं मुनिरुक्तवान् ॥ १७ ॥

उपसंहार—सब रोगों का तीन प्रमाणों में संक्षेप, आसोपदेश द्वारा जो जो बातें जानी जाती हैं, प्रत्यक्ष द्वारा जो ग्रहण किया जाता है और जो बातें अनुमान द्वारा जानी जाती हैं इन सब बातों का उदार बुद्धि भगवान् आत्रेय ने इस 'त्रिरोग-विज्ञानीय' अध्याय में व्याख्यान कर दिया।

इत्यश्विवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते तृतीये विमानस्थाने त्रिविधरोग-

विशेषविज्ञानीयविमान नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

## पञ्चमोऽध्यायः

अथातः स्रोतोविमानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

जीवन के आधारभूत प्राणवह आदि स्रोतों के ज्ञान के लिये 'स्रोतो-विमान' नाम अध्याय की व्याख्या करते हैं। ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है।

यावन्तः पुरुषे मूर्त्तिमन्तो भावविशेषास्तावन्त एवास्मिन् स्रोतसां प्रकारविशेषाः, सर्वभावा हि पुरुषे नान्तरेण स्रोतांस्यभिनिर्वर्तन्ते क्षयं वाऽप्यधिगच्छन्ति । स्रोतांसि खलु परिणाममापद्यमानानां धातूनामभिवाहीनि भवन्त्ययनार्थेन ॥ ३ ॥

इस पुरुष के शरीर में जितने प्रकार के मूर्त्तिरूप (स्थूल) भाव विशेष (पदार्थ

विशेष) हैं, उतने ही इस शरीर में स्रोतों के प्रकार ( विशेष भेद ) हैं । पुरुष में सब भाव स्रोतों के बिना नहीं बढ़ते और न स्रोतों के बिना क्षय को प्राप्त होते हैं । ये स्रोत परिपाक हुए धातुओं को ( मल और प्रसाद रूप में ) ले जाने के लिये होते हैं ।

अपि चैके स्रोतसामेव समुदयं पुरुषमिच्छन्ति, सर्वगतत्वात्सर्व-सरत्वाच्च दोषप्रकोपणप्रशमनानाम् । नत्वेतदेवम् । यस्य च हि स्रोतांसि यच्च वहन्ति यच्चावहन्ति यत्र चावस्थितानि, सर्वं तदन्यत्तेभ्यः ॥ ४ ॥

कुछ आचार्य स्रोतों के समुदाय को ही 'पुरुष' नाम देते हैं । क्योंकि स्रोत सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त हैं । दोषों के जो प्रकोपक (अपव्य) हैं और जो शमन (पव्य) हैं, वे सब स्रोतों द्वारा ही सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त होते हैं । परन्तु ऐसा मानना ठीक नहीं है । क्योंकि जिसके स्रोत जिस वस्तु का वहन करते हैं, जिस प्रकार से वहन करते हैं, शरीर के जिस प्रदेश में ये स्रोत स्थित हैं, यह सब इन स्रोतों से पृथक् हैं, वे स्रोत नहीं है । इस लिये पुरुष स्रोतों का समुदाय रूप नहीं है ।

अतिवहुत्वात् खलु केचिदपरिसंख्येयान्याचक्षते स्रोतांसि, परिसंख्येयानि पुनरन्ये ॥ ५ ॥

स्रोतों के बहुत अधिक होने से कुछ आचार्य इन स्रोतों को असंख्य मानते हैं । दूसरे आचार्य इन को गणना के योग्य मानते हैं ।

तेषां तु खलु स्रोतसां यथास्थूलं कतिचित्प्रकारान्मूलतश्च प्रकोपवि-ज्ञानतश्चानुन्याख्यास्यामः, ये भविष्यन्त्यलमनुकार्यज्ञानाय ज्ञानवतां विज्ञानाय चाज्ञानवताम् तद्यथा—प्राणोदकाभ्रसरुधिरमांसमेदो-स्थिमज्जशुक्रमूत्रपुरीषस्वेदवहानि, वातपित्तश्लेष्मणां पुनः सर्वशरीर-चराणां सर्वस्रोतांस्ययनभूतानि, तद्वदतीन्द्रियाणां पुनः सत्त्वादीनां केवलं चेतनावच्छरीरमयनभूतमविष्टानभूतं च । तदेतत्स्रोतसां प्रकृतभूतत्वाच्च विकारैरूपसृज्यते शरीरम् ॥ ६ ॥

इन स्रोतों में जो स्थूल ( गणना के योग्य ) हैं, उन के कुछ भेदों की

मूल से, प्रकोप-विज्ञान (और उपशमन) से भी व्याख्या करेंगे । स्रोतों की इतनी व्याख्या बुद्धिमान् ज्ञानवान् वैद्यों के लिये अनुक्त, सूक्ष्म स्रोतों का ज्ञान कराने और अज्ञानी, अनुमान और युक्ति से हीन पुरुषों के लिये सामान्य रूप में स्रोतों का ज्ञान कराने के लिये पर्याप्त होगी ।

यथा—प्राणवह, जलवह, अन्नवह, रसवह, रुधिरवह, मांसवह, मेद-वह, अस्थिवह, मज्जावह, शुक्रवह, मूत्रवह, पूरीषवह और स्वेदवह ये तेरह प्रकार के स्रोत हैं । वात, पित्त, कफ ये सम्पूर्ण शरीर में फैले हुए हैं, इस लिये इन को ले जाने वाले सब स्रोत हैं । इसी प्रकार अतीन्द्रिय (इन्द्रियों से अग्राह्य) सत्त्व आदि (बुद्धि, अहंकार आदि) पदार्थों का चेतना युक्त यह सम्पूर्ण शरीर मार्ग तथा आश्रय है । स्रोत शरीर के धातुओं को ले जाने वाले हैं, इसलिये स्रोतों के प्रकृति में स्थित रहने से यह शरीर विकारो अर्थात् रोगों से आक्रान्त नहीं होता । स्रोतों के विकृत होने पर शरीर भी रोगी हो जाता है ।

तत्र, प्राणवहानां स्रोतसां हृदयं मूलं महास्रोतश्च, प्रदुष्टानां खल्वेषामिदं विशेषविज्ञानं भवति, अतिसृष्टमतिवद्धं कुपितमल्पाल्प-मभीक्षणं वा शब्दशूलमुच्छ्वसन्तं दृष्ट्वा प्राणवहान्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात् ॥ ७ ॥

इन से प्राणवह स्रोतों का मूल (प्रभाव स्थान) हृदय और महा स्रोत (कोष्ठ भी) है । इन प्राणवह स्रोतों के दुष्ट होने पर ये लक्षण होते हैं । जैसे—प्राण का अतिसर्पण (प्रश्वास का दीर्घ होना), अतिवद्ध (रुक रुक कर श्वास का चलना), प्रकुपित (बहुत तेजी से चलना), थोड़ा थोड़ा चलना, अभीक्षण (बार बार रुक रुक कर आना), शब्दशूल अर्थात् वेदनायुक्त शब्द के साथ, श्वास लेते हुए रोगी को देखकर प्राणवह स्रोत दुष्ट हुए हैं यह समझना चाहिये ।

उदकवहानां स्रोतसां तालुमूलं क्लोम च । प्रदुष्टानां खल्वेषा-मिदं विशेषविज्ञानं भवति, तद्यथा—जिह्वाताल्वोष्ठकण्ठक्लोमशोषं

पिपासां चातिप्रवृद्धां दृष्ट्वा भिषगुदकवहान्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात् ॥ ८ ॥

जलवह स्रोतों का मूल तालु और क्लोम ( पित्ताशय ) है ।<sup>१</sup> इन उदकवह स्रोतों के दुष्ट होने पर ये लक्षण होते हैं । यथा—जिह्वा, तालु, ओष्ठ, कण्ठ और क्लोम का सूख जाना, प्यास का बहुत अधिक लगना ये लक्षण देखकर उदकवह स्रोत विकृत हुए हैं यह समझना चाहिये ।

अन्नवहानां स्रोतसामामाशयो मूलं वामं च पार्श्वम् । प्रदुष्टानां तु खल्वेपामिदं विशेषविज्ञानं भवति, तद्यथा—अन्नत्राभिलषणमरोचकाविपाकौ छर्दिं च दृष्ट्वाऽन्नवहानि स्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात् ॥ ९ ॥

अन्नवह स्रोतों का मूल आमाशय और वाम पार्श्व है । इन के दुष्ट होने पर ये लक्षण होते हैं । यथा—अन्न की रुचि का न होना, अरुचि, अविपाक, वमन । इन लक्षणों को देखकर अन्नवह स्रोत विकृत हुए यह समझना चाहिये ।

रसवहानां स्रोतसां हृद्यं मूलं दश च धमन्यः । शोणितवहानां स्रोतसां यकृन्मूलं प्लीहा च । मासवहानां च स्रोतसां स्नायु मूलं त्वक्च । मेदोवहानां स्रोतसां वृक्कौ मूल वपावहनं च । अस्थिवहानां स्रोतसा मेदो मूलं जघन च । मज्जावहानां स्रोतसामस्थोनि मूलं संघयश्च । शुक्रवहाना स्रोतसां वृषणौ मूलं शेफश्च । प्रदुष्टानां तु खल्वेपां रसादिस्रोतसां विज्ञानान्युक्तानि विविधाशीतपीयेऽध्याये । यान्येव हि धातूनां प्रदोपविज्ञानानि तान्येव यथास्वं धातु-स्रोतसाम् ॥ १० ॥

१. क्लोम को सुश्रुत में 'पिपासा-स्थान' माना है । क्लोम का स्थान गले में ज़रा नीचे की ओर दक्षिण पार्श्व में माना है । जिस को आज कल 'तिलक' या ( कण्ठकूप ) कहते हैं । वैद्य श्री हरिप्रपन्न ने क्लोम 'याथातथ्यम्' नाम एक पुस्तक लिखी है उस में पित्ताशय को यह नाम दिया है ।

रसवह स्रोतों का मूल हृदय और हृदय से सम्बद्ध दस धमनियां हैं । [ विविधाशितपीतीय (मूत्र० अ० २८) अध्याय में रस आदि के दुष्ट होने के कारण होने वाले रोगों को कह चुके हैं, वहीं देखना चाहिये ] ।

शोणित( रक्त ) वह स्रोतों का मूल यकृत और प्लीहा है ।

मांसवह स्रोतों का मूल स्नायु और त्वचा है । मेदोवह स्रोतों का मूल वृक्क ( दो मांसपिण्ड एक दक्षिण पार्श्व में स्थित और दूसरा वाम पार्श्व में उपवृक्क ) और वपावह अर्थात् मांस है । अस्थिवह स्रोतों का मूल मेद और जघन है । मज्जावह स्रोतों का मूल अस्थियां और सन्धियां है । शुक्रवह स्रोतों का मूल दोनो अण्डकोश और लिङ्ग इन्द्रिय हैं । विविधाशित-पीतीय अध्याय में रसादि धातुओं के दुष्ट होने से उत्पन्न होने वाले रोगों को कह दिया है । ये ही इन रसवह आदि स्रोतों के दुष्ट होने के लक्षण हैं । जो दूषित हुए धातुओं के लक्षण हैं वे ही दुष्ट हुए धातुवह स्रोतों के भी लक्षण होते हैं ।

मूत्रवहानां स्रोतसां वस्तिर्मूलं वङ्क्षणौ च । प्रदुष्टानां खल्वेषामिदं विशेषविज्ञानं भवति । तद्यथा अतिसृष्टमतिबद्धं कुपितमल्पाल्प-मभीक्षणं वा बहलं सशूलं मूत्रयन्तं दृष्ट्वा मूत्रवहान्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात् ॥ ११ ॥

मूत्रवह स्रोतों का मूल वस्ति ( मूत्राशय ) और वंक्षण ( वृक्क kidney ) हैं । इन के दूषित होने पर ये लक्षण होते हैं जैसे—मूत्र का अधिक आना, रुक २ कर आना, बार बार आना, थोड़ा थोड़ा आना, मात्रा में अधिक ( गाढ़ा ), दर्द के साथ आना । ये लक्षण देखकर मूत्रवह स्रोत दुष्ट हुए समझने चाहियें ।

पुरीषवहानां स्रोतसां पक्काशयो मूलं स्थूलगुदश्च । प्रदुष्टानां खल्वेषामिदं विशेषविज्ञानं भवति । तद्यथा—कृच्छ्रेणाल्पाल्पं सशूलमतिद्रवं कुथितमतिग्रथितमतिबहु चोपविशन्तं दृष्ट्वा पुरीषवहाण्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात् ॥ १२ ॥

पुरीषवह स्रोतों का मूल पक्काशय, स्थूलात्र और गुदा है। इन के दूषित होने पर ये लक्षण होते हैं। यथा—कठिनाई से थोड़ा थोड़ा, शब्द और वेदना के साथ, बहुत पतला (पानी जैसा), बहुत कठिन, मात्रा में बहुत अधिक आना, इन लक्षणों को देखकर पुरीषवह स्रोत दुष्ट हुए हैं यह समझना चाहिये।

स्वेदवहानां स्रोतसां मेदो मूलं रोमकूपाश्च । प्रदुष्टानां खल्वेषा-  
सिदं विशेषविज्ञान भवति, तद्यथा—अस्वेदनमतिस्वेदनं पारुष्यम-  
तिश्लक्षणातामद्गस्य परिदाहं लोमहर्षं च दृष्ट्वा स्वेदवहान्यस्य स्रोतांसि  
प्रदुष्टानीति विद्यात् ॥ १३ ॥

स्वेदवह स्रोतों का मूल मेद और लोमकूप है। इन के दूषित होने पर ये लक्षण होते हैं। जैसे—पसीने का न आना या बहुत आना, त्वचा में कठोरता या बहुत चिकनास, अंगों में दाह और शरीर में रोमांच होना। इन लक्षणों को देखकर स्वेदवह स्रोत दुष्ट हुए हैं यह समझना चाहिये।

स्रोतांसि सिरा धमन्यो रसायन्यो रसवाहिन्यो नाड्यः पन्थानो  
मार्गा शरीरच्छिद्राणि संवृतान्संवृतानि स्थानान्याशयाः क्षया निकेता-  
श्चेति शरीरधात्ववकाशाना लक्ष्यालक्ष्याणां नामानि भवन्ति ॥ १४ ॥

स्रोतों के पर्याय—स्रोत, सिरा, धमनी, रसायनी, रसवाहिनी, नाड़ी, पन्था, मार्ग, शरीरच्छिद्र, संवृत-असंवृत, स्थान, आशय, क्षय और निकेत ये शरीर के धातुओं को ले जाने के लिये जो आंख से दीखने या न दीखने योग्य छेद हैं उन स्रोतों के नाम हैं।

तेषां प्रकोपात्स्थानस्था श्रैव मार्गागाश्चैव शरीरधातवः प्रकोपमाप-  
न्तेद्य । इतरेषां च प्रकोपादितराणि । स्रोतांसि स्रोतांस्येव धातवश्च धातू-  
नेव प्रदूषयन्ति । तेषां सर्वेषामेव वातपित्तश्लेष्माणो दूषयितारो  
भवन्ति, तेषां च वादिति ॥ १५ ॥

इ स्रोता (छिद्रों) के प्रकुपित होने से आशय में स्थित, मार्ग में स्रोतों में जाने वाले शरीर के धातु भी प्रकुपित हो जाते हैं। दूसरों के

प्रकोप से और भी ( स्रोतस्, वातादि दोष ) कुपित होकर दुष्ट हुए स्रोत अन्य स्रोतों को दूषित कर देते हैं । दुष्ट हुए धातु सब धातुओं को दूषित कर देते हैं । सब स्रोतों तथा धातुओं को दूषित करने वाले वात, पित्त, कफ ही होते हैं । क्योंकि दोष स्वभाव होने से अर्थात् दूषित करना ही इन का स्वभाव है ।

भवन्ति चात्र । क्षयात्संधारणाद्रौक्ष्याद्व्यायामात्क्षुधितस्य च ।  
 प्राणवाहीनि दुष्यन्ति स्रोतांस्यन्यैश्च दारुणैः ॥ १६ ॥  
 औष्ण्यादामाद्भ्यात्पानादतिशुष्कान्नसेवनात् ।  
 अम्बुवाहीनि दुष्यन्ति तृष्णायाश्चातिपीडनात् ॥ १७ ॥  
 अतिमात्रस्य चाकाले चाहितस्य च भोजनात् ।  
 अन्नवाहीनि दुष्यन्ति वैगुण्यात्पावकस्य च ॥ १८ ॥  
 गुरुशीतमतिस्निग्धमतिमात्रं समश्रताम् ।  
 रसवाहीनि दुष्यन्ति चिन्त्यानां चातिचिन्तनात् ॥ १९ ॥  
 विदाहीन्यन्नपानानि स्निग्धोष्णानि द्रवाणि च ।  
 रक्तवाहीनि दुष्यन्ति भजतां चातपानलौ ॥ २० ॥  
 अभिष्यन्दीनि भोज्यानि स्थूलानि च गुरुणि च ।  
 मांसवाहीनि दुष्यन्ति भुक्त्वा च स्वपतां दिवा ॥ २१ ॥  
 अव्यायामाद्दिवास्वप्नान्मेध्यानां चातिभक्षणात् ।  
 मेदोवाहीनि दुष्यन्ति वारुण्याश्चातिसेवनात् ॥ २२ ॥  
 व्यायामादतिसंचोभादस्थनामतिविघट्टनात् ।  
 अस्थिवाहीनि दुष्यन्ति वातलानां च सेवनात् ॥ २३ ॥  
 उत्पेषादत्यभिष्यन्दादभिघातात्प्रपीडनात् ।  
 मज्जवाहीनि दुष्यन्ति विरुद्धानां च सेवनात् ॥ २४ ॥  
 अकालयोनिगमनान्निग्रहादतिमैथुनात् ।  
 शुक्रवाहीनि दुष्यन्ति शस्त्रक्षाराग्निभिस्तथा ॥ २५ ॥  
 मूत्रितोदकभक्ष्यस्त्रीसेवनान्मूत्रनिग्रहात् ।



मूत्रवाहीनि दुष्यन्ति क्षीणस्याभिन्नतस्य च ॥ २६ ॥

विधारणादत्यशनादजीर्णाध्यशनात्तथा ।

वर्चोवाहीनि दुष्यन्ति दुर्बलाग्नेः कृशस्य च ॥ २७ ॥

व्यायामादतिसंतापाच्छीतोष्णाक्रमसेवनात् ।

स्वेदवाहीनि दुष्यन्ति क्रोधशोकभयैस्तथा ॥ २८ ॥

प्रकुपित होने के कारण—धातु क्षय से, उपस्थित वेगों को रोकने से, रूक्षता से, भूख लगी होने पर व्यायाम करने से और अन्य कठिन कार्यों से प्राणवाही स्रोत कुपित होते हैं ।

गरमी से, आम-दोष से, भय से, बहुत पानी पीने से, शुष्क अन्न (चने आदि) के अधिक सेवन से और प्यास को ज़बर्दस्ती रोकने से उदक-वाही स्रोत कुपित होते हैं ।

मात्रा का अतिक्रमण करके भोजन करने से, अप्राप्त या अतीत काल में भोजन करने से, अपथ्य भोजन के सेवन से आर जाठराग्नि के मन्द होने से अन्नवह स्रोत कुपित होते हैं ।

गुरु, शीत, अतिस्लिग्ध पदार्थों के बहुत अधिक सेवन करने से, चिन्ता करने योग्य वस्तुओं की बहुत अधिक चिन्ता करने से रसवाही स्रोत दूषित होते हैं ।

जलन पैदा करने वाले, स्निग्ध, गरम और तरल खान-पान के सेवन और धूप और वायु का सेवन करने वाले पुरुषों के रक्तवाही स्रोत दूषित होते हैं ।

दोष, धातु, मल और स्रोतों में कफ बढ़ाने वाले, स्थूल और गुरु (भारी) पदार्थ खाकर दिन में सोने वालों के मांसवाही स्रोत दूषित होते हैं ।

व्यायाम के न करने से, दिन में सोने से, चर्बी वाले पशुओं के मांस (सुअर का मांस) के अधिक सेवन से, मद्य के अधिक पीने से मेदोवाही स्रोत दूषित होते हैं ।

अधिक व्यायाम से, अति संक्षोभ से, चोट आदि से, अस्थिषों के

अधिक चलाने ( मोड़ने माड़ने से )से, वायु वर्धन खान-पान के सेवन से अस्थिवाही स्रोत दूषित होते हैं ।

उत्प्रेषण ( पीसने ) से, अभिष्यन्दी पदार्थों के अति सेवन से, चोट से, ढण्डे आदि की चोट से तथा विरोधी अन्न-पान के सेवन से मज्जावाही स्रोत दूषित होते हैं ।

अकाल ( निषिद्ध तिथियों में ऋतुमती आदि से ) सम्भोग करने से, अयोनि ( निषिद्ध योनि ) में सम्भोग करने से, उपस्थित शुक्र के वेग को रोकने से, अति मैथुन से, शस्त्र, क्षार और अग्नि से शुक्रवाही स्रोत दूषित हो जाते हैं ।

उपस्थित मूत्र-वेग के समय पानी, भोजन या स्त्री का सेवन करने से, क्षीण और अतिकृश व्यक्ति के मूत्रवेग को रोकने से मूत्रवाही स्रोत दूषित हो जाते हैं ।

मल के उपस्थित वेग को रोकने से, मन्दाग्नि और निर्बल पुरुष के अति भोजन करने से, अजीर्ण में भोजन करने से, अध्यशन से मलवाही स्रोत दूषित होते हैं ।

व्यायाम से, अति संक्षोभ से, शीत और उष्ण को विना क्रम के सेवन न करने से, क्रोध, शोक एवं भय से स्वेदवाही स्रोत दूषित होते हैं ।

आहारश्च विहारश्च यः स्यादोषगुणैः समः ।

धातुभिर्विगुणाश्चापि स्रोतसां स प्रदूषकः ॥ २९ ॥

जो आहार विहार और कर्म वातादि दोषों के पृथक् अथवा समष्टि रूप में गुणों के समान होता है, वह समान गुण के कारण इन को बढ़ाता है और जो धातुओं से विपरीत गुण वाला हो वह आहार विहार स्रोतों को दूषित करता है ।

अतिप्रवृत्तिः सङ्गो वा सिराणां ग्रन्थयोऽपि वा ।

विमार्गगमनं वापि स्रोतसां दुष्टिलक्षणम् ॥ ३० ॥

स्रोतों के दूषित होने के सामान्य लक्षण—स्रोतों से रस आदि की

अधिक प्रवृत्ति अर्थात् अधिक निकलना अथवा एक दम से रुक जाना, सिराओं में गांठ पड जाना, विमार्ग अर्थात् विपरीत, उल्टे मार्ग से जाने लगाना, ये सब स्रोतों के दूषित होने के सामान्य लक्षण हैं ।

स्वधातुसमवर्णानि वृत्तस्थूलान्यणूनि च ।

स्रोतांसि दीर्घाण्याकृत्या प्रतानसदृशानि च ॥ ३१ ॥

स्रोतों के प्रकृतिसिद्ध रूप—अपने धातु के समान रंग वाले ( रक्त-वाही स्रोत रक्त के समान और मासवाही स्रोत मांस के समान ), वृत्त ( गोल ), स्थूल और अणु ( सूक्ष्म ), दीर्घ और लता के समान फैले ( कोई गोल, कोई लम्बे, कोई स्थूल और कोई सूक्ष्म ) होते हैं ।

प्राणोदकान्नवाहानां दुष्टानां श्वासिकी क्रिया ।

कार्या तृणोपशमनी तथैवामप्रदोषिकी ॥ ३२ ॥

विविधाशितपीतीये रसादीनां यदौषधम् ।

रसादिस्रोतसां कुर्यात्तद्यथास्वमुपक्रमम् ॥ ३३ ॥

मूत्रविट्स्वेदवाहानां चिकित्सा मौत्रकृच्छ्रिकी ।

तथाऽतिसारिकी कार्या तथा ज्वरचिकित्सिकी ॥ ३४ ॥ इति

प्राण, उदक और अन्नवाही स्रोतों के दुष्ट होने पर क्रम से श्वासिकी ( अर्थात् हिक्का कास रोग में ही ), श्वास को सुधारने वाली, तृष्णा रोग नाशक और आम-दोषनाशक चिकित्सा करनी चाहिये । प्राणवाही स्रोतों में श्वासिकी, उदकवाही में तृष्णाशमन और अन्नवाही में आम प्रदोष नाशक चिकित्सा करनी चाहिये । 'विविधाशितपीतीय' अध्याय में रस से लेकर शुक्र तक दूषित धातुओं की जो चिकित्सा कही है, वही रसवह आदि दुष्ट स्रोतों की भी समझनी चाहिये । उनकी उसी प्रकार चिकित्सा करनी चाहिये । मूत्रवाही, मलवाही और स्वेदवाही स्रोतों के दूषित होने पर क्रमशः मूत्रकृच्छ्र रोग की, अतिसार रोग की तथा ज्वर की चिकित्सा करनी चाहिये ।

तत्र श्लोकाः । त्रयोदशानां मूलानि स्रोतसां दुष्टिलक्षणम् ।

सामान्यं नाम पर्याया कोपनानि परस्परम् ॥ ३५ ॥

दोषहेतुः पृथक्त्वेन भेषजोद्देश एव च ।

स्रोतोविमाने निर्दिष्टस्तथा चादौ विनिश्चयः ॥ ३६ ॥

केवलं विदितं यस्य शरीरं सर्वभावतः ।

शारीराः सर्वरोगाश्च स कर्मसु न मुह्यति ॥ ३७ ॥

तेरह प्रकार के स्रोतो के मूल, प्रत्येक के दूषित लक्षण, सब स्रोतो के सामान्य दूषित लक्षण, नाम, पर्याय, परस्पर कोपन, दोष का कारण, पृथक् पृथक् औषध और उपक्रम ये सब बातें इस स्रोतो-विमान अध्याय में भगवान् आत्रेय ने कह दी है । जो भिषक् सम्पूर्ण शरीर के स्रोतों आदि को भली प्रकार जानता है और जिस को शारीरिक और मानसिक सब प्रकार के रोग ज्ञात है, वह चिकित्सा में कभी मोह को प्राप्त नहीं होता ।

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते तृतीये विमानस्थाने

स्रोतोविमान नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

## षष्ठोऽध्यायः ।

अथातो रोगानीक विमानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब 'रोगानीक' नामक विमान की व्याख्या करेंगे । ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

द्वे रोगानीके भवतः प्रभावभेदेन साध्यं चासाध्यं च, द्वे रोगानीके बलभेदेन मृदु च दारुणं च, द्वे रोगानीकेऽधिष्ठानभेदेन—मनोधिष्ठान शरीराधिष्ठानं च, द्वे रोगानीके निमित्तभेदेन स्वधातु-वैषम्यनिमित्तं चागन्तुनिमित्तं च, द्वे रोगानीके आशयभेदेन—

आमाशयसमुत्थं च पक्वाशयसमुत्थं च । एवमेतत्प्रभाववलाधिष्ठान-  
निमित्ताशयभेदाद्द्वैधं सद्भेदप्रकृत्यन्तरेण भिद्यमानमथवा संधीय-  
मानं स्यादेकत्वं वा बहुत्व वा । एकत्वं तावदेकमेव रोगानीकं  
दुःखसामान्यात्, बहुत्वं तु दश रोगानीकानि प्रभावभेदादिना  
भवन्ति । बहुत्वमपि संख्येयं स्यादसंख्येयं वा स्यात् । तत्र संख्येयं  
तावद्यथोक्तमष्टोदरीये । अपरिसंख्येयं पुनर्यथा महारोगाध्याये,  
रुक्वर्णसमुत्थानादीनामसंख्येयत्वात् ॥ ३ ॥

प्रभाव के भेद से रोग दो प्रकार के है, (१) साध्य और (२) असाध्य ।  
बल के भेद से रोग दो प्रकार के है ( १ ) मृदु ( अल्पबल ) और  
( २ ) दारुण ( महाबल ) । अधिष्ठान अर्थात् आश्रय के भेद से रोग दो  
प्रकार के है ( १ ) मानस, मन जिनका अधिष्ठान है, और ( २ ) जारी-  
रिक्त, जिनका अधिष्ठान शरीर है । कारण के भेद से रोग दो प्रकार के है,  
( १ ) धातुओं ( वात, पित्त, कफ ) की विषमता से होने वाले और  
( २ ) आगन्तुक कारण से होने वाले । आमाशय के भेद से रोग  
दो प्रकार के हैं । ( १ ) आग्रामय से उत्पन्न होने वाले और  
( २ ) पक्वाशय से उत्पन्न होने वाले । ( आमाशय पित्त और कफ का  
स्थान है और पक्वाशय वायु का स्थान है । ) इस प्रकार प्रभाव, बल,  
अधिष्ठान, निमित्त और आशय के भेद से रोग दो प्रकार के होने पर भी  
प्रकृति आदि भेदों के कारण अनेक प्रकार के हो जाते हैं । और रोग  
का रूप एक प्रकार का ही है । रुजा, दुःख, पीड़ा यह सब प्रकार के रोगों  
में सामान्य धर्म है । रोग बहुत है क्योंकि प्रभाव, बल आदि के भेद से  
रोग दस प्रकार के हो जाते हैं । यह बहुत होना भी दो प्रकार का है ।  
( १ ) संख्येय अर्थात् गिनने के योग्य एवं ( २ ) असंख्येय अर्थात् गणना  
के अयोग्य होना । गिनने के योग्य जैसे अष्टोदरीय रोगाध्याय में रोगों  
की गणना की है । असंख्येय जैसे महारोगाध्याय में रुक्, वर्ण, समुत्थान  
आदि के कारण असंख्य हो जाते हैं ।

नच संख्येयाग्रेषु भेदप्रकृत्यन्तरीयेषु विगीतिरित्यतो दोषवती स्यादत्र काचित्प्रतिज्ञा, न चाविगीतिरित्यतः स्याददोषवती । भेत्ता हि भेद्यमन्यथा भिनत्ति, अन्यथा पुरुषस्तावद्भिन्नं भेदप्रकृत्यन्तरेण भिन्दन् भेदसंख्याविशेषमापादयत्यनेकधा, नच पूर्वं भेदाग्रमुपहन्ति । समानायामपि खलु भेदप्रकृतौ प्रकृतानुप्रयोगान्तरमपेक्ष्यम् । सन्ति ह्यर्थान्तराणि समानशब्दाभिहितानि । सन्ति चानर्थान्तराणि पर्यायशब्दाभिहितानि । समानो हि रोगशब्दां दोषेषु च व्याधिषु च, दोषा ह्यपि रोगशब्दमातङ्कशब्दं यक्ष्मशब्दं दोषप्रकृतिशब्दं विकारशब्दं च लभन्ते । व्याधयश्च रोगशब्दमातङ्कशब्दं यक्ष्मशब्दं दोषप्रकृतिशब्दं विकारशब्दं च लभन्ते । तत्र दोषेषु चैव व्याधिषु च रोगशब्दः समानः, शेषेषु तु विशेषवान् ॥ ४ ॥

तत्र व्याधयोऽपरिसंख्येया भवन्ति, अतिबहुत्वात् । दोषास्तु खलु परिसंख्येयाः, अनतिबहुत्वात् । तस्माद्यथाचित्रं विकारा उदाहरणार्थमनवशेषेण च दोषा व्याख्यास्यन्ते ।

एक ही रोग में संख्येयत्व और असंख्येयत्व ये दोनो विरुद्ध बातें किस प्रकार हो सकती हैं ? प्रकृति भेद के कारण ( उवर, अतिसार आदि भेद से ) गिने जाने योग्य रोगों में एक और अनेक भेद का कथन परस्पर विरुद्ध दोषयुक्त नहीं है । यदि ऐसा विपरीत भाव न हो तो इतने से कोई कथन दोपरहित भी नहीं होता ।

भेद दर्शाने वाला पुरुष भेद्य रोग के अन्य रूप से भेद करता है । पहिले अन्य प्रकार ( एक दूसरे ही रूप से ) से भेद किये होते हैं । पहिले एक ही भेद-प्रकृति से एक रूप से विभक्त किये हुए रोग को पीछे प्रकृति-भेद से विभाग करके अनेक ( असंख्य ) भेद कर लेता है । इस प्रकार असंख्य भेद करने पर भी वह प्रथम किये हुए भेदों का लोप नहीं करता, वह तो बने ही रहते हैं ।

भेद-प्रकृति में समान होने पर भी प्रकृत अर्थात् समान शब्द से

कहे का पीछे अन्य रूप से वर्णन करना भी अपेक्षित है । क्योंकि समान शब्दसे कहे जाने वाले भी अनेक पदार्थ हैं और नानापर्याय शब्दों से कहे जाने वाले एक २ पदार्थ भी अनेक हैं । अर्थात् एक शब्द अनेकार्थवाचक है, और भिन्न भिन्न शब्द एक ही अर्थ को कहते हैं । जैसे—रोग शब्द व्याधि और दोष के लिये प्रयुक्त होता है । दोषों को रोग, आतंक, यक्ष्म, दोष प्रकृति, विकार आदि शब्दों से कहा जाता है । व्याधियां भी राग, आतंक, यक्ष्म, दोष-प्रकृति, और विकार शब्दों से कही जाती हैं । इस प्रकार से दोषों और व्याधियों में रोग शब्द सामान्य रूप से प्रयुक्त होता है । शेष ज्वरादि में विशेष अर्थ को कहता है । इनमें व्याधियां असंख्य हैं । क्योंकि ये बहुत अधिक हैं । दोष परिसंख्येय ( गणना के योग्य परिमित ) हैं । क्योंकि ये बहुत अधिक नहीं हैं । इसलिये रोग के असंख्य होने से, उदाहरण के लिये कुछ थोड़े से विकारों को सम्पूर्ण रूप में और गिनने के योग्य होने से दोषों को सम्पूर्ण रूप से कहेंगे ।

—रजस्तमश्च मानसौ दोषौ । तयोर्विकाराः कामक्रोधलोभमोहेर्ष्या-  
मानमदशोकचित्तोद्वेगभयहर्षादय । वातपित्तश्लेष्माणस्तु खलु  
शारीरा दोषाः, तेषामपि च विकारा ज्वरातीसारशोथशोषश्वासमेह-  
कुष्ठदय इति । दोषाश्च केवला व्याख्याताः, विकारैकदेशश्च । ५ ॥

रज और तम ये दो मानस दोष हैं । इन रज और तम के विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मान, मद, शोक, चिन्ता, उद्वेग, भय हर्ष आदि हैं । वात, पित्त, कफ ये शारीरिक दोष हैं । इनके विकार ज्वर अतिसार, शोथ, शोष, मेह, कुष्ठ आदि हैं । इस प्रकार से दोष सम्पूर्ण रूप में और विकार एकांश में कह दिये हैं ।

तत्र खल्वेपा द्वयानामपि दोषाणा त्रिविधं प्रकोपणम्;  
तद्यथा—असात्म्येन्द्रियार्थसंयोगः, प्रज्ञापराधः, परिणामश्चेति ।  
प्रकुपितास्तु खलु प्रकोपणविशेषाद्द्वयविशेषाच्च विकारविशेषा-  
नभिनिर्वर्तयन्त्यपरिसंख्येयान् । ते विकाराः परस्परमनुवर्तमानाः

कदाचिदनुबध्नन्ति कामादयो ज्वराद्यश्च । नियतस्त्वनुबन्धो  
रजस्तमसोः परस्परम् । न ह्यरजस्कं तमः प्रवर्तते ॥ ६ ॥

इन दोनों प्रकार के ( मानसिक और शारीरिक ) दोषों के कुपित होने के कारण तीन प्रकार के हैं । ( १ ) असात्म्येन्द्रियार्थ-संयोग ( २ ) प्रज्ञापराध और ( ३ ) परिणाम । ये कुपित हुए दोष प्रकोपन भेद से, और दूष्य ( शरीर के धातुओं ) के भेद से असंख्य रोगों को उत्पन्न करते हैं । ये उत्पन्न होकर कभी परस्पर एक दूसरे विकारों से मिल जाते हैं ( शारीरिक रोग मानसिक रोगों से और मानसिक विकार शारीरिक विकारों से ) । जैसे काम आदि मानसिक विकार, ज्वर आदि शारीरिक विकारों से मिल जाते हैं ।

रज और तम का परस्पर सम्बन्ध नियत ( सदा स्थिर ) बना रहता है । क्योंकि तम रज के बिना नहीं रह सकता, किन्तु सदा रज के साथ मिला रहता है ।

प्रायः शारीरदोषाणामेकाधिष्ठानीयानां संनिपातः संसर्गो वा समानगुणत्वात् । दोषा हि दूषणैः समानाः ॥ ७ ॥

प्रायः वात आदि शारीरिक दोषों के एक स्थान में रहने से परस्पर मेल हो जाता है । तीनों दोषों के मिलने से सन्निपात और दो दोषों के मिलने से संसर्ग होता है । कारण की भिन्नता होने पर भी इन में जो परस्पर संसर्ग होता है वह इसलिये होता है कि दोष दूषित करने वाले कारणों के समान गुण वाले हैं । अर्थात् दोषों में दूषित करने वाले कारणों के समान गुण हैं ।

तत्रानुबन्ध्यानुबन्धविशेषः, -स्वतन्त्रो व्यक्तलिङ्गो यथोक्तसमु-  
त्थानप्रशमो भवत्यनुबन्ध्यः, तद्विपरीतलक्षणस्त्वनुबन्धः । <sup>१</sup>अनुब-  
न्ध्य(-अनुबन्ध)लक्षणसमन्वितास्तत्र यदि दोषा भवन्ति तत् त्रिकं  
संनिपातमाचक्षते, द्वयं वा संसर्गम् । अनुबन्ध<sup>२</sup>विशेषकृतस्तु बहुविधो

१. अनुबन्ध्य लक्षण सम<sup>०</sup>, २ अनुबन्धमानुबन्ध विशेष<sup>०</sup> इति च पाठ भेदौ ।



दोषभेदः । एवमेष संज्ञाप्रकृतो भिषजां दोषेषु चैव व्याधिषु च नानाप्रकृतिविशेषव्यूहः ॥ ८ ॥

अधिष्ठान (आश्रय) और निदान की समानता होने पर भी अनुबन्ध और अनुबन्ध के कारण इन में भेद होता है ।

अनुबन्धका लक्षण—जो स्वतन्त्र ( स्वतः प्रधान ), स्पष्ट लक्षणों वाला, अपने ही कारण से उत्पन्न होने वाला तथा अपनी ही चिकित्सा से शान्त होने वाला हो, उसका अनुबन्ध कहते हैं । इस के विपरीत लक्षणों वाला (परतंत्र, अस्पष्ट चिह्न, पृथक् निदान एवं चिकित्सा वाला) अनुबन्ध होता है । यदि अनुबन्ध [और अनुबन्ध] के रूप से तीनों दोष मिले हों तो इसे सन्निपात और दो दोष मिले हों तो इस को 'संसर्ग' कहते हैं । [ अनुबन्ध और ] अनुबन्ध के रूप में मिले हुए दोषों के बहुत भेद हो जाते हैं । इस प्रकार से दोषों में ( अनुबन्ध और अनुबन्ध के भेद से) और रोगों से (प्रकोपन आदि के भेद से) वैद्योंने (सन्निपात, संसर्गादि से ज्वर अतिसार आदि) नाना प्रकार की संज्ञाएं की हैं ।

अग्निषु तु शारीरेषु चतुर्विधो बलभेदेन भवति । तद्यथा—तीक्ष्णो मन्दः समो विषम इति । तत्र तीक्ष्णोऽग्निः सर्वापचारसहः, तद्विपरीतलक्षणो मन्दः । समस्तु खल्वपचारतो विकृतिमापद्यतेऽनपचारतस्तु प्रकृताववतिष्ठते, समलक्षणविपरीतलक्षणस्तु विषमः । इत्येते चतुर्विधा भवन्त्यग्नयश्चतुर्विधानामेव पुरुषाणाम् ॥ ९ ॥

बल के भेद के कारण शरीरस्थ अग्नि चार प्रकार का है । जैसे—तीक्ष्ण, मन्द, सम और विषम । इन में तीक्ष्ण अग्नि सब प्रकार के अपचारों को सहन करता है । वह विषम आहार को भी शीघ्र जीर्ण कर देता है । तीक्ष्ण अग्नि से विपरीत लक्षणों वाले अग्नि को मन्द-अग्नि कहते हैं । सम अग्नि यथात्मय भुक्त अन्न को भली प्रकार पचाता है । यह अग्नि अपचार से विकृति को प्राप्त होता है । अनपचार से प्रकृति में ही रहता है । सम अग्नि के विपरीत लक्षणों वाले अग्नि को 'विषम' अग्नि कहते हैं ।

तत्र, समवातपित्तश्लेष्मणां प्रकृतिस्थानां समा भवन्त्यग्नयः, वातलानां तु वाताभिभूतेऽग्न्यधिष्ठाने विषमा भवन्त्यग्नयः, पित्तलानां तु पित्ताभिभूतेऽग्न्यधिष्ठाने तीक्ष्णा भवन्त्यग्नयः, श्लेष्मलानां तु श्लेष्माभिभूते ह्यग्न्यधिष्ठाने मन्दा भवन्त्यग्नयः ॥ १० ॥

ये चार प्रकार के अग्नि चार प्रकार के पुरुषो में होते है । जैसे—सम-वात-पित्त-कफ प्रकृति वाले पुरुषो में दोषो के समानावस्था में स्थित होने से अग्नि भी सम रहता है । वातप्रकृति वाले पुरुषो में अग्नि के आश्रय स्थान ( ग्रहणी ) के वायु से आक्रान्त होने के कारण अग्नि भी विषम रहता है । पित्तप्रकृति के पुरुषों में अग्नि के अधिष्ठान (ग्रहणी) के पित्त से आक्रान्त होने के कारण अग्नि भी तीक्ष्ण रहता है । कफप्रकृति के पुरुषों में अग्नि के आश्रय स्थान ( ग्रहणी ) के कफ से आक्रान्त होने के कारण अग्नि भी मन्द रहता है ।

तत्र केचिदाहुः—न समवातपित्तश्लेष्माणो जन्तवः सन्ति, विषमाहारोपयोगित्वान्मनुष्याणाम् । तस्माच्च वातप्रकृतयः केचित्, केचित्पित्तप्रकृतयः, केचित्पुनः श्लेष्मप्रकृतयो भवन्तीति ।

इस पर कुछ आचार्यों का कथन है कि समवात-पित्त-कफ प्रकृति वाले पुरुष नहीं होते । क्योंकि मनुष्यों का आहार विषम होता है । ( गर्भ में ही प्रकृति बनती है । इसलिये (माता के आहार की विषमता से भी) कोई वातप्रकृति, कोई पित्तप्रकृति और कोई कफप्रकृति होते हैं ।

तच्चानुपपन्नम् । कस्मात्कारणात् ? समवातपित्तश्लेष्माणं ह्यरोगमिच्छन्ति भिषजः । यतः प्रकृतिश्चारोग्यं, आरोग्यार्था च भेषजप्रवृत्तिः, सा चेष्टरूपा, तस्मात्सन्ति समवातपित्तश्लेष्माणः । न तु खलु सन्ति वातप्रकृतयः पित्तप्रकृतयः श्लेष्मप्रकृतयो वा । तस्य तस्य किल दोषस्यह्यधिकभावात्सा सा दोषप्रकृतिरुच्यते मनुष्याणाम् । न च विकृतेषु दोषेषु प्रकृतिस्थत्वमुपपद्यते । तस्मान्नैताः प्रकृतयः सन्ति । सन्ति तु खलु वातला पित्तलाः श्लेष्मलाश्च । अप्रकृतिस्थास्तु तं ज्ञेयाः ॥११॥

उन का ऐसा कथन ठीक नहीं है क्योंकि वैद्य लोग वात, पित्त, कफ इन तीनों की समान अवस्था वाले को ही नीरोग ( रोग-रहित ) कहते हैं और उस की प्रकृति 'आरोग्य' है । रोगों से रहित रहने के लिये ही औषध की ओर मनुष्य की प्रवृत्ति है और यह सब को इष्ट है । यह अभिवाञ्छित अर्थ ही प्रवृत्ति में हेतु है । इसलिये समान-वात-पित्त-कफ प्रकृति के भी मनुष्य होते हैं । परन्तु वातप्रकृति, पित्तप्रकृति, और कफ प्रकृति के मनुष्य नहीं होते हैं । उस उस दोष की अधिकता से मनुष्यों की २ वह दोष-प्रकृति कही जाती है । विकृत (विषम) द्रुण दोषों को 'प्रकृति' नहीं कहा जा सकता ( क्योंकि दोषों की समान अवस्था का नाम 'प्रकृति' है ) । इसलिये वात-प्रकृति आदि प्रकृतियां नहीं हैं । हां, वातल, पित्तल, और श्लेष्मल (वात-बहुल, पित्त-बहुल, श्लेष्म-बहुल ) मनुष्य हैं । इन को 'अप्रकृतिस्य' ( प्रकृति में न रहने वाला ) समझना चाहिये, ये 'विकृति' हैं ।

तेषां तु खलु चतुर्विधानां पुरुषाणां चत्वार्यनुप्रणिधानानि श्रेयस्कराणि । तत्र समसर्वधातूनां सर्वाकारसमं, अधिकदोषाणां तु त्रयाणां यथास्वं दोषाधिक्यमभिसमीक्ष्य दोषप्रतिकूलयोगीनि त्रीण्यनुप्रणिधानानि श्रेयस्कराणि भवन्ति यावद्भेदः समीभावात्, समे तु सममेव कार्यं, एवं चेष्टा भेदजप्रयोगाश्चापरे, तान् विस्तरेणानुव्याख्यास्यामः ॥ १२ ॥

इन चार प्रकार के ( सम-प्रकृति, वात, पित्त, कफ एवं तीक्ष्ण, मन्द, विषम और समाग्नि ) प्रकृति वाले पुरुषों को आगे कहे जाने वाले चार प्रकार के अन्न-पान का सेवन करना हितकारी होता है । इन में सम-सर्व-धातु ( दोषों ) वाले पुरुषों को सब प्रकार का सेवन समान रूप में करना श्रेयस्कर है । शेष अधिक दोषों वाले वातल, पित्तल, श्लेष्मल-तीनों के उन २ के दोषों की अधिकता को देखकर दोष के प्रतिकूल वस्तु, तब तक सेवन करना चाहिये जब तक अग्नि समान अवस्था में न आये । समान अवस्था में आने पर बन्द कर सब का समान रूप में सेवन करना चाहिये । उसी प्रकार धातुओं को समान करने वाले

अन्यान्य भेदज प्रयोग भी अभीष्ट है । उन का विस्तार से वर्णन करेंगे ।

त्रयस्तुपुरुषा भवन्त्यातुराः, ते त्वनातुरास्तत्रान्तरीयाणां भिषजाम् ।  
तद्यथा—वातलः पित्तलः श्लेष्मलश्चेति । तेषां विशेषविज्ञानं— वात-  
लस्य वातनिमित्ताः, पित्तलस्य पित्तनिमित्ता, श्लेष्मलस्य श्लेष्म  
निमिता व्याधयः प्रायेण बलवन्तश्च भवन्ति ॥ १३ ॥

वातल, पित्तल और श्लेष्मल ये तीन प्रकार के रोगी होते हैं । अन्य  
तन्त्रकर्त्ताओं के मत से ये रोगी नहीं है । यथा—वातल, पित्तल और  
श्लेष्मल । इन के मत में ये भी प्रकृतियां हैं । इस प्रकार से सात प्रकृतियां  
हैं । इन में यह बात विशेषकर जानने योग्य है कि वातप्रकृति को वायु-  
जन्य, पित्तल को पित्तजन्य और श्लेष्मल को कफजन्य रोग प्रायः और  
बलवान् रूप में होते हैं ।

तत्र वातलस्य वातप्रकोपणोक्तान्यासेवमानस्य क्षिप्रं वातः  
प्रकोपमापद्यते, न तथेतरो दोषौ । स तस्य प्रकोपमापन्नो यथोक्तैर्विकारैः  
शरीरमुपतपति बलवर्णसुखायुषामुपघाताय । तस्यावजयनं—स्नेहस्वेदौ  
विधियुक्तौ, मृदूनि च संशोधनानि स्नेहोष्णमधुराम्ललवणयुक्तानि,  
तद्वहभ्यवहार्याण्युपनाहनोपवेष्टनोन्मर्दन परिषेकावगाहनसंवाहनाव-  
पीडनवित्रासनविस्मापनविस्मारणानि, सुरासवविधानं, स्नेहाश्राने-  
कयोनयो दीपनीयपाचनीयवातहरविरेचनीयोपहिताः तथा शत-  
पाकाः सहस्रपाका सर्वशश्च प्रयोगार्था बस्तयो, बस्तिनियमः, सुख-  
शीलता चेति ॥ १४ ॥

इन में वातप्रकृति का मनुष्य जब वायु को प्रकुपित करने वाले  
कारणों का सेवन करता है तब वायु शीघ्र प्रकुपित हो जाता है, शेष दोनों  
दोष पित्त और कफ इतना शीघ्र कुपित नहीं होते । वायु प्रकुपित होकर  
पूर्वोक्त अस्सी प्रकार के वात रोगों (विकारों) से बल, वर्ण, सुख और आयुष्य  
को नष्ट करने के लिये शरीर को पीड़ित करता है । इस वायु को शान्त  
करने के लिये स्नेह-विधि और स्वेद-विधि है । एवं मृदु ( तीक्ष्ण नहीं )

स्नेह, उष्ण, मधुर, अम्ल, लवण युक्त संशोधन, मृदु, स्नेहन, उष्ण, मधुर, अम्ल, लवण से युक्त शोधन द्रव्य और आहार-द्रव्य, उपनाह (वात हर द्रव्यों का बन्धन), उद्वेष्टन (वेष्टन, लपेटना), उन्मर्दन ( हाथों से मालिश ), परिपेक ( वातहर कायों से परिसेचन ), अवगाहन ( वात हर कायों में डुबकी ), संवाहन ( कोमलता से हाथ फेरना ), अवपीडन ( ताडन ), वित्रासन ( डराना ) विस्मापन ( विस्मय उत्पन्न करना ), विस्मरण ( भुलाना ), सुरा और आसव ( वारुणी यंत्र से तैयार किया पदार्थ सुरा, न तैयार किया हुआ आसव ) का देना, स्थावर और जंगम योनि के स्नेहों को दीपनीय, पाचनीय और विरेचनीय ओषधियों से मिलाकर सौ बार या हजार बार ( अर्थात् बार-बार पकाये ) पकाये हुए स्नेह, सब प्रकार की वस्ति विधि, ( बहुत बार पकाये तैलों की वस्ति भी उपयुक्त है ), और निरन्तर सुखी जीवन व्यतीत करना उत्तम है ।

पित्तलस्यापि पित्तप्रकोपणोक्तान्यासेवमानस्य क्षिप्रं पित्तं प्रकोपमापद्यते, तथा नेतरौ दोषौ । तदस्य प्रकोपमापन्नं यथोक्तैर्विकारैः शरीरमुपतपति बलवर्णसुखायुषामुपघाताय । तस्यावजयनं-सर्पिष्पानं, सर्पिषा च स्नेहनमधश्च दोषहरणं, मधुरतिक्तकषायशीतानां चोषधाभ्यवहार्याणामुपयोगो मृदुमधुरसुरभिशीतहृद्यानां गन्धानां चापसेवा, मुक्तामणिहारावलीनां च परमशिशिरवारिसंस्थितानां धारणमुरसा क्षणे क्षणे, चाप्रथमचन्दनप्रियङ्गुकालीयमृणालशीतवातवारिभिरुत्पलकुमुदकांकनदसौगन्धिकपद्मानुगतैश्च वारिभिरभिप्रोक्षणं, श्रुतिसुखमृदुमधुरमनोनुगानां च गीतवादित्राणां श्रवणं, श्रवणं चाम्युदयानां, सुहृद्भिश्च संयोगः, संयोगश्चेष्टाभिः स्त्रीभिः शीतोपहितांशुकस्रग्दामहारधारिणीभिः निशाकराशुशीतलप्रवातहर्म्यवासः शैलान्तरपुलिनशिशिरवदनवमनव्यजनपवनानां सेवा, रम्याणां चोपवनानां सेवा, सुखशिशिरसुरभिमारुतोपवातानामुपसेवनं, सेवनं च नलिनात्पलद्वाकुमुदमौगन्धिकपुण्डरीकशतपत्रहस्तानां म्यम्यानां च सर्वभावानामिति ॥ १५ ॥

पित्त प्रकृति का मनुष्य जब पित्त-प्रकोपक वस्तुओं का सेवन करता है उस समय पित्त शीघ्र कुपित होजाता है, शेष अन्य दो धातु इतनी जल्दी कुपित नहीं होते । तब इस पुरुष के पूर्वोक्त चालीस पित्तजन्य रोगों से शरीर आक्रान्त हो जाता है, जिससे उसके बल, वर्ण, सुख और आयु का नाश होता है । इस पित्त को शान्त करने के लिये घी का सेवन करना श्रेयस्कर है । शोधन के लिये घी से स्नेहन (तेलादि से नहीं), अधो-दोषहरण अर्थात् विरेचन का देना, मधुर, तिक्त, कपाय, और शीत ओषधियों से युक्त खान पान का उपयोग, मृदु-मधुर, सुगन्धित, शीतल और हृदय को प्रिय लगने वाले गन्धों (सुगन्धों) का सेवन, अति ठण्डे पानी में रक्खे मोती, मणियों की मालाओं को छाती पर धारण करना, थोड़ी थोड़ी देर में श्वेत चन्दन, प्रियंगु, कालीयक, (चन्दन का भेद), मृणाल, शीतल वायु, शीतल पानी, उत्पल, कुमुद, कोकनद, सौगन्धिक और पद्म ( ये सब कमल के भेद हैं ) इनसे हाथ-पांव धोना या छीटे डालना, कान के लिये प्रिय, मृदु, मधुर एवं मन के अनुकूल गाना-बजाना सुनना, उत्सव ( नाच-रंग ) आदि देखना, मित्रों से मिलना शीतल द्रव्यों से लिप्त वस्त्र, माला, और हारों को धारण की हुई अभिलषित स्त्रियों से मिलना-जुलना, चन्द्रमा की शीतल किरणों से शीतल खुली वायु में, महल की छतों पर उँडे, पहाड़ों के बीच में, नदियों के तटों पर, उँडे घरों ( धारागृहो ) में, ठण्डे पंखों की शीतल वायु का सेवन, सुखस्पर्श, शिशिर, सुगन्धित वायु से युक्त रम्य उपवनों का सेवन करना, पद्म, उत्पल, नलिन, कुमुद, सौगन्धिक, पुण्डरीक, शतपत्र इन नाना प्रकार के कमलों से भरे तालाबों का सेवन और अन्य सब सौम्य शीतल वस्तुओं का सेवन करना पित्त को शान्त करता है ।

श्लेष्मलस्यापि श्लेष्मप्रकोपणोक्तान्यासेवमानभ्य क्षिप्रं श्लेष्मा प्रकोपमापद्यते, न तथेतरो दोषौ । स तस्य प्रकोपमापन्नो यथोक्तैर्विकारैः शरीरमुपतपति बलवर्णसुखायुषामुपघाताय । तस्यावजयनं

विधियुक्तानि तीक्ष्णोष्णानि संशोधनानि, रुक्षप्रायाणि चाभ्यवहार्याणि कटुतिक्तकषायोपहितानि, तथैव धावनलंघनप्लवनपरिसरण-जागरणानि युद्धव्यवायव्यायामोन्मर्दनस्नानोत्सादनानि, विशेषतस्तीक्ष्णानां दीर्घकालस्थितानां मद्यानामुपयोगः, सधूमपानः सर्वशश्चोपवासः, तथोष्णवासः सुखप्रतिषेधश्च सुखार्थमेवेति ॥ १६ ॥

कफ प्रकृति के मनुष्य का कफ प्रकोपक वस्तुओं को सेवन करने से शीघ्र प्रकुपित हो जाता है, शेष अन्य दोनों धातु इतनी जल्दी कुपित नहीं होते । कुपित कफ पूर्वोक्त बीस प्रकार के कफ-रोगों से शरीर को पीड़ित करता है, जिससे उसके बल, वर्ण सुख और आयु का ह्रास होता है । इस कफ को शमन करने के लिये शास्त्रोक्त विधि से तीक्ष्ण-उष्ण संशोधन और संशमन, रुक्ष गुण वाले कटु, तिक्त, कषाय रस युक्त आहार द्रव्य प्रयोग करने चाहियें । इसी प्रकार भागना, उपवास ( लंघन ), प्लवन ( कूदना या पानी में तैरना ), परिसरण ( परिक्रमण, चारों ओर घूमना ), रात्रि में जागना, युद्ध व्यायाम ( शरीर को परिश्रम देने वाला कर्म, कुश्ती आदि ), उन्मर्दन ( रुक्ष मालिश ), स्नान, उत्सादन ( उबटन लगाना ), खासकर तीक्ष्ण और पुराने मद्य का उपयोग, और धूम पान करना, सब प्रकार से उपवास, गरम वस्त्रों का उपयोग, और सुख ( आराम ) का परित्याग, दुःख सहना यह सुख प्राप्ति के लिये सेवन करना चाहिये ।

भवति चात्र । सर्वरोगविशेषज्ञः सर्वकार्यविशेषवित् ।

सर्वभेषजतत्त्वज्ञो राज्ञः प्राणपतिर्भवेत् ॥ १७ ॥

सब रोगों के ( दोष, अग्नि, वात आदि को ) जानने वाला, सब कार्यों के चिकित्सा को भली प्रकार जानने वाला, सब औषधियों के तत्व (सार) का ज्ञान करने वाला वैद्य राजा का प्राणपति (प्राणों का पालक) हो ।

तत्र श्लोकाः । प्रकृत्यन्तरभेदेन रोगानीकविकल्पनम् ।

परस्पराविरोधश्च सामान्यं रोगदोषयोः ॥ १८ ॥

दोषसंख्याविकाराणामेकदोषप्रकोपणम् ।

जरणां प्रतिचिन्ता च कायाग्नेर्धुच्छणानि च ॥ १९ ॥

नराणां वातलादीनां प्रकृतिस्थापनानि च ।

रोगानीके विमानेऽस्मिन् व्याहृतानि महर्षिणा ॥ २० ॥

प्रकृति ( प्रभाव आदि ) भेद से, रोगों के भेद, नाना विघ्न संख्या होने पर भी परस्पर अविरोध, रोग और दोष में समानता, दोषों की संख्या, रोगों का एक देश, दोषों के प्रकोप का कारण, अग्नि का विशेष कथन, शरीरस्थ अग्नि के चार रूप, वातल आदि तीन पुरुषों को प्रकृति में लाने वाली भेषज, ये सब बातें इस 'रोगानीक' अध्याय में महर्षि आत्रेय ने कह दी हैं ।

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते तृतीये विमानस्थाने रोगानीकविमान

नाम षष्ठोऽध्यायः समाप्तः ॥ ३ ॥

## सप्तमोऽध्यायः ।



अथातो व्याधितरूपीयं विमानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

अब 'व्याधितरूपीय' विमान का व्याख्यान करते हैं, जैसा कि भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है ।

इह खलु द्वौ पुरुषौ व्याधितरूपौ भवतः । तद्यथा—गुरुव्याधित एकः सत्त्वबलशरीरसंपदुपेतत्वाल्लघुव्याधित इव दृश्यते, लघुव्याधितोऽपरः सत्त्वादीनामधमत्वाद् गुरुव्याधित इव दृश्यते, तयोरकुशलाः केवलं चक्षुषैव रूपं दृष्ट्वाऽध्यवस्यन्तो व्याधिगुरुलाघवे विप्रतिपद्यन्ते ॥ ३ ॥

दो पुरुष व्याधित की भाँति होते हैं ( १ ) गुरु व्याधि से पीड़ित एक मनुष्य और सत्त्व, बल, और शरीर इनके उत्कर्ष से गुरुव्याधि वाला होने



पर भी लघु व्याधि से पीड़ित सा दिखाई देता है । दूसरा सत्व, बल, शरीर इनके न्यून होने से लघु व्याधि होने पर भी गुरु व्याधि से पीड़ित दिखाई देता है । इनमें अकुशल वैद्य केवल आंख से ही देखकर गुरु व्याधि और लघु व्याधि के ज्ञान में मोह या धोखे में पड़ जाते हैं । वे गुरु व्याधि को लघु व्याधि और लघु व्याधि को गुरु व्याधि समझ लेते हैं ।

न हि ज्ञानावयवेन कृत्स्ने ज्ञेये ज्ञानमुपपद्यते; विप्रतिपन्नास्तु खलु रोगज्ञाने, उपक्रमयुक्तिज्ञाने चापि विप्रतिपद्यन्ते । ते यदा गुरु-व्याधितं लघुव्याधितरूपमासाद्यन्ति, तदा तमल्पदोषं मत्वा संशोधनकालेऽस्मै मृदुसंशोधनं प्रयच्छन्तो भूय एवास्य दोषानुदीरयन्ति । यदा तु लघुव्याधितं गुरुव्याधितरूपमासाद्यन्ति, तं महादोषं मत्वा संशोधनकालेऽस्मै तीक्ष्णं संशोधनं प्रयच्छन्तो दोषानतिनिर्हृत्यैव शरीरमस्य क्षिण्वन्ति; एवमवयवेन ज्ञानस्य कृत्स्ने ज्ञेये ज्ञानमिति मन्यमानाः परिस्खलन्ति, विदितवेदितिव्यास्तु भिषजः सर्वं सर्वथा यथासंभवं परीक्ष्यं परीक्ष्याध्यवस्यन्तो न क्वचिदपि विप्रतिपद्यन्ते, यथेष्टमर्थमभिनिर्वर्तयन्ति चेति ॥ ४ ॥

क्योंकि प्रमाण के एक देश ( भाग ) से सम्पूर्ण ज्ञेय वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता । एक ही प्रमाण से सब कुछ नहीं जाना जा सकता । इस प्रकार से रोग-ज्ञान में धोखा खाने पर चिकित्सा-युक्ति ज्ञान में भी धोखा खाजाते हैं । जिस समय ये अकुशल वैद्य गुरु व्याधि से पीड़ित मनुष्य को लघु व्याधि से पीड़ित अर्थात् अल्प-दोषयुक्त समझ कर इस रोगी को संशोधन के लिये मृदु संशोधन देते हैं, उस समय इसके दोषों को वे और भी अधिक बढ़ा देते हैं । और जब लघु व्याधि से पीड़ित व्यक्ति को महादोषयुक्त, गुरु व्याधि वाला समझकर संशोधन के लिये तीक्ष्ण संशोधन देते हैं, तब दोषों को बहुत अधिक मात्रा में बाहर निकाल कर इस रोगी के शरीर को निर्बल करते हैं । इस प्रकार से ज्ञान के एक ही भाग से सम्पूर्ण ज्ञेय वस्तु का ज्ञान

करके काम करने पर ये सब स्थानों पर धोखा खाते हैं । इसके विपरीत तीनों प्रमाणों द्वारा परीक्षा करने वाले, सर्व-प्रमाण-कुशल वैद्य सत्व आदि सब बातों की परीक्षा करके कार्य करते हैं, इसलिये चिकित्सा कार्य में वे कहीं भी धोखा नहीं खाते । इससे इनको मनोवाञ्छित प्रयोजन ( आरोग्य ) मिल जाता है ।

भवन्ति चात्र । सत्त्वादीनां विकल्पेन व्याधीनां रूपमातुरे ।

दृष्ट्वा विप्रतिपद्यन्ते बाला व्याधिवलाबले ॥ ५ ॥

ते भेषजमयोगेन कुर्वन्त्यज्ञानमोहिताः ।

व्याधितानां विनाशाय क्लेशाय महतेऽपि वा ॥ ६ ॥

प्राज्ञास्तु सर्वमाज्ञाय परिक्ष्यमिह सर्वथा ।

न स्वलन्ति प्रयोगेषु भेषजानां कदाचन ॥ ७ ॥

मूर्ख वैद्य गुरु-व्याधित पुरुष में सत्व आदि के उत्कर्ष और अपकर्ष को न समझ कर रोग के बल और अबल (गुरु-लाघव ज्ञान) में धोखा खा जाते हैं । इस प्रकार अज्ञान के कारण रोग-ज्ञान में धोखा खाये हुए रोगियों के नाश या बड़े भारी कष्ट के लिये, अयुक्ति से ( दोष-दूष्य की अपेक्षा न करके ) चिकित्सा कर्म करते हैं । बुद्धिमान् वैद्य सब ( सत्व आदि ) की परीक्षा तीनों प्रमाणों द्वारा करके औषध का प्रयोग करते हैं, इसलिये वे चिकित्सा कर्म में कभी भूल नहीं करते ।

इति व्याधितरूपाधिकारे श्रुत्वा व्याधितरूपसंख्याप्रसंभवं  
व्याधितरूपहेतुं विप्रतिपत्तौ च कारणं सापवादं संप्रतिपत्तिकारणं  
चानपवादं, भगवन्तमात्रेयमग्निवेशोऽतः परं सर्वकृमीणां पुरुषसं-  
श्रयाणां समुत्थानस्थानसंस्थानवर्णानामप्रभावचिकित्सितविशेषान्  
पप्रच्छोपसंगृह्य पादौ ॥ ८ ॥

इस प्रकार से इस व्याधित रूपाधिकार में व्याधित रूप के संख्या, परिमाण, गुरु व्याधित, लघु व्याधित, संख्या गुरु-व्याधित और लघु-व्याधित में कारण (सत्त्वादि का उत्कर्ष और अपकर्ष), रोग के बलाबल ज्ञान में प्रमाद

(मोह), इस प्रमाद के कारण ( एक प्रत्यक्ष प्रमाण से ही ज्ञान करना ), सापवाद ( दोष सहित, ) सम्प्रतिपत्ति ( सम्यक् ज्ञान तीनों प्रमाणों से परीक्षा करने का ज्ञान ), और अनपवाद ( निर्दोष ), इनको सम्पूर्ण रूप में सुनकर अग्निवेश ने भगवान् आत्रेय के चरणों में नमस्कार कर, सब प्रकार के कृमियों के समुत्थान ( निदान ), स्थान, संस्थान ( लक्षण ), वर्ण, नाम, प्रभाव और चिकित्सा को पूछा ।

अथास्मै प्रोवाच भगवान् आत्रेयः—इह खल्वग्निवेश ! विशतिविधाः कृमयः पूर्वमुद्दिष्टा नानाविधेन प्रविभागेनान्यत्र सहजेभ्यः, ते पुनः प्रकृतिभिर्भिद्यमानाश्चतुर्विधा भवन्ति । तद्यथा—पुरीषजाः श्लेष्मजाः शोणितजा मलजाश्चेति ॥ ९ ॥

अग्निवेश को भगवान् आत्रेय ने कहा, हे अग्निवेश ! पीछे अष्टोदरीय अध्याय में सहज ( सहजन्य ) कृमियों को छोट कर नाना प्रकार के विभाग से बीस प्रकार के ( मलजन्य दो प्रकार के, रक्तजन्य छ. प्रकार के, कफजन्य सात प्रकार के और पुरीषजन्य पांच प्रकार के ) कृमि कहे हैं । ये बीस प्रकार के कृमि प्रकृति की भिन्नता के कारण चार प्रकार के हैं । यथा—पुरीषजन्य, श्लेष्मजन्य, रक्तजन्य और मलजन्य ।

तत्र मलो वाह्यश्चाभ्यन्तरश्च ।

तत्र वाह्ये मले जातान्मलजान्संचक्ष्महे । तेषां समुत्थानं—मृजा-वर्जनंम् । स्थानं—केशश्मश्रुलोमपक्ष्मवासासि । संस्थानं—अणवस्तिला-कृतयो बहुपादा । वर्णः कृष्णः शुक्लश्च । नामानि-यूकाः पिपीलिकाश्च । प्रभावः-कण्डूजननं कोठपिडकाभिर्निर्वर्तन च । चिकित्सितं त्वेषा-मपकर्षणं मलोपघातो मलकराणां च भावानामनुपसेवनमिति ॥ १० ॥

इनमें मल दो प्रकार का है—(१) वाह्य और (२) आभ्यन्तर । इनमें शरीर के वाह्यमल ( पसीना आदि से ) से उत्पन्न होने वाले कृमियों को मलजन्य कृमि कहते हैं । इनकी उत्पत्ति का कारण शरीर शुद्धि का न

करना है । इनका स्थान केश (शिर के बाल), दाड़ी मूँछ, शरीर के लोम, आंखों की पलकों के बाल और वस्त्र है ।

इनका संस्थान अर्थात् ( रूप या आकृति ) ये अणु ( सूक्ष्म ), तिल के समान आकृति और बहुत पांव वाले होते हैं । इनका वर्ण ( रंग ) काला और श्वेत है । इनके नाम यूक ( जूँ ) और पिपीलिका ( लिखा, लीख है ।

इनका प्रभाव—खाज उत्पन्न करना और कोठ, पिडका आदि फुन्सियों को शरीर पर उत्पन्न करना है ।

इनकी चिकित्सा—इनको चिमटी से पकड़ कर खींचना, मल का नाश करना और मलोत्पादक वस्तुओं का परित्याग करना है ।

शोणितजानां तु खलु कुष्ठैः समानं समुत्थानम्, स्थानं रक्तवाहिन्यो धमन्यः । संस्थानं अणवो वृत्ताश्चापादाश्च सूक्ष्मत्वाच्चैके भवन्त्यदृश्याः । वर्णस्ताम्रः । नामानि केशादा लोमादा लोमद्वीपाः सौरसा औद्दु-  
स्वरा जन्तुमातरश्चेति । प्रभावः केशश्मश्रुनखलोमपक्ष्मापध्वंसो व्रण-  
गतानां च हर्षकण्डूतोदसंसर्पणान्यतिवृद्धानां च त्वक्शिरास्नायुमांस-  
तरुणास्थिभक्षणमिति, चिकित्सितमप्येषां कुष्ठैः समानं तदुत्तरकाल-  
मुपदेक्ष्यामः ॥ ११ ॥

रक्तजन्य कृमियो का निदान कुष्ठ रोग के निदान के समान ही है । कृमियों का स्थान रक्तवाहिनी धमनियां ( सिराये भी ) है । इनका रूप सूक्ष्म होने से कुछ कृमिअदृश्य होते हैं । वे आंख से नहीं देखे जाते, इनका रंग ताम्र वर्ण है । इनके नाम केशाद ( केशों को खाने वाला ), लोमाद, लोमद्वीप, सौरस, औद्दुस्वर और जन्तुमाता हैं । इनका प्रभाव केश श्मश्रु, लोम और पलक के बालों को नाश करना है, व्रण में प्रवेश करके ये हर्ष, खाज, तोद ( चुनचुना ) और संसर्पण की सी प्रतीति कराते हैं । ❀

❀ हर्ष—जिस प्रकार दाद में खुजाने से आनन्द, हर्ष वा रोमाञ्च होता है । इस को भी कृमि उत्पन्न करते हैं ।

बहुत बढ़के ये त्वचा सिरा, स्नायु, मांस और तरुण अस्थि को भी खाने लगते हैं। इनकी चिकित्सा भी कुष्ठ रोग के समान है, इसका वर्णन आगे कुष्ठ-चिकित्सा में करेंगे।

श्लेष्मजा. क्षीरगुडतिलमत्स्यानूपमांसपिष्टान्नपरमान्नकुसुम्भस्त्रे-  
हाजीर्णपूतिकृन्मसकीर्णविरुद्धासात्म्यभोजनसमुत्थानाः। तेषामामा-  
शय. स्थानं। ते प्रवर्धमानास्तूर्ध्वमधो वा विसर्पन्त्युभयतो  
वा। संस्थानवर्णविशेषास्तु श्वेताः पृथुत्रघ्नसंस्थानाः केचित्, केचिद्दृ-  
त्तपरिणाहा गण्डूपदाकृतयश्च श्वेतास्ताम्रावभासाः, केचिदण्वो  
दीर्घास्तन्वाकृतयः श्वेताः। तेषां त्रिविधाना श्लेष्मनिमित्तानां कृमीणां  
नामानि—अन्त्रादाः, उदरादाः, हृदयाचराः, चुरवो, दर्भपुष्पाः,  
सौगन्धिकाः, महागुदाश्चेति। प्रभावो हृल्लासास्यसंस्त्रवणमरोच-  
काविपाकौ ज्वरो मूर्च्छा जम्भा क्षवथुरानाहोऽङ्गमर्दश्छर्दिः काश्यं  
पारुष्यमिति ॥ १२ ॥

कफजन्य कृमि—क्षीर-भोजन, गुड, तिल, मछली, जलचर प्राणियों के मांस, पिष्टान्न और परमान्न का भोजन, धनिये का तेल, अजीर्ण में भोजन, पूति ( सड़े ), कृन्म ( कुँदकारक द्रव्यों के ) संकीर्ण ( हित और अहित, वेमेल मिले भोजन ) और विरुद्ध एवं असात्म्य भोजनों से उत्पन्न होते हैं। इन का स्थान आमाशय है। ये ( आमाशय से ) बढ़ कर यहीं से ही ऊपर या नीचे अथवा दोनों तरफ फैल जाते हैं। इनका रूप और वर्ण श्वेत तथा कुछ बड़ी मांसपेशी के से, बड़ के आकार के, कुछ गोल आकार वाले, ( वेष्टन ) वाले, गिंडोये की आकृति के, श्वेत और लाल रंग की आभा वाले होते हैं। कुछ अणु ( पतले ), लम्बे और सूत के समान आकृति वाले, श्वेत होते हैं। इन तीनों प्रकार के कफजन्य कृमियों के नाम ये हैं। जैसे—अन्त्राद, उदराद, हृदयचर, चुरु, दर्भपुष्प, सौगन्धिक और महागुद। इन का प्रभाव—हृल्लास ( वमन की रुचि होना ), मुख से लार का बहना, अरुचि, अविपाक, ज्वर, मूर्च्छा, जम्भाई का आना,

छीकें आना, अफरा, शरीर के अगों का टूटना, वमन, कृशता और शरीर में रूक्षता वा कठोरता होना है ।

पुरीषजास्तुल्यसमुत्थानाः श्लेष्मजैस्तेषां स्थानं पक्काशयः । प्रवर्धमानास्त्वधो विसर्पन्ति, यस्य पुनरामाशयाभिमुखाः स्युर्यदन्तरम् । तदन्तरं तस्योद्गारनिश्वासाः पुरीषगन्धिनः स्युः; संस्थानवर्णविशेषास्तु सूक्ष्मवृत्तपरीणाहाः श्वेता दीर्घा ऊर्णाशुकसंकाशाः केचित्, केचित्पुनः स्थूलवृत्तपरीणाहाः श्यावनीलहरितपीताः; तेषां नामानि ककेरुका मकेरुका लेलिहाः सशूलकाः सौसुरादाश्चेति । प्रभावः पुरीषभेदकार्श्यं पारुष्यं लोमहर्षाभिनिर्वर्तनं च, त एवास्य गुदमुखं परितुदन्तः कण्ठं चोपजनयन्तो गुदमुखं पर्यासते, त एव जातहर्षा गुदनिष्क्रमणमतिवेलं कुर्वन्ति । इत्येष श्लेष्मजानां पुरीषजानां च कृमीणां समुत्थानादिविशेषः ॥ १३ ॥

पुरीषजन्य (मल से उत्पन्न), कृमियों का निदान कफजन्य कृमियों के समान है । इन कृमियों का स्थान पक्काशय है । ये कृमि बढ़कर नीचे की ओर फैलते हैं । जिस पुरुष में ये कृमि आमाशय की ओर जाने लगते हैं, उस पुरुष के उद्गार ( डकार ) और श्वास में मल की गन्ध आती है । इनका रूप वर्ण—सूक्ष्म, गोल वेष्टन वाले तथा श्वेत और भेड़ के लम्बे बालों के समान होते हैं । कुछ स्थूल, गोल वेष्टन वाले, काले, नीले, हरे या पीले रंग के होते हैं । इन के नाम—ककेरुक, मकेरुक, लेलिह, सशूलक, सौसुराद है । इनका प्रभाव—मल का पतला आना, शरीर में कृशता, परुषता और रोमांच होना है । ये कृमि रोगी की गुदा के मुख को काटते हुए गुदा में खाज उत्पन्न करते हैं, एवं गुदा के मुख पर रहते हैं । ये हर्ष उत्पन्न होने पर बार बार गुदा से बाहर ( मल के साथ ) निकलते हैं । यह कफजन्य और पुरीषजन्य कृमियों में उत्पत्ति आदि का भेद है ।

चिकित्सितं तु खल्वेषां समासेनोपदिश्य पश्चाद्विस्तरेणोपदेक्ष्या-

मः । तत्र सर्वकृमीणामपकर्षणमेवादितः कार्यं; ततः प्रकृतिविघातोऽ,  
नन्तरं निदानोक्तानां भावानामनुपसेवनमिति ॥ १४ ॥

इन श्लेष्म कफ और मल से उत्पन्न कृमियों की चिकित्सा संक्षेप में  
कहकर फिर पीछे से विस्तार से कहेंगे । इन कृमियों का प्रथम अपकर्षण  
(शाधन) करना चाहिये, फिर प्रकृति-विघात ( उपशम ) और पीछे से  
निदानरूप पदार्थों का अनुपसेवन अर्थात् त्याग करना चाहिये ।

तत्रापकर्षणं हस्तेनाभिगृह्य विमृश्योपकरणवताऽपनयनमनुपक-  
रणेन वा, स्थानगतानां तु कृमीणां भेषजेनापकर्षणं; न्यायतस्तु  
तच्चतुर्विधम् । तद्यथा—शिरोविरेचनं वमनं विरेचनमास्थापनमित्य-  
पकर्षणविधिः ॥ १५ ॥

अपकर्षण-विधि—उपकरण ( संदश, चिमटी आदि ) से अथवा  
विना उपकरण के हाथ से पकड़ कर बाहर निकालने का नाम 'अपकर्षण'  
है । यह कार्य ब्राह्म मलजन्य (पुरीपजन्य) और श्लेष्मजन्य कृमियों के स्थान  
से निकले होने पर ही हो सकता है और जो कृमि अपने स्थान में स्थित  
हों, उनको औषध द्वारा निकालना उचित है और यह औषध चार प्रकार  
का है । यथा—शिरोविरेचन, वमन, विरेचन और आस्थापन । यह  
अपकर्षण-विधि है ।

प्रकृतिविघातस्वेपां—कटुतिक्तकपायक्षारोष्णानां द्रव्याणामु-  
पयोगो यच्चान्यदपि किञ्चिच्छ्लेष्मपुरीपप्रत्यनीकभूतं तत्स्यादिति  
प्रकृतिविघात ॥ १६ ॥

प्रकृति-विघात—प्रकृति( कफ और पुरीप ) का उपघात अर्थात् नाश  
वा शमन करना । इस के लिये कटु, तिक्त, कपाय, क्षार और उष्ण पदार्थों  
का उपयोग करना चाहिये । इसके अतिरिक्त और भी जो कुछ श्लेष्मा  
और मल के विरुद्ध आहार-विहार हो उसका सवन करना चाहिये । यह  
प्रकृति-विघात विधि है ।

अनन्तर निदानोक्तानां भावानामनुपसेवनमिति यदुक्तं निदा-

नविधौ तस्य विसर्जनं तथाप्रायाणां चापरेषां द्रव्याणामिति लक्षण-  
तश्चिकित्सतमनुव्याख्यातमेतदेव पुनर्विस्तरेणोपदेक्ष्यते ॥ १७ ॥

इसके आगे निदान में कहे पदार्थों के सेवन का त्यागना आवश्यक है ।  
ऐसा निदान विधि में जिन जिन द्रव्यों को निदान रूप से कहा है, उनका  
परित्याग करना चाहिये । इसी प्रकार न कहे हुए निदान के अनुरूप  
द्रव्यों का भी परित्याग करना चाहिये । इस प्रकार संक्षेप से चिकित्सा-  
क्रम कह दिया है, अब इसी को विस्तार से कहते हैं ।

अथैनं कृमिकोष्ठमातुरमग्रे षड्रात्रं सप्तरात्रं वा स्नेहस्वेदाभ्या-  
मुपपाद्य श्वोभूते एनं संशोधनं पाययितास्मीति क्षीरदधिगुडतिलम-  
त्स्यानूपमांसपिष्टान्नपरमान्नकुसुम्भस्नेहसप्रयुक्तैर्भोज्यैः सायं प्रातश्चोप-  
पादयेत्समुदीरणार्थं चैव कृमीणां कोष्ठाभिसरणार्थं च भिपक् । अथ  
व्युष्टायां रात्रौ सुखोषितं सुप्रजीर्णभुक्तं च विज्ञायास्थापनवमन-  
विरेचनैस्तदहरेवोपपादयेदुपपादनीयश्चेत्स्यात्सर्वान् परीक्ष्यविशेषान्  
परीक्ष्य सम्यक् ।

इस कृमि-कोष्ठ वाले रोगी को संशोधन देने से पूर्व छः या सात  
रात तक स्नेहन और स्वेदन देना चाहिये । फिर सातवे वा आठवें दिन  
( अगले दिन ) इस को संशोधन दूंगा ऐसा निश्चय करके सायं-प्रातः  
दोनों समय क्षीर ( दूध ), गुड़, दही, तिल, मछली, जलचर प्राणियों  
का मांस, पिष्टान्न, धनिये के तैल से बने भोजन खिलावे । इस प्रकार के  
भोजनों से कोष्ठ के क्रिमि भली प्रकार से उत्क्षुशित हो जाते हैं ( निकल  
आते हैं ) और अन्यत्र गये हुए कृमि भी कोष्ठ की ओर आने लगते हैं ।  
इस के अनन्तर रात्रि के बीतने पर ( प्रातःकाल होने पर ) भली प्रकार  
नीद आई तथा खाया हुआ भोजन भली प्रकार जीर्ण हो गया यह देखकर  
उस दिन ( नवम दिन ) आस्थापन, वमन, विरेचन ( इम में से कोई  
एक क्रिया ) देना चाहिये । क्रिया करने से पूर्व रोगी की सब प्रकार से  
( प्रकृति-सात्म्य, सत्त्व आदि से ) परीक्षा कर लेनी चाहिये ।



अथाहरेति त्रयात्—मूलकसर्पपलशुनकरञ्जशिग्रुमधुशिग्रुकमठ-  
खरपुष्पाभूस्तृणसुमुखसुरसकुठेरकगण्डीरकालमालकर्णासक्षवकफ-  
णिज्जकानि सर्वाण्यथवा यथालाभं, तान्याहृतान्यभिसमीक्ष्य खण्ड-  
शस्त्रेदयित्वा प्रक्षाल्य पानीयेन सुप्रक्षालिताया स्थाल्यां समावाप्य  
गोमूत्रेणाधोदकेनाभ्यासिच्य साधयेत् सततमवघट्टयन् दर्व्या ।  
तस्मिन् शीतीभूते तूपयुक्तभूयिष्ठेऽम्भसि गतरसेष्वौषधेषु स्थालीम-  
वतार्य, सुपरिप्लुतं कपायं सुखोष्णं मदनपिप्पलीफल विडङ्गकल्कतै-  
लोपहितं, सर्जिकालवणितमभ्यासिच्य वस्तौ विधिवदास्थापयेदेनं,  
तथाऽर्कालर्ककुटजाढकीकुष्ठकैडर्यकपायेण वा, तथा शिग्रुपीलुकुस्तु-  
म्बुरुकट्टकासर्पकपायेण, तथाऽऽमलकशृङ्गवेरदारुहरिद्रापिचुमर्द-  
कपायेण मदनफलसंयोगसयोजितेन त्रिरात्रं सप्तरात्रं वाऽऽस्था-  
पयेत् ॥ १८ ॥

आस्थापन आदि क्रिया करने की विधि—अनन्तर कहे कि निम्न सब  
वस्तुओं को अथवा इन में से जितनी प्राप्त हो सकें उन वस्तुओं को लावे  
मूलक ( मूली ), सरसों, लशुन, नाटा करञ्ज, शिग्रु ( शोभांजन ), मधु  
शिग्रु ( मीठा सहजन ), कमठ ( कोई लाल फूल का कचनार मानते हैं ),  
खरपुष्पा ( अजवावन ), भूस्तृण, सुमुख, सुरस, कुठरेक, गण्डीर, काल-  
माल, पर्णास, क्षवक और फणिज्जक ( ये सब तुलसी के भेद हैं ) इन  
सब को अथवा इन में से जो मिले उनको लाकर, टुकड़े टुकड़े करके,  
पानी से भली प्रकार धोकर, अच्छी प्रकार धुली हांडी में रखकर, आधे  
पानी मिले गोमूत्र में भिगो कर ( डालकर ) निरन्तर कड़छी ( खौंचे )  
से चलाते हुए अग्नि पर पकाना चाहिये । जब औषधियों का सम्पूर्ण रस  
जल में आ जाये तब हांडी को उतार कर बस्त्र में से भली प्रकार छान ले ।  
इस कुछ गरम काथ में मैनफल, पिप्पली, वायविडंग इन का कल्क और  
तैल मिश्रित सर्जकार (सजी खार) पुत्रं नमक मिलाकर विधिपूर्वक इस रोगी  
को आस्थापन वस्ति देनी चाहिये । इसी प्रकार आक, अलर्क ( मदार ),

कुटज, आढकी, (अरहर), कुण्ठ (कूठ) और वैटर्य (कायफल) के कषाय से वस्ति देनी चाहिये, (तैल मिश्रत नमक एवं मैनफल आदि पूव की भाँति डाले)। इसी प्रकार शिग्रु, पीलु, कुस्तुम्बरु, कुटकी और सरसो के कषाय से, इसी प्रकार आंवला, अदरख (सोठ), दारु हल्दी, पिचुमर्द (नीम) के कषाय से, मैनफल आदि डालकर लवण युक्त तैल मिलाकर तीन बार (दोषों की अपेक्षा से) अथवा सात बार आस्थापन कर्म करना चाहिये।

प्रत्यागते च पश्चिमे वस्तौ प्रत्याश्वस्तं तदहरेवोभयतोभागहरणं संशोधनं पाययेद्युक्त्या, । तस्य विधिरुपदेद्यते । मदनफलपिप्पली-कषायस्यार्धाञ्जलिमात्रेण त्रिवृत्कल्कात्तमात्रमालोड्य पातुमस्मै प्रयच्छेत्, तदस्य दोषमुभयतो निर्हरति साधु, एवमेव कल्पोक्तानि वमनविरेचनानि संसृज्य पाययेदेनं बुद्ध्या सर्वविशेषानवेत्तमाणो भिषक् ॥ १९

श्लेप वस्ति के गुदा द्वारा बाहर निकल आने पर रोगी को आश्वासन देकर उसी दिन (जिस दिन वस्ति दी है) दोनों ऊर्ध्व एवं अधः मांगों से दोष निकालने के लिये वमन, विरेचन रूपी संशोधन, देश, काल, मात्रादि की अपेक्षा से देना चाहिये।

विधि—मदनफल, पिप्पली कषाय की आधी अंजलि अक्षमात्र, चार मासा) में त्रिवृत् (निशोथ) कल्क का एक अक्ष (चार मासा) मिलाकर रोगी को पीने के लिये देना चाहिये। इस प्रकार से रोगी के दोष दोनों मांगों से भली प्रकार निकलते हैं। इस प्रकार से कल्पस्थान में कहे जाने वाले वमन, विरेचन योगों को परस्पर मिला कर रोगी के सब विषों को देख कर बुद्धि से भली प्रकार विचार कर रोगी को पीने के लिये देवे।

अथैनं सम्यग्विरिक्तं विज्ञायापराह्णे शैखरिककषायेण सुखोष्णेन परिषेचयेत्, तेनैव च कषायेण बाह्याभ्यन्तरान् सर्वोदकार्यान् कार-

येच्छ्वत् । तद्भावे वा कटुतिक्तकषयाणामौषधानां काथैर्मूत्रक्षारैर्वा परिपेचयेत् । परिषिक्तं चैनं निर्वातमागारमनुप्रवेश्य पिप्पली-पिप्पलीमूलचव्यचित्रकशृङ्गवेरसिद्धेन यवाग्वादिना क्रमेणोपक्रामयेत् । विलेप्याः क्रमागतं चैनमनुवासयेद्विडङ्गतैलेनैकान्तर द्विस्त्रिर्वा ॥ २० ॥

इसके पश्चात् ( दोनों भागों से संशोधन होने पर ) भली प्रकार संशोधन हुआ जान कर शैखरिक कषाय ( अपामार्ग के थोड़े गरम कषाय से ) परिपेचन करे । इसी कषाय को पानी के स्थान पर पीने के लिये और बाह्य ( स्नान आदि में ) निरन्तर वरतना चाहिये । इस अपामार्ग के कषाय के अभाव में कटु, तिक्त, कषाय रस वाली औषधियों के काथों से, मूत्रमिश्रित यवक्षार (जवाखार) आदि से परिपेचन करना चाहिये । परिषिक्त इस रोगी को वायुरहित घर में प्रविष्ट करके पिप्पली, पिप्पली-मूल, चव्य, चित्रक और सोंठ इस पंचकोल द्वारा सिद्ध यवागू को उपकल्पनीय अध्याय में कहे पेयादि क्रम से देना चाहिये । विलेपी तक पहुंच जाने पर रोगी को विडंग तैल द्वारा एक दिन के अन्तर से दो बार तीन बार अनुवासन देना चाहिये । ( अनुवासन में पेया का निषेध है, क्योंकि पेया अभिप्यन्दी है ) ।

यदि पुनरस्यातिप्रवृद्धाञ्शीर्षादान्कृमीन्मन्येत शिरस्येवाभिसर्पतः कौश्वित्, ततः स्नेहस्वेदाभ्यामस्य शिर उपपाद्य विरेचयेदपामार्ग-तण्डुलादिना शिरोविरेचनेन ॥ २१ ॥

शिरो-विरेचन—यदि इस रोगी के शिर को खाने वाले कृमियों को बहुत बड़ा हुआ जाने और देखे कि कृमि शिर में फिरते हों, ऐसा वैद्य को अनुभद ४. तो रोगी के शिर को स्नेहन और स्वेदन देकर अपामार्ग के तण्डुलों ( चावलों ) आदि शिरो-विरेचन योग्य द्रव्यों से शिरो-विरेचन देवे ।

यस्त्वभ्यवहार्यविधि. प्रकृतिविधातायोक्तः कृमीणां, सोऽनुव्याख्यास्यते—मूपिकपर्णा समूलाप्रप्रतानामाहृत्य खण्डशश्छेदयित्वा,

उलूखले चोदयित्वा पाणिभ्यां पीडयित्वा रसं गृह्णीयात्, तेन रसेन लोहितशालितण्डुलपिष्टं समालोच्य पूपलिकाः कृत्वा विधूमेष्वङ्गारेषु विपाच्य . विडङ्गनैललवणोपहिताः कृमिकोष्ठाय भक्षयितुं प्रयच्छेत्; अनन्तरं चाम्लकाञ्जिकमुदश्विद्धा पिप्पल्यादिपञ्चवर्गसंसृष्टं सलवणमनुपाययेत् ॥ २२ ॥

अनेन कल्पेन मार्कवाकर्महचरनीपनिर्गुण्डीसुमुखसुरसकुठेरक-गण्डीरकालमालकपर्णासक्षवकफणिज्जकबकुलकुटज-सुवर्णाक्षीरीस्वर-सानामन्यतमस्मिन्कारयेत्पूपलिका तथा किणिहीकिराततित्तक-सुवहामलकहरीतकीविभीतकस्वरसेषु कारयेत्पूपलिकाः । स्वरसांश्रैतेषामेकैकशो द्वन्द्वशः सर्वशो वा मधुविलुलितान् प्रातरनत्राय पातुं प्रयच्छेत् ॥ २३ ॥

कृमियों के प्रकृति-विघात के लिये जो आहार-विधि कही है, उसकी व्याख्या करते हैं । जल और कोमल पत्तों के साथ मूषापणी को लाकर इसको टुकड़े २ करके, ऊखल में कूटकर, हाथों से दबाकर रस निकाल ले । इस रस में लाल धानों के चावलों की पिट्टी को मिलाकर इससे पूरी ( पूए ) बनावे । इन पूरीयों को धूम रहित अंगारों पर पकावे । फिर विडंग तैल और लवण के साथ मिलाकर कृमि कोष्ठ वाले रोगी को खाने के लिये दे । पूरी खाने के पीछे खट्टी कांजी ( धान्य-काञ्जिक ) में या उदश्वित् ( आधे विलोये मठे, या छाछ ) में पिप्पली आदि पंचकोल को लवण के साथ मिला कर पीने के लिये दे । इसी विधि से मार्कव ( भृंगराज ), अर्क ( आक ), सहचर ( झिण्टकी ), नीप ( कदम्ब ), निर्गुण्डी ( सिन्धुवार, सम्हाल ), सुमुख, सुरस, कुठेरक, गण्डीर ( सेहुण्ड ), कालमाल ( कुठेरक के भेद ), पर्णास, क्षवक, फणिज्जक ( तुलसी के भेद ), वकुल ( मौलसरी ) कुटज, स्वर्णक्षीरी ( सत्यानाशी ) इन में से किसी एक के रस के साथ पूरी तैयार करनी । इसी प्रकार किणिही ( अपामार्ग ), किरात-तित्तक ( चिरायता ), आमलकी, हरड, विभीतक ( बहेड़ा ), सुवहा ( शैफालिका )

इनके रसों में पूरियां बनानी चाहियें । इन (मण्डूकपर्णी आदि) में से एक एक को या दो दो को अथवा सब को मिलाकर स्वरस निकाल कर इस स्वरस में मधु मिला कर प्रातःकाल खाली पेट पीने के लिये दे ।

अथाश्रशकृदाहृत्य महति किलिञ्जके प्रस्तीर्यातपे शोषयित्वोदू-  
खले क्षोदयित्वा दृपदि पुनः सूक्ष्माणि चूर्णानि कारयित्वा विडङ्ग-  
कपायेण त्रिफलाकपायेण वाऽष्टकृत्वो दशकृत्वो वाऽऽतपे सुपरिभा-  
वितानि भावयित्वा दृपदि पुन सूक्ष्माणि चूर्णानि कारयित्वा नवे  
कलशे समावाप्यानुगुप्तं निधापयेत् । तेषां तु खलु चूर्णानां पाणितलं  
चूर्णं यावद्वा साधु मन्येत, तत् क्षौद्रेण संसृज्य कृमिकोष्ठाय लेढुं  
यच्छेत् ॥ २४ ॥

इसके पीछे घोड़े की शकृत् (लीद) को लाकर बड़ी चटाई पर फैलाकर धूप में सुखा ले । फिर ऊखल में कूटकर शिला पर पीसकर बारीक बनाले इस चूर्ण को विडंग के कपाय से या त्रिफला-कपाय से आठ वार अथवा दस वार धूप में भावना देकर शुष्क कर ले । फिर इसको पत्थर पर पीसकर नये घड़े में रखकर, वायु आदि न जा सके इस प्रकार से मुख को ढांप कर गुप्त स्थान पर रख दे । इसमें से कर्ष परिमाण ( चार मासा ) अथवा रोग के अनुसार जितनी मात्रा उचित समझे उतनी मात्रा को शहद में मिलाकर कृमि रोगी को खाने के लिये दे ।

तथा भल्लातकास्थीन्याहृत्य कलशप्रमाणेन संपोथ्य स्नेहभा-  
विते दृढे कलशे सूक्ष्मानेकच्छिद्रव्रत्रे शगीरमुपवेष्ट्य मृदावलिप्ते  
समावाप्योलुपेन पिधाय भूमावाकण्ठं निखातस्य स्नेहभावितस्यैवान्य-  
स्य दृढस्य कुम्भस्यापरि समारोप्य समन्ताद्गोमयैरुपचित्य दाहयेत्;  
स यदा जनीयान् साधु दग्धानि गोमयानि गलितस्नेहानि भल्लातका-  
स्थीनीति, ततस्तं कुम्भमुद्धाटयेत् । अथ तस्माद्द्वितीयात्कुम्भात्तं स्नेह-  
मात्राय विडङ्गतण्डुलचूर्णैः स्नेहार्धमात्रैः प्रतिसंसृज्यातपे सर्वमहः  
स्थापयित्वा ततोऽस्मै मात्रां प्रयच्छेत्पानाय, तेन साधु विरिच्यते,  
विरिक्तस्य चानुपूर्वी यथोक्ता ॥ २५ ॥

दूसरा प्रयोग—घड़े में जितने भिलावे के फल आ सकें, उतने फलों को कूट कर तैलादि स्नेह से चिकने, मजबूत एक घड़े में भरे । इस घड़े के निचले भाग में अनेक सूक्ष्म छिद्र बना दे तथा घड़े पर मिट्टी का लेप कर दे । इस घड़े में भिलावे भर कर ढक्कन से मुंह ढांप दे । फिर स्नेह से भावित एक दूसरे घड़े को ले कर जमीन में गले तक गाड़ दे । इस गड़े हुए घड़े के ऊपर भिलावे वाला घड़ा रख कर चारों ओर उपले रख कर जलावे । जब उपले भली प्रकार जल जावें, तब ऊपर के घड़े को पृथक् करे । अब इस दूसरे घड़े में से तेल (स्नेह) ले कर स्नेह से आधी मात्रा में विडंग-तण्डुल चूर्ण को स्नेह में मिला कर धूप में चार प्रहर तक रखे । पीछे इस स्नेह को कृमि-कोष्ठ रोगी को पीने के लिये दे । इससे भली प्रकार विरेचन होता है । विरेचन के पीछे पूर्व की भांति पेया आदि देने का क्रम है ।

एवमेव भद्रदारुसरलकाष्ठस्नेहानुपकल्प्य पातुं प्रयच्छेत् । अनुवासेयैश्चैनमनुवासनकाले ॥ २६ ॥

इसी भलातक स्नेह-विधि से देवदार, सरल ( राल-सर्ज ), वृक्षों से स्नेह बना कर रोगी को पीने के लिये देना चाहिये और अनुवासन के योग्य समय में कहे हुए स्नेहों से अनुवासन देना चाहिये ।

अथ 'आहर' इति त्रूयात्-शारदान्नवांस्तिलान्संपदुपेतान् ताना-हृत्य सुनिष्पूय सुशुद्धान् शोधयित्वा विडङ्गकषाये सुखोष्णे निर्वाप-येदादोषगमनात्, गतदोषानभिसमीचय सुप्रलूनान्प्रलुच्य पुनरेव सुनिष्पूतान् सुनिष्पूय सुशुद्धान् शोधयित्वा विडङ्गकषायेण त्रिःसप्तकृत्वः सुपरिभावितान्भावयित्वाऽऽतपे शोषयित्वादूर्खले संशुद्ध दृषदि पुनः श्लेष्माणपिष्टान्कारयित्वा द्रोण्यामभ्यवधाय विडङ्गकषायेण मुहुर्मुहुर-वसिञ्चन् पाणिमर्दमेव मर्दयेत् । तस्मिन्खलु प्रपीड्यमाने यत्तैल-मुदियात्तपाणिभ्यां पर्यादाय शुचौ दृढे कलशे समासिच्यानुगुप्तं निधापयेत् ।

अन्ययोग—वैद्य रोगी से कहे कि 'आगे कहे पदार्थ लाओ' । अच्छी

प्रकार पके, रस-वीर्य युक्त, शरद् ऋतु में होने वाले नये तिलों को ला कर, इन को भली प्रकार मिट्टी आदि से साफ़ करके सुखा ले । फिर सुखोष्ण, कुछ गरम विडंग-कपाय में भिगो दे, जब तक कि छिलके में लगा मैल दूर न हो जाये तब तक भिगो कर रखे । दोप निकलने पर इन तिलों को तुष रहित करके, सुखा लेवे । फिर छाज से साफ़ करके धोले । फिर सूखने पर विडंग कपाय में इक्कीस वार भावना ढे कर धूप में सुखा लेवे । इन तिलों को ऊखल में कूट कर पत्थर की शिला पर रख वारीक पीस लेवे । अब इनको द्रोणी ( थाली, कड़ाही ) में रखकर विडंग कपाय को थोड़ा थोड़ा डालते हुए हाथों से खूब मले, इस प्रकार हाथों से मलने पर जो तैल निकलता है, हाथ पर लगे हुए तप्त तैल को ले कर पवित्र, दृढ़ घड़े में रखकर गुप्त स्थान में सुरक्षित रख देवे । इस को खाने के लिये कहे ।

अथ 'आहार' इति त्रयात्-तिल्वकोद्दालकयोर्द्वौ विल्वमात्रौ पिण्डौ श्लक्ष्णपिष्टौ विडङ्गकपायेण, ततोऽर्धमात्रौ श्यामात्रिवृतयोर-तोर्धमात्रौ दन्तीद्रवन्त्योरतोऽर्धमात्रौ चव्यचित्रकयोरित्येतं सम्भारं विडङ्गकपायस्याढकमात्रेण प्रतिसंसृज्य ततस्तैलप्रस्थमावाप्य सर्वमा-लाड्य महति पर्योगे समासिच्याग्नावधिश्रित्य महत्यासने सुखोपविष्टः सर्वतः स्नेहमवलोकयन्नजस्रं मृद्वग्निना साधयेद्दूर्या सततमवघट्टयन् । स यदा जानीयाद्विरमति शब्दः, प्रशाम्यति च फेनः, प्रसादमापद्यते स्नेहो यथास्वं गन्धवर्णरसोत्पत्तिः, संवर्तते च भेषजमंगुलिभ्यां मृद्यमानमतिमृद्वनतिदारुणमनंगुलिग्राहि चेति, स कालस्तस्यावतार-णाय । ततस्तमत्रनीर्गुशीतीभूतमहतेन वाससा परिपूय शुचौ दृढे कलशे समासिच्य विधानेन पिधाय शुक्लेन वद्धपट्टेनावच्छाद्य सूत्रेण सुवद्धं गुनिगुप्तं निधापयेत् । ततोऽस्मै मात्रां प्रयच्छेत्पानाय, तेन चाधु विरिच्यते, सम्यगपहृतदोषस्य चास्यानुपूर्वी यथोक्ता । ततश्चै-नमनुवासयेदनुवासनकाले ।

फिर वैद्य भागे कहे पदार्थ लाने को कहे—तिल्वक और उद्दालक

( कोविदार ) ये दो बिल्व भर (पल भर, ८ तोला) लेकर विडंग कषाय के साथ खूब बारीक पीस ले । इनसे आधी मात्रा ( ४ तोला ) श्यामा ( काली निशोथ ) और त्रिवृत् ( सफेद निशोथ ), इन से आधी ( २ तोला ) दन्ती और द्रवन्ती, इनसे आधे ( १ तोला ) चव्य और चित्रक इन सबको अर्धाढक ( दो प्रस्थ ) विडंग कषाय, एवं एक प्रस्थ पूर्वोक्त तिलों से तैयार किये तैल के साथ मिला कर एक बड़े कड़ाहे में रख कर आग पर रख कर आराम से बैठ कर, चारों ओर स्नेह को देखते हुए कि गिरे नहीं, निरन्तर मृदु अग्नि से पकावे । और पकाते समय कड़छी द्वारा बराबर हिलाता रहे । जिस समय शब्द होना बन्द हो जाय, झाग उठना भी रुक जाये, तथा स्नेह (तैल) भी स्वच्छ हो जावे, एवं तैल में उचित गन्ध, वर्ण और रस की उत्पत्ति हो जाय तब समझे कि तैल बन गया । औषध ( कल्क ) अंगुली से मलने पर न तो बहुत कोमल और न बहुत कठोर हो तथा अंगुली पर चिपटे नहीं, (कल्क की बत्ती बन जावे) । तब समझ ले कि तैल सिद्ध हो गया यह समय है, तैल उतारने का, अब इसको उतार कर ठण्डा होने पर बड़े भारी वस्त्र से छान कर एक शुद्ध, मजबूत पात्र में डाल कर, ढक्कन से ढांप कर, सफ़ेद वस्त्र से बांध कर तांगे से कस कर, गुप्त ( सुरक्षित ) स्थान पर रख देवे । इस तैल की मात्रा को रोग के अनुसार पीने के लिये ( कृमि-रोगी को ) देवे । इससे भली प्रकार विरेचन होता है । दोषों के भली प्रकार निकल जाने पर पहिले कही विधि करनी । अनुवासन योग्य समय में उस तैल से अनुवासन देना चाहिये ।

एतेनैव च पाकविधिना सर्षपातसीकरञ्जकोषातकीस्त्रेहानुपकरूप्य पाययेत्सर्वविशेषानवेद्यमाणः । तेनागदो भवतीति ॥ २७ ॥

इसी पूर्वोक्त विधि से सरसों, अलसी, करञ्ज, कोषातकी ( तुरई ) का तैल बना कर सब परीक्षणिय वस्तुओं को देख कर कृमि रोगी को तैल पिलावे । इस से रोगी नीरोग हो जाता है ।

इत्येते द्वयानां श्लेष्मपुरीषसंभवानां कृमीणां समुत्थानसंस्थान-



स्थानवर्णानामप्रभावचिकित्सितविशेषा व्याख्याताः सामान्यतः ॥२८॥

इस प्रकार से कफजन्य और पुरीपजन्य कृमियों के निदान, संस्थान, स्थान, वर्ण, प्रभाव और चिकित्सा सामान्य रूप में कह दी है ।

विशेषतस्त्वल्पमात्रमास्थापनानुवासनानुलोमहरणभूयिष्ठं तेष्वौषधेषु पुरीपजानां कृमीणां चिकित्सितं कार्यमिति । मात्राधिकं पुनः शिरोविरेचनवमनोपशमनभूयिष्ठं तेष्वेवौषधेषु श्लेष्मजानां कृमीणां चिकित्सितं कार्यमिति । एष कृमिघ्नो भेषजविधिरनुव्याख्यातो भवति ॥ २९ ॥

विशेष रूप से पुरीपजन्य कृमियों के लिये कही हुई वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, शिरोविरेचन औषधियों में अल्पमात्रा में आस्थापन, अनुवासन और अनुलोम-हरण, विरेचन वरतना चाहिये । मलजन्य कृमियों में वस्ति, विरेचन अधिक वरतना चाहिये । कफजन्य कृमियों में शिरोविरेचन, वमन और शमन अधिक देना चाहिये ।

तमनुतिष्ठता यथास्वहेतुवर्जने प्रयतितव्यम् ॥ ३० ॥

यथोद्देशमेवमिदं कृमिकोष्ठचिकित्सितं यथावदनुव्याख्यातं भवतीति ॥ ३१ ॥

इस विधि को वरतते हुए वैद्य को चाहिये कि रोगी को कृमि निदान से भी बचाये । इस प्रकार में पूर्व कथितानुसार कृमि-कोष्ठ चिकित्सा ( शोधन-शमन रूप ) को यथावत् पूर्ण रूप से कह दिया है ।

भवन्ति चात्र । अपकर्षणमेवादौ कृमीणां भेषजं स्मृतम् ।

ततो विघातः प्रकृतेर्निदानस्य च वर्जनम् ॥ ३२ ॥

अयमेव विकाराणां सर्वेषामपि निग्रहे ।

विधिर्दृष्टस्त्रिधा योऽयं कृमीनुद्दिश्य कीर्तितः ॥ ३३ ॥

संशोधनं संशमनं निदानस्य च वर्जनम् ।

एतावद्विपजा कार्यं रोगे रोगे यथाविधि ॥ ३४ ॥

कृमियों को प्रथम खाँच कर निकालना ही औषध है । फिर प्रकृति

का नाश, निदान का छोड़ना है यह विधि सब प्रकार के कृमियों के लिये है। इतना ही नहीं, अपितु सब रोगों के लिये है। इसलिये वैद्य को चाहिये कि प्रत्येक रोग में सब विकारों में संशोधन, संशमन और निदान का त्याग यह तीन प्रकार की चिकित्सा करे।

तत्र श्लोकौ । व्यधितौ पुरुषौ ज्ञाज्ञौ भिषजौ सप्रयोजनौ ।

विंशतिः कृमयस्तेषां हेत्वादिः सप्तको गणः ॥ ३५ ॥

उक्तो व्याधितरूपीये विमाने परमर्षिणा ।

शिष्यसंबोधनार्थं च व्याधिप्रशमनाय च ॥ ३६ ॥

व्याधि से पीड़ित दो प्रकार के पुरुष विज्ञ ( जानने वाले ) और अज्ञ ( मूढ़ ), इनका प्रयोजन ( जानने वाले से सिद्धि और मूढ़ से रोगवृद्धि या मृत्यु ), बीस प्रकार के कृमि, इन के हेतु, संस्थान-वर्ण, प्रभाव, नाम और चिकित्सा ये सात बातें, भगवान् आत्रेय ने शिष्य को समझाने के लिये तथा रोग की शान्ति के लिये इस विमान स्थान में कह दी है।

इत्यशिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते तृतीये विमानस्थाने

व्याधितरूपीयविमान नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ १ ॥

## अष्टमोऽध्यायः

अथातो रोगभिषगिज्जतीयं विमानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥

इस के आगे 'रोगभिषगिज्जतीय' ( रोगों की वैद्य द्वारा चिकित्सा ) नामक अध्याय की व्याख्या करते हैं। ऐसा भगवान् आत्रेय ने उपदेश किया है।

बुद्धिमानात्मनः कार्यगुरुलाघवे कर्मफलमनुबन्धं देशकालौ च विदित्वा युक्तिदर्शनाद् भिषग्बुभूषुः शास्त्रमेवादितः परीक्षेत । विवि-

धानि हि शास्त्राणि भिषजां प्रचरन्ति लोके । तत्र यन्मन्येत  
 सुमहद्यशस्विधीरपुरुषासेवितमर्थबहुलमाप्तजनपूजितं त्रिविधशि-  
 ष्यबुद्धिहितमपगतपुनरुक्तदोषमार्धं सुप्रणीतसूत्रभाष्यसंग्रहक्रमं  
 स्वाधारमनवपतितशब्दमकष्टशब्दं पुष्कलाभिधानं क्रमागतार्थमर्थ-  
 तत्त्वविनिश्चयप्रधानं संगतार्थमसंकुलप्रकरणमाशुप्रबोधकं लक्षणव-  
 चोदाहरणवृत्तं, तदभिप्रपद्येत शास्त्रम् । शास्त्रं ह्येवंविधममल इवा-  
 दित्यस्तमो विधूय प्रकाशयति सर्वम् ॥ ३ ॥

शास्त्र-परीक्षा—बुद्धिमान् पुरुष अपने कार्य के गौरव ( बहुत प्रयास से साध्य ) एवं लाघव ( अल्प प्रयास से साध्य ), कर्मों के फल, अनुबन्ध ( कर्मजन्य शुभ-अशुभ फल ), देश एवं काल को जान कर तथा युक्ति को देख कर यदि वैद्य बनने की इच्छा करे तो सब से प्रथम शास्त्र की ही परीक्षा करे, क्योंकि वैद्यों के नाना प्रकार के शास्त्र लोक में प्रचलित हैं । इन में से जो शास्त्र निम्नलिखित गुणों वाला हो, उसे पढ़ने के लिये स्वीकार करे ।

शास्त्र के गुण—शास्त्र खूब बड़ा, असंक्षिप्त, यशस्वी, धीर पुरुषों से उप-  
 सेवित, माननीय, थोड़े से शब्दों में बहुत अर्थ को बतलाने वाला, आस  
 जनों से अनुमत ( निर्दोष ), उत्तम, मध्यम और अधम इन तीन प्रकार के  
 शिष्यों की तीनों प्रकार की बुद्धि के लिये योग्य, सब जिस को समझ सकें,  
 पुनरुक्ति दोष से रहित, ऋषियों से बनाया, सुप्रणीत ( अच्छी प्रकार प्रथित  
 किया हो ), जिस में सूत्र ( संक्षेप में अर्थों का ग्रहण ) भाष्य ( विस्तार से  
 वर्णन ), और प्रतिपाद्य विषयों को क्रम से कहा हो, सुन्दर अधि-  
 करणों वाला, ग्राम्य शब्दों से रहित, कठिन दुर्वोध या बोलने में  
 कठिन शब्दों से रहित, भली प्रकार से बहुत तत्त्व बतलाने वाला, ( क्रम से  
 उद्देश्य क्रम से अर्थों को बतलाने वाला ), वस्तुतत्त्व को सन्देह से रहित,  
 निश्चित तत्त्व को बतलाने वाला, संगतियुक्त अर्थों को बतलाने वाला, अव्य-  
 चस्थित, बेमेल मिले हुए प्रकरणों से रहित, सुनते ही स्पष्ट अर्थज्ञान

कराने वाला, लक्षण और उदाहरण वाला हो, ऐसा शास्त्र अध्ययन के लिये चुनना चाहिये । क्योंकि जिस प्रकार बादल आदि से रहित, निर्मल सूर्य अन्धकार को दूर करके सब पदार्थों को प्रकाशित कर देता है उसी प्रकार शास्त्र अज्ञान को दूर करके सब अर्थ-तत्त्व को प्रकाशित कर देता है ।

ततोऽनन्तरमाचार्यं परीक्षेत । तद्यथा—पर्यवदातश्रुतं परिदृष्ट-  
कर्माणं दत्तं दक्षिणं शुचि जितहस्तमुपकरणवन्तं सर्वेन्द्रियोपपन्नं  
प्रकृतिज्ञं प्रतिपत्तिजमनुपस्कृतविद्यमनहृद्भ्रुकृतमनसूयकमकोपनं क्लेश-  
क्षमं शिष्यवत्सलमध्यापकं ज्ञापनसमर्थं चेति । एवंगुणो ह्याचार्यः  
सुक्षेत्रमार्तवो मेघ इव सस्यगुणैः सुशिष्यमाशु वैद्यगुणैः  
संपादयति ॥ ४ ॥

आचार्य का लक्षण—शास्त्र की परीक्षा करने के अनन्तर आचार्य की परीक्षा करे । यथा—वह निर्मल शास्त्रज्ञान से सम्पन्न हो, जिसने कर्म का उचित रीति से देखा हो, केवल शास्त्र हीन पढ़ा हो, प्रत्युत वह कर्म में कुशल, शुचि (पवित्र), शस्त्र आदि क्रिया में वशी, सिद्धहस्त, नाना उपयोगी उपकरणों वाला सब इन्द्रियों से युक्त, रोगी की प्रकृति को पहिचानने वाला, उत्तम सूक्ष्म वाला, रोगों की चिकित्सा को समझने वाला, अन्य शास्त्रों के ज्ञान से प्रकट स्वच्छ विद्या वाला, अभिमान से रहित, गुणों में दोष न देखने वाला, क्रोध-रहित, क्लेश सहन करने वाला, शिष्य से प्रेम-भाव रखने वाला, शास्त्र के तत्त्व को बतलाने में समर्थ आचार्य होना चाहिये । जिस प्रकार ठीक ऋतु अनुसार बरसा हुआ मेघ उत्तम क्षेत्र को धान्यों से सम्पन्न कर देता है उसी प्रकार उक्त गुणों वाला आचार्य शिष्य को निर्मल ज्ञान आदि वैद्य के गुणों से शीघ्र सम्पन्न कर देता है ।

तमुपसृत्यारिराधयिषुरुपचरेदग्निवच्च देववच्च राजवच्च पितृवच्च  
भर्तृवच्चाप्रमत्तः । ततस्तत्प्रसादात्कृत्स्नं शास्त्रमधिगम्य, शास्त्रस्य  
दृढतायामभिधानसौष्ठवेऽर्थस्य विज्ञाने वचनशक्तौ च भूयांभूयः  
प्रयतेत सम्यक् ॥ ५ ॥

उपरोक्त गुणों वाले आचार्य को सेवा करने की इच्छा से शिष्य प्राप्त कर अग्नि, देव, राजा, माता, पिता और स्वामी के समान प्रमादरहित होकर उस की सेवा करे । तब उस की प्रसन्नता से सम्पूर्ण शास्त्र को जान कर शास्त्र को दृढ़ करने में, शास्त्र को उत्तम रीति से प्रवचन करने में, शास्त्र के अर्थ जानने में और वाक्-चातुर्य ( बोलने की पटुता प्राप्त करने ) में लगातार भली प्रकार से प्रयत्न करे ।

तत्रोपाया व्याख्यास्यन्ते—अध्ययनमध्यापनं तद्विद्यसंभाषा चेत्युपायाः ॥ ६ ॥

शास्त्र को दृढ़ करने आदि के उपायों का वर्णन करते हैं । वे उपाय ये हैं—( १ ) अध्ययन ( पढ़ना ), ( २ ) अध्यापन ( पढ़ाना ) और ( ३ ) उस विद्या के विद्वानों से वार्त्तालाप करना ।

तत्रायमध्ययनविधिः—कल्पः कृतक्षणः प्रातरुत्थायोपव्यूषं वा कृत्वाऽऽवश्यकमुपस्पृश्यादकं देवगोब्राह्मणगुरुवृद्धसिद्धाचार्येभ्यो नमस्कृत्य समे शुचौ देशे सुखोपविष्टो मनःपुरःसरीभिर्वाग्भिः सूत्रमनुपरिक्रामन्पुनःपुनरावर्तयेद् बुद्ध्या सम्यगनुप्रविश्याथतत्त्वं स्वदोषपरिहारपरदोषप्रमाणार्थम् । एवं मध्यन्दिनेऽपराह्णे रात्रौ च शश्वदपरिहापयन्नध्ययनमभ्यस्येदित्यध्ययनविधिः ॥ ७ ॥

इस शास्त्र की अध्ययन विधि यह है—नीरोग, समय में, नियम-पूर्वक प्रातःकाल उषा काल के कुछ पीछे अथवा पहिले उठ कर शौचादि आवश्यक कर्मों को करके, पानी का आचमन स्नान आदि जल-कार्य करे, पीछे देव, भगेश्वर ऋषि, गौ, ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध, सिद्ध एवं आचार्य इनको नमस्कार करके समान ( न ऊंचे और न नीचे ) एवं पवित्र स्थान पर सुखपूर्वक बैठकर मनोयोग पूर्वक वाणी से बार-बार सूत्रों का उच्चारण करता हुआ खूब समझ कर, अर्थ तत्व में बुद्धि द्वारा प्रवेश करके, भली प्रकार समझ कर, अपने अध्ययन के दोष को त्यागने और दूसरे के अध्ययन के दोषों के ज्ञान लिये एकान्त

में बैठ कर अध्ययन करे। इस प्रकार से मध्याह्न, अपराह्न और रात्रि में निरन्तर अध्ययन किसी दिन को भी बिना त्याग किये, प्रतिषिद्ध दिनों को छोड़कर, अभ्यास करे।

अथाध्यापनविधि — अध्यापने कृतबुद्धिराचार्यः शिष्यमा-  
दितः परीक्षेत । तद्यथा—प्रशान्तमार्यप्रकृतिमक्षुद्रकर्माणमृजुचक्षु-  
मुखनासावंशं तनुरक्तविशदजिह्वमविकृतदन्तौष्ठमभित्रीणं धृतिमन्त-  
मनहङ्कृतिं मेधाविनं वितर्कस्मृतिसंपन्नमुदारसत्त्वं तद्विद्यकुलजमथवा  
तद्विद्यवृत्त तत्त्वाभिनिवेशिनमव्यङ्गमव्यापत्रेन्द्रियं निभृतमनुद्धतवेश-  
मव्यसनिनं शीलशौचाचारानुरागदाक्ष्यप्रादक्षिण्योपपन्नमध्ययना-  
भिकाममर्थविज्ञाने कर्मदर्शने चानन्यकायमलुब्धमनलसं सर्वभूत-  
हितैषिणमाचार्यं सर्वानुशिष्टिप्रतिकरमनुरक्तमेवंगुणसमुदितमध्या-  
प्यमेवमाहुः ।

अब अध्यापन विधि कहते हैं—पढाने की इच्छा करने वाले आचार्य को सबसे प्रथम शिष्य की परीक्षा करनी चाहिये। यथा—शिष्य सौम्य आकृति, शान्त, नीच स्वभाव से रहित, कमीने स्वभाव का न हो, नीच कर्म न करने वाला, सरल मुख, आंख और नासिका वाला, पतली लाल वर्ण, स्पष्ट जिह्वा वाला, दांत और ओष्ठों के विकार से रहित, नाक से अनुनासिक न बोलने वाला, संतोषी या धैर्यवान्, अहंकाररहित, मेधावी, वितर्क ( ऊहापोह ) स्मृति ( याददास्त ) उदारचित्त वाला, वैद्यकुल में या वैद्य वृत्ति करने वाले माता पिता से उत्पन्न, वैद्य के समान आचार वाला, तत्त्व के ग्रहण में दत्तचित्त, अविकल अंगों वाला, सम्पूर्ण इन्द्रियों से युक्त, निभृत ( विनीत ), अनुद्धत अर्थ तत्त्व को विचारने वाला, अक्रोधी, व्यसनरहित, शील ( सच्चरित्रता ) शौच ( शुद्धि ) आचार, अनुराग ( पढ़ने में स्नेह ) रखने वाला, दक्षता, प्रादक्षिण्य सर्वत्र अनुकूलता इन गुणों से युक्त, कर्म दर्शन और अर्थ के जानने में अन्य कर्म रहित, दत्तचित्त, लोभरहित, अप्रमादी, सब प्राणियों में मंगल कामना करने वाला,

आचार्य के सब उपदेशों को यथावत् करने वाला और भक्तिमान् हो, इन गुणों से युक्त शिष्य को पढाना चाहिये । ( इन गुणों से रहित शिष्य को पढाने में आचार्य को भी यश नहीं मिलता ।

एवंविधमध्ययनार्थमुपस्थितमारिराधयिषुमाचार्यश्चानुभाषेत—  
अथोदगयने शुक्लपक्षे प्रशस्तेऽहनि तिष्यहस्तश्रवणाश्वयुजामन्यतमेन  
नक्षत्रेण योगमुपगते भगवति शशिनि कल्याणे कल्याणे च करणे  
मैत्रे मुहूर्ते मुण्ड स्नात. कृतोपवासो कषायवस्त्रसंवीतः समिधोऽग्नि-  
माज्यमुपलेपनमुदकुम्भांश्च गन्धहस्तो माल्यदामप्रदीपहिरण्यहेमरज-  
तमणिमुक्ताविद्रुमक्षौमपरिधिकुशलाजसर्षपाक्षतांश्च शुक्लांश्च सुमनसो  
प्रथिताग्रथितांश्च मेध्यांश्च भक्ष्यान् गन्धांश्च घृष्टानादायोपतिष्ठस्वेति ।

अथ सोऽपि तथा कुर्यात् ॥ ८ ॥

इन उपरोक्त गुणों से युक्त अध्ययनार्थ शिष्य के सेवा में उपस्थित होने पर आचार्य उसे कहे कि तू उत्तरायण ( माघ आदि ) के शुक्ल पक्ष में, प्रशस्त दिव्य उत्तम तिथि, वार से युक्त दिन में, तिष्य, हस्त, श्रवण, अश्विनी इनमें से किसी एक नक्षत्र के साथ कल्याणकारक भगवान् चन्द्रमा का योग होने पर, कल्याणकारी करण और सुखप्रद मुहूर्त के अनुकूल होने पर, मुण्डन करा, उपवास और स्नान करके, कषाय वस्त्र धारण करके, हाथों में सुगन्ध ( धूप ), समिधा, अग्नि, घी, उपलेपन ( चन्दन आदि ), जल के बड़े, माला, हार, स्वर्ण, रजत, मोती, प्रवाल ( मृंगा ), क्षौम ( रेशम ), हवनकुण्ड के चारों पार्श्वों में रखने योग्य हस्तप्रमाण के पलाशादि समिधा, कुशा, लाजा, सरसों, अक्षत, श्वेत, गुंथे और प्रन्थन रहित ( छुटे, अनविधे ) पुष्प-माला, पवित्र खाद्य पदार्थ ( तिल से बने लड्डू आदि ), घिसे टुई चन्दन आदि सुगन्धों को लेकर उपस्थित हो ।”

वह शिष्य उसी प्रकार से करे ।

तमुपस्थितमाज्ञाय समे शुचौ देशे प्राक्प्रवरो उदक्प्रवरो वा चतु-

ष्किष्कुमात्रं चतुरस्रं स्थण्डिलं गोमयोदकेनोपलिप्तं कुशास्तीर्णं सुपरिहितं परिधिभिश्चतुर्दिशं यथोक्तचन्दनोदककुम्भक्षौमहेमहिरण्यरजतमणिमुक्ताविद्रुमालङ्कृतं मेध्यभक्ष्यगन्धशुक्लपुष्पलाजसर्षपाक्षतोपशोभितं कृत्वा, तत्र पालाशीभिरैङ्गुदीभिरौडुम्बरीभिर्माधुकीभिर्वासमिद्धिरग्निमुपसमाधाय प्राङ्मुखः शुचिरध्ययनविधिमनुविधाय मधुसर्पिर्भ्यां त्रिस्त्रिजुहुयादग्निमाशीःसंप्रयुक्तैर्मन्त्रैर्ब्राह्मणमग्निं धन्वन्तरि प्रजापतिमश्विनाविन्द्रमृषीश्च सूत्रकारानभिमन्त्रयमाणः पूर्वं स्वाहेति ॥ ९ ॥

दीक्षा-जिस समय अध्ययनार्थी शिष्य समिधा आदि वस्तुओं को लेकर आचार्य के पास उपस्थित हो उस समय एक समान एवं पवित्र स्थान में पूर्व या उत्तर दिशा में चार हाथ प्रमाण चौकोर जगह को गोबर और पानी से लेप कर इस पर कुशा बिछा दे। इसके चारों ओर से भली प्रकार वेष्टित कर दे। इसके चारों ओर चन्दन, पानी के घड़े, रेशम, स्वर्ण, चांदी, मणि, मुक्ता मूंगा आदि पवित्र भक्ष्य, गन्ध, श्वेतपुष्प, लाजा, सरसो, अक्षत आदि वस्तुएं सजा देवे। इसमें पलाश (ढाक), इंगुदी (हिगोट), गूलर, महुए आदि किसी एक वृक्ष की समिधाओ से अग्नि प्रज्वलित करके पवित्र एवं पूर्वमुख बैठ कर अध्ययन विधि (वेदारम्भ विधि) के अनुकूल आशीर्वाद में प्रयुक्त मन्त्रों द्वारा ब्राह्मण, अग्नि, धन्वन्तरि, प्रजापति, दो अश्वी, इन्द्र, और सूत्रकार ऋषियों ( भरद्वाज आदि ) को पहिले मन्त्रों से आह्वान करके स्वाहा शब्द के साथ मधु ( शहद ) और घी प्रत्येक से तीन तीन बार आहुति दे।

शिष्यश्चैनमन्वाल्भेत, हुत्वा च प्रदक्षिणमग्निमनुपरिक्रामेत्। ततोऽनुपरिक्रम्य ब्राह्मणान् स्वस्ति वाचयेत्, भिषजश्चाभिपूजयेत् ॥१०॥

आचार्य के होम करते हुए शिष्य गुरु को स्पर्श किये रहे और पीछे शिष्य भी होम करे। हवन करके अग्नि की तीन परिक्रमा करे। पीछे ब्राह्मणों की परिक्रमा करके स्वस्तिवाचन करे और वैद्यों की पूजा करे।



अथैनमभिसकाशे ब्राह्मणसकाशे भिषक्सकाशे चानुशिष्यात्—  
 ब्रह्मचारिणा श्मश्रुधारिणा सत्यवादिनाऽमासादेन मेध्यसेविना निर्म-  
 त्मरेणाशस्त्रधारिणा च भवितव्यं, न च ते मद्बचनात्किञ्चिदकार्यं  
 स्यादन्यत्र राजद्विप्रात्प्राणहराद्विपुलादधर्म्यादनर्थसंप्रयुक्ताद्वाऽप्यर्थात्  
 मदर्पणेन मत्प्रधानेन मदप्रीनेन मत्प्रियहितानुवर्तिना च शश्वद्-  
 भवितव्यं, पुत्रवदासवदर्थिवच्चोपचरताऽनुवस्तव्योऽहमनुत्सुकेनावहिते-  
 नानन्यमनसा विनीतेनावेक्ष्यकारिणाऽनसूयकेन, न चानभ्यनुज्ञातेन  
 प्रविचरितव्यं, अनुज्ञातेन प्रविचरता पूर्वं गुर्वर्थोपान्वाहरणे यथा-  
 शक्ति प्रयतितव्यं, कर्मसिद्धिमर्थसिद्धि यशोलाभं प्रेत्य च स्वर्गमि-  
 च्छता त्वया गोब्राह्मणमादौ कृत्वा सर्वप्राणभृतां शर्माशासितव्यम-  
 हरहरुत्तिष्ठता चोपविशता च, सर्वात्मना चातुराणामारोग्ये प्रयति-  
 तव्य, जीवितहेतोरपि चातुरेभ्यो नाभिद्रोग्धव्यं, मनसाऽपि च पर-  
 स्त्रियो नाभिगमनीयास्तथा सर्वमेव परस्त्वं, निभृतवेशपरिच्छदेन  
 भवितव्यमशौण्डेनापापेनापापसहायेन च श्लक्ष्णशुक्लधर्म्यधन्यसत्य-  
 शर्म्यहितमितवचसा देशकालविचारिणा स्मृतिमता ज्ञानोत्थानोपक-  
 रणसप्तसु नित्यं यत्नवता, नच कदाचिद्राजद्विप्रानां राजद्वेषिणां वा  
 महाजनद्विप्रानां महाजनद्वेषिणां वाऽप्यौषधमनुविधातव्यं तथा सर्वै-  
 पामत्यर्थविकृतदुष्टदुःखशीलाचारोपचाराणामनपवादप्रतीकाराणां मु-  
 मूर्षूणा च तथैवासंन्निहितेश्वराणां स्त्रीणामनध्यक्षाणां वा, नच कदा-  
 चित्स्त्रीदत्तमामिपमादातव्यमननुज्ञात भर्त्राऽथवाऽध्यक्षेण, आतुर-  
 कुलं चानुप्रविशता त्वया विदितेनानुमतप्रवेशिना सार्धं पुरुषेण  
 सुसंवीतेनावकिशरसा स्मृतिमता स्तिमितेनावेक्ष्यावेद्य मनसा सर्व-  
 साचरता बुद्ध्या सन्यगनुप्रवेष्टव्यं, अनुप्रविश्य च वाङ्मनोबुद्धीन्द्रि-  
 याणि न क्वचित्प्रणिधातव्याऽन्यत्रातुरादातुरोपकारार्थाद्वाऽऽतुरगतेष्व-  
 न्येषु वा भावेषु, न चातुरकुलप्रवृत्तयो वहिर्निश्चारयितव्या, हसितं  
 चायुपः प्रमाणमातुरस्य न वर्णयितव्यं जानताऽपि तत्र यत्रोच्यमा-

नमातुरस्यान्यस्य वाऽऽयुपघाताय सपद्यते, विज्ञानवताऽपि च नात्यर्थ-  
मात्मानो ज्ञाने विकल्थितव्यं, आप्तादपि हि विकल्थमानादत्यर्थमुद्धि-  
जन्त्येनेके ॥ ११ ॥

आचार्य का शिष्य को उपदेश—इसके अनन्तर आचार्य उस शिष्य को अग्नि, ब्राह्मण और वैद्यो के समक्ष ( इनके साक्षि रूप में ) निम्न उपदेश देवे । तुझको ब्रह्मचारी, इमश्रुधारी, सत्यवादी, पवित्रभोजी, मात्सर्यरहित, निरामिषभोजी, निःशस्त्र होकर रहना चाहिये । तुझको मेरी आज्ञा से ही सब कुछ करना चाहिये परन्तु राजविरुद्ध, प्राणनाशक, बहुत बड़ा अधर्म या अनर्थ का काम हो तो वह काम मेरी आज्ञा से भी नहीं करना चाहिये । तुझको चाहिये कि मुझको अर्पण करके, मेरी प्रधानता से, मेरे अधीन रह कर, मेरे प्रिय और मेरे हितकारी रह कर सदा वरताना चाहिये । पुत्र पिता की, भृत्य स्वामी की, अर्थी धनी की जिस प्रकार से सेवा करते हैं, वैसे तुझे मेरी सेवा करनी चाहिये । उरसुकतारहित, दत्तचित्त, सावधान, एकाग्रमन से, नम्र होकर, बार २ देख कर कार्य करना चाहिये । तुझे निन्दा से रहित और मेरी आज्ञा से विचरना-धूमना चाहिये । मेरी आज्ञा से या बिना मेरी आज्ञा के धूमने पर भी तुझे प्रथम मुझ गुरु के लिये अर्थ (धन) लाने का प्रयत्न करना चाहिये । चिकित्सा कर्म में सफलता, धन-प्राप्ति, यश लाभ और परलोक में स्वर्ग की कामना से तुझे गौ-ब्राह्मण को प्रथम संस्कार कर अन्य सब प्राणियों की मंगल कामना करनी चाहिये । प्रति दिन उठते, बैठते, जागते सब अवस्थाओं, में सब समय मे, सम्पूर्णरूप से रोगियों के कल्याण के लिये यत्नवान् रहना चाहिये ( रोगी को दुःखित करके जीविका नहीं कमाना चाहिये ) । मन से भी पर स्त्री की चाह न करनी चाहिये । इसी प्रकार दूसरे के धन को मन से भी चाहना नहीं चाहिये । विनीत ( नम्र वेश ) वस्त्रों वाला होना चाहिये ( उद्धत वेश नहीं पहिनना चाहिये ) । प्रमाद रहित ( उन्मत्त ), स्वयं पापरहित, तथा पापकर्म में साथी नहीं होना चाहिये । कोमल, निर्दोष, धर्मानुकूल,

सुखकारक, सत्य, हितकारी, परिमित वाणी बोलने वाला तथा, देश-काल को विचार कर काम करने वाला, स्मृतिमान् होना चाहिये । ज्ञान और अभ्युदय के उपकरणों को प्राप्त करने में सदा यत्नवान् रहना चाहिये । राजा जिनसे द्वेष करता है, अथवा जो राजा से द्वेष करते हैं, महाजन ( बड़े आदमी ) जिनसे द्वेष करते हैं, अथवा जो महाजनों से द्वेष करते हैं, उनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये । इसी प्रकार जिनके शील ( स्वभाव ) और आचार अत्यन्त निकृष्ट और दुष्ट हो, अल्पवाद, प्रतिकार, धनरहित ( जनपदोर्ध्वंस में कहे हुए ) लोगो की तथा मरणोन्मुख रोगियों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिये । इसी प्रकार जिन स्त्रियों का पति अथवा संरक्षक पास में न हों, उन की भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये । स्त्रियों से दिये धन को पति या संरक्षक के पूछे बिना कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिये । ( उनकी आज्ञा से ही ग्रहण करना चाहिये ) रोगी के घर जाते समय चेतावनी देकर, आज्ञा मिलने पर दूसरे पुरुष के साथ उत्तम विनम्र वेश को पहिने हुए शिर का नीचे किये जाना चाहिये । जाते समय स्मृतिमान्, स्थिर, मन से भली प्रकार सोच विचार कर जो कुछ करना हो, भली प्रकार से घर में पहुँच कर करना चाहिये । घर में जा कर रोगी के उपकार के सिवाय रोगी से सम्बन्धित अथवा चिकित्सा से अतिरिक्त अन्य स्थानों में वाणी, मन, बुद्धि और इन्द्रियों को नहीं लगाना चाहिये । रोगी के घर के रहस्यों को बाहर नहीं करना चाहिये । जहाँ पर कहने से किसी अन्य प्राणी के मरने की सम्भावना हो, वहाँ पर मरणोन्मुख लक्षणों से रोगी की आयु का क्षय जानने पर भी नहीं कहना चाहिये । ज्ञानवान् होने पर भी अपने ज्ञान की प्रशंसा नहीं करनी चाहिये क्योंकि सत्यभाषी, आस, चिद्वान् होकर भी अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने वाले से अनेक लोग बहुत उद्विग्न हो जाते हैं ।

न चैव ह्यस्ति सुतरमायुर्वेदस्य पारं, तस्मादप्रमत्तः शश्वदभियो-  
गमस्मिन् गच्छेत् एतच्च कार्यं, एवंभूयश्च वृत्तसौष्टवमननुसूयता

परेभ्योऽप्यागमयितव्यं, कृत्स्नो हि लोको बुद्धिमतामाचार्यः । शत्रु-  
श्चाबुद्धिमताम्, अतश्चाभिसमीक्ष्य बुद्धिमताऽमित्रस्यापि धन्यं यश-  
स्यमामुष्यं पौष्टिकं लोकमभ्युपदिशतो वचः श्रोतव्यमनुविधातव्यं  
चेति ॥ १२ ॥

आयुर्वेद ज्ञान की कहीं पर समाप्ति नहीं है । इसलिये इस आयुर्वेद  
के ज्ञान उपलब्ध करने में सदा प्रमादरहित होकर निरन्तर मनोयोग  
देवे । यहां कहे हुए कार्य सम्पूर्ण रूप में करने चाहियें । इस प्रकार करते  
हुए निन्दारहित होकर दूसरे लोगों से भी ( शास्त्र के सिवाय ) अन्य  
ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । क्योंकि बुद्धिमानों का सम्पूर्ण संसार  
आचार्यवत् है और मूर्खों का वह शत्रु है । अतः ठीक २ जान कर बुद्धि-  
मान् मनुष्य को शत्रु के भी धन्य, यशकारी, आयुष्य, पौष्टिक और लौकिक  
वचन को सुनना चाहिये और तदनुसार करना चाहिये ।

अतः परमिदं ब्रूयात्—देवताभिद्विजातिगुरुवृद्धसिद्धाचार्येषु ते  
नित्यं सम्यग्वर्तितव्यम् । तेषु ते सम्यग्वर्तमानस्यायमग्निः सर्वगन्धरस  
रत्नबीजानि यथेरिताश्च देवताः शिवाय स्युः । अतोऽन्यथा वर्तमान-  
स्याशिवायेति ।

इसके आगे निम्न प्रकार से उपदेश देवे—‘देवता, अग्नि, ब्राह्मण,  
गुरु, वृद्ध, सिद्ध और आचार्य इनकी प्रतिदिन भली प्रकार से सेवा करनी  
चाहिये । इन देवताओं की भली प्रकार से सेवा करने पर यह तेरे सामने  
उपस्थित अग्नि, सब प्रकार के गन्ध, रस, रत्न, बीज और पूर्वोक्त देवता  
आदि सब तेरे लिये मंगलकारी होंगे ।’

एवं ब्रवति चाचार्ये शिष्यस्तथेति ब्रूयात् । तद्यथोपदेशं च कुर्व-  
न्मध्याप्यो ज्ञेयः, अतोऽन्यथा त्वनध्याप्यः । अध्याप्यमध्यापयन्  
ह्याचार्यो यथोक्तैश्चाध्यापनफलैर्योगमाप्नोत्यन्यैश्चानुक्तैः श्रेयस्करैर्गुणैः  
शिष्यमात्मानं च युनक्ति । इत्युक्तावध्ययनाध्यापनविधी यथा-  
वत् ॥ १३ ॥

इस प्रकार से आचार्य के कहने पर शिष्य भी 'तथास्तु' कह कर स्वीकार करे। आचार्य उपदेशानुसार करने वाले शिष्य को पढ़ावे और न करने वाले को नहीं पढ़ावे। पढ़ाने के योग्य शिष्य को पढ़ाने से ही आचार्य को अध्यापन-कार्य का योग्य फल, उचित लाभ मिलता है। और यहाँ न कहे हुए दूसरे, अनेक श्रेयस्कर गुणों से शिष्य को और अपने को भी युक्त करता है। इस प्रकार अध्ययन और अध्यापन विधि कह दी।

अध्ययनाध्यापनविधिवत्संभाषाविधिमत ऊर्ध्वं व्याख्यास्यामः—  
 भिषक् भिषजा सह संभाषेत, तद्विद्यसंभाषा हि ज्ञानाभियोगसंहर्षकरी  
 भवति, वैशारद्यमपि चाभिनिर्वर्तयति, वचनशक्तिमपि चाधत्ते,  
 यशश्चाभिदीपयति, पूर्वश्रुते च संदेहवत्. पुनः श्रवणात् संशयमपकर्षति,  
 श्रुते चासंदेहवतो भूयोऽध्यवसायमभिनिर्वर्तयति, अश्रुतमपि च  
 कंचिदर्थं श्रोत्रविषयमापादयति, यद्वाचार्यः शिष्याय शुश्रूषवे प्रसन्नः  
 क्रमेणोपदिशति गुह्याभिमतमर्थजातं तत्परस्परेण सह जल्पन्  
 पिरडेन विजिगीषुराह संहर्षात्, तस्मात्तद्विद्यसंभाषामभिप्रशंसन्ति  
 कुशलाः ॥ १४ ॥

संभाषणविधि—अध्ययन-अध्यापन विधि के समान ही अब संभाषण-विधि का वर्णन करते हैं। वैद्य वैद्य के साथ संभाषण करे। क्योंकि उसी विद्या को जानने वाले के साथ संभाषण करने से ज्ञान और हर्ष को प्राप्त करता है, ज्ञान की चतुरता उत्पन्न करता है, बोलने की शक्ति पैदा करता है, यश को बढ़ाता है, अध्ययन काल में पहिले सुने शब्द या अर्थ में जरा संदेह होता है, उसको मिटाता है। और संदेह रहित वस्तु में और भी अधिक दृढ़ निश्चय कर लेता है। अध्ययन काल में गुरुमुख से न सुना हुआ भी कुछ विषय यहां पर सुनने में आता है और आचार्य की सेवा करने वाले शिष्य के लिये जो गोपनीय वस्तु (अर्थ) प्रसन्न होकर गुरु बताता है, उस गोपनीय बात को यह दूसरे के साथ शास्त्रार्थ करते हुए अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिये, जीतने की इच्छा से-

सार रूप में प्रसन्नतापूर्वक प्रकट कर देता है । इसलिये बुद्धिमान् लोग उस विद्या में निपुण विद्वान् से संभाषण करने की प्रशंसा करते हैं ।

द्विविधा तु खलु तद्विद्यसंभाषा भवति—संघाय संभाषा, विगृह्य सम्भाषा चेति ॥ १५ ॥

‘तद्विद्य-संभाषण’ अर्थात् उस विद्या के वेत्ता पुरुष से भाषण दो प्रकार का है । (१) संघाय संभाषा—संधि अर्थात् परस्पर मेल करके प्रेमपूर्वक संभाषण करना, अनुलोम संभाषण है । (२) विगृह्य संभाषा—विग्रह करके, दूसरे को पराजित करने के अभिप्राय से संभाषण करना प्रतिलोम संभाषण है ।

तत्र ज्ञानविज्ञानवचनप्रतिवचनशक्तिसंपन्नेनाकोपनेनोपस्कृतविद्योनात्सूयकेनानुनेयेनानुनयकोविदेन क्लेशक्षमेण प्रियसंभाषणेन च सह संघाय संभाषा विधीयते । तथाविधेन सह कथयन्विस्रब्धः कथयेत्, पृच्छेदपि च विस्रब्धः, पृच्छते चास्मै विस्रब्धाय विशदमर्थं ब्रूयात्, न च निग्रहभयादुद्विजेत, निगृह्य चैनं न हृष्येन्न च परेषु विकस्येत, न च माहादेकान्तग्राही स्यात्, न चाविदिमर्थं तमनुवर्णयेत्; सम्यक्चानुनयेनानुनयेच्च, अनुनये तत्र चावहितः स्यादित्यनुलोम-संभाषाविधिः ॥ १६ ॥

अनुलोम संभाषण की विधि—ज्ञान ( शास्त्रज्ञान ), विज्ञान, वचन ( पूर्वपक्ष ), प्रतिवचन ( उत्तरपक्ष ) कहने में समर्थ, क्रोध से रहित, अत्रिकृत विद्या वाले, अनिन्दक, अनुनय के योग्य, अनुनय को जानने वाले, क्लेशसहिष्णु, प्रिय बोलने वाले पुरुष के साथ सन्धि करके संभाषण करते हुए विश्वासपूर्वक ( विना संकोच या भय के ) बात चीत करे और जो कुछ पूछना हो वह विश्वासपूर्वक पूछे । इस प्रकार के पुरुष के आगे पराजय के भय से न घबराए और स्वयं भी प्रतिवादी कर पराजय करके प्रसन्न न हो । दूसरों के आगे अपनी डींग न करे, अपनी प्रशंसा, नहीं करे । मोहवश केवल लेनेवाला ही न बने । न जाने हुए

विषय का वर्णन नहीं करे। प्रतिवादी से किये अनुनय के सामने विनीत होवे। दूसरे के अनुनय में सावधान रहे। यह 'अनुलोम संभाषण विधि' है।

अत ऊर्ध्वमितरेण सह विगृह्य संभाषायां जल्पेत् श्रेयसा योग-  
मात्मन पश्यन्, प्रागेव च जल्पोज्ज्वलपान्तरं परावरान्तरं परिषद्वि-  
शेषांश्च सम्यक्परीक्षेत। सम्यक् परीक्षा हि बुद्धिमतां कार्यप्रवृत्तिनि-  
वृत्तिकालौ शसति, तस्मात्परीक्षामभिप्रशंसन्ति कुशलाः। परीक्षमाणस्तु  
खलु परावरान्तरमिमाञ्जल्पकगुणान् श्रेयस्करान् दोषवतश्च परीक्षेत  
सम्यक्। तद्यथा—श्रुतं विज्ञान धारणं प्रतिभानं वचनशक्तिरित्येतान्  
गुणान् श्रेयस्करानाहुः। इमान्पुनर्दोषवतः, तद्यथा—कोपनत्वमवैशारद्यं  
भीरुत्वसधारणत्वमनवहितत्वमिति। एतान्द्वयानपि गुणान् गुरुला-  
ववतः परस्य चैवात्मनश्च तोलयेत् ॥ १७ ॥

विगृह्य संभाषा—इसके अनन्तर 'विगृह्य संभाषा' का वर्णन करते हैं। पुरुष अपना श्रेय (विद्योत्कर्ष आदि) योग देखता हुआ प्रतिवादी के साथ 'विगृह्य संभाषण' करे। इसमें जल्प (वाद-विवाद) से पूर्व ही जल्प के लक्षण, जल्प के गुण दोष, प्रतिवादी और अपने गुण दोष, और परिषद् के गुण दोषों को भली प्रकार से देख लेवे। क्योंकि भली प्रकार की हुई परीक्षा बुद्धिमानों को कार्य में प्रवृत्त होने और निवृत्त होने का काल बता देती है। इसलिये कुशल लोग परीक्षा की प्रशंसा करते हैं।

अपने और प्रतिवादी के गुण-दोषों की परीक्षा करने में, इन श्रेयस्कर और अश्रेयस्कर जल्पगुणों की परीक्षा करनी चाहिये। जैसे—गुरुमुख से शान्त्र का ध्रुवण, विज्ञान (अवबोध), धारण (मन से धारण करना), प्रतिभान (प्रतिभा, प्रत्युत्पन्नमति) और बोलने की शक्ति का होना। इन गुणों को श्रेयस्कर कहते हैं। और इन निम्नलिखित गुणों को अश्रेयस्कर अर्थात् दोषयुक्त कहते हैं। जैसे—क्रोध करना, अपाण्डित्य, भीरुता, अनभ्यास, दत्तचित्त न होना, ये दोष हैं। इन दोनों प्रकार के गुणों को अपने

में तथा प्रतिवादी में तुलना करके न्यून-अधिक रूप से देखना चाहिये ।

तत्र त्रिविधः परः संपद्यते,—प्रवरः प्रत्यवरः समो वा गुणविनि-  
क्षेपतः, नत्वेव कात्स्न्येन ॥ १८ ॥

इनमें प्रतिवादी तीन प्रकार का होता है—( १ ) प्रवर ( उत्तम ),  
( २ ) प्रत्यवर ( हीन ) और ( ३ ) सम ( समान ) । ये भेद श्रुत, विज्ञान  
आदि गुणों के परिमाण से होते हैं, कुल, शील आदि भेद से नहीं ।

परिषत् खलु द्विविधा,—ज्ञानवती, मूढपरिषत्; सैव द्विविधा  
सती त्रिविधा पुनरनेन कारणविभागेन—सुहृत्परिषद्, उदासीनपरि-  
षत्, प्रतिनिविष्टपरिषच्चेति ॥ १९ ॥

परिषद् अर्थान् सभा दो प्रकार की होती है । ज्ञानवती और मूढ ।  
यही दो प्रकार की परिषद् शत्रु, मित्र और उदासीन कारण से तीन प्रकार  
की हो जाती है । ( १ ) सुहृत्परिषद्, ( २ ) उदासीन परिषद्, ( ३ ) प्रति-  
कूल निविष्ट परिषत् ( विरोधियों की परिषद् ) ।

तत्र प्रतिनिविष्टायां पर्षदि ज्ञानविज्ञानवचनप्रतिवचनशक्तिसंप-  
न्नायामपि मूढायां तु न कथंचित्केनचित्सह जल्पो विधीयते, मूढायां  
तु सुहृत्परिषदि उदासीनायां वा ज्ञानविज्ञानवचनशक्तिमन्तरेणाप्य-  
दीप्तयशसा महाजनद्विष्टेन सह जल्पो विधीयते, तद्विधेन च सह  
कथयता आविद्धदीर्घसूत्रसंकुलैर्वाक्यदण्डकैः कथयितव्यं, अतिदृष्टं  
सुहुर्मुहुरुपहसता परं रूपयता च परिषदमाकारैर्ब्रुवता चास्य वाक्या-  
वकाशो न देयः । कष्टशब्दं ब्रुवता वक्तव्यो 'नोच्यते' इति, अथवा  
पुन. 'हीना ते प्रतिज्ञा' इति, पुनश्चाहूयमानः प्रतिवक्तव्यः—'परिसंवत्सरो  
भव, शिञ्जस्व तावत्, पर्याप्तमेतावत्ते', सकृदपि हि परिक्षेपिकं निहतं  
निहतमाहुरिति नास्य योगः कर्तव्यः', कथंचिदप्येवं श्रेयसा सह विगृह्य  
वक्तव्यमित्याहुरेके, न त्वेव ज्यायसा सह विग्रहं प्रशंसन्ति  
कुशलाः ॥ २० ॥

इनमें से शत्रु-परिषद् अथवा मूढ-परिषत् में ज्ञान-विज्ञान, वचन-



प्रतिवचन की शक्ति होने पर भी किसी उत्तम, हीन वा समान व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार से जल्प ( विवाद ) नहीं करना चाहिये । मूढ-परिपद् में, वा मित्रपरिपद् में, या उदासीन परिपद् में ज्ञान-विज्ञान और वचन-प्रतिवचन शक्ति के बिना भी, प्रज्वलित कीर्त्ति से रहित और अनेक जनों के द्वेषपात्र (जिसका पक्ष कोई नहीं करे) ऐसे पुरुष के साथ जल्प किया जा सकता है । इस प्रकार के पुरुष के साथ संभाषण करते हुए, टेढ़ेमेढ़े लम्बे सूत्रों से युक्त लम्बे २ वाक्यों से भाषण करना चाहिये । खूब प्रसन्न होते हुए, प्रतिवादी की बार-बार हंसी करते हुए, आकार-चेष्टा आदि से परिपद् का ध्यान खींचते हुए और बोलने को उद्यत हुए प्रतिवादी को बोलने का अवसर नहीं देना चाहिये । दुर्बोध अर्थ या वाक्य को कहते हुए उससे बोलने के लिये कहना चाहिये कि 'नहीं कहते अथवा तेरी प्रतिज्ञा हीन है ।' और यदि वह फिर वाद-विवाद के लिये बुलावे तो उसको कहना चाहिये कि—“एक साल और अधिक गुरु के पास पढ़, तेरे लिये इतना ही पर्याप्त है ।” एक बार पराजित हुए प्रतिवादी को पराजित ही कहते हैं । अतः फिर इसके पक्ष का ग्रहण नहीं करना चाहिये । एक बार प्रतिपक्षी को पराजित करके पुनः उसे अवसर नहीं देना चाहिये । कुछ आचार्यों का मत है कि इस प्रकार अपने से श्रेष्ठ से भी प्रतिलोम-जल्प कर लेना चाहिये, परन्तु बुद्धिमान् मनुष्य अपने से श्रेष्ठ के साथ प्रतिलोम (विगृह्य) संभाषण की इच्छा नहीं करते ।

प्रत्यवरेण तु सह समानाभिमतन वा विगृह्य जल्पता सुहृत्परिपदि कथयितव्यं, अथवाऽप्युदासीनपर्यदि अवधानश्रवणज्ञान-विज्ञानोपधारणवचनशक्तिसंपन्नायां कथयता चावहितेन परस्य साद्गुण्यदोषवलमवेक्षितव्यं, समवेक्ष्य च यत्रैनं श्रेष्ठं मन्येत, नास्य तत्र जल्पं योजयेदनाविष्कृतमयोगं कुर्वन्, यत्र त्वेनमवरं मन्येत, तत्रैवैनमाशु निगृहीयात् ।

अपने से हीन या अपने समान प्रतिवादी के साथ सुहृत्परिपद्, उदा-

सीन परिषद् या मूढ परिषद् मे विगृह्य संभाषण करना चाहिये । अथवा उदासीन परिषद् में अवधान, श्रवण, ज्ञान, विज्ञान, उपधारण, वचन, प्रतिवचन शक्ति, आदि गुणों तथा क्रोध आदि दोषों की अपने में और दूसरे मे तुलना करके सावधानी से संभाषण करना चाहिये और परीक्षा करके जिस बात मे प्रतिवादी को अपने से श्रेष्ठ समझे, उस विषय में अपनी अयोग्यता को प्रकट न करते हुए जल्प का प्रयोग नहीं करना चाहिये और जिस विषय मे प्रतिवादी को अपने से हीन समझे, उसमें इसको शीघ्रता से पकड़ लेना चाहिये ।

तत्र खल्विमे प्रत्यवराणामाशु निग्रहे भवन्त्युपायाः; तद्यथा — श्रुतहीनं महता सूत्रपाठेनाभिभवेत्, विज्ञानहीनं पुनः कष्टशब्देन वाक्येन, वाक्यधाराहीनमाविद्धदीर्घसूत्रसकुलैर्वाक्यदण्डकैः, प्रतिभाहीनं पुनर्वचनेनैकविधेनानेकार्थवाचिना, वचनशक्तिहीनमर्थोक्तस्य वाक्यस्याक्षेपेण, अविशारदमपहूपणेन, कोदनमायासनेन, भीरुं वित्रासनेन, अनवहितं नियमनेन । इत्येवमेतैरुपायैः परमवरमभिभवेत् ॥ २१ ॥

प्रतिवादी को शीघ्र निग्रह करने के लिये निम्न उपाय हैं । जैसे— जिसने शास्त्र न पढ़ा हो उसको बड़े लम्बे २ सूत्र सुना कर पराजित करे । विशेष ज्ञान से हीन अतिदुर्बोध अर्थ वाले, क्लिष्ट शब्दों से बने वाक्यों का प्रयोग करे । अनभ्यस्त शास्त्र वाले या अल्पबुद्धि के लिये वक्र, लम्बे २ सूत्रों से बने वाक्यों का प्रयोग करे । प्रतिभा से हीन के लिये अनेकार्थवाची, अनेक प्रकार के वचनों का प्रयोग करे । वचन-शक्ति से हीन को आधे ही वाक्य पर टोक दे । अपण्डित या अचतुर को ( जिसने कभी पहिले सभा नहीं देखी हो ) लज्जाजनक वाक्यों से पराजित करना चाहिये, क्रोधी व्यक्ति को तंग करके, डरपोक को भय दिखला कर, जो सावधान न हो उसको मन के नियमन करने वाले वचनों से पराजित करे । इन नाना उपायों द्वारा प्रतिवादी का शीघ्र पराजय करे ।

तत्र श्लोकौ । विगृह्य कथयेद्यक्त्या युक्तं च न निवारयेत् ।

विगृह्यभाषा तीव्रं हि केषांचिद् द्रोहमावहेत् ॥ २२ ॥

नाकार्यमस्ति क्रुद्धस्य नावाच्यमपि विद्यते ।

कुशला नाभिनन्दन्ति कलह सहिताः सताम् ॥ २३ ॥

एवं प्रवृत्ते वादे कुर्यात् ॥ २४ ॥

प्रतिलोम संभाषण करने का प्रकार—दूसरे के साथ विगृह्य संभाषण करते हुए युक्तिपूर्वक भाषण करे । युक्ति प्रमाणानुकूल दूसरे के वचन का निषेध नहीं करे । जल्प कई पुरुषों में तीव्र क्रोध उत्पन्न कर देता है । क्रुद्ध व्यक्ति के लिये कुछ भी अकार्य नहीं होता, वह कुछ भी कर सकता है । उसके लिये कुछ भी अवाच्य नहीं, वह सब कुछ बुरा-भला भी कह सकता है । इसलिये बुद्धिमान् पुरुष सज्जनों की सभा में कलह को अच्छा नहीं समझते । वाद चलने पर इस प्रकार करे ।

प्रागेव तावदिदं कर्तुं यतेत—संधाय परिषदाऽयनभूतमात्मनः प्रकरणमादेशयितव्यं यद्वा परस्य भृशदुर्गं स्यात्, पक्षमथवा परस्य भृशं विमुखमानयेत् परिषदि, परिषदि चोपसंहितायामशक्यमस्माभिर्वक्तुम्, एषैव ते परिषद्यथेष्टं यथायोगं यथाभिप्रायं वादं वादमर्यादां च स्थापयिष्यतीत्युक्त्वा तूष्णीमासीत् ॥ २५ ॥

वाद प्रारम्भ होने से पूर्व निम्न बातें करने का यत्न करे । यथा—परिषद् ( सभ्यों ) से मिलकर अपने अभ्यास किये हुए प्रकरण या विषय का निर्देश करे । अथवा जो प्रकरण वा विषय दूसरे को बहुत दुर्बोध हो उसे कहे अथवा दूसरे का पक्ष जो बहुत अधिक झगडा उत्पन्न करने वाला हो, वहां पर सभ्यों के बीच कहे । यदि परिषद् अपने विरोध में जान पड़े तो कहे कि—'इस परिषद् को तो तुमने पहिले ही मिलकर अपने पक्ष में कर लिया है, इसलिये हमारा बोलना असम्भव है । यह तो तुम्हारी घर की ही सभा है । जैसा चाहोगे, जैसा बने, जैसा अभिप्राय हो, वह वैसा वाद, और वैसी वाद-मर्यादा को स्थापित करेगी ऐसा कह कर चुप हो जायें ।

तत्रेदं वादमर्यादालक्षणं भवति—इदं भवति वाच्यसिद्धमवा-  
च्यमेवं सति पराजितो भवतीति ॥ २६ ॥

वाद की मर्यादा—यह कहना, यह नहीं कहना, इस प्रकार से पराजय  
होता है, यह तीन वाद-मर्यादा के लक्षण कहाते हैं—

इमानि तु खलु पदानि वादमार्गज्ञानार्थमधिगम्यानि भवन्ति ।  
तद्यथा—वादो, द्रव्यं, गुणाः, कर्म, सामान्यं, विशेषः, समवायः,  
प्रतिज्ञा, स्थापना, प्रतिष्ठापना, हेतुः, उपनयो, निगमनं, उत्तरं, दृष्टान्तः,  
शब्दः, प्रत्यक्षं, अनुमानमैतिह्यमौपम्यं, संशयः, प्रयोजनं, सव्य-  
भिचारं, जिज्ञासा, व्यवसायः, अर्थप्राप्तिः, संभवः, अनुयोज्यं,  
अनुयोगः, प्रत्यनुयोगो, वाक्यदोषो, वाक्यप्रशंसा, छलमहेतुरतीत  
कालमुपालम्भः, परिहारः, प्रतिज्ञाहानिरभ्यनुज्ञा, हेत्वन्तरमर्थान्तरं,  
निग्रहस्थानमिति ॥ २७ ॥

वाद के मार्गको समझने के लिये वैद्यों को निम्न चवालीस बातें समझ  
लेनी चाहियें । यथा—वाद, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय,  
प्रतिज्ञा, स्थापना, प्रतिष्ठापना, हेतु, दृष्टान्त, उपनय, निगमन, उत्तर,  
सिद्धान्त, शब्द, प्रत्यक्ष, अनुमान, ऐतिह्य, औपम्य, संशय, प्रयोजन,  
सव्यभिचार, जिज्ञासा, व्यवसाय, अर्थप्राप्ति, संभव, अनुयोज्य, अननु-  
योज्य, अनुयोग, प्रत्यनुयोग, वाक्यदोष, वाक्यप्रशंसा, छल, हेतु,  
अतीतकाल, उपालम्भ, परिहार, प्रतिज्ञाहानि, अभ्यनुज्ञा, हेत्वन्तर, अर्था-  
न्तर और निग्रहस्थान ।

तत्र वादो नाम—यत् परः परेण सह शास्त्रपूर्वकं विगृह्य कथ-  
यति । स वादो द्विविधः संग्रहेण—जल्पो वितण्डा च । तत्र  
पक्षाश्रितयोर्वचनं जल्पः, विपर्ययो वितण्डा । यथा—एकस्य  
पक्षः—पुनर्भवोऽस्तीति, नास्तीत्यपरम्य । तौ च हेतुभिः स्वस्वपक्षं  
स्थापयतः, परपक्षमुद्धावयतः, एष जल्पः । जल्पविपर्ययो वितण्डा,  
वितण्डा नाम—परपक्षे दोषवचनमात्रमेव ॥ २८ ॥

वाद का लक्षण—शास्त्र के अनुसार जो परस्पर विगृह्य भाषण है वह वाद कहाता है । ❀ यह सिद्धेप से दो प्रकार का है । जल्प और वितण्डा । इनमें पक्ष और प्रतिपक्ष का आश्रय करके जो वाद किया जाता है, उसका नाम 'जल्प' है । इससे विपरीत 'वितण्डा' है । जैसे एक व्यक्ति का पक्ष है कि पुनर्जन्म होता है, और दूसरे का पक्ष है कि पुनर्जन्म नहीं होता है । ये दोनों नाना हेतुओं से अपने अपने पक्ष की स्थापना करते हैं और प्रतिवाधक प्रमाणों से दूसरे के पक्ष का निराकरण करते हैं । इसका नाम 'जल्प' है । जल्प से विपरीत वितण्डा है, परपक्ष में केवल दोष दिखाना 'वितण्डा' होता है † ।

द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाः स्वलक्षणैः श्लोकस्थाने पूर्वमुक्ताः ॥ २९ ॥

द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय इनमें से प्रत्येक का लक्षण सूत्रस्थान में कह आये हैं ।

अथ प्रतिज्ञा । प्रतिज्ञा नाम साध्यवचनम् । यथा नित्यः पुरुष इति ॥ ३० ॥

प्रतिज्ञा—साध्य वचन का नाम 'प्रतिज्ञा' है । जैसे पुरुष नित्य है । ❀

अथ स्थापना । स्थापना नाम तस्या एव प्रतिज्ञाया हेतुदृष्टान्तोपनयनिगमनैः स्थापना । पूर्व हि प्रतिज्ञा पश्चात्स्थापना, किं ह्यप्रतिज्ञातं स्थापयिष्यति । यथा नित्यः पुरुष इति प्रतिज्ञा । हेतुः—अकृतकत्वादिति । दृष्टान्तः अकृतकमाकाशं तच्च नित्यम् । उपनयो यथा चाकृतकमाकाश तथा पुरुषः । निगमनं तस्मान्नित्य इति ॥ ३१ ॥

❀ वाद का लक्षण—'प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः, पञ्चावयवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वादः । न्यायदर्शन १।२।४२ ।

† 'यथोक्तोपपन्नश्चलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्पः । स प्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा । न्याय द० १।२।४३।४४ ।

\* साध्यस्य वचनं प्रतिज्ञा । न्याय द० १।१।३२ ।

स्थापना—इसी प्रतिज्ञा के हेतु, दृष्टान्त, उपनय, और निगमन द्वारा सिद्ध करने का नाम 'स्थापना' है। प्रथम प्रतिज्ञा होती है, फिर उसकी स्थापना की जाती है। बिना प्रतिज्ञा के किस वस्तु की स्थापना करेगा। जैसे पुरुष नित्य है यह प्रतिज्ञा है। इसमें हेतु—उत्पत्ति न होने से। दृष्टान्त आकाश, जिसे किसीने उत्पन्न नहीं किया और वह नित्य है। उपनय—जिस प्रकार अनुत्पन्न आकाश है। इसी प्रकार पुरुष है। निगमन—इसलिये पुरुष भी नित्य है।

अथ प्रतिष्ठापना—प्रतिष्ठापना नाम या परप्रतिज्ञाया विपरीतार्थस्थापना, यथा—अनित्यः पुरुष इति प्रतिज्ञा। हेतुः—ऐन्द्रियकत्वात्, दृष्टान्तः घट ऐन्द्रियकः स चानित्यः, उपनयो—यथा घटस्तथा पुरुषः। निगमनं—तस्मादनित्य इति ॥ ३२ ॥

प्रतिष्ठापना—दूसरे, वादी की प्रतिज्ञा के विपरीत अर्थ की स्थापना करना प्रतिष्ठापना कहलाती है। पुरुष अनित्य है, यह विपरीतार्थ प्रतिज्ञा है। इसमें हेतु—इन्द्रियग्राह्य होने से। दृष्टान्त—घड़ा, इन्द्रियग्राह्य है, वह अनित्य है। उपनय—जिस प्रकार घड़ा है उसी प्रकार पुरुष भी अनित्य है। निगमन—इसलिये पुरुष अनित्य है।

अथ हेतुः—हेतुर्नामोपलब्धिकारणं, तत्प्रत्यक्षमनुमानमैतिह्यमौपम्यमिति। एभिर्हेतुभिर्यदुपलभ्यते, तत्तत्त्वम् ॥ ३३ ॥

हेतु—साध्य के उपलब्ध अर्थात् ज्ञान का कारण हेतु है \*। प्रत्यक्ष, अनुमान, ऐतिह्य और उपमान ये भी उपलब्धि (ज्ञान) के साधन हैं। इन हेतुओं (प्रमाणों) से जो ज्ञान उपलब्ध होता है, वह तत्त्व अर्थात् ज्ञान है, उपनयो निगमनं चोक्तं स्थापनाप्रतिष्ठापनाव्याख्यायाम् ॥ ३४ ॥  
उपनय और निगमन को स्थापना और प्रतिस्थापना की व्याख्या में कह दिया है।

\* 'उदाहरणसाधर्म्यात् साध्यसाधनं हेतुः। तथा वैधर्म्यात्। न्याय०

अथोत्तरं—उत्तरं नाम साधर्म्योपदिष्टे वा हेतौ वैधर्म्यवचनं, वैधर्म्योपदिष्टे वा साधर्म्यवचनं यथा-हेतुसधर्माणो विकाराः, शीतकस्य हि व्याधेर्हेतुसाधर्म्यवचनं-हिमशिशिरवातसंस्पर्शा इति ब्रुवतः परो ब्रूयात्-हेतुविधर्माणो विकाराः, यथा शरीरावयवानां दाहौष्ण्यकोथ-प्रपचने हेतुवैधर्म्यं हिमशिशिरवातसंस्पर्शा इति; एतत्सविपर्यय-मुत्तरम् ॥ ३५ ॥

उत्तर—हेतु में साधर्म्य दिखाने पर वैधर्म्य दिखाना अथवा हेतु में वैधर्म्य दिखाने पर साधर्म्य दिखाना 'उत्तर' है। कोई कहे—विकार (रोग) हेतु (कारण) के समान धर्म (तुल्य धर्म) वाले होते हैं। यथा शीतजन्य रोगों में कारण के तुल्य धर्म हेमन्त शिशिर की वायु का शीत संस्पर्श हो इस पर प्रतिपक्षी कहे कि रोग हेतु के विरुद्ध धर्म (अतुल्य धर्म) वाले होते हैं। जैसे-शरीरावयवों के जलने में, गरम होने में, सड़ने में, पकने में हेतु (कारण) से असमान धर्म वाले हेमन्त, शिशिर की वायु का स्पर्श है। यह विपरीत उत्तर है।

अथ दृष्टान्तः—दृष्टान्तां नाम यत्र मूर्ध्वविदुषा बुद्धिसाम्यं, यो वर्ण्य वर्णयति, यथा-अग्निरुष्णो द्रवमुदकं स्थिरा पृथिवी आदित्यः प्रकाशक इति, यथा वाऽऽदित्यः प्रकाशकस्तथा सांख्यवचनं प्रकाशकमिति ॥ ३६ ॥

दृष्टान्त—जिसमें विद्वान् अविद्वान् दोनों की बुद्धि समान हो, उसका नाम दृष्टान्त है ❀। जिस वस्तु का वर्णन करना होता है, उसका उसी प्रकार की वस्तु से वर्णन करते हैं। यथा-अग्नि उष्ण है, जल द्रव है, पृथिवी स्थिर है, सूर्य प्रकाशक है, इन बातों को सूर्य भी उसी प्रकार समझना है, जिस प्रकार एक विद्वान् समझता है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाशक है, उसी प्रकार सांख्य-ज्ञान भी प्रकाशक है। यहां पर सांख्य ज्ञान साथ 'वर्ण्य' है। इसको आदित्य के दृष्टान्त से सिद्ध करते हैं।

❀ लौकिकपरीक्षकाणां यस्मिन्नर्थे बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः ॥ न्याय० १।१।२।५॥

अथ सिद्धान्तः—सिद्धान्तो नाम यः परीक्षकैर्बहुविधं परीक्ष्य हेतुभिः साधयित्वा स्थाप्यते निर्णयः स सिद्धान्तः, स चोक्तश्रुतुर्विधः,—सर्वतन्त्रसिद्धान्तः, प्रतितन्त्रसिद्धान्तः, अधिकरणसिद्धान्तोऽभ्युपगमसिद्धान्त इति ।

सिद्धान्त—जिस को परीक्षकों ने बहुत प्रकार से परीक्षा कर हेतुओं द्वारा सिद्ध कर निर्णय रूप से स्थापित कर दिया है वह निर्णय 'सिद्धान्त' है । यह सिद्धान्त चार प्रकार का है । (१) सर्वतन्त्र सिद्धान्त, (२) प्रतितन्त्र सिद्धान्त, (३) अधिकरण सिद्धान्त और (४) अभ्युपगम सिद्धान्त ।

तत्र सर्वतन्त्रसिद्धान्तो नाम—सर्वतन्त्रेषु यत्प्रसिद्धम् । सन्ति व्याधयः सन्ति सिद्धयः साध्यानामिति ।

(१) सर्वतन्त्र सिद्धान्त—सब तंत्रों ( शास्त्रों ) में (उस सम्बन्ध के) जो सिद्धान्त प्रसिद्ध हों, उनका नाम सर्वतन्त्र सिद्धान्त है । यथा—निदान है, साध्य रोग है, रोगों को दूर करने के भी उपाय हैं, ये बातें सब तंत्रों में प्रसिद्ध हैं ।

प्रतितन्त्रसिद्धान्तो नाम तस्मिन्स्तस्मिन्तन्त्रे तत्तत्प्रसिद्धं, यथा—अन्यत्राष्टौ रसाः षडत्र, पञ्चेन्द्रियाणि यथाऽन्यत्रान्यत्र षडिन्द्रियाणि । वातादिकृताः सर्वविकारा यथाऽन्यत्र वातादिकृता भूतकृताश्च प्रसिद्धाः ।

(२) प्रतितन्त्र सिद्धान्त—उसी विशेष तंत्र में जो तत्त्व प्रसिद्ध हों और तंत्रों में अप्रसिद्ध हों, उसका नाम प्रतितन्त्र सिद्धान्त है । यथा—एक तंत्र में रस आठ प्रकार के है, और इस तंत्र में रस छः प्रकार के है । एक तंत्र में पांच इन्द्रियां हैं, अन्य तंत्र में छः इन्द्रियां मानी है ( मन को भी इन्द्रिय गिनते हैं ) । अन्य तंत्रों में सब रोग वात आदि दोषजन्य ही माने गये हैं । एक तंत्र में रोगों का कारण वात आदि दोष तथा पंच महाभूत वा सूक्ष्म कीट-प्राणियों को भी माना है ।

अधिकरणसिद्धान्तो नाम यस्मिन् यस्मिन्नधिकरणे संस्तूयमाने



सिद्धान्तान्यन्यान्व्यधिकरणानि भवन्ति, यथा—न मुक्तः कर्मानुबन्धिकं कुरुते निस्पृहत्वादिति प्रस्तुते सिद्धाः कर्मफलमोक्षपुरुषप्रेत्यभावा भवन्ति ।

(३) अधिकरण सिद्धान्त—जिस जिस अधिकरण के उपस्थित करने पर अन्य न कहे हुए अधिकरण भी अपने आप सिद्ध हो जाते हैं, उसका नाम अधिकरण सिद्धान्त है । यथा—मुक्तपुरुष निःस्पृह होने से फलजनक कर्म नहीं कर सकता । इस अवस्था में कर्मफल, मोक्ष, पुरुष और प्रेत्यभाव ये प्रकरण भी स्वयं सिद्ध होते हैं । क्योंकि यदि कर्मफल न हो तो मुमुक्षु भी कर्म करे । कर्मफल से उद्विग्न होकर ही वे कर्म नहीं करते । यदि मोक्ष हो तो मुक्त ऐसा नाम न हो । यदि पुरुष न हो तो बन्ध और मोक्ष किसका ।

अभ्युपगमसिद्धान्तो नाम—यमर्थमसिद्धमपरीक्षितमनुपदिष्टम-हेतुकं वा वादकालेऽभ्युपगच्छन्ति भिषजः । तद्यथा—द्रव्यं न प्रधानमिति कृत्वा वक्ष्यामः, गुणाः प्रधाना इति कृत्वा वक्ष्यामः, इत्येवमादिश्चतुर्विधः सिद्धान्तः ॥ ३७ ॥

(४) अभ्युपगम सिद्धान्त—जिसको विना सिद्ध किये, विना परीक्षा किये और विना हेतु आदि बतलाये ही विवादकाल में वैद्य लोग स्वीकार कर लेते हैं, वह अभ्युपगम सिद्धान्त है । यथा—द्रव्य प्रधान नहीं है, इस अपरीक्षित वस्तु को सिद्धान्त रूप से स्वीकार करके आगे विवाद करें । इसी प्रकार गुण को प्रधान मान कर, कर्म को प्रधान मान कर वाद आरम्भ करें । ये चारों प्रकार के सिद्धान्त कह दिये हैं ।

अथ शब्दः—शब्दो नाम वर्णसमाम्नायः, स चतुर्विधः—दृष्टार्थ-श्चादृष्टार्थश्च सत्यश्चानृतश्चेति ।

शब्द—वर्णों के सामान्नाय (समूह) का नाम शब्द है । यह चार प्रकार का है । यथा (१) दृष्टार्थ, (२) अदृष्टार्थ (३) सत्य और (४) अनृत ।

तत्र दृष्टार्थ—त्रिभिर्हेतुभिर्दोषा प्रकुप्यन्ति षड्भिरुपक्रमैश्च

प्रशाम्यन्ति, श्रोत्रादिसद्भावे शब्दादिग्रहणमिति ।

(१) दृष्टार्थ—तीन कारणों (असात्म्येन्द्रियार्थसंयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम ) से वात आदि दोष कुपित होते हैं । वे छः उपक्रमों ( बृंहण, लंघन, स्नेहन, रूक्षण, स्वेदन और स्तम्भन ) से शान्त होते हैं । श्रोत्र आदि इन्द्रियों के होने पर शब्द आदि विषयों का ग्रहण होता है । इन वाक्यों का अर्थ यहां प्रत्यक्ष होता है, देखा जाता है ।

अदृष्टार्थः पुनः—अस्ति प्रेत्यभावोऽस्ति मोक्ष इति ।

(२) अदृष्टार्थ—जैसे प्रेत्यभाव अर्थात् ( पुनर्जन्म ) है और मोक्ष है, यह अदृष्ट अर्थ है ।

सत्यो नाम यथार्थभूतः—सन्त्यायुर्वेदोपदेशाः, सन्त्युपायाः साध्यानां, सन्त्यारम्भफलानीति, सत्यविपर्ययाच्चानृतः ॥ ३८ ॥

सत्य—यथार्थ जैसा हो वैसा कहना सत्य है । यथा आयुर्वेद का उपदेश है, साध्य रोगों की चिकित्सा के उपाय है । आरम्भ फल अर्थात् कर्मों के फल होते हैं । सत्य से विपरीत अनृत ( मिथ्या ) है ।

अथ प्रत्यक्षं—प्रत्यक्षं नाम तद्यदात्मना पञ्चेन्द्रियैश्च स्वयमुपलभ्यते । तत्रात्मप्रत्यक्षाः सुखदुःखेच्छाद्वेषादय , शब्दादयस्त्विन्द्रिय-प्रत्यक्षाः ॥ ३९ ॥

प्रत्यक्ष—आत्मा और इन्द्रियों द्वारा जो ज्ञान स्वयं प्राप्त किया जाता है, उसका नाम प्रत्यक्ष है \* इनसे सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष आदि आत्मा द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, शब्द आदि विषय श्रोत्र आदि इन्द्रियो द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं ।

अथानुमानं—अनुमानं नाम तर्को युक्त्यपेक्षः । यथोक्तम्—अग्निं जरणशक्त्या, बलं व्यायामशक्त्या, श्रोत्रादीनि शब्दादिग्रहणेनेत्येवमादि ॥ ४० ॥

\* इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम् । न्याय० १।१।४ ।

अनुमान—युक्ति की अपेक्षा करने वाला तर्क अनुमान है । कार्य-कारण भाव के ज्ञान से अविज्ञात अर्थ को जानना तर्क है । यथा—जीर्ण करने की शक्ति से अग्नि का, ध्यायाम शक्ति से बल का, शब्दादि के ग्रहण करने से श्रोत्रादि इन्द्रियों का अनुमान किया जाता है ।

अर्थैतिह्यं—ऐतिह्यं नामाप्तोपदेशो वेदादिः ॥ ४१ ॥

ऐतिह्य—ऐसा वृद्ध पुरुषों ने कहा था यह 'ऐतिह्य' है । आस-वचन का नाम ऐतिह्य है । यथा आस-वचन वेद आदि ।

अथौपम्यं—औपम्यं नाम यदन्येनान्यस्य सादृश्यमधिकृत्य प्रकाशन, यथा—दण्डेन दण्डकस्य, धनुषा धनुष्टम्भस्य, इष्वासिना आरोग्यदस्येति ॥ ४२ ॥

औपम्य ( उपमा )—सादृश्य को देखकर एक प्रसिद्ध वस्तु का प्रकाशन करना 'उपमा' है । जैसे ढण्डे से दण्डक नाम ( वातव्याधि ) रोग को बतलाया है । धनुष द्वारा धनुस्तम्भ (जिसमें धनुष के समान शरीर मुड़ जाता है, ऐसा धनुर्वात ( टेटिनस ) रोग ) बतलाया है और धानुष्क ( तीर चलाने वाले ) का उदाहरण देकर आरोग्यता देने वाले वैद्य का प्रयोजन बतलाया है ( खुड्काक चतुष्पाद अध्याय १० ) ।

अथ संशयः—संशयो नाम संदेहलक्षणानुसंदिग्धेष्वर्थेष्वनि-  
श्चयः । यथा-दृष्ट्वा ह्यायुष्यलक्षणोपेताश्चानुपेताश्च तथा सक्रियाश्चा-  
क्रियाश्च पुरुषाः शीघ्रमङ्गाश्चिरजीविनश्च, एतद्गुभयदृष्टत्वात्संशयः—  
किन्नु खल्वकालमृत्युरस्त्युत नास्तीति ॥ ४३ ॥

संशय—संदिग्ध अर्थों में निश्चय का न होना संशय है । जैसे क्या अकाल मृत्यु है, अथवा नहीं है ! आयुष्मान् पुरुषों के लक्षणों से युक्त एवं इन लक्षणों से रहित किंवा चिकित्सा क्रिया के बिना और चिकित्सा करने पर भी शीघ्र मरने वाले तथा ढेर तक जीने वाले दोनों प्रकार के

⊗ समानाचेकधर्मोपपत्तेः विप्रतिपत्तेरुपलब्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्थातश्च विशेषोपेक्षो विमर्श संशयः ॥ न्याय० १ । १ । ४१ ॥

पुरुष देखे जाते हैं । दोनों प्रकार की अवस्थाओं के देखने से संशय होता है कि क्या अकाल मृत्यु है, अथवा नहीं है ।

अथ प्रयोजनं—प्रयोजनं नाम यदर्थमारभ्यन्त आरम्भाः । यथा—यद्यकालमृत्युरस्ति ततोऽहमात्मानमायुष्यैरुपचरिष्याम्यनायुष्याणि च परिहरिष्यामि, कथं मामकालमृत्युः प्रसहेतेति ॥ ४४ ॥

प्रयोजन—जिसके लिये कर्मों का आरम्भ किया जाता है वह 'प्रयोजन' है । जैसे यदि अकाल मृत्यु है, तो मैं आयु के लिये हितकारी पथ्यों द्वारा अपने शरीर की रक्षा करूंगा । आयु का नाश करने वाली अपथ्य वस्तु का परित्याग करूंगा । फिर किस प्रकार से मुझ पर अकाल मृत्यु आक्रमण कर सकती है ?

अथ सव्यभिचारं—सव्यभिचारं नाम यद्व्यभिचरणं; यथा—भवेद्दिदमौषधं तस्मिन् व्याधौ यौगिकमथवा नेति ॥ ४५ ॥

सव्यभिचार—व्यभिचार एकत्र अव्यवस्था, अनिश्चितता । अनेकों में प्रवृत्त होना ही सव्यभिचार है । यथा—इस रोग में इस औषध का योगिक अर्थात् योग के अनुकूल होना वा विपरीत भी होना सम्भव है, इस प्रकार एकान्त निश्चय न होना 'सव्यभिचार' है ❁ ।

अथ जिज्ञासा—जिज्ञासा नाम परीक्षा, यथा भेषजपरीक्षोत्तरकालमुपदेक्ष्यते ॥ ४६ ॥

जिज्ञासा—प्रमाणों द्वारा अर्थ की परीक्षा करना 'जिज्ञासा' है । यथा भेषज परीक्षा जो आगे कहेंगे ।

अथ व्यवसायः—व्यवसायो नाम निश्चयः, यथा वातिक एवायं व्याधिः, इदमेवास्य भेषजमिति ॥ ४७ ॥

❁ न्यायदर्शन में सव्यभिचार को हेत्वाभास माना है । यह हेतु नहीं, परन्तु हेतु के समान दीखता है । यथा—'सव्यभिचार-विरुद्ध-प्रकरणसमाध्यसमातीतकाला हेत्वाभासाः ॥ न्याय० १ । २ । ४५ ॥

व्यवसाय—निश्चय का नाम 'व्यवसाय' है। यथा—यह रोग वात जन्य ही है, और इस रोग की यही औषध है।

अथार्थप्राप्तिः—अर्थप्राप्तिर्नाम यत्रैकेनार्थेनोक्तेनापरस्यार्थस्यानुक्तस्य सिद्धिः, यथा-नायं संतर्पणसाध्यो व्याधिरित्युक्ते भवत्यर्थप्राप्तिः—अपतर्पणसाध्योऽयमिति, नानेन ढिवा भोक्तव्यमित्युक्ते भवत्यर्थप्राप्तिः—निशि भोक्तव्यमिति ॥ ४८ ॥

अर्थप्राप्ति—एक कहे हुए अर्थ से दूसरे न कहे हुए अर्थ का जिससे ज्ञान होजाय उसका नाम अर्थप्राप्ति है। यथा—यह रोग से तर्पणसाध्य नहीं है, यह कहने पर पता लग जाता है कि यह रोग अपतर्पण साध्य है। इससे दिन में भोजन नहीं देना चाहिये, ऐसा कहने पर ज्ञात हो जाता है कि रात्रि में भोजन देना चाहिये।

अथ संभव.—संभवो नाम यो यतः संभवति स तस्य संभवः; यथा—षड् धातवो गर्भस्य, व्याधेरहितं !हितमारोग्यस्येति ॥ ४९ ॥

संभव—जो जिससे उत्पन्न होता है, वह उसका संभव अर्थात् कारण है। जैसे छः धातु ( पृथिवी, अप, तेज, वायु, आकाश और चेतना ) गर्भ की उत्पत्ति में कारण हैं। इसी प्रकार अहित-सेवन रोगों की उत्पत्ति में, हित-सेवन आरोग्यता की उत्पत्ति में कारण हैं।

अथानुयोज्यं—अनुयोज्यं नाम यद्वाक्यं वाक्यदोषयुक्तं तदनुयोज्यमुच्यते, सामान्योदाहृतेष्वर्थेषु वा विशेषग्रहणार्थं यद्वाक्यं तदनुयोज्यं, यथा—संशोधनसाध्योऽयं व्याधिरित्युक्ते किं वमनसाध्यः किं वा विरेचनसाध्यः ? इत्यनुयुज्यते ॥ ५० ॥

अनुयोज्य—जो वाक्य वाक्य के न्यून आदि दोषों से युक्त होता है, उसका नाम अनुयोज्य है। क्योंकि इस प्रकार का दोषयुक्त वाक्य प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। अथवा सामान्य रूप में कहे हुए वाक्यार्थ में विशेष ग्रहण के लिये जो वाक्य कहा जाता है, वह भी अनुयोज्य होता है। यथा—यह रोग संशोधन से साध्य है, ऐसा कहने पर वमनसाध्य है

या विरेचनसाध्य है। यह और भी वक्तव्य शेष रह जाने से 'अनु-  
योज्य' है।

अथाननुयोज्यं—अननुयोज्यं नामातो विपर्ययेण; यथा—  
अयमसाध्यः ॥ ५१ ॥

अननुयोज्य—अनुयोज्य के विपरीत—वाक्यदोष से रहित वचन को  
'अननुयोज्य' कहते हैं। यथा—यह रोग असाध्य है।

अथानुयोगः—अनुयोगो नाम यत्तद्विद्यानां तद्विद्यैरेव सार्धं  
तन्त्रे तन्त्रैकदेशे वा प्रश्नः प्रश्नैकदेशो वा ज्ञानविज्ञानवचनप्रतिवचन-  
परीक्षार्थमादिश्यते। यथा नित्यः पुरुष इति प्रतिज्ञाते, यत्परः को हेतु-  
रित्याह सोऽनुयोगः ॥ ५२ ॥

अनुयोग—विशेष विद्या वाले पुरुष का उसी ( एक समान ) विद्या  
वाले पुरुष के साथ ज्ञान, विज्ञान, वचन, प्रतिवचन शक्ति की परीक्षा  
के लिये सम्पूर्ण उसी शास्त्र में अथवा उस शास्त्र के किसी एक भाग में  
प्रश्न करना 'अनुयोग' कहाता है। जैसे—एक ने प्रतिज्ञा की—पुरुष नित्य  
है। दूसरे ने पूछा—इसमें हेतु क्या है? यह कहना अनुयोग है।

अथ प्रत्यनुयोगः—प्रत्यनुयोगो नामानुयोगस्यानुयोगः; यथा—  
अस्यानुयोगस्य पुनः को हेतुरिति ॥ ५३ ॥

प्रत्यनुयोग—अनुयोग का अनुयोग करना प्रत्यनुयोग है। जैसे—  
एक ने प्रतिज्ञा की पुरुष नित्य है, दूसरे ने प्रश्न किया इसमें क्या हेतु है?  
इस हेतु में क्या हेतु है? ऐसा प्रश्न पर प्रश्न पूछना 'प्रत्यनुयोग' है।

अथ वाक्यदोषः—वाक्यदोषो नाम यथा—खल्वस्मिन्नर्थे न्यून-  
मधिकमनर्थकमपार्थकं विरुद्धं चेति। तत्र प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपन-  
यनिगमनानामन्यतमेनापि न्यूनं न्यूनं भवतीति, यद्वा बह्वपदिष्टहे-  
तुकमेकेन साध्यते हेतुना तच्च न्यूनम्, एतानि ह्यन्तरेण प्रकृतोऽप्यर्थः  
प्रणश्येत् ।

वाक्यदोष—वाक्य में विषय की दृष्टि से निम्न दोष होते हैं जैसे—

न्यून, अधिक, अनर्थक, अपार्थक और विरुद्धार्थ । ( क्योंकि इनके विना वाक्य का असली अर्थ नष्ट नहीं होता, अपितु इनके होने से वाक्य का असली अर्थ नष्ट होजाता है । )

न्यून—प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन इनमें से किसी एक से भी न्यून हो तो वह न्यून दोष गिना जाता है । अथवा जो वस्तु बहुत से हेतु देकर सिद्ध करनी चाहिये, उस वस्तु को केवल एक ही हेतु से सिद्ध किया जाये तो वह भी 'न्यून' दोष समझना चाहिये ।

अथाधिकं—अधिकं नाम यदायुर्वेदे भाष्यमाणे वाहस्पत्यमौशनसमन्यद्वा यत्किञ्चिदप्रतिसंबद्धार्थमुच्यते । यद्वा पुनः प्रतिसंबद्धार्थमपि द्विरभिधीयते तत्पुनरुक्तत्वादधिकम् । तच्च पुनरुक्तं, द्विविधम् । अर्थपुनरुक्तं शब्दपुनरुक्तं च । तत्रार्थपुनरुक्तं नाम यथा—भेषज-सौषधं साधनमिति, शब्दपुनरुक्तं नाम पुनः भेषजं भेषजमिति ।

अधिक—न्यून से विपरीत हेतु आदि उदाहरण अधिक हों उसको अधिक कहते हैं । अथवा आयुर्वेद के विषय में वाहस्पत्य, औशनस आदि अन्य अप्रासंगिक बातों का कहना, अथवा प्राकृत ( सम्बन्धित ) वस्तु को दो बार कहना यह भी पुनरुक्त होने से 'अधिक' ही होता है । यह पुनरुक्त दो प्रकार का है । जैसे—अर्थपुनरुक्त और शब्दपुनरुक्त । इनमें 'अर्थ-पुनरुक्त' दो प्रकार का है । जैसे—भेषज, औषध और साधन । 'शब्द-पुनरुक्त' जैसे 'भेषज भेषज' है ।

अनर्थकं नाम यद्वचनमक्षरग्राममात्रमेव स्यात्पञ्चवर्गवन्न चार्थतो गृह्यते ।

अनर्थक—जिनका कहना पंचवर्ग ( क, च, ट, त, प, ) के समान केवल अक्षर समूह ( वर्णमाला ) के रूप में होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता उसका नाम 'अनर्थक' है ।

अथापार्थकं—अपार्थकं नाम यदर्थवच्च परस्परैण चायुज्यमानार्थकम् । यथा—चक्रनक्रवंशवज्रनिशाकरा इति ।

अपार्थक—जब बहुतोंमें से प्रत्येक शब्द अर्थ वाला होकर भी वे सब परस्पर मिल कर किसी भी अर्थ को न बता सकें तब 'अपार्थक' दोष होता है । जैसे—चक्र, नक्र, वंश, वज्र, निशाकर आदि इनमें से प्रत्येक का पृथक् २ अर्थ है, परन्तु मिलने पर कोई संगत अर्थ नहीं निकलता ।

विरुद्धं नाम यद्दृष्टान्तसिद्धान्तसमयैर्विरुद्धं, तत्र दृष्टान्तसिद्धान्ता-  
नुक्तौ, समयः पुनस्त्रिधा भवति, यथा—आयुर्वेदिकसमयो याज्ञिकस-  
मयो मोक्षशास्त्रिकसमय इति । तत्रायुर्वेदिकसमयश्चतुष्पादं भेषज-  
मिति, याज्ञिकसमय, आलभ्याः पशव इति, सर्वभूतेष्वहिंसेति मोक्ष-  
शास्त्रिकसमयः । तत्र स्वसमयविपरीतमुच्यमानं विरुद्धं भवतीति  
वाक्यदोषः ॥ ५४ ॥

विरुद्ध—जो वाक्य दृष्टान्त, सिद्धान्त और समय के विपरीत हो । यह विरुद्ध तीन प्रकार का है, दृष्टान्त विरुद्ध, सिद्धान्त विरुद्ध और समय विरुद्ध । इनमें दृष्टान्त और सिद्धान्त दोनों को पीछे कह चुके हैं ।

समयविरुद्ध—समय तीन प्रकार का है । यथा—(१) याज्ञिक समय, (२) आयुर्वेदिक समय और (३) मोक्षशास्त्रिक समय । इनमें आयुर्वेदिक समय जैसे—भेषज चतुष्पाद् (भिषक्, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी) है । याज्ञिक समय जैसे—यजमान को चाहिये कि पशुओं का आलम्भन करे । मोक्षशास्त्रिक समय जैसे—सब प्राणियों के प्रति अहिंसा वृत्ति रखे । इनमें अपने २ समय अर्थात् सिद्धान्त के विपरीत कहना 'विरुद्ध' है । ये वाक्यदोष हैं ।

अथ वाक्यप्रशंसा नाम यथा खल्वस्मिन्नर्थे त्वन्यूनमनधिकम-  
र्थवदनपार्थक्यमविरुद्धमधिगतपदार्थं चेति यत्तद्वाक्यमननुयोज्यमिति  
प्रशस्यते ॥ ५५ ॥

वाक्यप्रशंसा—जिस वाक्य में न्यून और अधिक दोष न हों, जो अर्थ-  
चान्, होकर भी अपार्थक्य और विरुद्ध न हो और पदार्थ को कहने वाला तथा  
दूसरे से अनुयोज्य न हो ऐसा वाक्य प्रशंसायोग्य होता है, इसे वाक्य-  
प्रशंसा कहते हैं ।



अथ च्छलं—छलं नाम परिशठमर्थाभासमन्थकं वाग्वस्तुमात्र-  
मेव । तद्द्विविधं वाक्छलं, सामान्यच्छलं च ।

छल—शठ के प्रति वञ्चना के लिये अर्थ की भाँति दीखने वाले  
अनर्थक, वाणी मात्र को ( दूसरे के वचन को नष्ट करने के लिये ) प्रयुक्त  
करना 'छल' है । यह छल दो प्रकार का है ❁ ( १ ) वाक्छल और  
( २ ) सामान्य छल ।

तत्र वाक्छलं नाम यथा-कश्चिद्ब्रूयान्नवतन्त्रोऽयं भिषगिति । भिष-  
ग्ब्रूयात्—नाहं नवतन्त्र एकतन्त्रोऽहमिति । परो ब्रूयात्—नाहं ब्रवीमि  
नवतन्त्राणि तवेति, अपि तु नवाभ्यस्तं हि ते तन्त्रमिति । भिषग्ब्रूयात्—  
न मया नवाभ्यस्त तन्त्रमनेकधाऽभ्यस्तं मया तन्त्रमिति । एतद्वाक्छलम् ।

इनमें वाक् छल—जैसे कोई कहे कि यह वैद्य तो नवतन्त्रों वाला  
है । वैद्य कहे कि मैं नव ( नौ ) तन्त्रों वाला नहीं हूँ । दूसरा  
व्यक्ति कहे कि मैं यह नहीं कहता कि तुम नौ तन्त्रों वाले हो, अपितु तुमने  
तन्त्रों का नया ही अभ्यास किया है । वैद्य कहे कि मैंने तन्त्रों का नया  
अभ्यास नहीं किया, अपितु अनेक वार किया है; यह वाक्-छल है ।

सामान्यच्छलं नाम यथा—व्याधिप्रशमनायौषधमित्युक्ते परो  
ब्रूयात्—सत् सत्प्रशमनायेति । ( किन्तु ) भवानाह, सन् हि रोगः,  
सदौषधं, यदि च सत् सत्प्रशमनाय भवति, तत्र सन् हि कासः,  
सत् क्षयः, सत्सामान्यात्कासस्ते क्षयप्रशमनाय भविष्यतीति । एतत्सा-  
मान्यच्छलम् ॥ ५६ ॥

सामान्य छल—जैसे—व्याधि को शान्त करने के लिये औषध है,  
ऐसा कहने पर दूसरा कहे कि सत् वस्तु से सत् का प्रशमन होता है, यह  
आप कहते हैं । रोग भी सत् है और औषध भी सत् है । यदि सत् वस्तु

❁ न्यायदर्शन में

'तत् त्रिविधं वाक्छलं सामान्यच्छलमुपचारच्छलं च ।' न्याय० १।२।५२।  
'धर्मविकल्पनिर्देशोऽर्थसद्भावप्रतिषेध उपचारच्छलम्' ॥ न्याय० १।२।५५

से सत् वस्तु का प्रशमन होता तो तेरे मत में सत् कास से सत् क्षय का नाश नाना चाहिये। क्योंकि सत् धर्म दोनों में समान है। कास भी सत् है, क्षय भी सत् है। यह सामान्य छल है।

अथाहेतुः—अहेतुर्नाम प्रकरणसमः संशयसमो वर्ण्यसम इति।

अहेतु—वास्तव में जो हेतु न हो। यह तीन प्रकार का है। जैसे—

(१) प्रकरणसम, (२) संशयसम और (३) वर्ण्यसम।

तत्र प्रकरणसमो नामाहेतुर्यथा—अन्यः शरीरादात्मा नित्य इति पक्षे ब्रूयात्—यस्मादन्यच्छरीरादात्मा तस्मान्नित्यः, शरीरं ह्यनित्यमतो विधर्मिणा चात्मना भवितव्यमित्येष चाहेतुः, न हि य एव पक्षः स एव हेतुः।

प्रकरणसम अहेतु—जैसे कोई कहे कि आत्मा शरीर से भिन्न है। इस पर दूसरा कहे कि आत्मा शरीर से अलग है, इसलिये नित्य है; शरीर अनित्य है। इसलिये आत्मा को विधर्मि होना ही चाहिये, यह अहेतु है। क्योंकि जो पक्ष (प्रतिज्ञा वा साध्य) है वही हेतु नहीं हो सकता।

संशयसमो नामाहेतुर्य एव संशयहेतुः स एव संशयच्छेदहेतुः, यथा—अयमायुर्वेदैकदेशमाह, किंन्वयं चिकित्सकः स्यान्नवेति संशये परो ब्रूयात्—यस्मादयमायुर्वेदैकदेशमाह तस्मान्चिकित्सकोऽयमिति, न च संशयहेतुं विशेषयत्येष चाहेतुः, न हि य एव संशयहेतुः स एव संशयच्छेदहेतुर्भवति।

संशयसम अहेतु—जो हेतु संशय का कारण हो, वही हेतु संशय के नाश का भी कारण हो जाये। जैसे—किसीने आयुर्वेद का कुछ भाग कहा, इसमें संशय हुआ कि यह चिकित्सक है वा नहीं? इस पर दूसरा व्यक्ति कहता है कि—चूंकि इसने आयुर्वेद का कुछ भाग कहा है, इसलिये वह चिकित्सक है। संशय के नाश करने वाले हेतु का स्पष्टीकरण नहीं करता, इसलिये यह अहेतु है। क्योंकि जो हेतु स्वयं संशय का कारण है, वही संशय के नाश का कारण नहीं हो सकता।

वर्यसमो नामाहेतुर्योवर्याविशिष्टः, तथा परो ब्रूयात्—अस्पर्श-  
त्वाद्बुद्धिरनित्या शब्दवदिति, अत्र वर्यः शब्दो बुद्धिरपि वर्या,  
तदुभयवर्याविशिष्टत्वाद्वर्यसमोऽप्यहेतुः ॥ ५७ ॥

वर्यसम अहेतु—जो हेतु साध्य के समान असिद्ध होने से साध्य  
की भांति साधने योग्य होता है। जैसे किसी ने कहा कि बुद्धि अनित्य  
है, स्पर्श न होने के कारण, शब्द की भांति। इसमें बुद्धि साध्य है, शब्द  
भी साध्य है। इसलिये दोनों के असिद्ध होने से यह वर्यसम अहेतु है।

अतीतकालं—अतीतकालं नाम यत्पूर्वं वाच्यं तत्पश्चादुच्यते,  
तत्कालातीतत्वाद्ग्राह्यं भवतीति। पूर्वं वा निग्रहप्राप्तमनिगृह्य पक्षान्तरितं  
पश्चान्निगृहीते तत्तस्यातीतकालत्वान्निग्रहवचनमसमर्थं भवतीति ॥५८॥

अतीतकाल—जो बात पहिले कहनी चाहिये, उसको पीछे कहना  
'अतीत-काल' है। समय के व्यतीत होने के कारण वह बात अग्रहणीय  
होजाती है। अथवा दूसरे प्रतिवादी के निग्रह-स्थान में आने पर उस समय  
उसको न पकड़ कर दूसरे पक्ष में पहुंचने पर पीछे से निग्रह करना, यह  
भी अतीत काल होने से निग्रह में असमर्थ होता है।

अथोपालम्भः—उपालम्भो नाम हेतोर्दोषवचनं; यथा पूर्वमहे-  
तवो हेत्वाभासा व्याख्याताः ॥ ५९ ॥

उपालम्भ—हेतु में प्रकरणसम आदि दोष दिखाना 'उपालम्भ'  
है। जैसे पहिले कहे अहेतु जो कि हेतु न होने पर भी हेतु की  
भांति दीखते हैं।

अथ परिहारः—परिहारो नाम तस्यैव दोषवचनस्य परिहरणम्।  
यथा—नित्यमात्मनि शरीरस्थे जीवलिङ्गान्युपलभ्यन्ते, तस्य चाप-  
गमान्नोपलभ्यन्ते, तस्मादन्य. शरीरादात्मा नित्यश्चेति ॥ ६० ॥

परिहार—हेतु में कहे दोष का दूर करना 'परिहार' है। जैसे—  
शरीरस्थ आत्मा में प्राण अपान आदि जीव के लक्षण नित्य उपलब्ध होते  
हैं और आत्मा के शरीर से निकल जाने पर ये लक्षण उपलब्ध नहीं होते,

इस लिये आत्मा शरीर से भिन्न दूसरी वस्तु है और वह नित्य है ।

अथ प्रतिज्ञाहानि—प्रतिज्ञाहानिर्नाम सा पूर्वप्रतिगृहीतां प्रतिज्ञां पर्यनुयुक्तः परित्यजति । यथा प्राक् प्रतिज्ञां कृत्वा 'नित्यः पुरुष' इति । पर्यनुयुक्तस्त्वाह—अनित्य इति ॥ ६१ ॥

प्रतिज्ञाहानि—पहिले की हुई प्रतिज्ञा को छोड़ कर दूसरी प्रतिज्ञा को स्वीकार करना 'प्रतिज्ञाहानि' है । जैसे—प्रथम प्रतिज्ञा की—पुरुष नित्य है, अकृतक होने से, आकाशवत् । दूसरे प्रतिपक्षी ने कहा—पुरुष अनित्य है, इन्द्रिय-ग्राह्य होने से, घड़े के तुल्य । इसमें अपनी प्रतिज्ञा (नित्य पुरुष) को छोड़ कर दूसरी प्रतिज्ञा (अनित्य पुरुष है) को स्वीकार करना प्रतिज्ञा-हानि है ।

अथाभ्यनुज्ञा—अभ्यनुज्ञा नाम य इष्टानिष्टाभ्युपगमः ॥ ६२ ॥

अभ्यनुज्ञा—इष्ट ( परपक्ष में दोष ) और अनिष्ट ( स्वपक्ष में दोष ) दोनों को स्वीकार करना 'अभ्यनुज्ञा' है । दूसरे से कहे हुए दोष को अपने पक्ष में मान लेना और दूसरे के पक्ष में दोष दिखाना 'अभ्यनुज्ञा' वा 'मतानुज्ञा' है ।

अथ हेत्वन्तरं—हेत्वन्तरं नाम प्रकृतिहेतौ वाच्ये यद्विकृतिहेतु-माह ॥ ६३ ॥

हेत्वन्तरं—प्रासंगिक हेतु के स्थान पर विकृत हेतु अर्थात् अप्रसांगिक हेतु कहना 'हेत्वन्तर' है ।

अथार्थान्तरं—अर्थान्तरं नाम एकस्मिन् वक्तव्ये परं यदाह; यथा—ज्वरलक्षणो वाक्ये प्रमेहलक्षणमाह ॥ ६४ ॥

अर्थान्तरं—एक वस्तु के प्रसंग में दूसरी वस्तु का कहना 'अर्थान्तर' है । यथा—ज्वर के लक्षणों में प्रमेह के लक्षण कहने लगना ।

अथ निग्रहस्थानं—निग्रहस्थानं नाम ( पराजयप्राप्तिः, तच्च ) त्रिरभिहितस्य वाक्यस्याविज्ञानं परिषदि विज्ञानवत्या, यद्वा अननु-योज्यस्यानुयोगोऽनुयोज्यस्य चाननुयोगः । प्रतिज्ञाहानिरभ्यनुज्ञा-कालातीक्ष्वचनमहेतवो न्यूनमतिरिक्तं व्यर्थमपाथकं पुनरुक्तं विरुद्धं

हेत्वन्तरमर्थान्तरं निग्रहस्थानम् ॥ ६५ ॥

निग्रह स्थान का दूसरा नाम पराजय-प्राप्ति है। यह विज्ञानवती परिपद् में तीन वार कहे हुए वाक्य को न जानना, या अननुयोज्य का अनुयोग, अथवा अनुयोज्य का अननुयोग है अर्थात् जहाँ प्रश्न न करना चाहिये वहाँ प्रश्न करना और जहाँ करना चाहिये वहाँ न पूछना भी निग्रहस्थान ही है। इसके अतिरिक्त प्रतिज्ञाहानि, अभ्यनुज्ञा, अतीत-कालवचन, अहेतु, न्यून, अतिरिक्त, व्यर्थ, अनर्थक, पुनरुक्त, विरुद्ध, हेत्वन्तर, अर्थान्तर, ये सब बातें पराजय का कारण होती हैं।

इति वादमार्गपदानि यथोद्देशमभिनिर्दिष्टानि भवन्ति ॥ ६६ ॥

इस प्रकार से वाद के मार्गों को पूर्व कथनानुसार कह दिया है।

वादस्तु खलु भिषजां वर्तमानो वर्तेतायुर्वेद एव, नान्यत्र ॥ ६७ ॥

वैद्य जनों के वाद का विषय केवल आयुर्वेद ही है, अन्यत्र नहीं।

अत्र हि वाक्यप्रतिवाक्यविस्तराः केवलाश्चोपपत्तयश्च सर्वाधिकरणेषु। ताः सर्वाः सम्यगवेक्ष्यावेक्ष्य सर्वं वाक्यं ब्रूयात्, नाप्रकृतकमशास्त्र-मपरीक्षितमसाधकमाकुलमव्यापकं वा, सर्वं च हेतुमद् ब्रूयात्, हेतुमन्तो ह्यकलुपाः सर्व एव वादविग्रहाः चिकित्सिते कारणभूताः प्रशस्तबुद्धिबर्धकत्वात्, सर्वारम्भसिद्धिं ह्यावहत्यनुपहृता बुद्धिः ॥६८॥

इस आयुर्वेद में वाक्य, प्रतिवाक्य, इनका विस्तार, सम्पूर्ण उपपत्तियां ये सब बातें प्रकरणों में हैं। उन सबको भली प्रकार देखकर सम्पूर्ण वाक्य कहना चाहिये। अप्रकृतक ( असम्बद्ध ), शास्त्ररहित, अपरीक्षित, साधकरहित, विना जाने कुछ नहीं कहना चाहिये। जो कुछ कहना हो वह सब कारण वा हेतु, युक्तिपूर्वक कहना चाहिये। क्योंकि हेतुपूर्वक कहे हुए सम्पूर्णवाद-विग्रह स्वच्छ होते हैं, तथा चिकित्सा में कारणभूत हैं, क्योंकि वे निर्मल बुद्धि को बढ़ाते हैं। निर्मल बुद्धि सब प्रकार की सफलता को उत्पन्न करती है।

इमानि खलु तावदिह कानिचित्प्रकरणानि ब्रूमो भिषजां ज्ञानार्थं।

ज्ञानपूर्वकं कर्मणां समारम्भं प्रशंसन्ति कुशलाः ॥ ६९ ॥

ज्ञात्वा हि कारणकरणकार्ययोनिर्कार्यकार्यफलानुबन्धदेशकाल-  
प्रवृत्त्युपायान्सम्यग्भिनिर्वर्तमानः कार्याभिनिर्वृत्ताविष्टफलानुबन्धं  
कार्यमभिनिर्वर्तयत्यनतिमहता प्रयत्नेन कर्ता ॥ ७० ॥

निम्न कुछ प्रकरणों को वैद्यों के ज्ञान के लिये कहते हैं । क्योंकि  
विद्वान् लोग ज्ञानपूर्वक कर्मों का आरम्भ करने की प्रशंसा करते हैं ।  
कारण, करण, कार्ययोनि, कार्य, कार्यफल, अनुबन्ध, देश, काल, प्रवृत्ति,  
और उपाय, इनको भली प्रकार जान कर ही कर्म करता हुआ कर्ता स्वल्प  
प्रयत्न से ही कार्यसमाप्ति पर फल देने वाले कार्य का सम्पादन करता है ।

तत्र कारणं नाम तत्, यत्करोति, स एव हेतुः, स कर्ता ॥ ७१ ॥

कारण—जो करता है वही 'कारण' है, इसी को हेतु या 'कर्ता'  
कहते हैं ।

करणं पुनस्तद्, यदुपकरणायोपकल्पते कर्तुः कार्याभिनिर्वृत्तौ  
प्रयतमानस्य ॥ ७२ ॥

करण—प्रयत्न करने वाले कर्ता के कार्य को पूर्ण करने के लिये जिस  
साधन की अपेक्षा होती है, उस साधन को 'करण' कहते हैं ।

कार्ययोनिस्तु सा, या विक्रियमाणा कार्यत्वमेवापद्यते ॥ ७३ ॥

कार्ययोनि—जो विकृत होकर कार्य रूप से प्रकट होती है ।

कार्यं तु तद्, यस्याभिनिर्वृत्तिमभिसंधाय प्रवर्तते कर्ता ॥ ७४ ॥

कार्य—जिसकी सफलता को सामने रखकर कर्ता प्रवृत्त होता है ।

कार्यफलं पुनस्तद्, यत्प्रयोजना कार्याभिनिर्वृत्तिरिष्यते ॥ ७५ ॥

कार्यफल—जिस मतलब से कार्य किया जाता है ।

अनुबन्धस्तु खलु स यः कर्तारमवश्यमनुबध्नाति कार्यादुत्तर-  
कालं कार्यनिमित्तं शुभो वाऽप्यशुभो वा भावः ॥ ७६ ॥

अनुबन्ध—कार्य करने के पीछे जो शुभ या अशुभ (कार्यजन्य)

कर्म के निमित्त कर्ता के साथ फल रूप से लगा रहता है, उसका नाम 'अनुबन्ध' है ।

देशस्त्वधिष्ठानम् ॥ ७७ ॥

देश—अधिष्ठान, आश्रयस्थान है ।

कालः पुनः परिणामः ॥ ७८ ॥

काल—काल का अर्थ परिणाम है ।

प्रवृत्तिस्तु खलु चेष्टा कार्यार्था, सैव क्रिया कर्म यत्नः कार्य-समारम्भश्च ॥ ७९ ॥

प्रवृत्ति—प्रवृत्ति का अर्थ कार्य के लिये चेष्टा, इसीका नाम क्रिया, कर्म, यत्न और कार्य-समारम्भ ( प्रारम्भ ) है ।

उपायः पुनस्त्रयाणां कारणादीनां सौष्टवमभिविधानं च सम्यक् कार्यकार्यफलानुबन्धोपायवर्ज्यानां, कार्यारणामभिनिर्वर्तक इत्यतस्तु-पायः, कृतं नोपयार्थोऽस्ति, न च विद्यते तदात्वे, कृताच्चोत्तरकालं फलं, फलाच्चानुबन्ध इति ॥ ८० ॥

उपाय—कार्य, कार्यफल और अनुबन्ध को छोड़कर कारण, करण, कार्ययोनि इन तीन का उत्तम होना, भली प्रकार करना, यह 'उपाय' है । कार्यों को पूर्ण करने वाला 'उपाय' कहाता है । कार्य हो चुकने पर उपाय का कोई प्रयाजन नहीं है । कार्य के समय भी उपाय नहीं रहता । उपाय करने के पीछे फल, और फल से अनुबन्ध ( शुभ, अशुभ ) होता है ।

एतद्विधमग्रे परीक्ष्यं, ततोऽनन्तरं कार्यार्था प्रवृत्तिरिष्टा, तस्माद्द्विपक्व कार्यं चिकीर्षुः प्राक्कार्यसमारम्भात्परीक्षया केवल परीक्ष्यं परीक्ष्याथ कर्म समारभेत कर्तुम् ॥ ८१ ॥

परीक्षा—इन दस प्रकार से प्रथम परीक्षा कर लेनी चाहिये । इसके पीछे कार्य के लिये प्रवृत्ति या चेष्टा करनी चाहिये । इसलिये कार्य करने की इच्छा वाले वैद्य को चाहिये कि कार्य करने से पूर्व सम्पूर्ण परीक्षा से परीक्षणीय वस्तु की परीक्षा करके काम करना आरम्भ करे ।

तत्र चेद्भिषग् अभिषग्वा भिषजं कश्चिदेवं पृच्छेत्—वमनविरेचना-  
स्थापनानुवासनशिरोविरेचनानि प्रयोक्तुकामेन भिषजा कतिविधया  
परीक्षया कतिविधमेव परीक्ष्यं, कश्चात्र परीक्ष्यविशेषः, कथं च  
परीक्षितव्यः, किप्रयोजना च परीक्षा, क च वमनादीनां प्रवृत्तिः,  
क च निवृत्तिः, प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षणसंयोगे च किं नैष्ठिकं, कानि  
च वमनादीनां भेषजद्रव्याण्युपयोगं गच्छन्तीति ॥ ८२ ॥

यदि कभी भिषग् अथवा साधारण मनुष्य, जो वैद्य नहीं, वैद्य से  
पूछे कि वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, शिरोविरेचन देने की  
इच्छा वाले वैद्य की कितनी प्रकार की परीक्षाएँ, कितने प्रकार का परीक्ष्य  
और परीक्षा से विशेषता क्या है, उसकी किस प्रकार से परीक्षा करनी  
चाहिये, परीक्षा का क्या प्रयोजन है ? वमन आदि का कहाँ प्रयोग करना  
और कहाँ नहीं करना चाहिये ? प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के लक्षण  
मिले तो क्या करना ? वमन आदि कार्यों में कौन से औषध द्रव्य काम में  
आते हैं, इत्यादि प्रश्न करे तब निम्न प्रकार से उत्तर देना चाहिये ।

स एवं पृष्टो यदि मोहयितुमिच्छेत्, ब्रूयादेनं—बहुविधा हि  
परीक्षा तथा परीक्ष्यविधिभेदः, कतमेन विधिभेदप्रकृत्यन्तरेण भिन्नया  
परीक्षया केन वा विधिभेदप्रकृत्यन्तरेण परीक्ष्यस्य भिन्नस्य भेदाग्रं  
भवान्पृच्छत्याख्यायमानं, नेदानी भवतोऽन्येन विधिभेदप्रकृत्यन्तरेण  
भिन्नया परीक्षयाऽन्येन वा विधिभेदप्रकृत्यन्तरेण परीक्ष्यस्य भिन्नस्या-  
भिलषितमर्थं श्रोतुमहमन्येन परीक्षाविधिभेदप्रकृत्यन्तरेणान्येन वा  
विधिभेदप्रकृत्यन्तरेण परीक्ष्यं भित्त्वाऽन्यथाचक्षाण इच्छां प्रपूर-  
येयमिति ॥ ८३ ॥

यदि वैद्य पूछने वाले को परेशान करना चाहे तो कहे—परीक्षा और  
परीक्षा विधि इनके अनेक भेद होते हैं । आप कौनसी विधि-भेद प्रकृति  
से भिन्न परीक्षा से अथवा कौन से विधि-भेद-प्रकृति से भिन्न परीक्ष्य के  
भेद को पूछना चाहते हैं । वही कहा जाय ? आप से बिना यह जाने कि



आप कौन से विधि-भेद प्रकृति से भिन्न परीक्षा वा कौन से विधि-भेद-प्रकृति से भिन्न परीक्ष्य को जानना चाहते हैं, मैं और भेदों को कहकर आपकी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता ।

स यदुत्तरं ब्रूयात्तत्परीक्ष्योत्तरं वाक्यं स्याद्यथोक्तं प्रतिवचनविधिमत्रेद्य; सम्यग्यदि तु ब्रूयात्, न चैनं मोहयितुमिच्छेद्, प्राप्तं तु वचनकालं मन्येत काममस्मै ब्रूयादाप्तमेव निखिलेन ॥ ८४ ॥

इस पर जो उत्तर वह दे, उसकी परीक्षा करके, प्रतिवचन विधि के अनुसार उचित उत्तर दे । यदि वह भली प्रकार से कहे और इसको चक्र में न डालना चाहे तो इसके लिये सब कुछ विश्वस्त रूप से कह दे ।

द्विविधा खलु परीक्षा ज्ञानवतां प्रत्यन्तमनुमानं च, एतद्वि द्वयमुपदेशश्च परीक्षा स्यात् । एवमेषा द्विविधा परीक्षा, त्रिविधा वा सहोपदेशेन ॥ ८५ ॥

बुद्धिमानों के लिये परीक्षा दो प्रकार की है । प्रत्यक्ष और अनुमान ( ये दोनों पहले कहे गये हैं ) और तीसरी उपदेश भी परीक्षा है इस प्रकार से यह दो प्रकार की परीक्षा उपदेश ( आप्तोपदेश ) के साथ तीन प्रकार की हो जाती है ।

दशविधं तु परीक्ष्यं कारणानि यदुक्तमग्रे । तदिह भिषगादिषु संसार्यं संदर्शयिष्यामः—इह कार्यप्राप्तेः कारणं भिषक्, करणं पुनर्भेषजम्, कार्ययोनिर्घातुवैषम्यं, कार्यधातुसाम्यं, कार्यफलं सुखावाप्तिः, अनुबन्धस्तु खल्वायुः, देशो भूमिरातुरश्च । कालः पुनः संवत्सरश्चातुरावस्था च । प्रवृत्तिः प्रतिकर्मसमारम्भः । उपायस्तु भिषगादीनां सौष्टवमभिविधानं च सम्यक् । इहाप्यस्योपायस्य विषयः पूर्वैश्वोपायविशेषेण व्याख्यात इति कारणादीनि दश दशसु भिषगादिषु संसार्यं संदर्शितानि, तथैवानुपूर्व्या एतद्दशविधं परीक्ष्यमुक्तम् ॥ ८६ ॥

पहिले यह कहा है कि परीक्ष्य ( कारण आदि ) वस्तु दस प्रकार

की हैं। इसी को भिषग् आदि में घटाकर दिखाते हैं यहाँ कार्यप्राप्ति में कारण भिषक् है, औषध कारण है। धातुओं की विषमता कार्ययोनि है। धातुओं को समान करना कार्य है। सुख का मिलना कार्यफल है। आयु अनुबन्ध है। भूमि और रोगी देश हैं। संवत्सर और रोगी की अवस्था काल है। प्रत्येक कर्म का आरम्भ करना प्रवृत्ति है। भिषग् औषध, परिचारक और रोगी इनका भली प्रकार से मेल उपाय है। यहाँ पर भी इस उपाय के सम्बन्ध में सब बातें पूर्वोक्त उपाय विशेष के साथ कह दी हैं। धातु साम्य रूपी कार्य के करने पर आरोग्यता निश्चित है। इस प्रकार से कारण आदि दसों को भिषग् आदि में घटाकर दिखा दिया है, इसी प्रकार क्रम से यह दश प्रकार का 'परीक्ष्य' कह दिया है।

तस्य यो यो विशेषो यथा यथा च परीक्षितव्यः, स तथा तथा व्याख्यास्यते ॥ ८७ ॥

इस दश प्रकार की परीक्षा में जो जो विशेषता है और जिस जिस प्रकार से परीक्षा करनी चाहिये उसकी उसी २ प्रकार से व्याख्या करते हैं।

कारणां भिषगित्युक्तमग्ने, तस्य परीक्षा—भिषङ् नाम स यो भिषज्यति, यः सूत्रार्थप्रयोगकुशलः, यस्य चायुः सर्वथा विदितम्। यथावत्सर्वधातुसाम्यं चिकीर्षन्नात्मानमेवादितः परीक्षेत गुणिषु गुणतः कार्याभिनिर्वृत्तिं पश्यन्—कञ्चिदहमस्य कार्यस्याभिनिर्वर्तने समर्थो न वेति। तत्रेमे भिषग्गुणा यैरुपपन्नो भिषग्धातुसाम्याभिनिर्वर्तने समर्थो भवति। तद्यथा,—पर्यवदातश्रुतता परिदृष्टकर्मता दाक्ष्यं शौचं जितहस्तता उपकरणवत्ता सर्वेन्द्रियोपपन्नता प्रकृतिज्ञता प्रतिपतिज्ञता चेति ॥८८॥

पहिले कहा है कि भिषक् कारण है। इस भिषक् की परीक्षा यह है। जो पीड़ा ( रोग ) को दूर करता, शमन करता है, वह भिषक् है। जो आयुर्वेदीय सूत्रार्थों में, प्रयोग में और कर्म में कुशल है, जिस रोगी की आयु ( हित-अहित, सुख-असुख, प्रमाण-अप्रमाण और स्वरूप से भली प्रकार

विदित है, शास्त्रज्ञ, कर्म को जानने वाला वैद्य सब धातुओं की समानता करने की इच्छा से सबसे प्रथम अपनी परीक्षा करे। जैसे गुण के योग से कार्य में सफलता को देखता हुआ वैद्य गुणियों अर्थात् भिषग्-द्रव्य, रोगी और परिचारकों में अपनी परीक्षा करे, क्या मैं इस कार्य को करने में समर्थ हूँ वा नहीं। भिषक् के निम्नलिखित गुण हैं जिन गुणों से युक्त होने पर वैद्य धातुसाम्य रूपी कार्य करने में समर्थ होता है। यथा—  
विमल शास्त्र ज्ञान, सब प्रकार के कर्म का साक्षात् अनुभव, दक्षता, शस्त्रोपचार आदि में हस्तलाघव, उपकरणों का होना, सब इन्द्रियों से युक्त होना, रोगी की प्रकृति का ज्ञान और प्रतिपत्ति अर्थात् जिस रोगी की जैसी चिकित्सा करनी चाहिये उसका ज्ञान।

करणं पुनर्भेषजं, भेषजं नाम तद्यदुपकरणायोपकल्पते भिषजो धातुसाम्याभिनिर्वृत्तौ प्रयतमानस्य विशेषतश्चोपायान्तरेभ्यः। तद्द्विविधं व्यपाश्रयभेदात्,—दैवव्यपाश्रयं युक्तिव्यपाश्रयं चेति। तत्र दैवव्यपाश्रयं मत्रौषधिमणिमङ्गलवलयुपहारहोमनियमप्रायश्चित्तोपवासस्वस्त्ययनप्रणिपातगमनादि, युक्तिव्यपाश्रयं—संशोधनोपशमने चेष्टाश्च दृष्टफलाः। एतच्चैव भेषजमङ्गभेदादपि द्विविधं द्रव्यभूतमद्रव्यभूतं च। तत्र यद् द्रव्यभूतं तदुपायाभिप्लुतम्। उपायो नाम भयदर्शनविस्मापनविस्मरणक्षोभणहर्षणभर्त्सनवधवन्धस्वप्नसंवाहनादिरमूर्तो भावविशेषो यथोक्ताः सिद्धयुपायाश्चोपायाभिप्लुता इति। यत्तु द्रव्यभूतं तद्धमनादिषु योगमुपैति, तस्यापीयं परीक्षा,—इदमेवंप्रकृत्या एवंगुणमेवंप्रभावमस्मिन्देशजातमस्मिन्नतावेवं गृहीतमेवं निहितमेवमुपस्कृतमनया मात्रया युक्तमस्मिन् रोगे एवंविधस्य पुरुषस्यैतावन्तं दांपसपकर्षयत्युपशमयति वा यदन्यदपि चैवंविधं भेषज भवेत्तज्ज्ञानेन विशेषेण युक्तमिति ॥ ८९ ॥

भेषज (औषध) करण है। धातुसाम्यरूप कार्य के करने में प्रयत्न करते हुए वैद्य की जो वस्तु साधन होती हैं उसका नाम 'भेषज' है। यह

भेषज ( औषध ) आश्रय भेद से दो प्रकार की है । ( १ ) दैव-व्यपाश्रय और ( २ ) युक्तिव्यपाश्रय । इनमे दैवव्यपाश्रय मंत्र, ओषधि, मणि, मंगल, बलि, उपहार, होम, नियम, प्रायश्चित्त, उपवास, दान, स्वस्त्ययन, प्रणिपात ( विनय ), गमन आदि कार्य दैव का आश्रय करके धातुओं को समान करते हैं । युक्ति-व्यपाश्रय—संशोधन, उपशमन और दृष्ट फल चाली चेष्टाएं ( धावन, स्वप्न, जागरण आदि ) । यही भेषज अंग भेद से दो प्रकार का है । (१) अद्रव्य और (२) द्रव्य । इनमे जो अद्रव्य औषध है वह उपाय से व्याप्त है । भय दिखाना, विस्मय उत्पन्न करना, झिड़कना, बांधना, नींद लाना, अंग मर्दन आदि ( दौड़ना, तैरना आदि ) अमूर्त्त पदार्थों और चिकित्सा में सफलता देने वाले भिषग् आदि गुणों का होना ये उपाय है और जो औषध द्रव्य रूप हैं वह वमन आदि शोधन-शमन कार्यों में काम आते हैं । द्रव्य रूप (मूर्त्त) औषधि की ऐसी परीक्षा करनी उचित है कि इस औषधि की यह प्रकृति है, यह गुण है, ऐसा प्रभाव है, इस देश में उत्पन्न हुई है, इस ऋतु में संग्रह की गई है, इस प्रकार से रक्खी गई है, इस प्रकार के पुरुष को देने से इतने दोष को बाहर करती है अथवा शमन करती है । अन्य भी जो औषध इन या अन्य गुणों से युक्त थी, उसने भी दोषों का निष्कासन अथवा शमन किया था, इसलिये यह भी करेगी, इस प्रकार अन्यत्र प्रत्यक्ष करके यहां पर अनुमान से निश्चय करना चाहिये ।

कार्ययोनिर्धातुवैषम्यं, तस्य लक्षणं विकारागमः, परीक्षा त्वस्य विकारप्रकृतेश्चैवोनातिरिक्तलिङ्गविशेषावेक्षणं विकारस्य च साध्या-साध्यमृदुदारुणलिङ्गविशेषावेक्षणमिति ॥ ९० ॥

कार्ययोनि—धातुओं की विषमता 'कार्ययोनि' है । विकार का होना यह उसका लक्षण है । इस विकार की प्रकृति के वातादि दोषों के कम, अधिक, विशेष लक्षणों को देखना । इसी प्रकार से विकार का साध्य, असाध्य, मृदु, दारुण आदि विशेष लक्षणों से परीक्षा करनी चाहिये ।

काय धातुसाम्यं, तस्य लक्षणं विकारोपशमः, परीक्षा त्वस्य रुगपममनं स्वरवर्णयोगः शरीरोपचयः बलवृद्धिरभ्यवहार्याभिलाषो रुचिराहारकालेऽभ्यवहतस्य चाहारस्य काले सम्यग्जरणं निद्रालाभो यथाकालं वैकारिकाणां च स्वप्नानानामदर्शनं सुखेन च प्रतिबोधनं वातमूत्रपुरीषरैतसां मुक्तिश्च सर्वाकारैर्मनोबुद्धीन्द्रियाणां चाव्यापत्तिरिति ॥ ९१ ॥

कार्य—धातुओं का समान करना कार्य है। विकार का शान्त होना यह इसका लक्षण है। इसकी परीक्षा दर्द का शान्त होना है। स्वर और वर्ण का प्राकृत रूप में आजाना। शरीर की वृद्धि, बलवृद्धि, भोजन में इच्छा, आहार के समय रुचि होना, खाये हुए भोजन का आहारकाल में भली प्रकार जीर्ण होना, ठीक समय पर नींद आना, विकार (रोग) जन्य स्वप्नों का न दीखना, सुखपूर्वक जागना, प्रातः उठना, वायु, मूत्र, मल और शुक्र का ठीक समय पर त्याग होना, सब प्रकार से मन, बुद्धि और इन्द्रियों में सुख होना।

कार्यफलं सुखावाप्तिः। तस्य लक्षणं मनोबुद्धीन्द्रियशरीरमुष्टिः ॥ ९२ ॥

कार्यफल—सुख का प्राप्त होना। इसका लक्षण—मन, बुद्धि, इन्द्रिय और शरीर का प्रसन्न होना है।

अनुबन्धस्तु खल्वायुः, तस्य लक्षणं प्राणैः सहः संयोगः ॥ ९३ ॥

अनुबन्ध—आयु है, इसका लक्षण—प्राणों के साथ शरीर का सम्बन्ध बना रहना है।

देशस्तु भूमिरातुरश्च। तत्र भूमिपरीक्षा—आतुरपरिज्ञानहेतोर्वा स्यादौषधपरिज्ञानहेतोर्वा। तत्र तावदियमातुरपरिज्ञानहेतोः। तद्यथा कस्मिन्नयं भूमिदेशे जातः संवृद्धो व्याधितो वेति। तस्मिंश्च भूमिदेशे मनुष्याणामिदमाहारजातमिदं विहारजातमेतद्वलमेवंविधं सत्त्वमेवंविधं सात्म्यमेवंविधो दोषो भक्तिरियमिमे व्याधयो हितमिदमहि-

तमिदमिति ( प्रायोग्रहणेन ) । औषधपरिज्ञानहेतोस्तु कल्पेषु भूमि-  
परीक्षा वच्यते ॥ ९४ ॥

देश-देश भूमि और रोगी हैं । इनमें भूमि परीक्षा के ज्ञान का प्रयोजन रोगी के देश के कारण सात्म्य को समझने के लिये और औषधि के ज्ञान के लिये है । इनमें रोगी को समझने के लिये—जैसे-किस भूमि-खण्ड पर यह रोगी उत्पन्न हुआ है ? बढ़ा है ? रोगी हुआ है ? उस भूमि पर मनुष्यों का इस प्रकार का आहार है, इस प्रकार का विहार है, इस प्रकार का आचार है, इस प्रकार का बल, इस प्रकार का सत्त्व, इस प्रकार का सात्म्य, इस प्रकार के दोष, इस प्रकार की रुचि, इस प्रकार के रोग, यह हितकर, यह अहितकर है, यह भूमि परीक्षा कह दी । औषधि परिज्ञान के लिये भूमिपरीक्षा कल्पस्थान ( मदनफल-कल्प ) में कहेंगे ।

आतुरस्तु खलु कार्यदेशः, तस्य परीक्षा आयुषः प्रमाणज्ञान-  
हेतोर्वा स्याद्वलदोषप्रमाणज्ञानहेतोर्वाः तत्र तावदियं बलदोषप्रमाण-  
ज्ञानहेतोः—दोषप्रमाणानुरूपो हि भेषजप्रमाणविकल्पो बलप्रमाण-  
विशेषापेक्षो भवति । संहसा ह्यतिबलमौषधमपरीक्षकप्रयुक्तमल्पबल-  
मातुरमभिधातयेत्, न ह्यतिबलान्याग्नेयसौम्यवायवीयान्यौषधान्य-  
ग्निचारशस्त्रकर्माणि वा शक्यन्तेऽल्पबलैः सोढुम् । अविषह्यातितीक्ष्ण-  
वेगत्वाद्धि सद्यः प्राणहराणि स्युः । एतच्चैव कारणमपेक्षमाणा  
हीनबलमातुरमविषादकरैर्मृदुसुकुमारप्रायैरुत्तरोत्तर गुरुभिरविभ्रमैर-  
नात्ययिकैश्चोपचरन्त्यौषधैः, विशेषतश्च नारीः । ता ह्यनवस्थितमृदुवृ-  
त्तविकृत्वहृदयाः प्रायः सुकुमार्योऽबलाः परसंस्तभ्याश्च । तथा बलवति  
बलवद्द्वयाधिपरिगते स्वल्पबलमौषधमपरीक्षकप्रयुक्तमसाधकं  
भवति ॥ ९५ ॥

कार्यदेश—धातुसाम्य कार्य का देश अर्थात् आधार रोगी है । इसकी परीक्षा आयु के प्रमाण ज्ञान के लिये है । अथवा रोगी के बल और दोष को जानने के लिये रोगी रूपी देश की परीक्षा होती है ।

रोगी की बल-प्रमाण और दोष-प्रमाण की परीक्षा का प्रयोजन—  
 औषधि का प्रमाण दोष और बल रोग और रोगी दोनों को देख कर निर्वाचित  
 किया जाता है । क्योंकि यदि बहुत बलवती औषधि थोड़े बल वाले  
 रोगी को बिना परीक्षा किये दे दी जाय तो यह औषधि रोगी को मार देगी ।  
 क्योंकि अल्प बल वाले व्यक्ति, अति बल वाली, आग्नेय, वायवीय गुण से  
 युक्त ओषधियों को और अग्नि, क्षार और शस्त्र के कर्मों को सहन नहीं कर  
 सकते ॥ इनका वेग असह्य और अति तीक्ष्ण होने से ये वस्तुएं शीघ्र  
 प्राणनाशक होजाती हैं । इन कारणों को देख कर ही हीनबल वाले रोगी  
 की, खास कर स्त्री की चिकित्सा शरीर और मन में ग्लानि उत्पन्न न करने  
 वाली, मृदु-कोमल ओषधियों से तथा धीरे धीरे, उत्तरोत्तर वीर्य और परि-  
 माण में गुरु होते हुए भी व्यापत्ति ( विकार ) न करने वाली, सम्यक् प्रकार  
 से दी हुई ओषधियों से करते हैं । ये स्त्रियां अस्थिर, मृदु, अप्रकट भाव तथा  
 भीरु हृदय वाली, प्रायः सुकुमार, अबला होती हैं और थोड़ी सी भी  
 वेदना को सहन नहीं कर सकतीं और स्वयं अपने को कष्ट में नहीं संभाल  
 सकतीं, उनको दूसरे ही को संभालना पड़ता है ।

तस्मादातुरं परीक्षेत—प्रकृतितश्च विकृतितश्च सारतश्च संहन-  
 नतश्च प्रमाणतश्च सात्म्यतश्च सत्त्वतश्चाहारशक्तितश्च व्यायाम-  
 शक्तितश्च वयस्तश्चेति बलप्रमाणविशेषग्रहणहेतोः ॥ ९६ ॥

इसी प्रकार बलवान् रोगों में अथवा बलवान् रोग से आक्रान्त होने  
 पर स्वल्प बल वाली औषधि बिना परीक्षा के दी हुई, रोग को शमन करने  
 में समर्थ नहीं होती । इसलिये रोगी की परीक्षा ( निम्न साधनों से )  
 करनी चाहिये । यथा—

प्रकृति से, विकृति से, सार से, संहनन अर्थात् शरीर की बनावट से,  
 प्रमाण से, सात्म्य से, सत्त्व से, आहार शक्ति से, व्यायाम-शक्ति से, और

ॐ देखिये सुश्रुत, सूत्रस्थान में क्षार और अग्नि कर्म ।

वयस् (आयु) से रोगी के बल, प्रमाण विशेष को जानने के लिये इन गुणों से परीक्षा करनी चाहिये ।

तत्रामी प्रकृत्यादयो भावाः । तद्यथा—शुक्रशोणितप्रकृति कालगर्भाशयप्रकृतिमातुराहारविहारप्रकृतिं महाभूतविकारप्रकृतिं च गर्भशरीरमपेक्षते । एता हि येन येन दोषेणाधिकतमेनैकेनानेकेन वा समनुबध्यन्ते तेन तेन दोषेण गर्भोऽनुबध्यते । ततः सा सा दोषप्रकृतिरुच्यते मनुष्याणां गर्भादिप्रवृत्ता । तस्माद्वातलाः प्रकृत्या केचित्, पित्तलाः केचित्, श्लेष्मलाः केचित्, संसृष्टाः केचित्, समधातवः प्रकृत्या केचिद्भवन्ति ॥ ९७ ॥

इनमें प्रथम प्रकृति आदि का वर्णन करते हैं । गर्भ का शरीर जैसे शुक्र एवं शोणित की प्रकृति की, काल (समय) की, गर्भाशय की प्रकृति की, माता के आहार-विहार की, शुक्र, शोणित में मिले पंच महाभूत, शरीरात्मक भूतों की अपेक्षा करता है । ये शुक्र शोणित आदि प्रकृतियां जिस जिस वातादि दोष से एक अथवा एक से अधिक दो या तीन से सम्बद्ध होती हैं, उसी एक या अधिक दोष से गर्भ भी सम्बन्धित होजाता है । इससे मनुष्यों की गर्भ में बनी प्रकृति को उसी दोष की प्रकृति कहते हैं । उस उस दोष के बलवान् होने से वह वह प्रकृति होजाती है । इसीलिये कई श्लेष्मप्रकृति, कई पित्तप्रकृति और कई वातप्रकृति और कई मिश्रितप्रकृति, कई समधातु-प्रकृति के होते हैं । इनके लक्षण कहते हैं ।

तेषा हि लक्षणानि व्याख्यास्यामः—श्लेष्मा हि स्निग्धश्लक्ष्ण-मृदुमधुरसारसान्द्रमन्दस्तिमितगुरुशीतपिच्छिलाच्छः; तस्य स्नेहात् श्लेष्मलाः स्निग्धाङ्गाः, श्लक्ष्णत्वाच्छ्लक्ष्णाङ्गाः, मृदुत्वाद्दृष्टिसुखसुकुमारावदातगात्राः, माधुर्यात्प्रभूतशुक्रव्यवायापत्याः, सारत्वात् सारसंहतस्थिरशरीराः, सान्द्रत्वादुपचितपरिपूर्णसर्वगात्राः, मन्दत्वान्मन्दचेष्टाहारविहाराः, स्तैमित्यादशीघ्रारम्भाल्पक्षोभविकाराः, गुरुत्वा-



त्साराधिष्ठितावस्थितगतयः, शैत्यादल्पक्षुत्तृष्णासंतापस्वेददोषाः,  
पिच्छिलत्वात् सुश्लिष्टसारसन्धिबन्धनाः, तथाऽच्छत्वात्प्रसन्नदर्शना-  
ननाः प्रसन्नवर्णस्वराश्च । त एवंगुणयोगाच्छ्लेष्मला बलवन्तो वसुमन्तो  
विद्यावन्त ओजस्विनः शान्ता आयुष्मन्सश्च भवन्ति ॥ ९८ ॥

श्लेष्मा—कफ स्निग्ध, हलक्षण, मृदु, मधुर, सार, सान्द्र, मन्द, स्ति-  
मित ( घट्ट ), गुरु, शीत, पिच्छिल और निर्मल होता है । कफ के स्नेह  
गुण के कारण श्लेष्मप्रकृति के मनुष्य स्निग्ध अंगों वाले हलक्षण होने से  
चिकने अंग वाले, कोमल होने से आंखों को आनन्ददायक, सुकुमार,  
गौरवर्ण होते हैं । मधुरता होने से अधिक शुक्र, मैथुन शक्ति और संतान  
वाले होते हैं । सार के कारण इनका शरीर संहत, दृढ़, स्थिर होता है ।  
सान्द्रता के कारण से पुष्ट, सम्पूर्ण अंगों वाले, मन्द होने से चेष्टा, आहार  
और विहार में धीमे, स्तैमित्य ( आलस्य ) होने से देर में वाणी, मन  
शरीर के कार्य करने वाले एवं क्षोभ तथा मानस विकार वाले, गुरु के  
कारण हाथी के समान मन्द-मस्त चाल वाले, शीतता के कारण थोड़ी,  
भूख, प्यास, संताप तथा पसीने के दोष वाले, पिच्छिल होने से इनके  
मांसादि तथा सन्धि-बन्धन अच्छी प्रकार से संयुक्त होते हैं । निर्मल  
होने से प्रसन्नमुख, प्रसन्न और स्निग्ध वर्ण तथा स्वर वाले होते हैं ।  
इन गुणों के कारण कफप्रकृति के मनुष्य बलवान्, धनवान्, विद्यावान्,  
ओजस्वी, शान्त और दीर्घायु होते हैं । ॥

पित्तमुष्णं तीक्ष्णं द्रवं विस्त्रमम्लं कटुकं च, तस्यौष्ण्यात्पित्तला  
भवन्ति उष्णासहाः, उष्णमुखाः, सुकुमारावदातगात्राः, प्रभूत-  
पित्तुव्यङ्गतिलकपिडकाः, क्षुत्पिपासावन्तः, क्षिप्रवलीपलितस्खलि-  
त्यदोषाः, प्रायो मृद्वल्पकपिलश्मश्रुलोमकेशाः, तैक्ष्ण्यात्तीक्ष्णपरा-  
क्रमाः, तीक्ष्णाग्रयः, प्रभूताशनपानाः, क्लेशासहिष्णवो, दन्दशूकाः;  
द्रवत्वाच्छिथिलमृदुसन्धिबन्धमांसाः, प्रभूतसृष्टस्वेदमूत्रपुरीषाश्च;

॥ देखिये सुश्रुत शारीरस्थान ४र्थ अध्याय में इनके लक्षण ।

विस्रत्वाम्भूतपूतिकक्षास्यशिरःशरीरगन्धाः; कट्वम्लत्वादल्पशुक्रव्य-  
चायापत्याः; त एवंगुणयोगात्पित्तला मध्यबला मध्यायुषो मध्यज्ञान-  
विज्ञानवित्तोपकरणवन्तश्च भवन्ति ॥ ९९ ॥

पित्त—उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, विस्र (सड़ी गन्ध वाला), अम्ल-कटु रस  
होता है। पित्त के उष्ण होने से पित्त प्रकृति के मनुष्य उष्णिमा को न  
सहने वाले, शुष्क, कठोर, पीले शरीर वाले, बहुत पिप्पु ( फुंसियों )  
व्यंग ( मुख व्यंग ), और तिलपिडिका वाले, अधिक भूख और प्यास  
वाले होते हैं, इनके बाल शीघ्र ही पक जाते, गिर जाते हैं, तथा मुंह पर  
झुर्रियां आजाती हैं। ये प्रायः कोमल, थोड़ी एवं धूसर वर्ण दाड़ी-मूँछ  
वाले, अल्प लोम तथा अल्पकेश वाले होते हैं। तीक्ष्ण गुण के कारण—तीक्ष्ण  
पराक्रम वाले, तीक्ष्ण अग्नि वाले, बहुत खाने पीने वाले, क्लेश को न सहन  
करने वाले, दन्दशूक अर्थात् बार-बार खाने वाले होते हैं। द्रव होने से—  
शिथिल एवं मृदु सन्निवन्ध तथा मांस वाले होते हैं। इनको स्वेद-मूत्र  
और मल बहुत अधिक मात्रा में आता है। पित्त के अति दुर्गन्धयुक्त होने  
से इनके बाल, मुख, शिर और शरीर से बहुत दुर्गन्ध आती है। कटु  
अल्प होने से थोड़े शुक्र, मैथुन और न्यून संतान वाले होते हैं। इन गुणों  
के कारण पित्त प्रकृति का मनुष्य मध्यम बल, मध्यम आयु, मध्यम ज्ञान  
विज्ञान, मध्यम वित्त, और मध्यम उपकरणों वाले होते हैं।

वातस्तु रूक्षलघुचलबहुशीघ्रशीतपरुषविशदः। तस्य रौक्ष्या-  
द्वातला रूक्षापचिताल्पशरीराः, प्रततरूक्षक्षामभिन्नमन्दसक्तजर्जर-  
स्वराः, जागरूकाश्च भवन्ति। लघुत्वाच्च लघुचपलगतिचेष्टाहारव्या-  
हाराः चलत्वादनवस्थितसन्ध्यस्थिभ्रूह्रन्वोष्ठजिह्वाशिरःस्कन्धपाणिपादाः  
बहुत्वाद्बहुप्रलापकण्डरासिरावितानाः। शीघ्रत्वाच्छीघ्रसमारम्भक्षोभ-  
विकाराः, शीघ्रोत्रासरागचिरागाः, श्रुतप्राहिणोऽल्पस्मृतयश्च। शैत्या-  
च्छीतासहिष्णवः, प्रततशीतकोद्वेपकस्तम्भाः। पारुष्यात्परुषके-  
शश्मश्रुरोमनखदशनवदनपाणिपादाङ्गाः। वैशद्यात्स्फुटिताङ्गावय

वाः, सततसंधिशब्दगामिनश्च भवन्ति । त एवंगुणयोगाद्वातलाः प्रायेणाल्पबलाश्चाल्पायुषश्चाल्पापत्याश्चाल्पसाधनाश्चाधन्याश्च भवन्ति ॥ १०० ॥

वायु—रूक्ष, लघु, चल, प्रमाणादि भेद से अनेक प्रकार की, शीघ्रकारी, शीत, परुष, विशद ( अपच्छिल ) होती है । वायु के रूक्ष होने से वात प्रकृति के मनुष्य भी रूक्ष, कृश, एवं छोटे शरीर वाले, निरन्तर रूक्ष, क्षीण, फटे बांस के समान जर्जर, असंहत स्वर वाले, जागरणशील 'थोड़ी नॉद वाले' होते हैं । लघु होने से - शीघ्रकारी, अस्थिर गति, चेष्टा, आहार, व्यवहार वाले होते हैं । वात के चल होने से उनके भी सन्धि आँख, भौं, हनु, जवाड़ा, ओठ, जीभ, कंधा, हाथ-पाँव अस्थिर होते हैं । बहुत प्रकार का होने से, बहुत बोलने वाले, बहुत सिराओं के जाल वाले, शीघ्रगामी होने से सब कामों में जल्दी करने वाले, क्षोभ और मन के विकार वाले, जल्दी ही डरने वाले, स्नेह और द्वेष करने वाले, सुनते ही ग्रहण करने वाले, परन्तु स्मृति ( याददास्त ) के कच्चे होते हैं । शीतल होने से शीत को न सहन करने वाले, निरन्तर शीत, कम्प और उद्वेग तथा स्तम्भवृत्ति ( जड़ ) बने रहते हैं । कठोरता से—कठिन केश, श्मश्रु, लोम, नख, दाँत, मुख, हाथ, पाँव वाले होते हैं । वायु के विशद होने से उनके हाथ-पाँव फटते हैं, सन्धि बन्धनों में से निरन्तर शब्द निकला करता है, सन्धियाँ चलती रहती हैं, चैन से नहीं बैठते, कुछ न कुछ करते ही रहते हैं । इन गुणों के कारण वात प्रकृति के मनुष्य प्रायः अल्प बल, अल्प आयु, अल्पसंतान, अल्प साधन और अल्प धन वाले होते हैं ।

संसर्गात्संस्मृष्टलक्षणा । सर्वगुणसमुदितास्तु समधातवः । इत्येवं प्रकृतितः परीक्षेत ॥ १०१ ॥

दोषों के मिश्रित होने से लक्षण भी मिले जुले होते हैं । सब गुणों के मिलने से समधातुप्रकृति के होते हैं । इस प्रकार प्रकृति से परीक्षा करनी चाहिये ।

विकृतितश्चेति—विकृतिरुच्यते विकारः । तत्र विकारं हेतुदोषदूष्यप्रकृतिदेशकालबलविशेषैर्लिङ्गतश्च परीचेत, न ह्यन्तरेण हेत्वादीनां बलविशेषं व्याधिबलविशेषोपलब्धिः । यस्य हि व्याधेर्दोषदूष्यप्रकृतिदेशकालबलसाम्यं भवति महच्च हेतु लिङ्गबलं स व्याधिर्बलवान् भवति, तद्विपर्ययाच्चारूपबलः, मध्यबलस्तु दोषादीनामन्यतमसामान्याद्धेतुलिङ्गमध्यबलत्वाच्चोपलभ्यते ॥ १०२ ॥

विकृति से परीक्षा करनी चाहिये । विकृति का अर्थ विकार है । धातुओं की विषमता का नाम 'विकार' है । इसकी हेतु, दूष्य (रक्त आदि), दोष (वात आदि), प्रकृति ( वात-प्रकृति आदि ), देश, काल के बल तथा पूर्वरूप से परीक्षा करनी चाहिये । हेतु आदि के बल विशेष को जाने बिना रोग के विशेष बल का ज्ञान नहीं होता । जिस रोग में दोष, दूष्य, प्रकृति, देश, काल समान हों तथा हेतु और पूर्वरूप के लक्षण भी बलवान् हो, उस रोग को बलवान् समझना चाहिये । इसलिये यह असाध्य है । इनसे विपरीत हो तो निर्बल समझना चाहिये । जिस रोग में दोष-दूष्य आदि में से कोई एक असमान हो, तथा हेतु और पूर्वरूप के लक्षण भी मध्यम बल हों तो उस रोग को मध्यम बल समझना चाहिये ।

सारतश्चेति—साराण्यष्टौ पुरुषाणां बलमानविशेषज्ञानार्थमुपदिश्यन्ते । तद्यथा—त्वग्रक्तमांसमेदोस्थिमज्जशुक्रसत्त्वानि ॥ १०३ ॥

सार द्वारा परीक्षा करनी चाहिये—बल परिमाण को विशेष रूप से जानने के लिये पुरुषों में आठ प्रकार के सारों का उपदेश किया है, जैसे—त्वग्, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और सत्व । इनमें—

तत्र स्निग्धश्लक्ष्णमृदुप्रसन्नसूक्ष्माल्पगम्भीरसुकुमारलोमा सप्रभेव च त्वक् त्वक्साराणाम् । सा सारता सुखसौभाग्यैश्वर्योपभोगवुद्धिविद्यारोग्यप्रहर्षणान्यायुश्चानित्वरमाचष्टे ॥ १०४ ॥

त्वक् सार वाले पुरुष की त्वचा स्निग्ध, चिकनी, मृदु, प्रसन्न, सूक्ष्म, अल्प, गम्भीर, कोमल लोमवाली और प्रभा (कान्ति) से युक्त होती है । इस

प्रकार की सारता, सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य उपभोग, बुद्धि, विद्या, आरोग्यता, प्रहर्ष और दीर्घ आयुष्य को बतलाती है ।

कर्णाक्षिमुखजिह्वानासौष्ठपाणिपादतलनखललाटमेहनं स्निग्ध-  
रक्तं श्रीमत् भ्राजिष्णुरक्तसाराणां । सा सारता सुखमुदप्रतां मेधां मन-  
स्वित्वं सौकुमार्यमनतिबलमक्लेशसहिष्णुत्वमुष्णासहित्वं चाचष्टे ॥१०५॥

रक्तसार वाले पुरुषों के कान, आंख, मुख, जिह्वा, नाक, ओष्ठ, हाथ पांव के तलुवे, नख, मस्तक, लिंग स्निग्ध और रक्त वर्ण के, शोभा और दीप्ति से युक्त होते हैं । इस प्रकार की रक्त-सारता, व्यक्ति के सुख, विपुल बुद्धि, मनस्विता, सुकुमारता, मध्यम बल, क्लेश न सहन करने का स्वभाव और गर्मी न सह सकने की प्रकृति को बतलाती है ।

शङ्खललाटकृकाटिकाक्षिगण्डहनुग्रीवास्कन्धोदरकक्षवक्षःपाणिपा-  
दसंधयः गुरुस्थिरमांसोपचिता मांससाराणां । सा सारता क्षमां  
घृतिमलौल्य वित्तं विद्यां सुखमार्जवमारोग्यं बलमायुश्च  
दीर्घमाचष्टे ॥ १०६ ॥

मांस-सार वाले पुरुषों में शंख ( कनपटी ), मस्तक, कृकाटिका ( घाटा, गलघेंटी ), आंख, गण्डस्थल, ठोड़ी, ग्रीवा, स्कन्ध, पेट, कोख, छाती, पांव, हाथ तथा सन्धियां-स्थिर, गुरु और मांस से भरी होती हैं । यह मांस-सारता क्षमा, घृति, निर्लोभता, वित्त, विद्या, सुख, सरलता, आरोग्यता, बल और दीर्घ-आयु को बतलाती है ।

वर्णस्वरनेत्रकेशलोमनखदन्तौष्ठमूत्रपूरीषेषु विशेषतः स्नेहो  
मेदःसाराणां । सा सारता वित्तैश्वर्यसुखोपभोगप्रदानान्यार्जवं  
सुकुमारोपचारतां चाचष्टे ॥ १०७ ॥

मेदःसार वाले पुरुषों में—वर्ण, स्वर, नेत्र, केश, लोम, नख, दांत, ओठ, मूत्र, पूरीप और विशेष कर स्नेह ( चिकनाई ) होता है । यह सारता वित्त, ऐश्वर्य, सुखकर उपभोग, सरलता और सुकुमारता को बतलाती है ।

पार्श्विण्गुल्फजान्वरत्रिजत्रुचिबुकशिरःपर्वस्थूलाःस्थूलाःस्थिनखद-  
न्ताश्चास्थिसाराः । ते महोत्साहाः क्रियावन्तः क्लेशसहाः सारस्थिर-  
शरीरा भवन्त्यायुष्मन्तश्च ॥ १९८ ॥

अस्थि सार वाले पुरुषों में एड़ी, टखना, गोडा, कलाई, हंसली,  
( भुजा की सन्धि ), चिबुक ( ढोड़ी ), शिर, पोरू (पर्व) मोटे होते हैं;  
नख, दांत और आस्थियां मोटी होती हैं । अस्थिसार वाले मनुष्य  
बड़े उत्साह वाले, क्रियावान्, क्लेश सहने वाले, सार के कारण स्थिर  
शरीर वाले और आयुष्मान् होते हैं ।

तन्वङ्गा बलवन्तः स्निग्धवर्णस्वराः स्थूलदीर्घवृत्तसंध्यश्च मज्ज-  
साराः । ते दीर्घायुषो बलवन्तः श्रुतवित्तविज्ञानापत्यसंमानभाजश्च  
भवन्ति ॥ १०९ ॥

मज्जासारवाले पुरुष छोटे या मृदु अंगवाले बलवान्, स्निग्ध वर्ण और  
स्वर वाले, स्थूल, लम्बी, गोल सन्धिवाले होते हैं । ये पुरुष दीर्घायु, बलवान्,  
श्रुतवान्, विज्ञानवान्, वित्तवान्, अपत्यवान् और संमानवान् होते हैं ।

सौम्याः सौम्यप्रेक्षिणश्च क्षीरपूर्णलोचना इव प्रहर्षबहुलाः स्निग्धवृत्त-  
सारसमसंहतशिखरिदशनाः प्रसन्नस्निग्धवर्णस्वरा भ्राजिष्णवो महा-  
स्फिचश्च शुक्रसाराः । ते स्त्रीप्रियाः प्रियोपभोगा बलवन्तः सुखैश्वर्या-  
रोग्यवित्तसंमानापत्यभाजश्च भवन्ति ॥ ११० ॥

शुक्र सार वाले पुरुष सौम्यमूर्ति, सौम्य दृष्टि, देखने से ही तृप्त  
करने वाले, दूध से पूर्ण आंख वाले, अत्यन्त कामोत्तेजना वाले, स्निग्ध,  
वृत्त वाले, सारवान्, एक समान मिले अंगों और उन्नत दांतों वाले, प्रसन्न-  
स्निग्ध वर्ण स्वर वाले, दीप्तिमान्, बड़े नितम्ब प्रदेश वाले होते हैं । ये  
पुरुष स्त्रियों के प्रिय, उपभोग को चाहने वाले, बलवान्, सुख-ऐश्वर्य,  
आरोग्यता, धन और संतान वाले होते हैं ।

स्मृतिमन्तो भक्तिमन्तः कृतज्ञाः प्राज्ञाः शुचयो महोत्साहा  
दृढा धीराः समरविक्रान्तयोधिनस्त्यक्तविषादाः स्ववस्थितगतिग-

गम्भीरबुद्धिचेष्टाः कल्याणाभिनिवेशिनश्च सत्त्वसाराः । तेषां स्वलक्षणं  
गौरव गुणा व्याख्याताः ॥ १११ ॥

सत्त्व ( ओज ) सार वाले पुरुष स्मृतिमान्, भक्तिमान्, कृतज्ञ, प्राज्ञ,  
शुचिस्वभाव, महोत्साही, दक्ष, धीर, लड़ाई में पराक्रम पूर्वक लड़ने वाले,  
शोकरहित, सुव्यवस्थित गति वाले, गम्भीर बुद्धि एवं चेष्टाशील, शुभ  
कार्यों में ध्यान लगाने वाले होते हैं । इनके लक्षणों से ही इनके गुण कह  
दिये हैं ।

तत्र सर्वैः सारैरुपेताः पुरुषा भवन्त्यतिबलाः परमगौरवयुक्ताः  
क्लेशसहा सर्वाग्भेष्वात्मनि जातप्रत्ययाः कल्याणाभिनिवेशिनः  
स्थिरसमाहितशरीराः सुसमाहितगतयः सानुनादस्त्रिग्धगम्भीरमहा-  
स्वराः सुखैश्वर्यवित्तोपभोगसंमानभाजो मन्दजरसो मन्दविकाराः  
प्रायस्तुल्यगुणविस्तीर्णापत्याश्चिरजीविनश्च भवन्ति ॥ ११२ ॥

[ इनमें सब सारों की विशेषता से बल प्रमाण तीन प्रकार का है ।  
यथा—उत्तम, मध्यम और अधम ।] इनमें जो पुरुष उपरोक्त आठों प्रकार  
के उत्तम सारों से युक्त होते हैं, वे अति बलवान्, अत्यन्त सुख से  
युक्त, क्लेश सहने वाले, सब कार्यों में समर्थ होने से प्रयत्नवान्, शुभ  
कार्यों में मन लगाने वाले, स्थिर और संहत शरीर वाले, सुधीर गतिवाले,  
प्रतिध्वनि से युक्त स्निग्ध, गम्भीर एवं महान् स्वर वाले; सुख-ऐश्वर्य,  
वित्त, संमान का भोग करने वाले, अल्पजरा वाले, थोड़े रोग वाले, प्रायः  
अपने ही समान तुल्य गुण वाले, बहुत से चिरजीवी पुत्रोंवाले होते हैं ।

अतो विपरीतास्त्वसाराः ॥ ११३ ॥

इन उपरोक्त लक्षणों से विपरीत लक्षणों वाले पुरुष सारहीन होते हैं ।

मध्यानां मध्ये. सारविशेषैर्गुणविशेषा व्याख्याता भवन्ति ।  
इति साराण्यष्टौ पुरुषाणां बलप्रमाणविशेषज्ञानार्थान्युपदिष्टानि  
भवन्ति ॥ ११४ ॥

प्रवर और अवर के मध्यम्य सार विशेषों से मध्यमसार के

पुरुष होते हैं । इस मध्यम सार से ही इनके गुण समझ लेने चाहियें । इस प्रकार से बल-प्रमाण को विशेष रूप में जानने के लिये इन सारों की व्याख्या कर दी है ।

कथं नु शरीरमात्रदर्शनादेव भिषङ् मुह्येदयमुपचितत्वाद्वलवान्, अयमल्पबलः कृशत्वात्, महाबलवानयं महाशरीत्वात्, अयमल्प-शरीरत्वादल्पबल इति; दृश्यन्ते ह्यल्पशरीराः कृशाश्चेके बलवन्तः, तत्र पिपीलिकाभारहरणवत्सिद्धिः । अतश्च सारतः परीक्षे-तेत्युक्तम् ॥ ११५ ॥

वैद्य केवल शरीरमात्र के दर्शन से किस प्रकार धोखा खा जाता है ? भरा पूरा शरीर होने से यह बलवान् है, यह मनुष्य कृश होने से अल्प बल वाला है, इसका शरीर बड़ा है, इससे यह मनुष्य बड़ा भारी बलवान् है । यह अल्प शरीर होने से अल्प बल वाला है इत्यादि । परन्तु देखा जाता है कि अल्प शरीर वाले और पतले दुबले व्यक्ति भी बलवान् होते हैं । जिस प्रकार चिउंटी अपने से तिगुने चौगुने बोज़ को भी उठा लेती है, उसी प्रकार पतले व्यक्ति भी सार के कारण बलवान् होते हैं और वे अनेक कार्य कर लेते हैं । इस कारण भी सार से परीक्षा करनी चाहिये यह कहा है ।

संहननतश्चेति—संहननं संघातः संयोजनमित्येकोऽर्थः । तत्र समसुविभक्तास्थिसुबद्धसंधिसुनिविष्टमांसशोणितं सुसंहतं शरीरमित्युच्यते । तत्र सुसंहतशरीराः पुरुषा बलवन्तो विपर्ययेणाल्पबलाः, प्रवरावरमध्यत्वात्संहननस्य मध्यबला भवन्ति ॥ ११६ ॥

संहनन अर्थात् शरीर की बनावट से भी परीक्षा करनी चाहिये । संहनन, संघात और संयोजन ये सब शब्द समानार्थक हैं । जिसकी अस्थियां सम-अनुपात में विभक्त हो, सन्धियां खूब बंधी, मांस और रक्त अच्छी प्रकार से शरीर में भरा हो, उसको भली प्रकार संहत शरीरवाला कहते हैं । सुसंहत शरीर वाले पुरुष बलवान् होते हैं । इसके विपरीत शरीर वाले पुरुष अल्प बल, मध्य शरीर वाले पुरुष मध्यम बल होते हैं ।



प्रमाणतश्चेति— शरीरप्रमाणं पुनर्यथास्वेनाङ्गुलिप्रमाणेनोपदे-  
क्ष्यते उत्सेधविस्तारायामैर्यथाक्रमम् । तत्र पादौ चत्वारि षट् चतु-  
र्दश चाङ्गुलानि, जंघे त्वष्टादशाङ्गुले षोडशाङ्गुलपरिक्षेपे, जानुनी  
चतुरङ्गुले षोडशाङ्गुलपरिक्षेपे, त्रिशदङ्गुलपरिक्षेपावष्टादशाङ्गुला-  
वूरू, षडङ्गुलदीर्घौ वृषणावष्टाङ्गुलपरिणाहौ, शेषः षडङ्गुलदीर्घं  
पञ्चाङ्गुलपरिणाहं, द्वादशाङ्गुलपरिमितो भगः षोडशाङ्गुलविस्तारा  
कटी, दशाङ्गुलं वस्तिशिरः, दशाङ्गुलविस्तारं द्वादशाङ्गुलमुदरं,  
दशाङ्गुलविस्तीर्णं द्वादशाङ्गुलायामे पार्श्वे, द्वादशाङ्गुलविस्तारं स्तना-  
न्तरं, द्वयङ्गुलं स्तनपर्यन्तं, चतुर्विंशत्यङ्गुलविशालं द्वादशाङ्गुलोत्सेध-  
सुरः, द्वयङ्गुलं हृदयं, अष्टाङ्गुलौ स्कन्धौ, षडङ्गुलावंसौ, षोडशाङ्गुलौ  
प्रवाहू. पञ्चदशाङ्गुलौ प्रपाणी, हस्तौ दशाङ्गुलौ, कक्षावष्टाङ्गुलौ,  
त्रिकं द्वादशाङ्गुलोत्सेधं, अष्टादशाङ्गुलोत्सेधं पृष्ठं, चतुरङ्गुलोत्सेधा  
द्वाविंशत्यङ्गुलपरिणाहा शिरोधरा, द्वादशाङ्गुलोत्सेधं चतुर्विंशत्यङ्गुल-  
परिणाहमाननं, पञ्चाङ्गुलमास्यं, चिवुकौष्ठकर्णाक्षिमध्यनासिका-  
ललाटं चतुरङ्गुलं, षोडशाङ्गुलोत्सेधं द्वात्रिंशदङ्गुलपरिणाहं शिर-  
इति पृथक्त्रेनाङ्गावयवानां मानमुक्तम् । केवलं पुनः शरीरमङ्गुलि-  
पत्राणि चतुरशीतिस्तदायामविस्तारसमं समुच्यते । तत्रायुर्बलमोजः-  
सुखमैश्वर्यं वित्तमिष्टाश्रापरे भावा भवन्त्यायत्ताः प्रमाणवति शरीरे,  
विपर्ययस्त्वतो हीनेऽधिके वा ॥ ११७ ॥

प्रमाण द्वारा शरीर की परीक्षा करनी चाहिये । शरीर का प्रमाण  
प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अंगुलियों से माप कर जानना चाहिये । उत्सेध  
( ऊँचाई ), विस्तार ( व्यास, चौड़ाई ), आयाम लम्बाई ये क्रमानुसार  
कहेंगे । इनमें—पाँव की ऊँचाई ४, चौड़ाई ६ और लम्बाई चौदह  
अंगुल हो । टाँगें ( घुटने से नीचे टखने तक का भाग ) लम्बाई में अट्टारह  
अंगुल, घेर में १६ अंगुल, घुटने लम्बाई में ४ अंगुल और घेर में १६  
अंगुल, जाँघें घेर में १० अंगुल, लम्बाई में और १८ अंगुल, वृषण ६ अंगुल

लम्बे और गोलाई में आठ अंगुल, शिश्न (लिंग) छ'अंगुल लम्बा और गोलाई में पांच अंगुल (सुश्रुत में ४ अंगुल), भग (स्त्रीगुह्यांग) १२ अंगुल, कटी १६ अंगुल चौड़ी, वस्ति का शिर (मेढू की जड़ से नाभि प्रदेश तक पेड़) १० अंगुल लम्बा, नाभि से ऊपर और छाती से नीचे लम्बाई में पेट १२ अंगुल लम्बा और १० अंगुल चौड़ा, पार्श्व (दोनों पार्श्व) १० अंगुल चौड़े और १२ अंगुल लम्बे, स्तनों के बीच का अन्तर १२ अंगुल चौड़ा, स्तनप्रान्त दो अंगुल, छाती १२ अंगुल ऊंची, २४ अंगुल चौड़ी, (सुश्रुत में १८ अंगुल चौड़ी छाती कही है, यह स्त्री की समझनी चाहिये), हृदय दो अंगुल, स्कन्ध ८ अंगुल, भुजासंधि (अंस) ६ अंगुल, प्रवाहू (कंधे से नीचे कोहनी तक का भाग) १६ अंगुल, प्रपाणि (कलाई से कोहनी तक का भाग, प्रकोष्ठ) १५ अंगुल, हाथ १० अंगुल, (उसमें भी मध्यम अंगुलि ५ अंगुल, प्रदेशिनी और अनामिका ४॥ अंगुल, कनिष्ठा और अंगुष्ठ ३॥ अंगुल), दोनों कक्षा ८ अंगुल, त्रिक १२ अंगुल ऊंचा, पीठ १८ अंगुल ऊंची, ग्रीवा ४ अंगुल ऊंची और घेरा २४ अंगुल, मुख (मस्तक से ठोड़ी तक) १२ अंगुल और २४ अंगुल घेर वाला, खुला मुख ५ अंगुल, चिबुक, (ढाड़ी) कान, ओष्ठ, आंखों के बीच का मध्य भाग, नासिका और ललाट ये प्रत्येक चार अंगुल, शिर १६ अंगुल लम्बा, ऊंचा और ३२ अंगुल घेर वाला होता है। इस प्रकार से पृथक् पृथक् अंगों का माप कह दिया है। सम्पूर्ण शरीर पांव से आरम्भ करके शिर तक सारा ८४ अंगुल होता है (सुश्रुत में एक सौ बीस अंगुल लम्बाई कही है। यह परिमाण पांव की अग्र अस्थि से लेकर हाथों को ऊंचे उठाये हुए पुरुष का समझना चाहिये।)

प्रमाण तीन प्रकार का है, सम, हीन और अधिक। इनमें जो शरीर लम्बाई और विस्तार में उपरोक्त कहे हुए प्रमाण के समान हो वह 'सम-प्रमाण' समझना चाहिये। इस प्रकार के समप्रमाण वाले शरीर में आयु, बल, भोज, सुख, ऐश्वर्य, धन और अन्य शुभ भाव रहते हैं। इस

समपरिमाण से हीन वा अधिक में ये गुण ( आयु आदि ) नहीं रहते ।

सात्म्यतश्चेति—सात्म्यं नाम तद्यत्सातत्येनोपयुज्यमानमुपशेते । तत्र ये घृतक्षीरतैलमांसरससात्म्यासर्वरससात्म्याश्च, ते बलवन्तः क्लेशसहाश्विरजीविनश्च भवन्ति । रुक्षसात्म्याः पुनरेकरससात्म्याश्च ये, ते प्रायेणाल्पबलाश्चाक्लेशसहा अल्पायुषोऽल्पसाधनाश्च । व्यामिश्रसात्म्यास्तु ये, ते मध्यबलाः सात्म्यनिमित्ततो भवन्ति ॥ ११८ ॥

सात्म्य से परीक्षा करनी चाहिये । जिसके निरन्तर अभ्यास से सुख मिलता है, उसको 'सात्म्य' कहते हैं । इसमें जो पुरुष घी, तैल, दूध, मांस रस का सेवन निरन्तर करते हैं तथा जिनको सब सात्म्य है, वे बलवान् क्लेश सहने वाले और दीर्घायु होते हैं । जिन पुरुषों को रुक्ष पदार्थ सात्म्य हैं और जो एक ही रस का अभ्यास करते हैं, वे पुरुष प्रायः करके अल्प-बल, थोड़ा कष्ट उठाने वाले, अल्पायु, अल्पक्रिया से गुजारा करने वाले होते हैं । प्रवर और अवर इस मिश्रित सात्म्य वाले पुरुष मध्य सात्म्य के कारण मध्यम बल होते हैं । इसलिये मध्य क्लेश सहन करने वाले, मध्यमायु होते हैं ।

सत्त्वतश्चेति—सत्त्वमुच्यते मनः, तच्छरीरस्य तन्त्रकमात्मसंयोगात् । तत्रिविधं बलभेदेन—प्रवरं मध्यमवरं चेति । अतश्च प्रवरमध्यावरसत्त्वाश्च भवन्ति पुरुषा । तत्र प्रवरसत्त्वा स्वल्पाः, ते सारेपूपदिष्टाः, स्वल्पशरीरा ह्यपि ते निजागन्तुनिमित्तासु महतीष्वपि पीडास्वव्यग्रा दृश्यन्ते, सत्त्वगुणवैशेष्यात् । मध्यसत्त्वास्त्वपरानात्मन्युपनिधाय संस्तम्भयन्त्यात्मनाऽऽत्मानं परैर्वाऽपि संस्तम्भयन्ते, हीनसत्त्वास्तु नात्मना, न च परैः सत्त्वबलं प्रति शक्यन्ते उपस्तम्भयितुं, महाशरीरा ह्यपि ते स्वल्पानामपि वेदनानामसहा दृश्यन्ते, संनिहितभयशोकलोभमोहमाना रौद्रभैरवद्विष्टबीभत्सविकृतसंकथास्वपि च पशुपुरुषमांसशोणितानि चावेद्य विषादवैवर्ण्यमूर्च्छोन्मादभ्रमप्रपतनानामन्यतममाप्नुवन्त्यथवा मरणमिति ॥ ११९ ॥

सत्त्व से परीक्षा करनी चाहिये । सत्त्व का अर्थ मन है । यह मन आत्मा के साथ मिलकर इस शरीर को ( इन्द्रियों को ) प्रेरित करता है । यह सत्त्व संज्ञा वाला मन बल के भेद से प्रवर, मध्य और अवर यह तीन प्रकार का है । इसलिये प्रवर सत्त्व ( शुद्ध ), मध्यम सत्त्व ( राजस ) और अवर सत्त्व ( तामस ) प्रकृति के मनुष्य होते हैं । इनमें प्रवर सत्त्वों का वर्णन 'सत्त्वसार' ओज के वर्णन में ( स्मृतिमान् आदि से ) कह दिया है । ये प्रवर सत्त्व वाले व्यक्ति छोटे शरीर के होने पर भी शारीरिक एवं आगन्तुज, बड़े रोगों में भी ( तीव्र दर्दों में भी ) व्यथारहित दीखते हैं, बड़ी पीड़ा को भी कुछ नहीं मानते । इसका कारण सत्त्वगुण की अधिकता है । ये अपने आत्मा से ही अपने को सम्भाल लेते हैं । मध्यम सत्त्व पुरुष तीव्र वेदना को असह्य देख कर वेदना में अपने को अपने आप रोकते हैं, अथवा दूसरे पुरुष इनको सम्हालते हैं । हीन सत्त्व वाले पुरुष स्वयं अपने को सम्भाल नहीं सकते और नहीं दूसरे इनको सम्भाल सकते हैं । ये हीनसत्त्व पुरुष बड़े शरीर वाले होकर भी थोड़ी सी पीड़ा को भी सहन नहीं कर सकते । ये पुरुष भय, शोक, लोभ, मोह, अपमान, रौद्र, भैरव, द्विष्ट, बीभत्स और विकृत कथाओं में, और पशु-मनुष्य के मांस-रक्त आदि को देख कर विषाद, विवर्ण, मूर्च्छा, उन्माद, अम, पतन इनमें से किसी एक के वश होजाते हैं, अथवा मर जाते हैं ।

आहारशक्तितश्चेति,—आहारशक्तिरभ्यवहरणशक्त्या जरणशक्त्या च परीक्ष्या, बलायुषी ह्याहारयत्ते ॥ १२० ॥

आहार शक्ति से परीक्षा करनी चाहिये—आहार शक्ति की परीक्षा भोजन करने और उसको पचा लेने की शक्ति से करनी चाहिये । क्योंकि बल और आयु आहार के ही अधीन हैं ।

व्यायामशक्तितश्चेति—व्यायामशक्तिरपि कर्मशक्त्या परीक्ष्या, कर्मशक्त्या ह्यनुमीयते बलत्रैविध्यम् ॥ १२१ ॥

व्यायाम शक्ति से परीक्षा करनी चाहिये—व्यायाम शक्ति की

परीक्षा शरीर में परिश्रम उत्पन्न करने वाले कर्म से करनी चाहिये । कर्म शक्ति से तीनों प्रकार का प्रवर, मध्यम और भवर बल जाना जाता है ।

वयस्तश्चेति, कालप्रमाणविशेषापेक्षिणी हि शरीरावस्था वयोऽभिधीयते । तद्वयो यथास्थूलभेदेन त्रिविधं—बालं मध्यं जीर्णमिति । तत्र बालमपरिपक्वधातुमजातव्यञ्जनं सुकुमारमङ्गेशसहमसंपूर्णबलं श्लेष्मधातुप्रायमाषोडशवर्षं, विवर्धमानधातुगुणं पुनः प्रायेणानवस्थितसत्त्वमात्रिशद्वर्षमुपदिष्टं, मध्यं पुनः समत्वागतबलवीर्यपौरुषपराक्रमग्रहणधारणस्मरणवचनविज्ञानसर्वधातुगुणं बलस्थितमवस्थितसत्त्वमविशीर्यमाणधातुगुणं पित्तधातुप्रायमाषष्टिवर्षमुपदिष्टं अतः पर परिहीयमानधात्विन्द्रियबलवीर्यपौरुषपराक्रमग्रहणधारणस्मरणवचनविज्ञानं भ्रश्यमानधातुगुणं वातधातुप्रायं क्रमेण जीर्णमुच्यते आवर्षशतं, वर्षशतं खल्वायुषः प्रमाणमस्मिन्काले । सन्ति पुनरधिकोनवर्षशतजीविनो मनुष्याः । तेषां विकृतिवर्जैः प्रकृत्यादिवलविशेषैरायुषो लक्षणतश्च प्रमाणमुपलभ्य वयसस्त्रित्वं विभजेत ॥ १२२ ॥

आयु से परीक्षा करनी चाहिये—विशेष कालपरिमाण की अपेक्षा से शरीर की अवस्था का नाम 'वयस्' कहा जाता है । यह वयस् अवस्था भेद से तीन प्रकार का है । ( १ ) बाल, ( २ ) मध्य और ( ३ ) जीर्ण इनमें बाल वयस् तीस वर्ष तक है । इसमें भी १६ वर्ष तक रस, रक्त आदि धातु अपरिपक्व रहते हैं । दाढ़ी-मूँछ आदि लक्षण स्पष्ट नहीं होते, शरीर सुकुमार, ङ्गेश न सहने वाला, असम्पूर्ण बल वाला होता है । इस अवस्था में कफ धातु अधिक होता है । प्रायः करके मन अस्थिर, धातु लगातार बढ़ रहे होते हैं । मध्यम वयस्—तीस से ऊपर और ६० से नीचे तक की आयु है । बल, वीर्य, विक्रम, पौरुष, पराक्रम, अर्थ का ग्रहण, शब्द आदि का धारण, स्मरण, वचन, विज्ञान, तथा सब धातुओं के गुण, समान अवस्था में पहुँचे होते हैं । इस समय बल स्थिर रहता

है, मन निश्चल होजाता है, धातुओं के गुण नष्ट नहीं होते, पित्त प्रधान रहता है। जीर्ण वयस्—६० वर्ष से ऊपर और १०० वर्ष के बीच के समय को जीर्ण वयस् कहते हैं। इस समय में धातु, इन्द्रिय, बल, वीर्य, पौरुष, पराक्रम, ग्रहण, धारण, स्मरण, वचन, विज्ञान एवं धातुओं के गुण क्रमशः क्षीण हो रहे होते हैं। शरीर में वायु की प्रधानता रहती है। इसलिये इस अवस्था को जीर्ण-अवस्था कहते हैं।\*

इस काल में सौ वर्ष से अधिक या कम जीने वाले पुरुष भी हैं। इन पुरुषों में विकृति को छोड़ कर अन्य प्रकृति आदि बल विशेष से तथ इन्द्रिय स्थान में और शरीर स्थान में कहे हुए लक्षणों से आयु का प्रमाणात् जान कर आयु के तीन विभाग करने चाहियें।

एवं प्रकृत्यादीनां विकृतिवर्ज्यानां भावानां प्रवरमध्यावरविभागेन बलविशेषं विभजेत्। विकृतिबलत्रैविध्येन तु दोषबलं त्रिविधमनुमीयते। ततो भैषज्यस्य तीक्ष्णमृदुमध्यविभागेन त्रित्वं विभज्य यथादोषं भैषज्यमवचारयेदिति ॥ १२३ ॥

इस प्रकार से विकृति को छोड़ कर प्रकृति से आरम्भ करके वयस् के अन्त तक कहे हुए गुणों से प्रवर, अवर और मध्य विभाग करके इसके अनुसार रोग के बल का प्रवर, अवर और मध्य विभाग करना चाहिये। विकृति बल के भी तीन विभाग करके उनसे दोषों के तीन प्रकार के बलों का अनुमान किया जाता है। इसके अनन्तर औषध का भी तीक्ष्ण, मृदु और मध्य रूप से विभाग करके दोष एवं बल के औषध का प्रवर, मध्य और अवर रूप से प्रयोग करे।

आयुषः प्रमाणाज्ञानहेतोः पुनरिन्द्रियेषु जातिसूत्रीये च लक्षणान्युपदेक्ष्यन्ते ॥ १२४ ॥

\* सुश्रुत ने आयु का विभाग दोषों के संचय काल की दृष्टि से किया है। चरक में धातुओं की वृद्धि, साम्य और क्षय की दृष्टि से किया है, यह ध्यान रखना चाहिये।

आयु के प्रमाण को जानने के लिये लक्षण इन्द्रियस्थान में तथा शारीर स्थान के जातिसूत्रीय अध्याय में कहेंगे ।

कालः पुनः संवत्सरश्चातुरावस्था च । तत्र संवत्सरो द्विधा त्रिधा षोढा द्वादशधा भूयश्चाप्यतः प्रविभज्यते तत्तत्कार्यमभिसमीक्ष्य । तं तु खलु तावत्षोढा प्रविभज्य कार्यमुपदेक्ष्यते—हेमन्तो ग्रीष्मो वर्षाश्चेति शीतोष्णवर्षलक्षणास्त्रय ऋतवो भवन्ति । तेपामन्तरेध्वितरे साधारणलक्षणास्त्रय ऋतवः प्रावृट्शरद्वसन्ता इति । प्रावृडिति प्रथम प्रवृष्टेः कालः, तस्यानुबन्धो हि वर्षाः । एवमेते संशोधनमधिकृत्य षड् विभज्यन्ते ऋतवः ॥ १२५ ॥

काल—संवत्सर और रोगी की अवस्था का नाम 'काल' है । इनमें संवत्सर अयन भेद से दो प्रकार का, शीत, उष्ण, वर्षा भेद से तीन प्रकार का, ऋतु विभाग से छः प्रकार का, मास भेद से बारह प्रकार का, पक्ष भेद से चौबीस प्रकार का, और दिन, प्रहरादि के भेद से अनेक प्रकार का है । कार्य की दृष्टि से इसका विभाग किया जाता है । यहां पर वर्ष का ऋतु विभाग से छ' प्रकार का विभाग करके इसके कार्य को कहेंगे । हेमन्त, ग्रीष्म और वर्षा रूप से शीत, उष्ण और वरसात के लक्षणों वाली मुख्यतः तीन ऋतुओं के बीच में भी दूसरी साधारण लक्षणों वाली तीन ऋतुएं होती हैं । यथा—प्रावृट्, शरद् और वसन्त अर्थात् प्रवृष्टि इसका प्रथम प्रारम्भ काल होना 'प्रावृट्' है । इसका पिछला भाग वर्षा ऋतु । इस प्रकार से संशोधनाधिकार में हेमन्त, वसन्त, ग्रीष्म, प्रावृट् वर्षा और शरद् ये ऋतुएँ कह दी हैं ।

तत्र साधारणलक्षणेष्वृत्तुषु वमनादीनां प्रवृत्तिर्विधीयते, निवृत्तिरितरेषु । साधारणलक्षणा हि मन्दशीतोष्णवर्षत्वात् सुखतमाश्च भवन्त्यविकल्पकाश्च शरीरौषधानां, इतरे पुनरत्यर्थशीतोष्णवर्षत्वाद् दुःखतमाश्च भवन्ति विकल्पकाश्च शरीरौषधानाम् ॥ १२६ ॥

इनमें साधारण लक्षणों वाले समय में जब न बहुत शीत और न

बहुत गरमी हो, जैसे प्रावृत्, शरद् और वसन्त ऋतु में वमन आदि कार्यों के करने का विधान है । अन्य तीन, अधिक शीत, अधिक उष्ण, अधिक वृष्टि, हेमन्त, ग्रीष्म और वर्षा इन ऋतुओं में वमनादि कार्य नहीं किये जाते । क्योंकि साधारण लक्षणों वाली ऋतुएं मन्द शीत, मन्द उष्ण और मन्द वर्षा वाली होने से शरीर के लिये अति सुखकारक एवं ओषधियों का नाश न करने वाली होती हैं । इसलिये उनमें वमन आदि कार्य किये जाते हैं । अन्य तीन ( हेमन्त, ग्रीष्म और वर्षा ) ऋतुएं अति शीत, अति गरमी और अति वर्षा वाली होने से शरीर के लिये दुःखदायक और ओषधियों का नाश करने वाली होती हैं । इसलिये इन ऋतुओं में वमन आदि उपाय नहीं किये जाते ।

तत्र हेमन्ते ह्यतिमात्रशीतोपहत्वाच्छरीरमसुखोपपन्नं भवत्यतिशीतवाताध्मातमतिदारुणीभूतमाबद्धदोषं च, भेषजं पुनः संशोधनार्थमुष्णस्वभावं शीतोपहतत्वान्मन्दवीर्यत्वमापद्यते, तस्मात्तयोः संयोगे संशोधनमयोगायोपापद्यते, शरीरमपि च वातोपद्रवाय ।

इनमें से हेमन्त ऋतु में अधिक शीत होने के कारण शरीर को सुख नहीं मिलता । अति शीत और अति वायु से शरीर विक्षुब्ध, अति कठोर और बहुत भारी दोष युक्त एवं अतिस्तब्ध दोष वाला होजाता है । उष्ण स्वभाव वाली संशोधनकारी औषध भी शीत के अधिक होने से हीनवीर्य रहती है । इसलिये इस अवस्था में शरीर और औषध का संयोग अयोग अर्थात् अनुचित रहता है । शरीर में भी प्रायः वायु के उपद्रव होने लगते हैं ।

ग्रीष्मे पुनर्भूशोष्णोपहतत्वाच्छरीरमसुखोपपन्नं भवत्युष्णवातात्पाध्मातमतिशिथिलमत्यन्तप्रविलीनदोषं, भेषजं पुनः संशोधनार्थमुष्णस्वभावमुष्णानुगमनात्तीक्ष्णतरत्वमापद्यते, तस्मात्तयोः संयोगे संशोधनमतियोगायोपापद्यते, शरीरमपि पिपासोपद्रवाय ।

ग्रीष्म ऋतु में गरमी के अधिक होने से शरीर को सुख नहीं मिलता । इसलिये उष्ण वायु और उष्ण धूप से शरीर फूल जाता अति शिथिल तथा



गरमी के कारण दोष बहुत अधिक छिपे ( घुले ) रहते हैं। संशोधन के लिये जो औषध दी जाती है, उसका स्वभाव उष्ण होता है। यह उष्ण स्वभाव की औषध सूर्य की किरणों के योग से अति उष्ण होकर अति तीक्ष्ण होजाती है। इसलिये इस अवस्था में शरीर और औषध का संयोग 'अतियोग' होजाता है। शरीर में भी प्यास के उपद्रव होने लगते हैं।

वर्षासु तु मेघजालावतते गूढार्कचन्द्रतारे धाराकुले वियति भ्रमौ पङ्कजलपटलसंवृतायामत्यर्थोपक्लिन्नशरीरेषु भूतेषु विहतस्वभावेषु च क्लेबलेष्वौषधग्रामेषु तोयतोयदानुगतमारुतसंसर्गाद् गुरुप्रवृत्तीनि वमनादीनि भवन्ति, गुरुसमुत्थानानि च शरीराणि । तस्माद्दमनादीनां निवृत्तिर्विधीयते वर्षाभागान्तेष्वृतुषु न चेदात्ययिकं कर्म, आत्ययिके पुनः कर्मणि काममृतुं विकल्प्य कृत्रिमगुणोपधानेन यथर्तुगुणविपरीतेन भैषज्यं संयोगसंस्कारप्रमाणविकल्पेनोपपाद्य प्रमाणवीर्यसमं कृत्वा ततः प्रयोजयेदुत्तमेन यत्नेनावहितः ॥ १२७ ॥

वर्षा ऋतु में आकाश बादलों से भरा रहता है, सूर्य, चन्द्रमा और तारे छिपे रहते हैं। इस समय आकाश से पानी बरसता है, भूमि कीचड़ से भरी होती है। प्राणियों का शरीर अत्यन्त क्लिन्न ( आर्द्र ) होता है। इसलिये स्वाभाविक गुण घट जाता है। सम्पूर्ण ओषधियों में जल, बादल और इनसे मिली वायु का संसर्ग होने से रस, वीर्य आदि का नाश होजाता है। इसलिये वमन आदि गुरु कार्यों को ये ओषधियाँ नहीं कर सकती। इस ऋतु में जो रोग शरीर में होते हैं, उनका निदान महान् होता है। इसलिये हेमन्त, ग्रीष्म और वर्षा में वमन आदि कार्यों का निषेध किया जाता है।

या हेमन्त आदि कार्य करना आवश्यक ( अनिवार्य ) ही हो तो हेमन्त आदि ऋतुओं में भी ऋतु के विपरीत कृत्रिम ऋतु ( हेमन्त में गर्भगृह आदि, ग्रीष्म में धारागृह आदि ) बनाकर, भेषज को संयोग संस्कार के अनुसार तीक्ष्ण या मृदु वीर्य करके पूर्ण सावधानी के साथ

प्रयोग करे जिससे हेमन्त में अयोग और ग्रीष्म में अतियोग न हो ।

आतुरावस्थास्वपि तु कार्याकार्यं प्रति कालाकालसंज्ञा । तद्यथा  
अस्यामवस्थायामस्य भेषजस्याकालः कालः पुनरन्यस्येति, एतदपि हि  
भवत्यवस्थाविशेषेण, तस्मादातुरावस्थास्वपि हि कालाकालसंज्ञा ।  
तस्य परीक्षा मुहुर्मुहुरातुरस्य सर्वावस्थाविशेषावेक्षणं यथावद्भेषज-  
प्रयोगार्थं, नद्यतिपतितकालमप्राप्तकालं वा भेषजमुपयुज्यमानं यौगिकं  
भवति । कालो हि भेषज्यप्रयोगपर्याप्तिमभिनिर्वर्तयति ॥ १२७ ॥

रोगी की अवस्था में भी कार्य एवं अकार्य को देखकर काल और  
अकाल कहा जाता है । जैसे—इस अवस्था में इस औषध का काल नहीं  
है और इस अन्य औषध का समय है । ( यथा—ज्वर के छः दिन  
बीतने पर औषध देनी चाहिये यह औषध का काल है ) । यह औषध देने  
का समय नहीं है ( जैसे नव ज्वर में कषाय का देना अकाल है । ) यह  
भी अवस्था भेद से ऐसा होता है । इसलिये रोगी की अवस्था में भी  
'काल अकाल' होता है । इसकी परीक्षा रोगी की सब अवस्थाओं को बार-  
बार देखकर उचित रीति से औषध देने के लिये करनी चाहिये । क्योंकि  
समय के बीतने पर अथवा समय से पूर्व दी हुई औषध फलदायक नहीं  
होती । उचित काल ही औषध प्रयोग को सफल करता है ।

प्रवृत्तिस्तु प्रतिकर्मसमारम्भः । तस्य लक्षणं—भिषगातुरौषधपरि-  
चारकाणां क्रियासमायोगः ॥ १२८ ॥

प्रवृत्ति—चिकित्सा कर्म का प्रारम्भ 'प्रवृत्ति' है । भिषग्, औषध,  
रोगी और परिचारक इन चारों का मिलकर क्रिया आरम्भ करना इसका  
लक्षण है ।

उपायः पुनर्भिषगादीनां सौष्ठवमभिविधानं च सम्यक् । तस्य  
लक्षणं—भिषगादीनां यथोक्तगुणसंबन्धेशकालप्रमाणसात्म्यक्रिया-  
दिभिश्च सिद्धिकारणैः सम्यगुपपादितस्यौषधस्यावचारणमिति ॥ १२९ ॥  
एवमेते दश परीक्ष्यविशेषाः पृथक्पृथक् परीक्षितव्या भवन्ति ॥

उपाय—भिषग्, औषध, रोगी और परिचारक इन चारों का यथोक्त उत्तम गुण वाला होना एवं देश काल की अपेक्षा से इनका एकत्र होना है। खुड्गाक-चतुष्पाद अध्याय में कहे अपने-अपने गुणों से युक्त होकर, देश, काल, प्रमाण, सात्म्य और क्रिया आदि सफलता देने वाले कारणों से विचार कर भली प्रकार दी हुई औषध का प्रयोग ही उपाय का लक्षण है।

इस विधि से कारण आदि उस परीक्ष्य विषयों की पृथक् २ परीक्षा करनी चाहिये।

परीक्षायास्तु खलु प्रयोजनं प्रतिपत्तिज्ञानं । प्रतिपत्तिर्नाम—यो विकारो यथा प्रतिपत्तव्यस्तस्य तथाऽनुष्ठानज्ञानम् ॥ १३१ ॥

परीक्षा का प्रयोजन—परीक्षा का प्रयोजन 'प्रतिपत्ति' है अर्थात् जो विकार जिस प्रकार से जानना चाहिये और जिस उपाय से चिकित्सा करनी चाहिये, उस रोग की वैसी चिकित्सा का ज्ञान करना 'प्रतिपत्ति' है।

यत्र तु खलु वमनादीनां प्रवृत्तिर्यत्र च निवृत्तिस्तद्व्यासतः सिद्धिपूर्त्तरकालमुपदेक्ष्यते सर्वम् । प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षणसंयोगे तु खलु गुरुलाघवं संप्रधार्य सम्यग्ध्यवस्येदन्वतरनिष्ठायाम् । सन्ति हि व्याधयः शास्त्रेषूत्सर्गापवादैरुपक्रमं प्रति निर्दिष्टाः । तस्माद् गुरुलाघवं संप्रधार्य सम्यग्ध्यवस्येदित्युक्तम् ॥ १३२ ॥

जिन रोगियों को वमन देना चाहिये और जिनको वमन आदि नहीं देना चाहिये, इन सबको पृथक् पृथक् आगे सिद्धि स्थान में कहेंगे।

यदि एक ही पुरुष में वमन आदि कार्यों की प्रवृत्ति ( देने ) और निवृत्ति ( न देने ) दोनों कार्यों के लक्षण हों तब रोगों में गुरुता और लघुता भली प्रकार देख कर एक कार्य का निश्चय करना चाहिये, प्रवृत्ति और निवृत्ति के लक्षणों में से जिसके लक्षण गुरु हो वह कार्य करना चाहिये। दूसरे लघु लक्षणों वाले कार्य को छोड़ देना चाहिये। क्योंकि शास्त्रों में ऐसे भी रोग हैं, जिनकी चिकित्सा विधि और निषेध रूप से कही है। शास्त्र में उपक्रम की प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही कही हैं। इनमें से एक कार्य का निश्चय गुरु, लघु देखकर करना चाहिये।

यानि तु खलु वमनादिषु भेषजद्रव्याण्युपयोगं गच्छन्ति तान्यनुव्याख्यास्यन्ते । तद्यथा—फलजीमूतकेश्वाकुधामार्गवकुटजकृतवेधनफलानि, फलजीमूतकेश्वाकुधामार्गवपत्रपुष्पाणि, आरग्वधवृक्षकमदनस्वादुकण्टकपाठापाटलाशाङ्गेष्टामूर्वासप्तपर्णनक्तमालपिचुमर्दपटोलसुषवीगुडूचीचित्रकसोमवलकद्वीपीशिभ्रुमूलकषायैश्च, मधुमधूककोविदारकर्बुदारनोपनिचुलबिम्बिशणपुष्पीसदापुष्पीप्रत्यक्पुष्पीकषायैश्च, एलाहरेणुप्रियंगुपृथ्वीकाकुस्तुम्बुरुतगरनलदहीवेरतालीशगोपीकषायैश्च, इक्षुकाण्डेक्ष्वक्षुवालिकादर्भपोटगलकालंकृतकषायैश्च, सुमनासौमनस्यायनीहरिद्रादारुहरिद्रावृश्चीरपुनर्नवामहासहाक्षुद्रसहाकषायैश्च, शालमलिशालमलिकभद्रपर्येलापर्युपोदिकोद्दालकधन्वनराजादनोपचित्रागोपीशृङ्गाटिकाकषायैश्च, पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकशृङ्गवेरसर्पपफाणितक्षीरक्षारलवणोदकैश्च, यथालाभं यथेष्टं वाऽप्युपसंस्कृत्य वर्तिक्रियाचूर्णावलेहस्त्रेहकषायमांसरसयवागूयूषकाम्बलिकक्षीरोपधेयान्मोदकानन्यांश्च योगान् विविधाननुविधाय यथाहं वमनार्हाय दद्याद्विधिवद्वमनमिति कल्पसंग्रहो वमनद्रव्याणाम् । कल्पस्त्वेषां विस्तरेणोत्तरकालमुपदेश्यते ॥ १३३ ॥

वमनोपयोगी द्रव्यः—वमन आदि कार्यों में जो औषध द्रव्य काम में आते हैं, उनका वर्णन करते हैं । जैसे—वमन द्रव्य फल (मदन फल) जीमूत (तुरई), इक्ष्वाकु (कड़वी तुरई), धामार्गव (कोपातकी), कुटज (कुड़ा), कृतवेधन (तुरई) इनके फल लेने चाहिये । फल, जीमूत, ईक्ष्वाकु, धामार्गव इनके पत्ते और फूल । अमलतास, कुड़ा मैनफल, विकङ्कत, पाठा, पाटला, गुञ्जा, मूर्वा, सतवन, नाटाकरञ्ज, नीम, परवल, करेला, गिलोय, चीता, खैर, शतावरी, कंठरी (छोटी), शोभाजन इनकी जड़ों का कषाय बना कर देवे । महुवा, मुलहठी, सफेद कचनार, लाल कचनार, नीम, अम्लवेतस, विम्बी, घण्टारव, लाल आक, अपामार्ग इनका कषाय प्रयोग करना चाहिये । बड़ी इलायची, रेणुका (मेथी के बीज), फूल

प्रियंगू, छोटी इलायची, धनिया, तगर, जटामांसी, खस, तालीशपत्र, उशीर, नेत्रवाला इनके कषाय का प्रयोग करना चाहिये । गन्ना, खागड़िका कुश, होगल, कसौंदी, तगर इनके कषाय को देवे । चमेली, चमेली की कली, हल्दी, दारुहल्दी, श्वेत पुनर्नवा, लाल पुनर्नवा, माषपर्णी, मूंगपर्णी इनका कषाय देवे । मिम्वल, रोहेंडा, भादाली, रास्ना, कलम्बी, बहुवार, घामन, क्षीरणी वृक्ष, पृश्नपर्णी ( अथवा दन्ती ), सारिवा, सिघाड़ा इनका कषाय देवे । पिप्पली, पिप्पलीमूल, चविका, चीता, सोंठ, सरसों, फाणित ( रात्र ), दूध, क्षार और नमक इनका कषाय देना चाहिये । अथवा इच्छा के अनुसार, दोष दूष्य की अपेक्षा से प्रयोजनानुसार वर्त्ति, चूर्ण, अवलेह, घी, तैल आदि, कषाय, मांस रस, यवागु ( लप्सी ), यूष, काम्बलिक, ॐ दूध, इनको मिलाकर बनाये लड्डू तथा अन्य खाद्य पदार्थ तैयार करके वमन के योग्य व्यक्ति को वमनविधि से खाने के लिये देना चाहिये । यह वमन द्रव्यो का कल्प संक्षेप में कह दिया है । वमन द्रव्यों के कल्प को पीछे कल्पस्थान में विस्तार से कहेंगे ।

विरेचनद्रव्याणि तु श्यामानिवृच्चतुरंगुलतिल्वकमहावृत्तसप्तला-  
शङ्खिनीदन्तीद्रवन्तीनां क्षीरमूलत्वक्पत्रपुष्पफलानि यथायोगं तैस्तैः  
क्षीरमूलत्वक्पत्रफलैर्विक्लिप्ताविक्लिप्तैरजगन्धाश्वगन्धाजशृङ्गीक्षीरिणी-  
नीलिनीक्षीतककषायैश्च, प्रकीर्योदकीर्यामसूरविदलाकम्पिलकविडंग-  
गवाक्षीकषायैश्च, पीलुपियालमृद्धीकाकाशमर्यपरूषकवदरदाडिमामल-  
कहरीतकीविभीतकवृश्चीरपुनर्नवाविदारिगन्धादिकषायैश्च, शीघुसु-  
रासौत्रोरकतुपोदकमैरंयमेदकमदिरामधुमधूलकधान्याम्लकुत्रलवदर-  
खर्जूरकर्कन्धुसीधुभिश्च, द्रविदधिमण्डोदश्विद्धिश्च, गोमहिष्यजावी-  
नां च क्षीरमूत्रैर्यथालाभं यथेष्ट वाऽप्युपसंस्कृत्य वर्तिक्रियाचूर्णामव-

ॐ काम्बलिक यूष का लक्षण—

'पिशितेन रसस्तत्र यूषो धान्यै खडः फलैः ।

मूलैश्च तिलकल्काम्लप्रायः काम्बलिकः स्मृतः ॥ अष्टांग संग्रह । सूत्रस्थान ॥

लेहस्त्रेहकषायमांसरसयूषकाम्बलिकयवागूचीरोपधेयान्मोदकानन्यां-  
श्च भक्ष्यप्रकारान् विविधांश्च योगाननुविधाय यथार्हं । विरेचनार्हाय  
दद्याद्विरेचनमिति कल्पसंग्रहो विरेचनद्रव्याणाम् । कल्पस्त्वेषां विस्तार-  
रेण यथावदुत्तरकालमुपदेक्ष्यते ॥ १३४ ॥

विरेचन द्रव्य—काली निशोथ, सफेद निशोथ, अमलतास, लोध,  
स्नुही, सातला, शंखपुष्पी, दन्ती, द्रवन्ती ( दन्ती का भेद ) इनके दूध,  
मूल, त्वचा, पत्ते, पुष्प और फूल ये छः विरेचनाश्रय द्रव्यों को मिला कर  
अथवा पृथक् पृथक् रूप से प्रयोग करना चाहिये । अजवायन, असगन्ध,  
मेदाशुद्धी, दूर्वा, नीलनी, मुलहठी, इनके कषाय कर देवे । प्रकीर्य और  
उदकीर्य ( दो प्रकार का करंज ), श्यामलता, कमीला, बायविडंग, इंद्रा-  
यण इनके कषाय का उपयोग करे । पीलु, पियाल, मुनक्का, गम्भारी,  
फालसा, बेर, अनारदाना, आवला, हरड़, बहेड़ा, श्वेत और लाल पुनर्नवा,  
विदारीगन्धा, शालपर्णी, पृश्निपर्णी, बृहती और छोटी कटेरी ( ह्रस्वपंचमूल )  
इनके कषाय का प्रयोग करना चाहिये । सीधु, सुरा, काजी, तुपोदक  
( धान्याम्ल ), मैरेय ( सुरा और आसव को मिलाकर तैयार की सुरा ),  
मेदक, मदिरा, मधु ( द्राक्षा-सुरा ), मधूलिका, धान्याम्ल, कुवल बदर  
और कर्कन्धु ( बेरों के भेद हैं ) और खजूर, दही, दही का मण्ड मस्तु,  
उदश्वित् ( दही में आधा पानी मिलाकर तैयार की छाछ ), गाय, भैंस,  
बकरी और भेड़ इनमें से जिसका मूत्र या दूध मिले उनसे बर्त्ति, चूर्ण,  
अवलेह, स्नेह, कषाय, मांस रस, यूष, काम्बलिक, यवागू, क्षीर तथा  
लड्डू और अन्य खाद्य पदार्थों को तैयार करके विरेचन के योग्य व्यक्ति को  
विरेचन विधि से खाने के लिये देना चाहिये । यह विरेचन द्रव्यों का  
संग्रह संक्षेप में कह दिया है । विस्तार से कल्पस्थान में कहेंगे ।

आस्थापनेषु तु भूयिष्ठकल्पानि द्रव्याणि यानि योगमुपयान्ति  
तेषु तेष्ववस्थान्तरेष्वातुराणां तानि द्रव्याणि नामतो विस्तरेणोपदि-  
श्यमानान्यपरिसंख्येयानि स्युरतिबहुत्वात्, इष्टश्चानतिसंज्ञेपविस्तरो-

पदेशस्तन्त्रे, इष्टं च केवलं ज्ञानं, तस्माद्रसत एव तान्यनुव्याख्या-  
स्यन्ते ॥ १२५ ॥

आस्थापन द्रव्यों में जो द्रव्य प्रायः रोगियों की अवस्था भेद से अनेक प्रकार से प्रयोग में आते हैं, वे औषध द्रव्य अधिक होने से एक एक का नाम कहने पर असंख्य हो जाते हैं । शास्त्र में न तो अधिक संक्षेप और न अधिक विस्तार होना चाहिये । इसलिये शास्त्र में सम्पूर्ण, सब बातों का ज्ञान ही अपेक्षित होता है । इसलिये आस्थापन द्रव्यों को यहां पर रस के द्वारा ( छः प्रकार से ) कहेंगे ।

रससंसर्गविकल्पविस्तरौ ह्येषामपरिसङ्घेयः, समवेतानां रसानामंशांशवलविकल्पातिवहुत्वात् । तस्माद् द्रव्याणां चैकदेशमुदाहरणार्थं रसेष्वनुविभज्य रसैकैकश्येन रसकैवल्येन च नामलक्षणार्थं षडास्थापनस्कन्धाः समूहरसतोऽनुविभज्य व्याख्यास्यन्ते । यत्तु षड्विधमास्थापनमेकरसमित्याचक्षते भिषजस्तद्वर्तमानं, संसृष्टरसभूयिष्ठत्वाद् द्रव्याणाम् । तस्मान्मधुराणि च मधुरप्रायाणि च मधुरविपाकानि च मधुरप्रभावाणि च मधुरस्कन्धे मधुराण्येव कृत्वोपदेक्ष्यन्ते तथेतराणि द्रव्याण्यपि । तद्यथा—जीवकर्षभकौ जीवन्तीवीरातामलकीकाकोली क्षीरकाकोलीभीरु मुद्गपर्णीमापपर्णीशालपर्णीपृश्निपर्यसनपर्णीमेढामहामेदादारुकर्कटशृङ्गी शृङ्गाटिका छिन्नरुहाच्छत्रातिच्छत्राश्रावणीमहाश्रावण्यलम्बुषासहदेवा विश्वदेवाशुक्लाक्षीरशुक्लावलातिवलाविदारी क्षीरवेदारी क्षुद्रसहामहासहर्ष्यगन्धाश्वगन्धापयस्यावृश्चीरपुनर्नवावृहती कण्टकारिकैरण्डमोरतश्चदंष्ट्रासंहर्षाशतावरीशतपुष्पामधूकपुष्पीयष्टिमधुलिका मृद्धीकाखर्जूरपरुषकात्मगुप्तापुष्करवीजकशेरुकराजकशेरुकारजादनकतककाशमर्यशीतपाक्योदनपाकीताल-खर्जूर मस्तकेश्विक्षुवालिकादर्भकुशकासशालिगुन्द्रेत्कटकशरमूलराजक्षवर्ष्यप्रोक्ता द्वारदाभारद्वाजीवनत्रपुष्यभीरुपत्रीहंसपादीकाकनासाकुलिङ्गाक्षीरवल्ली कपोतवल्लीगोपवल्लीमधुवह्लयः सोमवल्लीचेति ।

छः रस होने पर भी इनके परस्पर मिलने से बहुत विस्तार हो जाता है, जिससे कि ये असंख्य बन जाते हैं। एक दूसरे में मिले रसों के अंशांश बल की विकल्पना से असंख्य भेद हो जाते हैं। इसलिये आस्थापन द्रव्यों के उदाहरण मात्र के लिये मधुर आदि छः प्रकार के रसों में एक एक का विभाग करके नाम मात्र से कहेंगे। बुद्धिमान् मनुष्य न कहे हुए द्रव्यों को भी समझ सकेंगे। अतः रस के अनुसार छः प्रकार विभाग करके नाम और लक्षण दर्शाने के लिये छः आस्थापन स्कन्धो को समूह रसों के अनुसार विभाग करके कहेंगे।

वैद्य लोग छः प्रकार के आस्थापन स्कन्ध को शुद्ध एक रस वाला कहते हैं। यह बात अति दुर्लभ है। क्योंकि द्रव्यों में एक अनेक रसों का परस्पर संसर्ग रहता है। इसलिये जो द्रव्य मधुर रस (प्रायः करके) बहुल मधुर विपाक और मधुर प्रभाव वाले (अचिन्त्य शक्ति वाले हैं) उनके रसान्तर होने पर भी मधुर रस की प्रधानता होने से मधुर समझकर इस मधुर स्कन्ध में ही उपदेश करेंगे। इसी प्रकार अम्ल आदि द्रव्यों की भी व्याख्या करेंगे।

यथा—जीवक, ऋषभक, जीवन्ती, (शाकविशेष), वीरा (आमलकी भेद), तामलकी (भूम्यामलकी), काकोली, क्षीरकाकोली, भीरु (सहस्र वीर्या, शतावरी का भेद), मूंगपर्णी, माषपर्णी, शालपर्णी, पृश्निपर्णी, शणपर्णी मेदा, महामेदा, देवदारु, काकड़ाशृङ्गी, सिंघाड़ा, छिन्नसहा, (गिलोय) छत्रा (छत्र, शिग्रुमुल), तालमखाना, अहिछत्रा (सौंफ का भेद), लाल कोकिल-लाक्ष, श्रावणी (रक्तमुण्डेरी), महाश्रावणी (श्वेतमुण्डेरी), अलंबुषा, सह-देवी, पीतपुष्पा (बला), विश्वदेवा लालफूलवाली, दण्डोत्पला, शुक्ला, (शर्करा), निशोथ, बला, अतिबला, विदारी, क्षीरविदारी, क्षुद्रसहा (ऐन्द्री) लालकुरवक, श्वेत कुरवक, भरासहा, कुजकतरणी, श्वेत कुरवक, ऋष्य-गन्धा, असगन्ध, संहर्षा (जन्तुकारी), गोखरू, बन्दाक, शतावरी, सौंफ, महुए का भेद, मुलहठी, मधुलिका, किसमिस, खजूर, फालसा, कौच, कमल के



बीज, कपेरु, राजकसेरु, पियाल, कतक, गम्भारी, शीतला, नील क्षिण्टी, ताल और खजूर, मुस्तका, गन्ना, ईक्षुवालिका, इर्भ, कुश, काश, लाल चावल, गुन्डा (शरभेद), इत्कट, शरमूल, राज सरसों, (पीली सरसों) ऋष्यप्रोक्ता वा शतावरी भेद कपिकच्छू (पीली अतिवला), द्वारदा, भारद्वाजी (जंगली कपास), जंगली खीरा, शतावरी भेद, (हंसपाटिका) हंस के पांव के समान आकार की लता, काकनासा, पेटिका, क्षीरलता, छोटी इलायची, अनन्त मूल, यष्टिमधु का भेद कपोतवल्ली (ब्राह्मी भेद) और सोमलता, गोपवल्ली और मधुवल्ली ।

एषामेवंविधानामन्येषां च मधुरवर्गपरिसंख्यातानामौषधद्रव्याणां छेद्यानि खण्डशश्छेदयित्वा भेद्यानि चाणुशो भेदयित्वा प्रक्षाल्य पानीयेन सुप्रक्षालितायां स्थाल्यां समावाप्य पयसाऽर्धोदकेनाभ्यासिच्य साधयेद्द्व्यां सततमुपघट्टयन्, तदुपयुक्तभूयिष्ठेऽम्भसि गतरसेष्वौषधेषु पयसि चानुपदग्धे स्थालीमपहत्य सुपरिपूतं पयः सुखोष्णं घृततैलवसामज्जलवणफाणितोपहितं वस्ति वातविकारिणे विधिज्ञो विधिवद्दद्यात्, शीतं तु मधुसर्पिर्भ्यामुपसंसृज्य पित्तविकारिणे विधिवद्दद्यादिति मधुरस्कन्धः ॥ १३६ ॥

इन अथवा अन्य इस प्रकार के मधुवर्ग में पठित औषध द्रव्यों में जो द्रव्य छेदन के योग्य हों, उनके टुकड़े २ करके और जो फोड़ने के योग्य हों, उनको फोड़कर छोटे २ टुकड़े बनाकर पानी से भली प्रकार धोकर थाली में रखना चाहिये । डेग ताम्बा, लोहा या मिट्टी की लेनी चाहिये । डेग को नीचे से लेप देना चाहिये । इस डेग में दूध में आधा पानी मिलाकर ढाल देना चाहिये । इस डेग को अग्नि पर रख कर कोमल आंच से धीरे धीरे पकाना चाहिये । पकाते समय कड़्ही से निरन्तर चलाते जाना चाहिये । जिस समय पानी लगभग सूख जाये, औषधियों में से रस निकल आये, दूध का जलना आरम्भ न हो, तब डेग को उतार कर वस्त्र से छान लेना चाहिये । फिर इस दूध को कुछ गरम रख कर घी, तेल आदि

चर्बी, मज्जा का मेल आदि मिला कर वातरोगी को विधिपूर्वक आस्थापन नामक बस्ति दे । दूध के ठण्डा होने पर घी या मधु मिला कर पित्त विकार के रोगी को विधिपूर्वक बस्ति दे । यह मधुर-स्कन्ध हुआ ।

आम्रात्रातकलकुचकरमर्दवृक्षाम्लाम्लवेतसकुबलबदरदाडिममा-  
तुलुङ्गगण्डीरामलकनन्दीतकशीतकतिन्तिडीकदन्तशठैरावतककोषा-  
म्रधन्वनानां फलानि, पत्राणि चाम्रातकाश्मन्तकचाङ्गेरीणां चतुर्वि-  
धानांचाम्लिकानां द्वयोः कोलयोश्चामशुष्कयोर्द्वयोश्चैव शुष्काम्लिकयो-  
र्ग्राम्यारण्ययोः, आसवद्रव्याणि च सुरासौवीरतुषोदकमैरेयमेदक-  
मदिरामधुशीघुशुक्तदधिदधिमण्डोदश्विद्वान्याम्लादीनि च ।

अम्लद्रव्यस्कन्ध—आम, आमड़ा, बड़हल ( डहु ), करौंदा, इमली, अम्लवेतस कुबल और बदर (बेर के भेद), अनार, बिजौरा, गण्डीर (सम-  
ष्ठिल, काकाम्र ) आंवला नन्दीतक ( तून ) जललोटक ( कालमेघ ) निम्बु, ऐरावतक ( नारंगी ), तिन्तिडीक (अमली) कच्चा आम और धन्वन (धामन) दन्तशठ(कैथ) के फल, आम्रातक, अश्मन्तक (कचनार का भेद) और चांगेरी (शाक) इनके पत्ते, चारों प्रकार का इमली, शुष्क आम, दोनों प्रकार के बेर, चार प्रकार की इमली, ग्राम्य और जंगली शुष्क और आर्द्र भेद से चार प्रकार की । इनके पत्ते, आसव द्रव्य, सुरा, सौवीरक, तुषोदक, मेदक, मदिरा, मधु, सीधु, शुक्त, दही, मस्तु, उदश्वित्, धान्याम्ल आदि ।

एषामेवंविधानांचान्येषांचाम्लवर्गपरिसंख्यातानामौषधद्रव्याणां  
छेद्यानि खण्डशश्छेद्यित्वा भेद्यानि चाणुशो भेद्यित्वा द्रवैः स्थिरा-  
ण्यवसिच्य साधयित्वापसंस्कृत्य यथावत्तैलवसामधुमज्जलवणाफाणि-  
तोपहितं सुखोष्णं बस्ति वातविकारिणे विधिज्ञो विधिवद्द्यादित्य-  
म्लस्कन्धः ॥ १३७ ॥

अम्लस्कन्ध में गिने इन और इन के समान अन्य औषध द्रव्यों के टुकड़े करके, छोटाछोटा चूर्ण बना कर सुरा-सौवीर आदि द्रवों से सिंचन करके डेग में रख कर पूर्व की भांति सिद्ध करना चाहिये । सिद्ध होने

पर इसमें तेल, वसा, मज्जा, नमक, राव मिलाकर थोड़ी गरम अवस्था में वातरोगी को विधिपूर्वक आस्थापन वस्ति देनी चाहिये । यह अम्लस्कन्ध है ।

सैन्धवसौवर्चलकालविड्पाक्यानूपकूप्यवालकैलमौलकसामुद्ररोमकोद्भिदौपरपाट्यकपांशुजानीत्येवंप्रकाराणि चान्यानि लवणवर्गपरिसंख्यातानि, एतान्यम्लोपहितान्युष्णोदकोपहितानि वा स्नेहवन्ति सुखोष्णं वस्ति वातविकारिणे विधिज्ञो विधिवद्द्यादिति लवणस्कन्धः ॥ १३८ ॥

लवणस्कन्ध—सैन्धव, सौवर्चल, कालविड्, पाक्य ( पाक द्वारा नैयार किया ), कूप्य ( कुप्पी के आकार में बना ), वालुकैल ( रेत में से बना ), मौलक ( मूलों से बना ), सामुद्रिक, रोमक ( साम्भर प्रदेश में उत्पन्न नमक ), औपर ( ऊपर भूमि में उत्पन्न ), पांशुज ( धूली से उत्पन्न ) पाट्यक ( लवण भेद ) इस प्रकार के तथा अन्य लवण वर्ग में गिने हुए, अम्लवर्ग से मिश्रित अथवा गरम पानी से मिश्रित घृत, तैल आदि जैहों से बनी सुखोष्ण वस्ति को वात रोगी के लिये विधिपूर्वक देना चाहिये । यह लवणस्कन्ध है ।

पिप्पलीपिप्पलीमूलहस्तिपिप्पलीचव्यचित्रकशृङ्गवेरमरिचाजमो-  
दार्द्रकविडङ्गकुस्तुम्बुरुपीलुतेजोवत्येलाकुष्ठभल्लातकास्थिहिङ्गुकिलिम-  
मूलकसर्पपलशुनकरञ्जशिग्रुकमधुरशिग्रुकखरपुष्पभूरत्णसुमुखसुर-  
सकुठेरकार्जकगण्डीर कालमालकपर्णासत्तवकफणिज्जकक्षारमूत्रपि-  
त्तानामेवविधानां चान्येषां कटुकवर्गपरिसंख्यातानामौषधद्रव्याणां  
द्वेषानि खण्डशश्लेद्यित्वा भेषानि चाणुशो भेद्यित्वा गोमूत्रेण सह  
साधयित्वापसंस्कृत्य यथावन्मधुतैललवणोपहितं सुखोष्णं वस्ति  
श्लेष्मविकारिणे विधिज्ञो विधिवद्द्यादिति कटुकस्कन्धः ॥ १३९ ॥

कटुक स्कन्ध—पिप्पली, पिप्पलीमूल, गजपिप्पली, चविका, चीता, सांड, मरिच, अजवावन, आर्द्रक (अदरक), वायविडग, हरा धनिया, पीलु,

तेजवला, इलायची, कूट, भिलावा, हींग, देवदारु, मूली, सरसों, लहसुन, करंज, शोभाजन, मीठा सहजन, खुरासानी, अजवायन, ( खरपुष्पा, वन तुलसी), कत्तूण, सुमुख, सुरस, अर्जक, काण्डीर, कालमालक, पर्णास, क्षवक, फणिञ्जक, (ये सब तुलसी के भेद हैं,) क्षार, मूत्र और पित्त ।

ये तथा अन्य कटुवर्ग में गिने हुए द्रव्यों को कूट पीस कर गोमूत्र के साथ पका कर, मधु, तेल और लवण से मिश्रित करके सुखोष्ण वस्ति को श्लेष्म रोगी के लिये विधिपूर्वक देना चाहिये । यह कटुकस्कन्ध है ।

चन्दननलदकृतमालनक्तमालनिम्बतुम्बुरुकुटजहरिद्रादारुहरिद्रामुस्तामूर्वाकिरातित्तककटुरोहिणीत्रायमाणाकारवेल्लिकाकरीरकरवीरकेवुककठिलकवृषमण्डूकपर्णीकर्कोटकवार्ताकुकर्कशकाकमाचीकाकोटुम्बरिकासुषव्यतिविषापटोलकुलकपाठागुडूचीवेत्राग्रवेतसविकङ्कतवकुलसोमवल्कसप्तपर्णसुमनाकार्वावलगुजवचातगरागुरुवालकोशीराणामेवंविधानां चान्येषां तिक्तवर्गपरिसंख्यातानामौषधद्रव्याणां छेद्यानि खण्डशश्छेदयित्वाभेद्यानि चाणुशो भेदयित्वा प्रक्षाल्य पानीयेनाभ्यासिच्य साधयित्वापसंस्कृत्य यथावन्मधुतैललवणोपहितं सुखोष्णं वस्ति श्लेष्मविकारिणे विधिवद्दद्यात् । शीतं तु मधुसर्पिर्भ्यामुपसंस्कृत्यपित्तविकारिणे विधिज्ञो विधिवद्दद्यादिति तिक्तस्कन्धः ॥१४०॥

तिक्तस्कन्ध—चन्दन, उशीर, कृतमाल, नाटा करञ्ज, निम्ब, तुम्बरु, कूडा, हल्दी, दारुहल्दी, मुस्ता, मूर्वा, चिरायता, कुटकी, त्रायमाणा, करीर, करवीर, पत्तूर, कर्कटक ( करेला ), वांसा, मण्डूकपर्णी, कांकरोला, बैंगन, परवल, काकोटुम्बर, मकोय, करेला, सुपवी ( जंगली करेला ), अतीस, परवल, कुणक ( परवल का भेद ), पाठा गिलोय, बेंत का अग्रभाग, अम्लवेतस, कुंव, मौलसरी, श्वेत खदिर, सप्तपर्ण, चमेली, आक, बाबची, त्रिफला, तगर, अगारु, उशीर, इन द्रव्यों को वा तिक्त वर्ग में गिने हुए अन्य औषध द्रव्यों को कूट पीस कर पानी से धो कर पानी के साथ पूर्ववत् विधि से पाक करना चाहिये । सिद्ध होने पर इसमें मधु, तेल और नमक

मिलाकर हलके गरमवस्ति को विधिपूर्वक श्लेष्म रोगी के लिये देना चाहिये । शीतल होने पर मधु और घी मिला कर पित्त रोगी को देनी चाहिये । यह तिक्तस्कन्ध है ।

प्रियंग्वनन्ताम्रास्थ्यम्बष्ठकीकट्वङ्गलोथ्रमोचरससमङ्गाधातकीपु-  
ष्पपद्मपद्मकेशरजम्बुवाम्रत्वक्प्लक्षवटकपीतनोटुम्बराश्वत्थभल्लातकाश्म-  
न्तकशिरोपपुष्पशिशपासोमवल्कतिन्दुकपियालवदरखदिरसप्तपर्णा-  
श्वकर्णस्यन्दनार्जुनासनारिमैदौलवालुकपरिपेलवकदम्बशहकीजिङ्गि-  
नीकाशकशेरुकराजकशेरुककटफलवंशपद्मकाशोकशालधवसर्जभूर्ज-  
शाणखरपुष्पापुरशमीमाचीकवरकतुङ्गाजकर्णाश्वकर्णस्फूर्जकविभीत-  
ककुम्भीपुष्करवीजविसमृणालतालखर्जूरतरुणानामेवंविधानां चा-  
न्येषा कपायवर्गपरिसंख्यातानामौषधद्रव्याणां छेद्यानि खण्डशश्छेद-  
यित्वा भेद्यानि चाणुशो भेदयित्वा प्रचाल्य पानीयेन सह साधयित्वो-  
पसंस्कृत्य यथावन्मधुनैललवणोपहितं सुखोष्णं वस्ति श्लेष्मविका-  
रिणे विधिज्ञो विधिवद्दद्यात् । शीतं तु मधुसर्पिर्भ्यामुपसंसृज्य  
पित्तविकारिणेविधिज्ञोविधिवद् दद्यादिति कपायस्कन्ध. ॥ १४१ ॥

कपाय स्कन्ध—फूल प्रियंगु, अनन्तमूल, आम की गुठली, पाठा,  
श्योनाक, लोध, मोचरस, मंजीठ, धाय के फूल, पद्म, कमल का केशर,  
जामुन, आम, पिलखन, बड़, कपीतन, गूलर, पीपल, भिलावा, पापाण-  
भेद, सिरस, शीशम, खैर, तिन्दुक, पियाल, वेर, खैर ( लाल ), सप्तपर्ण  
अश्वकर्ण (पलाश), तिनिग, अर्जुन, असन, विट्, खदिर, तेजवल, कैवर्त्तमुस्ता,  
कदम्य, शहकी, जिगण, कास, कपेरु, राजकसेरु, कायफल, वांस, पद्माख,  
अशोक, साल, धव, सर्जवृक्ष, भोजवल्कल, वृक्ष, तुलसी, शमी, देवदारु,  
बोरोक (धान्य, चावलों का भेद), पुंनाग, गाल भेद, बड़ा शाल, तिन्दुक,  
बहेड़ा, कायफल, कमल गट्टा, विस, मृणाल, ताड़, खजूर, धीकार इन  
या कपाय वर्ग में गिने हुए अन्य द्रव्यों को कूट पीस कर पानी से धो कर  
पानी के साथ पूर्ववत् पकाना चाहिये । सिद्ध होने पर मधु-तेल और लवण

मिलाकर विधिपूर्वक श्लेष्मा के रोगी को कत्रोष्ण बस्ति देनी चाहिये । शीतल होने पर घी और शहद मिला कर पित्तविकार के रोगी को देना चाहिये । यह कषाय स्कन्ध कह दिया ।

तत्र श्लोकाः । षड्वर्गाः परिसंख्याता य एते रसभेदतः ।

आस्थापनमभिप्रेत्य तान् विद्यात्सार्वयौगिकान् ॥ १४२ ॥

सर्वशो हि प्रणिहिता सर्वरोगेषु जानता ।

सर्वान् रोगान्नियच्छन्ति येभ्य आस्थापनं हितम् ॥ १४३ ॥

येषां/येषां प्रशान्त्यर्थं ये ये न परिकीर्तिताः ।

द्रव्यवर्गा विकाराणां तेषां ते परिकोपनाः ॥ १४४ ॥

इत्येते षडास्थापनस्कन्धा रसतोऽनुविभज्य व्याख्याताः ।

आस्थापन बस्ति के अभिप्राय से रसों के भेद से जो ये छः वर्ग कहे हैं, इन छः स्कन्धों को आस्थापन बस्ति से अच्छे होने वाले सब रोगों में लागू होने वाले समझने चाहिये । क्योंकि दोष, दूष्य, देश, काल, मात्रा आदि की अपेक्षा करके औषध-उपयोग को जानने वाले वैद्य द्वारा जिन रोगों के लिये आस्थापन विधि हितकारी है, उन रोगों में प्रयुक्त किये हुए यह छः वर्ग सब रोगों का शमन करते हैं । जिन जिन विकारों की शान्ति के लिये जो जो द्रव्यवर्ग नहीं कहे हैं, वे २ उन २ रोगों को कुपित करते हैं, शान्त नहीं करते । इस प्रकार से छः आस्थापन-स्कन्धों को रसों के अनुसार विभाग करके कह दिया है ।

तेभ्यो भिषग्बुद्धिमान् परिसंख्यातमपि यद्यद्द्रव्यमयौगिकं मन्येत तत्तदपकर्षयेत्, यद्यच्चानुक्तमपि यौगिकं वा मन्येत तत्तद् विदध्यात् । वर्गमपि वर्गोपसंसृजेदेकमेकेनानेकेन वा युक्तिं प्रमाणीकृत्य । प्रचरणमिव भिक्षकस्य बीजमिव कर्षकस्य सूत्रं बुद्धिमतामल्पमप्यनल्पज्ञानायतनं भवति । तस्माद् बुद्धिमतामूहापोहवितर्काः । मन्दबुद्धेस्तु यथोक्तानुगमनमेव श्रेयः । यथोक्तं हि मार्गमनुगच्छन् भिषक् संसाधयति वा कार्यमनतिमहत्त्वाद्वा निपातयत्यनतिह्रस्वत्वाद्वाहरणस्येति ॥ १४५ ॥

बुद्धिमान् वैद्य इन वर्गों में गिने हुए जिस द्रव्य को अयौगिक समझे उसको निकाल देवे और न कहे हुए जिस द्रव्य को यौगिक समझे उसको इनमें मिला लेवे । युक्ति के अनुसार दोष-द्रव्य की विवेचना करके एक वर्ग को एक, अथवा अनेक वर्गों के साथ मिला कर प्रयोग करे । भिक्षुक के विचरने के समान और किसान के बीज की तरह यह अल्प कथन भी बुद्धिमानों के लिये बड़ा ज्ञानप्रद है । क्योंकि बुद्धिमान् व्यक्ति ऊहापोह ( यह इस प्रकार है, यह इस प्रकार नहीं है, इस प्रकार के तर्क ) और वितर्क प्रमाण-युक्ति में कुशल होते हैं । मन्द बुद्धि वाले व्यक्ति को कथनानुसार ही कार्य करना श्रेयस्कर है । क्योंकि इस प्रकार का मन्द बुद्धि का सिपक्, उपदेश के न बहुत संक्षिप्त और न बहुत विस्तार होने से, बिना ऊहापोह के भी यथाक्त मार्ग का अनुसरण करता हुआ कार्य में सफलता प्राप्त कर लेता है ।

अतः परमनुवासनद्रव्याण्यनुव्याख्यास्यन्ते—अनुवासनं तु स्नेह एव । स्नेहस्तु द्विविधः—स्थावरो जङ्गमात्मकश्च । तत्र स्थावरात्मकः स्नेहस्तैलमतैलं च । तद् द्वयं तैलमेव कृत्वोपदिश्यते, सर्वतस्तैलप्राधान्यात् । जङ्गमात्मकस्तु—वसा, मज्जा, सर्पिरिति ॥ १४६ ॥

तेषां तु तैलवसामज्जसर्पिणां तु यथापूर्वं श्रेष्ठं वातश्लेष्मविकारेष्वनुवासनायेषु, यथात्तरं तु पित्तविकारेषु, सर्व एव वा सर्वविकारेष्वपि च योगमुपयान्ति संस्कारविशेषादिति ॥ १४७ ॥

इसके आगे अनुवासन द्रव्यों की व्याख्या करेंगे । अनुवासन का अर्थ स्नेह है । स्नेह दो प्रकार का है स्थावर और जंगम । इनमें स्थावर स्नेह दो प्रकार का है । जैसे—तैल ( तिलों से उत्पन्न हुआ ) और अतैल ( तिलों से न उत्पन्न हुआ ), इन दोनों को तैल शब्द से ही कह देते हैं । क्योंकि सब तैलों में तिल के तैल की ही प्रधानता है । जांगम स्नेह वसा, मज्जा और सर्पि ( घी ) है । तैल, वसा, मज्जा और घी इन में पूर्व की वस्तु उपागम वस्तु से श्रेष्ठ है अर्थात् घी से मज्जा, मज्जा से वसा और वसा से

तैल श्रेष्ठ है । यह नियम वात और कफ के विकारों के लिये है । पित्तजन्य विकारों में उत्तरोत्तर वस्तु ( तैल से वसा; वसा से मज्जा और मज्जा से घी ) श्रेष्ठ है । अथवा सब ही स्नेह सब रोगों में विशेष सस्कार से ( उस उस दोपहर द्रव्य के सहयोग से ) उपयुक्त बन जाते हैं ।

शिरोविरेचनद्रव्याणि पुनरपामार्गपिप्पलीमरिचविडङ्गशिघ्रु-  
शिरीषकुस्तुम्बुरुपिल्वजाज्यजमोदावार्ताकीपृथ्वीकैलाहरेणुकाफलानि  
च । सुमुखसुरसकुठेरकगण्डीरककालमालकपर्णासक्षवकफणिज्जकह-  
रिद्राशृङ्गवेरमूलकलशुनतर्कारीसर्षपपत्राणि च, अर्कालर्ककुष्ठनागद-  
न्तीवचाभार्गाश्वेताज्योतिष्मतीगवाचीगण्डीरपुष्पीवृश्चिकालीवयस्था  
तिविषामूलानि च, हरिद्राशृङ्गवेरमूलकलशुनकन्दाश्र, लोध्रमदनसप्त-  
पर्णानिम्बार्कपुष्पाणि च, देवदार्वगुरुसरलशलकीजिङ्गिन्यसनहिगुनि-  
र्यासाश्र, तेजोवतीवराङ्गुदीशोभाञ्जनवृहतीकण्टकारिकात्वचः ।

शिरोविरेचन द्रव्य—अपामार्ग, पिप्पली, मरिच, बायविडंग, शोभां-  
जन, सिरस, हरा धनिया, वेलगिरी, अजवायन, काला जीरा, वार्ताकी,  
बड़ी इलायची, छोटी इलायची, रेणुका इनके फल, सुमुख, सुरस, कुठेरक,  
गण्डीर, कालमालक, पर्णास, क्षवक, फणिज्जक ( तुलसी के भेद ), हल्दी,  
सोंठ, मूली, लहसुन, जयन्ती और सरसो इनके पत्ते । आक, लाल फूल  
का आक, कूठ, नागवला, वच, अपामार्ग, मालकंगनी, इन्द्रायण, रामठ,  
मधुरिका ( सोया ), वृश्चिकाली, ब्राह्मी, ओर अतीस इनके मूल । हल्दी,  
आर्द्रक, मूली और लहसुन इनके कन्द । लोध्र, मैनफल, सप्तपर्ण, नीम  
और आक इनके फूल । देवदारु, अगर, शलकी, सरलवृक्ष, जिगण, असन  
और हींग इनका गोंद, तेजवल, दालचीनी, इंगुदी, शोभांजन, बड़ी कटेरी  
और छोटी कटेरी इनकी छाल ।

इति शिरोविरेचनं सप्तविधं फलपत्रमूलकन्दपुष्पनिर्यासत्वगा-  
श्रयभेदात् । लवणकटुतिक्तकषायाणि चेन्द्रियोपशयानि तथाऽपरा-  
यनुक्तान्यपि द्रव्याणि यथायोगविहितानि शिरोविरेचनार्थमुपदि-  
श्यन्त इति ॥ १४८ ॥



शिरोविरेचन सात प्रकार का है—फल, पत्रे, मूल, कन्द, पुष्प, निर्यास ( गोंद ) और त्वचा भेद से । ॐ लवण, कटु और तिक्त एवं कपाय ये रस इन्द्रिय चक्षु आदि को शान्त करने वाले हैं; उपघातक नहीं हैं । इस प्रकार के अन्य यहाँ पर न गिने हुए, दोष-दूष्य की अपेक्षा से योग के लिये अनुकूल द्रव्यों का शिरोविरेचन कार्य में उपयोग कर लेना चाहिये ।

तत्र श्लोकाः । लक्षणाचार्यशिष्याणां परीक्षाकारणां च यत् ।

अध्येयाध्यापनविधिः संभाषाविधिरेव च ॥ १४९ ॥

पद्भिर्नानि पञ्चाशद्वादमार्गपदानि च ।

पदानि दश चान्यानि कारणादीनि तत्त्वतः ॥ १५० ॥

संप्रश्नश्च परीक्षादेर्नवको वमनादिषु ।

भिषग्जितीये रोगाणां विमाने संप्रदर्शितः ॥ १५१ ॥

बहुविधमिदमुक्तमर्थजातं बहुविधवाक्यविचित्रमर्थकान्तम् ।

बहुविधशुभशब्दसंधियुक्तं बहुविधवादनिपूदनं परेषाम् ॥ १५२ ॥

इसां मतिं बहुविधहेतुसंश्रयां विज्जिवात्परमतवादसूदनीम् ।

न सज्जतं परवचनावमर्दनैर्न शक्यते परवचनैश्च मर्दितुम् ॥ १५३ ॥

दोषादीनां तु भावानां सर्वेषामेव हेतुमत् ।

मानात्सम्यग्विमानानि निरुक्तानि विभागशः ॥ १५४ ॥

शास्त्र, आचार्य और शिष्य की परीक्षा, परीक्षा का कारण, अध्ययन और अध्यापन विधि, ( शिष्य आचार्य विधि ), तद्विद्य संभाषाविधि, चत्वारिंश वाद मार्ग, कारण, करण आदि दस पद, वमन आदि परीक्षार्थ, परीक्षा के प्रकार, तथा नौ प्रश्न इस रोग-भिषग्जितीय अध्याय में भगवान् आत्रेय ने पूर्णरूप से कह दिये हैं ।

बहुत प्रकार के वाक्यों से विचित्र, अर्थ में सुन्दर, बहुत प्रकार के

ॐ सुश्रुत में आठ प्रकार के शिरोविरेचन द्रव्य माने हैं । इनमें आठवाँ 'सार' गिना है ।

शुभ शब्दों की संधि-योजना से बनाये, दूसरों के बहुत प्रकार के वाद को हटाने वाले नाना तत्व यहां पर भगवान् आत्रेय ने कहे हैं ।

नाना प्रकार की युक्ति से युक्त, दूसरों के मत को निराकरण करने वाली, यहां पर कही इस बुद्धि को जान कर वैद्य, दूसरों के वचनों का विमर्दन करने में समर्थ होता है । दूसरों के वचनों से पराजित नहीं हो सकता है । इनके ज्ञान से वैद्य सभा में वाक्चातुर्य से दूसरों को परास्त करता है, उनसे पराजित नहीं होता ।

विमान स्थान की निरुक्ति—


दोष आदि सब भावों के युक्तिपूर्वक समस्त मान, एक एक करके कह दिये हैं । दोष आदि का विशेष रूप से मान अर्थात् ज्ञान 'विमान' है । इस विमान का यहां पर उपदेश किया है, इसलिये इसको विमान-स्थान कहते हैं ।

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते विमानस्थाने रोगभिषग्जितीय-  
विमानं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

इति विमानस्थानं समाप्तम् ।



# आर्य-साहित्य मण्डल लि० के प्रकाशित ग्रन्थ



चारों वेदों के सरल, सुबोध भाषा-भाष्य

( १ ) सामवेद भाषा-भाष्य

सामवेद भाषा-भाष्य छप कर तैयार होते ही सारे का सारा विक्रय हुआ और दूसरा संस्करण भी छप चुका । मू० ४) रु० ।

( २ ) अथर्ववेद भाषा-भाष्य ( चार खण्डों में )

इस भाषा-भाष्य को देखकर विदित हो जायगा कि तन्त्र मन्त्र की लीला केवल मनगढन्त है । अथर्ववेद में ब्रह्मविद्या, राजविद्या और मानव समाज की उत्थिति के लिये आवश्यक सभी उत्तम २ विद्याओं का बड़ी गम्भीरता और उत्तमता से उपदेश किया गया है । मू० प्रतिखण्ड ४) रु० ।

( ३ ) यजुर्वेद भाषा-भाष्य ( दो खण्डों में )

इस भाष्य में महर्षि दयानन्द की दर्शाई दिशा को मुख्यता दी गई है २ साथ शतपथ ब्राह्मण के पते भी दिये हैं । मू० प्रतिखण्ड ४) रु० ।

( ४ ) ऋग्वेद भाषा-भाष्य ( सात खण्डों में )

इसमें महर्षि दयानन्द की शैली से भाष्य किया गया है और जिन भागों पर महर्षि दयानन्द का भाष्य नहीं है, उन पर भी सरल भाष्य कर दिया गया है । मू० प्रतिखण्ड ४) रु० । पाच खण्ड छप गये, शेष छप रहे हैं ।

चारों वेद मूल ( गुटका साइज )

१-यजुर्वेद मूल

गीता के समान नित्य वेदों का पाठ करने के लिये बड़ी ही सुविधा की चीज है । सबसे प्रथम यजुर्वेद मूल गुटके के रूप में प्रकाशित किया गया है । सुनहरे अक्षरों से युक्त, सजिल्द मू० केवल ॥॥)

इसी प्रकार शेष वेदों को भी गुटका रूप में प्रकाशित किया जावेगा ।

आयुर्वेद-ग्रन्थमाला का प्रथम ग्रन्थ

चरक-संहिता प्रथम खण्ड

( सूत्र-निदान-विमानस्थानात्मक ) मू० ४) रु० ।

आयुर्वेद ग्रन्थमाला के १) रु० पेशगी देकर बने हुए स्थायी ग्राहकों को इस माला का प्रत्येक खण्ड पौने दाम में दिया जावेगा ।

चरक-संहिता ( द्वितीय खंड ) छप रहा है ।

नोट—यदि दूसरे खण्ड में चरक-संहिता समाप्त न हुई तो तृतीय खण्ड भी आवश्यकतानुसार होना सम्भव है ।

सुश्रुतसंहिता

भाषानुवाद सहित ( छप रही है )

( ८०० पृष्ठों के ३ खण्डों में समाप्त होगी )

प्रत्येक खण्ड का दाम ४) रु० स्थायी ग्राहकों को प्रत्येक खण्ड ३) रु० में । शल्य चिकित्सा के उपयोगी प्राचीन शस्त्रों के चित्र भी साथ दिये जावेंगे ।

भारतीय समाज शास्त्र

रचयिता—श्री पं० धर्मदेवजी विद्यावाचस्पति बंगलोर

भारत की प्राचीन सुवर्णीय आर्य्य सभ्यता, आर्य्य संस्कृति और वैदिक आदर्श समाजव्यवस्था भली भांति विदित हो जावेगी । मू० १) रु० ।

ऋषि दयानन्द का प्रामाणिक

जीवन-चरित्र दो खंडों में पूर्ण

ऋषि के अनन्य भक्त स्वर्गीय बाबू देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय द्वारा संगृहीत तथा आर्य्यसमाज के सुप्रसिद्ध नेता स्व० श्री बाबू घासीरामजी एम० ए०, एल-एल० बी० मेरठ द्वारा सम्पादित व अनुवादित ।

प्रतिखण्ड सजिल्द मू० ४) रु०, अजिल्द ३॥) रु० ।

पूज्य श्री १०८ नारायण स्वामी कृत

## कर्त्तव्य-दर्पण

प्रतिदिन के नित्य कर्म, प्रातः सायं के प्रार्थना मन्त्र, स्वस्तिवाचन, शान्तिपाठ, अर्थसहित, आर्य्य-समाज के मन्तव्य, आश्रम और वर्ण, संस्कार, महर्षि का आदर्श जीवन तथा अनेक भक्ति पूर्ण भजन-संकीर्तनों को संकलित किया है। जेवी-गुटका-साइज सू० ॥)

## आर्य्य-मन्तव्य-दर्पण

( ले०—श्री पं० ईश्वरदत्तजी मेधार्थी )

इस पुस्तक में महर्षि दयानन्द के लिखे आर्य्य-उद्देश्यों और मन्तव्यों की अनेकों प्रमाणों सहित सुबोध व्याख्या की है। इसके पाठ से बालकों, नवयुवकों और वेदप्रेमी वृद्धजनों के हृदय में उत्साह स्फूर्ति और वैदिक सिद्धान्तों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न-होती है। सू० ॥=)

## वेदोपदेश

रचयिता—आर्य्यसमाज के प्रसिद्ध विद्वान् श्री स्वामी वेदानन्दजी तीर्थ ।

इस पुस्तक में मातृभूमि के प्रति अपूर्व श्रद्धा और स्वराज्य का सत्यार्थ बतलाने वाले वेद के प्रसिद्ध सूक्तों को उनकी व्याख्या सहित सरल रूप में दिया गया है। यह ग्रन्थ 'वैदिक राष्ट्रगीता' कहाने योग्य है। सू० ॥)

## वेद में स्त्रियां

रचयिता—श्री पं० गणेशदत्तजी विद्यावाचस्पति शर्मा, गौड़

इस ग्रन्थ में गृहस्थ जीवन के हरएक पहलू पर वेदमन्त्रों द्वारा प्रकाश डाला गया है। यह पुस्तक आर्य्य-कन्या विद्यालयों की उच्च कक्षाओं में धर्मशिक्षा की पाठ्यपुस्तक होने योग्य है। सू० केवल ॥)

पता—आर्य्य साहित्य मण्डल लिमिटेड, अजमेर.

